



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 4

PART I—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 15, 2012/श्रावण 24, 1934

No. 3]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 15, 2012/SHRAVANA 24, 1934

रक्षा मंत्रालय

( सेना विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2012

सं. 10(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2012.—राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अवैतनिक लै./जे सी ओज को सेनानियमावली, 1987 के पैरा 177 के अधीन उनको अवैतनिक कप्तान व अवैतनिक लै. का पद 15 अगस्त, 2012 से सहर्ष प्रदान करते हैं, बश उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो और उनकी कार्यक्षमता संतोषजनक रहे :—

अवैतनिक कप्तान के रूप में1 होर्स

1	जेसी	237635 ए	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भूप सिंह
---	------	----------	-------------------------------	----------

4 होर्स

2	जेसी	239734 एफ	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह
---	------	-----------	-------------------------------	------------

81 आर्मड रेजीमेंट

3	जेसी	242624 एक्स	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	नरेश कुमार
---	------	-------------	--------------------------	------------

43 आर्मड रेजीमेंट

4	जेसी	241667 ए	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	पुरुषोत्तम
---	------	----------	--------------------------	------------

47 आर्मड रेजीमेंट

5	जेसी	239013 एक्स	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	छगन सिंह
---	------	-------------	-------------------------------	----------

6 आर्मड रेजीमेंट

6	जेसी	241908 पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	अनुपम लाल
---	------	-----------	--------------------------	-----------

7	जेसी	24336	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश कुमार
---	------	-------	--------------------------	------------

12 आर्मड रेजीमेंट

8	जेसी	238984 डब्ल्यू	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	अर्विन्द कुमार शर्मा
---	------	----------------	--------------------------	----------------------

आर्मड कोर

9	जेसी 238455 के	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक	लैं. सोहन लाल मंगोत्रा
<u>आर्टिलरी रेजीमेंट</u>			
10	जेसी 259791 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	विभूति भूसेन दाश
11	जेसी 266406 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	चत्तर सिंह
12	जेसी 258391 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दुलेस्वर सोनावल
13	जेसी 260938 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	इश्वर सिंह
14	जेसी 268815 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जरनैल सिंह
15	जेसी 258597 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कैलाश चन्द यादव
16	जेसी 256969 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	महाबुब आलम
17	जेसी 160793 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	नवल किशोर पाठक आर टी
18	जेसी 137666 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	प्रेम सागर प्रसाद शुक्ला आर टी
19	जेसी 259357 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राजेश कुमार
20	जेसी 259716 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रमेशन वी वी
21	जेसी 261427 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	संत कुमार
22	जेसी 259872 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुरिन्दर सिंह
23	जेसी 259852 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	वीरेंद्र सिंह
24	जेसी 271574 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	ब्रजेन च. बर्मन
25	जेसी 270023 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दशरथ सिंह यादवा
26	जेसी 269046 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	देव प्रसाद सिंह
27	जेसी 266800 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दिनेश कुमार भारद्वाज
28	जेसी 267960 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	जनार्दन प्रसाद मिश्रा
29	जेसी 269740 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम देव मीना
30	जेसी 270554 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम किशन यादव
31	जेसी 268447 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	आर सूर्यासनदर
32	जेसी 263678 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सालुंखे नारायण एकानाथ
33	जेसी 268169 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सर्बजीत सिंह
34	जेसी 272054 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुरेंद्र प्रसाद दुवेदी
35	जेसी 259475 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुरेश

सेना वायू सुरक्षा

36	जेसी 297465 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	के बी रामचन्द्रन
37	जेसी 297578 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कश्मीर सिंह
38	जेसी 299538 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अशोक तिवारी
39	जेसी 299702 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बिजेंद्र सिंह यादव
40	जेसी 299294 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	हकीकत सिंह
41	जेसी 300216 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	नरेश पाल सिंह

मद्रास इंजीनियर समूह

42	जेसी 306645	एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	अशोका कुमार के
43	जेसी 306442	एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बोजाराजन
44	जेसी 306590	वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	ब्रह्मानन्दम टी
45	जेसी 306635	एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सी पी कलाहिया
46	जेसी 306591	एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दलीप कुमार ओसी
47	जेसी 306634	एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गोपाल सी
48	जेसी 306424	एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जे मूर्ती
49	जेसी 306475	वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	पयादी गोविन्द राव
50	जेसी 306448	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	आर मलारवन्नान
51	जेसी 306434	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुभेन्द्रन पी
52	जेसी 306486	एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दासरी वेन्कईयाह
53	जेसी 307390	पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सिद्धेश्वर तिलागंजी

बंगाल इंजीनियर समूह

54	जेसी 327810	एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	आत्मा सिंह
55	जेसी 328351	के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दीपक कुमार थापा
56	जेसी 326392	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गोपाल सिंह
57	जेसी 328321	एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मान सिंह
58	जेसी 328314	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मनवर सिंह
59	जेसी 328322	पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	निर्मल सिंह
60	जेसी 330059	एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	तुफेल खान
61	जेसी 329574	एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	चंचल सिंह
62	जेसी 329555	एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	किशोरी लाल
63	जेसी 329549	पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	नवल किशोर
64	जेसी 329605	एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	प्रेम सिंह
65	जेसी 329552	पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	शारदा प्रसाद
66	जेसी 329730	एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	शिव कुमार सिंह

बोम्बे इंजीनियर समूह

67	जेसी 348661	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कप्तान सिंह
68	जेसी 348474	एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	पवार बाबू लक्ष्मन
69	जेसी 349753	पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	चंद्रा पाल प्रजापति
70	जेसी 350221	एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	नजीर मोहम्मद
71	जेसी 350266	एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	विराम सिंह

सिग्नल्स कोर

72	जेसी 369250	एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	चिन्थाकयाला कृष्णा मूर्ती
----	-------------	----	-------------------------------	---------------------------

73	जेसी 371215 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	धर्म पाल
74	जेसी 369388 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दिलबाग सिंह दलाल
75	जेसी 368982 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हरदयाल सिंह
76	जेसी 369390 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	पी जैकब
77	जेसी 371561 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम नारायण
78	जेसी 371335 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रोमेश चन्द
79	जेसी 369685 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	शैलेश कुमार राय
80	जेसी 370258 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	श्री कांत गौतम
81	जेसी 370082 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	शिवदासन एम
82	जेसी 371297 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुजान सिंह
83	जेसी 372265 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सूरम सिंह
84	जेसी 372120 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	वेद प्रकाश यादव
85	जेसी 375430 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मैनेजर प्रसाद
86	जेसी 372326 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुरेश कुमार चौहान

ब्रिगेड आफ गार्ड्स

87	जेसी 403195 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	नरेश चन्द
88	जेसी 402562 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम देव
89	जेसी 403464 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	आनंद बल्लभ

पैराकूट रेजीमेंट

90	जेसी 412460 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	धन्न राम जखर
91	जेसी 412214 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सर्बजीत कुमार
92	जेसी 412939 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अवतार सिंह

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेंट

93	जेसी 4119407 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बलबीर सिंह
94	जेसी 4118864 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	चंचल सिंह
95	जेसी 4118859 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गोपाल सिंह
96	जेसी 4119325 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जगदीश राम
97	जेसी 4120048 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम चंद्र

पंजाब रेजीमेंट

98	जेसी 428951 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सविंद्र सिंह
99	जेसी 429191 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुखदेव चौहान
100	जेसी 429427 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	जगजीत सिंह
101	जेसी 429769 एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	विजय कुमार शर्मा

मद्रास रेजीमेंट

102	जेसी 438676 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	ए जोसफ माईकल राज
103	जेसी 438341 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बालाकृष्णन अरिप्पा
104	जेसी 438755 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	डी. पौनयाह
105	जेसी 438198 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जैराल्द के.ए
106	जेसी 438556 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राजन पीके
107	जेसी 438779 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	याधव मूर्ती जी.

ग्रेनेडियर्स

108	जेसी 449258 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बजरंग लाल
109	जेसी 449331 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बाल राम
110	जेसी 450337 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अजय कुमार राठी
111	जेसी 450397 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रमेश चन्द
112	जेसी 449869 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम सिंह

मराठा लघु सेना

113	जेसी 458520 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जाधव हरिदास कोंदिराम
114	जेसी 458678 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	खन्डागाले मारुति नारायण, एसएम
115	जेसी 458809 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	पांडुरंग शामू देसे
116	जेसी 458464 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	ताटयासाब शंकर निदागुन्दे
117	जेसी 458645 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	संजीवन बालासाहेब वासमकर
118	जेसी 459556 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	विथोवा दत्तातरे पाटिल

राजपूताना राईफल्स

119	जेसी 468844 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मांगे राम
120	जेसी 469478 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अरुण कुमार सिंह
121	जेसी 469753 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बाछु सिंह
122	जेसी 469397 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	लाडु सिंह
123	जेसी 469905 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	प्रदीप सिंह
124	जेसी 470232 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राजिन्दर सिंह

राजपूत रेजीमेंट

125	जेसी 478593 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	अनीश कुमार
126	जेसी 478602 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम सिंह
127	जेसी 478975 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रण बहादुर सिंह
128	जेसी 478395 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुर्दसन भट्टाचारजी
129	जेसी 479728 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बिजेन्दर सिंह

130	जेसी 479626 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	देवेन्द्र सिंह तोमर
131	जेसी 480147 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मनोहर लाल
132	जेसी 479923 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सरदार सिंह

जाट रेजीमेंट

133	जेसी 488869 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	लेखराज सिंह
134	जेसी 489039 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुरेश कुमार
135	जेसी 489735 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दिलबाग सिंह
136	जेसी 489934 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	हरफूल जाट
137	जेसी 489520 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रतन सिंह, एसएम

सिख रेजीमेंट

138	जेसी 498703 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बहादुर सिंह
139	जेसी 498559 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मंगल सिंह
140	जेसी 498699 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुखविन्दर सिंह
141	जेसी 498801 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुरिन्दर सिंह
142	जेसी 499347 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	कुलविन्द्र सिंह

सिख लघु पैदल सेना

143	जेसी 508507 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हरदेव सिंह
144	जेसी 508706 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रणधीर सिंह नगाह
145	जेसी 508980 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बलविन्दर सिंह, एसएम

डोगरा रेजीमेंट

146	जेसी 519316 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हंस राज
147	जेसी 519694 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कमल सिंह, एसएम
148	जेसी 519514 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	शक्ती चन्द
149	जेसी 520633 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम लाल
150	जेसी 520680 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	तिलक राज

गढ़वाल राईफल्स

151	जेसी 528953 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	अर्जुन सिंह बिष्ट
152	जेसी 529002 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	पुशकर सिंह तोमर
153	जेसी 529028 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	तोता कषणन
154	जेसी 530636 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दलीप सिंह
155	जेसी 529831 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	कुंवर सिंह
156	जेसी 530413 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मनमोहन सिंह, एसएम

कुर्गोउ रेजीमेंट

157	जेसी 539216 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	भूपाल सिंह
158	जेसी 539223 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	देविंद्र सिंह
159	जेसी 539195 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	ग्रीस चंद्रा जोशी
160	जेसी 539252 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कृष्णा नन्द तिवारी
161	जेसी 539233 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राजेंद्रा सिंह अधिकारी
162	जेसी 539085 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रामेन्द्र सिंह
163	जेसी 539344 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुमित्रा नन्द जोशी
164	जेसी 539567 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	हुकम सिंह
165	जेसी 540130 एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	नन्द लाल यादव, एसएम
166	जेसी 539914 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रामवीर सिंह, एसएम

आसाम रेजीमेंट

167	जेसी 548434 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बिनोद तमुली
168	जेसी 548484 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	लौइखोमथंग
169	जेसी 548376 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	निरानचन्द जरमपूसा
170	जेसी 549378 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	एचबी दिलथू अनल
171	जेसी 549195 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुरेन कुमार सुब्बा

बिहार रेजीमेंट

172	जेसी 558964 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गोरी शंकर मिश्रा
173	जेसी 558984 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	लाल बहादुर सिंह
174	जेसी 559278 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सरत चंद्रा स्वेन

महार रेजीमेंट

175	जेसी 568531 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रंजीत सिंह
176	जेसी 568669 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	शेखरआन्नद
177	जेसी 568679 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुखपाल सिंह

जम्मु एवं कश्मीर राईफल्स

178	जेसी 579409 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बलबीर सिंह, एसएम
179	जेसी 579550 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मान सिंह
180	जेसी 579120 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	फूल सिंह यादव
181	जेसी 579467 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रंजीत जामवाल
182	जेसी 580130 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुभाष चंद्र

लध्दाख स्काउट

183	जेसी 588260 एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	क्षेवांग दोर्जे
-----	----------------	--------------------------	-----------------

184	जेसी 588242 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	थुंगजे ताशी, एसएम
<u>जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल सेना</u>			
185	जेसी 592466 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मोहम्मद खुशीद
186	जेसी 592537 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	ओम प्रकाश
187	जेसी 592528 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम लाल
188	जेसी 592710 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुरेश कुमार
189	जेसी 593282 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अशोक कुमार
190	जेसी 593073 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बाबू राम
191	जेसी 593188 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दर्शन लाल
192	जेसी 593355 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	गुलज़ार अहमद मीर
193	जेसी 593466 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	जवेद अहमद
194	जेसी 593082 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मोहम्मद इस्माइल भाट
195	जेसी 593374 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राज कुमार शर्मा, एसएम
196	जेसी 592579 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	शमशीर अहमद

1 गोरखा राईफल्स

197	जेसी 602370 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दूध बहादुर गुरंग
198	जेसी 602437 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	प्रेम बहादुर थापा, एसएम
199	जेसी 602425 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	पूर्णा बहादुर सरु
200	जेसी 602427 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राजेंद्र बहादुर थापा, वीआरसी

201	जेसी 602424 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रुद्रा बहादुर थापा
-----	----------------	-------------------------------	--------------------

3 गोरखा राईफल्स

202	जेसी 607711 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	तिका राम राना
-----	---------------	--------------------------	---------------

4 गोरखा राईफल्स

203	जेसी 612355 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	प्रेम काजी गुरंग, एसएम
204	जेसी 612576 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बीर बहादुर राना

5 गोरखा राईफल्स

205	जेसी 617509 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गोबरधन खत्री
206	जेसी 617461 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रछा प्रसाद श्रेष्ठा

8 गोरखा राईफल्स

207	जेसी 623300 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दल बीर पुन
-----	----------------	-------------------------------	------------



9 गोरखा राईफल्स

208 जेसी 629525 के सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. कृष्णा बहादुर अधिकारी  
11 गोरखा राईफल्स

209 जेसी 634267 वाइ सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. कालिन्द्रा प्रसाद लिम्बू एसएम

210 जेसी 634657 एफ सुबेदार एवं अवैतनिक लैं. तिलक बहादुर राय  
सेना सेवा कोर दक्षिण

211 जेसी 138179 एकस सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. घना नन्द रतूरी आर टी

212 जेसी 662965 एकस सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. मेघअद साहा

213 जेसी 641212 एकस सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. नरिंदर कुमार कटोच

214 जेसी 640790 ए सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. राधे श्याम प्रसाद सिन्हा

215 जेसी 640791 एच सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. रशपाल सिंह बघेल

216 जेसी 641827 एच सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. रवीन्द्र कुमार

217 जेसी 641211 पी सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. शेष पाल शर्मा

218 जेसी 662247 एफ सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. सुभाष सिंह

219 जेसी 640493 एम सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. थामस अनटोनी

220 जेसी 663359 एन सुबेदार एवं अवैतनिक लैं. अजय कुमार

सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

221 जेसी 680823 एच रिसालदार एवं अवैतनिक लैं. बिदेश्वर प्रसाद

222 जेसी 680941 डब्ल्यू रिसालदार एवं अवैतनिक लैं. नन्द किशोर राय

223 जेसी 680914 एम रिसालदार एवं अवैतनिक लैं. श्री राम

सेना चिकित्सा कोर

224 जेसी 694001 डब्ल्यू सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. बाल देव किशन

225 जेसी 694068 पी सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. चटन कुमार घोष

226 जेसी 692580 पी सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. जी. सुन्दरा मूर्ती

227 जेसी 694017 एफ सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. कामेश्वर सिंह

228 जेसी 694336 एन सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. मंगल चन्द

229 जेसी 694315 एकस सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. नगर सिंह

230 जेसी 694344 एम सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. रूप कुमार सिन्हा

231 जेसी 692586 डब्ल्यू सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. सैयद नफीसुल हासन आबिदी

232 जेसी 694390 एफ सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. उपेंद्र प्रसाद

सेना आयुध कोर

233 जेसी 164078 ए सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. अमर नन्द झा आर टी

234	जेसी 723650 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बुधी राम गोगोई
235	जेसी 723898 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	लक्ष्मी कांता बेहेरा
236	जेसी 725989 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मनोहर सिंह
237	जेसी 724946 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मूसा खान पठान
238	जेसी 723542 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	प्रदीप सिंह
239	जेसी 723276 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राजिन्दर सिंह
240	जेसी 723860 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम नरेश प्रसाद सिंह
241	जेसी 725990 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सूरत सिंह
242	जेसी 726624 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	पाटिल नारायण शंकर

**कोर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स**

243	जेसी 753200 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बिरेन्द्रा कुमार सिंह
244	जेसी 753352 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हरीकाजी गुरंग
245	जेसी 753548 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जगबीर सिंह चौधरी
246	जेसी 752405 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	नरेंद्र सिंह भंडारी
247	जेसी 753171 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	प्रभाकर मिश्रा
248	जेसी 753563 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रमेश चंद्रा
249	जेसी 753345 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम सुधार सिंह
250	जेसी 751419 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रविंदर सिंह
251	जेसी 757354 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	शामलाल पठानिया
252	जेसी 753161 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	श्याम नारायण तिवारी
253	जेसी 753239 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	एस मोहम्मद इब्राहिम
254	जेसी 752564 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	विनोद सिंह रावत
255	जेसी 753553 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	विरेन्द्र कुमार धीमान
256	जेसी 755965 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बृज मोहन
257	जेसी 762904 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	जशाधीर दास
258	जेसी 760196 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	प्रणय कृष्णा देब
259	जेसी 760370 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम राज मौर्या
260	जेसी 754949 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रूप चन्द्र
261	जेसी 762818 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	श्रीकांत चौबे
262	जेसी 760212 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	टीपीएल प्रसाद राव
263	जेसी 752083 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	वेद राम

**सेना शिक्षा कोर**

264	जेसी 802328 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रमेश शंकर
265	जेसी 802716 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अवधेश कुमार
266	जेसी 803294 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	भगवान सिंह रावत

रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर

267	जेसी 797476 ए	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं.	केदार प्रसाद सिंह
<u>आसुचना कोर</u>			
268	जेसी 810126 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रतन लाल एनईएन
269	जेसी 810732 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बलराज सिंह
<u>सेना पुलिस कोर</u>			
270	जेसी 818741 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कुंदन सिंह
271	जेसी 818732 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	तिलक राज मेहता
<u>पायोनियर कोर</u>			
272	जेसी 829221 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम पाल
<u>रक्षा सुरक्षा कोर</u>			
273	जेसी 840531 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	नायक विजयन
274	जेसी 842003 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अजीत सिंह
275	जेसी 842025 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम भरोस ठाकुर
<u>प्रदेशिक सेना</u>			
276	टिजे 3474 एल	सर्तेंद्र कुमार	
277	टिजे 4878 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बिनोदे बाबू सिंह
278	टिजे 4936 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दशरथ सिंह
279	टिजे 4268 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	एस पलानीमुथू

अवैतनिक लेफिटनेन्ट के रूप मेंराष्ट्रपति अंगरक्षक

1	जेसी 235031 एक्स	रिसालदार मेजर	कल्याण सिंह
<u>7 केवेलरी</u>			
2	जेसी 240436 एक्स	रिसालदार मेजर	चरण सिंह
<u>9 होर्स</u>			
3	जेसी 239293 डब्ल्यू	रिसालदार मेजर	प्यारे लाल
4	जेसी 239619 एफ	रिसालदार मेजर	सुरेन्द्रा सिंह
<u>14 होर्स</u>			
5	जेसी 239783 के	रिसालदार मेजर	रनबीर सिंह
<u>63 केवेलरी</u>			
6	जेसी 239751 एफ	रिसालदार मेजर	गोपाल सिंह पूनिया

7	जेसी 239996	एक्स	रिसालदार मेजर	राम स्वरूप सिंह
8	जेसी 241444	एच	रिसालदार	राकेश बहादुर सिंह
<b>45 केंवेलरी</b>				
9	जेसी 239019	वाइ	रिसालदार मेजर	चान्दईया गोड़
<b>65 आर्मड रेजीमेंट</b>				
10	जेसी 241952	वाइ	रिसालदार	घर राम
<b>69 आर्मड रेजीमेंट</b>				
11	जेसी 241867	डब्ल्यू	रिसालदार	ब्रिजेश कुमार
<b>82 आर्मड रेजीमेंट</b>				
12	जेसी 238961	पी	रिसालदार मेजर	करन सिंह
<b>85 आर्मड रेजीमेंट</b>				
13	जेसी 237789	एम	रिसालदार मेजर	रनबीर सिंह
<b>87 आर्मड रेजीमेंट</b>				
14	जेसी 239411	वाइ	रिसालदार मेजर	आतिश कुमार दास देव शर्मा
<b>89 आर्मड रेजीमेंट</b>				
15	जेसी 241880	ए	रिसालदार	गंगा प्रसाद पांडे
<b>41 आर्मड रेजीमेंट</b>				
16	जेसी 242146	वाइ	रिसालदार	ओमकार सिंह चौहान
17	जेसी 242186	ए	रिसालदार	शिव राम शर्मा
<b>46 आर्मड रेजीमेंट</b>				
18	जेसी 241772	डब्ल्यू	रिसालदार	प्रहलाद राम मीना
<b>6 आर्मड रेजीमेंट</b>				
19	जेसी 243020	वाइ	रिसालदार	राज कुमार
20	जेसी 243027	पी	रिसालदार	सतनाम सिंह
21	जेसी 243365	एम	रिसालदार	सुरेन्द्रन आर
22	जेसी 243485	एल	रिसालदार	विजय कुमार
23	जेसी 243142	पी	रिसालदार	विजय सिंह
<b>10 आर्मड रेजीमेंट</b>				
24	जेसी 237806	एफ	रिसालदार मेजर	खरादे जगनाथ पांडुरंग
<b>12 आर्मड रेजीमेंट</b>				
25	जेसी 240571	एल	रिसालदार	पूरन लाल पाली

**आर्मड कोर**

26	जेसी 238579 वाइ	रिसालदार मेजर	रमेश प्रताप सिंह
27	जेसी 239048 एन	रिसालदार मेजर	सतनाम सिंह बी
28	जेसी 241858 पी	रिसालदार	गंगा सिंह
29	जेसी 241942 पी	रिसालदार	पुलिन चंद्रा दास
30	जेसी 240976 डब्ल्यू	रिसालदार	आर नायक
31	जेसी 241619 ए	रिसालदार	तेज सिंह
32	जेसी 241621 एक्स	रिसालदार	विजय सिंह

**आर्टिलरी रेजीमेंट**

33	जेसी 262115 ए	सुबेदार मेजर	अजब सिंह
34	जेसी 258396 के	सुबेदार मेजर	अखिलेश कुमार
35	जेसी 261861 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अलेक्जेंडर मेथ्यू
36	जेसी 262447 के	सुबेदार मेजर	बलवान सिंह
37	जेसी 259478 वाइ	सुबेदार मेजर	गरजन सिंह यादव
38	जेसी 264629 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जी. एम
39	जेसी 263580 वाइ	सुबेदार मेजर	गोपा कुमार एस
40	जेसी 263239 एफ	सुबेदार मेजर	गुरदेव सिंह
41	जेसी 261194 एन	सुबेदार मेजर	गुरमेल सिंह
42	जेसी 262983 एम	सुबेदार मेजर	जी. सिंह
43	जेसी 262118 एन	सुबेदार मेजर	इश्वर दयाल शर्मा
44	जेसी 260718 एक्स	सुबेदार मेजर	जगदीश चंद्र
45	जेसी 262599 एल	सुबेदार मेजर	जगदीश चंद्र शर्मा
46	जेसी 262818 एफ	सुबेदार मेजर	जयपाल सिंह
47	जेसी 260641 ए	सुबेदार मेजर	जे गोविन्द राज
48	जेसी 261774 एच	सुबेदार मेजर	जोगिंदर सिंह
49	जेसी 263213 एम	सुबेदार मेजर	काली चरण डेका
50	जेसी 263439 एक्स	सुबेदार मेजर	लाल बहादुर सिंह
51	जेसी 260415 एच	सुबेदार मेजर	महेंद्र दुबे
52	जेसी 261581 एच	सुबेदार मेजर	मनी बालन पी
53	जेसी 260977 ए	सुबेदार मेजर	मान पाल
54	जेसी 263083 पी	सुबेदार मेजर	नगेन्द्रा सिंह
55	जेसी 262111 के	सुबेदार मेजर	प्रमोद कुमार पांडे
56	जेसी 263128 के	सुबेदार मेजर	प्रेम पाल
57	जेसी 261795 वाइ	सुबेदार मेजर	प्रद्युत कुमार दास
58	जेसी 264010 पी	सुबेदार मेजर	राजेंद्रा बहादुर सिंह
59	जेसी 142714 के	सुबेदार मेजर	राम अचल पांडे आर टी
60	जेसी 261507 एफ	सुबेदार मेजर	रंजीत सिंह
61	जेसी 261487 वाइ	सुबेदार मेजर	रतन लाल
62	जेसी 261658 ए	सुबेदार मेजर	आर पांडियन
63	जेसी 260031 एन	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार
64	जेसी 260053 एम	सुबेदार मेजर	सुरजीत सिंह
65	जेसी 260987 के	सुबेदार मेजर	वीजेन्द्र कुमार
66	जेसी 260979 एल	सुबेदार मेजर	वी त्रिपाठी

67	जेसी 268856 एन	सुबेदार	अमर सिंह
68	जेसी 261803 एम	सुबेदार	ए संदीपन भगवान राव
69	जेसी 272308 एन	सुबेदार	बलबीर सिंह
70	जेसी 271194 एफ	सुबेदार	बसंत सिंह
71	जेसी 269040 डब्ल्यू	सुबेदार	बी चिन्ना नरसिम्हलु
72	जेसी 270118 एच	सुबेदार	भोला नाथ
73	जेसी 271509 ए	सुबेदार	बिरेन्द्रा कुमार सिंह
74	जेसी 269389 एन	सुबेदार	बिशम्बर सिंह राना
75	जेसी 273685 डब्ल्यू	सुबेदार	चमन लाल
76	जेसी 160786 डब्ल्यू	सुबेदार	दर्शन सिंह आर टी
77	जेसी 269793 एच	सुबेदार	गनेश कुमार
78	जेसी 270142 वाइ	सुबेदार	ज्ञान सिंह
79	जेसी 270813 एक्स	सुबेदार	गोर्धन राम
80	जेसी 271713 वाइ	सुबेदार	गुरबक्श सिंह
81	जेसी 268410 वाइ	सुबेदार	गुरदेव सिंह
82	जेसी 269990 एल	सुबेदार	गुरनाम सिंह
83	जेसी 267317 एल	सुबेदार	हरीश चंद्रा जोशी
84	जेसी 267420 डब्ल्यू	सुबेदार	इंद्रजीत सिंह
85	जेसी 265828 डब्ल्यू	सुबेदार	जगदीश चन्द
86	जेसी 268152 के	सुबेदार	जय पाल सिंह
87	जेसी 271090 ए	सुबेदार	जानकर सिंह
88	जेसी 267542 ए	सुबेदार	कमलेश चंद्र
89	जेसी 268915 पी	सुबेदार	कमलेशवर प्रसाद
90	जेसी 265953 ए	सुबेदार	करमबीर
91	जेसी 263548 के	सुबेदार	कषान मोहन उपाध्याय
92	जेसी 266275 एक्स	सुबेदार	एल सुब्रमणि
93	जेसी 269645 एक्स	सुबेदार	महेंद्र सिंह यादव
94	जेसी 267388 एम	सुबेदार	मनोज कुमार आइ
95	जेसी 269903 एम	सुबेदार	मोहन सिंह
96	जेसी 272506 वाइ	सुबेदार	नानक सिंह
97	जेसी 269577 पी	सुबेदार	नारायण सिंह
98	जेसी 270287 के	सुबेदार	नरेंद्र सिंह
99	जेसी 271281 पी	सुबेदार	ओम प्रकाश
100	जेसी 268394 एम	सुबेदार	प्रसन्न पिल्लई वी
101	जेसी 274615 के	सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद शर्मा
102	जेसी 270633 पी	सुबेदार	राजेश कुमार
103	जेसी 270231 एक्स	सुबेदार	राजिन्दर चन्द
104	जेसी 271360 के	सुबेदार	राज कुमार
105	जेसी 272802 के	सुबेदार	रमा कांत बी
106	जेसी 267957 पी	सुबेदार	रामेश्वर
107	जेसी 267609 एन	सुबेदार	राम लाल
108	जेसी 267544 एल	सुबेदार	राम प्रकाश
109	जेसी 271453 वाइ	सुबेदार	रतनेश्वर सेकिआ
110	जेसी 267649 पी	सुबेदार	रतन सिंह

111	जेसी 269581	एक्स	सुबेदार	सागर सिंह
112	जेसी 269615	ए	सुबेदार	सालुंके तानाजी एन
113	जेसी 268481	ए	सुबेदार	सतबीर सिंह
114	जेसी 271135	पी	सुबेदार	सतवंत सिंह
115	जेसी 268474	के	सुबेदार	एस सिंह
116	जेसी 270779	एच	सुबेदार	सेवानंद यादव
117	जेसी 271484	वाइ	सुबेदार	शेख एस यासीन
118	जेसी 265791	ए	सुबेदार	शीश राम
119	जेसी 268688	ए	सुबेदार	शिव दयाल यादव
120	जेसी 269081	ए	सुबेदार	सूबे सिंह
121	जेसी 268624	पी	सुबेदार	सुभाष चन्द
122	जेसी 268382	एक्स	सुबेदार	सुभाष चन्द
123	जेसी 269375	एन	सुबेदार	सुखदेव सिंह
124	जेसी 269540	एन	सुबेदार	वी कुमार

### सेना वायू सुरक्षा

125	जेसी 296606	एच	सुबेदार मेजर	चंद्र प्रकाश
126	जेसी 297679	एफ	सुबेदार मेजर	गंगाधर टी
127	जेसी 297155	ए	सुबेदार मेजर	गुरमेल सिंह
128	जेसी 297453	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	के अराजन पी बी
129	जेसी 297825	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रमा शंकर शर्मा
130	जेसी 296405	के	सुबेदार मेजर	राम मेहर सिंह
131	जेसी 297581	एन	सुबेदार मेजर	सीता राम सामंत
132	जेसी 297121	एम	सुबेदार मेजर	उमेद सिंह
133	जेसी 299875	ए	सुबेदार	अखलेश कुमार पांडे
134	जेसी 299610	डब्ल्यू	सुबेदार	अर्जुन सिंह
135	जेसी 300105	एच	सुबेदार	बलबीर सिंह
136	जेसी 299511	एन	सुबेदार	ब्रम सिंह
137	जेसी 298791	ए	सुबेदार	धर्मवीर सिंह
138	जेसी 299865	डब्ल्यू	सुबेदार	किशोरी लाल
139	जेसी 299617	ए	सुबेदार	महातिम सिंह यादव
140	जेसी 299861	ए	सुबेदार	राधे श्याम मीना
141	जेसी 299885	के	सुबेदार	राम निवास
142	जेसी 300531	डब्ल्यू	सुबेदार	आर सीनिवासन
143	जेसी 299906	पी	सुबेदार	सभा सिंह
144	जेसी 299881	एन	सुबेदार	एस हनामन्त रामप्पा
145	जेसी 297251	पी	सुबेदार	एस मुरुगेसन
146	जेसी 298718	एफ	सुबेदार	सुनील कुमार
147	जेसी 299977	डब्ल्यू	सुबेदार	स्वर्ण सिंह
148	जेसी 300190	डब्ल्यू	सुबेदार	टी सिंह

### मद्रास इंजीनियर समूह

149	जेसी 307005	ए	सुबेदार मेजर	ए एंथोनी
150	जेसी 306778	एन	सुबेदार मेजर	अजीत गोपीनाथ

151	जेसी 306443 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	ए रोबर्ट
152	जेसी 306734 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दलजीत सिंह
153	जेसी 306477 के	सुबेदार मेजर	धनपाल
154	जेसी 306469 एल	सुबेदार मेजर	गोपीनाथन नायर पीके
155	जेसी 306861 एल	सुबेदार मेजर	कृष्णामूर्ती पी
156	जेसी 306618 एन	सुबेदार मेजर	कुमार एन
157	जेसी 306260 ए	सुबेदार मेजर	एल अच्युतन
158	जेसी 306833 वाइ	सुबेदार मेजर	मनी पी
159	जेसी 306596 ए	सुबेदार मेजर	आर एस
160	जेसी 306403 पी	सुबेदार मेजर	सतेरी केदारी पाटिल
161	जेसी 306458 वाइ	सुबेदार मेजर	सत्यन ओआर
162	जेसी 307108 वाइ	सुबेदार मेजर	श्रीनिवासन जी.
163	जेसी 306455 एल	सुबेदार मेजर	सुकुमारन नायर एस
164	जेसी 330241 एन	सुबेदार मेजर	विजय कुमार
165	जेसी 308736 ए	सुबेदार	ए अनुमाप्पन
166	जेसी 305967 एल	सुबेदार	अशोक कुमार
167	जेसी 308101 एफ	सुबेदार	छैंगप्पा वाईएन
168	जेसी 308358 एम	सुबेदार	डेविस के बी
169	जेसी 308694 वाइ	सुबेदार	दक्षिण मूर्ती
170	जेसी 309035 डब्ल्यू	सुबेदार	जयराजन के
171	जेसी 306782 डब्ल्यू	सुबेदार	लोगानाथन एस
172	जेसी 308576 एल	सुबेदार	एम मुल्ला
173	जेसी 308102 के	सुबेदार	मलप्पा एच
174	जेसी 308413 एक्स	सुबेदार	एम गणेशन
175	जेसी 308119 एक्स	सुबेदार	एम केशवन
176	जेसी 308314 पी	सुबेदार	मुरलीधरन एन
177	जेसी 308429 एच	सुबेदार	परमेश्वरन के.बी
178	जेसी 308111 एल	सुबेदार	पी जयराज
179	जेसी 308711 एन	सुबेदार	पी ए राजू
180	जेसी 308532 एन	सुबेदार	पी वेकटेशन
181	जेसी 307374 एक्स	सुबेदार	आर भास्कर रेडी
182	जेसी 308412 पी	सुबेदार	सजीवन डब्ल्यू
183	जेसी 308357 के	सुबेदार	एस एंथोनी जे
184	जेसी 308042 ए	सुबेदार	सारंगन के
185	जेसी 308103 एम	सुबेदार	सतारू धर्माशिव
186	जेसी 308431 ए	सुबेदार	सेकार एन
187	जेसी 308880 पी	सुबेदार	शेक एम
188	जेसी 308724 एल	सुबेदार	शिवदासन यू
189	जेसी 308572 पी	सुबेदार	एस तमिलारसन



190	जेसी 308043 एच	सुबेदार	टीआर सीनिवासन	
191	जेसी 308702 एम	सुबेदार	यू ई	
<b>बंगाल इंजीनियर समूह</b>				
192	जेसी 328182 एन	सुबेदार मेजर	आत्मा सिंह	
193	जेसी 325087 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बलजिन्दर सिंह	
194	जेसी 326542 ए	सुबेदार मेजर	बोस के	
195	जेसी 327884 ए	सुबेदार मेजर	दर्शन सिंह एस	
196	जेसी 326572 एक्स	सुबेदार मेजर	घान श्याम सिंह भाकुनी	
197	जेसी 327887 एन	सुबेदार मेजर	गोविंद सिंह	
198	जेसी 326526 एच	सुबेदार मेजर	गुरजंत सिंह	
199	जेसी 328378 एफ	सुबेदार मेजर	ऋदय नारायण सिंह	
200	जेसी 330090 ए	सुबेदार मेजर	इन्द्रा देव गिरि	
201	जेसी 327807 एल	सुबेदार मेजर	जगदीश चंद्र	
202	जेसी 328524 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जसबीर सिंह	
203	जेसी 327886 एल	सुबेदार मेजर	खेड़कर मुरलीधर राम राव	
204	जेसी 326973 एम	सुबेदार मेजर	खेम राज	
205	जेसी 328265 वाइ	सुबेदार मेजर	खुशाल सिंह	
206	जेसी 328377 वाइ	सुबेदार मेजर	मानवर सिंह	
207	जेसी 327739 एच	सुबेदार मेजर	पेरूमल पी	
208	जेसी 325599 एच	सुबेदार मेजर	प्राकराम सिंह यादव	
209	जेसी 328303 के	सुबेदार मेजर	प्रसांत कुमार पट्टा नायक	
210	जेसी 327780 वाइ	सुबेदार मेजर	रामचन्द्रन के	
211	जेसी 327562 ए	सुबेदार मेजर	सत्य नारायण राय	
212	जेसी 224824 एल	सुबेदार मेजर	शिव सहाय	
213	जेसी 328259 एल	सुबेदार मेजर	सुधींद्र नाथ बसाक	
214	जेसी 140994 के	सुबेदार मेजर	तिका प्रसाद बमरारा	आर टी
215	जेसी 326029 वाइ	सुबेदार मेजर	विद्या राम	
216	जेसी 329400 एन	सुबेदार	अमर बहादुर सिंह	
217	जेसी 329311 पी	सुबेदार	आनंद सिंह मेहता	
218	जेसी 329312 एक्स	सुबेदार	बाल कष्णन राम	
219	जेसी 162473 डब्ल्यू	सुबेदार	दिगम्बर प्रसाद थपलियाल	आर टी
220	जेसी 338098 एफ	सुबेदार	दीपक नाथ	
221	जेसी 329310 एम	सुबेदार	गिरीश चन्द्र जोशी	
222	जेसी 329307 एम	सुबेदार	कुंवर सिंह	
223	जेसी 338240 ए	सुबेदार	लखन लाल	
224	जेसी 329478 वाइ	सुबेदार	लाल चन्द्र सिंह	
225	जेसी 329994 एन	सुबेदार	लक्ष्मी कांत	
226	जेसी 329556 एल	सुबेदार	मोहम्मद एम रहमान	

227	जेसी 328098 एन	सुबेदार	नारायण सिंह
228	जेसी 329990 एक्स	सुबेदार	परमा राम
229	जेसी 329301 एल	सुबेदार	रमेश चंद्रा
230	जेसी 329991 ए	सुबेदार	आर यादव
231	जेसी 327927 के	सुबेदार	श्रीकांत मिश्रा

बोम्बे इंजीनियर समूह

232	जेसी 140997 एक्स	सुबेदार मेजर	ए त्रिपाठी	आर टी
233	जेसी 348189 वाइ	सुबेदार मेजर	अमीन चन्द	
234	जेसी 348938 के	सुबेदार मेजर	अमरीक सिंह	
235	जेसी 327429 एक्स	सुबेदार मेजर	अरुण कुमार सिंह	
236	जेसी 348751 एक्स	सुबेदार मेजर	चरण सिंह	
237	जेसी 349211 एल	सुबेदार मेजर	चरण सिंह	
238	जेसी 348841 वाइ	सुबेदार मेजर	गुरमेल सिंह	
239	जेसी 348849 एल	सुबेदार मेजर	हनीफ अहमद	
240	जेसी 348491 एक्स	सुबेदार मेजर	हरबंस सिंह	
241	जेसी 348519 एम	सुबेदार मेजर	जाधव पी दाराराम	
242	जेसी 348557 एच	सुबेदार मेजर	जसबीर सिंह	
243	जेसी 348757 वाइ	सुबेदार मेजर	जोगिंदर सिंह	
244	जेसी 348924 के	सुबेदार मेजर	कैलाश चन्द	
245	जेसी 348624 एच	सुबेदार मेजर	मोहित राजाराम	
246	जेसी 348471 के	सुबेदार मेजर	मोहम्मद जानूदीन	
247	जेसी 330016 वाइ	सुबेदार मेजर	नारायण सिंह	
248	जेसी 349041 एम	सुबेदार मेजर	पाटिल विश्वास राव गनपत राव	
249	जेसी 347970 एम	सुबेदार मेजर	राजेश कुमार तिवारी	
250	जेसी 348631 वाइ	सुबेदार मेजर	राम पाल	
251	जेसी 348308 के	सुबेदार मेजर	सत्य नारायण भाटी	
252	जेसी 348913 एक्स	सुबेदार मेजर	समसुधीन	
253	जेसी 348434 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	श्री निबास पांडे	
254	जेसी 160399 एफ	सुबेदार मेजर	सूर्या नाथ शुक्ला	आर टी
255	जेसी 348782 एक्स	सुबेदार मेजर	उमराव लाल सैनी	
256	जेसी 160401 एन	सुबेदार मेजर	वीरेंद्र शेखर	आर टी
257	जेसी 350371 एक्स	सुबेदार	अबाद मोहम्मद	
258	जेसी 350041 वाइ	सुबेदार	भूप सिंह	
259	जेसी 348159 एफ	सुबेदार	चदगी राम	
260	जेसी 350038 वाइ	सुबेदार	गायकवाड मारूति रामु	
261	जेसी 350449 एक्स	सुबेदार	गुरदेव सिंह	
262	जेसी 350310 ए	सुबेदार	महीमन सिंह थाप्पा	
263	जेसी 350477 के	सुबेदार	पाटिल वामन राव दिगम्बर राव	

264	जेसी 350478 एम	सुबेदार	सानस यशवन्त एम
265	जेसी 348427 ए	सुबेदार	एस सिंह
266	जेसी 350312 एल	सुबेदार	एस खान
267	जेसी 350393 डब्ल्यू	सुबेदार	सिंगारा सिंह
268	जेसी 350126 पी	सुबेदार	तरसेम सिंह

सिग्नल्स कोर

269	जेसी 371806 एच	सुबेदार मेजर	अनवर बेग
270	जेसी 371309 वाइ	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार
271	जेसी 371519 वाइ	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार
272	जेसी 371320 एक्स	सुबेदार मेजर	अशवनी कुमार शर्मा
273	जेसी 371636 के	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह
274	जेसी 371313 एफ	सुबेदार मेजर	दलजीत राय
275	जेसी 367926 के	सुबेदार मेजर	दया कृष्णा पांडे
276	जेसी 369243 पी	सुबेदार मेजर	देश राज
277	जेसी 373319 एफ	सुबेदार मेजर	गोपीमोहन्न वी
278	जेसी 367927 एम	सुबेदार मेजर	गुरनाम सिंह
279	जेसी 369543 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	हंसराज शर्मा
280	जेसी 369238 के	सुबेदार मेजर	हरी पाल सिंह
281	जेसी 369920 एफ	सुबेदार मेजर	जगन सिंह
282	जेसी 368541 वाइ	सुबेदार मेजर	जय राम ओझा
283	जेसी 371647 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जयन के एन
284	जेसी 371610 पी	सुबेदार मेजर	कैलाश चंद्रा घोष
285	जेसी 371512 पी	सुबेदार मेजर	कंचारला जयप्रकाश
286	जेसी 371211 एल	सुबेदार मेजर	कृष्णापाल सिंह मेहता
287	जेसी 367909 के	सुबेदार मेजर	कुलदीप सिंह
288	जेसी 370263 पी	सुबेदार मेजर	लोटन चंद्रा उपाध्याय
289	जेसी 367953 एन	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश
290	जेसी 371241 एच	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश
291	जेसी 372067 एन	सुबेदार मेजर	पलविंदर सिंह
292	जेसी 370845 पी	सुबेदार मेजर	प्यार चन्द
293	जेसी 367940 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रबींद्र सिंह
294	जेसी 369914 एन	सुबेदार मेजर	रबीन्द्र कुमार पटनायक
295	जेसी 367952 एल	सुबेदार मेजर	रघबीर सिंह वर्मा
296	जेसी 368984 ए	सुबेदार मेजर	राजपाल
297	जेसी 371210 एच	सुबेदार मेजर	राज सिंह
298	जेसी 368550 ए	सुबेदार मेजर	रमेश चंद्र चौपड़ा
299	जेसी 367951 एच	सुबेदार मेजर	रवि चन्द धर्वाल
300	जेसी 370264 एक्स	सुबेदार मेजर	सर्वजीत सिंह

301	जेसी 370837 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सतबीर सिंह
302	जेसी 367968 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार
303	जेसी 371439 एफ	सुबेदार मेजर	सुरिन्दर कुमार
304	जेसी 371334 एक्स	सुबेदार मेजर	सुशील कुमार शर्मा
305	जेसी 371905 एल	सुबेदार मेजर	वासुदेवन नायर एन
306	जेसी 370289 के	सुबेदार मेजर	योगेन्द्रा पाल सिंह
307	जेसी 374915 ए	सुबेदार	अनिल कुमार
308	जेसी 376579 एक्स	सुबेदार	अनूप सिंह
309	जेसी 373464 वाइ	सुबेदार	बिक्रम सिंह
310	जेसी 376282 डब्ल्यू	सुबेदार	चरण सिंह
311	जेसी 374727 वाइ	सुबेदार	धर्मवीर
312	जेसी 375836 एक्स	सुबेदार	धर्मवीर सिंह
313	जेसी 377421 एफ	सुबेदार	दिनेश चंद्र
314	जेसी 377353 वाइ	सुबेदार	हरेन्द्र नाथ घोष
315	जेसी 373472 एक्स	सुबेदार	एच सिंह चौहान
316	जेसी 376645 पी	सुबेदार	जयवीर
317	जेसी 375650 एन	सुबेदार	जसवंत सिंह
318	जेसी 377307 के	सुबेदार	कैलाश चन्द्र स्वामी
319	जेसी 376650 ए	सुबेदार	लाउतु राम
320	जेसी 375795 वाइ	सुबेदार	मोहिन्दर पाल सिंह
321	जेसी 376114 एक्स	सुबेदार	नागराजा
322	जेसी 375678 एन	सुबेदार	ओम प्रकाश
323	जेसी 375604 वाइ	सुबेदार	ओम प्रकाश यादव
324	जेसी 376537 एल	सुबेदार	प्रीतम चन्द
325	जेसी 375101 एन	सुबेदार	राजेंद्रा कुमार सिंह
326	जेसी 373673 डब्ल्यू	सुबेदार	राम चरण
327	जेसी 377302 एल	सुबेदार	रवि दत्ता
328	जेसी 369900 एन	सुबेदार	सन्यासी नायडू कान्तामु रेडी
329	जेसी 375854 ए	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह

### ब्रिगेड आफ गार्ड्स

330	जेसी 402869 पी	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार मिश्रा
331	जेसी 402867 एक्स	सुबेदार मेजर	हरी शंकर यादव
332	जेसी 403131 डी	सुबेदार मेजर	जितेन्द्रा नाथ राय
333	जेसी 402611 एफ	सुबेदार मेजर	एम संपतु
334	जेसी 403159 के	सुबेदार मेजर	रामवतार
335	जेसी 402926 एल	सुबेदार मेजर	उमा शंकर सिंह
336	जेसी 402858 एच	सुबेदार मेजर	वसंत कुमार कौशिक
337	जेसी 403542 एच	सुबेदार	बजरंग सिंह

338	जेसी 403979 डब्ल्यू	सुबेदार	जगदीश प्रसाद
339	जेसी 403532 वाइ	सुबेदार	कृष्णा बिहारी
340	जेसी 403019 एक्स	सुबेदार	प्रेम बहादुर
341	जेसी 402333 वाइ	सुबेदार	पी वी
342	जेसी 404004 एफ	सुबेदार	राजबीर सिंह पनवर
343	जेसी 403806 वाइ	सुबेदार	राजिन्दर सिंह
344	जेसी 404181 एफ	सुबेदार	राम निवास
345	जेसी 403568 एक्स	सुबेदार	सुल्तान सिंह
346	जेसी 403859 एक्स	सुबेदार	सुरेश चंद्रा

पैराशूट रेजीमेंट

347	जेसी 412339 एन	सुबेदार मेजर	हिम्मत नाथ
348	जेसी 412315 के	सुबेदार मेजर	के राम, एसएम
349	जेसी 412606 के	सुबेदार मेजर	टी एस प्रभाकर राव, एसएम
350	जेसी 413027 के	सुबेदार	दलवीर सिंह मल्होत्रा, एसएम
351	जेसी 413044 के	सुबेदार	जंग बहादुर थापा
352	जेसी 413087 वाइ	सुबेदार	कमल सिंह
353	जेसी 413048 ए	सुबेदार	कृष्णन सिंह राना
354	जेसी 412477 पी	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह
355	जेसी 412803 एम	सुबेदार	उत्तातम सिंह
356	जेसी 412964 पी	सुबेदार	विजय कुमार

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेंट

357	जेसी 418832 एक्स	सुबेदार मेजर	बलवान सिंह एसएम
358	जेसी 419626 ए	सुबेदार मेजर	हेम राज
359	जेसी 418922 वाइ	सुबेदार मेजर	नवल किशोर
360	जेसी 418702 पी	सुबेदार मेजर	निरंजन सिंह
361	जेसी 418943 पी	सुबेदार मेजर	राम बृक्ष सिंह
362	जेसी 419120 एफ	सुबेदार मेजर	सतबीर सिंह
363	जेसी 419068 के	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार सिंह
364	जेसी 418894 एक्स	सुबेदार मेजर	उमेद सिंह
365	जेसी 420377 वाइ	सुबेदार	अशोक कुमार
366	जेसी 420528 एम	सुबेदार	हरबंस लाल
367	जेसी 420767 एफ	सुबेदार	नेपाल सिंह
368	जेसी 420205 के	सुबेदार	ओंकार सिंह
369	जेसी 420467 ए	सुबेदार	परमजीत सिंह
370	जेसी 419570 वाइ	सुबेदार	राज देव यादव
371	जेसी 419658 एच	सुबेदार	राशन शील
372	जेसी 420581 एक्स	सुबेदार	संतोष कुमार

373	जेसी 419735 एम	सुबेदार	सत्यवान
	<u>पंजाब रेजीमेंट</u>		
374	जेसी 429187 एन	सुबेदार मेजर	गोपाल सिंह, एसएम
375	जेसी 429246 पी	सुबेदार मेजर	जगदीश राज
376	जेसी 428707 एफ	सुबेदार मेजर	जसविन्दर सिंह
377	जेसी 428836 एफ	सुबेदार मेजर	करनैल सिंह
378	जेसी 429041 ए	सुबेदार मेजर	मोहिन्दर सिंह डोगरा
379	जेसी 429264 एक्स	सुबेदार मेजर	रंजीत सिंह चंदेल
380	जेसी 429298 एल	सुबेदार मेजर	रूप लाल
381	जेसी 429234 ए	सुबेदार मेजर	सकत्तार सिंह
382	जेसी 429456 पी	सुबेदार मेजर	सुरजीत सिंह, वीएसएम
383	जेसी 428936 एम	सुबेदार मेजर	वीर इंद्र शर्मा
384	जेसी 429978 एल	सुबेदार	बुटी राम
385	जेसी 428620 ए	सुबेदार	चमन लाल
386	जेसी 430008 पी	सुबेदार	धूप सिंह
387	जेसी 429619 एक्स	सुबेदार	गुरचरण सिंह
388	जेसी 429672 एच	सुबेदार	गुरमीत सिंह
389	जेसी 428478 एफ	सुबेदार	हाकम सिंह
390	जेसी 429880 एक्स	सुबेदार	हरमेश कुमार
391	जेसी 429859 पी	सुबेदार	जगदीश चन्द
392	जेसी 429554 पी	सुबेदार	जागीर सिंह
393	जेसी 429929 एच	सुबेदार	जैक सिंह
394	जेसी 430311 डब्ल्यू	सुबेदार	जसवंत सिंह
395	जेसी 430107 एक्स	सुबेदार	जसवंत सिंह
396	जेसी 430010 एम	सुबेदार	कमल किशोर
397	जेसी 430089 ए	सुबेदार	कष्णन चन्द
398	जेसी 429746 एम	सुबेदार	कुलवंत सिंह
399	जेसी 429461 ए	सुबेदार	मनजीत सिंह
400	जेसी 429890 एफ	सुबेदार	मुख्य राज
401	जेसी 429413 ए	सुबेदार	नन्द किशोर वर्मा
402	जेसी 429517 एफ	सुबेदार	निर्मल सिंह
403	जेसी 429509 एच	सुबेदार	प्रीतम सिंह
404	जेसी 429764 पी	सुबेदार	पूरन सिंह
405	जेसी 429694 एफ	सुबेदार	रबींद्र सिंह
406	जेसी 429733 पी	सुबेदार	रंजीत सिंह
407	जेसी 429064 एफ	सुबेदार	रेशम सिंह
408	जेसी 429192 वाइ	सुबेदार	रूप सिंह
409	जेसी 429998 वाइ	सुबेदार	सतीश कुमार

410	जेसी 429964 एल	सुबेदार	सत पाल
411	जेसी 429875 एम	सुबेदार	सुबाष चंद्र
412	जेसी 430127 एल	सुबेदार	सुरिन्दर पौल
413	जेसी 430206 ए	सुबेदार	तरसेम लाल

मद्रास रेजीमेंट

414	जेसी 438813 एन	सुबेदार मेजर	बाबू एम
415	जेसी 438654 एफ	सुबेदार मेजर	बी गोड़
416	जेसी 438966 एक्स	सुबेदार मेजर	गणेशन एस
417	जेसी 438844 एन	सुबेदार मेजर	हरिन्दर के
418	जेसी 438595 ए	सुबेदार मेजर	जॉन पीआई
419	जेसी 438862 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मोहानन के वी
420	जेसी 438817 के	सुबेदार मेजर	एम पांडियन
421	जेसी 439236 वाइ	सुबेदार मेजर	आर बालासुब्रामन्यन
422	जेसी 438758 एच	सुबेदार मेजर	एस एस
423	जेसी 438424 एन	सुबेदार मेजर	सुब्बैया एपी
424	जेसी 438675 एक्स	सुबेदार मेजर	विजयन एच
425	जेसी 439529 के	सुबेदार	अल्बर्ट जी.
426	जेसी 439804 वाइ	सुबेदार	अनिल कुमार वी जी
427	जेसी 439164 ए	सुबेदार	बाममीदी कुरमा राव
428	जेसी 439612 एफ	सुबेदार	बी वेलायुधन
429	जेसी 439399 एम	सुबेदार	डी. राजेन्द्रन
430	जेसी 439733 एच	सुबेदार	के.बी रामकृषणा
431	जेसी 439195 ए	सुबेदार	के कृष्णा राव
432	जेसी 439520 पी	सुबेदार	एन कुमार आरएस
433	जेसी 439508 एन	सुबेदार	पी ईश्वर कुमार
434	जेसी 439626 एफ	सुबेदार	राजू बीएम
435	जेसी 439530 वाइ	सुबेदार	वेलायुदम ई
436	जेसी 160674 डब्ल्यू	सुबेदार	विनायक भाट आर टी

ग्रेनेडियर्स

437	जेसी 449459 के	सुबेदार मेजर	अवतार सिंह
438	जेसी 449021 एन	सुबेदार मेजर	धर्मवीर सिंह
439	जेसी 449656 एम	सुबेदार मेजर	मोहन लाल जाट
440	जेसी 449345 वाइ	सुबेदार मेजर	रमेश चन्द
441	जेसी 449591 के	सुबेदार मेजर	रमेश कुमार
442	जेसी 449544 एम	सुबेदार मेजर	सुख पाल
443	जेसी 449340 ए	सुबेदार मेजर	सुरेन्द्रा सिंह
444	जेसी 449181 एन	सुबेदार मेजर	तारा सिंह

445	जेसी 449068	वाइ	सुबेदार	मेजर	विजय सिंह
446	जेसी 450679	ए	सुबेदार		बिरजू सिंह राजपूत
447	जेसी 450377	एन	सुबेदार		हरी प्रताप सिंह
448	जेसी 450043	वाइ	सुबेदार		कश्मीर सिंह
449	जेसी 450414	डब्ल्यू	सुबेदार		किशोरी लाल
450	जेसी 450052	ए	सुबेदार		कुलदीप सिंह
451	जेसी 449609	पी	सुबेदार		लिला राम खटाना
452	जेसी 450029	एम	सुबेदार		मोती सिंह
453	जेसी 450144	एम	सुबेदार		निजामुरदीन
454	जेसी 450326	ए	सुबेदार		प्यारे राम, एसएम
455	जेसी 449611	एम	सुबेदार		राम बाबू सिंह
456	जेसी 450141	वाइ	सुबेदार		रमेश चंद्र
457	जेसी 449961	वाइ	सुबेदार		रवीन्द्र
458	जेसी 450207	के	सुबेदार		शशि पाल सैनी
459	जेसी 450660	एफ	सुबेदार		सत्यावीर सिंह राजपूत
460	जेसी 449692	एक्स	सुबेदार		सोलंकी मगन भाई लक्खा भाई

### मराठा लघु सेना

461	जेसी 458665	पी	सुबेदार	मेजर	अर्जुन हनुमंत जे
462	जेसी 458526	एल	सुबेदार	मेजर	चांडे सुरेश नारायण
463	जेसी 458784	एल	सुबेदार	मेजर	दिलीप इश्वर गायकवाड
464	जेसी 458109	वाइ	सुबेदार	मेजर	ज्ञान चन्द्र
465	जेसी 458642	एन	सुबेदार	मेजर	लक्ष्मन वी
466	जेसी 458455	पी	सुबेदार	मेजर	एम श्रीराम दगादु
467	जेसी 458358	एक्स	सुबेदार	मेजर	मारुति होनागेकर
468	जेसी 458396	एन	सुबेदार	मेजर	सकाराम शंकर छाल्के
469	जेसी 458696	पी	सुबेदार	मेजर	एस एम
470	जेसी 458657	डब्ल्यू	सुबेदार		बारगे सुदाम सम्पत
471	जेसी 458897	एन	सुबेदार		धोले शिवनाथ कुंडलिक
472	जेसी 458914	एच	सुबेदार		गोरे बालकृशना दगादु
473	जेसी 459548	डब्ल्यू	सुबेदार		जाधव शंकर निवृत्ति
474	जेसी 459371	एन	सुबेदार		जगताप लक्ष्मन मनाजी
475	जेसी 459333	एक्स	सुबेदार		के अशोक नाना
476	जेसी 459182	के	सुबेदार		खामाकर बाजीराव शंकर
477	जेसी 459294	के	सुबेदार		शशिकांत रामचंद्र एम
478	जेसी 459383	एच	सुबेदार		टी दन्यानदेव तुकाराम
479	जेसी 459080	एन	सुबेदार		विजय सिंह



राजपूताना राईफल्स

480	जेसी 469208 एफ	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह
481	जेसी 468842 एकस	सुबेदार मेजर	डी. सिंह
482	जेसी 468919 पी	सुबेदार मेजर	फरीद उद्दीन
483	जेसी 469191 वाइ	सुबेदार मेजर	गिरराज सिंह
484	जेसी 469209 के	सुबेदार मेजर	जगदीश प्रसाद जाट, एसएम
485	जेसी 469178 पी	सुबेदार मेजर	कमलेश सिंह
486	जेसी 468789 एकस	सुबेदार मेजर	खेत सिंह राठोर
487	जेसी 469051 एम	सुबेदार मेजर	प्रताप सिंह
488	जेसी 469049 पी	सुबेदार मेजर	संग सिंह भाटी
489	जेसी 469173 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सत्यवीर सिंह
490	जेसी 468843 ए	सुबेदार मेजर	सुमेर सिंह
491	जेसी 469886 एफ	सुबेदार	अजीत सिंह
492	जेसी 469734 ए	सुबेदार	अतर सिंह
493	जेसी 470198 पी	सुबेदार	बाबू लाल चौधरी
494	जेसी 469698 ए	सुबेदार	हरी पाल सिंह
495	जेसी 469385 एफ	सुबेदार	जयमल सिंह
496	जेसी 469726 एफ	सुबेदार	जय प्रकाश
497	जेसी 469791 एफ	सुबेदार	केशव सिंह
498	जेसी 470134 के	सुबेदार	किशोर सिंह
499	जेसी 469370 वाइ	सुबेदार	महेन्द्र कुमार
500	जेसी 470275 वाइ	सुबेदार	राज बीर
501	जेसी 469939 पी	सुबेदार	रमेश बाबू
502	जेसी 469940 के	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह
503	जेसी 469424 पी	सुबेदार	रोतन सिंह
504	जेसी 469732 पी	सुबेदार	शेर सिंह
505	जेसी 469669 एल	सुबेदार	श्याम सिंह
506	जेसी 469953 एफ	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार

राजपूत रेजीमेंट

507	जेसी 478804 पी	सुबेदार मेजर	इंद्र पाल सिंह
508	जेसी 478692 ए	सुबेदार मेजर	मोहन पाल
509	जेसी 479032 पी	सुबेदार मेजर	नरेन्द्रा सिंह
510	जेसी 478886 एच	सुबेदार मेजर	राज किशोर
511	जेसी 478961 एफ	सुबेदार मेजर	श्याम बाबू सिंह
512	जेसी 478796 एफ	सुबेदार मेजर	श्री प्रसाद
513	जेसी 478842 एल	सुबेदार मेजर	यश कुमार
514	जेसी 479412 एन	सुबेदार	अजय पाल सिंह एसएम

515	जेसी 480081	के	सुबेदार	आलम सिंह
516	जेसी 480223	डब्ल्यू	सुबेदार	अल्लाह वी
517	जेसी 479501	एम	सुबेदार	ए सिंह
518	जेसी 479739	एम	सुबेदार	छोटे खान
519	जेसी 479710	के	सुबेदार	दिनेश सिंह
520	जेसी 480017	एम	सुबेदार	किशन सिंह
521	जेसी 480043	एन	सुबेदार	महाबीर सिंह
522	जेसी 479717	एन	सुबेदार	आर कृष्णा मूर्ती
523	जेसी 480026	एन	सुबेदार	शिम्लू दयाल यादव
524	जेसी 480117	एक्स	सुबेदार	सिद्धी नाथ
525	जेसी 479633	ए	सुबेदार	सुशील कुमार

जाट रेजीमेंट

526	जेसी 488557	ए	सुबेदार मेजर	अमर सिंह	
527	जेसी 488983	एन	सुबेदार मेजर	जग राम सिंह	
528	जेसी 489073	एम	सुबेदार मेजर	जयबीर	
529	जेसी 488902	एच	सुबेदार मेजर	मूल चन्द	
530	जेसी 140405	एच	सुबेदार मेजर	राधे श्याम त्रिपाठी	आर टी
531	जेसी 488999	वाइ	सुबेदार मेजर	राम भरोसी सिंह	
532	जेसी 488814	एम	सुबेदार मेजर	सुभाष चंद्रा	
533	जेसी 489559	एक्स	सुबेदार	गिरधारी राम	
534	जेसी 489656	पी	सुबेदार	ख्याली राम	
535	जेसी 489929	एम	सुबेदार	लेख राज	
536	जेसी 489569	एफ	सुबेदार	रामदीन चौधरी	
537	जेसी 489344	वाइ	सुबेदार	राम कला	
538	जेसी 489990	डब्ल्यू	सुबेदार	राम निवास	
539	जेसी 489891	एन	सुबेदार	राम निवास	
540	जेसी 489604	वाइ	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह	
541	जेसी 489931	के	सुबेदार	सत्यपाल सिंह	
542	जेसी 489673	पी	सुबेदार	सीता राम	
543	जेसी 489932	एम	सुबेदार	सोनी कुमार	
544	जेसी 489930	एफ	सुबेदार	श्रीपाल सिंह	
545	जेसी 489691	एक्स	सुबेदार	उत्तातम सिंह	
546	जेसी 489935	ए	सुबेदार	युद्धवीर	

सिख रेजीमेंट

547	जेसी 498752	एल	सुबेदार मेजर	दलबीर सिंह
548	जेसी 498740	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जगतार सिंह
549	जेसी 498790	एफ	सुबेदार मेजर	जरनैल सिंह

550	जेसी 498693	के	सुबेदार	मेजर	जसवंत सिंह
551	जेसी 498535	पी	सुबेदार	मेजर	कुलदीप सिंह
552	जेसी 498792	एम	सुबेदार	मेजर	कुलदीप सिंह, एसएम
553	जेसी 498750	ए	सुबेदार	मेजर	मनजीत सिंह
554	जेसी 498608	डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	प्रेम सिंह
555	जेसी 498771	डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	रणधीर सिंह
556	जेसी 498646	एम	सुबेदार		अमरीक सिंह
557	जेसी 499521	एफ	सुबेदार		बलबीर सिंह
558	जेसी 499022	एम	सुबेदार		बलदेव सिंह
559	जेसी 499113	डब्ल्यू	सुबेदार		भुपिन्द्र सिंह
560	जेसी 499162	वाइ	सुबेदार		दर्शन सिंह
561	जेसी 499387	एफ	सुबेदार		हरभजन सिंह
562	जेसी 499007	एक्स	सुबेदार		जसवंत सिंह
563	जेसी 499140	ए	सुबेदार		जे कुमार राय
564	जेसी 499043	एच	सुबेदार		कश्मीर सिंह
565	जेसी 499343	के	सुबेदार		सकत्तार सिंह
566	जेसी 499265	एक्स	सुबेदार		शेर सिंह, एससी
567	जेसी 499416	एल	सुबेदार		शिंगारा सिंह
568	जेसी 499461	एक्स	सुबेदार		सुखविंदर सिंह

सिख लघु पैदल सेना

569	जेसी 508760	ए	सुबेदार	मेजर	सुच्चा सिंह
570	जेसी 508351	एम	सुबेदार	मेजर	त्रिलोक सिंह
571	जेसी 509647	एक्स	सुबेदार		बलबीर सिंह
572	जेसी 509497	एम	सुबेदार		बलविन्दर सिंह
573	जेसी 508877	वाइ	सुबेदार		हरमेल सिंह
574	जेसी 509579	पी	सुबेदार		जगजीत सिंह
575	जेसी 508373	एल	सुबेदार		लाभ सिंह, एसएम
576	जेसी 509393	एल	सुबेदार		मेजर सिंह
577	जेसी 508777	एन	सुबेदार		परमजीत सिंह
578	जेसी 509595	एम	सुबेदार		सतपाल सिंह
579	जेसी 509165	एच	सुबेदार		सुखदेव सिंह
580	जेसी 508881	एफ	सुबेदार		सुरिंदरपाल सिंह
581	जेसी 508731	एल	सुबेदार		तरसेम सिंह

डोगरा रेजीमेंट

582	जेसी 519550	ए	सुबेदार	मेजर	बलवान सिंह
583	जेसी 519678	एल	सुबेदार	मेजर	दीदार सिंह कोशल
584	जेसी 519461	एफ	सुबेदार	मेजर	दिनेश सिंह

585	जेसी 519825	एच	सुबेदार मेजर	कर्म सिंह
586	जेसी 519655	एक्स	सुबेदार मेजर	केवल सिंह
587	जेसी 519488	वाइ	सुबेदार मेजर	मोहिन्दर सिंह, एससी
588	जेसी 519864	एफ	सुबेदार मेजर	प्रवीण कुमार
589	जेसी 519663	एच	सुबेदार मेजर	रमेश कुमार पटियाल
590	जेसी 519309	एन	सुबेदार मेजर	टी राम
591	जेसी 520820	डब्ल्यू	सुबेदार	असवानी कुमार
592	जेसी 520824	एम	सुबेदार	बरिन्दर सिंह
593	जेसी 520583	एक्स	सुबेदार	हेम राज
594	जेसी 520664	एक्स	सुबेदार	हुकम चन्द
595	जेसी 520867	एफ	सुबेदार	जोवान लाल
596	जेसी 520817	डब्ल्यू	सुबेदार	कमल सिंह
597	जेसी 520700	एक्स	सुबेदार	कुलदीप सिंह
598	जेसी 520689	के	सुबेदार	मिलाप चन्द चमबेल
599	जेसी 520221	डब्ल्यू	सुबेदार	ओम प्रकाश
600	जेसी 520733	एच	सुबेदार	पर सिंह
601	जेसी 520353	के	सुबेदार	प्रेम लाल
602	जेसी 520663	पी	सुबेदार	राम सिंह सैनी
603	जेसी 520818	वाइ	सुबेदार	सोम दत्ता

#### गढ़वाल राईफल्स

604	जेसी 528799	एन	सुबेदार मेजर	बालेन्द्रा सिंह	
605	जेसी 529143	एल	सुबेदार मेजर	बिरेन्द्रा सिंह	
606	जेसी 528993	एच	सुबेदार मेजर	देवी प्रसाद	
607	जेसी 529343	एफ	सुबेदार मेजर	इंद्र सिंह	
608	जेसी 138611	एन	सुबेदार मेजर	इन्द्रा देव नैटियाल	आर टी
609	जेसी 528904	वाइ	सुबेदार मेजर	जगत सिंह	
610	जेसी 528949	वाइ	सुबेदार मेजर	कुंवर सिंह	
611	जेसी 528743	एफ	सुबेदार मेजर	एन सिंह	
612	जेसी 529243	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	नन्द किशोर	
613	जेसी 529171	एक्स	सुबेदार मेजर	राजबर सिंह	
614	जेसी 529271	एच	सुबेदार मेजर	शिवेंद्र कुमार	
615	जेसी 144223	एम	सुबेदार मेजर	सुरेश चंद्रा जोशी	आर टी
616	जेसी 529104	एफ	सुबेदार मेजर	यशपाल सिंह	
617	जेसी 530392	डब्ल्यू	सुबेदार	भुपेन्द्र सिंह	
618	जेसी 530487	डब्ल्यू	सुबेदार	बिशन दत्त	
619	जेसी 530125	पी	सुबेदार	हरपाल सिंह	
620	जेसी 530453	एच	सुबेदार	जयराज सिंह	
621	जेसी 529880	एम	सुबेदार	खीम सिंह	

622	जेसी 530261	एल	सुबेदार	ओम प्रकाश पी
623	जेसी 530521	एल	सुबेदार	राजपाल सिंह रावत
624	जेसी 530296	एफ	सुबेदार	रंजीत सिंह
625	जेसी 530016	एच	सुबेदार	शिवा प्रसाद
626	जेसी 530370	एक्स	सुबेदार	शिवराज सिंह
627	जेसी 530565	एच	सुबेदार	विक्रम सिंह

कुमाँउ रेजीमेंट

628	जेसी 539193	के	सुबेदार मेजर	दीवान सिंह, एसएम
629	जेसी 539446	एन	सुबेदार मेजर	हुकम सिंह
630	जेसी 539300	ए	सुबेदार मेजर	लक्ष्मन सिंह
631	जेसी 539349	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मोहन सिंह
632	जेसी 539192	एफ	सुबेदार मेजर	प्रहलाद सिंह अधिकारी
633	जेसी 538859	एल	सुबेदार मेजर	रघबीर सिंह
634	जेसी 538764	एल	सुबेदार मेजर	राजेंद्रा प्रसाद
635	जेसी 538999	एक्स	सुबेदार मेजर	रामेश्वर दयाल यादव
636	जेसी 539369	के	सुबेदार मेजर	रतन सिंह देब
637	जेसी 539291	के	सुबेदार मेजर	उमेश्वर सिंह
638	जेसी 539589	एम	सुबेदार	आनंद सिंह
639	जेसी 539840	वाइ	सुबेदार	बहादुर सिंह
640	जेसी 539743	एफ	सुबेदार	चामु सिंह
641	जेसी 539772	डब्ल्यू	सुबेदार	चंद्र सिंह के
642	जेसी 539820	एल	सुबेदार	धर्मेन्द्र सिंह
643	जेसी 539755	डब्ल्यू	सुबेदार	जगत सिंह
644	जेसी 539986	एम	सुबेदार	जमन सिंह
645	जेसी 540029	एन	सुबेदार	लाल सिंह
646	जेसी 539822	डब्ल्यू	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह
647	जेसी 540090	एक्स	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह मेहता
648	जेसी 539900	एच	सुबेदार	लिला धर पांडे
649	जेसी 540087	एक्स	सुबेदार	माधव नन्द
650	जेसी 540200	एफ	सुबेदार	महादेव भट्ट
651	जेसी 539269	वाइ	सुबेदार	नंदन सिंह
652	जेसी 540065	वाइ	सुबेदार	नरेंद्र सिंह
653	जेसी 539971	के	सुबेदार	नरपत सिंह
654	जेसी 539862	एक्स	सुबेदार	ओम प्रकाश
655	जेसी 540392	के	सुबेदार	पदम सिंह कुंवर, एसएम
656	जेसी 540025	एक्स	सुबेदार	पृथ्वी राज सिंह
657	जेसी 539896	एल	सुबेदार	रबीन्द्र सिंह खाती
658	जेसी 539792	के	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह

659	जेसी 540145	डब्ल्यू	सुबेदार	राज कुमार
660	जेसी 540219	ए	सुबेदार	सूबे सिंह यादव
661	जेसी 539673	एन	सुबेदार	सुरेश लाल साह
662	जेसी 539404	एफ	सुबेदार	वाइ सिंह

आसाम रेजीमेंट

663	जेसी 548629	एल	सुबेदार मेजर	ए बिनोए सिंघा
664	जेसी 548574	एम	सुबेदार मेजर	असविनी कुमार सिन्हा
665	जेसी 548514	एक्स	सुबेदार मेजर	बिनोद सिंह
666	जेसी 548549	एन	सुबेदार मेजर	बिनोए कुमार बोराह
667	जेसी 829164	ए	सुबेदार मेजर	बिरेन्द्रा सिंघा
668	जेसी 548463	पी	सुबेदार मेजर	चंद्रा सेना राजकुमार
669	जेसी 548631	एच	सुबेदार मेजर	डी. राम सेकिआ
670	जेसी 548464	एक्स	सुबेदार मेजर	गोपाल सरमा
671	जेसी 548744	एल	सुबेदार मेजर	के जे
672	जेसी 548721	के	सुबेदार मेजर	कृष्णा बहादुर एस
673	जेसी 548512	एम	सुबेदार मेजर	राजेन्द्रा सिंघा
674	जेसी 548778	वाइ	सुबेदार मेजर	शांती कुमार सिन्हा
675	जेसी 549381	वाइ	सुबेदार	अग्नि बहादुर छत्री
676	जेसी 548996	एक्स	सुबेदार	बरुण चिसिम
677	जेसी 549042	वाइ	सुबेदार	भुदेशवर देवरी
678	जेसी 549554	एल	सुबेदार	भूपेन चेतिया
679	जेसी 549134	एल	सुबेदार	बीएस रिकोर्डसन अनल
680	जेसी 548987	डब्ल्यू	सुबेदार	छाबीलाल थापा
681	जेसी 549214	एच	सुबेदार	दल बहादुर दरलामी
682	जेसी 549333	वाइ	सुबेदार	केएसएच मलाया सिंघा
683	जेसी 549209	एक्स	सुबेदार	लैशराम बी सिंह
684	जेसी 548856	एल	सुबेदार	पी मारक
685	जेसी 549372	एक्स	सुबेदार	पाया अनीवेर अनल
686	जेसी 172615	डब्ल्यू	सुबेदार	पीएस जोर्ज आर टी
687	जेसी 548922	एच	सुबेदार	एसआर एच अनल
688	जेसी 548867	एक्स	सुबेदार	उधाब चंद्रा राजबंशी

बिहार रेजीमेंट

689	जेसी 558856	वाइ	सुबेदार मेजर	बायधर नाइक
690	जेसी 558853	एल	सुबेदार मेजर	खेदन सिंह
691	जेसी 558985	वाइ	सुबेदार मेजर	महेंद्र सिंह
692	जेसी 558959	एक्स	सुबेदार मेजर	राम प्रवेश सिंह
693	जेसी 558808	वाइ	सुबेदार मेजर	सुरेश सिंह

694	जेसी 559014 ए	सुबेदार मेजर	वकील सिंह
695	जेसी 559259 डब्ल्यू	सुबेदार	ए बारिक
696	जेसी 559384 ए	सुबेदार	बी नायक
697	जेसी 559338 एल	सुबेदार	बिजया कुमार सामल
698	जेसी 558694 वाइ	सुबेदार	डी. टूडू
699	जेसी 558978 एच	सुबेदार	जे नाग
700	जेसी 559349 एक्स	सुबेदार	लक्षुमन गिरि
701	जेसी 559458 के	सुबेदार	पासकल तोप्पो
702	जेसी 559653 एफ	सुबेदार	पितांबर बी
703	जेसी 559832 एफ	सुबेदार	राम नाथ ओरान

महार रेजीमेंट

704	जेसी 568702 ए	सुबेदार मेजर	भन्दालकर किसान दादा
705	जेसी 568720 एच	सुबेदार मेजर	भवन सिंह
706	जेसी 568717 एच	सुबेदार मेजर	चेत राम
707	जेसी 568647 पी	सुबेदार मेजर	दत्ताता सूर्यभान गवई
708	जेसी 568610 एन	सुबेदार मेजर	काम्बले अशोक एस
709	जेसी 568612 वाइ	सुबेदार मेजर	कुराने विजय शिवाजी
710	जेसी 568885 एफ	सुबेदार मेजर	राम सिंह तनवर
711	जेसी 568764 ए	सुबेदार मेजर	वाघमरे अशोक लिंगप्पा
712	जेसी 569307 वाइ	सुबेदार	बलकार सिंह
713	जेसी 569554 एम	सुबेदार	बिमल च. बर्मन
714	जेसी 569329 एक्स	सुबेदार	चंचल सिंह
715	जेसी 569944 पी	सुबेदार	कुलदीप सिंह
716	जेसी 569285 एल	सुबेदार	लक्ष्मन तमंग
717	जेसी 569973 के	सुबेदार	लिलामनी लामसल
718	जेसी 570202 एफ	सुबेदार	प्रवाकर लेनका
719	जेसी 569799 एच	सुबेदार	सरत सिंह बिष्ट

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

720	जेसी 579219 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	ज्ञान सिंह
721	जेसी 579613 एफ	सुबेदार मेजर	गोपाल सिंह
722	जेसी 579427 एल	सुबेदार मेजर	हरी राम
723	जेसी 579495 वाइ	सुबेदार मेजर	हेम सिंह
724	जेसी 579657 वाइ	सुबेदार मेजर	रंजीत सिंह
725	जेसी 579586 एच	सुबेदार मेजर	रतन चन्द
726	जेसी 579355 एम	सुबेदार मेजर	श्रवण सिंह
727	जेसी 579681 पी	सुबेदार मेजर	शिव राम
728	जेसी 579364 एन	सुबेदार मेजर	सोबा राम

729	जेसी 579491	एच	सुबेदार मेजर	सोहन लाल
730	जेसी 580483	डब्ल्यू	सुबेदार	अमरजीत सिंह
731	जेसी 580030	एल	सुबेदार	अशोक कुमार
732	जेसी 580287	डब्ल्यू	सुबेदार	अशोक कुमार
733	जेसी 580178	के	सुबेदार	बलवंत सिंह
734	जेसी 580683	एम	सुबेदार	बिसवा गुरंग
735	जेसी 580663	वाइ	सुबेदार	हरी बहादुर थापा
736	जेसी 580444	एक्स	सुबेदार	जागर सिंह
737	जेसी 580273	डब्ल्यू	सुबेदार	जगत सिंह
738	जेसी 580043	एच	सुबेदार	कमलजीत सिंह
739	जेसी 580288	वाइ	सुबेदार	कमल सिंह
740	जेसी 580094	डब्ल्यू	सुबेदार	नरोतम सिंह
741	जेसी 579621	ए	सुबेदार	निर्मल सिंह जामवाल
742	जेसी 580376	पी	सुबेदार	प्रेम लाल
743	जेसी 580135	पी	सुबेदार	राजू माल
744	जेसी 580568	एम	सुबेदार	रोमेश चन्द
745	जेसी 579993	एल	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार
746	जेसी 580475	एक्स	सुबेदार	सुरजीत शर्मा, एसएम

#### लध्दाख स्काउट

747	जेसी 588279	एम	सुबेदार	छेरिंग फुनचोक
748	जेसी 588318	ए	सुबेदार	फुनचोक सी
749	जेसी 588266	पी	सुबेदार	ताशी टुनदुप
750	जेसी 588322	एच	सुबेदार	थिन्लस दोर्जे
751	जेसी 588234	एम	सुबेदार	टी एल

#### नागा रेजीमेंट

752	जेसी 590017	पी	सुबेदार मेजर	बी डी. बी अनल
753	जेसी 590169	डब्ल्यू	सुबेदार	के एच सेमा
754	जेसी 590184	एल	सुबेदार	मुन्ना सिंह थापा

#### जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल सेना

755	जेसी 592621	वाइ	सुबेदार मेजर	मंजूर अहमद भाट, एसएम
756	जेसी 592554	वाइ	सुबेदार मेजर	राजेंद्र सिंह
757	जेसी 592429	पी	सुबेदार मेजर	रनबीर सिंह
758	जेसी 592556	के	सुबेदार मेजर	सादिक हुसैन
759	जेसी 592762	एन	सुबेदार मेजर	सत पौल
760	जेसी 592667	एफ	सुबेदार मेजर	विजय कुमार
761	जेसी 593513	एफ	सुबेदार	बलबीर कुमार



762	जेसी 593389	एल	सुबेदार	बलवंत राज
763	जेसी 592898	एक्स	सुबेदार	देव राज
764	जेसी 593036	एल	सुबेदार	फतेह सिंह
765	जेसी 592390	डब्ल्यू	सुबेदार	जी एच मोही दीन वाणी
766	जेसी 592820	डब्ल्यू	सुबेदार	हरबंस लाल
767	जेसी 593732	एच	सुबेदार	हरी सिंह
768	जेसी 592799	पी	सुबेदार	हरकेश कुमार शर्मा
769	जेसी 593197	एन	सुबेदार	हरमिंदर पौल
770	जेसी 593138	एफ	सुबेदार	जागर राम
771	जेसी 592966	ए	सुबेदार	जसवंत सिंह
772	जेसी 593483	पी	सुबेदार	जोगिंदर सिंह
773	जेसी 593224	एम	सुबेदार	खजान चन्द
774	जेसी 593359	एन	सुबेदार	कुलदीप सिंह
775	जेसी 593091	एफ	सुबेदार	लाल हुसैन
776	जेसी 592775	एल	सुबेदार	मंगत राम
777	जेसी 593011	वाइ	सुबेदार	मोहम्मद इकबाल
778	जेसी 592812	एन	सुबेदार	मोहम्मद सादिक
779	जेसी 593003	ए	सुबेदार	मोहिन्दर लाल
780	जेसी 593335	के	सुबेदार	मोहम्मद आसिफ
781	जेसी 593490	एल	सुबेदार	नरिंदर कुमार
782	जेसी 593306	पी	सुबेदार	प्रेम सिंह
783	जेसी 593545	के	सुबेदार	रघबीर सिंह
784	जेसी 593679	एच	सुबेदार	राज कष्णन
785	जेसी 592996	एक्स	सुबेदार	रतन चन्द
786	जेसी 593261	ए	सुबेदार	रतन सिंह
787	जेसी 592897	पी	सुबेदार	सागर सिंह
788	जेसी 593294	एल	सुबेदार	सत पाल
789	जेसी 592705	एम	सुबेदार	सत पाल
790	जेसी 592689	ए	सुबेदार	शाम लाल
791	जेसी 593318	के	सुबेदार	शाम लाल
792	जेसी 593074	एफ	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह
793	जेसी 593710	के	सुबेदार	तरसेम लाल सैनी
794	जेसी 592995	पी	सुबेदार	वेद प्रकाश
795	जेसी 592616	एन	सुबेदार	विजय कुमार
796	जेसी 593395	वाइ	सुबेदार	विजय कुमार
797	जेसी 593380	डब्ल्यू	सुबेदार	वीर भान
798	जेसी 593661	एम	सुबेदार	योग राज

1 गोरखा राईफल्स

799	जेसी 602431 एच	सुबेदार मेजर	उपेंद्र थापा
800	जेसी 602782 एक्स	सुबेदार	कुल बहादुर श्रेष्ठा
801	जेसी 602704 ए	सुबेदार	राजेश बबली गुरंग
802	जेसी 602682 एम	सुबेदार	ताप बहादुर राना

3 गोरखा राईफल्स

803	जेसी 607135 एफ	सुबेदार मेजर	भीम प्रसाद
804	जेसी 607507 एफ	सुबेदार मेजर	चोक बहादुर गुरंग
805	जेसी 607464 एक्स	सुबेदार मेजर	राम बहादुर बुरा
806	जेसी 607479 ए	सुबेदार	बुद्धि बहादुर गुरंग
807	जेसी 607710 एक्स	सुबेदार	जगत बहादुर थापा

4 गोरखा राईफल्स

808	जेसी 612366 एफ	सुबेदार मेजर	करण बहादुर थापा
809	जेसी 612591 डब्ल्यू	सुबेदार	आनंद कुमार
810	जेसी 612537 एच	सुबेदार	कृष्णापा राम गुरंग
811	जेसी 612574 डब्ल्यू	सुबेदार	कुल मान पुन
812	जेसी 612556 एन	सुबेदार	प्रेम बहादुर राना
813	जेसी 612588 डब्ल्यू	सुबेदार	समर विजय
814	जेसी 612548 पी	सुबेदार	तरके बहादुर राना

5 गोरखा राईफल्स

815	जेसी 617528 एल	सुबेदार मेजर	गनेश बहादुर थापा
816	जेसी 617543 ए	सुबेदार मेजर	ज्ञान बहादुर गुरंग
817	जेसी 617444 एक्स	सुबेदार मेजर	हिम लाल सिंगजाली
818	जेसी 617382 एच	सुबेदार मेजर	कृष्णा भराली
819	जेसी 617779 पी	सुबेदार	अनिल कुमार राना
820	जेसी 617718 एक्स	सुबेदार	भक्त बहादुर गुरंग
821	जेसी 617859 एम	सुबेदार	धन बहादुर राना
822	जेसी 617566 एफ	सुबेदार	लिला धोज गुरंग
823	जेसी 617516 डब्ल्यू	सुबेदार	लोक बहादुर पुन
824	जेसी 617808 वाइ	सुबेदार	नगेन्द्रा बहादुर थापा

8 गोरखा राईफल्स

825	जेसी 623381 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	भक्ता बहादुर पुन
826	जेसी 623052 ए	सुबेदार मेजर	बिश्नु थापा
827	जेसी 623424 ए	सुबेदार मेजर	हरका बहादुर थापा मगर

828	जेसी 140410 एन	सुबेदार मेजर	टांक प्रसाद शर्मा जी.	आर टी
829	जेसी 623582 पी	सुबेदार	अनिल कुमार गुरंग	
830	जेसी 623699 एन	सुबेदार	बाल बहादुर रोका	
831	जेसी 623479 के	सुबेदार	चेहक बहादुर गुरंग	
832	जेसी 623600 एम	सुबेदार	खरका बहादुर गुरंग	
833	जेसी 623686 डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णा बहादुर गुरंग	
834	जेसी 623604 एच	सुबेदार	लक्ष्मण राना	
835	जेसी 623606 एन	सुबेदार	नारायण बहादुर पुन	
836	जेसी 623444 एन	सुबेदार	पदम सिंह प्रधान	

**9 गोरखा राईफल्स**

837	जेसी 629577 ए	सुबेदार मेजर	केशर बहादुर छत्री, एससी
838	जेसी 629844 डब्ल्यू	सुबेदार	बिश्नु प्रसाद छत्री
839	जेसी 629563 ए	सुबेदार	दिल बहादुर थापा
840	जेसी 629880 एफ	सुबेदार	हरी बहादुर के सी

**11 गोरखा राईफल्स**

841	जेसी 634292 एक्स	सुबेदार मेजर	बिश्नु भक्ता राय
842	जेसी 634136 एन	सुबेदार मेजर	गोपाल प्रसाद प्रधान
843	जेसी 634674 एफ	सुबेदार	बिनय राय
844	जेसी 634661 के	सुबेदार	भरत कुमार एल
845	जेसी 634659 एम	सुबेदार	गोपाल सिंह बिष्ट
846	जेसी 634592 वाइ	सुबेदार	राजेंद्रा कुमार राय
847	जेसी 634760 एम	सुबेदार	राम कुमार राय

**सेना सेवा कोर दक्षिण**

848	जेसी 662258 एन	सुबेदार मेजर	अलाउद्दीन खान
849	जेसी 641845 एल	सुबेदार मेजर	आनन्दन ए
850	जेसी 640786 एक्स	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह पटियाल
851	जेसी 640866 पी	सुबेदार मेजर	बिरेन्द्रा कुमार मिश्रा
852	जेसी 641257 एक्स	सुबेदार मेजर	देश राज जामवाल
853	जेसी 641073 वाइ	सुबेदार मेजर	देवेंदर सिंह
854	जेसी 662363 के	सुबेदार मेजर	दुर्जन सिंह
855	जेसी 641107 एफ	सुबेदार मेजर	हरबंस लाल
856	जेसी 641207 एम	सुबेदार मेजर	कपूर कुमार शर्मा
857	जेसी 662536 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	एम सुब्रमणि
858	जेसी 641505 एच	सुबेदार मेजर	मुकुंदन पी
859	जेसी 641230 ए	सुबेदार मेजर	नन्द किशोर सिंह
860	जेसी 662626 एक्स	सुबेदार मेजर	पी सैमसन

861	जेसी 138178 पी	सुबेदार मेजर	पूरन चद्रा जोशीआर टी
862	जेसी 640864 के	सुबेदार मेजर	राम दत्ता सिंह
863	जेसी 641822 के	सुबेदार मेजर	आर के एस सिंघा
864	जेसी 662460 एफ	सुबेदार मेजर	सुरेश चंद्र
865	जेसी 663957 एल	सुबेदार	अशोक कुमार झा
866	जेसी 663622 एन	सुबेदार	भरत सिंह
867	जेसी 664030 डब्ल्यू	सुबेदार	बिरेन्द्र पाल
868	जेसी 641114 एक्स	सुबेदार	हरीश चंद्र
869	जेसी 663848 वाइ	सुबेदार	जग राम सिंह
870	जेसी 664140 एल	सुबेदार	महाबीर सिंह
871	जेसी 641545 के	सुबेदार	मोहन चरण स्वेन
872	जेसी 664203 एच	सुबेदार	नन्द किशोर
873	जेसी 663085 एन	सुबेदार	ओम पाल
874	जेसी 663509 वाइ	सुबेदार	प्रयाग प्रसाद
875	जेसी 664188 वाइ	सुबेदार	राज बहादुर वर्मा
876	जेसी 663852 एफ	सुबेदार	राम दत्त भट्ट
877	जेसी 663893 एल	सुबेदार	रमेश चन्द यादव
878	जेसी 643024 पी	सुबेदार	रामेश्वर दत्ता द्विवेदी
879	जेसी 663358 एल	सुबेदार	राम शेकाल भगत
880	जेसी 664976 एच	सुबेदार	राठोड़ तेज सिंह
881	जेसी 663326 एच	सुबेदार	आर पांडि
882	जेसी 665049 एफ	सुबेदार	सरत चंद्रा मोहंती
883	जेसी 642740 एन	सुबेदार	सतबीर सिंह
884	जेसी 663536 एच	सुबेदार	एस एम
885	जेसी 664312 पी	सुबेदार	सुबोध कुमार सक्सेना
<u>सेना सेवा कोर जन्तु परिवाहन</u>			

886	जेसी 680660 ए	रिसालदार मेजर	केशर प्रसाद सिंह
887	जेसी 680855 एल	रिसालदार	बिरेन्द्रा सिंह
888	जेसी 680981 एक्स	रिसालदार	हरे राम यादव
889	जेसी 680827 वाइ	रिसालदार	जगत चंद्रा बोराह
890	जेसी 680824 एल	रिसालदार	मन्नू सिंह
891	जेसी 680869 एल	रिसालदार	मंसूर अहमद खान
892	जेसी 680737 एल	रिसालदार	मोहम्मद अकबर अली
893	जेसी 680841 एल	रिसालदार	नवल किशोर चौधरी
894	जेसी 680974 एफ	रिसालदार	ओमकार सिंह
895	जेसी 680854 एच	रिसालदार	रमा कांत
896	जेसी 680939 वाइ	रिसालदार	रमा सुथान के
897	जेसी 680882 पी	रिसालदार	शिबू गुरु रौय

898	जेसी 680942 वाइ	रिसालदार	सुल्तान सिंह	
	<u>सेना चिकित्सा कोर</u>			
899	जेसी 692598 एल	सुबेदार मेजर	अवतार सिंह	
900	जेसी 694334 एच	सुबेदार मेजर	बलदेव राज	
901	जेसी 694014 एन	सुबेदार मेजर	बाज्जी रेडी रवीन्द्र रेडी	
902	जेसी 693540 ए	सुबेदार मेजर	चंद्रा शेखर सिंह नेगी	
903	जेसी 693424 एक्स	सुबेदार मेजर	छात्रा सिंह मेहरा	
904	जेसी 693614 के	सुबेदार मेजर	गुरदयाल सिंह	
905	जेसी 691279 एम	सुबेदार मेजर	गुरदीप सिंह	
906	जेसी 694403 एन	सुबेदार मेजर	कर्म चन्द	
907	जेसी 694489 एक्स	सुबेदार मेजर	लेख राज	
908	जेसी 694345 पी	सुबेदार मेजर	महीपाल सिंह	
909	जेसी 694966 एन	सुबेदार मेजर	मोहम्मद इस्माइल एस के	
910	जेसी 694320 एच	सुबेदार मेजर	मोहन लाल	
911	जेसी 690532 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मुरलीधरन पिल्लई	
912	जेसी 161067 के	सुबेदार मेजर	नरेंद्र नाथ तिवारी	आर टी
913	जेसी 691650 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	ओमबसे अशोक धर्माजी	
914	जेसी 694473 एम	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश	
915	जेसी 694121 पी	सुबेदार मेजर	ओंकार दत्त	
916	जेसी 694569 पी	सुबेदार मेजर	प्रभाकर सिंह	
917	जेसी 693354 के	सुबेदार मेजर	रबीनारायन पंडा	
918	जेसी 694914 एक्स	सुबेदार मेजर	राम बी रौय	
919	जेसी 148702 एल	सुबेदार मेजर	रामेश्वर प्रसाद बी	आर टी
920	जेसी 693011 एन	सुबेदार मेजर	राम रतन	
921	जेसी 694843 एफ	सुबेदार मेजर	रवीन्द्र कुमार	
922	जेसी 692581 एक्स	सुबेदार मेजर	सोमा शेखरन पिल्लई एम	
923	जेसी 694010 एक्स	सुबेदार मेजर	श्रीकांत मिश्रा	
924	जेसी 695329 के	सुबेदार	अजीत सिंह	
925	जेसी 696119 डब्ल्यू	सुबेदार	बाम देव	
926	जेसी 695398 ए	सुबेदार	भानु प्रताप	
927	जेसी 696175 पी	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह	
928	जेसी 695454 एन	सुबेदार	छोटू राम जानागल	
929	जेसी 695351 पी	सुबेदार	हनुमंथू रमा कृष्णन राव	
930	जेसी 693033 एम	सुबेदार	जया कुमार पी बी	
931	जेसी 693870 वाइ	सुबेदार	कश्मीर सिंह	
932	जेसी 695374 डब्ल्यू	सुबेदार	मन्जे गोड़ एम टी	
933	जेसी 693706 डब्ल्यू	सुबेदार	राधे श्याम यादव	
934	जेसी 695594 ए	सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद नदीया	

935	जेसी 695452 एच	सुबेदार	ऋषि केश राय	
936	जेसी 695597 एन	सुबेदार	विनोद कुमार भट्ट	
<u>सेना आयुध कोर</u>				
937	जेसी 723638 एल	सुबेदार मेजर	आसिफ अली खान	
938	जेसी 723885 वाइ	सुबेदार मेजर	देवेन्द्र सिंह सैंगर	
939	जेसी 723726 एफ	सुबेदार मेजर	गोपाल चंद्रा बाला	
940	जेसी 726535 एक्स	सुबेदार मेजर	हरबंस सिंह	
941	जेसी 723641 एल	सुबेदार मेजर	कृष्णन टी	
942	जेसी 723662 एफ	सुबेदार मेजर	मुन्नी लाल	
943	जेसी 723872 एफ	सुबेदार मेजर	पंछू लाल	
944	जेसी 723906 के	सुबेदार मेजर	राय सिंह	
945	जेसी 725925 एन	सुबेदार मेजर	रमेश सिंह	
946	जेसी 726553 ए	सुबेदार मेजर	रामनिवास	
947	जेसी 723901 एल	सुबेदार मेजर	रवीन्द्र सिंह	
948	जेसी 722986 ए	सुबेदार मेजर	संतोष कुमार सिंह	
949	जेसी 724351 ए	सुबेदार मेजर	स्वप्न नंदी	
950	जेसी 723825 के	सुबेदार मेजर	ताजवर सिंह	
951	जेसी 131921 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	टी बहादुर खनकरियाल	आर टी
952	जेसी 726490 एच	सुबेदार	अभे कुमार	
953	जेसी 726660 एफ	सुबेदार	भिर्गु नाथ यादव	
954	जेसी 727211 वाइ	सुबेदार	डी. माली सुब्बा राव	
955	जेसी 726563 के	सुबेदार	गनेश चंद्रा दास	
956	जेसी 726945 एन	सुबेदार	गोपीनाथन पिल्लई वी	
957	जेसी 725725 एक्स	सुबेदार	हनुमान राम	
958	जेसी 727176 एफ	सुबेदार	के सिंह	
959	जेसी 726578 एम	सुबेदार	के जे रत्नम	
960	जेसी 726475 एन	सुबेदार	मोहानन आर	
961	जेसी 720544 वाइ	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	
962	जेसी 727383 एन	सुबेदार	मृदुल बोरा आइ	
963	जेसी 726640 एन	सुबेदार	नज़र मोहम्मद	
964	जेसी 727132 के	सुबेदार	राजेश्वर ठाकुर	
965	जेसी 727636 एक्स	सुबेदार	राम एकबाल चौधरी	
966	जेसी 727164 एम	सुबेदार	राम कुमार	
967	जेसी 726510 एल	सुबेदार	सत्य वीर सिंह	
968	जेसी 726541 एल	सुबेदार	तरीश पाल	
969	जेसी 726474 एल	सुबेदार	यू सिंह इनडे	

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

970	जेसी 754338 एल	सुबेदार मेजर	अजय पाल सिंह	
971	जेसी 749338 एफ	सुबेदार मेजर	अरुण कुमार पांडे	
972	जेसी 756081 के	सुबेदार मेजर	अरुण कुमार सिंह	
973	जेसी 749179 पी	सुबेदार मेजर	बी लक्ष्मी चेन्ना केषवा राव	
974	जेसी 754137 एम	सुबेदार मेजर	बच्छा प्रसाद सिंह	
975	जेसी 754251 के	सुबेदार मेजर	बेरिस्टर तिवारी	
976	जेसी 753816 एक्स	सुबेदार मेजर	भराथा कुमारन सी	
977	जेसी 758770 के	सुबेदार मेजर	गुनेन्द्रा सिंघा	
978	जेसी 758430 एफ	सुबेदार मेजर	हंस बहादुर सिंह	
979	जेसी 748912 एच	सुबेदार मेजर	हरी कुमार केके	
980	जेसी 752970 के	सुबेदार मेजर	हिमांशु शेखर पात्रा	
981	जेसी 755126 एम	सुबेदार मेजर	जोज वरघेसे	
982	जेसी 750353 एच	सुबेदार मेजर	जेपी पांडे	
983	जेसी 753168 ए	सुबेदार मेजर	ज्वाला प्रसाद	
984	जेसी 478762 एन	सुबेदार मेजर	कैलाश चंद्र भट्ट	बीएम
985	जेसी 753097 के	सुबेदार मेजर	खिम सिंह	
986	जेसी 753385 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कुम्भार दत्तात्रिया बाबन राव	
987	जेसी 756895 एच	सुबेदार मेजर	लायक अहेम्मद	
988	जेसी 753904 एन	सुबेदार मेजर	मनी लाल बाबू टी	
989	जेसी 752880 एच	सुबेदार मेजर	नवीन कुमार	
990	जेसी 146676 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	प्रकाश चंद्रा पंत आर टी	
991	जेसी 752584 एक्स	सुबेदार मेजर	पूरन लाल	
992	जेसी 756602 एम	सुबेदार मेजर	राजेश कुमार चौधरी, वीएसएम	
993	जेसी 754187 एक्स	सुबेदार मेजर	राम आशीश सिंह	
994	जेसी 751529 पी	सुबेदार मेजर	रविन्द्र पाल सिंह	
995	जेसी 753346 एक्स	सुबेदार मेजर	संतोष कुमार	
996	जेसी 754104 एफ	सुबेदार मेजर	शोक पी महारुब बाशा	
997	जेसी 753719 ए	सुबेदार मेजर	सोबरन सिंह	
998	जेसी 754280 वाइ	सुबेदार मेजर	सुलखान सिंह	
999	जेसी 752210 एफ	सुबेदार मेजर	सुल्तान सिंह पोरिया	
1000	जेसी 752610 एन	सुबेदार मेजर	एस सिंह	
1001	जेसी 753651 के	सुबेदार मेजर	सुरेंद्र सिंह रावत	
1002	जेसी 146674 एल	सुबेदार मेजर	सुरेश प्रसाद त्रिपाठी	आर टी
1003	जेसी 753907 एफ	सुबेदार मेजर	स्वप्न सोम	
1004	जेसी 762817 एफ	सुबेदार	अमरजीत सिंह	
1005	जेसी 762456 एन	सुबेदार	अर्विन्द कुमार सिन्हा	
1006	जेसी 761723 एक्स	सुबेदार	आज़ाद अहमद	

1007	जेसी 755879	वाइ	सुबेदार	भोला झा
1008	जेसी 760368	वाइ	सुबेदार	बिनोद बिहारी
1009	जेसी 762871	पी	सुबेदार	बिनोदे बिहारी दास
1010	जेसी 762814	एन	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह
1011	जेसी 755444	डब्ल्यू	सुबेदार	बी पांडुरंग राजाराम
1012	जेसी 760214	एम	सुबेदार	बी गुलाबराव
1013	जेसी 751924	एच	सुबेदार	सी अरोचिया दोस
1014	जेसी 754497	एच	सुबेदार	चंद्रा दत्ता शर्मा
1015	जेसी 761794	वाइ	सुबेदार	चंद्रा मोहन सिंह
1016	जेसी 754589	पी	सुबेदार	दादन तिवारी
1017	जेसी 762819	एम	सुबेदार	दया नन्द
1018	जेसी 755192	पी	सुबेदार	देश राम
1019	जेसी 751916	के	सुबेदार	एलांगुवान के
1020	जेसी 754020	एन	सुबेदार	गिरीश च. नाथ
1021	जेसी 757402	एच	सुबेदार	जी. सिंह
1022	जेसी 756440	एम	सुबेदार	जी. नागेस्वर राव
1023	जेसी 761696	वाइ	सुबेदार	हंस राज तिवारी
1024	जेसी 762461	वाइ	सुबेदार	जग मोहन सिंह
1025	जेसी 755625	एफ	सुबेदार	जय भगवान
1026	जेसी 760221	एच	सुबेदार	जया राजन के एम
1027	जेसी 760187	एन	सुबेदार	कामेश्वर ठाकुर
1028	जेसी 760162	एफ	सुबेदार	के सिंघा
1029	जेसी 752386	एम	सुबेदार	कृष्णदू दास
1030	जेसी 760513	एल	सुबेदार	महालिंगम टी
1031	जेसी 756041	एच	सुबेदार	मोहम्मद यासीन
1032	जेसी 762810	एक्स	सुबेदार	मोहन चन्द
1033	जेसी 762873	ए	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह
1034	जेसी 760480	एल	सुबेदार	मुकेश बाबू
1035	जेसी 760227	के	सुबेदार	नन्हें लाल लोधी
1036	जेसी 760670	एक्स	सुबेदार	नीलकंठ मनी सिन्हा
1037	जेसी 757650	वाइ	सुबेदार	नरिपेन चंद्रा मालाकर
1038	जेसी 760188	डब्ल्यू	सुबेदार	पी पदमाजन नायर
1039	जेसी 755148	एल	सुबेदार	प्रवाकर त्रिवेदी
1040	जेसी 755372	एक्स	सुबेदार	रामामूर्ति ए
1041	जेसी 760197	एक्स	सुबेदार	रामेन्द्र नाथ शाह
1042	जेसी 754553	डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश चंद्रा यादव
1043	जेसी 762923	ए	सुबेदार	राम कुमार सिंह
1044	जेसी 762475	वाइ	सुबेदार	रंग नाथ ठाकुर
1045	जेसी 755877	एन	सुबेदार	राहिताश्व लाम्बा



1046	जेसी 762789 ए	सुबेदार	समीर कुमार मैटी
1047	जेसी 755280 एल	सुबेदार	सतेंद्र सिंह बैस
1048	जेसी 761028 एच	सुबेदार	शाजी मैथ्यूज
1049	जेसी 755621 एल	सुबेदार	सुधीर पाल जदाउन
1050	जेसी 760539 ए	सुबेदार	सुखविंदर सिंह
1051	जेसी 763170 एल	सुबेदार	सुरेश चन्द
1052	जेसी 753188 एन	सुबेदार	उमेश कुमार झा
1053	जेसी 760216 एक्स	सुबेदार	उमेश कुमार के
1054	जेसी 756089 डब्ल्यू	सुबेदार	उपेन चंद्रा गोगोई
1055	जेसी 756267 एन	सुबेदार	वेद प्रकाश
1056	जेसी 755104 एन	सुबेदार	विरेन्द्र सिंह यादव
1057	जेसी 760202 एक्स	सुबेदार	वीरेंद्र कुमार पांडे
1058	जेसी 753857 एफ	सुबेदार	डब्ल्यू हेतराम तुलसीराम

सेना शिक्षा कोर

1059	जेसी 802519 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	भूवन चंद्रा भट्ट
1060	जेसी 802509 एम	सुबेदार मेजर	कोमल सिंह
1061	जेसी 802415 पी	सुबेदार मेजर	लालजी उपाध्याय
1062	जेसी 802754 पी	सुबेदार मेजर	आर इस्लाम चौधुरी
1063	जेसी 802207 ए	सुबेदार मेजर	उमेश सिंह
1064	जेसी 803379 एफ	सुबेदार	अशोक कुमार सिंह चौहान
1065	जेसी 803338 एक्स	सुबेदार	बलदेव सिंह
1066	जेसी 803142 के	सुबेदार	बलजीत कुमार
1067	जेसी 802676 एच	सुबेदार	खेम चन्द थालोर
1068	जेसी 802665 डब्ल्यू	सुबेदार	मनवीर शर्मा
1069	जेसी 803601 एक्स	सुबेदार	ओम प्रकाश द्विवेदी
1070	जेसी 803135 एन	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह यादव
1071	जेसी 802947 पी	सुबेदार	उमेश बाबू

रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर

1072	जेसी 797353 एन	रिसालदार मेजर	जनक राज
1073	जेसी 797392 एम	रिसालदार	मोहिन्दर सिंह
1074	जेसी 797376 पी	रिसालदार	प्रसाद सी के

आसुचना कोर

1075	जेसी 810237 एम	सुबेदार मेजर	अर्जुन सिंह शिवरन
1076	जेसी 810103 एन	सुबेदार मेजर	बहादुर सिंह महारा
1077	जेसी 810250 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	नरेन्द्रा सिंह
1078	जेसी 810103 एफ	सुबेदार मेजर	सिंगारा सिंह

1079	जेसी 810136 एन	सुबेदार मेजर	सुखदेव सिंह
1080	जेसी 810735 वाइ	सुबेदार	दालबीर चन्द राना
1081	जेसी 810723 के	सुबेदार	रघुवीर सिंह यादव
1082	जेसी 810699 वाइ	सुबेदार	रनविजय सिंह
1083	जेसी 810593 एम	सुबेदार	श्रवण कुमार
1084	जेसी 810697 एन	सुबेदार	श्रवण सिंह चौहान
1085	जेसी 810710 एम	सुबेदार	शिशु पौल
1086	जेसी 810755 एम	सुबेदार	तस्बीर सिंह
1087	जेसी 810719 एफ	सुबेदार	यादव चन्द

सेना पुलिस कोर

1088	जेसी 818761 पी	सुबेदार मेजर	आनंद कुमार पांडे
1089	जेसी 818733 एच	सुबेदार मेजर	राजन वी के
1090	जेसी 818347 डब्ल्यू	सुबेदार	अर्जुन डी. तिर्केई
1091	जेसी 818439 एच	सुबेदार	के श्रीधर बाबू
1092	जेसी 819151 पी	सुबेदार	मोहन ठाकुर
1093	जेसी 818953 एम	सुबेदार	रमेश लाल जखर
1094	जेसी 819181 एम	सुबेदार	सुरेश प्रसाद यादव

सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

1095	जेसी 826093 वाइ	सुबेदार मेजर	बलवंत सिंह
------	-----------------	--------------	------------

पायोनियर कोर

1096	जेसी 829258 एक्स	सुबेदार मेजर	पी बेहेरा
1097	जेसी 829331 एल	सुबेदार	बालेन्द्रा प्रसाद पाल
1098	जेसी 829365 वाइ	सुबेदार	सुरेश चन्द

सेना डाक सेवा

1099	जेसी 834254 एल	सुबेदार	सूरज पाल यादव
------	----------------	---------	---------------

रक्षा सुरक्षा कोर

1100	जेसी 840705 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	हीरा लाल पटेल
1101	जेसी 840484 पी	सुबेदार मेजर	राजेंद्र सिंह लाम्बा
1102	जेसी 841708 डब्ल्यू	सुबेदार	बसालिगईया हीरामठ
1103	जेसी 841253 एल	सुबेदार	एम कानन्न
1104	जेसी 842203 एम	सुबेदार	राजेंद्र सिंह चौहान
1105	जेसी 841153 ए	सुबेदार	सुरजीत सिंह
1106	जेसी 841771 एल	सुबेदार	सुनील प्रसाद शाही
1107	जेसी 842184 एम	सुबेदार	जिले सिंह

प्रादेशिक सेना

1108	टिजे 4562 पी	सुबेदार	आर बालाथंदयुथम
1109	टिजे 4754 एम	सुबेदार	जगादीश चंद्रा पंडा
1110	टिजे 3937 डब्ल्यू	सुबेदार	केशव चंद्रा कटियार
1111	टिजे 4337 ए	सुबेदार	किशोरी लाल
1112	टिजे 3640 एल	सुबेदार	महेंद्र सिंह
1113	टिजे 4613 एक्स	सुबेदार	मान सिंह
1114	टिजे 4921 ए	सुबेदार	नरिंदर सिंह
1115	टिजे 5031 के	सुबेदार	आर तमिलारसन
1116	टिजे 3893 के	सुबेदार	राम बहादुर सिंह राठोर
1117	टिजे 4640 एच	सुबेदार	राम दास
1118	टिजे 4451 एक्स	सुबेदार	राम लाल
1119	टिजे 4832 वाइ	सुबेदार	सतीश चन्द्र
1120	टिजे 4922 ए	सुबेदार	शाम सिंह
1121	टिजे 4473 डब्ल्यू	सुबेदार	टी शशिकान्त बी
1122	टिजे 4860 एल	सुबेदार	तीरथ राम

क्योत्तिर मंजूरी 26 जनवरी 2000 से अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रूप में

राजपुताना राईफल्स

1. जेसी-144563पी एक्स सूबेदार मेजर सतीश चन्द्र

क्योत्तिर मंजूरी 26 जनवरी 2012 से अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रूप में

तोपखाना रेजीमेन्ट

1. जेसी-369554एन एक्स सूबेदार राजेन्द्र कुमार

[ फा. सं. बी/43432/आईडी-12/ए जी/सी डब्ल्यू-2 ]

जय प्रकाश नेहरा, लै. जनरल, एडजुटेंट जनरल

**MINISTRY OF DEFENCE**

(ARMY BRANCH)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th August, 2012

**No. 10(E) dated 15th August, 2012.**—The President is pleased to grant honorary commission to the rank of Honorary Captain/Lieutenant on the eve of Independence Day 2012 to the undermentioned Honorary Lieutenants/JCOs on active list under para 177 of Regulations for the Army 1987, with effect from 15 August 2012, subject to the individual not being under any disciplinary action and satisfactory continued performance :—

**TO BE HONORARY CAPTAINS****1 HORSE**

1 JC 237635A RIS MAJ &amp; HONY LT BHUP SINGH

**4 HORSE**

2 JC 239734F RIS MAJ &amp; HONY LT BALBIR SINGH

**81 ARMOURED REGIMENT**

3 JC 242624X RIS &amp; HONY LT NARESH KUMAR

**43 ARMOURED REGIMENT**

4 JC 241667A RIS &amp; HONY LT PURUSHOTTAM

**47 ARMOURED REGIMENT**

5 JC 239013X RIS MAJ &amp; HONY LT CHHAGAN SINGH

**6 ARMOURED REGIMENT**

6 JC 241908P RIS &amp; HONY LT ANUPAM LAL

7 JC 243367X RIS &amp; HONY LT RAMESH KUMAR

**12 ARMOURED REGIMENT**

8 JC 238984W RIS &amp; HONY LT ARVIND KUMAR SHARMA

**ARMOURED CORPS**

9 JC 238455K RIS MAJ &amp; HONY LT SOHAN LAL MANGOTRA

**REGIMENT OF ARTILLERY**

10 JC 259791K SUB MAJ &amp; HONY LT BIBHUTI BHUSAN DASH

11 JC 266406X SUB MAJ &amp; HONY LT CHATTAR SINGH

12 JC 258391L SUB MAJ &amp; HONY LT DULESWAR SONAWAL

13 JC 260938F SUB MAJ &amp; HONY LT ISHWAR SINGH

14 JC 268815K SUB MAJ &amp; HONY LT JARNAIL SINGH

15 JC 258597H SUB MAJ &amp; HONY LT KAILASH CHAND YADAV

16 JC 256969K SUB MAJ &amp; HONY LT MAHARUB ALAM

17 JC 160793M SUB MAJ &amp; HONY LT NAWAL KISHOR PATHAK

18	JC 137666L	SUB MAJ & HONY LT	PREM SAGAR PRASAD SHUKLA (RT)
19	JC 259357X	SUB MAJ & HONY LT	RAJESH KUMAR
20	JC 259716A	SUB MAJ & HONY LT	RAMESAN V V
21	JC 261427K	SUB MAJ & HONY LT	SANT KUMAR
22	JC 259872K	SUB MAJ & HONY LT	SURINDER SINGH
23	JC 259852W	SUB MAJ & HONY LT	VIRENDRA SINGH
24	JC 271574A	SUB & HONY LT	BRAJEN CH BARMAN
25	JC 270023H	SUB & HONY LT	DASHARATH SINGH YADAWA
26	JC 269046X	SUB & HONY LT	DEO PRASAD SINGH
27	JC 266800H	SUB & HONY LT	DINESH KUMAR BHARDWAJ
28	JC 267960P	SUB & HONY LT	JANARDAN PRASAD MISHRA
29	JC 269740K	SUB & HONY LT	RAM DEV MEENA
30	JC 270554A	SUB & HONY LT	RAM KISHAN YADAV
31	JC 268447A	SUB & HONY LT	R SURIYASANDAR
32	JC 263678M	SUB & HONY LT	SALUNKHE NARAYAN EKANATH
33	JC 268169X	SUB & HONY LT	SARBJIT SINGH
34	JC 272054F	SUB & HONY LT	SURENDER PRASAD DEWIDI
35	JC 259475L	SUB & HONY LT	SURESH

**ARMY AIR DEFENCE**

36	JC 297465L	SUB MAJ & HONY LT	K B RAMACHANDRAN
37	JC 297578N	SUB MAJ & HONY LT	KASHMIR SINGH
38	JC 299538L	SUB & HONY LT	ASHOK TIWARI
39	JC 299702H	SUB & HONY LT	BIJENDRA SINGH YADAV
40	JC 299294H	SUB & HONY LT	HAQIQAT SINGH
41	JC 300216A	SUB & HONY LT	NARESH PAL SINGH

**MADRAS ENGINEER GROUP**

42	JC 306645X	SUB MAJ & HONY LT	ASHOKA KUMAR K
43	JC 306442N	SUB MAJ & HONY LT	BOJARAJAN
44	JC 306590Y	SUB MAJ & HONY LT	BRAHMANANDAM T
45	JC 306635N	SUB MAJ & HONY LT	C P KALAI AH
46	JC 306591F	SUB MAJ & HONY LT	DELEEP KUMAR OC
47	JC 306634L	SUB MAJ & HONY LT	GOPAL C
48	JC 306424L	SUB MAJ & HONY LT	J MURTHY
49	JC 306475Y	SUB MAJ & HONY LT	PAIDI GOVINDA RAO
50	JC 306448P	SUB MAJ & HONY LT	R MALARVANNAN
51	JC 306434P	SUB MAJ & HONY LT	SUBHENDRAN P
52	JC 306486L	SUB & HONY LT	DASARI VENKAI AH
53	JC 307390P	SUB & HONY LT	SHIDDESHWAR TILAGANJI

**BENGAL ENGINEER GROUP**

54	JC 327810L	SUB MAJ & HONY LT	ATMA SINGH
55	JC 328351K	SUB MAJ & HONY LT	DEEPAK KUMAR THAPA
56	JC 326392P	SUB MAJ & HONY LT	GOPAL SINGH
57	JC 328321M	SUB MAJ & HONY LT	MAN SINGH
58	JC 328314W	SUB MAJ & HONY LT	MANVAR SINGH
59	JC 328322P	SUB MAJ & HONY LT	NIRMAL SINGH
60	JC 330059N	SUB MAJ & HONY LT	TUFAIL KHA J
61	JC 329574N	SUB & HONY LT	CHANCHAL SINGH

62	JC 329555H	SUB & HONY LT	KISHORI LAL
63	JC 329549P	SUB & HONY LT	NAVAL KISHORE
64	JC 329605H	SUB & HONY LT	PREM SINGH
65	JC 329552P	SUB & HONY LT	SHARDA PRASAD
66	JC 329730M	SUB & HONY LT	SHIV KUMAR SINGH

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

67	JC 348661W	SUB MAJ & HONY LT	KAPTAN SINGH
68	JC 348474X	SUB MAJ & HONY LT	PAWAR BABU LAXMAN
69	JC 349753P	SUB & HONY LT	CHANDRA PAL PRAJAPATI
70	JC 350221F	SUB & HONY LT	NAJIR MOHAMMAD
71	JC 350266F	SUB & HONY LT	VIRAM SINGH

**CORPS OF SIGNALS**

72	JC 369250L	SUB MAJ & HONY LT	CHINTHAKAYALA KRISHNA MOORTHY
73	JC 371215F	SUB MAJ & HONY LT	DHARAM PAL
74	JC 369388A	SUB MAJ & HONY LT	DILBAG SINGH DALAL
75	JC 368982P	SUB MAJ & HONY LT	HARDYAL SINGH
76	JC 369390X	SUB MAJ & HONY LT	P JACOB
77	JC 371561X	SUB MAJ & HONY LT	RAM NARAYAN
78	JC 371335A	SUB MAJ & HONY LT	ROMESH CHAND
79	JC 369685N	SUB MAJ & HONY LT	SHAILESH KUMAR RAI
80	JC 370258K	SUB MAJ & HONY LT	SHRI KANT GAUTAM
81	JC 370082K	SUB MAJ & HONY LT	SIVADASAN M
82	JC 371297P	SUB MAJ & HONY LT	SUJAN SINGH
83	JC 372265Y	SUB MAJ & HONY LT	SURAM SINGH
84	JC 372120N	SUB MAJ & HONY LT	VED PRAKASH YADAV
85	JC 375490Y	SUB & HONY LT	MAINEJAR PRASAD
86	JC 372826H	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR CHAUHAN

**THE BRIGADE OF GUARDS**

87	JC 403195P	SUB MAJ & HONY LT	NARESH CHAND
88	JC 402562K	SUB MAJ & HONY LT	RAM DEV
89	JC 403464W	SUB & HONY LT	ANAND BALLABH

**THE PARACHUTE REGIMENT**

90	JC 412460F	SUB MAJ & HONY LT	DHANNA RAM JAKHAR
91	JC 412214W	SUB MAJ & HONY LT	SARBJIT KUMAR
92	JC 412939W	SUB & HONY LT	AVTAR SINGH

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

93	JC 419407Y	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH
94	JC 418864A	SUB MAJ & HONY LT	CHANCHAL SINGH
95	JC 418859P	SUB MAJ & HONY LT	GOPAL SINGH
96	JC 419325W	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH RAM
97	JC 420048H	SUB & HONY LT	RAM CHANDER

**THE PUNJAB REGIMENT**

98	JC 428951F	SUB MAJ & HONY LT	SAWINDER SINGH
99	JC 429191W	SUB MAJ & HONY LT	SUKHDEV CHAUHAN

100	JC 429427A	SUB & HONY LT	JAGJIT SINGH
101	JC 429769N	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR SHARMA

**THE MADRAS REGIMENT**

102	JC 438676A	SUB MAJ & HONY LT	A JOSEPH MAICKAL RAJ
103	JC 438341H	SUB MAJ & HONY LT	BALAKRISHNAN ARIPPA
104	JC 438755P	SUB MAJ & HONY LT	D PONNAIAH
105	JC 438198F	SUB MAJ & HONY LT	JERALD KA
106	JC 438556F	SUB MAJ & HONY LT	RAJAN PK
107	JC 438779Y	SUB MAJ & HONY LT	YADHAVA MURTHI G

**THE GRENADIERS**

108	JC 449258L	SUB MAJ & HONY LT	BAJRANG LAL
109	JC 449331Y	SUB MAJ & HONY LT	BAL RAM
110	JC 450337M	SUB & HONY LT	AJAY KUMAR RATHI
111	JC 450397F	SUB & HONY LT	RAMESH CHAND
112	JC 449869A	SUB & HONY LT	RAM SINGH

**THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

113	JC 458520K	SUB MAJ & HONY LT	JADHAV HARIDAS KONDIRAM
114	JC 458678M	SUB MAJ & HONY LT	KHANDAGALE MARUTI NARAYAN, SM
115	JC 458809M	SUB MAJ & HONY LT	PANDURANG SHAMU DESAI
116	JC 458464W	SUB MAJ & HONY LT	TATYASAB SHANKAR NIDAGUNDE
117	JC 458645F	SUB & HONY LT	SANJIVAN BALASAHEB WASAMKAR
118	JC 459556P	SUB & HONY LT	VITHOBA DATATRAY PATIL

**THE RAJPUTANA RIFLES**

119	JC 468844H	SUB MAJ & HONY LT	MANGE RAM
120	JC 469478W	SUB & HONY LT	ARUN KUMAR SINGH
121	JC 469753L	SUB & HONY LT	BACHHU SINGH
122	JC 469397W	SUB & HONY LT	LADU SINGH
123	JC 469905F	SUB & HONY LT	PARDEEP SINGH
124	JC 470232K	SUB & HONY LT	RAJINDER SINGH

**THE RAJPUT REGIMENT**

125	JC 478593X	SUB MAJ & HONY LT	ANISH KUMAR
126	JC 478602M	SUB MAJ & HONY LT	RAM SINGH
127	JC 478975F	SUB MAJ & HONY LT	RAN BAHADUR SINGH
128	JC 478395M	SUB MAJ & HONY LT	SUDERSON BHATTACHARJEE
129	JC 479728A	SUB & HONY LT	BIJENDER SINGH
130	JC 479626K	SUB & HONY LT	DEVENDRA SINGH TOMAR
131	JC 480147P	SUB & HONY LT	MANOHAR LAL
132	JC 479923X	SUB & HONY LT	SARDAR SINGH

**THE JAT REGIMENT**

133	JC 488869W	SUB MAJ & HONY LT	LEKHRAJ SINGH
134	JC 489039M	SUB MAJ & HONY LT	SURESH KUMAR
135	JC 489735K	SUB & HONY LT	DILBAG SINGH
136	JC 489934X	SUB & HONY LT	HARPHOOL JAT
137	JC 489520L	SUB & HONY LT	RATTAN SINGH, SM

**THE SIKH REGIMENT**

138	JC 498703H	SUB MAJ & HONY LT	BAHADUR SINGH
139	JC 498559Y	SUB MAJ & HONY LT	MANGAL SINGH
140	JC 498699L	SUB MAJ & HONY LT	SUKHVINDER SINGH
141	JC 498801H	SUB MAJ & HONY LT	SURINDER SINGH
142	JC 499347A	SUB & HONY LT	KULWINDER SINGH

**THE SIKH LIGHT INFANTRY**

143	JC 508507Y	SUB MAJ & HONY LT	HARDEV SINGH
144	JC 508706M	SUB MAJ & HONY LT	RANDHIR SINGH NAGAH
145	JC 508980K	SUB & HONY LT	BALWINDER SINGH, SM

**THE DOGRA REGIMENT**

146	JC 519316K	SUB MAJ & HONY LT	HANS RAJ
147	JC 519694H	SUB MAJ & HONY LT	KAMAL SINGH, SM
148	JC 519514P	SUB MAJ & HONY LT	SHAKTI CHAND
149	JC 520633X	SUB & HONY LT	RAM LAL
150	JC 520680P	SUB & HONY LT	TILAK RAJ

**THE GARHWAL RIFLES**

151	JC 528953F	SUB MAJ & HONY LT	ARJUN SINGH BISHT
152	JC 529002W	SUB MAJ & HONY LT	PUSHKAR SINGH TOMAR
153	JC 529028L	SUB MAJ & HONY LT	TOTA KRISHAN
154	JC 530636Y	SUB & HONY LT	DALIP SINGH
155	JC 529831K	SUB & HONY LT	KUNWAR SINGH
156	JC 530413F	SUB & HONY LT	MANMOHAN SINGH, SM

**THE KUMAON REGIMENT**

157	JC 539216A	SUB MAJ & HONY LT	BHUPAL SINGH
158	JC 539223W	SUB MAJ & HONY LT	DEVINDRA SINGH
159	JC 539195P	SUB MAJ & HONY LT	GRISH CHANDRA JOSHI
160	JC 539252L	SUB MAJ & HONY LT	KRISHNA NAND TEWARI
161	JC 539233A	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDRA SINGH ADHIKARI
162	JC 539085A	SUB MAJ & HONY LT	RAMENDRA SINGH
163	JC 539344X	SUB MAJ & HONY LT	SUMITRA NAND JOSHI
164	JC 539567P	SUB & HONY LT	HUKAM SINGH
165	JC 540130N	SUB & HONY LT	NAND LAL YADAV, SM
166	JC 539914H	SUB & HONY LT	RAMVIR SINGH, SM

**THE ASSAM REGIMENT**

167	JC 548434A	SUB MAJ & HONY LT	BINOD TAMULI
168	JC 548484L	SUB MAJ & HONY LT	LUAIKHOMTHANG
169	JC 548376F	SUB MAJ & HONY LT	NIRANCHAND JARAMPUSA
170	JC 549378Y	SUB & HONY LT	HB DILTHU ANAL
171	JC 549195H	SUB & HONY LT	SUREN KUMAR SUBBA

**THE BIHAR REGIMENT**

172	JC 558964H	SUB MAJ & HONY LT	GAURI SHANKAR MISHRA
173	JC 558984W	SUB MAJ & HONY LT	LAL BAHADUR SINGH



174 JC 559278F SUB & HONY LT SARAT CHANDRA SWAIN  
**THE MAHAR REGIMENT**

175 JC 568531Y SUB MAJ & HONY LT RANJIT SINGH  
 176 JC 568669N SUB MAJ & HONY LT SHEKHRANAND  
 177 JC 568679X SUB MAJ & HONY LT SUKHPAL SINGH

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

178 JC 579409H SUB MAJ & HONY LT BALBIR SINGH, SM  
 179 JC 579550K SUB MAJ & HONY LT MAN SINGH  
 180 JC 579120A SUB MAJ & HONY LT PHOOL SINGH YADAV  
 181 JC 579467M SUB MAJ & HONY LT RANJIT JAMWAL  
 182 JC 580130W SUB & HONY LT SUBHASH CHANDER

**THE LADAKH SCOUTS**

183 JC 588260N SUB & HONY LT CHHEWANG DORJE  
 184 JC 588242L SUB & HONY LT THUGJE TASHI, SM

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

185 JC 592466H SUB MAJ & HONY LT MOHD KHURSHID  
 186 JC 592537Y SUB MAJ & HONY LT OM PARKASH  
 187 JC 592528X SUB MAJ & HONY LT RAM LAL  
 188 JC 592710X SUB MAJ & HONY LT SURESH KUMAR  
 189 JC 593282W SUB & HONY LT ASHOK KUMAR  
 190 JC 593073Y SUB & HONY LT BABU RAM  
 191 JC 593188M SUB & HONY LT DARSHAN LAL  
 192 JC 593355X SUB & HONY LT GULZAR AHMAD MIR  
 193 JC 593466P SUB & HONY LT JAWAID AHMED  
 194 JC 593082A SUB & HONY LT MOHD ISMAIL BHAT  
 195 JC 593374L SUB & HONY LT RAJ KUMAR SHARMA, SM  
 196 JC 592579L SUB & HONY LT SHAMSHIR AHMED

**1 GORKHA RIFLES**

197 JC 602370W SUB MAJ & HONY LT DUDH BAHADUR GURUNG  
 198 JC 602437K SUB MAJ & HONY LT PREM BAHADUR THAPA, SM  
 199 JC 602425P SUB MAJ & HONY LT PURNA BAHADUR SARU  
 200 JC 602427A SUB MAJ & HONY LT RAJENDER BAHADUR THAPA, VRC  
 201 JC 602424M SUB MAJ & HONY LT RUDRA BAHADUR THAPA

**3 GORKHA RIFLES**

202 JC 607711A SUB & HONY LT TIKA RAM RANA

**4 GORKHA RIFLES**

203 JC 612355P SUB MAJ & HONY LT PREM KAJI GURUNG, SM  
 204 JC 612576F SUB & HONY LT BIR BAHADUR RANA

**5 GORKHA RIFLES**

205 JC 617509A SUB MAJ & HONY LT GOBARDHAN KHATTRI  
 206 JC 617461X SUB MAJ & HONY LT RACHHA PRASAD SHRESTHA

**8 GORKHA RIFLES**

207 JC 623300L SUB MAJ &amp; HONY LT DAL BIR PUN

**9 GORKHA RIFLES**

208 JC 629525K SUB MAJ &amp; HONY LT KRISHNA BAHADUR ADHIKARI

**11 GORKHA RIFLES**

209 JC 634267Y SUB MAJ &amp; HONY LT KALINDRA PRASAD LIMBU, SM

210 JC 634657F SUB &amp; HONY LT TILAK BAHADUR RAI

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

211 JC 138179X SUB MAJ &amp; HONY LT GHANA NAND RATURI (RT)

212 JC 662965X SUB MAJ &amp; HONY LT MEGHNAD SAHA

213 JC 641212X SUB MAJ &amp; HONY LT NARINDER KUMAR KATOCH

214 JC 640790A SUB MAJ &amp; HONY LT RADHE SHYAM PRASAD SINHA

215 JC 640791H SUB MAJ &amp; HONY LT RASHPAL SINGH BAGHAL

216 JC 641827H SUB MAJ &amp; HONY LT RAVINDER KUMAR

217 JC 641211P SUB MAJ &amp; HONY LT SHESH PAL SHARMA

218 JC 662247F SUB MAJ &amp; HONY LT SUBHASH SINGH

219 JC 640493M SUB MAJ &amp; HONY LT THOMAS ANTONY

220 JC 663359N SUB &amp; HONY LT AJAY KUMAR

**ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)**

221 JC 680823H RIS &amp; HONY LT BINDESHWAR PRASAD

222 JC 680941W RIS &amp; HONY LT NAND KISHORE RAI

223 JC 680914M RIS &amp; HONY LT SRI RAM

**ARMY MEDICAL CORPS**

224 JC 694001W SUB MAJ &amp; HONY LT BAL DEV KISHAN

225 JC 694068P SUB MAJ &amp; HONY LT CHATAN KUMAR GHOSH

226 JC 692580P SUB MAJ &amp; HONY LT G SUNDARA MURTHY

227 JC 694017F SUB MAJ &amp; HONY LT KAMESHWAR SINGH

228 JC 694336N SUB MAJ &amp; HONY LT MANGAL CHAND

229 JC 694315X SUB MAJ &amp; HONY LT NAGAR SINGH

230 JC 694344M SUB MAJ &amp; HONY LT RUP KUMAR SINHA

231 JC 692586W SUB MAJ &amp; HONY LT SYED NAFISUL HASAN ABIDI

232 JC 694390F SUB MAJ &amp; HONY LT UPENDRA PRASAD

**ARMY ORDNANCE CORPS**

233 JC 164878A SUB MAJ &amp; HONY LT AMAR NAND JHA (RT)

234 JC 723650M SUB MAJ &amp; HONY LT BUDHI RAM GOGOI

235 JC 723898W SUB MAJ &amp; HONY LT LAXMI KANTA BEHERA

236 JC 725989Y SUB MAJ &amp; HONY LT MONOHAR SINGH

237 JC 724946X SUB MAJ &amp; HONY LT MUSA KHAN PATHAN

238 JC 723542H SUB MAJ &amp; HONY LT PRADEEP SINGH

239 JC 723276P SUB MAJ &amp; HONY LT RAJINDER SINGH

240 JC 723860M SUB MAJ &amp; HONY LT RAM NARESH PRASAD SINGH

241 JC 725990N SUB MAJ &amp; HONY LT SURAT SINGH

242 JC 726624W SUB &amp; HONY LT PATIL NARAYAN SHANKAR

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**

243	JC 753200K	SUB MAJ & HONY LT	BIRENDRA KUMAR SINGH
244	JC 753352L	SUB MAJ & HONY LT	HARIKAJI GURUNG
245	JC 753548Y	SUB MAJ & HONY LT	JAGBIR SINGH CHOUDHARY
246	JC 752405M	SUB MAJ & HONY LT	NARENDER SINGH BHANDARI
247	JC 753171A	SUB MAJ & HONY LT	PRABHAKAR MISHRA
248	JC 753563N	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH CHANDRA
249	JC 753345P	SUB MAJ & HONY LT	RAM SUDHAR SINGH
250	JC 751419A	SUB MAJ & HONY LT	RAVENDRA SINGH
251	JC 757354N	SUB MAJ & HONY LT	SHAMLAL PATHANIA
252	JC 753161W	SUB MAJ & HONY LT	SHYAM NARAIN TIWARI
253	JC 753239W	SUB MAJ & HONY LT	S MOHAMED IBRAHIM
254	JC 752564K	SUB MAJ & HONY LT	VINOD SINGH RAWAT
255	JC 753553K	SUB MAJ & HONY LT	VIRENDER KUMAR DHIMAN
256	JC 755965K	SUB & HONY LT	BRIJ MOHAN
257	JC 762904P	SUB & HONY LT	JASHADHIR DAS
258	JC 760196P	SUB & HONY LT	PRANAY KRISHNA DEB
259	JC 760370W	SUB & HONY LT	RAM RAJ MAURYA
260	JC 754949A	SUB & HONY LT	ROOP CHAND
261	JC 762818K	SUB & HONY LT	SRIKANT CHOUBEY
262	JC 760212F	SUB & HONY LT	TPL PRASAD RAO
263	JC 752083X	SUB & HONY LT	VED RAM

**ARMY EDUCATION CORPS**

264	JC 802328F	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH SHANKER
265	JC 802716Y	SUB & HONY LT	AVADHESH KUMAR
266	JC 803294L	SUB & HONY LT	BHAGWAN SINGH RAWAT

**REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

267	JC 797476A	RIS & HONY LT	KEDAR PRASAD SINGH
-----	------------	---------------	--------------------

**THE INTELLIGENCE CORPS**

268	JC 810126P	SUB MAJ & HONY LT	RATAN LAL NEN
269	JC 810732L	SUB & HONY-LT	BALRAJ SINGH

**CORPS OF MILITARY POLICE**

270	JC 818741F	SUB MAJ & HONY LT	KUNDAN SINGH
271	JC 818732A	SUB MAJ & HONY LT	TILAK RAJ MEHTA

**THE PIONEER CORPS**

272	JC 829221W	SUB MAJ & HONY LT	RAM PAL
-----	------------	-------------------	---------

**DEFENCE SECURITY CORPS**

273	JC 840531F	SUB MAJ & HONY LT	NK VIJAYAN
274	JC 842003W	SUB & HONY LT	AJIT SINGH
275	JC 842025P	SUB & HONY LT	RAM BHAROS THAKUR

**TERRITORIAL ARMY**

276	TJ 3474L	SUB MAJ & HONT LT	SATENDRA KUMAR
-----	----------	-------------------	----------------

277	TJ 4878F	SUB & HONY LT	BINOBE BABU SINGH
278	TJ 4936A	SUB & HONY LT	DASHRATH SINGH
279	TJ 4268P	SUB & HONY LT	S PALANIMUTHU

### TO BE HONORARY LIEUTENANTS

#### PRESIDENT'S BODY GUARD

1	JC 235031X	RIS MAJ	KALYAN SINGH
<u>7 CAVALRY</u>			
2	JC 240436X	RIS MAJ	CHARAN SINGH
<u>9 HORSE</u>			
3	JC 239293W	RIS MAJ	PYARE LAL
4	JC 239619F	RIS MAJ	SURENDRA SINGH
<u>14 HORSE</u>			
5	JC 239783K	RIS MAJ	RANBIR SINGH
<u>63 CAVALRY</u>			
6	JC 239751F	RIS MAJ	GOPAL SINGH POONIA
7	JC 239996X	RIS MAJ	RAM SWAROOP SINGH
8	JC 241444H	RIS	RAKESH BHADUR SINGH
<u>45 CAVALRY</u>			
9	JC 239019Y	RIS MAJ	CHANDAYYA GOWDA
<u>65 ARMOURED REGIMENT</u>			
10	JC 241952Y	RIS	G HAR RAM
<u>69 ARMOURED REGIMENT</u>			
11	JC 241867W	RIS	BRIJESH KUMAR
<u>82 ARMOURED REGIMENT</u>			
12	JC 238961P	RIS MAJ	KARAN SINGH
<u>85 ARMOURED REGIMENT</u>			
13	JC 237789M	RIS MAJ	RANBIR SINGH
<u>87 ARMOURED REGIMENT</u>			
14	JC 239411Y	RIS MAJ	ATISH KUMAR DAS DEV SARMA
<u>89 ARMOURED REGIMENT</u>			
15	JC 241880A	RIS	GANGA PRASAD PANDEY
<u>41 ARMOURED REGIMENT</u>			
16	JC 242146Y	RIS	OMKAR SINGH CHAUHAN
17	JC 242186A	RIS	SHIV RAM SHARMA
<u>46 ARMOURED REGIMENT</u>			
18	JC 241772W	RIS	PRAHLAD RAM MEENA

**6 ARMoured REGIMENT**

19	JC 243023Y	RIS	RAJ KUMAR
20	JC 243027P	RIS	SATNAM SINGH
21	JC 243365M	RIS	SURENDRAN R
22	JC 243485L	RIS	VIJAY KUMAR
23	JC 243142P	RIS	VIJAY SINGH

**10 ARMoured REGIMENT**

24	JC 237806F	RIS MAJ	KHARADE JAGNATH PANDURANG
----	------------	---------	---------------------------

**12 ARMoured REGIMENT**

25	JC 240571L	RIS	POORAN LAL PALI
----	------------	-----	-----------------

**ARMoured CORPS**

26	JC 238579Y	RIS MAJ	RAMESH PRATAP SINGH
27	JC 239048N	RIS MAJ	SATNAM SINGH BLAGGAN
28	JC 241858P	RIS	GANGA SINGH
29	JC 241942P	RIS	PULIN CHANDRA DAS
30	JC 240976W	RIS	RUSIYA NAYAK
31	JC 241619A	RIS	TEJ SINGH
32	JC 241621X	RIS	VIJAY SINGH

**REGIMENT OF ARTILLERY**

33	JC 262115A	SUB MAJ	AJAB SINGH
34	JC 258396K	SUB MAJ	AKHILESH KUMAR
35	JC 261861W	SUB MAJ	ALEXANDER MATHEW
36	JC 262447K	SUB MAJ	BALWAN SINGH
37	JC 259478Y	SUB MAJ	GARJAN SINGH YADAV
38	JC 264629W	SUB MAJ	G MAKUNTHU
39	JC 263580Y	SUB MAJ	GOPA KUMAR S
40	JC 263239F	SUB MAJ	GURDEV SINGH
41	JC 261194N	SUB MAJ	GURMAIL SINGH
42	JC 262983M	SUB MAJ	GURSHINDER SINGH
43	JC 262118N	SUB MAJ	ISHWAR DAYAL SHARMA
44	JC 260718X	SUB MAJ	JAGDISH CHANDER
45	JC 262599L	SUB MAJ	JAGDISH CHANDER SHARMA
46	JC 262818F	SUB MAJ	JAIPAL SINGH
47	JC 260641A	SUB MAJ	J GOVINDA RAJ
48	JC 261774H	SUB MAJ	JOGINDER SINGH
49	JC 263213M	SUB MAJ	KALI CHARAN DEKA
50	JC 263439X	SUB MAJ	LAL BAHADUR SINGH
51	JC 260415H	SUB MAJ	MAHENDRA DUBEY
52	JC 261581H	SUB MAJ	MANI BALAN P
53	JC 260977A	SUB MAJ	MAN PAL
54	JC 263083P	SUB MAJ	NAGENDRA SINGH
55	JC 262111K	SUB MAJ	PRAMOD KUMAR PANDEY
56	JC 263128K	SUB MAJ	PREM PAL
57	JC 261795Y	SUB MAJ	PRODYUT KUMAR DA S
58	JC 264010P	SUB MAJ	RAJENDRA BAHADUR SINGH

59	JC 142714K	SUB MAJ	RAM ACHAL PANDEY	(RT)
60	JC 261507F	SUB MAJ	RANJIT SINGH	
61	JC 261487Y	SUB MAJ	RATTAN LAL	
62	JC 261658A	SUB MAJ	R PANDIYAN	
63	JC 260031N	SUB MAJ	SURESH KUMAR	
64	JC 260053M	SUB MAJ	SURJIT SINGH	
65	JC 260987K	SUB MAJ	VIJENDRA KUMAR	
66	JC 260979L	SUB MAJ	VISHWAKSEN TRIPATHI	
67	JC 268856N	SUB	AMAR SINGH	
68	JC 261803M	SUB	ARSUL SANDIPAN BHAGWAN RAO	
69	JC 272308N	SUB	BALBIR SINGH	
70	JC 271194F	SUB	BASANT SINGH	
71	JC 269040W	SUB	B CHINNA NARASIMHULU	
72	JC 270118H	SUB	BHOLA NATH	
73	JC 271509A	SUB	BIRENDRA KUMAR SINGH	
74	JC 269389N	SUB	BISHAMBER SINGH RANA	
75	JC 273685W	SUB	CHAMAN LAL	
76	JC 160786W	SUB	DARSHAN SINGH	(RT)
77	JC 269793H	SUB	GANESH KUMAR	
78	JC 270142Y	SUB	GIAN SINGH	
79	JC 270813X	SUB	GORDHAN RAM	
80	JC 271713Y	SUB	GURBAX SINGH	
81	JC 268410Y	SUB	GURDEV SINGH	
82	JC 269990L	SUB	GURNAM SINGH	
83	JC 267317L	SUB	HARISH CHANDRA JOSHI	
84	JC 267420W	SUB	INDERJIT SINGH	
85	JC 265828W	SUB	JAGDISH CHAND	
86	JC 268152K	SUB	JAI PAL SINGH	
87	JC 271090A	SUB	JANKAR SINGH	
88	JC 267542A	SUB	KAMLESH CHANDER	
89	JC 268915P	SUB	KAMLESHWAR PRASAD	
90	JC 265953A	SUB	KARAMBIR	
91	JC 263548K	SUB	KRISHAN MOHAN UPADHYAY	
92	JC 266275X	SUB	L SUBRAMANI	
93	JC 269645X	SUB	MAHENDRA SINGH YADAV	
94	JC 267388M	SUB	MANOJ KUMAR I	
95	JC 269903M	SUB	MOHAN SINGH	
96	JC 272506Y	SUB	NANAK SINGH	
97	JC 269577P	SUB	NARAYAN SINGH	
98	JC 270287K	SUB	NARENDER SINGH	
99	JC 271281P	SUB	OM PARKASH	
100	JC 268394M	SUB	PRASANNAN PILLAI V	
101	JC 274615K	SUB	RAJENDRA PRASAD SHARMA	
102	JC 270633P	SUB	RAJESH KUMAR	
103	JC 270231X	SUB	RAJINDER CHAND	
104	JC 271360K	SUB	RAJ KUMAR	
105	JC 272802K	SUB	RAMA KANT BASHETAKAR	
106	JC 267957P	SUB	RAMESHWAR	
107	JC 267609N	SUB	RAM LAL	
108	JC 267544L	SUB	RAM PRAKASH	

109	JC 271453Y	SUB	RATNESWAR SAIKIA
110	JC 267649P	SUB	RATTAN SINGH
111	JC 269581X	SUB	SAGAR SINGH
112	JC 269615A	SUB	SALUNKE TANAJI NATHOBA
113	JC 268481A	SUB	SATBIR SINGH
114	JC 271135P	SUB	SATWANT SINGH
115	JC 268474K	SUB	SAVENDRA SINGH
116	JC 270779H	SUB	SEVANAND YADAV
117	JC 271484Y	SUB	SHAIKH SHIKANDAR YASIN
118	JC 265791A	SUB	SHEESH RAM
119	JC 268688A	SUB	SHIV DAYAL YADAV
120	JC 269081A	SUB	SUBE SINGH
121	JC 268624P	SUB	SUBHASH CHAND
122	JC 268382X	SUB	SUBHASH CHAND
123	JC 269375N	SUB	SUKHDEV SINGH
124	JC 269540N	SUB	VIDESH KUMAR

**ARMY AIR DEFENCE**

125	JC 296606H	SUB MAJ	CHANDER PRAKASH
126	JC 297679F	SUB MAJ	GANGADHAR TIGADI
127	JC 297155A	SUB MAJ	GURMEL SINGH
128	JC 297453W	SUB MAJ	KARTHIKA ARAJAN P B
129	JC 297825W	SUB MAJ	RAMA SHANKER SHARMA
130	JC 296405K	SUB MAJ	RAM MEHAR SINGH
131	JC 297581N	SUB MAJ	SITA RAM SAMANTA
132	JC 297121M	SUB MAJ	UMED SINGH
133	JC 299875A	SUB	AKHLESH KUMAR PANDEY
134	JC 299610W	SUB	ARJUN SINGH
135	JC 300105H	SUB	BALBIR SINGH
136	JC 299511N	SUB	BRAHM SINGH
137	JC 298791A	SUB	DHARAMVIR SINGH
138	JC 299865W	SUB	KISHORI LAL
139	JC 299617A	SUB	MAHATIM SINGH YADAV
140	JC 299861A	SUB	RADHEY SHYAM MEENA
141	JC 299885K	SUB	RAM NIWAS
142	JC 300531W	SUB	R SEENTIVASAN
143	JC 299906P	SUB	SABH SINGH
144	JC 299881N	SUB	SHEELANAWAR HANAMANT RAMAPPA
145	JC 297251P	SUB	S MURUGESAN
146	JC 298718F	SUB	SUNIL KUMAR
147	JC 299977W	SUB	SWARN SINGH
148	JC 300190W	SUB	TATVIR SINGH

**MADRAS ENGINEER GROUP**

149	JC 307005A	SUB MAJ	A ANTHONY
150	JC 306778N	SUB MAJ	AJITH GOPINATH
151	JC 306443W	SUB MAJ	A ROBERT
152	JC 306734W	SUB MAJ	DALJIT SINGH
153	JC 306477K	SUB MAJ	DHANAPAL
154	JC 306469L	SUB MAJ	GOPINADHAN NAIR PK

155	JC 306861L	SUB MAJ	KRISHNAMOORTHY P
156	JC 306618N	SUB MAJ	KUMAR N
157	JC 306260A	SUB MAJ	L ACHUTHAN
158	JC 306833Y	SUB MAJ	MANI P
159	JC 306596A	SUB MAJ	R SAKER
160	JC 306403P	SUB MAJ	SATERI KEDARI PATIL
161	JC 306458Y	SUB MAJ	SATHYAN OR
162	JC 307108Y	SUB MAJ	SRINIVASAN G
163	JC 306455L	SUB MAJ	SUKUMARAN NAIR S
164	JC 330241N	SUB MAJ	VIJAY KUMAR
165	JC 308736A	SUB	A ANUMAPPAN
166	JC 305967L	SUB	ASHOK KUMAR
167	JC 308101F	SUB	CHENGAPPA YN
168	JC 308358M	SUB	DAVIS KV
169	JC 308694Y	SUB	DHAKSHINA MOORTHY
170	JC 309035W	SUB	JAYARAJAN K
171	JC 306782W	SUB	LOGANATHAN S
172	JC 308576L	SUB	MAKHTUMSAB MULLA
173	JC 308102K	SUB	MALLAPPA HADIMANI
174	JC 308413X	SUB	M GANESAN
175	JC 308119X	SUB	M KESAVAN
176	JC 308314P	SUB	MURALEEDHARAN N
177	JC 308429H	SUB	PARAMESWARAN KB
178	JC 308111L	SUB	P JAYARAJ
179	JC 308711N	SUB	PUPPALA APPLA RAJU
180	JC 308532N	SUB	P VENKATESAN
181	JC 307374X	SUB	RACHAPALLE BHASKARA REDDY
182	JC 308412P	SUB	SAJEEVAN VV
183	JC 308357K	SUB	S ANTHONY JACAB
184	JC 308042A	SUB	SARANGAN K
185	JC 308103M	SUB	SATTARU DHARMARAO
186	JC 308431A	SUB	SEKAR N
187	JC 308880P	SUB	SHAIK MODIN
188	JC 308724L	SUB	SIVADASAN U
189	JC 308572P	SUB	S TAMILARASAN
190	JC 308043H	SUB	TR SEENIVASAN
191	JC 308702M	SUB	U EASURAJAN

**BENGAL ENGINEER GROUP**

192	JC 328182N	SUB MAJ	ATMA SINGH
193	JC 325087W	SUB MAJ	BALJINDER SINGH
194	JC 326542A	SUB MAJ	BOSE KULTHINKAL
195	JC 327884A	SUB MAJ	DARSHAN SINGH SAROE
196	JC 326572X	SUB MAJ	GHAN SHAYAM SINGH BHAKUNI
197	JC 327887N	SUB MAJ	GOVIND SINGH
198	JC 326526H	SUB MAJ	GURJANT SINGH
199	JC 328378F	SUB MAJ	HRIDYA NARAYAN SINGH
200	JC 330090A	SUB MAJ	INDRA DEO GIRI
201	JC 327807L	SUB MAJ	JAGDISH CHANDER
202	JC 328524W	SUB MAJ	JASBIR SINGH



203	JC 327886L	SUB MAJ	KHEDKAR MURLIDHAR RAM RAO	
204	JC 326973M	SUB MAJ	KHEM RAJ	
205	JC 328265Y	SUB MAJ	KHUSHAL SINGH	
206	JC 328377Y	SUB MAJ	MANWAR SINGH	
207	JC 327739H	SUB MAJ	PERUMAL P	
208	JC 325599H	SUB MAJ	PRAKRAM SINGH YADAV	
209	JC 328303K	SUB MAJ	PRASANTA KUMAR PATTANAYAK	
210	JC 327780Y	SUB MAJ	RAMACHANDRAN K	
211	JC 327562A	SUB MAJ	SATYA NARAYAN RAI	
212	JC 224824L	SUB MAJ	SHEO SAHAY	
213	JC 328259L	SUB MAJ	SUDHINDRA NATH BASAK	
214	JC 140994K	SUB MAJ	TIKA PRASAD BAMRARA	(RT)
215	JC 326029Y	SUB MAJ	VIDYA RAM	
216	JC 329400N	SUB	AMAR BAHADUR SINGH	
217	JC 329311P	SUB	ANAND SINGH MEHTA	
218	JC 329312X	SUB	BAL KRISHAN RAM	
219	JC 162473W	SUB	DIGAMBAR PRASAD THAPLIYAL	(RT)
220	JC 338098F	SUB	DIPAK NATH	
221	JC 329310M	SUB	GIRISH CHAND JOSHI	
222	JC 329307M	SUB	KUNWAR SINGH	
223	JC 338240A	SUB	LAKHAN LAL	
224	JC 329478Y	SUB	LAL CHAND SINGH	
225	JC 329994N	SUB	LAXMI KANT	
226	JC 329556L	SUB	MD MOZIBER RAHMAN	
227	JC 328098N	SUB	NARAYAN SINGH	
228	JC 329990X	SUB	PARMA RAM	
229	JC 329301L	SUB	RAMESH CHANDRA	
230	JC 329991A	SUB	RAMSIYA YADAV	
231	JC 327927K	SUB	SHRIKANT MISHRA	

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

232	JC 140997X	SUB MAJ	ACHUTANAND TRIPATHI	(RT)
233	JC 348189Y	SUB MAJ	AMIN CHAND	
234	JC 348938K	SUB MAJ	AMRIK SINGH	
235	JC 327429X	SUB MAJ	ARUN KUMAR SINGH	
236	JC 348751X	SUB MAJ	CHARAN SINGH	
237	JC 349211L	SUB MAJ	CHARAN SINGH	
238	JC 348841Y	SUB MAJ	GURMEL SINGH	
239	JC 348849L	SUB MAJ	HANIF AHMAD	
240	JC 348491X	SUB MAJ	HARBANS SINGH	
241	JC 348519M	SUB MAJ	JADHAV PARSHARAM DATTARAM	
242	JC 348557H	SUB MAJ	JASBIR SINGH	
243	JC 348757Y	SUB MAJ	JOGINDER SINGH	
244	JC 348924K	SUB MAJ	KAILASH CHAND	
245	JC 348624H	SUB MAJ	MOHITE RAJARAM	
246	JC 348471K	SUB MAJ	MOHMAD JANUDIN	
247	JC 330016Y	SUB MAJ	NARAIN SINGH	
248	JC 349041M	SUB MAJ	PATIL VISHWAS RAO GANPAT PAO	
249	JC 347970M	SUB MAJ	RAJESH KUMAR TIWARI	
250	JC 348631Y	SUB MAJ	RAM PAL	

251	JC 348308K	SUB MAJ	SATYA NARAIN BHATHI	
252	JC 348913X	SUB MAJ	SHAMSUDDIN	
253	JC 348434W	SUB MAJ	SRI NIBAS PANDEY	
254	JC 160399F	SUB MAJ	SURYA NATH SHUKLA	(RT)
255	JC 348782X	SUB MAJ	UMRAO LAL SAINI	
256	JC 160401N	SUB MAJ	VIRENDRA SHEKHAR	(RT)
257	JC 350371X	SUB	ABAD MOHAMMAD	
258	JC 350041Y	SUB	BHOOP SINGH	
259	JC 348159F	SUB	CHANDGI RAM	
260	JC 350038Y	SUB	GAIKWAD MARUTI RAMU	
261	JC 350449X	SUB	GURDEV SINGH	
262	JC 350310A	SUB	MAHIMAN SINGH THAPPA	
263	JC 350477K	SUB	PATIL VAMAN RAO DIGAMBAR RAO	
264	JC 350478M	SUB	SANAS YASHAVANT MUGATRAO	
265	JC 348427A	SUB	SAPATAR SINGH	
266	JC 350312L	SUB	SHEDDIK KHAN	
267	JC 350393W	SUB	SINGARA SINGH	
268	JC 350126P	SUB	TARSEM SINGH	

**CORPS OF SIGNALS**

269	JC 371806H	SUB MAJ	ANWER BAIG	
270	JC 371309Y	SUB MAJ	ASHOK KUMAR	
271	JC 371519Y	SUB MAJ	ASHOK KUMAR	
272	JC 371320X	SUB MAJ	ASHWANI KUMAR SHARMA	
273	JC 371636K	SUB MAJ	BALBIR SINGH	
274	JC 371313F	SUB MAJ	DALJIT RAY	
275	JC 367926K	SUB MAJ	DAYA KRISHNA PANDEY	
276	JC 369243P	SUB MAJ	DESH RAJ	
277	JC 373319F	SUB MAJ	GOPIMOHANAN V	
278	JC 367927M	SUB MAJ	GURNAM SINGH	
279	JC 369543W	SUB MAJ	HANSRAJ SHARMA	
280	JC 369238K	SUB MAJ	HARI PAL SINGH	
281	JC 369920F	SUB MAJ	JAGAN SINGH	
282	JC 368541Y	SUB MAJ	JAI RAM OJHA	
283	JC 371647W	SUB MAJ	JAYAN K N	
284	JC 371610P	SUB MAJ	KAILASH CHANDRA GHOSH	
285	JC 371512P	SUB MAJ	KANCHARLA JAYAPRAKASH	
286	JC 371211L	SUB MAJ	KRIPAL SINGH MEHTA	
287	JC 367909K	SUB MAJ	KULDEEP SINGH	
288	JC 370263P	SUB MAJ	LOTAN CHANDRA UPADHYAY	
289	JC 367953N	SUB MAJ	OM PARKASH	
290	JC 371241H	SUB MAJ	OM PRAKASH	
291	JC 372067N	SUB MAJ	PALWINDER SINGH	
292	JC 370845P	SUB MAJ	PIAR CHAND	
293	JC 367940W	SUB MAJ	RABINDER SINGH	
294	JC 369914N	SUB MAJ	RABINDRA KUMAR PATTNAYAK	
295	JC 367952L	SUB MAJ	RAGHBIR SINGH VERMA	
296	JC 368984A	SUB MAJ	RAJPAL	
297	JC 371210H	SUB MAJ	RAJ SINGH	
298	JC 368550A	SUB MAJ	RAMESH CHANDER CHOPRA	

299	JC 367951H	SUB MAJ	RAVI CHAND DHARWAL
300	JC 370264X	SUB MAJ	SARVJEET SINGH
301	JC 370837W	SUB MAJ	SATBIR SINGH
302	JC 367968W	SUB MAJ	SURESH KUMAR
303	JC 371439F	SUB MAJ	SURINDER KUMAR
304	JC 371334X	SUB MAJ	SUSHIL KUMAR SHARMA
305	JC 371905L	SUB MAJ	VASUDEVAN NAIR N
306	JC 370289K	SUB MAJ	YOGENDRA PAL SINGH
307	JC 374915A	SUB	ANIL KUMAR
308	JC 376579X	SUB	ANUP SINGH
309	JC 373464Y	SUB	BIKRAM SINGH
310	JC 376282W	SUB	CHARAN SINGH
311	JC 374727Y	SUB	DHARAMBIR
312	JC 375836X	SUB	DHARAMVIR SINGH
313	JC 377421F	SUB	DINESH CHANDER
314	JC 377353Y	SUB	HARENDRA NATH GHOSH
315	JC 373472X	SUB	HERGOVIND SINGH CHAUHAN
316	JC 376645P	SUB	JAIVIR
317	JC 375650N	SUB	JASWANT SINGH
318	JC 377307K	SUB	KAILASH CHANDAR SWAMI
319	JC 376650A	SUB	LAUTU RAM
320	JC 375795Y	SUB	MOHINDER PAL SINGH
321	JC 376114X	SUB	NAGARAJA
322	JC 375678N	SUB	OM PARKASH
323	JC 375604Y	SUB	OM PRAKASH YADAV
324	JC 376537L	SUB	PRITAM CHAND
325	JC 375101N	SUB	RAJENDRA KUMAR SINGH
326	JC 373673W	SUB	RAM CHARAN
327	JC 377302L	SUB	RAVI DUTT
328	JC 369900N	SUB	SANYASI NAIDU KANTAMU REDDI
329	JC 375854A	SUB	SURENDER SINGH

**THE BRIGADE OF GUARDS**

330	JC 402869P	SUB MAJ	ANIL KUMAR MISHRA
331	JC 402887X	SUB MAJ	HARI SHANKAR YADAV
332	JC 403181P	SUB MAJ	JITENDRA NATH RAI
333	JC 402611F	SUB MAJ	M SAMPATHU
334	JC 403159K	SUB MAJ	RAMOTAR
335	JC 402926L	SUB MAJ	UMA SHANKAR SINGH
336	JC 402858H	SUB MAJ	VASANT KUMAR KAUSHIK
337	JC 403542H	SUB	BAJRANG SINGH
338	JC 403979W	SUB	JAGDISH PRASAD
339	JC 403532Y	SUB	KRISHNA BIHARI
340	JC 403019X	SUB	PREM BAHADUR
341	JC 402333Y	SUB	PRYA VART
342	JC 404004F	SUB	RAJBIR SINGH PANWAR
343	JC 403806Y	SUB	RAJINDER SINGH
344	JC 404181F	SUB	RAM NIWAS
345	JC 403568X	SUB	SULTAN SINGH
346	JC 403859X	SUB	SURESH CHANDRA

**THE PARACHUTE REGIMENT**

347	JC 412339N	SUB MAJ	HIMMAT NATH
348	JC 412315K	SUB MAJ	KHABA RAM, SM
349	JC 412606K	SUB MAJ	T S PRABHAKAR RAO, SM
350	JC 413027K	SUB	DALVIR SINGH MALHOTRA, SM
351	JC 413044K	SUB	JANG BAHADUR THAPA
352	JC 413087Y	SUB	KAMAL SINGH
353	JC 413048A	SUB	KRISHAN SINGH RANA
354	JC 412477P	SUB	RAVINDER SINGH
355	JC 412803M	SUB	UTTAM SINGH
356	JC 412964P	SUB	VIJAY KUMAR

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

357	JC 418832X	SUB MAJ	BALWAN SINGH SM
358	JC 419626A	SUB MAJ	HEM RAJ
359	JC 418922Y	SUB MAJ	NAVAL KISHORE
360	JC 418702P	SUB MAJ	NIRANJAN SINGH
361	JC 418943P	SUB MAJ	RAM BRIKSH SINGH
362	JC 419120F	SUB MAJ	SATBIR SINGH
363	JC 419068K	SUB MAJ	SURESH KUMAR SINGH
364	JC 418894X	SUB MAJ	UMED SINGH
365	JC 420377Y	SUB	ASHOK KUMAR
366	JC 420528M	SUB	HARBANS LAL
367	JC 420767F	SUB	NEPAL SINGH
368	JC 420205K	SUB	ONKAR SINGH
369	JC 420467A	SUB	PARAMJIT SINGH
370	JC 419570Y	SUB	RAJ DEO YADAV
371	JC 419658H	SUB	RASHAN SHEEL
372	JC 420581X	SUB	SANTOSH KUMAR
373	JC 419735M	SUB	SATYWAN

**THE PUNJAB REGIMENT**

374	JC 429187N	SUB MAJ	GOPAL SINGH, SM
375	JC 429246P	SUB MAJ	JAGDISH RAJ
376	JC 428707F	SUB MAJ	JASWINDER SINGH
377	JC 428836F	SUB MAJ	KARNAIL SINGH
378	JC 429041A	SUB MAJ	MOHINDER SINGH DOGRA
379	JC 429264X	SUB MAJ	RANJEET SINGH CHANDEL
380	JC 429298L	SUB MAJ	RUP LAL
381	JC 429234A	SUB MAJ	SAKATTAR SINGH
382	JC 429456I	SUB MAJ	SURJEET SINGH, VSM
383	JC 428936M	SUB MAJ	VIR INDER SHARMA
384	JC 429978L	SUB	BUTI RAM
385	JC 428620A	SUB	CHAMAN LAL
386	JC 430008P	SUB	DHUP SINGH
387	JC 429619X	SUB	GURCHARAN SINGH
388	JC 429672H	SUB	GURMEET SINGH
389	JC 428478F	SUB	HAKAM SINGH
390	JC 429880X	SUB	HARMESH KUMAR

391	JC 429859P	SUB	JAGDISH CHAND
392	JC 429554P	SUB	JAGIR SINGH
393	JC 429929H	SUB	JANK SINGH
394	JC 430311W	SUB	JASWANT SINGH
395	JC 430107X	SUB	JASWANT SINGH
396	JC 430010M	SUB	KAMAL KISHOR
397	JC 430089A	SUB	KRISHAN CHAND
398	JC 429746M	SUB	KULWANT SINGH
399	JC 429461A	SUB	MANJIT SINGH
400	JC 429890F	SUB	MULKH RAJ
401	JC 429413A	SUB	NAND KISHORE VERMA
402	JC 429517F	SUB	NIRMAL SINGH
403	JC 429509H	SUB	PRITAM SINGH
404	JC 429764P	SUB	PURAN SINGH
405	JC 429694F	SUB	RABINDER SINGH
406	JC 429733P	SUB	RANJIT SINGH
407	JC 429064F	SUB	RESHAM SINGH
408	JC 429192Y	SUB	ROOP SINGH
409	JC 429998Y	SUB	SATISH KUMAR
410	JC 429964L	SUB	SAT PAL
411	JC 429875M	SUB	SUBASH CHANDER
412	JC 430127L	SUB	SURINDER PAUL
413	JC 430206A	SUB	TARSEM LAL

**THE MADRAS REGIMENT**

414	JC 438813N	SUB MAJ	BABU M
415	JC 438654F	SUB MAJ	BETTA GOWDA
416	JC 438966X	SUB MAJ	GANESAN S
417	JC 438844N	SUB MAJ	HAREENDRAN KALARIVATTATH
418	JC 438595A	SUB MAJ	JOHN PI
419	JC 438862W	SUB MAJ	MOHANAN KV
420	JC 438817K	SUB MAJ	M PANDIAN
421	JC 439236Y	SUB MAJ	R BALASUBRAMANIAN
422	JC 438758H	SUB MAJ	SHRISHAILA SHILLEENAWAR
423	JC 438424N	SUB MAJ	SUBBALAH AP
424	JC 438675X	SUB MAJ	VIJAYAN H
425	JC 439529K	SUB	ALBERT GANSALVES
426	JC 439804Y	SUB	ANIL KUMAR VG
427	JC 439164A	SUB	BAMMIDI KURMA RAO
428	JC 439612F	SUB	B VELAYUDHAN
429	JC 439399M	SUB	D RAJENDRAN
430	JC 439733H	SUB	KB RAMAKRISHNA
431	JC 439195A	SUB	KOYYANI KRISHNA RAO
432	JC 439520P	SUB	NANDANA KUMAR RS
433	JC 439508N	SUB	P ESWAR KUMAR
434	JC 439626F	SUB	RAJU BM
435	JC 439530Y	SUB	VELAYUDAM E
436	JC 160674W	SUB	VINAYAK BHAT

(RT)

**THE GRENADIERS**

437	JC 449459K	SUB MAJ	AVTAR SINGH
438	JC 449021N	SUB MAJ	DHARAMBIR SINGH
439	JC 449656M	SUB MAJ	MOHAN LAL JAT
440	JC 449345Y	SUB MAJ	RAMESH CHAND
441	JC 449591K	SUB MAJ	RAMESH KUMAR
442	JC 449544M	SUB MAJ	SUKH PAL
443	JC 449340A	SUB MAJ	SURENDRA SINGH
444	JC 449181N	SUB MAJ	TARA SINGH
445	JC 449068Y	SUB MAJ	VIJAI SINGH
446	JC 450679A	SUB	BIRJU SINGH RAJPUT
447	JC 450377N	SUB	HARI PRATAP SINGH
448	JC 450043Y	SUB	KASHMIR SINGH
449	JC 450414W	SUB	KISHORI LAL
450	JC 450052A	SUB	KULDIP SINGH
451	JC 449609P	SUB	LILA RAM KHATANA
452	JC 450029M	SUB	MOTI SINGH
453	JC 450144M	SUB	NIZAMUDDIN
454	JC 450326A	SUB	PIARE RAM, SM
455	JC 449611M	SUB	RAM BABU SINGH
456	JC 450141Y	SUB	RAMESH CHANDER
457	JC 449961Y	SUB	RAVINDER
458	JC 450207K	SUB	SASHI PAL SAINI
459	JC 450660F	SUB	SATYVEER SINGH RAJPUT
460	JC 449692X	SUB	SOLANKI MAGAN BHAI LAKHA BHAI

**THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

461	JC 458665P	SUB MAJ	ARJUN HANUMANT JANGAUDA
462	JC 458526L	SUB MAJ	CHANDE SURESH NARAYAN
463	JC 458784L	SUB MAJ	DILIP ISHWAR GAIKWAD
464	JC 458109Y	SUB MAJ	GIAN CHAND
465	JC 458642N	SUB MAJ	LAXMAN VANDURE
466	JC 458455P	SUB MAJ	MAHAMUNKAR SRIRAM DAGADU
467	JC 458358X	SUB MAJ	MARUTI HONAGEKAR
468	JC 458396N	SUB MAJ	SAKARAM SHANKAR CHALKE
469	JC 458696P	SUB MAJ	S MAHUTHUMEERAN
470	JC 458657W	SUB	BARGE SUDAM SAMPAT
471	JC 458897N	SUB	DHOLE SHIVNATH KUNDLIK
472	JC 458914H	SUB	GORE BALKRISHNA DAGADU
473	JC 459548W	SUB	JADHAV SHANKAR NIVRITTI
474	JC 459371N	SUB	JAGTAP LAXMAN MANAJI
475	JC 459333X	SUB	KADAV ASHOK NANA
476	JC 459182K	SUB	KHAMAKAR BAJIRAO SHANKAR
477	JC 459294K	SUB	SHASHIKANT RAMCHANDRA MHOPADI
478	JC 459383H	SUB	TAWTE DNYANDEV TUKARAM
479	JC 459080N	SUB	VIJAI SINGH

**THE RAJPUTANA RIFLES**

480	JC 469208F	SUB MAJ	BALBIR SINGH
-----	------------	---------	--------------

481	JC 468842X	SUB MAJ	DERAWAR SINGH
482	JC 468919P	SUB MAJ	FARID UDDIN
483	JC 469191Y	SUB MAJ	GIRRAJ SINGH
484	JC 469209K	SUB MAJ	JAGDISH PRASAD JAT, SM
485	JC 469178P	SUB MAJ	KAMLESH SINGH
486	JC 468789X	SUB MAJ	KHET SINGH RATHORE
487	JC 469051M	SUB MAJ	PRATAP SINGH
488	JC 469049P	SUB MAJ	SANG SINGH BHATI
489	JC 469173W	SUB MAJ	SATYAVIR SINGH
490	JC 468843A	SUB MAJ	SUMER SINGH
491	JC 469886F	SUB	AJIT SINGH
492	JC 469734A	SUB	ATTAR SINGH
493	JC 470198P	SUB	BABU LAL CHOUDHARY
494	JC 469698A	SUB	HARI PAL SINGH
495	JC 469385F	SUB	JAIMAL SINGH
496	JC 469726F	SUB	JAI PRAKASH
497	JC 469791F	SUB	KESHAV SINGH
498	JC 470134K	SUB	KISHOR SINGH
499	JC 469370Y	SUB	MAHENDRA KUMAR
500	JC 470275Y	SUB	RAJ BIR
501	JC 469939P	SUB	RAMESH BABU
502	JC 469940K	SUB	RAVINDRA SINGH
503	JC 469424P	SUB	ROTAN SINGH
504	JC 469732P	SUB	SHER SINGH
505	JC 469669L	SUB	SHYAM SINGH
506	JC 469953F	SUB	SURENDER KUMAR

**THE RAJPUT REGIMENT**

507	JC 478804P	SUB MAJ	INDER PAL SINGH
508	JC 478692A	SUB MAJ	MOHAN PAL
509	JC 479032P	SUB MAJ	NARENDRA SINGH
510	JC 478886H	SUB MAJ	RAJ KISHORE
511	JC 478961F	SUB MAJ	SHYAM BABU SINGH
512	JC 478796F	SUB MAJ	SRI PRASAD
513	JC 478842L	SUB MAJ	YESH KUMAR
514	JC 479412N	SUB	AJAY PAL SINGH SM
515	JC 480081K	SUB	ALAM SINGH
516	JC 480223W	SUB	ALLAH VASID
517	JC 479501M	SUB	ANGOOR SINGH
518	JC 479739M	SUB	CHHOTE KHAN
519	JC 479710K	SUB	DINESH SINGH
520	JC 480017M	SUB	KISHAN SINGH
521	JC 480043N	SUB	MAHABIR SINGH
522	JC 479717N	SUB	R KRISHNA MURTHI
523	JC 480026N	SUB	SHIMBHU DAYAL YADAV
524	JC 480117X	SUB	SIDHI NATH
525	JC 479633A	SUB	SUSHIL KUMAR

**THE JAT REGIMENT**

526	JC 488557A	SUB MAJ	AMAR SINGH
-----	------------	---------	------------

527	JC 488983N	SUB MAJ	JAG RAM SINGH	
528	JC 489073M	SUB MAJ	JAIBIR	
529	JC 488902H	SUB MAJ	MOOL CHAND	
530	JC 140405H	SUB MAJ	RADHEY SHYAM TRIPATHI	(RT)
531	JC 488999Y	SUB MAJ	RAM BHAROSI SINGH	
532	JC 488814M	SUB MAJ	SUBHASH CHANDRA	
533	JC 489559X	SUB	GIRDHARI RAM	
534	JC 489656P	SUB	KHYALI RAM	
535	JC 489929M	SUB	LEKH RAJ	
536	JC 489569F	SUB	RAMDEEN CHOUDHARY	
537	JC 489344Y	SUB	RAM KALA	
538	JC 489990W	SUB	RAM NIWAS	
539	JC 489891N	SUB	RAM NIWASH	
540	JC 489604Y	SUB	RAVINDER SINGH	
541	JC 489931K	SUB	SATYAPAL SINGH	
542	JC 489673P	SUB	SITA RAM	
543	JC 489932M	SUB	SONI KUMAR	
544	JC 489930F	SUB	SRIPAL SINGH	
545	JC 489691X	SUB	UTTAM SINGH	
546	JC 489935A	SUB	YUDHVIR	

**THE SIKH REGIMENT**

547	JC 498752L	SUB MAJ	DALBIR SINGH	
548	JC 498740W	SUB MAJ	JAGTAR SINGH	
549	JC 498790F	SUB MAJ	JARNAIL SINGH	
550	JC 498693K	SUB MAJ	JASWANT SINGH	
551	JC 498535P	SUB MAJ	KULDEEP SINGH	
552	JC 498792M	SUB MAJ	KULDIP SINGH, SM	
553	JC 498750A	SUB MAJ	MANJIT SINGH	
554	JC 498608W	SUB MAJ	PREM SINGH	
555	JC 498771W	SUB MAJ	RANDHIR SINGH	
556	JC 498646M	SUB	AMRIK SINGH	
557	JC 499521F	SUB	BALBIR SINGH	
558	JC 499022M	SUB	BALDEV SINGH	
559	JC 499113W	SUB	BHUPINDER SINGH	
560	JC 499162Y	SUB	DARSHAN SINGH	
561	JC 499387F	SUB	HARBHAJAN SINGH	
562	JC 499007X	SUB	JASWANT SINGH	
563	JC 499140A	SUB	JITANDRA KUMAR RAI	
564	JC 499043H	SUB	KASHMIR SINGH	
565	JC 499343K	SUB	SAKATTAR SINGH	
566	JC 499265X	SUB	SHER SINGH, SC	
567	JC 499416L	SUB	SHINGARA SINGH	
568	JC 499461X	SUB	SUKHWINDER SINGH	

**THE SIKH LIGHT INFANTRY**

569	JC 508760A	SUB MAJ	SUCHA SINGH	
570	JC 508351M	SUB MAJ	TARLOK SINGH	
571	JC 509647X	SUB	BALBIR SINGH	
572	JC 509497M	SUB	BALWINDER SINGH	



573	JC 508877Y	SUB	HARMAIL SINGH
574	JC 509579P	SUB	JAGJIT SINGH
575	JC 508373L	SUB	LABH SINGH, SM
576	JC 509393L	SUB	MAJOR SINGH
577	JC 508777N	SUB	PARAMJIT SINGH
578	JC 509595M	SUB	SATPAL SINGH
579	JC 509165H	SUB	SUKHDEV SINGH
580	JC 508881F	SUB	SURINDERPAL SINGH
581	JC 508731L	SUB	TARSEM SINGH

**THE DOGRA REGIMENT**

582	JC 519550A	SUB MAJ	BALWAN SINGH
583	JC 519678L	SUB MAJ	DIDAR SINGH KAUSHAL
584	JC 519461F	SUB MAJ	DINESH SINGH
585	JC 519825H	SUB MAJ	KARAM SINGH
586	JC 519655X	SUB MAJ	KEWAL SINGH
587	JC 519488Y	SUB MAJ	MOHINDER SINGH, SC
588	JC 519864F	SUB MAJ	PERVEEN KUMAR
589	JC 519663H	SUB MAJ	RAMESH KUMAR PATYAL
590	JC 519309N	SUB MAJ	TERATH RAM
591	JC 520820W	SUB	ASWANI KUMAR
592	JC 520824M	SUB	BRINDER SINGH
593	JC 520583X	SUB	HEM RAJ
594	JC 520664X	SUB	HUKAM CHAND
595	JC 520867F	SUB	JOWAN LAL
596	JC 520817W	SUB	KAMAL SINGH
597	JC 520700X	SUB	KULDEEP SINGH
598	JC 520689K	SUB	MILAP CHAND CHAMBEL
599	JC 520221W	SUB	OM PRAKASH
600	JC 520733H	SUB	PARSHOTTAM SINGH
601	JC 520353K	SUB	PREM LAL
602	JC 520663P	SUB	RAM SINGH SAINI
603	JC 520818Y	SUB	SOM DUTT

**THE GARHWAL RIFLES**

604	JC 528799N	SUB MAJ	BALENDRA SINGH
605	JC 529143L	SUB MAJ	BIRENDRA SINGH
606	JC 528993H	SUB MAJ	DEVI PRASAD
607	JC 529343F	SUB MAJ	INDER SINGH
608	JC 138611N	SUB MAJ	INDRA DEV NAUTTYAL
609	JC 528904Y	SUB MAJ	JAGAT SINGH
610	JC 528949Y	SUB MAJ	KUNWAR SINGH
611	JC 528743F	SUB MAJ	NAGMAL SINGH
612	JC 529243W	SUB MAJ	NAND KISHOR
613	JC 529171X	SUB MAJ	RAJBAR SINGH
614	JC 529271H	SUB MAJ	SHIVENDRA KUMAR
615	JC 144223M	SUB MAJ	SURESH CHANDRA JOSHI
616	JC 529104M	SUB MAJ	YASHPAL SINGH
617	JC 530392W	SUB	BHUPENDRA SINGH
618	JC 530487W	SUB	BISHAN DATT

619	JC 530125P	SUB	HARPAL SINGH
620	JC 530453H	SUB	JAIRAJ SINGH
621	JC 529880M	SUB	KHEEM SINGH
622	JC 530261L	SUB	OM PRAKASH PANCHURI
623	JC 530521L	SUB	RAJPAL SINGH RAWAT
624	JC 530296F	SUB	RANJIT SINGH
625	JC 530016H	SUB	SHIVA PRASAD
626	JC 530370X	SUB	SHIVRAJ SINGH
627	JC 530565H	SUB	VIKRAM SINGH

**THE KUMAON REGIMENT**

628	JC 539193K	SUB MAJ	DIWAN SINGH,SM
629	JC 539446N	SUB MAJ	HUKAM SINGH
630	JC 539300A	SUB MAJ	LAXMAN SINGH
631	JC 539349W	SUB MAJ	MOHAN SINGH
632	JC 539192F	SUB MAJ	PRAHLAD SINGH ADHIKARI
633	JC 538859L	SUB MAJ	RAGHBIR SINGH
634	JC 538764L	SUB MAJ	RAJENDRA PRASAD
635	JC 538999X	SUB MAJ	RAMESHWAR DAYAL YADAV
636	JC 539369K	SUB MAJ	RATAN SINGH DEB
637	JC 539291K	SUB MAJ	UMESHWAR SINGH
638	JC 539589M	SUB	ANAND SINGH
639	JC 539840Y	SUB	BAHADUR SINGH
640	JC 539743F	SUB	CHAMU SINGH
641	JC 539772W	SUB	CHANDER SINGH KIRLAULA
642	JC 539820L	SUB	DHARMENDRA SINGH
643	JC 539755W	SUB	JAGAT SINGH
644	JC 539986M	SUB	JAMAN SINGH
645	JC 540029N	SUB	LAL SINGH
646	JC 539822W	SUB	LAXMAN SINGH
647	JC 540090X	SUB	LAXMAN SINGH MEHTA
648	JC 539900H	SUB	LILA DHAR PANDEY
649	JC 540087X	SUB	MADHVA NAND
650	JC 540200F	SUB	MAHADEV BHATT
651	JC 539269Y	SUB	NĀNDAN SINGH
652	JC 540065Y	SUB	NARENDER SINGH
653	JC 539971K	SUB	NARPAT SINGH
654	JC 539862X	SUB	OM PRAKASH
655	JC 540392K	SUB	PADAM SINGH KUNWAR,SM
656	JC 540025X	SUB	PRITHAVI RAJ SINGH
657	JC 539896L	SUB	RABINDRA SINGH KHATI
658	JC 539792K	SUB	RAJENDRA SINGH
659	JC 540145W	SUB	RAJ KUMAR
660	JC 540219A	SUB	SUBE SINGH YADAV
661	JC 539673N	SUB	SURESH LAL SAH
662	JC 539404F	SUB	YABENDAR SINGH

**THE ASSAM REGIMENT**

663	JC 548629L	SUB MAJ	A BINOY SINGHA
664	JC 548574M	SUB MAJ	ASWINI KUMAR SINHA

665	JC 548514X	SUB MAJ	BINOD SINGH
666	JC 548549N	SUB MAJ	BINOY KUMAR BORAH
667	JC 829164A	SUB MAJ	BIRENDRA SINGHA
668	JC 548463P	SUB MAJ	CHANDRA SENA RAJKUMAR
669	JC 548631H	SUB MAJ	DEHI RAM SAIKIA
670	JC 548464X	SUB MAJ	GOPAL SARMAH
671	JC 548744L	SUB MAJ	K JEMES
672	JC 548721K	SUB MAJ	KRISHNA BAHADUR SUNCHEURI
673	JC 548512M	SUB MAJ	RAJINDRA SINGHA
674	JC 548778Y	SUB MAJ	SANTI KUMAR SINHA
675	JC 549381Y	SUB	AGNI BAHADUR CHHETRI
676	JC 548996X	SUB	BARUN CHISIM
677	JC 549042Y	SUB	BHUDESWAR DEORI
678	JC 549554L	SUB	BHUPEN CHETIA
679	JC 549134L	SUB	BS RECOISON ANAL
680	JC 548987W	SUB	CHABILAL THAPA
681	JC 549214H	SUB	DAL BAHADUR DARLAMI
682	JC 549333Y	SUB	KSH MALAYA SINGHA
683	JC 549209X	SUB	LAISHRAM BHOROT SINGH
684	JC 548856L	SUB	PAILOT MARAK
685	JC 549372X	SUB	PAYA ANIVER ANAL
686	JC 172615W	SUB	PS GEORGE
687	JC 548922H	SUB	SR HRINGSHEL ANAL
688	JC 548867X	SUB	UDHAB CHANDRA RAJBONGSI

(RT)

**THE BIHAR REGIMENT**

689	JC 558856Y	SUB MAJ	BAIDHAR NAIK
690	JC 558853L	SUB MAJ	KHEDAN SINGH
691	JC 558985Y	SUB MAJ	MAHENDRA SINGH
692	JC 558959X	SUB MAJ	RAM PRAVESH SINGH
693	JC 558808Y	SUB MAJ	SURESH SINGH
694	JC 559014A	SUB MAJ	WAKIL SINGH
695	JC 559259W	SUB	ANGRESH BARIK
696	JC 559384A	SUB	BABULI NAYAK
697	JC 559338L	SUB	BIJAYA KUMAR SAMAL
698	JC 558694Y	SUB	DHANO TUDU
699	JC 558978H	SUB	JIWAR NAG
700	JC 559349X	SUB	LAKSHUMAN GIRI
701	JC 559458K	SUB	PASCAL TOPPO
702	JC 559653F	SUB	PITAMBAR BIRUWA
703	JC 559832F	SUB	RAM NATH ORAON

**THE MAHAR REGIMENT**

704	JC 568702A	SUB MAJ	BHANDALKAR KISAN DADA
705	JC 568720H	SUB MAJ	BHAWAN SINGH
706	JC 568717H	SUB MAJ	CHET RAM
707	JC 568647P	SUB MAJ	DATTA SURYABHAN GAWAI
708	JC 568610N	SUB MAJ	KAMBLE ASHOK SAYABA
709	JC 568612Y	SUB MAJ	KURANE VIJAY SHIVAJI
710	JC 568885F	SUB MAJ	RAM SINGH TANWAR

711	JC 568764A	SUB MAJ	WAGHMARE ASHOK LINGAPPA
712	JC 569307Y	SUB	BALKAR SINGH
713	JC 569554M	SUB	BIMAL CH BARMAN
714	JC 569329X	SUB	CHANCHAL SINGH
715	JC 569944P	SUB	KULDIP SINGH
716	JC 569285L	SUB	LAXMAN TAMANG
717	JC 569973K	SUB	LILAMANI LAMSAL
718	JC 570202F	SUB	PRAVAKAR LENKA
719	JC 569799H	SUB	SARAT SINGH BISHT

#### THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

720	JC 579219W	SUB MAJ	GIAN SINGH
721	JC 579613F	SUB MAJ	GOPAL SINGH
722	JC 579427L	SUB MAJ	HARI RAM
723	JC 579495Y	SUB MAJ	HEM SINGH
724	JC 579657Y	SUB MAJ	RANJIT SINGH
725	JC 579586H	SUB MAJ	RATTAN CHAND
726	JC 579355M	SUB MAJ	SARWAN SINGH
727	JC 579681P	SUB MAJ	SHIV RAM
728	JC 579364N	SUB MAJ	SOBA RAM
729	JC 579491H	SUB MAJ	SOHAN LAL
730	JC 580483W	SUB	AMARJIT SINGH
731	JC 580030L	SUB	ASHOK KUMAR
732	JC 580287W	SUB	ASHOK KUMAR
733	JC 580178K	SUB	BALWANT SINGH
734	JC 580683M	SUB	BISWA GURUNG
735	JC 580663Y	SUB	HARI BAHADUR THAPA
736	JC 580444X	SUB	JAGAR SINGH
737	JC 580273W	SUB	JAGAT SINGH
738	JC 580043H	SUB	KAMALJIT SINGH
739	JC 580288Y	SUB	KAMAL SINGH
740	JC 580094W	SUB	NAROTAM SINGH
741	JC 579621A	SUB	NIRMAL SINGH JAMWAL
742	JC 580376P	SUB	PREM LAL
743	JC 580135P	SUB	RAJU MALL
744	JC 580568M	SUB	ROMESH CHAND
745	JC 579993L	SUB	SURENDER KUMAR
746	JC 580475X	SUB	SURJEET SHARMA, SM

#### THE LADAKH SCOUTS

747	JC 588279M	SUB	CHHERING PHUNCHOK
748	JC 588318A	SUB	PHUNCHOK CHOSGAIL
749	JC 588266P	SUB	TASHI TUNDUP
750	JC 588322H	SUB	THINLES DORJE
751	JC 588234M	SUB	THUKJE LORDAN

#### THE NAGA REGIMENT

752	JC 590017P	SUB MAJ	B D BENGAM ANAL
753	JC 590169W	SUB	K HEKHUVI SEMA
754	JC 590184L	SUB	MUNNA SINGH THAPA

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

755	JC 592621Y	SUB MAJ	MANZOOR AHMAD BHAT, SM
756	JC 592554Y	SUB MAJ	RAJENDER SINGH
757	JC 592429P	SUB MAJ	RANBIR SINGH
758	JC 592556K	SUB MAJ	SADIQ HUSSAIN
759	JC 592762N	SUB MAJ	SAT PAUL
760	JC 592667F	SUB MAJ	VIJAY KUMAR
761	JC 593513F	SUB	BALBIR KUMAR
762	JC 593389L	SUB	BALWANT RAJ
763	JC 592898X	SUB	DEV RAJ
764	JC 593036L	SUB	FATEH SINGH
765	JC 592990W	SUB	GH MOHI DIN WANI
766	JC 592830W	SUB	HARBANS LAL
767	JC 593732H	SUB	HARI SINGH
768	JC 592799P	SUB	HARKESH KUMAR SHARMA
769	JC 593197N	SUB	HARMINDER PAUL
770	JC 593138F	SUB	JAGAR RAM
771	JC 592966A	SUB	JASWANT SINGH
772	JC 593483P	SUB	JOGINDER SINGH
773	JC 593224M	SUB	KHAZAN CHAND
774	JC 593359N	SUB	KULDEEP SINGH
775	JC 593091F	SUB	LAL HUSSAIN
776	JC 592775L	SUB	MANGAT RAM
777	JC 593011Y	SUB	MOHD IQBAL
778	JC 592812N	SUB	MOHD SADIQ
779	JC 593003A	SUB	MOHINDER LAL
780	JC 593335K	SUB	MOHMAD ASIF
781	JC 593490L	SUB	NARINDER KUMAR
782	JC 593306P	SUB	PREM SINGH
783	JC 593545K	SUB	RAGHBIR SINGH
784	JC 593679H	SUB	RAJ KRISHAN
785	JC 592996X	SUB	RATTAN CHAND
786	JC 593261A	SUB	RATTAN SINGH
787	JC 592897P	SUB	SAGAR SINGH
788	JC 593294L	SUB	SAT PAL
789	JC 592705M	SUB	SAT PAL
790	JC 592689A	SUB	SHAM LAL
791	JC 593318K	SUB	SHAM LAL
792	JC 593074F	SUB	SURINDER SINGH
793	JC 593710K	SUB	TARSEM LAL SAINI
794	JC 592995P	SUB	VED PARKASH
795	JC 592616N	SUB	VIJAY KUMAR
796	JC 593395Y	SUB	VIJAY KUMAR
797	JC 593380W	SUB	VIR BHAN
798	JC 593661M	SUB	YOG RAJ

**1 GORKHA RIFLES**

799	JC 602431H	SUB MAJ	UPENDRA THAPA
800	JC 602782X	SUB	KUL BAHADUR SHRESTHA

801	JC 602704A	SUB	RAJESH BABLY GURUNG	
802	JC 602682M	SUB	TAP BAHADUR RANA	
<b><u>3 GORKHA RIFLES</u></b>				
803	JC 607135F	SUB MAJ	BHIM PRASAD	
804	JC 607507F	SUB MAJ	CHOK BAHADUR GURUNG	
805	JC 607464X	SUB MAJ	RAM BAHADUR BURA	
806	JC 607479A	SUB	BUDDHI BAHADUR GURUNG	
807	JC 607710X	SUB	JAGAT BAHADUR THAPA	
<b><u>4 GORKHA RIFLES</u></b>				
808	JC 612366F	SUB MAJ	KARNA BAHADUR THAPA	
809	JC 612591W	SUB	ANAND KUMAR	
810	JC 612537H	SUB	KRIPA RAM GURUNG	
811	JC 612574W	SUB	KUL MAN PUN	
812	JC 612556N	SUB	PREM BAHADUR RANA	
813	JC 612588W	SUB	SAMAR VIJAY	
814	JC 612548P	SUB	TARKA BAHADUR RANA	
<b><u>5 GORKHA RIFLES</u></b>				
815	JC 617528L	SUB MAJ	GANESH BAHADUR THAPA	
816	JC 617543A	SUB MAJ	GIAN BAHADUR GURUNG	
817	JC 617444X	SUB MAJ	HIM LAL SINGJALI	
818	JC 617382H	SUB MAJ	KRISHNA BHARALI	
819	JC 617779P	SUB	ANIL KUMAR RANA	
820	JC 617718X	SUB	BHAKAT BAHADUR GURUNG	
821	JC 617859M	SUB	DHAN BAHADUR RANA	
822	JC 617566F	SUB	LILA DHOJ GURUNG	
823	JC 617516W	SUB	LOK BAHADUR PUN	
824	JC 617808Y	SUB	NAGENDRA BAHADUR THAPA	
<b><u>8 GORKHA RIFLES</u></b>				
825	JC 623381W	SUB MAJ	BHAKTA BAHADUR PUN	
826	JC 623052A	SUB MAJ	BISHNU THAPA	
827	JC 623424A	SUB MAJ	HARKA BAHADUR THAPA MAGAR	
828	JC 140410N	SUB MAJ	TANK PRASAD SHARMA GEWALI	(RT)
829	JC 623582P	SUB	ANIL KUMAR GURUNG	
830	JC 623699N	SUB	BAL BAHADUR ROKA	
831	JC 623479K	SUB	CHHAK BAHADUR GURUNG	
832	JC 623600M	SUB	KHARKA BAHADUR GURUNG	
833	JC 623686W	SUB	KRISHNA BAHADUR GURUNG	
834	JC 623604H	SUB	LUXMAN RANA	
835	JC 623606N	SUB	NARAYAN BAHADUR PUN	
836	JC 623444N	SUB	PADAM SINGH PRADHAN	
<b><u>9 GORKHA RIFLES</u></b>				
837	JC 629577A	SUB MAJ	KESHAR BAHADUR CHHETRI, SC	
838	JC 629844W	SUB	BISHNU PRASAD CHHETRI	
839	JC 629563A	SUB	DIL BAHADUR THAPA	
840	JC 629880F	SUB	HARI BAHADUR K C	

**11 GORKHA RIFLES**

841	JC 634292X	SUB MAJ	BISHNU BHAKTA RAI
842	JC 634136N	SUB MAJ	GOPAL PRASAD PRADHAN
843	JC 634674F	SUB	BENOY RAI
844	JC 634661K	SUB	BHARAT KUMAR LOKTAM
845	JC 634659M	SUB	GOPAL SINGH BISHT
846	JC 634592Y	SUB	RAJENDRA KUMAR RAI
847	JC 634760M	SUB	RAM KUMAR RAI

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

848	JC 662258N	SUB MAJ	ALAUDDIN KHAN
849	JC 641845L	SUB MAJ	ANANDAN A
850	JC 640786X	SUB MAJ	BALBIR SINGH PATIAL
851	JC 640866P	SUB MAJ	BIRENDRA KUMAR MISHRA
852	JC 641257X	SUB MAJ	DESH RAJ JAMWAL
853	JC 641073Y	SUB MAJ	DEVENDAR SINGH
854	JC 662363K	SUB MAJ	DURJAN SINGH
855	JC 641107F	SUB MAJ	HARBANS LAL
856	JC 641207M	SUB MAJ	KAPOOR KUMAR SHARMA
857	JC 662536W	SUB MAJ	M SUBRAMANI
858	JC 641505H	SUB MAJ	MUKUNDAN P
859	JC 641230A	SUB MAJ	NAND KISHORE SINGH
860	JC 662626X	SUB MAJ	P SAMSON
861	JC 138178P	SUB MAJ	PURAN CHANDRA JOSHI (RT)
862	JC 640864K	SUB MAJ	RAM DUTTA SINGH
863	JC 641822K	SUB MAJ	RK SANJAYAIMA SINGHA
864	JC 662460F	SUB MAJ	SURESH CHANDER
865	JC 663957L	SUB	ASHOK KUMAR JHA
866	JC 663622N	SUB	BHARAT SINGH
867	JC 664030W	SUB	BIRENDAR PAL
868	JC 641114X	SUB	HARISH CHANDER
869	JC 663848Y	SUB	JAG RAM SINGH
870	JC 664140L	SUB	MAHABIR SINGH
871	JC 641545K	SUB	MOHAN CHARAN SWAIN
872	JC 664203H	SUB	NAND KISHORE
873	JC 663085N	SUB	OM PAL
874	JC 663509Y	SUB	PRAYAG PRASAD
875	JC 664188Y	SUB	RAJ BAHADUR VERMA
876	JC 663852F	SUB	RAM DATT BHATT
877	JC 663893L	SUB	RAMESH CHAND YADAV
878	JC 643024P	SUB	RAMESHWAR DUTTA DWIVEDI
879	JC 663358L	SUB	RAM SHAKAL BHAGAT
880	JC 664976H	SUB	RATHOR TEJ SINGH
881	JC 663326H	SUB	R PANDI
882	JC 665049F	SUB	SARAT CHANDRA MOHANTY
883	JC 642740N	SUB	SATBIR SINGH
884	JC 663536H	SUB	S MUNIRAJU
885	JC 664312P	SUB	SUBODH KUMAR SAXENA

**ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)**

886	JC 680660A	RIS MAJ	KESHAR PRASAD SINGH
887	JC 680855L	RIS	BIRENDRA SINGH
888	JC 680981X	RIS	HARE RAM YADAV
889	JC 680827Y	RIS	JAGAT CHANDRA BORAH
890	JC 680824L	RIS	MANNU SINGH
891	JC 680869L	RIS	MANSOOR AHMED KHAN
892	JC 680757L	RIS	MD AKBAR ALI
893	JC 680841L	RIS	NAVAL KISHORE CHOUDHARY
894	JC 680974F	RIS	OMKAR SINGH
895	JC 680854H	RIS	RAMA KANT
896	JC 680939Y	RIS	RAMA SUTHAN K
897	JC 680882P	RIS	SHIBU GURU ROY
898	JC 680942Y	RIS	SULTAN SINGH

**ARMY MEDICAL CORPS**

899	JC 692598L	SUB MAJ	AVTAR SINGH	
900	JC 694334H	SUB MAJ	BALDEV RAJ	
901	JC 694014N	SUB MAJ	BOJJI REDDY RAVINDRA REDDY	
902	JC 693540A	SUB MAJ	CHANDRA SHEKHAR SINGH NEGI	
903	JC 693424X	SUB MAJ	CHHATRA SINGH MEHRA	
904	JC 693614K	SUB MAJ	GURDAYAL SINGH	
905	JC 691279M	SUB MAJ	GURDIP SINGH	
906	JC 694403N	SUB MAJ	KARAM CHAND	
907	JC 694489X	SUB MAJ	LEKH RAJ	
908	JC 694345P	SUB MAJ	MAHIPAL SINGH	
909	JC 694966N	SUB MAJ	MD ESMAIL S K	
910	JC 694320H	SUB MAJ	MOHAN LAL	
911	JC 690532W	SUB MAJ	MURALEEDHARAN PILLAI	
912	JC 161067K	SUB MAJ	NARENDER NATH TIWARI	(RT)
913	JC 691650W	SUB MAJ	OMBASE ASHOK DHARMAJI	
914	JC 694473M	SUB MAJ	OM PRAKASH	
915	JC 694121P	SUB MAJ	ONKAR DATT	
916	JC 694569P	SUB MAJ	PRABHAKER SINGH	
917	JC 693354K	SUB MAJ	RABINARAYAN PANDA	
918	JC 694914X	SUB MAJ	RAM BILOK ROY	
919	JC 148702L	SUB MAJ	RAMESHWAR PRASAD BABELE	(RT)
920	JC 693011N	SUB MAJ	RAM RATTAN	
921	JC 694843F	SUB MAJ	RAVINDRA KUMAR	
922	JC 692581X	SUB MAJ	SOMA SEKHARAN PILLAI M	
923	JC 694010X	SUB MAJ	SRIKANT MISHRA	
924	JC 695329K	SUB	AJIT SINGH	
925	JC 696119W	SUB	BAM DEV	
926	JC 695398A	SUB	BHANU PRATAP	
927	JC 696175P	SUB	BIRENDAR SINGH	
928	JC 695454N	SUB	CHHOTU RAM JANAGAL	
929	JC 695351P	SUB	HANUMANTHU RAMA KRISHAN RAO	
930	JC 693033M	SUB	JAYA KUMAR P B	
931	JC 693870Y	SUB	KASHMIR SINGH	



932	JC 695374W	SUB	MANJE GOWDA M T
933	JC 693706W	SUB	RADHEY SHYAM YADAV
934	JC 695594A	SUB	RAJENDER PRASAD NADIA
935	JC 695452H	SUB	RISHI KESH RAI
936	JC 695597N	SUB	VINOD KUMAR BHATT

**ARMY ORDNANCE CORPS**

937	JC 723638L	SUB MAJ	ASIF ALI KHAN
938	JC 723885Y	SUB MAJ	DEVENDRA SINGH SENGAR
939	JC 723726F	SUB MAJ	GOPAL CHANDRA BALA
940	JC 726535X	SUB MAJ	HARBANS SINGH
941	JC 723641L	SUB MAJ	KRISHNAN T
942	JC 723662F	SUB MAJ	MUNNI LAL
943	JC 723872F	SUB MAJ	PANCHOO LAL
944	JC 723906K	SUB MAJ	RAI SINGH
945	JC 725925N	SUB MAJ	RAMESH SINGH
946	JC 726553A	SUB MAJ	RAMNIWAS
947	JC 723901L	SUB MAJ	RAVINDER SINGH
948	JC 722986A	SUB MAJ	SANTOSH KUMAR SINGH
949	JC 724351A	SUB MAJ	SWAPAN NANDI
950	JC 723825K	SUB MAJ	TAJWAR SINGH
951	JC 131921W	SUB MAJ	THAG BAHADUR KHANKRIYAL (RT)
952	JC 726490H	SUB	ABHAY KUMAR
953	JC 726660F	SUB	BHIRGU NATH YADAV
954	JC 727211Y	SUB	DUKKU MALI SUBBA RAO
955	JC 726563K	SUB	GANESH CHANDRA DAS
956	JC 726945N	SUB	GOPINADHAN PILLAI V
957	JC 725725X	SUB	HANUMAN RAM
958	JC 727176F	SUB	KARUA SINGH
959	JC 726578M	SUB	KOLLABATHULA JNANA RATNAM
960	JC 726475N	SUB	MOHANAN R
961	JC 726544Y	SUB	MOHINDER SINGH
962	JC 727383N	SUB	MRIDUL BORA I
963	JC 726640N	SUB	NAZAR MOHMAD
964	JC 727132K	SUB	RAJESHWAR THAKUR
965	JC 727636X	SUB	RAM AKBAL CHOUDHARY
966	JC 727164M	SUB	RAM KUMAR
967	JC 726510L	SUB	SATYA VEER SINGH
968	JC 726541L	SUB	TRISH PAL
969	JC 726474L	SUB	UMMAID SINGH INDA

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**

970	JC 754338L	SUB MAJ	AJAI PAL SINGH
971	JC 749338F	SUB MAJ	ARUN KUMAR PANDEY
972	JC 756081K	SUB MAJ	ARUN KUMAR SINGH
973	JC 749179P	SUB MAJ	B LAKSHMI CHENNA KESAVA RAO
974	JC 754137M	SUB MAJ	BACHCHA PRASAD SINGH
975	JC 754251K	SUB MAJ	BARISTER TIWARI
976	JC 753816X	SUB MAJ	BHARATHA KUMARAN C
977	JC 758770K	SUB MAJ	GUNINDRA SINGHA

978	JC 758430F	SUB MAJ	HANS BAHADUR SINGH	
979	JC 748912H	SUB MAJ	HARI KUMAR KK	
980	JC 752970K	SUB MAJ	HIMANSU SEKHAR PATRA	
981	JC 755126M	SUB MAJ	JOSE VARGHESE	
982	JC 750353H	SUB MAJ	JP PANDEY	
983	JC 753168A	SUB MAJ	JWALA PRASAD	
984	JC 478762N	SUB MAJ	KAILASH CHANDER BHATT	(BM)
985	JC 753097K	SUB MAJ	KHIM SINGH	
986	JC 753385W	SUB MAJ	KUMBHAR DATTATRAYA BABAN RAO	
987	JC 756895H	SUB MAJ	LAIK AHEMMAD	
988	JC 753904N	SUB MAJ	MANI LAL BABU THEKKEVALIYAVALLAPPIL	
989	JC 752880H	SUB MAJ	NAVEEN KUMAR	
990	JC 146676W	SUB MAJ	PRAKASH CHANDRA PANT	(RT)
991	JC 752584X	SUB MAJ	PURAN LAL	
992	JC 756602M	SUB MAJ	RAJESH KUMAR CHOUDHARY, VSM	
993	JC 754187X	SUB MAJ	RAM ASHISH SINGH	
994	JC 751529P	SUB MAJ	RAVENDRA PAL SINGH	
995	JC 753346X	SUB MAJ	SANTOSH KUMAR	
996	JC 754104F	SUB MAJ	SHAIK PALMATI MAHABOOB BASHA	
997	JC 753719A	SUB MAJ	SOBARAN SINGH	
998	JC 754280Y	SUB MAJ	SULAKHAN SINGH	
999	JC 752210F	SUB MAJ	SULTAN SINGH PORIYA	
1000	JC 752610N	SUB MAJ	SUNEHRA SINGH	
1001	JC 753651K	SUB MAJ	SURENDER SINGH RAWAT	
1002	JC 146674L	SUB MAJ	SURESH PRASAD TRIPATHI	(RT)
1003	JC 753907F	SUB MAJ	SWAPAN SOM	
1004	JC 762817F	SUB	AMARJEET SINGH	
1005	JC 762456N	SUB	ARVIND KUMAR SINHA	
1006	JC 761723X	SUB	AZAD AHMED	
1007	JC 755879Y	SUB	BHOLA JHA	
1008	JC 760368Y	SUB	BINOD BIHARI	
1009	JC 762871P	SUB	BINODE BEHARI DAS	
1010	JC 762814N	SUB	BIRENDER SINGH	
1011	JC 755444W	SUB	BORASE PANDURANG RAJARAM	
1012	JC 760214M	SUB	BORASE GULABRAO	
1013	JC 751924H	SUB	C AROCKIA DOSS	
1014	JC 754497H	SUB	CHANDRA DUTTA SHARMA	
1015	JC 761794Y	SUB	CHANDRA MOHAN SINGH	
1016	JC 754589P	SUB	DADAN TIWARI	
1017	JC 762819M	SUB	DAYA NAND	
1018	JC 755192P	SUB	DESH RAM	
1019	JC 751916K	SUB	ELANGOVAN K	
1020	JC 754020N	SUB	GIRISH CH NATH	
1021	JC 757402H	SUB	GOLAB SINGH	
1022	JC 756440M	SUB	GUNTURI NAGESWARA RAO	
1023	JC 761696Y	SUB	HANS RAJ TIWARI	
1024	JC 762461Y	SUB	JAG MOHAN SINGH	
1025	JC 755625F	SUB	JAI BHAGWAN	
1026	JC 760221H	SUB	JAYA RAJAN K M	
1027	JC 760187N	SUB	KAMESHWAR THAKUR	

1028	JC 760162F	SUB	KRISHNADHAN SINGHA
1029	JC 752386M	SUB	KRISHNENDU DAS
1030	JC 760513L	SUB	MAHALINGAM T
1031	JC 756041H	SUB	MOHAMMED YASIN
1032	JC 762810X	SUB	MOHAN CHAND
1033	JC 762873A	SUB	MOHINDER SINGH
1034	JC 760480L	SUB	MUKESH BABU
1035	JC 760227K	SUB	NANHE LAL LODHI
1036	JC 760670X	SUB	NIL MANI SINHA
1037	JC 757650Y	SUB	NRIPEN CHANDRA MALAKAR
1038	JC 760188W	SUB	P PADMAJAN NAIR
1039	JC 755148L	SUB	PRAVAKAR TRIVEDI
1040	JC 755372X	SUB	RAMAMOORTHY A
1041	JC 760197X	SUB	RAMENDRA NATH SHAH
1042	JC 754553W	SUB	RAMESH CHANDRA YADAV
1043	JC 762923A	SUB	RAM KUMAR SINGH
1044	JC 762475Y	SUB	RANG NATH THAKUR
1045	JC 755877N	SUB	ROHITASHVA LAMBA
1046	JC 762789A	SUB	SAMIR KUMAR MAITI
1047	JC 755280L	SUB	SATENDRA SINGH BAIS
1048	JC 761028H	SUB	SHAJI MATHEWS
1049	JC 755621L	SUB	SUDHIR PAL JADAUN
1050	JC 760539A	SUB	SUKHWINDER SINGH
1051	JC 763170L	SUB	SURESH CHAND
1052	JC 753188N	SUB	UMESH KUMAR JHA
1053	JC 760216X	SUB	UMESH KUMAR KAKAD
1054	JC 756089W	SUB	UPEN CHANDRA GOGOI
1055	JC 756267N	SUB	VED PRAKASH
1056	JC 755104N	SUB	VIRENDER SINGH YADAV
1057	JC 760202X	SUB	VIRENDRA KUMAR PANDEY
1058	JC 753857F	SUB	WATI HETRAM TULSIRAM

**ARMY EDUCATION CORPS**

1059	JC 802519W	SUB MAJ	BHUWAN CHANDRA BHATT
1060	JC 802509M	SUB MAJ	KOMAL SINGH
1061	JC 802415P	SUB MAJ	LALJI UPADHYAY
1062	JC 802754P	SUB MAJ	RASIDUL ISLAM CHOUDHURY
1063	JC 802207A	SUB MAJ	UMESH SINGH
1064	JC 803379F	SUB	ASHOK KUMAR SINGH CHAUHAN
1065	JC 803338X	SUB	BALDEV SINGH
1066	JC 803142K	SUB	BALJIT KUMAR
1067	JC 802676H	SUB	KHEM CHAND THALOR
1068	JC 802665W	SUB	MANVIR SHARMA
1069	JC 803601X	SUB	OM PRAKASH DWIVEDI
1070	JC 803135N	SUB	SURENDER SINGH YADAV
1071	JC 802947P	SUB	UMESH BABOO

**REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

1072	JC 797353N	RIS MAJ	JANAK RAJ
1073	JC 797392M	RIS	MOHINDER SINGH

1074 JC 797376P RIS PRASAD CK

**THE INTELLIGENCE CORPS**

1075 JC 810237M SUB MAJ ARJUN SINGH SHEORAN  
 1076 JC 810103N SUB MAJ BAHADUR SINGH MAHARA  
 1077 JC 810250W SUB MAJ NARENDRA SINGH  
 1078 JC 810123F SUB MAJ SINGARA SINGH  
 1079 JC 810196N SUB MAJ SUKHDEV SINGH  
 1080 JC 810735Y SUB DALGIR CHAND RANA  
 1081 JC 810723K SUB RAGHUVVEER SINGH YADAV  
 1082 JC 810699Y SUB RANVIJAY SINGH  
 1083 JC 810593M SUB SARWAN KUMAR  
 1084 JC 810697N SUB SARWAN SINGH CHAUHAN  
 1085 JC 810710M SUB SHISHU PAUL  
 1086 JC 810755M SUB TASBIR SINGH  
 1087 JC 810719F SUB YADAV CHAND

**CORPS OF MILITARY POLICE**

1088 JC 818761P SUB MAJ ANAND KUMAR PANDEY  
 1089 JC 818733H SUB MAJ RAJAN V K  
 1090 JC 818347W SUB ARJUN DEONICE TIRKEY  
 1091 JC 818439H SUB K SREEDHAR BABU  
 1092 JC 819151P SUB MOHAN THAKUR  
 1093 JC 818953M SUB RAMESH LAL JAKHAR  
 1094 JC 819181M SUB SURESH PRASAD YADAV

**ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS**

1095 JC 826093Y SUB MAJ BALWANT SINGH

**THE PIONEER CORPS**

1096 JC 829258X SUB MAJ PURASTAM BEHERA  
 1097 JC 829331L SUB BALENDRA PRASAD PAL  
 1098 JC 829365Y SUB SURESH CHAND

**ARMY POSTAL SERVICE**

1099 JC 834254L SUB SURAJ PAL YADAV

**DEFENCE SECURITY CORPS**

1100 JC 840705W SUB MAJ HIRA LAL PATEL  
 1101 JC 840484P SUB MAJ RAJENDER SINGH LAMBA  
 1102 JC 841708A SUB BASALINGAYYA HIREMATH  
 1103 JC 841253L SUB M KANNAN  
 1104 JC 842203M SUB RAJENDRA SINGH CHAUHAN  
 1105 JC 841153A SUB SURJIT SINGH  
 1106 JC 841771L SUB SUNIL PRASAD SHAHI  
 1107 JC 842184M SUB ZILE SINGH

**TERRITORIAL ARMY**

1108 TJ 4562P SUB R BALATHANDAYUTHAM  
 1109 TJ 4754M SUB JAGADISH CHANDRA PANDA

1110	TJ 3937W	SUB	KESHAV CHANDRA KATIYAR
1111	TJ 4337A	SUB	KISHORI LAL
1112	TJ 3640L	SUB	MAHENDRA SINGH
1113	TJ 4613X	SUB	MAN SINGH
1114	TJ 4921A	SUB	NARINDER SINGH
1115	TJ 5031K	SUB	R TAMILARASAN
1116	TJ 3893K	SUB	RAM BAHADUR SINGH RATHORE
1117	TJ 4640H	SUB	RAM DASS
1118	TJ 4451X	SUB	RAM LAL
1119	TJ 4832Y	SUB	SATISH CHAND
1120	TJ 4922A	SUB	SHAM SINGH
1121	TJ 4473W	SUB	TERADALE SASHIKANT BASAPRABHU
1122	TJ 4860L	SUB	TIRATH RAM

**EX-POST-FACTO**  
**GRANT OF HONORARY LIEUTENANTS**  
**WITH EFFECT FROM 26 JAN 2000**  
**(ACTIVE)**

**THE RAJPUTANA RIFLES**

1. JC 144563P EX-SUB MAJ SATISH CHANDRA

**EX-POST-FACTO**  
**GRANT OF HONORARY LIEUTENANTS**  
**WITH EFFECT FROM 26 JAN 2012**  
**(ACTIVE)**

**REGIMENT OF ARTILLERY**

1. JC 269554M EX-SUB RAJINDER KUMAR

[F. No. B/43432/ID-12/AG/CW-2]

JAI PRAKASH NEHRA, Lt. Gen., Adjutant General

## अधिसूचना

नई-दिल्ली, 15 अगस्त, 2012

**सं. 11(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2012.**—राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अवैतनिक लै./जे सी ओज़ को उनकी सेवा पूरी होने पर उनके नामों के सामने दी हुई तिथी से सेना विनियामावली 1987 के पैरा 179 के अधीन उनको अवैतनिक पद प्रदान करते हैं :—

### अवैतनिक कप्तान के रूप में

#### 7 केवेलरी

1	जेसी241585एक्स	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	दिल बैग सिंह	01.04.2012
2	जेसी241687एन	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	जोधरा राम	01.07.2012

#### 1 होर्स

3	जेसी238752के	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	राज कुमार राना	01.04.2012
---	--------------	-----------------------------	----------------	------------

#### 14 होर्स

4	जेसी243225ए	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	कर्मजीत सिंह	01.02.2012
---	-------------	-----------------------------	--------------	------------

#### 62 केवेलरी

5	जेसी239790ए	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जय लाल सिंह	01.07.2012
---	-------------	----------------------------------	-------------	------------

#### 65 आर्मड रेजीमेंट

6	जेसी241016के	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	भूप सिंह	01.05.2012
7	जेसी241609डब्ल्यू	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	देव करन सिंह	01.07.2012

8	जेसी242847पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	नरपत सिंह राठोर	01.02.2012
9	जेसी242933ए	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	रघवीर सिंह	01.06.2012

**69 आर्मड रेजीमेंट**

10	जेसी238080डब्ल्यू	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मुथु कुमारन एम	01.02.2012
----	-------------------	----------------------------------	----------------	------------

**74 आर्मड रेजीमेंट**

11	जेसी239470एल	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रोहितअश्व यादव	01.05.2012
----	--------------	----------------------------------	----------------	------------

**81 आर्मड रेजीमेंट**

12	जेसी242605एम	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	सरजीत सिंह	01.07.2012
----	--------------	-----------------------------	------------	------------

**82 आर्मड रेजीमेंट**

13	जेसी241393ए	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	मंगू सिंह	01.05.2012
14	जेसी241552एम	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेन्द्रानाथ स्वेन	01.06.2012

**83 आर्मड रेजीमेंट**

15	जेसी239099एफ	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम निवास	01.02.2012
----	--------------	----------------------------------	-----------	------------

**84 आर्मड रेजीमेंट**

16	जेसी239453एल	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	इंद्र सिंह	01.05.2012
----	--------------	----------------------------------	------------	------------

**89 आर्मड रेजीमेंट**

17	जेसी237840एफ	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रवीन्द्र सिंह	01.03.2012
----	--------------	----------------------------------	---------------	------------

**90 आर्मड रेजीमेंट**

18	जेसी238796पी	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	महाबीर सिंह	01.07.2012
----	--------------	----------------------------------	-------------	------------

48 आर्मड रेजीमेंट

19	जेसी239604वाइ	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	धाने अशोक विष्णु	01.02.2012
----	---------------	----------------------------------	------------------	------------

5 आर्मड रेजीमेंट

20	जेसी235886एल	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शारा बन्ना	01.05.2012
----	--------------	----------------------------------	------------	------------

6 आर्मड रेजीमेंट

21	जेसी237544डब्ल्यू	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सोम लाल	01.04.2012
----	-------------------	----------------------------------	---------	------------

52 आर्मड रेजीमेंट

22	जेसी239023एफ	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पर्गत सिंह	01.05.2012
----	--------------	----------------------------------	------------	------------

53 आर्मड रेजीमेंट

23	जेसी238327एम	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्रा सिंह	01.05.2012
----	--------------	----------------------------------	----------------	------------

आर्मड कोर

24	जेसी238558एच	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सोम राज	01.03.2012
----	--------------	----------------------------------	---------	------------

आर्टिलरी रेजीमेंट

25	जेसी259269एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अर्जुन प्रसाद सिंह	01.06.2012
26	जेसी257735एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार तिवारी	01.05.2012
27	जेसी261556के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बालाकृष्णन वी	01.04.2012
28	जेसी260034एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलवान सिंह	01.08.2012
29	जेसी258260ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बेताल सिंह	01.04.2012
30	जेसी260067एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिनोद दान कुजुर	01.05.2012
31	जेसी261768पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चौधरी मोहन मनचक राव	01.03.2012



32	जेसी257331के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	देबी राम	01.04.2012
33	जेसी261419एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	धर्मवीर शर्मा	01.06.2012
34	जेसी255124वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दिगविजय सिंह	01.03.2012
35	जेसी258711पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दुनी चन्द	01.06.2012
36	जेसी260581डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ज्ञान सिंह	01.03.2012
37	जेसी260507पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरदीप सिंह	01.05.2012
38	जेसी150005के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरी शंकर	01.08.2012
39	जेसी259490ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जरनैल सिंह	01.03.2012
40	जेसी257610पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जेठु सिंह राठोर	01.04.2012
41	जेसी257654एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कश्मीर सिंह	01.04.2012
42	जेसी255686डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कुल भूषण मेहता	01.03.2012
43	जेसी258714एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मदन सिंह	01.07.2012
44	जेसी256879एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मनी राम	01.04.2012
45	जेसी257692एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मन्न राम महल्ला	01.04.2012
46	जेसी258779डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नेका नवरे धनवान्त सीताराम	01.06.2012
47	जेसी130085एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्रा कुमार शुक्ला	01.03.2012
48	जेसी137667एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नवीन चंद्रा पंत	01.06.2012
49	जेसी260335एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	01.07.2012
50	जेसी142731कं	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रेम बल्लभ पंत	01.06.2012
51	जेसी257022एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रेम सिंह मरतिया	01.04.2012

52	जेसी258257ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रीतम चन्द	01.06.2012
53	जेसी264632डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रज्जन सिंह यादव	01.07.2012
54	जेसी262146ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राकेश चंद्रा	01.05.2012
55	जेसी258826एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम किशोर	01.08.2012
56	जेसी256875एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम नाइक	01.04.2012
57	जेसी258265वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमन लाल	01.07.2012
58	जेसी260027एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एस सैथिल नयगम	01.06.2012
59	जेसी259957ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सदाशिवन पिल्लई बी	01.08.2012
60	जेसी259414एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सतवीर	01.02.2012
61	जेसी127133पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सत्य नारायन त्रिपाठी	01.03.2012
62	जेसी260081वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शक्ती सिंह	01.03.2012
63	जेसी260414ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विजय शंकर सिंह	01.06.2012
64	जेसी258041वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विश्वनाथ सिंह	01.06.2012
65	जेसी267847ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अभेय सिंह	01.07.2012
66	जेसी268561एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अक्षय लाल महतो	01.07.2012
67	जेसी269494के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आनंदा के डी.	01.06.2012
68	जेसो266052ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बहादुर सिंह	01.04.2012
69	जेसी268724ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बजरंगी प्रसाद शर्मा	01.07.2012
70	जेसी269669एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बन्ना सिंह रावत	01.04.2012
71	जेसी270483के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भापकर नावानाथ उत्तात्म	01.07.2012

72	जेसी269531एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दल सिंह	01.04.2012
73	जेसी262600पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देव शंकर झा	01.04.2012
74	जेसी266911ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिलबाग सिंह	01.05.2012
75	जेसी267516वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिलबाग सिंह	01.04.2012
76	जेसी267111एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरदेव सिंह	01.04.2012
77	जेसी268953एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जयपाल सिंह	01.04.2012
78	जेसी267920एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	करन सिंह	01.04.2012
79	जेसी261541एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एम मुनि राज	01.04.2012
80	जेसी271491पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मनियन एम	01.02.2012
81	जेसी268498एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मेस्टन सिंह	01.05.2012
82	जेसी265053डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मित्तर सिंह	01.03.2012
83	जेसी268471डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	निशान सिंह	01.05.2012
84	जेसी269132एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	01.04.2012
85	जेसी269547एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रमोद कुमार	01.04.2012
86	जेसी266974एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजन बाबू	01.04.2012
87	जेसी267994एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र सिंह	01.08.2012
88	जेसी270660वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र सिंह	01.05.2012
89	जेसी269554एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजिन्दर कुमार	01.06.2012
90	जेसी269733एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राकेश बाबू	01.02.2012
91	जेसी270350एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम पाल सिंह	01.04.2012

92	जेसी267821एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवि कुमार	01.04.2012
93	जेसी263830पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतेंद्र सिंह	01.03.2012
94	जेसी264439के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुखवीर सिंह	01.07.2012
95	जेसी262517एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुखदेव सिंह	01.04.2012
96	जेसी271582वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तीर्थ नाथ यादव	01.08.2012
97	जेसी267333एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	टोमी मेथ्यू ओ एम	01.04.2012
98	जेसी268187ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विनोद कुमार	01.08.2012
<u>सेना वायू सुरक्षा</u>				
99	जेसी297400एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बाबूराव जिगादे	01.08.2012
100	जेसी297122पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बाला दत्त जोशी	01.06.2012
101	जेसी296594वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बरेन्दिया युगराज चुन्नीलाल	01.02.2012
102	जेसी296605ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दुर्गा चन्द	01.06.2012
103	जेसी297481एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोविंद	01.07.2012
104	जेसी296869एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हयात सिंह	01.06.2012
105	जेसी297454वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हेम राज	01.08.2012
106	जेसी296542एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मुरलीधरन पिल्लई वी	01.03.2012
107	जेसी296331ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्रा सिंह परिहार	01.03.2012
108	जेसी297396वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रभु सिंह	01.04.2012
109	जेसी297002डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राज किशोर सिंह	01.04.2012
110	जेसी296198एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	संग्राम सिंह	01.03.2012

111	जेसी297025एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	उत्तातम सिंह	01.02.2012
112	जेसी297338डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वी गणेशन	01.06.2012
113	जेसी299675के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अभे सिंह यादव	01.04.2012
114	जेसी299743एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गोपाल दास	01.03.2012
115	जेसी299459डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गोपाल मल्ला	01.02.2012
116	जेसी299055एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नाबा कुमार मोन्डल	01.07.2012
<b>मद्रास इंजीनियर समूह</b>				
117	जेसी306319पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पांडु रत्ना ज्योति	01.02.2012
118	जेसी306406एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	आर कालीराज	01.07.2012
119	जेसी306653डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजन ए	01.08.2012
120	जेसी306661पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	साबू बी	01.07.2012
121	जेसी307653एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ए अरोकियासामी	01.04.2012
122	जेसी307933डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ए विक्टर	01.06.2012
123	जेसी308088एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भिमाप्पा	01.05.2012
124	जेसी308308एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चन्द्राशेखर हरिजन	01.04.2012
125	जेसी308029डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जी. केशवेलू	01.04.2012
126	जेसी308390एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुनाशेखरन वी	01.04.2012
127	जेसी308574ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	के जयरामन	01.04.2012
128	जेसी308085पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्णा के	01.04.2012
129	जेसी308391के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एम थमिलारासन, एसएम	01.04.2012

130	जेसी307677एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मुरलीधरन एम	01.04.2012
131	जेसी308186एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राधाकृष्ण नायर के	01.04.2012
132	जेसी308460पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस रथिनाम	01.06.2012
133	जेसी308693डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सेकार	01.06.2012
134	जेसी307889एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुब्रमण्यम एन	01.04.2012
135	जेसी308219एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	थामस एन जेम्स	01.04.2012
<b>बंगाल इंजीनियर समूह</b>				
136	जेसी327649एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बालाराजन परम्मेल	01.04.2012
137	जेसी327616डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दया लाल	01.08.2012
138	जेसी197160डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गंगाधर घाराए	01.03.2012
139	जेसी130067एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जानकी प्रसाद	01.08.2012
140	जेसी326091एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कामेश्वर सिंह	01.07.2012
141	जेसी326197एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मंगल सेन	01.05.2012
142	जेसी325756के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मनोहरन के के	01.02.2012
143	जेसी327815के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम सुभाष दीक्षित	01.04.2012
144	जेसी326523पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एस शिवा संकर राव	01.08.2012
145	जेसी329805वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अभेय सिंह	01.02.2012
146	जेसी329776पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अनिल कुमार दास	01.04.2012
147	जेसी329804डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबिंदर सिंह	01.02.2012
148	जेसी329291एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलविन्दर सिंह	01.05.2012

149	जेसी329111वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाने सिंह	01.04.2012
150	जेसी329546एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चन्दन सिंह	01.07.2012
151	जेसी329542एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्र किरन सिंह	01.05.2012
152	जेसी329294ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दलीप सिंह नेगी	01.07.2012
153	जेसी329380एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरगोविंद सिंह	01.04.2012
154	जेसी329112एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हिम्मत सिंह धामी	01.04.2012
155	जेसी329628के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हीरा सिंह बोरा	01.07.2012
156	जेसी329272एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगबीर प्रसाद	01.04.2012
157	जेसी329691वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश चंद्रा	01.06.2012
158	जेसी329391एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जितेन्द्रा प्रसाद	01.04.2012
159	जेसी329982वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जोगिंदर सिंह	01.05.2012
160	जेसी329985एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	केदार मंडल	01.06.2012
161	जेसी329871एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुलवंत सिंह	01.04.2012
162	जेसी329277ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मनदीप सिंह	01.07.2012
163	जेसी329520एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नगेन्द्रा प्रसाद सिंह	01.04.2012
164	जेसी329972पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	निर्मल बाड़ा	01.04.2012
165	जेसी329595के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रकाश चन्द	01.05.2012
166	जेसी329381एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र सिंह	01.05.2012
167	जेसी329949एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजवंत सिंह	01.04.2012
168	जेसी329296एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम बाबू कुरील	01.07.2012

169	जेसी329547के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम बहादुर सिंह परमार	01.07.2012
170	जेसी329144के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश चन्द	01.04.2012
171	जेसी329544डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सिधेश्वर कुमार सिंह	01.05.2012
172	जेसी329292पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तेज सिंह	01.07.2012
173	जेसी329540ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय सिंह	01.05.2012
174	जेसी329103ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वीरेंद्र कुमार सिंह	01.04.2012
175	जेसी329101पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विश्वनाथ प्रसाद बमरारा	01.04.2012
176	जेसी329264एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	योगेंद्र सिंह	01.04.2012
<b>बोम्बे इंजोनियर समूह</b>				
177	जेसी348429एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा पाल सिंह	01.06.2012
178	जेसी348814पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	देविन्द्र सिंह	01.07.2012
179	जेसी347582पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरसरूप	01.03.2012
180	जेसी348694एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पदम नारायण	01.07.2012
181	जेसी348092एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शिंदे बाजीराव बाबाराव	01.03.2012
182	जेसी348440के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	योगेश्वर त्रिपाटी	01.07.2012
183	जेसी349952एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक बापूराव सतपुते	01.07.2012
184	जेसी348131एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बच्छा लाल	01.03.2012
185	जेसी349696वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्म पाल	01.04.2012
186	जेसी349657ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुंद विजू भगवान	01.05.2012
187	जेसी349840एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरजंत सिंह	01.08.2012



188	जेसी350250डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	होशियार सिंह	01.05.2012
189	जेसी348502वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जय भगवान	01.08.2012
190	जेसी348999एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	काशीद शिवाजी दयान देव	01.04.2012
191	जेसी349946पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	खामाकर भीमराव दत्तत्रे	01.08.2012
192	जेसी349894के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुलवंत सिंह	01.04.2012
193	जेसी349953एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मन रामचंद्र सकपाल	01.08.2012
194	जेसी349859एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	निवरुति जनार्दन पाटिल	01.04.2012
195	जेसी350017एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	निजामुद्दीन	01.04.2012
196	जेसी348313पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम लाल बेरवा	01.06.2012
197	जेसी350249एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सूरज भान	01.04.2012
198	जेसी348505एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तलेवर सिंह	01.07.2012
199	जेसी350251वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तीर्थ सिंह	01.06.2012

### सिग्नल्स कोर

200	जेसी371116वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अब्राहम पी वी	01.06.2012
201	जेसी371204पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बालाकृष्णन शर्मा	01.07.2012
202	जेसी370669एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिसवा प्रकाश साहू	01.06.2012
203	जेसी369434के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बोलिन हज़ारिका	01.07.2012
204	जेसी368755पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा भूषण सिंह	01.06.2012
205	जेसी371068के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा मोहन झा	01.04.2012
206	जेसी367913एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दर्शन लाल	01.04.2012

207	जेसी368326एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जीतेन्द्र कुमार सिंह	01.03.2012
208	जेसी367911एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	के बगवथी मुथु पांडियन	01.05.2012
209	जेसी368604डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	के चेल्ला दुरई	01.04.2012
210	जेसी368451एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	किशोर चन्द	01.03.2012
211	जेसी370611एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कुंदन लाल	01.04.2012
212	जेसी371848पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मन वयापकान्ती कोकाते	01.03.2012
213	जेसी371033एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मल्लेशवरा राव पेदादा	01.03.2012
214	जेसी369956ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मान सिंह	01.03.2012
215	जेसी371197के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मुकंद लाल शर्मा	01.07.2012
216	जेसी372732एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नीलकण्ठ दास	01.06.2012
217	जेसी370668ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	परमा नन्द	01.06.2012
218	जेसी371133वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राज कुमार	01.05.2012
219	जेसी370929एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजन एम बी	01.03.2012
220	जेसी367904एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजिन्दर नाथ	01.03.2012
221	जेसी368973एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रंजीत सिंह राना	01.06.2012
222	जेसी370848एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रोशन लाल	01.02.2012
223	जेसी150085एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सम्भू दयाल गर्ग	01.08.2012
224	जेसी369997के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ससंका शेखर घोष	01.05.2012
225	जेसी372362डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सथ्यानाधन अटक्कांडी	01.04.2012
226	जेसी370610एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सतीश कुमार	01.02.2012

227	जेसी371104के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सिल्वाराज डी.	01.04.2012
228	जेसी371128एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शाम सिंह राना	01.05.2012
229	जेसी371520एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शम्भू दयाल जाट	01.02.2012
230	जेसी371202के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुभाष चावला	01.07.2012
231	जेसी370697पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र सिंह	01.02.2012
232	जेसी371071के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेश कुमार	01.04.2012
233	जेसी371873एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वेद प्रकाश	01.02.2012
234	जेसी375948एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलदेव किशन	01.04.2012
235	जेसी374510पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिनेश्वर रौय	01.03.2012
236	जेसी375918ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ब्रज बंधु मोहंती	01.02.2012
237	जेसी373654एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गनेश दास	01.03.2012
238	जेसी376646एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगेंद्र सिंह	01.04.2012
239	जेसी377320एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगेश्वर प्रसाद	01.04.2012
240	जेसी375606के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कप्तान सिंह यादव	01.03.2012
241	जेसी376198डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कष्णन कुमार	01.07.2012
242	जेसी375039एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महावीर सिंह	01.07.2012
243	जेसी375832एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	परमेश्वर तिवारी	01.07.2012
244	जेसी374805एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रोबीन हज़ारिका	01.03.2012
245	जेसी376712पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश कुमार	01.03.2012
246	जेसी376850डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	थंजावेरु एस गनेश	01.08.2012

ब्रिगेड आफ गार्डस

247	जेसी402867के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रामआधार महतो	01.08.2012
248	जेसी402347वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुनील कुमार सिंह	01.02.2012
249	जेसी403632के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंचल सिंह	01.05.2012
250	जेसी403735एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लाबन्या कुमार राय	01.03.2012
251	जेसी404014एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पदम कुमार तिवारी	01.06.2012
252	जेसी403732पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पूर्णा च. राय	01.03.2012
253	जेसी403778एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रोशन लाल	01.08.2012
254	जेसी403621एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्री कष्णन	01.05.2012
255	जेसी403987पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुमेर सिंह राठोर	01.08.2012

पैराशूट रेजीमेंट

256	जेसी412360डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा पाल सिंह	01.02.2012
257	जेसी412248के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रदीप चंद्रा बोराह	01.02.2012
258	जेसी412217के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रघुबीर सिंह ददवाल	01.05.2012
259	जेसी412643एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अजीत सिंह बनयाल	01.08.2012
260	जेसी412583एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवत सिंह	01.05.2012
261	जेसी412736एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	इंद्र पौल विद्यार्थी	01.08.2012
262	जेसी412904	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जोधरा राम	01.06.2012
263	जेसी412411वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्खी राम	01.06.2012
264	जेसी412827डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महावीर सिंह	01.06.2012

265	जेसी412699के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवीन्द्र कुमार, एसएम	01.04.2012
266	जेसी412679डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रुमेल सिंह	01.07.2012

मैकेनाइजड पैदल सेना रेजीमेंट

267	जेसी130091वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार शर्मा	01.06.2012
268	जेसी418298एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	इराप्पा तिलागंजी	01.03.2012
269	जेसी418870एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कदम धानाजी रघुनाथ	01.07.2012
270	जेसी418823डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मेहरबान सिंह पुंदीर	01.03.2012
271	जेसी420183डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जोगिंदर सिंह	01.04.2012
272	जेसी420011एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कैलाश सिंह गुरंग	01.06.2012
273	जेसी420211एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	काले बालासाहेब संताराम	01.08.2012
274	जेसी420709एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रघुवीर सिंह	01.02.2012
275	जेसी420548ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज किशोर प्रसाद चाउरासिआ	01.06.2012
276	जेसी419852एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम सागर	01.04.2012
277	जेसी419739एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिवनाथ शर्मा	01.06.2012
278	जेसी420411एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुभाष चन्द	01.04.2012
279	जेसी420182एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तीरथ राम	01.04.2012

पंजाब रेजीमेंट

280	जेसी429675डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अमरीक सिंह	01.04.2012
281	जेसी429410एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अनिल कुमार	01.03.2012
282	जेसी430187ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अतर सिंह	01.08.2012

283	जेसी429722एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बाज सिंह	01.04.2012
284	जेसी428957एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बाल कष्णन	01.08.2012
285	जेसी428735एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बलवीर सिंह	01.02.2012
286	जेसी429583के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दलीप सिंह	01.04.2012
287	जेसी429689डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दलजीत सिंह	01.04.2012
288	जेसी429027एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोपाल सिंह	01.07.2012
289	जेसी429578वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुलज़ार सिंह	01.04.2012
290	जेसी429036पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जरनैल सिंह	01.05.2012
291	जेसी429111एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कमल सिंह	01.08.2012
292	जेसी429756डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कुलदीप सिंह	01.05.2012
293	जेसी429795पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नरेंद्र गज़राज	01.05.2012
294	जेसी429832एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	निशान सिंह	01.07.2012
295	जेसी430249पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रदीप कुमार	01.02.2012
296	जेसी164324एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश चन्द शर्मा	01.05.2012
297	जेसी429378एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रिवाल सिंह	01.06.2012
298	जेसी429678के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	संसार चन्द	01.05.2012
299	जेसी429690एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सतनाम सिंह	01.07.2012
300	जेसी429751एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुबाष चंद्र	01.04.2012
301	जेसी430308डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेश कुमार	01.02.2012
302	जेसी429614वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेन्द्रा कुमार	01.04.2012

मद्रास रेजीमेंट

303	जेसी438161ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एम मोहन	01.05.2012
304	जेसी438564ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पी चन्दरन	01.04.2012
305	जेसी439710एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जी.वी रमना	01.06.2012
306	जेसी439037एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	के.वाइ माम्मादू	01.02.2012
307	जेसी439471एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मल्लिकार्जुन शिवाशिमपुर	01.05.2012
308	जेसी439814एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पी सिवराज	01.08.2012
309	जेसी439503पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पैदिदनती संबाशिव राव	01.05.2012
310	जेसी439329एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सदाशिवन पिल्लई के.एस	01.04.2012
311	जेसी439203एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शेक सुभान	01.05.2012
312	जेसी439363एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विके मोहन	01.04.2012

ग्रेनेडियर्स

313	जेसी449095एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अमर सिंह ध्याल	01.08.2012
314	जेसी449329एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	इश्वर सिंह	01.08.2012
315	जेसी448882एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जमालुद्दीन अंसारी	01.06.2012
316	जेसी128617एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजिन्दर प्रसाद शर्मा	01.05.2012
317	जेसी450699एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अमरीक सिंह	01.06.2012
318	जेसी449945एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवंत सिंह	01.05.2012
319	जेसी450041एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरी सिंह	01.07.2012
320	जेसी449985एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जेतु सिंह	01.08.2012

321	जेसी449808एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन लाल	01.03.2012
322	जेसी449946के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	निजामुरदीन	01.04.2012
323	जेसी449291एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पोखर लाल पोसवाल	01.08.2012
324	जेसी449980के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेश कुमार	01.07.2012
325	जेसी450514एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रंजीत सिंह	01.04.2012
326	जेसी450015एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तिलक राज	01.04.2012
327	जेसी450176पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तूरब अली	01.05.2012
328	जेसी450453पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उदयवीर सिंह	01.02.2012

### मराठा लघु सेना

329	जेसी458503के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गैधानी रवीन्द्र रूपचन्द्र	01.02.2012
330	जेसी458554एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगताप सहाजी मानिक	01.06.2012
331	जेसी458372के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नीलकंठ नाइक	01.05.2012
332	जेसी458633एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वासुदेव फाट्टु गावडे	01.03.2012
333	जेसी459130एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दजीबा पाटिल	01.06.2012
334	जेसी458830पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धावले सुभाष काशिनाथ	01.05.2012
335	जेसी459550एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम नारायण तिवारी	01.06.2012
336	जेसी458787वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सालुंखे रावसाहेब रामचंद्र	01.02.2012
337	जेसी459451एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतीशकुमार के	01.06.2012
338	जेसी459543एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शेख अब्बास एसके. जमाल	01.07.2012
339	जेसी458881एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुनील आत्माराम सुर्वे	01.02.2012



340	जेसी459520डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश भीवा गावदे	01.07.2012
<u>राजपूताना राईफल्स</u>				
341	जेसी469245पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दत्तार सिंह	01.08.2012
342	जेसी468664ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	धर्मवीर	01.08.2012
343	जेसी468556डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोपाल सिंह शेखावत	01.07.2012
344	जेसी468613एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगदीप सिंह	01.08.2012
345	जेसी468558एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	महावीर सिंह चाहर	01.05.2012
346	जेसी468181एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रण सिंह	01.06.2012
347	जेसी144563पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सतीश चंद्रा	01.03.2000
348	जेसी468730एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुघार सिंह सिकरवार	01.03.2012
349	जेसी469234एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अमर सिंह गुर्जर	01.02.2012
350	जेसी470012ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाबू सिंह	01.02.2012
351	जेसी469268डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भंवर सिंह राठोर	01.08.2012
352	जेसी469852एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भवानी सिंह	01.08.2012
353	जेसी469206डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हमीद	01.03.2012
354	जेसी470038एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जबार सिंह राठोर	01.02.2012
355	जेसी470122पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगबीर सिंह	01.04.2012
356	जेसी469684ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	काली राम	01.03.2012
357	जेसी469700एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कष्णान पाल सिंह	01.02.2012
358	जेसी469477एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लून सिंह	01.05.2012

359	जेसी470124ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मनवीर सिंह	01.08.2012
360	जेसी469960एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मूल सिंह	01.02.2012
361	जेसी469861पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पदम सिंह	01.06.2012
362	जेसी469747एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजबीर सिंह	01.04.2012
363	जेसी469278ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम करन सिंह	01.05.2012
364	जेसी469622ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम करन सिंह	01.04.2012
365	जेसी469689वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम किशोर	01.04.2012
366	जेसी469441पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सवाई सिंह	01.08.2012
367	जेसी469615के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुमेर सिंह	01.07.2012
368	जेसी469723एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजेन्द्र सिंह	01.04.2012

#### राजपूत रेजीमेंट

369	जेसी478419एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	इस्तेखार खान	01.04.2012
370	जेसी478739ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	महेंद्र सिंह	01.02.2012
371	जेसी478718के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रोहताश	01.02.2012
372	जेसी480101एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाबू सिंह	01.08.2012
373	जेसी480016एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बदारी नाथ सिंह	01.05.2012
374	जेसी480179एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ब्रमा नन्द	01.04.2012
375	जेसी479159एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धंसी राम	01.02.2012
376	जेसी479920के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गोधर्न राम	01.08.2012
377	जेसी479952एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरपाल सिंह	01.08.2012

378	जेसी479826ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लीलू राम	01.05.2012
379	जेसी480050के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महावीर सिंह	01.02.2012
380	जेसी479492डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महिंद्र सिंह	01.02.2012
381	जेसी479813एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद जमाल खान	01.04.2012
382	जेसी480030डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नारायण चन्द घो	01.02.2012
383	जेसी479885एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	01.03.2012
384	जेसी479759ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश सिंह चौहान	01.03.2012
385	जेसी479936पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओमवीर सिंह	01.05.2012
386	जेसी479946वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	परसू राम	01.05.2012
387	जेसी480019एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रताप सिंह	01.03.2012
388	जेसी479961एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम पाल	01.05.2012
389	जेसी479844एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम शरण सिंह	01.02.2012
390	जेसी479845एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम सिंह	01.02.2012
391	जेसी479495के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश चंद्र	01.05.2012
392	जेसी480144एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिव कुमार	01.08.2012
393	जेसी479650ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिव कुमार सिंह	01.04.2012
394	जेसी480177एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्री चन्द	01.05.2012
395	जेसी479766डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विद्या राम	01.08.2012
396	जेसी479802डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विरेन्द्र सिंह	01.05.2012
397	जेसी479708एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वीरेंद्र सिंह, एसएम	01.03.2012

जाट रेजीमेंट

398	जेसी488829पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अल्बेल सिंह, एसएम	01.08.2012
399	जेसी488827के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चांदी राम	01.06.2012
400	जेसी488293के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दया चन्द	01.05.2012
401	जेसी488920एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरपाल सिंह	01.08.2012
402	जेसी488499एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जयवीर सिंह बाना	01.08.2012
403	जेसी488429एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कप्तान सिंह राठी	01.07.2012
404	जेसी489983एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भागीरथ मल	01.06.2012
405	जेसी490058के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	इंद्र पाल सिंह	01.03.2012
406	जेसी489565एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जय सिंह	01.08.2012
407	जेसी489776एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	किशन पाल	01.02.2012
408	जेसी489840ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लाला राम	01.08.2012
409	जेसी490030के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रेमा राम	01.06.2012
410	जेसी489805एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश चंद्र	01.06.2012
411	जेसी489529ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुभाष चंद्र	01.03.2012
412	जेसी489584डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वीर सिंह	01.07.2012
413	जेसी490059एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	योगेन्द्रा सिंह	01.03.2012

सिख रेजीमेंट

414	जेसी498501एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरदीप सिंह	01.04.2012
415	जेसी498497के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कृष्णापाल सिंह	01.07.2012

416	जेसी498373पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रूप सिंह	01.06.2012
417	जेसी498496एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शमशेर सिंह	01.02.2012
418	जेसी498832एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अजायब सिंह	01.04.2012
419	जेसी498748एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अवतार सिंह	01.05.2012
420	जेसी499346एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	01.08.2012
421	जेसी499898एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवंत सिंह	01.05.2012
422	जेसी499150के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मगहर सिंह	01.03.2012
423	जेसी498831ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पाल सिंह	01.06.2012
424	जेसी499186एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सरबजीत सिंह	01.03.2012

सिख लघु पैदल सेना

425	जेसी508576पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरजीत पाल सिंह	01.06.2012
426	जेसी508816एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अवतार सिंह	01.03.2012
427	जेसी508747डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिशन सिंह पवार	01.05.2012
428	जेसी509264एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरनायक सिंह	01.06.2012
429	जेसी509578एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जसबीर सिंह	01.06.2012
430	जेसी508806एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कश्मीर सिंह	01.05.2012
431	जेसी508740एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन लाल शर्मा	01.07.2012
432	जेसी509094एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तरसेम सिंह	01.02.2012

डोगरा रेजीमेंट

433	जेसी519524वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बहादुर चन्द	01.07.2012
-----	---------------	---------------------------------	-------------	------------

434	जेसी519131एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लाल सिंह	01.04.2012
435	जेसी519552एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मदन लाल	01.07.2012
436	जेसी519315एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पूरन चन्द	01.04.2012
437	जेसी519210एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेश चन्द	01.08.2012
438	जेसी519184एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विजय सिंह	01.05.2012
439	जेसी520626एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गगन सिंह	01.03.2012
440	जेसी520210के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जनक राज	01.04.2012
441	जेसी520238के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जोगिंदर सिंह	01.05.2012
442	जेसी520044एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	क्युमित सिंह	01.04.2012
443	जेसी520350डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम लाल	01.07.2012
444	जेसी520284वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रंजीत सिंह	01.04.2012
445	जेसी520702एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवीन्द्र सिंह	01.02.2012
446	जेसी519998ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रूप लाल	01.02.2012
447	जेसी520278एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	संतोष पाल	01.06.2012
448	जेसी520735एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतवीन्द्र नाथ	01.05.2012
449	जेसी520441ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुभाष चन्द	01.07.2012
450	जेसी520582पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुकेश कुमार	01.02.2012
451	जेसी520695एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरजीत सिंह	01.05.2012
452	जेसी520616एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरजीत सिंह	01.02.2012
453	जेसी520596पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	युधवीर सिंह	01.03.2012

गढ़वाल राईफल्स

454	जेसी528931एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोपाल सिंह	01.04.2012
455	जेसी528977एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कुंदन सिंह रावत	01.07.2012
456	जेसी528988एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्रा सिंह	01.04.2012
457	जेसी528839के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रामेन्द्र सिंह	01.02.2012
458	जेसी529059एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	त्रिलोक सिंह	01.05.2012
459	जेसी530237पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवंत सिंह नेगी	01.05.2012
460	जेसी530146एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दामोदर प्रसाद कन्दावाल	01.05.2012
461	जेसी530384एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जय सिंह, एसएम	01.08.2012
462	जेसी529930एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मनोज कुमार किमोती	01.03.2012
463	जेसी529828के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मानवर सिंह बिस्ट	01.04.2012
464	जेसी529730डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजे सिंह	01.04.2012
465	जेसी529745वड्ड	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्रा प्रसाद	01.04.2012
466	जेसी529921एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सरूप सिंह	01.08.2012
467	जेसी530244एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शक्ती प्रसाद, एसएम	01.05.2012
468	जेसी529672एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	यशवंत सिंह	01.04.2012

कुमाँउ रेजीमेंट

469	जेसी539074एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बहादुर चन्द	01.04.2012
470	जेसी539876एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भैरब दत्त	01.03.2012
471	जेसी539799एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धन सिंह	01.07.2012

472	जेसी539203एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिकर सिंह	01.08.2012
473	जेसी199317के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	इश्वर सिंह	01.04.1999
474	जेसी539258एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगत सिंह मेहता	01.04.2012
475	जेसी539693एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	खुशाल सिंह	01.06.2012
476	जेसी539122एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन चन्द, एसएम	01.05.2012
477	जेसी538983एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मंगतू राम	01.05.2012
478	जेसी539814एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन सिंह	01.06.2012
479	जेसी539139डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पूरन सिंह बोरा	01.05.2012
480	जेसी538943एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम सिंह	01.02.2012
481	जेसी539270एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम सिंह	01.08.2012
482	जेसी539602एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिव राज सिंह बिष्ट	01.08.2012
483	जेसी539865एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सूरज मल	01.08.2012
484	जेसी540052एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र सिंह	01.08.2012
485	जेसी539968के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उमेद सिंह	01.04.2012

#### आसाम रेजीमेंट

486	जेसी548306एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अमंग चोंगलोए	01.08.2012
487	जेसी548372एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तंकेश्वर शर्मा	01.04.2012
488	जेसी549545के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाबूराम पौवदल	01.03.2012
489	जेसी549292ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बीर बाबू सिंघा	01.02.2012
490	जेसी549256पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ईएन न्जाह मूंग	01.02.2012



491	जेसी549518ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एन बीरेन सिंघा	01.07.2012
492	जेसी548830डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एन लैनजम	01.04.2012
493	जेसी549502पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रोदीप कुमार बसुमा	01.07.2012
494	जेसी549581पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामेन्द्र बसुमा	01.03.2012
495	जेसी549430डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रनहांग एएफआई	01.03.2012
496	जेसी549369एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शूवित बर्मन	01.07.2012
497	जेसी549157एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	टी मंगब्याए गंगटे	01.04.2012
498	जेसी548835पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तवंगलाल वाइफेइ	01.07.2012
499	जेसी549530एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	था आरईएन जॉन लमकंग	01.06.2012
500	जेसी549156के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वनलालथियंग	01.05.2012

**बिहार रेजीमेंट**

501	जेसी558912एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अथनास केर्केट्टा	01.08.2012
502	जेसी558673एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दादन प्रसाद सिंह यादव	01.08.2012
503	जेसी558642एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	इन्द्रा मनी सेठी	01.04.2012
504	जेसी558767ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जबाहर लाल साहू	01.04.2012
505	जेसी558880पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम बाबू प्रसाद	01.05.2012
506	जेसी558859एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश चंद्रा साहू	01.05.2012
507	जेसी559575पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अरुण काजूर	01.04.2012
508	जेसी559545वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार सिंह	01.03.2012
509	जेसी559580ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिजय बहादुर सिंह	01.04.2012

510	जेसी559595एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिनेश प्रसाद यादव	01.04.2012
511	जेसी559705एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	इन्द्रजीत बारिक	01.07.2012
512	जेसी559133डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मिथलेश कुमार सिंह	01.05.2012
513	जेसी559628एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश गुप्ता	01.04.2012
514	जेसी559685के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओमलन होरो	01.04.2012

### महार रेजीमेंट

515	जेसी568706डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिश्राम सिंह	01.07.2012
516	जेसी568371के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लुतफुन हुक	01.02.2012
517	जेसी568345एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ओमवीर सिंह	01.04.2012
518	जेसी568711एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्यारे लाल	01.06.2012
519	जेसी568449के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ऋषि पाल सिंह	01.03.2012
520	जेसी569789वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बेनी सिंह	01.04.2012
521	जेसी569196एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बृजेन्द्र सिंह	01.04.2012
522	जेसी569612एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्राजीत यादव	01.02.2012
523	जेसी569724एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्मेन्द्र सिंह	01.02.2012
524	जेसी569410के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगार सिंह	01.04.2012
525	जेसी569739एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जय सिंह नेगी	01.03.2012
526	जेसी569364ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	01.02.2012
527	जेसी570208एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम चंद्र पांडे	01.04.2012
528	जेसी569781एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शंकर सिंह	01.04.2012

529	जेसी569647एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सीता राम नायक	01.03.2012
530	जेसी569727वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	यश पाल सिंह	01.03.2012
<u>जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स</u>				
531	जेसी578937ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हंस राज	01.07.2012
532	जेसी579351डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद रजाक	01.02.2012
533	जेसी578666एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रताप चन्द जसवाल	01.03.2012
534	जेसी579139वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पुकार लामा, एसएम	01.05.2012
535	जेसी579421के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	श्री राम	01.04.2012
536	जेसी578657एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	उत्तातम चन्द	01.03.2012
537	जेसी580146एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अजमेर सिंह	01.06.2012
538	जेसी580526ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार	01.02.2012
539	जेसी580848ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अवतार सिंह	01.05.2012
540	जेसी580089एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाबू राम	01.08.2012
541	जेसी580832पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बचन लाल	01.02.2012
542	जेसी580528एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलदेव सिंह अत्री	01.02.2012
543	जेसी580756एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरबचन सिंह	01.02.2012
544	जेसी580230एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरमेश सिंह	01.02.2012
545	जेसी580676डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जोगिंदर पौल शर्मा	01.03.2012
546	जेसी580336एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्णापा राम	01.08.2012
547	जेसी580407के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लेख राज	01.08.2012

548	जेसी580086एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नन्द लाल शर्मा	01.08.2012
549	जेसी580305एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	01.02.2012
550	जेसी579887एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पदम सिंह	01.02.2012
551	जेसी580306डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रदीप सिंह	01.02.2012
552	जेसी580167एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्राशरं देव	01.03.2012
553	जेसी580210एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रजीत सिंह	01.04.2012
554	जेसी580752एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवि कुमार	01.02.2012
555	जेसी580485एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वरयम सिंह	01.03.2012

#### लध्दाख़ स्काउट

556	जेसी129499एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लोबजंग सतेंदर	01.03.2012
557	जेसी588331के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	स्टनज़िन अंगचौक	01.08.2012
558	जेसी588190ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ताशी वंगेल	01.05.2012
559	जेसी588207एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सेरिंग जोरफेल	01.04.2012

#### नागा रेजीमेंट

560	जेसी590095एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लेतखोलिम खोंगसाई, एसएम	01.03.2012
-----	--------------	----------------------------	------------------------	------------

#### जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल सेना

561	जेसी592652वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जी एच रसूल वाणी	01.04.2012
562	जेसी592441एलएच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ओंकार चन्द बख्शी	01.04.2012
563	जेसी592561पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रघुबीर सिंह	01.08.2012
564	जेसी592948एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अब हमीद मीर	01.05.2012

565	जेसी593209एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अंचल सिंह	01.08.2012
566	जेसी592919एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार	01.08.2012
567	जेसी593002एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार	01.06.2012
568	जेसी593454ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार	01.06.2012
569	जेसी593390ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवान सिंह	01.07.2012
570	जेसी593636एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्र मोहन	01.08.2012
571	जेसी593028एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दया कष्णन	01.08.2012
572	जेसी592847के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देस राज	01.04.2012
573	जेसी593314एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ध्रुव सिंह	01.06.2012
574	जेसी593026एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ईशर दास	01.04.2012
575	जेसी592383एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश राज	01.08.2012
576	जेसी593113पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जरनैल सिंह	01.08.2012
577	जेसी592846एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कमल राज	01.04.2012
578	जेसी592723पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	करनैल सिंह चिब	01.08.2012
579	जेसी592994एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	करतार सिंह	01.08.2012
580	जेसी592427के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कष्णन सिंह	01.07.2012
581	जेसी592977एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लियाकत अली	01.04.2012
582	जेसी593111के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन लाल	01.05.2012
583	जेसी593077पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन मोहन	01.08.2012
584	जेसी592686एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद बशीर	01.06.2012

585	जेसी592722एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद याकूब	01.05.2012
586	जेसी592750वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पाहिल सिंह	01.05.2012
587	जेसी592808एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रंजीत सिंह	01.04.2012
588	जेसी593106वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रोमेश लाल	01.05.2012
589	जेसी593270एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रोशन लाल	01.08.2012
590	जेसी593251डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	संदीप कुमार	01.06.2012
591	जेसी593068एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शेर सिंह	01.08.2012
592	जेसी593256पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सोहन लाल	01.08.2012
593	जेसी593098एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सोम दत्ता	01.08.2012
594	जेसी592648डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सूरम सिंह	01.05.2012
595	जेसी592843एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तारा चन्द	01.08.2012
596	जेसी592875डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय कुमार	01.04.2012

### 1 गोरखा राईफल्स

597	जेसी602297एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ठाकुर बहादुर थापा	01.06.2012
598	जेसी602658डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिशो किरन श्रेष्ठा	01.05.2012
599	जेसी602614वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	क्षेत्रा बहादुर गुरंग	01.06.2012
600	जेसी602721ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देब बहादुर थापा	01.02.2012

### 3 गोरखा राईफल्स

601	जेसी607320पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चिन्तन कुमार सिंह	01.07.2012
602	जेसी607511के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शमशेर बहादुर थापा	01.06.2012

603	जेसी607510एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शांत बहादुर थापा	01.02.2012
<b>4 गोरखा राईफल्स</b>				
604	जेसी 312428डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दीपक कुमार थापा	01.03.2012
605	जेस 1612334वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम चंद्रा थापा	01.08.2012
606	जे सी612312ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम लक्ष्मन थापा	01.05.2012
607	जेसी612360ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	टेक बहादुर गुरंग	01.05.2012
608	जेसी612569एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धीर बहादुर गुरंग	01.02.2012
609	जेसी612476डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	खेम बहादुर गुरंग	01.05.2012
610	जेसी612555एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्रा कुमार	01.06.2012
<b>5 गोरखा राईफल्स</b>				
611	जेसी617524पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरी बहादुर भुजल	01.05.2012
612	जेसी617467वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रेम कुमार गुरंग	01.06.2012
613	जेसी617408एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	याम बहादुर	01.05.2012
614	जेसी617683एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्णा बहादुर पुन	01.06.2012
615	जेसी617673एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तारा लाल मल्ला	01.05.2012
<b>8 गोरखा राईफल्स</b>				
616	जेसी623596पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाला कृष्णा थापा	01.04.2012
617	जेसी623676एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भीम बहादुर थापा	01.08.2012
618	जेसी623574डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देब बहादुर थापा	01.04.2012
619	जेसी623663पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गोबरधन प्रधान	01.07.2012

620	जेसी623598ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	झालाक प्रसाद गुरंग	01.05.2012
621	जेसी623549एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्णा बहादुर पुन	01.02.2012

9 गोरखा राईफल्स

622	जेसी629838एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हीरा बहादुर थापा	01.08.2012
623	जेसी629599वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हुमेंद्रा सिंह राय माझी	01.05.2012
624	जेसी629813डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन कुमार छत्री	01.02.2012

11 गोरखा राईफल्स

625	जेसी634280एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तिका राम श्रेष्ठा	01.07.2012
626	जेसी634605एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पदम प्रसाद लिम्बू	01.07.2012
627	जेसी634541एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजा राय	01.07.2012
628	जेसी634704एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	युव राज लिम्बू	01.02.2012

सेना सेवा कोर दक्षिण

629	जेसी662267पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	घान श्याम	01.08.2012
630	जेसी641651एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरी दास मुखर्जी	01.08.2012
631	जेसी640681एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कृष्णन के	01.07.2012
632	जेसी641239पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मी नाथ कश्यप	01.06.2012
633	जेसी640659एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एम परीमनी	01.04.2012
634	जेसी640727एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मंगल सिंह रावत	01.06.2012
635	जेसी640378एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नाथू लाल	01.03.2012
636	जेसी640399एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र पांडे	01.03.2012



637	जेसी662196वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम जियावान	01.05.2012
638	जेसी662119के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश राजू सी	01.03.2012
639	जेसी641396एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एस चिदम्बरम्	01.07.2012
640	जेसी662215वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शिव नारायण मिश्रा	01.08.2012
641	जेसी640734एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरिन्दर सिंह	01.07.2012
642	जेसी215516के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सूर्या नाथ राम	01.04.2012
643	जेसी662228डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	उमेद सिंह जोधा	01.07.2012
644	जेसी165615एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिनय कुमार शर्मा	01.02.2012
645	जेसी663265डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिलीप कुमार दास	01.05.2012
646	जेसी663084एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज बहादुर	01.07.2012
647	जेसी642195पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम जनम राम	01.06.2012
648	जेसी641574वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश चन्द शर्मा	01.07.2012
649	जेसी643146वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रंजीत सरकार	01.03.2012
650	जेसी643020वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शानू सिंह	01.03.2012
651	जेसी663348एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुनील कुमार सिंह	01.08.2012

#### सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

652	जेसी680595एल	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कैलाश कुमार	01.07.2012
653	जेसी680810एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	भवानी दीन	01.04.2012
654	जेसी680798पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	एलार्ड खल्खो	01.04.2012
655	जेसी680963पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	गोविंद लाल	01.07.2012

656	जेसी680806एच	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश प्रसाद	01.06.2012
657	जेसी680888डब्ल्यू	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	महेश लोहरा	01.04.2012
658	जेसी680811एन	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	मारूति लक्ष्मन हूली	01.06.2012
659	जेसी680668एम	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन राम	01.04.2012
660	जेसी680873एन	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	नरेश प्रसाद	01.04.2012
661	जेसी680803पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	रघुबीर सिंह	01.05.2012
662	जेसी680861वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	राम गती सिंह	01.05.2012
663	जेसी680800एफ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	सचिन्द्र सिंघा	01.05.2012
664	जेसी680825एन	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	शिव नारायण सिंह	01.08.2012
665	जेसी680813वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	श्याम बिहारी सिंह	01.07.2012
666	जेसी680691ए	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	सुदर्शन प्रसाद	01.06.2012
667	जेसी680769ए	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	उमा शंकर	01.07.2012

#### सेना चिकित्सा कोर

668	जेसी692916के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अजय कुमार पात्रा	01.03.2012
669	जेसी690407एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिमल कुमार रौय	01.08.2012
670	जेसी694003एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दयानंद टी एस	01.07.2012
671	जेसी130406एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गंगा प्रसाद पाठक	01.07.2012
672	जेर्स 693543एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कुमारेसन एम	01.06.2012
673	जेर्स 691634वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्रा पाल सिंह	01.03.2012
674	जेसी693798एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नेतरापाल सिंह	01.03.2012

675	जेसी692912एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रेम प्रकाश	01.02.2012
676	जेसी694013एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राज कुमार	01.07.2012
677	जेसी693078एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजीव कुमार मिश्रा	01.05.2012
678	जेसी693196ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राकेश कुमार	01.06.2012
679	जेसी218615एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम बहादुर	01.04.2012
680	जेसी148707के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमा कांत तिवारी	01.06.2012
681	जेसी693655एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रिनचेन सिमिक	01.08.2012
682	जेसी692917एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेन्द्रा नाथ पांडे	01.03.2012
683	जेसी691741ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	स्वर्ण लाल वर्मा	01.08.2012
684	जेसी692219के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	उमर के ई	01.08.2012
685	जेसी695241ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अरुणा कुमार मोहंती	01.07.2012
686	जेसी695691एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार	01.06.2012
687	जेसी695900के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवान सिंह	01.04.2012
688	जेसी693695पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भगवान सिंह बोहरा	01.07.2012
689	जेसी693783एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देबासिस दास	01.03.2012
690	जेसी694731एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गोविंद सिंह	01.07.2012
691	जेसी695231डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कमलासनन नायर के	01.07.2012
692	जेसी693784एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश पांडे	01.03.2012
693	जेसी691763वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत्य प्रकाश तिवारी	01.07.2012
694	जेसी692526एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्री निवास वर्मा	01.04.2012

695	जेसी694730वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	थामस कुट्टी के जे	01.07.2012
696	जेसी693878एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वसंत सावंत	01.08.2012
<u>सेना आयुध कोर</u>				
697	जेसी723637एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अमरजीत सिंह	01.07.2012
698	जेसी723745एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार	01.06.2012
699	जेसी724060ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भंडार कावथे शिदराम	01.08.2012
700	जेसी723198एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्र सिंह	01.05.2012
701	जेसी723525एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हफीजुल मोकिद खान	01.03.2012
702	जेसी723527एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरिद्रा प्रसाद वर्मा	01.02.2012
703	जेसी723627वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	खुशीद अहमद	01.04.2012
704	जेसी723895एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	निकम केशव मोकिन्दा	01.07.2012
705	जेसी723523एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पूरन चंद्रा लेनका	01.02.2012
706	जेसी723769डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश चंद्रा नायक	01.04.2012
707	जेसी723529वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सरदारी लाल शर्मा	01.05.2012
708	जेसी725945एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शोक कासिम पेरा	01.06.2012
709	जेसी723785एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सिनो भागवन्त शंकर	01.07.2012
710	जेसी723811के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	श्री साहेब राम	01.02.2012
711	जेसी723784एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुभाष चन्द्र गुलेरिया	01.06.2012
712	जेसी722902एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेन्द्रन नायर टी आर	01.02.2012
713	जेसी723663के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	उथमन वी के	01.02.2012

714	जेसी726079एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार	01.02.2012
715	जेसी726682ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देव राज	01.02.2012
716	जेसी726252डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मनोरंजन विश्वास	01.07.2012
717	जेसी726076के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओमपाल सिंह	01.02.2012
718	जेसी726171डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रघुबीर सिंह	01.03.2012
719	जेसी726881एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रघुनाथ घोष	01.06.2012
720	जेसी726201एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्रीकांत हंगल	01.06.2012
<b>कोर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स</b>				
721	जेसी751298के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भुपिन्द्र कुमार	01.02.2012
722	जेसी752001के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिश्वनाथ सेन गुप्ता	01.04.2012
723	जेसी752550के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	धीरज सिंह नेगी	01.06.2012
724	जेसी752958एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हृदय चन्द रेज	01.08.2012
725	जेसी752406पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जैनानधन ठाकुर	01.04.2012
726	जेसी752595के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जवाहर लाल सिंह	01.06.2012
727	जेसी752339पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मुकादियो राम गुप्ता	01.02.2012
728	जेसी752944एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नागु राम	01.07.2012
729	जेसी754225एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पी कुसमाकुमार	01.04.2012
730	जेसी756231पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रमोद दुबे	01.03.2012
731	जेसी751274ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पीवी जयसीलन	01.02.2012
732	जेसी753733एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रघुबीर सिंह	01.03.2012

733	जेसी751840पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राज कुमार	01.04.2012
734	जेसी753632वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम सकल प्रसाद	01.02.2012
735	जेसी752569एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम शरण राम	01.06.2012
736	जेसी752478वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश कुमार	01.05.2012
737	जेसी753892के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	श्रवण सिंह	01.02.2012
738	जेसी756945एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सत्य बादी पात्रा	01.07.2012
739	जेसी752942एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शर्मा हेमंत प्रसाद हरीकृष्णा	01.07.2012
740	जेसी752256के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शिव कुमार	01.04.2012
741	जेसी749171एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शयालाजन के	01.07.2012
742	जेसी750998एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सोमन एन	01.03.2012
743	जेसी750304ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुभाष एम एस	01.05.2012
744	जेसी751023डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुभाष सिंह	01.02.2012
745	जेसी752721एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुलेमान खान	01.02.2012
746	जेसी750404एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र सिंह रावत	01.02.2012
747	जेसी750296एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरजीत सिंह	01.02.2012
748	जेसी760853एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अमन कुमार	01.08.2012
749	जेसी760209एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार सिंह	01.04.2012
750	जेसी749337वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बैद्य नाथ सिंह	01.06.2012
751	जेसी758829वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भोईनवाद हरी चंद्रा पांडुरंग	01.06.2012
752	जेसी760442पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बृजेन्द्र कुमार सिंह	01.05.2012

753	जेसी758227एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्म पाल	01.08.2012
754	जेसी753737एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गोड़ गोपाल अधिकारी	01.06.2012
755	जेसी754000ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरजिन्द्र सिंह	01.04.2012
756	जेसी758287ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश चन्द	01.04.2012
757	जेसी754764वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश प्रसाद	01.07.2012
758	जेसी749181एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुरियाकोस विके	01.05.2012
759	जेसी751130एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्षमण राय	01.06.2012
760	जेसी749169एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेश चंद्रा	01.04.2012
761	जेसी754111एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मुकुट चंद्रा मेधी	01.03.2012
762	जेसी753116के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	निर्मल कुमार सिंह	01.04.2012
763	जेसी749035एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रदीपन के	01.04.2012
764	जेसी751111एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रताप सिंह सैनी	01.04.2012
765	जेसी758250वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पुर्नानन्दा गोगिया	01.05.2012
766	जेसी760851एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पुष्पा करन वीसी	01.08.2012
767	जेसी756519पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजिन्द्र सिंह	01.06.2012
768	जेसी757062एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राकेश बाबू	01.03.2012
769	जेसी760211वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम बाबू	01.04.2012
770	जेसी760560एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवीन्द्र प्रसाद सिंह	01.06.2012
771	जेसी758401एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शम्भूनाथ झा	01.06.2012
772	जेसी761818एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतीश चंद्रा शर्मा	01.04.2012

773	जेसी754389वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिवा शंकर सतप्पा के	01.08.2012
774	जेसी760509एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्री कांत कुशवाहा	01.06.2012
775	जेसी759405पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सीबा प्रसाद रवा	01.08.2012
776	जेसी751112पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सोम दत्त	01.04.2012
777	जेसी753755एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुबाष चरण साहा	01.04.2012
778	जेसी757995ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुब्राहमनियन आईपी	01.04.2012
779	जेसी749233एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तुलसा राम सियाक	01.05.2012
780	जेसी755405एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उन्नी कृष्णन सीपी	01.02.2012
781	जेसी754386एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय कुमार	01.08.2012
782	जेसी753501वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजयावेल जी.	01.03.2012
783	जेसी758249के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	योगोल सिंह कुशवाहा	01.05.2012

#### सेना शिक्षा कोर

784	जेसी802324एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार त्यागी	01.06.2012
785	जेसी802169पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्र शाखर	01.04.2012
786	जेसी802084वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दलीप कुमार कंवर	01.02.2012
787	जेसी802178डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कर्म बीर सिंह	01.05.2012
788	जेसी802323एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कश्मीरी लाल	01.06.2012
789	जेसी802046एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	महेन्द्र सिंह कोशीयारी	01.02.2012
790	जेसी802087एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रसन्ना कुमार सुबुधि राय	01.02.2012
791	जेसी802284पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राज कुमार सिंह	01.07.2012



792	जेसी802177एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सागर सिंह ललोत्रा	01.05.2012
793	जेसी802172र्ष	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेश चन्द	01.04.2012
794	जेसी80279९ मे	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दीप चन्द	01.04.2012
795	जेसी8025:३6एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुकराम पाल	01.04.2012
<u>रिमाउन्ट एवं टे टनरी कोर</u>				
796	जेसी7 :7381ए	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	छेदा लाल	01.04.2012
797	जेर्स 797403एन	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	रघबीर सिंह	01.04.2012
<u>आग्नुजना कोर</u>				
798	जेसी810072वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बैस बहादुर गुरंग	01.08.2012
79९	जेसी810116एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भूपेंद्र सिंह	01.06.2012
800	जेसी810066एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दीवान सिंह	01.06.2012
801	जेसी810071डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लाभ सिंह	01.07.2012
802	जेसी810029एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	संसार चन्द	01.03.2012
803	जेसी810058एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुधीर कुमार गुरंग	01.05.2012
804	जेसी810668वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लाल सिंह	01.06.2012
805	जेसी810644पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओंकार चन्द शर्मा	01.04.2012
806	जेसी810687के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजिन्दर कुमार	01.08.2012
807	जेसी810641एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुभाष चन्द परमार	01.04.2012
<u>सेना पुलिस कोर</u>				
808	जेसी818676एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दीना नाथ सिंह	01.07.2012

809	जेसी818617ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पीएच बसना सिंघा	01.02.2012
810	जेसी818690वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्णा कुमार एस	01.02.2012
811	जेसी818816एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पृथ्वी राज सिंह गौड़	01.07.2012
812	जेसी819049एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम प्रसिद्ध मिश्रा	01.03.2012
813	जेसी818808पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस लिंगाराज आचारी	01.07.2012

### सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

814	जेसी826091एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भीम बहादुर थापा	01.05.2012
-----	--------------	---------------------------------	-----------------	------------

### पायोनियर कोर

815	जेसी829145पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद कमल खान	01.02.2012
816	जेसी829177एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश एम सी	01.04.2012
817	जेसी829207के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वीरेंद्र कुमार सिंह	01.05.2012
818	जेसी829322के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	संतोष कुमार	01.04.2012
819	जेसी829325एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुबोध सागर चाउरासिआ	01.04.2012

### सेना डाक सेवा

820	जेसी834188एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्रा प्रसाद	01.04.2012
-----	--------------	----------------------------	------------------	------------

### रक्षा सुरक्षा कोर

821	जेसी840474एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुदेश कुमार	01.04.2012
822	जे सी840673वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कष्णन सिंह	01.04.2012
823	जे पी842176एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एम राजन	01.07.2012
824	जेसी841709वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मेला सिंह	01.06.2012

825	जेसी841871डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मिलाप चन्द राना	01.04.2012
826	जेसी841577डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिब संकर लाहा	01.03.2012
<b>प्रदेशिक सेना</b>				
827	टिजे4448एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जसवंत सिंह	01.03.2012
828	टिजे4884पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ओंकार सिंह	01.07.2012
829	टिजे3619एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पूर्णा बहादुर राय	01.07.2012
830	टिजे4307एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अबिनाश कुमार कटियार	01.07.2012
831	टिजे3911एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशवानी कुमार	01.05.2012
832	टिजे4700एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बृज नंदन लाल	01.07.2012
833	टिजे4829वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बुध सेन प्रसाद पांडे	01.08.2012
834	टिजे4421ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्रशेखरन नायर के	01.03.2012
835	टिजे4859डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरदेव राज	01.06.2012
836	टिजे4305एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरपाल सिंह	01.04.2012
837	टिजे4368ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुराने निवरुती राजाराम	01.03.2012
838	टिजे4338एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन लाल	01.04.2012
839	टिजे4306ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामबीर सिंह	01.07.2012
840	टिजे4976एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुभाष	01.08.2012

अवैतनिक लेफिटेनेन्ट के रूप में

राष्ट्रपति अंगरक्षक

1	जेसी235014एच	रिसालदार मेजर	सुखराज सिंह	01.05.2012
16	<u>केवेलरी</u>			
2	जेसी239227एन	रिसालदार मेजर	काशीनाथ सी	01.02.2012
3	जेसी239490वाइ	रिसालदार मेजर	रामचन्द्रन पिल्लई जी.	01.06.2012
8	<u>केवेलरी</u>			
4	जेसी239650एन	रिसालदार मेजर	जगबीर सिंह	01.05.2012
45	<u>केवेलरी</u>			
5	जेसी238909एम	रिसालदार मेजर	जयादेवन के	01.06.2012
64	<u>केवेलरी</u>			
6	जेसी239147डब्ल्यू	रिसालदार मेजर	बलविन्दर सिंह	01.05.2012
87	<u>आर्मड रेजीमेंट</u>			
7	जेसी239364एम	रिसालदार मेजर	ए मणिकंदन	01.05.2012
5	<u>आर्मड रेजीमेंट</u>			
8	जेसी237571ए	रिसालदार मेजर	कादर सिंह भदोरिया	01.08.2012
10	<u>आर्मड रेजीमेंट</u>			
9	जेसी237152एच	रिसालदार मेजर	नन्द किशोर प्रसाद	01.06.2012
	<u>आर्मड कोर</u>			
10	जेसी238454एफ	रिसालदार मेजर	ओमवीर सिंह	01.03.2012
	<u>आर्टिलरी रेजीमेंट</u>			
11	जेसी256464एन	सुबेदार मेजर	ए शिवलिंगम	01.03.2012
12	जेसी259568ए	सुबेदार मेजर	अमरजीत सिंह	01.06.2012
13	जेसी259321एम	सुबेदार मेजर	अमरजीत सिंह	01.05.2012
14	जेसी258175एक्स	सुबेदार मेजर	एन सिंह	01.04.2012
15	जेसी263197ए	सुबेदार मेजर	ए. बिहारी सिंह	01.02.2012
16	जेसी261353ए	सुबेदार मेजर	भरत सिंह	01.06.2012
17	जेसी261476एम	सुबेदार मेजर	बिजेंद्र सिंह	01.06.2012
18	जेसी260394एक्स	सुबेदार मेजर	सी किसान सम्भू	01.03.2012

19	जेसी260602एफ	सुबेदार मेजर	डूंगर सिंह	01.06.2012
20	जेसी259911एक्स	सुबेदार मेजर	गनधर्ब सिंह	01.05.2012
21	जेसी258927डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गुरदीप सिंह	01.02.2012
22	जेसी261337एच	सुबेदार मेजर	कान्ति प्रसाद शर्मा	01.02.2012
23	जेसी259413एल	सुबेदार मेजर	मनजीत सिंह	01.08.2012
24	जेसी260679के	सुबेदार मेजर	मेहर सिंह	01.06.2012
25	जेसी259848एन	सुबेदार मेजर	मोहानन पिल्लई जी.	01.06.2012
26	जेसी257225एल	सुबेदार मेजर	नन्द कुमार सिंह	01.02.2012
27	जेसी258710एम	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश	01.04.2012
28	जेसी262069डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	पद्मनाभन वयालाप्रा	01.04.2012
29	जेसी260188एन	सुबेदार मेजर	प्रीतम सिंह	01.07.2012
30	जेसी258702एन	सुबेदार मेजर	राधा कृष्णन राव	01.04.2012
31	जेसी259663एम	सुबेदार मेजर	राम इकबाल चौधरी	01.02.2012
32	जेसी258843एच	सुबेदार मेजर	राम प्रवेश शर्मा	01.02.2012
33	जेसी261626एक्स	सुबेदार मेजर	एस पांडि	01.07.2012
34	जेसी259296एल	सुबेदार मेजर	संतोष कुमार	01.07.2012
35	जेसी260331पी	सुबेदार मेजर	श्यामा चरण	01.05.2012
36	जेसी257769ए	सुबेदार मेजर	सोम दत्ता	01.05.2012
37	जेसी257035वाइ	सुबेदार मेजर	सुच्चा सिंह	01.02.2012
38	जेसी259779एच	सुबेदार मेजर	तारकेशवर मिश्रा	01.07.2012
39	जेसी258275एच	सुबेदार मेजर	वेनु कुमार के	01.07.2012

#### सेना वायु सुरक्षा

40	जेसी297304एच	सुबेदार मेजर	ए राजेन्द्रन	01.03.2012
41	जेसी296344एक्स	सुबेदार मेजर	अमरीक सिंह	01.06.2012
42	जेसी297409एम	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार	01.06.2012
43	जेसी296897एन	सुबेदार मेजर	बी जे रामचन्द्रन	01.03.2012
44	जेसी296608एन	सुबेदार मेजर	छज्जू राम	01.03.2012
45	जेसी297292वाइ	सुबेदार मेजर	दर्शन सिंह	01.03.2012
46	जेसी297301पी	सुबेदार मेजर	दया नन्द	01.03.2012
47	जेसी297204एक्स	सुबेदार मेजर	हंस राज	01.06.2012
48	जेसी297276एफ	सुबेदार मेजर	हर सिंह सी	01.04.2012
49	जेसी296384वाइ	सुबेदार मेजर	जयपाल सिंह	01.05.2012
50	जेसी297475पी	सुबेदार मेजर	जसवंत मसीह	01.06.2012
51	जेसी297497एन	सुबेदार मेजर	जोगिंदर सिंह	01.07.2012
52	जेसी297488एम	सुबेदार मेजर	के कल्याणी	01.03.2012
53	जेसी297610एक्स	सुबेदार मेजर	करण बहादुर थापा	01.08.2012
54	जेसी297149एम	सुबेदार मेजर	महेन्द्र प्रताप राय	01.08.2012
55	जेसी297032एन	सुबेदार मेजर	मोहन सिंह	01.07.2012
56	जेसी297102एफ	सुबेदार मेजर	आर मारिक	01.05.2012

57	जेसी297080एन	सुबेदार मेजर	रछपाल सिंह	01.04.2012
58	जेसी297408के	सुबेदार मेजर	संत कुमार दुबे	01.04.2012
59	जेसी297331एम	सुबेदार मेजर	सतवीर सिंह	01.08.2012
60	जेसी226349वाइ	सुबेदार मेजर	शिव नारायण सिंह	01.05.2012
61	जेसी296712एफ	सुबेदार मेजर	सुकुमारन नाथर आर	01.02.2012

**मद्रास इंजीनियर समूह**

62	जेसी306559एम	सुबेदार मेजर	ए अरोचिया सार्मी	01.04.2012
63	जेसी306548ए	सुबेदार मेजर	ए ई राव	01.03.2012
64	जेसी306554एन	सुबेदार मेजर	सी गनासेकरन	01.04.2012
65	जेसी306553एल	सुबेदार मेजर	चंद्रमोहन टी एन	01.03.2012
66	जेसी306552एच	सुबेदार मेजर	फ्राविलन जोज पीएस	01.06.2012
67	जेसी306508वाइ	सुबेदार मेजर	हरी नारायनन सी	01.02.2012
68	जेसी306498ए	सुबेदार मेजर	हवा सिंह	01.02.2012
69	जेसी306658पी	सुबेदार मेजर	जे जोसफ	01.06.2012
70	जेसी306513के	सुबेदार मेजर	करिअप्पा सो एस	01.04.2012
71	जेसी306127एक्स	सुबेदार मेजर	कृष्णाप्पा बी पी	01.02.2012
72	जेसी306505एल	सुबेदार मेजर	केवीजी प्रसादा राव	01.02.2012
73	जेसी306549एच	सुबेदार मेजर	एल सुन्दरा राज	01.03.2012
74	जेसी306666एन	सुबेदार मेजर	लक्ष्मन राम	01.07.2012
75	जेसी306001एक्स	सुबेदार मेजर	माम चन्द	01.02.2012
76	जेसी306626एम	सुबेदार मेजर	मोहन दास पीके	01.07.2012
77	जेसी306545एम	सुबेदार मेजर	पी सिल्वाराज	01.02.2012
78	जेसी306172के	सुबेदार मेजर	पार्थसारथी सी	01.02.2012
79	जेसी306692पी	सुबेदार मेजर	रामजी शुक्ला	01.08.2012
80	जेसी306542वाइ	सुबेदार मेजर	रेघु के	01.03.2012
81	जेसी306496पी	सुबेदार मेजर	एस कुमार एस	01.02.2012
82	जेसी306391एल	सुबेदार मेजर	सुगुमारन आर	01.05.2012
83	जेसी306659एक्स	सुबेदार मेजर	सुनील कुमार के	01.08.2012
84	जेसी305320एक्स	सुबेदार मेजर	सन्नी के.एम	01.02.2012
85	जेसी306125एम	सुबेदार मेजर	थुलासिधरन पिल्लई जी.	01.03.2012
86	जेसी306576एम	सुबेदार मेजर	विक्रमन टी वी	01.04.2012

**बंगाल इंजीनियर समूह**

87	जेसी179905डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अजय कुमार	01.04.2012
88	जेसी207628पी	सुबेदार मेजर	अजय कुमार	01.06.2012
89	जेसी305537एफ	सुबेदार मेजर	अलियास ए	01.05.2012
90	जेसी199898एम	सुबेदार मेजर	अमर सिंह	01.04.2012
91	जेसी325992एल	सुबेदार मेजर	अनूप सिंह	01.03.2012
92	जेसी327802एम	सुबेदार मेजर	ए सिंह	01.05.2012

93	जेसी327639एक्स	सुबेदार मेजर	अरुण कुमार	01.04.2012
94	जेसी327764एफ	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार शर्मा	01.05.2012
95	जेसी146193वाइ	सुबेदार मेजर	ए सिंह	01.05.2012
96	जेसी327836ए	सुबेदार मेजर	बाबू लाल	01.03.2012
97	जेसी219544एन	सुबेदार मेजर	बाबू टी	01.05.2012
98	जेसी197240एन	सुबेदार मेजर	बाला कृष्णान वी वी	01.06.2012
99	जेसी199865एफ	सुबेदार मेजर	बाला कुमार डी.	01.02.2012
100	जेसी325697एच	सुबेदार मेजर	बलराम सिंह बी	01.05.2012
101	जेसी327816एम	सुबेदार मेजर	बलवान सिंह	01.02.2012
102	जेसी327677एन	सुबेदार मेजर	बांके शिवाजी ततोबा	01.05.2012
103	जेसी327679वाइ	सुबेदार मेजर	बसंत सिंह	01.04.2012
104	जेसी327491के	सुबेदार मेजर	बियंत सिंह गिल	01.06.2012
105	जेसी327771एक्स	सुबेदार मेजर	बी ममोलर्य	01.06.2012
106	जेसी327439एफ	सुबेदार मेजर	बिमन नंदी	01.02.2012
107	जेसी325672डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	बिनोद कुमार झा	01.04.2012
108	जेसी224936एल	सुबेदार मेजर	बिरजू यादवा	01.04.2012
109	जेसी199867एम	सुबेदार मेजर	किस्टोफर सैमसन डी.	01.05.2012
110	जेसी199948एम	सुबेदार मेजर	दलावी एस ब्रमदेव	01.04.2012
111	जेसी325303वाइ	सुबेदार मेजर	दलबीर सिंह	01.02.2012
112	जेसी174758पी	सुबेदार मेजर	दलबीर सिंह	01.05.2012
113	जेसी326260एफ	सुबेदार मेजर	दया नन्द	01.08.2012
114	जेसी327433ए	सुबेदार मेजर	दया शंकर मिश्रा	01.04.2012
115	जेसी327334एक्स	सुबेदार मेजर	देसे शेलर शिवाजी	01.06.2012
116	जेसी325847एन	सुबेदार मेजर	देवेन्द्र पाटिल	01.04.2012
117	जेसी326272डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	धनेनद्रा नाथ मल्लिक	01.04.2012
118	जेसी327469वाइ	सुबेदार मेजर	धर्म पाल सिंह	01.05.2012
119	जेसी224938डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	डी. दत्तात्रिया शिवराम	01.04.2012
120	जेसी327799एक्स	सुबेदार मेजर	जी. रवि	01.04.2012
121	जेसी327661एच	सुबेदार मेजर	जी. एन पोपट	01.05.2012
122	जेसी326186एल	सुबेदार मेजर	गवस बाबन शंकर	01.06.2012
123	जेसी199844एल	सुबेदार मेजर	घाटे अजय नारायण	01.04.2012
124	जेसी327766एम	सुबेदार मेजर	गोकरन सिंह	01.05.2012
125	जेसी327178वाइ	सुबेदार मेजर	गुरचरण सिंह	01.08.2012
126	जेसी330005एम	सुबेदार मेजर	गुरदीप सिंह	01.02.2012
127	जेसी327192एल	सुबेदार मेजर	गुरमीत सिंह	01.04.2012
128	जेसी325945एन	सुबेदार मेजर	गुरमेज सिंह	01.06.2012
129	जेसी207661एम	सुबेदार मेजर	गुरप्रीत सिंह गुजराल	01.06.2012
130	जेसी174695एक्स	सुबेदार मेजर	हरी राम सौरत	01.08.2012
131	जेसी174818वाइ	सुबेदार मेजर	हरीश सिंह डांगी	01.03.2012
132	जेसी191554वाइ	सुबेदार मेजर	ईकरार अहमद	01.05.2012

133	जेसी327479एच	सुबेदार मेजर	इश्वर सिंह	01.06.2012
134	जेसी327421एल	सुबेदार मेजर	जगबीर सिंह	01.02.2012
135	जेसी326932एच	सुबेदार मेजर	जगतार सिंह	01.04.2012
136	जेसी174789पी	सुबेदार मेजर	जय कष्णन पेटवाल	01.06.2012
137	जेसी327051डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जय राम प्रसाद	01.02.2012
138	जेसी327481ए	सुबेदार मेजर	जनार्दन मौर्या	01.08.2012
139	जेसी179926एम	सुबेदार मेजर	जसविन्दर सिंह	01.03.2012
140	जेसी305546एच	सुबेदार मेजर	जॉन थामस	01.05.2012
141	जेसी326176एफ	सुबेदार मेजर	जॉनी टी टी	01.06.2012
142	जेसी305534एन	सुबेदार मेजर	के गन्नाशेखरन	01.04.2012
143	जेसी199969एच	सुबेदार मेजर	के आर साहेब शंकर	01.04.2012
144	जेसी327161एल	सुबेदार मेजर	कदम शिवदास अर्जुन	01.04.2012
145	जेसी325526डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कल्याण कुमार गुप्ता	01.07.2012
146	जेसी327659एल	सुबेदार मेजर	कारंदे दत्तत्रे अन्ना	01.05.2012
147	जेसी325677पी	सुबेदार मेजर	कैरि वीरा वेंकट रत्नम	01.04.2012
148	जेसी199987एल	सुबेदार मेजर	कश्मीर सिंह	01.04.2012
149	जेसी327160एच	सुबेदार मेजर	केहर सिंह	01.04.2012
150	जेसी191540वाइ	सुबेदार मेजर	खजान सिंह रावत	01.05.2012
151	जेसी325852वाइ	सुबेदार मेजर	खस्ती बल्लभ ओएलआई	01.08.2012
152	जेसी224924डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	खोमाने बाबन नाथ	01.05.2012
153	जेसी327309वाइ	सुबेदार मेजर	किशोरी लाल	01.05.2012
154	जेसी224937एन	सुबेदार मेजर	कोरदे प्रकाश राजा राम	01.06.2012
155	जेसी327770पी	सुबेदार मेजर	कष्णन कुमार ठकरान	01.07.2012
156	जेसी327871एच	सुबेदार मेजर	कष्णन सिंह	01.08.2012
157	जेसी326519एम	सुबेदार मेजर	कृष्णा नामा मोनी एन	01.07.2012
158	जेसी325955एक्स	सुबेदार मेजर	कुलदीप चन्द	01.08.2012
159	जेसी327768एक्स	सुबेदार मेजर	कुलवंत सिंह	01.04.2012
160	जेसी327196एफ	सुबेदार मेजर	कुशाल सिंह बजेथा	01.05.2012
161	जेसी327503एन	सुबेदार मेजर	लक्ष्मन सिंह राना	01.04.2012
162	जेसी325916वाइ	सुबेदार मेजर	लक्ष्मन सुनागर	01.08.2012
163	जेसी325513वाइ	सुबेदार मेजर	लाल बाबू प्रसाद	01.05.2012
164	जेसी330000एन	सुबेदार मेजर	लाल सिंह	01.04.2012
165	जेसी179887वाइ	सुबेदार मेजर	मान सिंह रावत	01.05.2012
166	जेसी174777ए	सुबेदार मेजर	मोडक ए कालूराम	01.07.2012
167	जेसी327660ए	सुबेदार मेजर	मोहम्मद शदाब	01.05.2012
168	जेसी126986ए	सुबेदार मेजर	मोहम्मद के ए	01.06.2012
169	जेसी328157पी	सुबेदार मेजर	मोहन चंद्रा पांडे	01.08.2012
170	जेसी328379के	सुबेदार मेजर	मोहन सिंह	01.02.2012
171	जेसी328250डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मोहन सिंह	01.07.2012
172	जेसी219572ए	सुबेदार मेजर	मोहन वी	01.05.2012



173	जेसी199920एम	सुबेदार	मेजर	मोहिन्दर सिंह	01.03.2012
174	जेसी325822एफ	सुबेदार	मेजर	एन चंद्रशेखर पी	01.04.2012
175	जेसी327648वाइ	सुबेदार	मेजर	नगेन्द्र कुमार पांडे	01.03.2012
176	जेसी325686डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	नरेन्द्रा प्रसाद शर्मा	01.08.2012
177	जेसी328183डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	नरेश पाल	01.05.2012
178	जेसी327772ए	सुबेदार	मेजर	निरंजन कुमार मोन्डल	01.05.2012
179	जेसी326426एक्स	सुबेदार	मेजर	ओम प्रकाश डांगी	01.06.2012
180	जेसी326233एक्स	सुबेदार	मेजर	पी वीरा भद्रा रमा राव	01.04.2012
181	जेसी191562एक्स	सुबेदार	मेजर	पंकज जैन	01.05.2012
182	जेसी326427ए	सुबेदार	मेजर	परेषवर दत्त	01.05.2012
183	जेसी174752एन	सुबेदार	मेजर	प्रवीन कुमार	01.05.2012
184	जेसी327651वाइ	सुबेदार	मेजर	पाटिल शशि कांत शंकर	01.04.2012
185	जेसी327674ए	सुबेदार	मेजर	प्रबीर रौय	01.08.2012
186	जेसी327899एच	सुबेदार	मेजर	प्रकाशन पी	01.02.2012
187	जेसी327760एल	सुबेदार	मेजर	प्रमोद के	01.04.2012
188	जेसी330004के	सुबेदार	मेजर	प्रेम चंद्रा	01.04.2012
189	जेसी146188एन	सुबेदार	मेजर	प्रेम प्रकाश पुरोहित	01.06.2012
190	जेसी327522वाइ	सुबेदार	मेजर	प्रेम सिंह	01.05.2012
191	जेसी207637डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	पुनीत सारस्वत	01.08.2012
192	जेसी325843एक्स	सुबेदार	मेजर	पीवी सुधाकर नायडू	01.06.2012
193	जेसी177202डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	आर जयरामन	01.06.2012
194	जेसी326934एन	सुबेदार	मेजर	आर कुत्तीराजू	01.04.2012
195	जेसी305552डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	आर मधु सुधन रेडी	01.05.2012
196	जेसी186252एच	सुबेदार	मेजर	राधा कृष्णा पिल्लई एस	01.06.2012
197	जेसी327520एन	सुबेदार	मेजर	रघुनाथ रौय	01.06.2012
198	जेसी327166के	सुबेदार	मेजर	राज कंवर	01.04.2012
199	जेसी325656वाइ	सुबेदार	मेजर	राज पाल सिंह पुंदीर	01.04.2012
200	जेसी327427एम	सुबेदार	मेजर	राजेंद्रा पाल सिंह	01.02.2012
201	जेसी327438वाइ	सुबेदार	मेजर	राजेंद्रा प्रसाद	01.02.2012
202	जेसी327336एच	सुबेदार	मेजर	राजेन्द्रन एम के	01.08.2012
203	जेसी199954ए	सुबेदार	मेजर	राजीव नाहरिया	01.05.2012
204	जेसी325596पी	सुबेदार	मेजर	राजकरण सिंह	01.08.2012
205	जेसी129493के	सुबेदार	मेजर	राकेश कुमार	01.02.2012
206	जेसी174817डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	राकेश कुमार	01.04.2012
207	जेसी326369एफ	सुबेदार	मेजर	राम ध्यान यादव	01.05.2012
208	जेसी330014एन	सुबेदार	मेजर	राम प्रकाश	01.02.2012
209	जेसी207614पी	सुबेदार	मेजर	रमेश चन्द	01.07.2012
210	जेसी327468डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	रमेश कुमार मलिक	01.04.2012
211	जेसी326028डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	रामवीर सिंह	01.05.2012
212	जेसी325653एल	सुबेदार	मेजर	रंजन कुमार	01.05.2012

213	जेसी327638पी	सुबेदार मेजर	रतन चन्द	01.05.2012
214	जेसी177203वाइ	सुबेदार मेजर	रवि कुमार सलोमोन डी.	01.04.2012
215	जेसी169500एक्स	सुबेदार मेजर	रवि शंकर डी. एन	01.06.2012
216	जेसी327321ए	सुबेदार मेजर	रोहनी कुमार सिंह	01.03.2012
217	जेसी325366एफ	सुबेदार मेजर	रोमेश पौल	01.05.2012
218	जेसी326183एक्स	सुबेदार मेजर	आर खान	01.06.2012
219	जेसी305542एम	सुबेदार मेजर	साबू वी वी	01.04.2012
220	जेसी219579के	सुबेदार मेजर	संजय नाथ वीबी	01.06.2012
221	जेसी326192वाइ	सुबेदार मेजर	सत्य पाल यादव	01.08.2012
222	जेसी327736पी	सुबेदार मेजर	सिल्वाराजू के	01.06.2012
223	जेसी305541के	सुबेदार मेजर	शकील अहमद शरीफ	01.08.2012
224	जेसी326447एन	सुबेदार मेजर	समसुद्दीन	01.04.2012
225	जेसी327314के	सुबेदार मेजर	शान मोहम्मद	01.06.2012
226	जेसी224943एफ	सुबेदार मेजर	शिंदे रामहरी अप्पा	01.04.2012
227	जेसी325882डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	श्री निवास	01.03.2012
228	जेसी327297पी	सुबेदार मेजर	सुभास चंद्रा पाल	01.05.2012
229	जेसी191535एन	सुबेदार मेजर	सुभाष चन्द	01.03.2012
230	जेसी191525के	सुबेदार मेजर	सुभाष चंद्रा डी.	01.08.2012
231	जेसी327154पी	सुबेदार मेजर	सुधन कुमार टी	01.08.2012
232	जेसी325826एक्स	सुबेदार मेजर	सुधीर कुमार	01.06.2012
233	जेसी327186एक्स	सुबेदार मेजर	सुख देव सिंह	01.04.2012
234	जेसी325052ए	सुबेदार मेजर	सुखदेव सिंह	01.04.2012
235	जेसी327550एल	सुबेदार मेजर	सुखपाल सिंह	01.02.2012
236	जेसी327763वाइ	सुबेदार मेजर	सुरेश चंद्रा कुकरेती	01.04.2012
237	जेसी325524एल	सुबेदार मेजर	सुरेश चंद्रा उपाध्याय	01.06.2012
238	जेसी326174डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सुरजय कांता कलिता	01.07.2012
239	जेसी191531एक्स	सुबेदार मेजर	सुशील कुमार चौहान	01.05.2012
240	जेसी177219के	सुबेदार मेजर	एसवी सतीश एस	01.04.2012
241	जेसी199944डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	तेज सिंह	01.05.2012
242	जेसी330030एल	सुबेदार मेजर	यू एस रेडी	01.05.1912
243	जेसी327656एक्स	सुबेदार मेजर	उदय बीर सिंह	01.04.2012
244	जेसी327306एल	सुबेदार मेजर	यू राम दूदी	01.05.2012
245	जेसी325907एक्स	सुबेदार मेजर	उमा शंकर शर्मा	01.05.2012
246	जेसी199874एच	सुबेदार मेजर	वी बाबू	01.02.2012
247	जेसी174839पी	सुबेदार मेजर	विक्रम सिंह जे	01.05.2012
248	जेसी179921एन	सुबेदार मेजर	विशाल	01.02.2012
249	जेसी165117एफ	सुबेदार मेजर	विशेश्वर प्रसाद	01.06.2012
250	जेसी199940ए	सुबेदार मेजर	यश पाल	01.05.2012
251	जेसी199941एच	सुबेदार मेजर	जेड बाबा विठल	01.05.2012

**बोम्बे इंजीनियर समूह**

252	जेसी348333एच	सुबेदार	मेजर	बजिंदर	01.05.2012
253	जेसी348467एफ	सुबेदार	मेजर	बलविन्दर सिंह	01.05.2012
254	जेसी347616एक्स	सुबेदार	मेजर	भीम सिंह बिष्ट	01.06.2012
255	जेसी347714एक्स	सुबेदार	मेजर	चन्दन सिंह	01.03.2012
256	जेसी347608वाइ	सुबेदार	मेजर	चंद्र मोहन पाठक	01.03.2012
257	जेसी347784डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	चोगले मधुकर दत्तत्रे	01.04.2012
258	जेसी347931एन	सुबेदार	मेजर	देव कुमार पांडे	01.05.2012
259	जेसी347602एक्स	सुबेदार	मेजर	फतेह चन्द शर्मा	01.05.2012
260	जेसी347469ए	सुबेदार	मेजर	हरपाल सिंह	01.05.2012
261	जेसी347954पी	सुबेदार	मेजर	जगदीश चन्द	01.05.2012
262	जेसी347685एपी	सुबेदार	मेजर	जेओएस एम	01.03.2012
263	जेसी348411पी	सुबेदार	मेजर	करत बालू कृष्णा	01.04.2012
264	जेसी347965एफ	सुबेदार	मेजर	कुमार पौल शर्मा	01.06.2012
265	जेसी347955एक्स	सुबेदार	मेजर	मांगे लाल	01.05.2012
266	जेसी347949के	सुबेदार	मेजर	मंसूर अहमद खान	01.04.2012
267	जेसी347773के	सुबेदार	मेजर	नालवादे पांडुरंग जगन्नाथ	01.06.2012
268	जेसी347634के	सुबेदार	मेजर	नरहरी नारायण दुबे	01.05.2012
269	जेसी347611वाइ	सुबेदार	मेजर	प्यार चन्द ठाकुर	01.02.2012
270	जेसी348049एम	सुबेदार	मेजर	राजा राम	01.08.2012
271	जेसी347779एल	सुबेदार	मेजर	राजिन्दर सिंह	01.04.2012
272	जेसी348062डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	राम चंद्र	01.06.2012
273	जेसी347956ए	सुबेदार	मेजर	राम पौल शर्मा	01.06.2012
274	जेसी347911ए	सुबेदार	मेजर	राम राज मिश्रा	01.02.2012
275	जेसी347966के	सुबेदार	मेजर	रमेश	01.08.2012
276	जेसी347769एफ	सुबेदार	मेजर	रमेश चन्द शर्मा	01.03.2012
277	जेसी347793एक्स	सुबेदार	मेजर	रामवीर सिंह	01.03.2012
278	जेसी347704एन	सुबेदार	मेजर	रतन सिंह	01.02.2012
279	जेसी347958एल	सुबेदार	मेजर	रवीन्द्र सिंह	01.07.2012
280	जेसी348038ए	सुबेदार	मेजर	रोहतास कुमार शर्मा	01.07.2012
281	जेसी347624डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	सतबीर सिंह	01.03.2012
282	जेसी347606एन	सुबेदार	मेजर	सतीसन एम डी.	01.02.2012
283	जेसी348299एन	सुबेदार	मेजर	सोहनवीर सिंह मान	01.03.2012
284	जेसी347963डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	श्री कुमार एस	01.08.2012
285	जेसी348910के	सुबेदार	मेजर	सुच्या सिंह	01.05.2012
286	जेसी347850एन	सुबेदार	मेजर	वीर दत्ता दगादु	01.08.2012
287	जेसी347587एन	सुबेदार	मेजर	विजय कुमार दुग्गल	01.06.2012
288	जेसी347589वाइ	सुबेदार	मेजर	विनोद कुमार	01.05.2012

सिग्नल्स कोर

289	जेसी371616डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	अयाज डब्ल्यू खान	01.02.2012
290	जेसी371020डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	बिजेन्द्र सिंह	01.03.2012
291	जेसी369777ए	सुबेदार	मेजर	बीरबल सिंह	01.02.2012
292	जेसी371075ए	सुबेदार	मेजर	चमन लाल	01.05.2012
293	जेसी371037के	सुबेदार	मेजर	दान सिंह	01.04.2012
294	जेसी367955वाइ	सुबेदार	मेजर	दिनेश कुमार	01.07.2012
295	जेसी371044ए	सुबेदार	मेजर	हरिदास सिंह	01.05.2012
296	जेसी367919एन	सुबेदार	मेजर	हरिदास वी के	01.07.2012
297	जेसी370002एफ	सुबेदार	मेजर	इन्द्रजीत	01.02.2012
298	जेसी370351एल	सुबेदार	मेजर	जयराम चौहान	01.03.2012
299	जेसी370012एल	सुबेदार	मेजर	कार्तिक चंद्रा सामंत	01.06.2012
300	जेसी367910वाइ	सुबेदार	मेजर	कश्मीर सिंह	01.06.2012
301	जेसी367917एच	सुबेदार	मेजर	खुशाल सिंह	01.07.2012
302	जेसी371214वाइ	सुबेदार	मेजर	कुलवंत सिंह	01.04.2012
303	जेसी372105वाइ	सुबेदार	मेजर	कुलवंत सिंह	01.02.2012
304	जेसी371108ए	सुबेदार	मेजर	लक्ष्मी नारायण झा	01.05.2012
305	जेसी367967एन	सुबेदार	मेजर	एम पट्टाबी	01.04.2012
306	जेसी368521एल	सुबेदार	मेजर	मोहिन्दर पाल	01.06.2012
307	जेसी371013ए	सुबेदार	मेजर	नन्द लाल	01.03.2012
308	जेसी367920एच	सुबेदार	मेजर	ओम प्रकाश	01.07.2012
309	जेसी370014डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	पाटिल भानुदास तुकाराम	01.08.2012
310	जेसी371042पी	सुबेदार	मेजर	प्यारा लाल	01.04.2012
311	जेसी371123पी	सुबेदार	मेजर	पृथ्वी चन्द शर्मा	01.07.2012
312	जेसी368671एफ	सुबेदार	मेजर	पूरन चन्द	01.05.2012
313	जेसी371008पी	सुबेदार	मेजर	रबींद्र कुमार	01.02.2012
314	जेसी371896पी	सुबेदार	मेजर	राम पौल शर्मा	01.04.2012
315	जेसी368524वाइ	सुबेदार	मेजर	राम सिंह	01.05.2012
316	जेसी160633एम	सुबेदार	मेजर	रामअवतार पांडे	01.06.2012
317	जेसी368924एल	सुबेदार	मेजर	समीर कुमार डे	01.02.2012
318	जेसी368669के	सुबेदार	मेजर	शशि कांत सिंह	01.02.2012
319	जेसी371205एक्स	सुबेदार	मेजर	शिव करन सिंह	01.08.2012
320	जेसी368976एफ	सुबेदार	मेजर	शिवप्पा सी	01.08.2012
321	जेसी367257डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	श्रीनिवास सिंह	01.03.2012
322	जेसी367276एफ	सुबेदार	मेजर	एस पीडी सिंह	01.04.2012
323	जेसी371010एम	सुबेदार	मेजर	सुभ करन	01.02.2012
324	जेसी369996एफ	सुबेदार	मेजर	सुरेंद्र सिंह पुनिया	01.05.2012
325	जेसी368537डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	स्वर्ण सिंह पी	01.04.2012
326	जेसी369994डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	उमपदा पौल	01.05.2012

327	जेसी367925एफ	सुबेदार मेजर	उन्नीर्वशन्न सी के	01.08.2012
328	जेसी368670वाइ	सुबेदार मेजर	विजय बी	01.05.2012
329	जेसी371826डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	विजयन ए	01.08.2012
330	जेसी368453एच	सुबेदार मेजर	विनोद कुमार	01.04.2012

ब्रिगेड आफ गार्ड्स

331	जेसी402512वाइ	सुबेदार मेजर	अब्दुल वाहिद खान	01.04.2012
332	जेसी402691के	सुबेदार मेजर	बलदेव राज	01.07.2012
333	जेसी402521ए	सुबेदार मेजर	बाल्लीमादा ए नंजप्पा	01.07.2012
334	जेसी402553एच	सुबेदार मेजर	गजे सिंह	01.08.2012
335	जेसी402595पी	सुबेदार मेजर	गंगा सिंह	01.04.2012
336	जेसी402620एच	सुबेदार मेजर	प्रकाश चंद्र उप्रेती	01.02.2012
337	जेसी402685डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	पवार मछिन्द्र पूना राम	01.06.2012
338	जेसी402844एच	सुबेदार मेजर	पुसा राम	01.08.2012
339	जेसी402367एम	सुबेदार मेजर	वी सिंह	01.04.2012

पैराशूट रेजीमेंट

340	जेसी412167के	सुबेदार मेजर	सतबीर सिंह	01.07.2012
-----	--------------	--------------	------------	------------

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेंट

341	जेसी216363एक्स	सुबेदार मेजर	बलविन्दर सिंह	01.04.2012
342	जेसी135906वाइ	सुबेदार मेजर	भैरव दत्त शर्मा	01.07.2012
343	जेसी418845पी	सुबेदार मेजर	रमन कुमार	01.05.2012
344	जेसी418657एन	सुबेदार मेजर	वी श्रीधर प्रसाद	01.08.2012

पंजाब रेजीमेंट

345	जेसी428924एक्स	सुबेदार मेजर	अजीत सिंह	01.03.2012
346	जेसी429308के	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह	01.07.2012
347	जेसी428964वाइ	सुबेदार मेजर	दर्शन सिंह	01.05.2012
348	जेसी428853एफ	सुबेदार मेजर	गुरमेल सिंह	01.07.2012
349	जेसी428787के	सुबेदार मेजर	रंजीत सिंह	01.02.2012

मद्रास रेजीमेंट

350	जेसी438751वाइ	सुबेदार मेजर	जोर्ज बरितो	01.04.2012
351	जेसी548224ए	सुबेदार मेजर	एन दुरई	01.03.2012
352	जेसी438794एन	सुबेदार मेजर	पी कुमार	01.05.2012
353	जेसी438390एल	सुबेदार मेजर	राजन पीवी	01.06.2012

ग्रेनेडियर्स

354	जेसी449441एन	सुबेदार मेजर	सत्यवीर सिंह	01.08.2012
-----	--------------	--------------	--------------	------------

355	जेसी449315एफ मराठा लघु सेना	सुबेदार मेजर	सुरिन्दर सिंह बागल	01.03.2012
356	जेसी458322वाइ	सुबेदार मेजर	बासप्पा एस	01.07.2012
357	जेसी458300ए	सुबेदार मेजर	एल अली एन	01.06.2012
358	जेसी458356एम	सुबेदार मेजर	मोहम्मद एम पाशा	01.05.2012
<u>राजपूताना राईफल्स</u>				
359	जेसी468825एक्स	सुबेदार मेजर	मोहन सिंह	01.07.2012
360	जेसी468462वाइ	सुबेदार मेजर	राम पाल सिंह	01.07.2012
361	जेसी468636एन	सुबेदार मेजर	सूरज मल सिंह भाटी	01.07.2012
362	जेसी468686वाइ	सुबेदार मेजर	सुरेश प्रताप सिंह	01.08.2012
<u>राजपूत रेजीमेंट</u>				
363	जेसी478655एम	सुबेदार मेजर	राज कुमार	01.05.2012
364	जेसी478522डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राम प्रसाद	01.03.2012
365	जेसी478479ए	सुबेदार मेजर	सूबे सिंह	01.08.2012
<u>जाट रेजीमेंट</u>				
366	जेसी488710एल	सुबेदार मेजर	बनवारी लाल जाट	01.06.2012
367	जेसी489108एक्स	सुबेदार मेजर	प्रकाश चन्द ढाका	01.04.2012
<u>सिख रेजीमेंट</u>				
368	जेसी498515एफ सिख लघु पैदल सेना	सुबेदार मेजर	गुरदीप सिंह	01.07.2012
369	जेसी508408डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अमरजीत सिंह	01.05.2012
370	जेसी508385ए	सुबेदार मेजर	कश्मीर सिंह	01.02.2012
<u>गढ़वाल राईफल्स</u>				
371	जेसी528595एफ	सुबेदार मेजर	अम्बा दत्त	01.04.2012
372	जेसी529206एच	सुबेदार मेजर	महेंद्र सिंह	01.07.2012
373	जेसी528384वाइ	सुबेदार मेजर	राजेंद्रा सिंह	01.02.2012
<u>कुमाँउ रेजीमेंट</u>				
374	जेसी538765एन	सुबेदार मेजर	बंशी धर कंदपाल	01.03.2012
375	जेसी539144एफ	सुबेदार मेजर	दीवान गिरि गोस्वामी	01.08.2012
376	जेसी538950एफ	सुबेदार मेजर	मान सिंह	01.05.2012
377	जेसी538873एक्स	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश यादव	01.03.2012

आसाम रेजीमेंट

378	जेसी548332के	सुबेदार मेजर	भूपेन गोगोई	01.02.2012
379	जेसी548587के	सुबेदार मेजर	पबि फुकन	01.06.2012
380	जेसी548015एच	सुबेदार मेजर	सैयद खयरूल हुसैन	01.02.2012

बिहार रेजीमेंट

381	जेसी558857एफ	सुबेदार मेजर	गिरीश चंद्रा राउत	01.06.2012
382	जेसी558873वाइ	सुबेदार मेजर	मुरलीधर बारिक	01.08.2012

महार रेजीमेंट

383	जेसी568750ए	सुबेदार मेजर	सुरेश चंद्र मथपाल	01.02.2012
384	जेसी568519एक्स	सुबेदार मेजर	जोम्बादे नागनाथ अभिमान्यु	01.04.2012

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

385	जेसी579286एफ	सुबेदार मेजर	बाबू राम	01.04.2012
386	जेसी578790पी	सुबेदार मेजर	गोपाल सिंह	01.03.2012
387	जेसी579189के	सुबेदार मेजर	सतनाम सिंह	01.04.2012

लधदाख स्काउट

388	जेसी588107एक्स	सुबेदार मेजर	छेरिंग फुनचोक	01.07.2012
389	जेसी588103एफ	सुबेदार मेजर	नवंग स्टोबदान	01.04.2012

नागा रेजीमेंट

390	जेसी538772के	सुबेदार मेजर	जगदीश चंद्रा	01.07.2012
-----	--------------	--------------	--------------	------------

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल सेना

391	जेसी592518एन	सुबेदार मेजर	भूपेंद्र सिंह	01.02.2012
392	जेसी592486डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	मोहन लाल	01.08.2012
393	जेसी592412एफ	सुबेदार मेजर	मोहम्मद मुज़फर	01.03.2012

1 गोरखा राईफल्स

394	जेसी602143डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	चुनी लाल राना	01.02.2012
-----	-------------------	--------------	---------------	------------

5 गोरखा राईफल्स

395	जेसी617495एल	सुबेदार मेजर	राजेश गुरंग	01.07.2012
-----	--------------	--------------	-------------	------------

9 गोरखा राईफल्स

396	जेसी629439वाइ	सुबेदार मेजर	युद्ध वीर	01.02.2012
-----	---------------	--------------	-----------	------------

11 गोरखा राईफल्स

397 जेसी634177एक्स सुबेदार मेजर दिल कुमार राय 01.08.2012  
सेना सेवा कोर दक्षिण

398 जेसी640414एम सुबेदार मेजर अमर सिंह शेखावत 01.08.2012  
399 जेसी662292एन सुबेदार मेजर अमृत कुमार सिंघा 01.07.2012  
400 जेसी640657एक्स सुबेदार मेजर अमृत नाथ द्विवेदी 01.03.2012  
401 जेसी641205एफ सुबेदार मेजर बचन लाल 01.08.2012  
402 जेसी640783के सुबेदार मेजर बसंत पाल सिंह 01.08.2012  
403 जेसी640002एल सुबेदार मेजर बी बाबू सिंघा 01.05.2012  
404 जेसी662211एच सुबेदार मेजर चंद्रमा सिंह 01.08.2012  
405 जेसी641241एम सुबेदार मेजर चंद्रा भान यादव 01.08.2012  
406 जेसी640410डब्ल्यू सुबेदार मेजर चंद्रिका प्रसाद 01.05.2012  
407 जेसी640221एम सुबेदार मेजर जी. एस 01.04.2012  
408 जेसी642162के सुबेदार मेजर घान श्याम सिंह 01.08.2012  
409 जेसी640682डब्ल्यू सुबेदार मेजर हरी शंकर सिंह 01.08.2012  
410 जेसी640412एफ सुबेदार मेजर कृष्णा कुमार रावत 01.04.2012  
411 जेसी640703एफ सुबेदार मेजर मोहम्मद सेराजुल्लाह खान 01.03.2012  
412 जेसी662257एल सुबेदार मेजर मुन्नी लाल राम 01.02.2012  
413 जेसी640452एच सुबेदार मेजर नोरदन शेरपा 01.06.2012  
414 जेसी640667एफ सुबेदार मेजर राम मूर्ती शर्मा 01.03.2012  
415 जेसी662195डब्ल्यू सुबेदार मेजर रमा शंकर तिवादी 01.05.2012  
416 जेसी662168एम सुबेदार मेजर एस गोपू 01.03.2012  
417 जेसी640382पी सुबेदार मेजर संत राम 01.05.2012  
418 जेसी662236पी सुबेदार मेजर शमशेर सिंह तनवर 01.08.2012  
419 जेसी662171एम सुबेदार मेजर शंकर डी. राम 01.05.2012  
420 जेसी217862वाइ सुबेदार मेजर सुंदरन ए 01.04.2012  
421 जेसी640726एच सुबेदार मेजर तेज कांत झा 01.08.2012  
422 जेसी662272ए सुबेदार मेजर तेज नारायण चौबे 01.02.2012  
423 जेसी641180ए सुबेदार मेजर वकील सिंह 01.06.2012  
424 जेसी640465ए सुबेदार मेजर युधिशटर कुमार 01.08.2012

सेना सेवा कोर जन्तु परिवाहन

425 जेसी680331के रिसालदार मेजर राम निवास 01.08.2012  
426 जेसी680611एक्स रिसालदार मेजर तपन घोष 01.06.2012

सेना चिकित्सा कोर

427 जेसी692915एफ सुबेदार मेजर बासुदेब लेनका 01.02.2012  
428 जेसी691738ए सुबेदार मेजर बिनोए कुमार नाथ 01.03.2012



429	जेसी693143एफ	सुबेदार मेजर	देवेन्द्र कुमार	01.02.2012
430	जेसी693074डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गंगा बिशन सिंह चौहान	01.02.2012
431	जेसी693777एक्स	सुबेदार मेजर	गोवराछरी बी	01.07.2012
432	जेसी691274एन	सुबेदार मेजर	हरी लाल कुशवाहा	01.03.2012
433	जेसी691093एच	सुबेदार मेजर	जगबीर सिंह	01.05.2012
434	जेसी692624एफ	सुबेदार मेजर	लक्ष्मी नारायण	01.02.2012
435	जेसी692630पी	सुबेदार मेजर	एम जाफर आलम	01.06.2012
436	जेसी691018वाइ	सुबेदार मेजर	मोहानन के वी	01.04.2012
437	जेसी691091एक्स	सुबेदार मेजर	मोहानन नायर एम आर	01.08.2012
438	जेसी691751के	सुबेदार मेजर	राजेन्द्रन पी	01.02.2012
439	जेसी693243एम	सुबेदार मेजर	राम चंद्रा सिंह	01.08.2012
440	जेसी692125एम	सुबेदार मेजर	रामचंद्र प्रसाद साहू	01.04.2012
441	जेसी693613एफ	सुबेदार मेजर	रवीन्द्रन पी एम	01.05.2012
442	जेसी693658एफ	सुबेदार मेजर	रोहतास सिंह	01.07.2012
443	जेसी161061एच	सुबेदार मेजर	श्याम बहादुर चतुर्वेदी	01.08.2012
444	जेसी693192के	सुबेदार मेजर	श्रीधर पागल	01.04.2012

सेना आयुध कोर

445	जेसी723121ए	सुबेदार मेजर	गिरीश चंद्रा श्रीवास्तव	01.03.2012
446	जेसी725986एल	सुबेदार मेजर	गोविंद राम	01.06.2012
447	जेसी726025डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	गुमाना राम चौधरी	01.03.2012
448	जेसी723681एम	सुबेदार मेजर	हरीश चंद्र भंडारी	01.07.2012
449	जेसी723535एम	सुबेदार मेजर	कुलदीप सिंह	01.05.2012
450	जेसी723783एच	सुबेदार मेजर	लालजी पाठक	01.08.2012
451	जेसी724111एच	सुबेदार मेजर	प्रताप सिंह बिष्ट	01.07.2012
452	जेसी723526एल	सुबेदार मेजर	राम फल	01.04.2012
453	जेसी723771एन	सुबेदार मेजर	रामबीर सिंह गवारिया	01.05.2012
454	जेसी723788एफ	सुबेदार मेजर	संकर कुमार पौल	01.07.2012
455	जेसी164879एच	सुबेदार मेजर	सुभाष चंद्रा पांडे	01.03.2012
456	जेसी722746एच	सुबेदार मेजर	सुख राम सिंह	01.06.2012
457	जेसी723626डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	तिलक राज	01.05.2012
458	जेसी723219एन	सुबेदार मेजर	वेद प्रकाश शर्मा	01.02.2012
459	जेसी723717ए	सुबेदार मेजर	योगेश कुमार	01.06.2012

कोर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

460	जेसी750624पी	सुबेदार मेजर	विभूति भूसना राउत	01.07.2012
461	जेसी749245एम	सुबेदार मेजर	बिरेन्द्र सिंह	01.02.2012
462	जेसी754537वाइ	सुबेदार मेजर	चंद्र प्रकाश	01.06.2012
463	जेसी754279के	सुबेदार मेजर	दलवीर शर्मा	01.04.2012
464	जेसी164259एल	सुबेदार मेजर	गया दत्त सेमवाल	01.06.2012

465	जेसी749170ए	सुबेदार मेजर	गोपीनाथन पिल्लई आर	01.03.2012
466	जेसी754154एम	सुबेदार मेजर	गुप्ता नारायण सिंह	01.03.2012
467	जेसी752953के	सुबेदार मेजर	गुरनाम सिंह एम	01.08.2012
468	जेसी750650डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जय प्रकाश	01.05.2012
469	जेसी750812डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कंवर पाल सिंह	01.08.2012
470	जेसी752209एम	सुबेदार मेजर	केशो प्रसाद मिश्रा	01.04.2012
471	जेसी752529एफ	सुबेदार मेजर	कृष्णाष्णा मुरारी श्रीमल	01.08.2012
472	जेसी752649ए	सुबेदार मेजर	के चेतरी	01.07.2012
473	जेसी751391एल	सुबेदार मेजर	कुलदीप कुमार शर्मा	01.02.2012
474	जेसी752608डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	एम बालाकृष्णन	01.07.2012
475	जेसी750769ए	सुबेदार मेजर	मदन मोहन	01.02.2012
476	जेसी754582एल	सुबेदार मेजर	एन महावीर टी	01.08.2012
477	जेसी751143पी	सुबेदार मेजर	नरसिम्हुलु नायडू एस	01.03.2012
478	जेसी754927एफ	सुबेदार मेजर	पृथ्वी पाल	01.05.2012
479	जेसी750596एन	सुबेदार मेजर	राजेश्वर सिंह	01.02.2012
480	जेसी753356एफ	सुबेदार मेजर	राम बहादुर सिंह	01.07.2012
481	जेसी752861एक्स	सुबेदार मेजर	राम मिलन शुक्ला	01.08.2012
482	जेसी756896एल	सुबेदार मेजर	राम प्रकाश शर्मा	01.05.2012
483	जेसी753447एल	सुबेदार मेजर	राम सरन	01.08.2012
484	जेसी749667एक्स	सुबेदार मेजर	रमेश चंद्र	01.07.2012
485	जेसी753052के	सुबेदार मेजर	संजय कुमार सिन्हा	01.07.2012
486	जेसी749167ए	सुबेदार मेजर	शशि ई	01.03.2012
487	जेसी751405ए	सुबेदार मेजर	एस उपाध्याय	01.04.2012
488	जेसी753177एफ	सुबेदार मेजर	शिव करन विश्वाकर्मा	01.08.2012
489	जेसी751320के	सुबेदार मेजर	शिव राम सिंह	01.08.2012
490	जेसी752864एल	सुबेदार मेजर	तरसेम चन्द शर्मा	01.08.2012
491	जेसी753027एल	सुबेदार मेजर	थामपन के	01.08.2012
492	जेसी752479एफ	सुबेदार मेजर	उमेश चंद्रा बाजपई	01.05.2012
493	जेसी755831एल	सुबेदार मेजर	वी सुगुमारन	01.05.2012
494	जेसी751306एक्स	सुबेदार मेजर	विजय शंकर	01.02.2012

### सेना शिक्षा कोर

495	जेसी802188ए	सुबेदार मेजर	बलकार सिंह एस	01.07.2012
496	जेसी802082एन	सुबेदार मेजर	चोक बहादुर गुरंग	01.02.2012
497	जेसी802403ए	सुबेदार मेजर	दया शंकर मिश्रा	01.08.2012
498	जेसी802175एच	सुबेदार मेजर	धर्मवीर सिंह बी	01.06.2012
499	जेसी802401पी	सुबेदार मेजर	गाबार सिंह बिष्ट	01.08.2012
500	जेसी802192एच	सुबेदार मेजर	गोरख नाथ मालाकर	01.08.2012
501	जेसी802259डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	महेश प्रसाद त्रिपाठी	01.08.2012
502	जेसी802389वाइ	सुबेदार मेजर	प्रहलाद सिंह	01.02.2012

503	जेसी802260एल	सुबेदार मेजर	राजीव कुमार शाक्य	01.08.2012
504	जेसी802388डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राजपती यादव	01.02.2012
505	जेसी802183एफ	सुबेदार मेजर	रत्नाकरन पी	01.06.2012
506	जेसी802285एक्स	सुबेदार मेजर	सत्य नारायण यादव	01.08.2012
507	जेसी802400एम	सुबेदार मेजर	वीजेन्द्र पाल सिंह	01.07.2012
<u>रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर</u>				
508	जेसी797300पी	रिसालदार मेजर	हृदयआन्नद सिंह	01.08.2012
509	जेसी797298एच	रिसालदार मेजर	राम नंदन साह	01.06.2012
510	जेसी797111एल	रिसालदार मेजर	शंख मेराज मोहम्मद	01.04.2012
511	जेसी797056ए	रिसालदार मेजर	सूबे सिंह	01.08.2012
512	जेसी797071पी	रिसालदार मेजर	सुकान्त कुमार दास	01.06.2012
<u>आसुचना कोर</u>				
513	जेसी810515पी	सुबेदार मेजर	ब्रम दास शर्मा	01.07.2012
514	जेसी810019एम	सुबेदार मेजर	धर्म बीर	01.03.2012
515	जेसी810124के	सुबेदार मेजर	इश्वर सिंह	01.06.2012
<u>सेना पुलिस कोर</u>				
516	जेसी818680पी	सुबेदार मेजर	हरी ओम	01.08.2012
<u>सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर</u>				
517	जेसी826089डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	वसंत ए ए	01.04.2012
<u>पायोनियर कोर</u>				
518	जेसी829172वाइ	सुबेदार मेजर	दरोगा सिंह	01.04.2012
519	जेसी829192एम	सुबेदार मेजर	कार्तिका चंद्रा सत्पथी	01.06.2012
520	जेसी829194एक्स	सुबेदार मेजर	किशन सिंह भदोरिया	01.06.2012
521	जेसी225338ए	सुबेदार मेजर	मैनेजर प्रधान	01.03.2012
<u>रक्षा सुरक्षा कोर</u>				
522	जेसी840723वाइ	सुबेदार मेजर	डी. सुभास	01.06.2012
523	जेसी840754वाइ	सुबेदार मेजर	हरबंस लाल	01.08.2012
524	जेसी840782एल	सुबेदार मेजर	रोमेश चन्द	01.06.2012
525	जेसी840477वाइ	सुबेदार मेजर	एस नादाराजन	01.03.2012
526	जेसी840476वाइ	सुबेदार मेजर	तरसेम राज वी	01.06.2012

## अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार मेजर के रूप में

### राष्ट्रपति अंगरक्षक

1	जेसी235033एन 16 केवेलरी	रिसालदार	महेन्द्र सिंह	01.02.2012
2	जेसी240682एच 7 केवेलरी	रिसालदार	एल गोड़ बी टी	01.06.2012
3	जेसी243234एफ	रिसालदार	बी सिंह	01.03.2012
4	जेसी242653एम	रिसालदार	चन्दन सिंह	01.02.2012
5	जेसी243059एक्स	रिसालदार	राम किशोर	01.02.2012
6	जेसी241808के 8 केवेलरी	रिसालदार	सुखदेव सिंह	01.07.2012
7	जेसी243622वाइ	रिसालदार	गुरचरण सिंह	01.07.2012
8	जेसी243167एफ	रिसालदार	सुखविंदर सिंह	01.02.2012
9	जेसी243306ए 1 होर्स	रिसालदार	सुरिन्दर कुमार	01.02.2012
10	जेसी242013एच	रिसालदार	बलबीर सिंह	01.02.2012
11	जेसी238134एम	रिसालदार	दर्शन सिंह	01.04.2012
12	जेसी239480पी	रिसालदार	राम कुमार सिंह	01.05.2012
13	जेसी242864पी	रिसालदार	शैलेंद्र पाल सिंह	01.05.2012
14	जेसी239058एक्स 2 लार्न्सस	रिसालदार	सुरेंद्र सिंह	01.04.2012
15	जेसी242708एल	रिसालदार	अरबिंद कुमार सिंह	01.04.2012
16	जेसी242843वाइ	रिसालदार	दिनेश सिंह	01.06.2012
17	जेसी241750एक्स	रिसालदार	जयराम सिंह	01.06.2012
18	जेसी242762वाइ 17 होर्स	रिसालदार	शेर सिंह	01.05.2012
19	जेसी241099ए	रिसालदार	दलजीत सिंह	01.03.2012
20	जेसी243783एफ	रिसालदार	कला सिंह	01.05.2012
21	जेसी241144एफ	रिसालदार	केसर सिंह	01.03.2012
22	जेसी242436डब्ल्यू	रिसालदार	किशन सिंह	01.08.2012
23	जेसी242788एन	रिसालदार	राज कुमार सिंह	01.08.2012
24	जेसी241356एम	रिसालदार	शमशेर सिंह	01.04.2012

9 होर्स

25	जेसी243498एच	रिसालदार	जतिंद्र पौल	01.03.2012
26	जेसी243394एफ	रिसालदार	मोहिन्दर सिंह	01.05.2012
27	जेसी243938एल	रिसालदार	क्यू सिंह	01.07.2012
28	जेसी243939एन	रिसालदार	सुभाष चन्द	01.07.2012
29	जेसी243414के	रिसालदार	सुरिन्दर सिंह	01.06.2012

14 होर्स

30	जेसी243654एफ	रिसालदार	बलबीर सिंह	01.06.2012
31	जेसी243927वाइ	रिसालदार	बलदेव सिंह	01.07.2012
32	जेसी243457वाइ	रिसालदार	बलवान राज	01.03.2012
33	जेसी243182डब्ल्यू	रिसालदार	दलबीर सिंह	01.02.2012
34	जेसी243459के	रिसालदार	गुरमीत सिंह	01.03.2012
35	जेसी243452ए	रिसालदार	गुरनाम सिंह	01.02.2012
36	जेसी243573एफ	रिसालदार	हरदीप सिंह	01.05.2012
37	जेसी243207एक्स	रिसालदार	जिया लाल	01.04.2012
38	जेसी243672के	रिसालदार	कश्मीर सिंह	01.02.2012
39	जेसी243146एल	रिसालदार	मोहन सिंह	01.03.2012
40	जेसी243472एन	रिसालदार	नरदेव सिंह परमार	01.04.2012

3 केवेलरी

41	जेसी242338डब्ल्यू	रिसालदार	अजय कुमार सिंह	01.05.2012
42	जेसी242399एन	रिसालदार	बलजीत सिंह	01.08.1912
43	जेसी240409एन	रिसालदार	बलविन्दर सिंह	01.02.2012
44	जेसी242745वाइ	रिसालदार	घान श्याम बी	01.02.2012
45	जेसी241037ए	रिसालदार	करतार सिंह	01.02.2012
46	जेसी241263एक्स	रिसालदार	कुलवंत सिंह	01.03.2012
47	जेसी242901एक्स	रिसालदार	एम सिंह	01.07.2012
48	जेसी242781के	रिसालदार	राम निवास	01.08.2012
49	जेसी242335एच	रिसालदार	एस सतीश बहादुर सिंह	01.03.2012
50	जेसी242638एक्स	रिसालदार	सलाम सिंह	01.07.2012
51	जेसी240996के	रिसालदार	सतनाम सिंह	01.02.2012
52	जेसी241305वाइ	रिसालदार	शाम सिंह	01.03.2012

18 केवेलरी

53	जेसी240895डब्ल्यू	रिसालदार	इखलाक हुसैन	01.04.2012
54	जेसी243628ए	रिसालदार	प्रेम सिंह	01.03.2012

4 होर्स

55	जेसी243187पी	रिसालदार	परम जीत सिंह	01.04.2012
56	जेसी242835ए	रिसालदार	सरवीन कुमार एम	01.05.2012

केन्द्रीय भारत अश्व

57	जेसी239567डब्ल्यू	रिसालदार	ब्रम सिंह	01.05.2012
58	जेसी242223एच	रिसालदार	कमलेश कुमार शर्मा	01.06.2012
59	जेसी242319एल	रिसालदार	पारश राम	01.06.2012

62 केवेलरी

60	जेसी242789डब्ल्यू	रिसालदार	एल सिंह	01.07.2012
----	-------------------	----------	---------	------------

20 लार्न्सस

61	जेसी243383पी	रिसालदार	बलदेव सिंह	01.04.2012
62	जेसी242770एक्स	रिसालदार	बिजेन्द्र सिंह	01.03.2012
63	जेसी244143के	रिसालदार	दिलीप सिंह	01.08.2012
64	जेसी243122एफ	रिसालदार	हरेन्द्र सिंह तोमर	01.08.2012
65	जेसी240251डब्ल्यू	रिसालदार	जसविन्दर सिंह	01.06.2012
66	जेसी241973पी	रिसालदार	कुलदीप सिंह	01.02.2012
67	जेसी242136पी	रिसालदार	कुलजिंदर सिंह	01.02.2012
68	जेसी243072पी	रिसालदार	ओम प्रकाश सिंह	01.07.2012
69	जेसी243614ए	रिसालदार	सत्य प्रकाश	01.04.2012

63 केवेलरी

70	जेसी241578एफ	रिसालदार	दलजीत सिंह	01.02.2012
71	जेसी242825डब्ल्यू	रिसालदार	हरी सिंह	01.05.2012
72	जेसी242076एल	रिसालदार	जसविन्द्र सिंह	01.02.2012
73	जेसी242107ए	रिसालदार	लखबीर सिंह	01.03.2012
74	जेसी242685पी	रिसालदार	महावीर सिंह	01.03.2012
75	जेसी242398एल	रिसालदार	प्रभाकर सिंह	01.02.2012
76	जेसी241685एच	रिसालदार	रतन सिंह	01.03.2012

61 केवेलरी

77	जेसी241377एच	रिसालदार	चन्द्र भान सिंह	01.04.2012
----	--------------	----------	-----------------	------------

45 केवेलरी

78	जेसी241209के	रिसालदार	राजेंद्र सिंह	01.04.2012
79	जेसी242251पी	रिसालदार	सतीश कुमार के.एस	01.06.2012

**64 केवेलरी**

80	जेसी242655एक्स	रिसालदार	अमर पाल सिंह	01.07.2012
81	जेसी239912वाइ	रिसालदार	बंत सिंह	01.04.2012
82	जेसी242303ए	रिसालदार	चरण सिंह	01.02.2012
83	जेसी242614एन	रिसालदार	जगवीर सिंह	01.05.2012
84	जेसी242627एल	रिसालदार	मोहन सिंह	01.02.2012
85	जेसी240337पी	रिसालदार	राकेश कुमार राजपूत	01.05.2012

**65 आर्मड रेजीमेंट**

86	जेसी241010एच	रिसालदार	बलदेव चन्द	01.04.2012
87	जेसी242870एच	रिसालदार	महावीर सिंह	01.06.2012

**66 आर्मड रेजीमेंट**

88	जेसी242852ए	रिसालदार	दिनकर साल्वे	01.04.2012
89	जेसी243001ए	रिसालदार	जय सिंह यादव	01.08.2012
90	जेसी242715एफ	रिसालदार	मोहिन्दर सिंह	01.03.2012
91	जेसी242756एल	रिसालदार	राजन एपी	01.04.2012
92	जेसी242853एच	रिसालदार	रोशन लाल	01.05.2012

**67 आर्मड रेजीमेंट**

93	जेसी240221वाइ	रिसालदार	बलबीर सिंह	01.08.2012
94	जेसी241409ए	रिसालदार	राम सिंह	01.02.2012
95	जेसी241705एल	रिसालदार	रतन सिंह	01.03.2012

**68 आर्मड रेजीमेंट**

96	जेसी240661एम	रिसालदार	बोते तानाजी जय सिंग	01.04.2012
97	जेसी243409वाइ	रिसालदार	राजेंद्र सिंह	01.08.2012

**69 आर्मड रेजीमेंट**

98	जेसी241607एल	रिसालदार	गोपाल सिंह	01.04.2012
99	जेसी241176के	रिसालदार	जगदीश प्रसाद	01.05.2012
100	जेसी240871एम	रिसालदार	प्रभु सिंह मीना	01.04.2012
101	जेसी240872पी	रिसालदार	राजेंद्र सिंह	01.04.2012
102	जेसी241136एच	रिसालदार	शिव कुमार सिंह	01.04.2012

**70 आर्मड रेजीमेंट**

103	जेसी242842डब्ल्यू	रिसालदार	अर्जुन सिंह	01.08.2012
104	जेसी242954डब्ल्यू	रिसालदार	बाबू सिंह	01.08.2012
105	जेसी242841एन	रिसालदार	हीरा सिंह	01.07.2012

106	जेसी242725एल	रिसालदार	जगजीत सिंह	01.04.2012
107	जेसी242617एफ	रिसालदार	कमलेश कुमार	01.03.2012
108	जेसी242826वाइ	रिसालदार	करनैल सिंह	01.04.2012
109	जेसी242736एक्स	रिसालदार	मनजीत सिंह	01.04.2012
110	जेसी242814के	रिसालदार	नरेश कुमार	01.04.2012
111	जेसी242953एन	रिसालदार	प्रदीप कुमार	01.08.2012
112	जेसी242737ए	रिसालदार	समर वीर सिंह	01.04.2012

**71 आर्मड रेजीमेंट**

113	जेसी243990एन	रिसालदार	जरनैल सिंह	01.07.2012
114	जेसी243579एच	रिसालदार	विजय सिंह	01.07.2012

**72 आर्मड रेजीमेंट**

115	जेसी241251एच	रिसालदार	केहर सिंह	01.04.2012
116	जेसी240612के	रिसालदार	नन्द राम	01.07.2012
117	जेसी240026एफ	रिसालदार	रणधीर सिंह	01.04.2012
118	जेसी241521एम	रिसालदार	यू सिंह	01.07.2012
119	जेसी241279एच	रिसालदार	विजय कुमार	01.05.2012

**73 आर्मड रेजीमेंट**

120	जेसी243117डब्ल्यू	रिसालदार	नारायण सिंह	01.02.2012
121	जेसी242646डब्ल्यू	रिसालदार	सतनाम सिंह	01.03.2012

**74 आर्मड रेजीमेंट**

122	जेसी241137एल	रिसालदार	अमरीक सिंह	01.02.2012
123	जेसी243200एम	रिसालदार	बचन लाल	01.03.2012
124	जेसी243391एन	रिसालदार	परमजीत सिंह	01.06.2012

**75 आर्मड रेजीमेंट**

125	जेसी240850डब्ल्यू	रिसालदार	डी. पीएन	01.04.2012
126	जेसी240967पी	रिसालदार	राजू वीटी	01.05.2012

**82 आर्मड रेजीमेंट**

127	जेसी242634एफ	रिसालदार	अशोक कुमार	01.04.2012
128	जेसी242844एफ	रिसालदार	साहिब सिंह	01.04.2012
129	जेसी242995ए	रिसालदार	सीता राम यादव	01.07.2012

**83 आर्मड रेजीमेंट**

130	जेसी242403एल	रिसालदार	अनिल कुमार	01.06.2012
131	जेसी242054एम	रिसालदार	खीमा राम	01.05.2012



84 आर्मड रेजीमेंट

132	जेसी242900पी	रिसालदार	गौतम सिंह	01.06.2012
133	जेसी240383के	रिसालदार	प्रयाग रौय	01.04.2012
134	जेसी240279डब्ल्यू	रिसालदार	शंकर आर्य	01.04.2012
135	जेसी242895पी	रिसालदार	सुखदेव सिंह	01.08.2012

85 आर्मड रेजीमेंट

136	जेसी242587पी	रिसालदार	बनिआ राम	01.08.2012
137	जेसी242370एल	रिसालदार	कुलबीर सिंह	01.02.2012
138	जेसी242661एल	रिसालदार	नरिंदर सिंह	01.08.2012
139	जेसी242429ए	रिसालदार	रामायण तिवारी	01.04.2012
140	जेसी242545एच	रिसालदार	तिलक राज	01.06.2012

86 आर्मड रेजीमेंट

141	जेसी241699एच	रिसालदार	कृष्णा धन विश्वास	01.03.2012
142	जेसी242641एक्स	रिसालदार	एल खान	01.06.2012
143	जेसी243034एल	रिसालदार	राज सिंह	01.08.2012
144	जेसी243112एक्स	रिसालदार	साधु राम	01.05.2012
145	जेसी242250एम	रिसालदार	श्री राम	01.08.2012
146	जेसी241719एल	रिसालदार	सोहरण हिरन्ज	01.05.2012

89 आर्मड रेजीमेंट

147	जेसी241194एम	रिसालदार	बलवंत सिंह	01.04.2012
148	जेसी241438पी	रिसालदार	मथाई वाइ	01.06.2012
149	जेसी241470के	रिसालदार	नगेन्द्रा तिवारी	01.05.2012
150	जेसी242705एक्स	रिसालदार	परसराम जी. सी	01.05.2012
151	जेसी242691एच	रिसालदार	शमशेर सिंह	01.03.2012

90 आर्मड रेजीमेंट

152	जेसी242812वाइ	रिसालदार	महीपाल सिंह	01.04.2012
-----	---------------	----------	-------------	------------

42 आर्मड रेजीमेंट

153	जेसी242947ए	रिसालदार	सुखदेव सिंह	01.08.2012
-----	-------------	----------	-------------	------------

43 आर्मड रेजीमेंट

154	जेसी242460एम	रिसालदार	गुरमाल सिंह	01.04.2012
155	जेसी242462एक्स	रिसालदार	राजिन्दर सिंह	01.06.2012
156	जेसी241259पी	रिसालदार	राम कुमार शर्मा	01.04.2012
157	जेसी242458पी	रिसालदार	विनोद कुमार	01.02.2012

**46 आर्मड रेजीमेंट**

158	जेसी242669एक्स	रिसालदार	मनोज कुमार रौय	01.03.2012
159	जेसी242926के	रिसालदार	राजवंत सिंह	01.08.2012
160	जेसी242923डब्ल्यू	रिसालदार	राकेश सिंह	01.03.2012

**47 आर्मड रेजीमेंट**

161	जेसी240801एन	रिसालदार	बी बालासो बाबू	01.04.2012
162	जेसी241731एम	रिसालदार	डी. कुमार	01.08.2012
163	जेसी240797डब्ल्यू	रिसालदार	गोतम साहा	01.03.2012
164	जेसी241852एन	रिसालदार	जगदीश चंद्र	01.08.2012
165	जेसी242366एच	रिसालदार	महाबीर सिंह आर	01.04.2012
166	जेसी241555ए	रिसालदार	प्रतीम कुमार डेका	01.04.2012
167	जेसी242496एल	रिसालदार	शेर सिंह लाम्बा	01.05.2012

**48 आर्मड रेजीमेंट**

168	जेसी240908एच	रिसालदार	द्वारका प्रसाद	01.04.2012
169	जेसी241582के	रिसालदार	दिनेश कुमार पाल	01.04.2012
170	जेसी242769एच	रिसालदार	आर शुक्ला	01.04.2012

**49 आर्मड रेजीमेंट**

171	जेसी242391एफ	रिसालदार	गुरमीत सिंह	01.04.2012
172	जेसी242384एल	रिसालदार	जसबीर सिंह	01.02.2012
173	जेसी242457एम	रिसालदार	परमा नन्द	01.04.2012
174	जेसी242800के	रिसालदार	सवाई सिंह	01.08.2012

**5 आर्मड रेजीमेंट**

175	जेसी239522डब्ल्यू	रिसालदार	जय पाल सिंह	01.04.2012
176	जेसी241064के	रिसालदार	एम बी श्रीनिवास राव	01.08.2012
177	जेसी239541एफ	रिसालदार	पृथ्वीराज सी	01.07.2012
178	जेसी240690एफ	रिसालदार	शिव वी	01.08.2012

**11 आर्मड रेजीमेंट**

179	जेसी241526एल	रिसालदार	रामवीर	01.04.2012
-----	--------------	----------	--------	------------

**12 आर्मड रेजीमेंट**

180	जेसी240171वाइ	रिसालदार	मुन्ना लाल परिहार	01.06.2012
181	जेसी240573डब्ल्यू	रिसालदार	सत्येन्द्र कुमार शुक्ला	01.04.2012

13 आर्मड रेजीमेंट

182	जेसी242785ए	रिसालदार	गुरबकश सिंह	01.06.2012
183	जेसी242743एन	रिसालदार	एस नायर एन	01.06.2012
184	जेसी242050डब्ल्यू	रिसालदार	सतनाम सिंह	01.02.2012

15 आर्मड रेजीमेंट

185	जेसी242492पी	रिसालदार	दुर्ग सिंह सिसोदिया	01.06.2012
186	जेसी242516एन	रिसालदार	ओम प्रकाश	01.03.2012

19 आर्मड रेजीमेंट

187	जेसी242551डब्ल्यू	रिसालदार	अजीत सिंह	01.05.2012
188	जेसी242928पी	रिसालदार	बलबीर सिंह	01.06.2012
189	जेसी242993पी	रिसालदार	लक्ष्मी चन्द	01.07.2012
190	जेसी242570एफ	रिसालदार	ओंकार सिंह	01.05.2012
191	जेसी243067डब्ल्यू	रिसालदार	रामेश्वर लाल	01.07.2012
192	जेसी242930एम	रिसालदार	वी चंद्रा बाबू नायडू	01.06.2012

50 आर्मड रेजीमेंट

193	जेसी243103डब्ल्यू	रिसालदार	देवा राम चौधरी	01.08.2012
194	जेसी242331एम	रिसालदार	मदन लाल	01.02.2012

51 आर्मड रेजीमेंट

195	जेसी242014एल	रिसालदार	मणीराज सिंह	01.02.2012
-----	--------------	----------	-------------	------------

52 आर्मड रेजीमेंट

196	जेसी241593डब्ल्यू	रिसालदार	कनवरपाल सिंह	01.03.2012
197	जेसी241987पी	रिसालदार	मानवेन्द्र प्रताप सिंह	01.06.2012
198	जेसी241313एक्स	रिसालदार	मुख्तार सिंह	01.02.2012
199	जेसी241653ए	रिसालदार	रगुबीर सिंह	01.05.2012
200	जेसी241600एफ	रिसालदार	रमेश चंद्रा	01.04.2012
201	जेसी241646के	रिसालदार	रवीन्द्र सिंह	01.04.2012
202	जेसी242279पी	रिसालदार	स्वरूप चन्द	01.07.2012
203	जेसी239528एक्स	रिसालदार	शंकर सिंह	01.05.2012

53 आर्मड रेजीमेंट

204	जेसी241471एम	रिसालदार	भवर सिंह राजपूत	01.02.2012
205	जेसी242121एम	रिसालदार	एस पाल सिंह	01.03.2012
206	जेसी242274डब्ल्यू	रिसालदार	तरसेम सिंह	01.02.2012

आर्मड कोर

207	जेसी239511के	रिसालदार	अनिल कुमार साहू	01.05.2012
208	जेसी241977एल	रिसालदार	भूप सिंह चौहान	01.03.2012
209	जेसी240413डब्ल्यू	रिसालदार	गोपाल चंद्रा घोष	01.03.2012
210	जेसी239529ए	रिसालदार	लुइस सीजे	01.02.2012
211	जेसी240798वाइ	रिसालदार	महावीर प्रसाद	01.04.2012
212	जेसी239551एल	रिसालदार	महेंद्र सिंह	01.08.2012
213	जेसी241639एन	रिसालदार	प्रसादी लाल डी.	01.08.2012
214	जेसी240418पी	रिसालदार	प्रसांत कुमार पटनायक	01.06.2012
215	जेसी242243डब्ल्यू	रिसालदार	प्रेमा कुमारन नायर बी	01.07.2012
216	जेसी240710के	रिसालदार	राम बहादुर	01.05.2012
217	जेसी241978एन	रिसालदार	राम प्रताप सिंह	01.04.2012
218	जेसी241510ए	रिसालदार	शैलेन्द्र सिंह	01.04.2012
219	जेसी241045वाइ	रिसालदार	शिव प्रसाद शर्मा	01.08.2012
220	जेसी241536पी	रिसालदार	यू पकियम	01.04.2012

आर्टिलरी रेजीमेंट

221	जेसी266623एन	सुबेदार	ए. श्रीनिवास रेडी	01.08.2012
222	जेसी263889पी	सुबेदार	ए. विजयन	01.03.2012
223	जेसी268999एन	सुबेदार	अच्छेय लाल	01.04.2012
224	जेसी262177ए	सुबेदार	अजयवीर सिंह वर्मा	01.07.2012
225	जेसी270024एल	सुबेदार	अजीत सिंह	01.04.2012
226	जेसी270552पी	सुबेदार	अमर कुमार सिंघा	01.04.2012
227	जेसी269681एच	सुबेदार	अमर नाथ सिंह	01.06.2012
228	जेसी267169एल	सुबेदार	अमर पाल सिंह पनवर	01.03.2012
229	जेसी269024वाइ	सुबेदार	अमर सिंह	01.04.2012
230	जेसी265247वाइ	सुबेदार	अमरनाथ	01.04.2012
231	जेसी265385ए	सुबेदार	अमरीक सिंह	01.02.2012
232	जेसी269851एफ	सुबेदार	अमरीक सिंह	01.03.2012
233	जेसी268739एच	सुबेदार	आनंद प्रकाश	01.04.2012
234	जेसी268521डब्ल्यू	सुबेदार	आनंद सिंह नगर कोटी	01.04.2012
235	जेसी269163एच	सुबेदार	अनिल कुमार	01.04.2012
236	जेसी270474एच	सुबेदार	अनिल कुमार के पी	01.05.2012
237	जेसी268025पी	सुबेदार	अर्जुन सिंह	01.06.2012
238	जेसी268713एन	सुबेदार	अर्विन्द दत्ता	01.07.2012
239	जेसी268927के	सुबेदार	अशोक कुमार	01.03.2012
240	जेसी270732एक्स	सुबेदार	अशोक कुमार	01.05.2012
241	जेसी265950एम	सुबेदार	अशोक कुमार मंडल	01.03.2012
242	जेसी269146एच	सुबेदार	अशोक पी	01.02.2012

243	जेसी265071वाइ	सुबेदार	अशोकन टी	01.03.2012
244	जेसी267335एन	सुबेदार	अवतार सिंह	01.05.2012
245	जेसी270863एच	सुबेदार	बाबन प्रसाद	01.02.2012
246	जेसी268684के	सुबेदार	बाबू रंजन नाथ	01.04.2012
247	जेसी273006एन	सुबेदार	बचन लाल	01.02.2012
248	जेसी270018एक्स	सुबेदार	बचन सिंह	01.06.2012
249	जेसी272820एम	सुबेदार	बच्छा सिंह	01.03.2012
250	जेसी270150एक्स	सुबेदार	बैजनाथ सिंह	01.06.2012
251	जेसी266889ए	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.03.2012
252	जेसी269775ए	सुबेदार	बलदेव सिंह	01.03.2012
253	जेसी270555एच	सुबेदार	बलदेव सिंह	01.03.2012
254	जेसी268763वाइ	सुबेदार	बलिहार सिंह	01.03.2012
255	जेसी269612एम	सुबेदार	बलजीत सिंह	01.02.2012
256	जेसी269682एल	सुबेदार	बलकार सिंह जसरोतिया	01.04.2012
257	जेसी264593एच	सुबेदार	बालकिशन	01.07.2012
258	जेसी261256एच	सुबेदार	बलराम सिंह	01.04.2012
259	जेसी269034एच	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.02.2012
260	जेसी269287एक्स	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.04.2012
261	जेसी269992डब्ल्यू	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.08.2012
262	जेसी271354डब्ल्यू	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.04.2012
263	जेसी270454पी	सुबेदार	भगवान दास	01.04.2012
264	जेसी270503एम	सुबेदार	भंवर लाल	01.06.2012
265	जेसी271052के	सुबेदार	भंवर सिंह	01.04.2012
266	जेसी268945एम	सुबेदार	भौसाहब सिधू डाके	01.02.2012
267	जेसी273487एल	सुबेदार	भवनेशवर	01.03.2012
268	जेसी269778एन	सुबेदार	भोला नाथ यादव	01.04.2012
269	जेसी262425एल	सुबेदार	भूपेंद्र सिंह	01.04.2012
270	जेसी270211के	सुबेदार	बिकास चंद्रा गहारा	01.03.2012
271	जेसी271160एन	सुबेदार	बिपुल चंद्रा नाथ	01.06.2012
272	जेसी269009के	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह	01.04.2012
273	जेसी268958के	सुबेदार	बिरेन्द्रा कुमार सिंह	01.04.2012
274	जेसी270128एम	सुबेदार	बिरेन्द्रा प्रसाद सिंह	01.04.2012
275	जेसी268290एल	सुबेदार	ब्राम प्रकाश	01.04.2012
276	जेसी270001के	सुबेदार	ब्रिजेश	01.02.2012
277	जेसी269643एम	सुबेदार	सी ए सोगायम	01.03.2012
278	जेसी269373एच	सुबेदार	सी साउदारा पांडियन	01.02.2012
279	जेसी270752एल	सुबेदार	चमन सिंह	01.07.2012
280	जेसी265377एफ	सुबेदार	चंचल सिंह नगर कोटी	01.02.2012
281	जेसी269423एच	सुबेदार	चंदेशवरी प्रसाद यादव	01.04.2012
282	जेसी268228वाइ	सुबेदार	चन्द्रापपा एच वी	01.04.2012

283	जेसी269829डब्ल्यू	सुबेदार	चरण सिंह	01.04.2012
284	जेसी267313पी	सुबेदार	चौहान रमेश जगन्मथ	01.08.2012
285	जेसी267373के	सुबेदार	छोटे लाल	01.04.2012
286	जेसी269358एन	सुबेदार	चोखे लाल	01.07.2012
287	जेसी267380ए	सुबेदार	दलजीत सिंह	01.04.2012
288	जेसी270251एल	सुबेदार	दामोदरन पी के	01.02.2012
289	जेसी269575के	सुबेदार	दारा सिंह	01.07.2012
290	जेसी266604एच	सुबेदार	दर्शन सिंह	01.04.2012
291	जेसी270621ए	सुबेदार	दर्शन सिंह	01.04.2012
292	जेसी270249एन	सुबेदार	दोलत राम शर्मा	01.04.2012
293	जेसी268150वाइ	सुबेदार	दया शंकर यादव	01.02.2012
294	जेसी270702ए	सुबेदार	दयाल सिंह रावत	01.03.2012
295	जेसी271624ए	सुबेदार	दयालन एस	01.03.2012
296	जेसी264519एफ	सुबेदार	दीपा चन्द राम	01.04.2012
297	जेसी269675पी	सुबेदार	देस राज	01.08.2012
298	जेसी268819ए	सुबेदार	डी. राम	01.04.2012
299	जेसी270112एफ	सुबेदार	डी. एम एम	01.02.2012
300	जेसी269205के	सुबेदार	धर्म वीर सिंह	01.08.2012
301	जेसी271792वाइ	सुबेदार	धर्मेन्द्र सिंह	01.08.2012
302	जेसी268473एफ	सुबेदार	डी. सिंह रावत	01.04.2012
303	जेसी267901एच	सुबेदार	दीवान सिंह	01.07.2012
304	जेसी268289डब्ल्यू	सुबेदार	फकीर एन	01.07.2012
305	जेसी272549एन	सुबेदार	जी. रवि चंद्रन	01.02.2012
306	जेसी268825एन	सुबेदार	घान श्याम जोशी	01.04.2012
307	जेसी270748एच	सुबेदार	ज्ञान चन्द	01.04.2012
308	जेसी267666पी	सुबेदार	गुरदयाल सिंह	01.04.2012
309	जेसी268333पी	सुबेदार	गुरमीत सिंह	01.05.2012
310	जेसी269117एन	सुबेदार	गुरमीत सिंह	01.02.2012
311	जेसी268378पी	सुबेदार	गुरनाम सिंह	01.04.2012
312	जेसी270136एल	सुबेदार	जी. असीरी नायडू	01.05.2012
313	जेसी270097एक्स	सुबेदार	एच गोपीनाथ किसान	01.05.2012
314	जेसी266182एच	सुबेदार	हनामप्पा एच	01.08.2012
315	जेसी270737डब्ल्यू	सुबेदार	हर स्वरूप सिंह	01.04.2012
316	जेसी265239ए	सुबेदार	हरी बाबू	01.03.2012
317	जेसी270571ए	सुबेदार	हरी ओम	01.04.2012
318	जेसी270729एक्स	सुबेदार	हरी शंकर सिंह चौहान	01.07.2012
319	जेसी262554एल	सुबेदार	हरजीत कुमार	01.07.2012
320	जेसी269422ए	सुबेदार	हरजीत सिंह	01.04.2012
321	जेसी262179एल	सुबेदार	एच सिंह	01.02.2012
322	जेसी270628के	सुबेदार	हरपाल सिंह	01.02.2012

323	जेसी269913डब्ल्यू	सुबेदार	हिमत सिंह शेखावत	01.04.2012
324	जेसी269000पी	सुबेदार	हीरा लाल पटेल	01.08.2012
325	जेसी268907डब्ल्यू	सुबेदार	हीरा ठाकुर	01.07.2012
326	जेसी259929एन	सुबेदार	हुकम चन्द समकरिया	01.08.2012
327	जेसी266260पी	सुबेदार	आइ दुरईसामी	01.02.2012
328	जेसी268976एम	सुबेदार	आइ एवर्ड	01.04.2012
329	जेसी268510के	सुबेदार	इन्द्रा जीत दुबे	01.05.2012
330	जेसी263911पी	सुबेदार	इन्द्रजीत	01.02.2012
331	जेसी269043के	सुबेदार	इश्वर चन्द	01.07.2012
332	जेसी268264के	सुबेदार	इश्वर सिंह	01.04.2012
333	जेसी273669वाइ	सुबेदार	जैकब टी सी	01.05.2012
334	जेसी268467एन	सुबेदार	जग मोहन गुप्ता	01.04.2012
335	जेसी270138डब्ल्यू	सुबेदार	जगत नारायण सिंह	01.03.2012
336	जेसी270347एन	सुबेदार	जगदीश चंद्र	01.06.2012
337	जेसी270347एन	सुबेदार	जगदीश चंद्र	01.06.2012
338	जेसी273211पी	सुबेदार	जगदीश चंद्रा	01.03.2012
339	जेसी267449वाइ	सुबेदार	जागीर सिंह	01.06.2012
340	जेसी273064एक्स	सुबेदार	जय करन सिंह	01.03.2012
341	जेसी269119वाइ	सुबेदार	जय किशन	01.04.2012
342	जेसी270102एक्स	सुबेदार	जय कुमार	01.04.2012
343	जेसी269925एल	सुबेदार	जय पाल सिंह	01.08.2012
344	जेसी267102एम	सुबेदार	जय प्रकाश नामदेव इंग्ले	01.02.2012
345	जेसी266827ए	सुबेदार	जय प्रकाश सिंह	01.05.2012
346	जेसी269981के	सुबेदार	जैसा राम	01.04.2012
347	जेसी268081एन	सुबेदार	जे सिंह	01.04.2012
348	जेसी272971एल	सुबेदार	जसपाल सिंह	01.05.2012
349	जेसी271581डब्ल्यू	सुबेदार	जसवंत सिंह	01.04.2012
350	जेसी261832एफ	सुबेदार	जसविन्दर सिंह	01.08.2012
351	जेसी271176वाइ	सुबेदार	जीवन सिंह राना	01.02.2012
352	जेसी272078एल	सुबेदार	जे सिंह	01.02.2012
353	जेसी270573एल	सुबेदार	जीतेन चंद्रा तमुली	01.07.2012
354	जेसी269558के	सुबेदार	जोगादन्द बालाजी दत्तू	01.05.2012
355	जेसी270616पी	सुबेदार	जोगिंदर लाल	01.08.2012
356	जेसी268979ए	सुबेदार	जोगिंदर पाल	01.04.2012
357	जेसी264442के	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.03.2012
358	जेसी270392ए	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.06.2012
359	जेसी271356एफ	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.02.2012
360	जेसी271358एम	सुबेदार	के थंगा दुरई	01.08.2012
361	जेसी269202डब्ल्यू	सुबेदार	कैलाश चंद्रा यादव	01.04.2012
362	जेसी270846एच	सुबेदार	के वेन्कटारतनम	01.07.2012

363	जेसी269859एन	सुबेदार	काली सहाय	01.08.2012
364	जेसी268740एक्स	सुबेदार	कन्हिया लाल	01.04.2012
365	जेसी269679एल	सुबेदार	कंवर सिंह	01.08.2012
366	जेसी269002ए	सुबेदार	कर्म सिंह	01.07.2012
367	जेसी269519एल	सुबेदार	करनैल सिंह	01.03.2012
368	जेसी270500वाइ	सुबेदार	कृष्णापाल सिंह	01.06.2012
369	जेसी270132पी	सुबेदार	काशीद बाबन दादा	01.03.2012
370	जेसी269830एल	सुबेदार	कश्मीर सिंह	01.04.2012
371	जेसी269457डब्ल्यू	सुबेदार	कोशल किशोर सिंह	01.07.2012
372	जेसी267879एच	सुबेदार	केशवन सी	01.08.2012
373	जेसी270981डब्ल्यू	सुबेदार	केवल प्रकाश	01.05.2012
374	जेसी265125पी	सुबेदार	केवल सिंह	01.04.2012
375	जेसी267981एल	सुबेदार	के मनी	01.06.2012
376	जेसी267543एच	सुबेदार	कष्णन चन्द	01.04.2012
377	जेसी269670डब्ल्यू	सुबेदार	कष्णन कुमार	01.04.2012
378	जेसी268700डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णा पाल	01.06.2012
379	जेसी270721एल	सुबेदार	कृष्णा पाल	01.08.2012
380	जेसी268559ए	सुबेदार	कृष्णा नंदा राय	01.06.2012
381	जेसी270742एफ	सुबेदार	कुलवंत सिंह	01.05.2012
382	जेसी270743के	सुबेदार	कुलवंत सिंह	01.03.2012
383	जेसी262571एल	सुबेदार	कुमारस्वामी एम	01.07.2012
384	जेसी264281एम	सुबेदार	के राय	01.04.2012
385	जेसी271949एन	सुबेदार	एल सिंघा	01.06.2012
386	जेसी268497एल	सुबेदार	लखबीर सिंह	01.07.2012
387	जेसी267410एम	सुबेदार	लखविन्दर सिंह	01.04.2012
388	जेसी269093पी	सुबेदार	लखविन्दर सिंह	01.06.2012
389	जेसी270042एन	सुबेदार	लेख राज	01.04.2012
390	जेसी267596एफ	सुबेदार	लिला कांता बरुयह	01.02.2012
391	जेसी269524डब्ल्यू	सुबेदार	लोकेन्द्रा सिंह	01.04.2012
392	जेसी268827वाइ	सुबेदार	एम डी. बदरोदजा	01.04.2012
393	जेसी267793के	सुबेदार	एम सत्या मूर्ती	01.08.2012
394	जेसी269296वाइ	सुबेदार	मदन लाल	01.04.2012
395	जेसी268329एम	सुबेदार	महेश चंद्र	01.04.2012
396	जेसी271594एन	सुबेदार	मेजर सिंह	01.08.2012
397	जेसी271637एक्स	सुबेदार	माली विजय कुमार निवराथी	01.04.2012
398	जेसी268485डब्ल्यू	सुबेदार	मलिखान सिंह	01.05.2012
399	जेसी271202पी	सुबेदार	मल्कीत सिंह	01.08.2012
400	जेसी269922एक्स	सुबेदार	मान मोहन सिंह	01.05.2012
401	जेसी269429के	सुबेदार	मान सिंह	01.04.2012
402	जेसी269585एन	सुबेदार	मान सिंह	01.05.2012



403	जेसी269019एन	सुबेदार	माने प्रकाश खशाबा	01.02.2012
404	जेसी268749एम	सुबेदार	मांगे राम	01.04.2012
405	जेसी268038एम	सुबेदार	मणिकांतन एस	01.02.2012
406	जेसी262170डब्ल्यू	सुबेदार	मनोज कुमार सिंह	01.04.2012
407	जेसी267810वाइ	सुबेदार	एम प्रसादा रेडी	01.04.2012
408	जेसी273204वाइ	सुबेदार	मोहम्मद कलामुद्दीन	01.02.2012
409	जेसी268693एल	सुबेदार	मोहम्मद एम रहमान	01.07.2012
410	जेसी270031एफ	सुबेदार	मिथलेश कुमार मिश्रा	01.05.2012
411	जेसी272554वाइ	सुबेदार	मोहन लाल	01.02.2012
412	जेसी259712के	सुबेदार	मोहन सिंह	01.02.2012
413	जेसी262565एक्स	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.03.2012
414	जेसी266384के	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.02.2012
415	जेसी272015एच	सुबेदार	मुकंद सिंह	01.08.2012
416	जेसी268564एल	सुबेदार	मुकट राम	01.04.2012
417	जेसी271842वाइ	सुबेदार	मुन्ना लाल	01.08.2012
418	जेसी266625वाइ	सुबेदार	नैपाल सिंह	01.02.2012
419	जेसी271839वाइ	सुबेदार	नक्का वेन्काटेश्वरूलू	01.03.2012
420	जेसी271804एच	सुबेदार	नालावाडे अशोक अबासाहेब	01.03.2012
421	जेसी270889एक्स	सुबेदार	नारायण सिंह	01.03.2012
422	जेसी268380एम	सुबेदार	नरेन्द्रा कुमार बारिक	01.05.2012
423	जेसी268531ए	सुबेदार	नरेन्द्रा कुमार मिश्रा	01.04.2012
424	जेसी272425वाइ	सुबेदार	नसीब सिंह	01.02.2012
425	जेसी269372ए	सुबेदार	एन प्रकाश	01.08.2012
426	जेसी269107के	सुबेदार	नीलम सिंह	01.06.2012
427	जेसी270123एन	सुबेदार	नेमी चन्द	01.04.2012
428	जेसी270377एल	सुबेदार	निंगप्पा रोन्द	01.06.2012
429	जेसी269788एक्स	सुबेदार	निर्जन सिंह	01.04.2012
430	जेसी269092एम	सुबेदार	निर्मल सिंह	01.04.2012
431	जेसी268630एच	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.07.2012
432	जेसी270731पी	सुबेदार	ओम सिंह	01.04.2012
433	जेसी269464एम	सुबेदार	ओसफ सी जे	01.04.2012
434	जेसी269055वाइ	सुबेदार	पी एम उन्नीर्वशन्न	01.03.2012
435	जेसी268073पी	सुबेदार	पी राधा कृष्णन	01.05.2012
436	जेसी269495एम	सुबेदार	पांडुरंग पी	01.04.2012
437	जेसी268560पी	सुबेदार	परमजीत सिंह	01.02.2012
438	जेसी268061ए	सुबेदार	पी सिंह	01.05.2012
439	जेसी267304एन	सुबेदार	परमानंद सिंह	01.04.2012
440	जेसी269695एच	सुबेदार	पी सिंह	01.03.2012
441	जेसी268675एच	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.04.2012
442	जेसी269994एफ	सुबेदार	पटेल अनिल कुमार अर्जुन भाई	01.02.2012

443	जेसी267683पी	सुबेदार	पाटिल उत्तातम विश्वनाथ	01.03.2012
444	जेसी268336एच	सुबेदार	फूल चंद्रा वर्मा	01.07.2012
445	जेसी270533के	सुबेदार	पी सुबारायुदु	01.04.2012
446	जेसी270386एम	सुबेदार	प्रभाकर अर्जुन पवार	01.06.2012
447	जेसी270175के	सुबेदार	प्रलादराम कुमावत	01.08.2012
448	जेसी272060पी	सुबेदार	प्रहलाद डब्ल्यू	01.04.2012
449	जेसी267796एक्स	सुबेदार	प्रसन्ना बोरुह	01.02.2012
450	जेसी266302डब्ल्यू	सुबेदार	प्रसन्न के	01.03.2012
451	जेसी268679वाइ	सुबेदार	प्रथीप कुमार पी	01.03.2012
452	जेसी270373पी	सुबेदार	प्रेम चन्द	01.08.2012
453	जेसी270300एच	सुबेदार	प्रेम कुमार टी	01.05.2012
454	जेसी269297एफ	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.04.2012
455	जेसी271488पी	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.04.2012
456	जेसी270879एन	सुबेदार	प्रेम सिंह बेनीवाल	01.03.2012
457	जेसी271378ए	सुबेदार	पी सिंह	01.08.2012
458	जेसी268623एम	सुबेदार	पूरन सिंह	01.06.2012
459	जेसी271053एम	सुबेदार	पुरूषोथम राम	01.03.2012
460	जेसी270584एक्स	सुबेदार	प्यारा के	01.06.2012
461	जेसी269207पी	सुबेदार	आर गणपति	01.02.2012
462	जेसी272101एन	सुबेदार	आर रवि	01.08.2012
463	जेसी268916एक्स	सुबेदार	रबीन्द्र राम	01.04.2012
464	जेसी268919एल	सुबेदार	रछपाल चन्द	01.06.2012
465	जेसी267297एच	सुबेदार	रछपाल सिंह	01.03.2012
466	जेसी269561के	सुबेदार	राधा कृष्णन एस	01.02.2012
467	जेसी270209एम	सुबेदार	राधाकृष्ण पी एन	01.07.2012
468	जेसी271216पी	सुबेदार	रघुबीर सिंह यादव	01.04.2012
469	जेसी269604एन	सुबेदार	राज कुमार	01.04.2012
470	जेसी264622एम	सुबेदार	राज कुमार रौय	01.05.2012
471	जेसी269570एल	सुबेदार	राजेंद्र गिरि	01.06.2012
472	जेसी261459एम	सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद	01.04.2012
473	जेसी266737वाइ	सुबेदार	राजेश्वर सिंह	01.04.2012
474	जेसी268091एक्स	सुबेदार	राजिन्दर राना	01.04.2012
475	जेसी268503एन	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.07.2012
476	जेसी267865एच	सुबेदार	राकेश चंद्रा	01.06.2012
477	जेसी267806डब्ल्यू	सुबेदार	राकेश सिंह	01.07.2012
478	जेसी266442एच	सुबेदार	राम बृक्ष शुक्ला	01.04.2012
479	जेसी270238एफ	सुबेदार	राम गिलास गुर्जर	01.07.2012
480	जेसी270705एन	सुबेदार	राम करन गूजर	01.07.2012
481	जेसी267446एल	सुबेदार	राम खिलावन साहू	01.04.2012
482	जेसी271180एफ	सुबेदार	राम किशन	01.08.2012

483	जेसी269339एच	सुबेदार	राम कुमार	01.06.2012
484	जेसी268114एन	सुबेदार	राम नरेश	01.08.2012
485	जेसी265254पी	सुबेदार	राम नाथ	01.03.2012
486	जेसी267354वाइ	सुबेदार	राम निहोर सिंह	01.05.2012
487	जेसी267585पी	सुबेदार	राम पी सिंह यादव	01.05.2012
488	जेसी270145एम	सुबेदार	राम प्रकाश	01.04.2012
489	जेसी268016एन	सुबेदार	राम प्रकाश त्रिपाठी	01.04.2012
490	जेसी267944एक्स	सुबेदार	राम राठी पटेल	01.04.2012
491	जेसी264537के	सुबेदार	राम रतन	01.04.2012
492	जेसी269300डब्ल्यू	सुबेदार	राम सिंह यादव	01.02.2012
493	जेसी267309एम	सुबेदार	राम सुजान	01.03.2012
494	जेसी268331के	सुबेदार	राम सुरेश वर्मा	01.04.2012
495	जेसी265058पी	सुबेदार	रमा दास एम	01.05.2012
496	जेसी270342पी	सुबेदार	रमा शीश सिंह यादव	01.07.2012
497	जेसी257458एम	सुबेदार	आर पी	01.04.2012
498	जेसी268085के	सुबेदार	रामबीर सिंह	01.02.2012
499	जेसी271314पी	सुबेदार	रमेश चन्द	01.03.2012
500	जेसी272252एम	सुबेदार	रमेश चन्द	01.08.2012
501	जेसी268374वाइ	सुबेदार	रमेश चंद्रा पांडे	01.02.2012
502	जेसी266976एन	सुबेदार	रमेश कुमार	01.04.2012
503	जेसी269898एम	सुबेदार	रमेश कुमार	01.08.2012
504	जेसी270431एन	सुबेदार	रमेश प्रसाद	01.04.2012
505	जेसी274467के	सुबेदार	रमेश राम	01.04.2012
506	जेसी269633एच	सुबेदार	रामेश्वर सिंह सम्बयाल	01.03.2012
507	जेसी268529एच	सुबेदार	रामजी सिंह	01.04.2012
508	जेसी269912एन	सुबेदार	रामनिवास	01.04.2012
509	जेसी267405एफ	सुबेदार	आर प्रसाद	01.06.2012
510	जेसी265517एच	सुबेदार	रण सिंह जाट	01.03.2012
511	जेसी265250वाइ	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.04.2012
512	जेसी266730पी	सुबेदार	रणदेव सिंह भदवाल	01.04.2012
513	जेसी267227के	सुबेदार	आर गोड़ एच सी	01.03.2012
514	जेसी265737एम	सुबेदार	रतन लाल	01.04.2012
515	जेसी269735वाइ	सुबेदार	रति राम सिंह	01.07.2012
516	जेसी268651वाइ	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह	01.04.2012
517	जेसी270341एम	सुबेदार	ऋषि मुनि सिंह यादव	01.04.2012
518	जेसी270418के	सुबेदार	ऋषि सिंह	01.03.2012
519	जेसी271588ए	सुबेदार	रूप सिंह	01.03.2012
520	जेसी267179पी	सुबेदार	रोतन सिंह रावत	01.06.2012
521	जेसी269091के	सुबेदार	आर तमंग	01.07.2012
522	जेसी271553के	सुबेदार	एस कस्तूरी	01.02.2012

523	जेसी268094एल	सुबेदार	सदानंदन ओ पी	01.04.2012
524	जेसी269115एच	सुबेदार	सहदेव सिंह	01.04.2012
525	जेसी265284एम	सुबेदार	संतोष कुमार चतुर्वेदी	01.04.2012
526	जेसी271377एक्स	सुबेदार	सरदार सिंह	01.08.2012
527	जेसी268982ए	सुबेदार	सरोज कुमार	01.04.2012
528	जेसी258916के	सुबेदार	सतीश बाबू आर	01.04.2012
529	जेसी270797एल	सुबेदार	सतपाल सिंह	01.03.2012
530	जेसी269508वाइ	सुबेदार	सतवीर सिंह	01.04.2012
531	जेसी269066एल	सुबेदार	सत्य नारायन साह	01.02.2012
532	जेसी268135के	सुबेदार	सत्यबीर सिंह	01.07.2012
533	जेसी271140ए	सुबेदार	सत्यवीर सिंह	01.07.2012
534	जेसी268573एम	सुबेदार	सेट्टू पी	01.02.2012
535	जेसी264054एम	सुबेदार	सहाबेग सिंह	01.02.2012
536	जेसी265159एच	सुबेदार	शम्भू प्रसाद	01.03.2012
537	जेसी269972एच	सुबेदार	शंकर दत्त	01.05.2012
538	जेसी270188एफ	सुबेदार	शांता राम गनपत सकपाल	01.03.2012
539	जेसी270129पी	सुबेदार	शिवदान सिंह	01.05.2012
540	जेसी270057डब्ल्यू	सुबेदार	शियोपाल सिंह	01.04.2012
541	जेसी268416ए	सुबेदार	शेर सिंह	01.04.2012
542	जेसी269020एच	सुबेदार	एस राम	01.04.2012
543	जेसी270997एफ	सुबेदार	शिशुपाल सिंह	01.03.2012
544	जेसी268190ए	सुबेदार	शिव मूर्ती	01.04.2012
545	जेसी270022ए	सुबेदार	शिव सिंह	01.05.2012
546	जेसी270225के	सुबेदार	शिवा पुत्रप्पा	01.07.2012
547	जेसी265636वाइ	सुबेदार	शिवाना	01.03.2012
548	जेसी267834एच	सुबेदार	श्री कांत सिंह	01.07.2012
549	जेसी270256के	सुबेदार	श्यामबीर सिंह	01.02.2012
550	जेसी272712एच	सुबेदार	सिद्धापा जी.	01.05.2012
551	जेसी268683एफ	सुबेदार	सिवा प्रसाद बी	01.03.2012
552	जेसी271421डब्ल्यू	सुबेदार	समेल राज	01.02.2012
553	जेसी265952एक्स	सुबेदार	सोहन सिंह राना	01.03.2012
554	जेसी268877के	सुबेदार	सोमन बी	01.07.2012
555	जेसी267746एम	सुबेदार	एस सिंह	01.04.2012
556	जेसी272383एक्स	सुबेदार	श्री कुमार डी.	01.06.2012
557	जेसी270490ए	सुबेदार	श्री घासी राम दुबे	01.03.2012
558	जेसी267347एच	सुबेदार	श्रीनारायन सिंह	01.08.2012
559	जेसी267669एच	सुबेदार	श्रीनिवाष मजूमदार	01.05.2012
560	जेसी267048के	सुबेदार	सुबाष सिंह	01.03.2012
561	जेसी269596ए	सुबेदार	सुबेह सिंह यादव	01.03.2012
562	जेसी268229एफ	सुबेदार	सुभाष सावन्त	01.04.2012

563	जेसी269640वाइ	सुबेदार	सुच्चा सिंह	01.06.2012
564	जेसी270854एफ	सुबेदार	सुदर्शनन पी	01.07.2012
565	जेसी265249के	सुबेदार	सुखा राम	01.04.2012
566	जेसी269782डब्ल्यू	सुबेदार	सुखदेव आनंदा वाधे	01.03.2012
567	जेसी270390पी	सुबेदार	सुखविंदर सिंह	01.06.2012
568	जेसी269362डब्ल्यू	सुबेदार	सुमेर सिंह	01.03.2012
569	जेसी269526एफ	सुबेदार	सुमोद कुमार	01.03.2012
570	जेसी266857एक्स	सुबेदार	सुंदर लाल	01.04.2012
571	जेसी271464एल	सुबेदार	सुनील कुमार के	01.02.2012
572	जेसी271050वाइ	सुबेदार	सूरम सिंह	01.08.2012
573	जेसी271242डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	01.03.2012
574	जेसी265088एम	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह नेगी	01.02.2012
575	जेसी270437पी	सुबेदार	सुरेन्द्रा कुमार पांडे	01.05.2012
576	जेसी269157पी	सुबेदार	सुरेश बाबू जी.	01.02.2012
577	जेसी265824ए	सुबेदार	सुरेश चन्द	01.03.2012
578	जेसी268024एम	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.07.2012
579	जेसी265379एम	सुबेदार	सुरेश कुमार वर्मा	01.02.2012
580	जेसी271239डब्ल्यू	सुबेदार	सुरिन्दर कुमार	01.08.2012
581	जेसी268029एल	सुबेदार	सुरजन सिंह	01.05.2012
582	जेसी268501एच	सुबेदार	सुरजीत सिंह	01.03.2012
583	जेसी266109के	सुबेदार	स्वप्न बन्धोपाध्याय	01.06.2012
584	जेसी268285ए	सुबेदार	स्वर्ण सिंह	01.02.2012
585	जेसी270598एक्स	सुबेदार	टी हीरा बाबू सिंघा	01.03.2012
586	जेसी272065एन	सुबेदार	टी पर्ड्यन	01.02.2012
587	जेसी268421एल	सुबेदार	टेक चन्द	01.04.2012
588	जेसी269538डब्ल्यू	सुबेदार	थंकाचन्न जे	01.07.2012
589	जेसी266328एल	सुबेदार	थंकाचन्न एम टी	01.03.2012
590	जेसी270843पी	सुबेदार	उमेश प्रसाद	01.06.2012
591	जेसी269336पी	सुबेदार	उन्नी पी	01.02.2012
592	जेसी270264एच	सुबेदार	यू सिंह सी	01.05.2012
593	जेसी268214वाइ	सुबेदार	यू कुमार गोगोई	01.02.2012
594	जेसी268673एक्स	सुबेदार	उत्तातम कुमार सिन्हा	01.04.2012
595	जेसी270734एच	सुबेदार	वी भारती	01.08.2012
596	जेसी266892ए	सुबेदार	वी राजाराम	01.03.2012
597	जेसी270427एल	सुबेदार	वी रंगनाथन	01.08.2012
598	जेसी267813एम	सुबेदार	वी वी रमना	01.04.2012
599	जेसी268004वाइ	सुबेदार	वेद प्रकाश	01.04.2012
600	जेसी269337एक्स	सुबेदार	वेद प्रकाश	01.07.2012
601	जेसी265124एम	सुबेदार	वीर भान सिंह	01.03.2012
602	जेसी268509पी	सुबेदार	वीर सिंह	01.07.2012

603	जेसी267809के	सुबेदार	वी गिरि के	01.07.2012
604	जेसी273481के	सुबेदार	विजय कुमार	01.03.2012
605	जेसी270695पी	सुबेदार	विजय नन्द	01.02.2012
606	जेसी266029एम	सुबेदार	विजय प्रसाद	01.02.2012
607	जेसी270375ए	सुबेदार	विजय शंकर पांडे	01.04.2012
608	जेसी260051एफ	सुबेदार	वीर सेन	01.04.2012
609	जेसी269285एम	सुबेदार	विरेंद्र सिंह	01.04.2012
610	जेसी269856ए	सुबेदार	वीरेंद्र कुमार यादव	01.06.2012
611	जेसी269826एच	सुबेदार	विरूपाक्षप्पा एन	01.04.2012
612	जेसी266024एन	सुबेदार	विश्वनाथ मिश्रा	01.03.2012
613	जेसी270193एम	सुबेदार	विश्वा कुमार के	01.03.2012
614	जेसी267853डब्ल्यू	सुबेदार	वाइ नरसिमुलु	01.04.2012
615	जेसी266962एन	सुबेदार	यदुवीर सिंह	01.04.2012
616	जेसी269364एफ	सुबेदार	याकूब अली	01.04.2012
617	जेसी268966एच	सुबेदार	वाइ कुमार	01.04.2012
618	जेसी268347पी	सुबेदार	योग राज शर्मा	01.04.2012
619	जेसी270113के	सुबेदार	जाफर हुसैन	01.03.2012

### सेना वायु सुरक्षा

620	जेसी299914एन	सुबेदार	ए ए राज	01.02.2012
621	जेसी298611एम	सुबेदार	अदिवेप्पा एम टी	01.07.2012
622	जेसी274260के	सुबेदार	अजीत सिंह	01.07.2012
623	जेसी300425एक्स	सुबेदार	अमीलाल सैनी	01.02.2012
624	जेसी299575वाइ	सुबेदार	आनंद सिंह	01.04.2012
625	जेसी300021पी	सुबेदार	अनिल कुमार पी	01.03.2012
626	जेसी300543एल	सुबेदार	अप्पयाह एच के	01.02.2012
627	जेसी299054एल	सुबेदार	अशोक कुमार टी	01.04.2012
628	जेसी298865के	सुबेदार	अशोकन डी.	01.03.2012
629	जेसी299059के	सुबेदार	असवसथामा	01.04.2012
630	जेसी300330एक्स	सुबेदार	बाबू के जोर्ज	01.05.2012
631	जेसी300256एफ	सुबेदार	बी कोन्दीबा माने	01.03.2012
632	जेसी299398के	सुबेदार	बलदेव सिंह	01.04.2012
633	जेसी298820के	सुबेदार	बरुण कुमार झा	01.04.2012
634	जेसी300153एच	सुबेदार	बी शर्मा	01.05.2012
635	जेसी299709एम	सुबेदार	भूपेंद्र सिंह	01.04.2012
636	जेसी297673ए	सुबेदार	बिधि चन्द	01.04.2012
637	जेसी299364डब्ल्यू	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.04.2012
638	जेसी300667ए	सुबेदार	बी उपाध्याय	01.03.2012
639	जेसी299720एल	सुबेदार	सी रवि	01.06.2012
640	जेसी300097पी	सुबेदार	चंद्रा भूषण सिंह	01.02.2012

641	जेसी298080ए	सुबेदार	दर्शन लाल	01.06.2012
642	जेसी299142एफ	सुबेदार	देश राज धानक	01.07.2012
643	जेसी299636एल	सुबेदार	देवेंदर सिंह	01.02.2012
644	जेसी299274पी	सुबेदार	दिलबाग सिंह	01.02.2012
645	जेसी296815ए	सुबेदार	दीवान अखलाक अहमद खान	01.06.2012
646	जेसी299484पी	सुबेदार	गजेन्द्र सिंह	01.04.2012
647	जेसी298273ए	सुबेदार	हवाई सिंह हरिजन	01.03.2012
648	जेसी300926एक्स	सुबेदार	हीरा सिंह रावत	01.06.2012
649	जेसी297917एच	सुबेदार	जे गजापथी	01.08.2012
650	जेसी298398एक्स	सुबेदार	जगत सिंह	01.03.2012
651	जेसी298222एम	सुबेदार	जगदीश कुमार	01.03.2012
652	जेसी298671एफ	सुबेदार	जसपाल सिंह	01.04.2012
653	जेसी300377एच	सुबेदार	जसराम सिंह पाल	01.05.2012
654	जेसी299234एन	सुबेदार	जतिंद्र सिंह	01.02.2012
655	जेसी297708एल	सुबेदार	जितेन्द्र सिंह	01.05.2012
656	जेसी300024एच	सुबेदार	के गुरुनाथन	01.04.2012
657	जेसी299724एफ	सुबेदार	काहन सिंह	01.04.2012
658	जेसी299439एच	सुबेदार	कुलदीप राज	01.04.2012
659	जेसी300213एम	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.05.2012
660	जेसी299079एक्स	सुबेदार	कुलविन्द्र सिंह	01.04.2012
661	जेसी299548पी	सुबेदार	कुमारपाल सिंह	01.07.2012
662	जेसी298915के	सुबेदार	लाल बाबू सिंह	01.05.2012
663	जेसी299622एल	सुबेदार	लल्लन प्रसाद द्विवेदी	01.05.2012
664	जेसी298476के	सुबेदार	एलईई जैकब पी के	01.02.2012
665	जेसी300277एक्स	सुबेदार	एम अरुमुगम	01.02.2012
666	जेसी299495एफ	सुबेदार	एम मुरुगन	01.03.2012
667	जेसी299302डब्ल्यू	सुबेदार	एम मुरुगोसन	01.04.2012
668	जेसी298999एच	सुबेदार	महादेव	01.08.2012
669	जेसी297399एन	सुबेदार	मुकेश कुमार	01.04.2012
670	जेसी299572एल	सुबेदार	मुन्नी लाल	01.05.2012
671	जेसी299694पी	सुबेदार	मुरलीधरन एस	01.02.2012
672	जेसी298202वाइ	सुबेदार	ओम प्रकाश उपाध्याय	01.03.2012
673	जेसी273118एन	सुबेदार	पार्थीवन एस	01.06.2012
674	जेसी299645एम	सुबेदार	प्यार सिंह	01.04.2012
675	जेसी299150ए	सुबेदार	प्रदीप घोष	01.04.2012
676	जेसी299482के	सुबेदार	प्रहलाद	01.04.2012
677	जेसी299781एच	सुबेदार	प्रमोद कुमार	01.02.2012
678	जेसी299687वाइ	सुबेदार	प्रसन्ना गोगोई	01.04.2012
679	जेसी298322एक्स	सुबेदार	प्रसन्ना कुमार आर	01.02.2012
680	जेसी298805पी	सुबेदार	प्रयाग दत्त अवस्थी	01.07.2012

681	जेसी299934एफ	सुबेदार	प्रेम प्रकाश चतुर्वेदी	01.05.2012
682	जेसी297523के	सुबेदार	पूरन सिंह	01.06.2012
683	जेसी298841ए	सुबेदार	आर कृष्णा मूर्ती	01.04.2012
684	जेसी300268डब्ल्यू	सुबेदार	राज देव मिश्रा	01.05.2012
685	जेसी297892एफ	सुबेदार	राज कुमार शर्मा	01.04.2012
686	जेसी299409एल	सुबेदार	राजन के वी	01.02.2012
687	जेसी298895एफ	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.04.2012
688	जेसी298680एच	सुबेदार	राजपाल सिंह	01.05.2012
689	जेसी299494वाइ	सुबेदार	राम मूर्ती	01.04.2012
690	जेसी298837एक्स	सुबेदार	राम प्यार शर्मा	01.04.2012
691	जेसी299639वाइ	सुबेदार	रमा चंद्रन के	01.02.2012
692	जेसी298094ए	सुबेदार	रामओतार सिंह	01.07.2012
693	जेसी299298वाइ	सुबेदार	रामधन यादव	01.06.2012
694	जेसी299190एफ	सुबेदार	रामेश्वर दयाल	01.07.2012
695	जेसी300227एम	सुबेदार	आर सिंह	01.02.2012
696	जेसी299315एन	सुबेदार	रविन्द्र सिंह	01.04.2012
697	जेसी298648एन	सुबेदार	रविन्द्रन के	01.05.2012
698	जेसी299526डब्ल्यू	सुबेदार	साबू जी.	01.03.2012
699	जेसी299052ए	सुबेदार	साजी वी पी	01.06.2012
700	जेसी299867एफ	सुबेदार	संतोख सिंह	01.05.2012
701	जेसी299599एच	सुबेदार	सपन कुमार पी	01.04.2012
702	जेसी298422एच	सुबेदार	सत्यन के पी	01.06.2012
703	जेसी298405एच	सुबेदार	सतीश कुमार चौहान	01.05.2012
704	जेसी299447एफ	सुबेदार	शाजी एन	01.05.2012
705	जेसी299537एच	सुबेदार	शैलेन्द्र कुमार	01.04.2012
706	जेसी299477वाइ	सुबेदार	शालिग्राम शीशराव ए	01.04.2012
707	जेसी299404एम	सुबेदार	एस शेखर पौल	01.04.2012
708	जेसी299406एक्स	सुबेदार	शेढोले नीलकांत पी	01.04.2012
709	जेसी299559एफ	सुबेदार	श्याम लाल यादव	01.08.2012
710	जेसी297548डब्ल्यू	सुबेदार	श्याम नारायण राम	01.04.2012
711	जेसी300209के	सुबेदार	श्यामा प्रसाद सिंह	01.04.2012
712	जेसी299985पी	सुबेदार	सिवान जी.	01.02.2012
713	जेसी299154डब्ल्यू	सुबेदार	सोम दत्त यादव	01.04.2012
714	जेसी298465एक्स	सुबेदार	श्री राम	01.07.2012
715	जेसी298425डब्ल्यू	सुबेदार	सुभाष चन्द	01.04.2012
716	जेसी298521एल	सुबेदार	सुच्चा सिंह	01.04.2012
717	जेसी299841एम	सुबेदार	एस सिंह	01.05.2012
718	जेसी298748वाइ	सुबेदार	सुखराज थापा	01.02.2012
719	जेसी299377एन	सुबेदार	सुल्तान सिंह	01.05.2012
720	जेसी298933एम	सुबेदार	सूरत सिंह	01.04.2012



721	जेसी299793एक्स	सुबेदार	सुरेन्द्रा प्रसाद यादव	01.02.2012
722	जेसी298172एम	सुबेदार	सुरिन्दर कुमार	01.02.2012
723	जेसी299594के	सुबेदार	तापस कुमार मोन्दल	01.07.2012
724	जेसी299120एच	सुबेदार	ठाकरे तेजराम एफ	01.04.2012
725	जेसी299765एल	सुबेदार	उमेश चंद्रा	01.04.2012
726	जेसी300271डब्ल्यू	सुबेदार	वी सनथियागुराज	01.05.2012
727	जेसी298313डब्ल्यू	सुबेदार	वी नाथ	01.07.2012
728	जेसी298295वाइ	सुबेदार	वेंकटाचलम वी	01.08.2012
729	जेसी300129एम	सुबेदार	वी लाल	01.04.2012
<b>मद्रास इंजीनियर समूह</b>				
730	जेसी308091एच	सुबेदार	ए दुरई	01.06.2012
731	जेसी307512एन	सुबेदार	ए जॉन जोसफ	01.04.2012
732	जेसी308254एल	सुबेदार	ए करुनामिथी	01.06.2012
733	जेसी308092एल	सुबेदार	ए सिवासुब्रह्मरामनी	01.06.2012
734	जेसी308187एल	सुबेदार	अमरामाथन के.एम	01.04.2012
735	जेसी306356एच	सुबेदार	अशोकन बी	01.04.2012
736	जेसी308733एम	सुबेदार	बी राजेन्द्रन	01.06.2012
737	जेसी308099पी	सुबेदार	बाबूराजन के वी	01.07.2012
738	जेसी308139एल	सुबेदार	बी वेंकटेश्वरलु	01.04.2012
739	जेसी307932एन	सुबेदार	सी चिन्नासामी	01.06.2012
740	जेसी308019एम	सुबेदार	सी मनोहरन	01.06.2012
741	जेसी308732के	सुबेदार	सी मुकुन्दरामी	01.06.2012
742	जेसी308318एल	सुबेदार	सी थगामणी	01.04.2012
743	जेसी307773एफ	सुबेदार	चंद्र भान	01.06.2012
744	जेसी308675एन	सुबेदार	डी. मुरली	01.08.2012
745	जेसी308424के	सुबेदार	डी. रामु	01.02.2012
746	जेसी307836वाइ	सुबेदार	डी. डब्ल्यू. के	01.08.2012
747	जेसी307257एम	सुबेदार	देव नारायण मिश्रा	01.08.2012
748	जेसी307596एम	सुबेदार	जी. रमा नायडू	01.04.2012
749	जेसी308083के	सुबेदार	जी. उदया कुमार	01.04.2012
750	जेसी306517ए	सुबेदार	जी. पीआर	01.05.2012
751	जेसी308086एक्स	सुबेदार	गोपालाकृष्णन एम	01.04.2012
752	जेसी307520एम	सुबेदार	गोपीनाथन पिल्लई सी के	01.05.2012
753	जेसी307379डब्ल्यू	सुबेदार	गोविन्द सामी आर	01.04.2012
754	जेसी308263एम	सुबेदार	जी. वेंकटेश्वर राव	01.04.2012
755	जेसी308041एक्स	सुबेदार	जी. कोटगी	01.06.2012
756	जेसी308098एफ	सुबेदार	जॉनसन विलियम जे	01.04.2012
757	जेसी308356एफ	सुबेदार	जोसफ के.जे	01.07.2012
758	जेसी308514एल	सुबेदार	के आबू बक्कर हरीफ	01.03.2012

759	जेसी308698पी	सुबेदार	कंधेरी एच	01.06.2012
760	जेसी306353पी	सुबेदार	कुरिया कोसी पीआई	01.04.2012
761	जेसी308730वाइ	सुबेदार	एल अरोकियासामी	01.08.2012
762	जेसी308477एच	सुबेदार	एम राजेन्द्रियन	01.08.2012
763	जेसी307407एक्स	सुबेदार	मधुसूदनं के	01.06.2012
764	जेसी308478एल	सुबेदार	मलप्पा जी.	01.04.2012
765	जेसी308498वाइ	सुबेदार	एम शरणाप्पा	01.06.2012
766	जेसी308467वाइ	सुबेदार	एम संबाशिव रेडी	01.06.2012
767	जेसी308320एच	सुबेदार	मुनीअप्पन एम	01.06.2012
768	जेसी308310वाइ	सुबेदार	मुरली डी.	01.04.2012
769	जेसी307972पी	सुबेदार	मुरली वी वी	01.04.2012
770	जेसी308221ए	सुबेदार	नागाराजन	01.06.2012
771	जेसी307912ए	सुबेदार	नरेश चन्द	01.02.2012
772	जेसी307930एच	सुबेदार	निंगप्पा एम के	01.05.2012
773	जेसी308493ए	सुबेदार	पी कृष्णन	01.02.2012
774	जेसी308591ए	सुबेदार	पी मुरुगेसन	01.06.2012
775	जेसी308224एन	सुबेदार	पी राजेन्द्रन	01.05.2012
776	जेसी307869के	सुबेदार	पधईया टी	01.04.2012
777	जेसी308527एच	सुबेदार	पालाकवीती वी	01.05.2012
778	जेसी308020एफ	सुबेदार	पी वेंकट नारायना	01.07.2012
779	जेसी308176वाइ	सुबेदार	पी पिल्लई एन	01.04.2012
780	जेसी307829एच	सुबेदार	प्रमोद तराले	01.04.2012
781	जेसी309000ए	सुबेदार	प्रेमा लाल केजी	01.06.2012
782	जेसी308006पी	सुबेदार	पुरुषाथमन कुरुकलम	01.04.2012
783	जेसी308461एक्स	सुबेदार	आर सेकार	01.08.2012
784	जेसी308173एल	सुबेदार	आर सेनथूर पांडियन	01.06.2012
785	जेसी308089एल	सुबेदार	राजन टी	01.05.2012
786	जेसी307302एन	सुबेदार	राजेन्द्रन पी	01.06.2012
787	जेसी306004एल	सुबेदार	राम दुलारे	01.07.2012
788	जेसी307924पी	सुबेदार	आर कुरुप के.एम	01.04.2012
789	जेसी308090ए	सुबेदार	एस अर्जुनन	01.06.2012
790	जेसी307876ए	सुबेदार	एस दीनदयाल	01.06.2012
791	जेसी306298के	सुबेदार	एस गफार	01.03.2012
792	जेसी307925एक्स	सुबेदार	एस मोहन	01.04.2012
793	जेसी308214के	सुबेदार	एस मोसिस दुरई	01.06.2012
794	जेसी307923एम	सुबेदार	एस विनसेट पोल	01.04.2012
795	जेसी308773एन	सुबेदार	एसए एनथानीसामी	01.02.2012
796	जेसी307059एफ	सुबेदार	सदानंदन केके	01.04.2012
797	जेसी308816एक्स	सुबेदार	ससिधरन पी	01.06.2012
798	जेसी308403एन	सुबेदार	सिगा पी	01.04.2012

799	जेसी308688एल	सुबेदार	श्रीनिवासन छेतयार के	01.05.2012
800	जेसी308098एम	सुबेदार	सुधाकरन केसी	01.07.2012
801	जेसी308428ए	सुबेदार	सुरेश सीवी	01.07.2012
802	जेसी306558के	सुबेदार	सुरेश टी वी	01.06.2012
803	जेसी307897डब्ल्यू	सुबेदार	टी अब्राहम	01.06.2012
804	जेसी308509ए	सुबेदार	टी एम पाण्डी	01.08.2012
805	जेसी308264पी	सुबेदार	टी परमशिवन	01.04.2012
806	जेसी306345डब्ल्यू	सुबेदार	थानिकाछलम डी.	01.04.2012
807	जेसी308180एफ	सुबेदार	उन्नीर्वशन्न केआर	01.04.2012
808	जेसी307446डब्ल्यू	सुबेदार	वी अरुसेलवम	01.06.2012
809	जेसी308691एल	सुबेदार	वी कल्याणी	01.04.2012
810	जेसी307515एफ	सुबेदार	वी मुनिरथनम	01.06.2012
811	जेसी308780के	सुबेदार	वी राजेन्द्रियन	01.05.2012
812	जेसी307973एक्स	सुबेदार	वी सेल्वकुमार	01.04.2012
813	जेसी308331पी	सुबेदार	वी सूर्या प्रकाश राव	01.06.2012
814	जेसी308462ए	सुबेदार	वेनूगोपन वी	01.06.2012
815	जेसी307372एम	सुबेदार	विजयाकुमारन नायर जी.	01.04.2012
816	जेसी307975एच	सुबेदार	विजयन वी	01.04.2012
817	जेसी308087ए	सुबेदार	यशवन्त	01.04.2012

**बंगाल इंजीनियर समूह**

818	जेसी329174एफ	सुबेदार	अब्राहम के जे	01.06.2012
819	जेसी328017एच	सुबेदार	अजीत कुमार पौल	01.03.2012
820	जेसी159411एल	सुबेदार	अजमेर सिंह	01.07.2012
821	जेसी329950डब्ल्यू	सुबेदार	अक्षय कुमार पाठक	01.04.2012
822	जेसी166932एफ	सुबेदार	अलेक्जेंडर थामस	01.06.2012
823	जेसी328749वाइ	सुबेदार	अमर चन्द तनवर	01.07.2012
824	जेसी328750एन	सुबेदार	अमरीक सिंह	01.07.2012
825	जेसी329289पी	सुबेदार	एन सिंह	01.04.2012
826	जेसी338024एम	सुबेदार	आनंद सिंह भंडारी	01.04.2012
827	जेसी329357एक्स	सुबेदार	आनंद सिंह खाती	01.04.2012
828	जेसी328691एम	सुबेदार	अनिल कुमार कौशिक	01.02.2012
829	जेसी328548ए	सुबेदार	अनूप कोनवर	01.07.2012
830	जेसी330932ए	सुबेदार	अरबिंद प्रसाद मंडल	01.06.2012
831	जेसी330567के	सुबेदार	अशरदीन	01.06.2012
832	जेसी328713ए	सुबेदार	अशोक कुमार ठाकुर	01.07.2012
833	जेसी329648एक्स	सुबेदार	आशुतोष कुमार सिंह	01.07.2012
834	जेसी330372वाइ	सुबेदार	आत्मा सिंह	01.04.2012
835	जेसी329273के	सुबेदार	अवधेश प्रताप सिंह	01.05.2012
836	जेसी325892ए	सुबेदार	अवध बिहारी सिंह	01.04.2012

837	जेसी328601ए	सुबेदार	बाबन राम	01.02.2012
838	जेसी328656के	सुबेदार	बदारी नारायण तिवारी	01.06.2012
839	जेसी330600डब्ल्यू	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.05.2012
840	जेसी329341एम	सुबेदार	बल्लु बहादुर	01.06.2012
841	जेसी329525एल	सुबेदार	बलवीर सिंह	01.05.2012
842	जेसी328605डब्ल्यू	सुबेदार	बलवान सिंह	01.06.2012
843	जेसी328657एम	सुबेदार	भजन सिंह	01.06.2012
844	जेसी329498एम	सुबेदार	भरत सिंह	01.04.2012
845	जेसी330133के	सुबेदार	भरत सिंह	01.04.2012
846	जेसी329299वाइ	सुबेदार	भवानी दत्त शर्मा	01.08.2012
847	जेसी329158के	सुबेदार	भीम यादव	01.04.2012
848	जेसी327908वाइ	सुबेदार	भोला मुखर्जी	01.02.2012
849	जेसी329163पी	सुबेदार	भोला नाथ	01.04.2012
850	जेसी328168एफ	सुबेदार	बिजेन्दर पाल सिंह	01.04.2012
851	जेसी329873एम	सुबेदार	बिनोद सिंह	01.07.2012
852	जेसी329543एन	सुबेदार	बिपिन चंद्रा बोराह	01.05.2012
853	जेसी329104एच	सुबेदार	बिरेन्द्रा कुमार सिंह	01.04.2012
854	जेसी328498ए	सुबेदार	ब्रम दत्ता शर्मा	01.04.2012
855	जेसी329020पी	सुबेदार	ब्रिजेश कुमार	01.04.2012
856	जेसी329986पी	सुबेदार	बी बिहारी सिंह	01.07.2012
857	जेसी329315एल	सुबेदार	चैन सिंह	01.07.2012
858	जेसी328953एक्स	सुबेदार	चंद्रा भूसेन सिंह	01.07.2012
859	जेसी327853ए	सुबेदार	सी दशरथ मारूति	01.06.2012
860	जेसी327781एफ	सुबेदार	छेलाथुरई एम	01.04.2012
861	जेसी326191डब्ल्यू	सुबेदार	छोटे राम	01.03.2012
862	जेसी330483डब्ल्यू	सुबेदार	सी वेंकट स्वामी	01.08.2012
863	जेसी329522एक्स	सुबेदार	दलबीर सिंह	01.04.2012
864	जेसी329290के	सुबेदार	दलविन्दर सिंह	01.04.2012
865	जेसी329146पी	सुबेदार	दरवान सिंह	01.06.2012
866	जेसी328141के	सुबेदार	देव राज एम	01.04.2012
867	जेसी328145ए	सुबेदार	धनंजय कुमार सिंह	01.02.2012
868	जेसी327923एन	सुबेदार	धनी राम	01.03.2012
869	जेसी328768के	सुबेदार	धर्म पाल शर्मा	01.07.2012
870	जेसी329265एल	सुबेदार	दिनेश चंद्र	01.06.2012
871	जेसी330384एन	सुबेदार	जी. रमा चंद्रन	01.04.2012
872	जेसी329945एल	सुबेदार	गजेन्द्र सिंह	01.04.2012
873	जेसी329252एन	सुबेदार	गनेश सिंह	01.04.2012
874	जेसी328936एक्स	सुबेदार	गनेश सिंह दानु	01.07.2012
875	जेसी328661पी	सुबेदार	ज्ञान सिंह	01.06.2012
876	जेसी325751एल	सुबेदार	गोपी आर	01.06.2012

877	जेसी327891डब्ल्यू	सुबेदार	जी. राजेंद्रा वी	01.07.2012
878	जेसी329203एल	सुबेदार	गुरदेव सिंह	01.07.2012
879	जेसी328457डब्ल्यू	सुबेदार	गुरमेल सिंह	01.04.2012
880	जेसी329721एल	सुबेदार	हरभजन सिंह	01.04.2012
881	जेसी329142वाइ	सुबेदार	हरबीर सिंह	01.04.2012
882	जेसी326421वाइ	सुबेदार	एच सिंह	01.04.2012
883	जेसी174747एच	सुबेदार	एच सिंह	01.05.2012
884	जेसी328981के	सुबेदार	हरीश चंद्रा तिवारी	01.07.2012
885	जेसी330595डब्ल्यू	सुबेदार	हरीश कुमार	01.06.2012
886	जेसी327919एल	सुबेदार	हीरा सिंह	01.03.2012
887	जेसी330148एम	सुबेदार	आइ आनंदा रमा	01.04.2012
888	जेसी329535पी	सुबेदार	इश्वर चंद्रा तिवारी	01.04.2012
889	जेसी328223एम	सुबेदार	इश्वर सिंह	01.05.2012
890	जेसी330371डब्ल्यू	सुबेदार	जे सुब्रमणि	01.04.2012
891	जेसी327353एच	सुबेदार	जैकब पीटी	01.04.2012
892	जेसी328660एम	सुबेदार	जगत सिंह	01.06.2012
893	जेसी329984के	सुबेदार	जगत सिंह	01.06.2012
894	जेसी329813एक्स	सुबेदार	जगदीश	01.07.2012
895	जेसी329118एच	सुबेदार	जगदीश चंद्रा पाठक	01.08.2012
896	जेसी329152एच	सुबेदार	जगदीश सिंह खाती	01.05.2012
897	जेसी330608एच	सुबेदार	जे पप्पाला	01.05.2012
898	जेसी329536एक्स	सुबेदार	जगतार सिंह	01.04.2012
899	जेसी329822वाइ	सुबेदार	जय प्रकाश सिंह	01.05.2012
900	जेसी329097एक्स	सुबेदार	जय शंकर	01.04.2012
901	जेसी329338एम	सुबेदार	जयबीर सिंह	01.04.2012
902	जेसी327924डब्ल्यू	सुबेदार	जनक राज राना	01.03.2012
903	जेसी327732वाइ	सुबेदार	जनारधन्न ई वी	01.06.2012
904	जेसी328604एन	सुबेदार	जरनैल सिंह मनकोटिया	01.06.2012
905	जेसी328980एफ	सुबेदार	जितेन्द्रा कुमार विश्वाकर्मा	01.07.2012
906	जेसी328654वाइ	सुबेदार	जोगिंदर कुमार भगत	01.06.2012
907	जेसी327926एफ	सुबेदार	जोगिंदर सिंह पटियाल	01.03.2012
908	जेसी329825एम	सुबेदार	जुनुल केर्केट्टा	01.07.2012
909	जेसी329218एन	सुबेदार	कमल सिंह	01.04.2012
910	जेसी329249एन	सुबेदार	ख्याली सिंह	01.04.2012
911	जेसी327782के	सुबेदार	कृष्णा किशोर एस	01.04.2012
912	जेसी329271वाइ	सुबेदार	कुंदन सिंह	01.04.2012
913	जेसी329365डब्ल्यू	सुबेदार	कुंदन सिंह	01.04.2012
914	जेसी329988ए	सुबेदार	कुंदन सिंह	01.07.2012
915	जेसी329117ए	सुबेदार	लेख राज	01.06.2012
916	जेसी328521एच	सुबेदार	मदन लाल	01.05.2012

917	जेसी328934एम	सुबेदार	मदन पाल सिंह	01.03.2012
918	जेसी328050ए	सुबेदार	महावीर प्रसाद	01.03.2012
919	जेसी328977एफ	सुबेदार	महावीर सिंह मलिक	01.07.2012
920	जेसी330263एम	सुबेदार	महेंद्र पाल सिंह	01.04.2012
921	जेसी329314एच	सुबेदार	महेश चंद्रा	01.07.2012
922	जेसी325738एफ	सुबेदार	महीपाल सिंह	01.04.2012
923	जेसी329245एक्स	सुबेदार	मल्कीत सिंह	01.04.2012
924	जेसी329675एफ	सुबेदार	मलूक सिंह बर्धन	01.05.2012
925	जेसी329529एफ	सुबेदार	मानक चन्द शर्मा	01.05.2012
926	जेसी327363एम	सुबेदार	मनमोहन रावत	01.05.2012
927	जेसी328776एच	सुबेदार	मनोहर राम	01.07.2012
928	जेसी328499एच	सुबेदार	मनोज मिश्रा	01.04.2012
929	जेसी338132डब्ल्यू	सुबेदार	माता प्रसाद	01.08.2012
930	जेसी329481वाइ	सुबेदार	मयंक प्रसाद शुक्ला	01.04.2012
931	जेसी329670एच	सुबेदार	मोहन चंद्र	01.04.2012
932	जेसी329545वाइ	सुबेदार	मोहन राम	01.07.2012
933	जेसी330110एच	सुबेदार	मोहम्मद शाकरि अली	01.04.2012
934	जेसी328546पी	सुबेदार	मोहिन्दर पाल शर्मा	01.05.2012
935	जेसी328951एम	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.06.2012
936	जेसी328629ए	सुबेदार	मोती राम	01.06.2012
937	जेसी328607एफ	सुबेदार	मुरली मनोहर तिवारी	01.06.2012
938	जेसी328501पी	सुबेदार	नारायण सिंह	01.04.2012
939	जेसी329247एच	सुबेदार	नारायण सिंह एम	01.04.2012
940	जेसी329250एच	सुबेदार	नरेंद्र बहादुर सिंह	01.04.2012
941	जेसी329151ए	सुबेदार	नवाब सिंह	01.04.2012
942	जेसी328196एन	सुबेदार	निखिल राजन घोषाल	01.03.2012
943	जेसी328496पी	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.04.2012
944	जेसी328625के	सुबेदार	ओम प्रकाश सिंह	01.06.2012
945	जेसी328633एच	सुबेदार	ओमकार नाथ शर्मा	01.02.2012
946	जेसी327590एम	सुबेदार	परानी दास के	01.04.2012
947	जेसी326468के	सुबेदार	प्रदीप सिंह	01.05.2012
948	जेसी329594एफ	सुबेदार	पी राउत	01.04.2012
949	जेसी329523ए	सुबेदार	पवन कुमार	01.05.2012
950	जेसी328522एल	सुबेदार	प्यार सिंह	01.06.2012
951	जेसी126281एन	सुबेदार	प्रभाकर धोन्दीराम बोदाके	01.02.2012
952	जेसी327703के	सुबेदार	प्रदीप कुमार डे	01.02.2012
953	जेसी328753एफ	सुबेदार	प्रवात चंद्रा धर मोहाप	01.05.2012
954	जेसी329763एक्स	सुबेदार	प्रेम गिरि	01.04.2012
955	जेसी328775ए	सुबेदार	प्रेम नाथ जे	01.07.2012
956	जेसी328047ए	सुबेदार	पूरन सिंह खनका	01.03.2012

957	जेसी330596वाइ	सुबेदार	पुरुषाथम भीमराव जवानजल	01.04.2012
958	जेसी329826पी	सुबेदार	रबीन्द्र नाथ राना	01.06.2012
959	जेसी329285वाइ	सुबेदार	रबीन्द्र नाथ सिंह	01.04.2012
960	जेसी329275पी	सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.05.2012
961	जेसी329604ए	सुबेदार	राज किशोर सिंह	01.04.2012
962	जेसी328774एक्स	सुबेदार	राज कुमार शर्मा	01.07.2012
963	जेसी327381पी	सुबेदार	राजालिगम एम	01.08.2012
964	जेसी328142एम	सुबेदार	राजबीर	01.05.2012
965	जेसी329698एच	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.07.2012
966	जेसी146191एन	सुबेदार	राजेंद्र सिंह दूहन	01.06.2012
967	जेसी326823डब्ल्यू	सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद	01.04.2012
968	जेसी329823एफ	सुबेदार	राजिन्दर प्रसाद	01.04.2012
969	जेसी329287के	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.04.2012
970	जेसी328200एल	सुबेदार	राम बिलास सिंह यादव	01.07.2012
971	जेसी328979एम	सुबेदार	राम चंद्रा	01.07.2012
972	जेसी330199ए	सुबेदार	राम चंद्रा वर्मा	01.04.2012
973	जेसी330362पी	सुबेदार	राम कुमार सिंह	01.04.2012
974	जेसी327459पी	सुबेदार	राम निवास	01.04.2012
975	जेसी328222के	सुबेदार	राम पाल	01.03.2012
976	जेसी328628एक्स	सुबेदार	राम पाल	01.06.2012
977	जेसी329317डब्ल्यू	सुबेदार	राम राज	01.06.2012
978	जेसी329482एफ	सुबेदार	राम विलास	01.04.2012
979	जेसी328013एम	सुबेदार	रमा कांत धेर दुबे	01.04.2012
980	जेसी328091के	सुबेदार	रमेश चंद्रा	01.04.2012
981	जेसी328712एक्स	सुबेदार	रमेश चंद्रा अधिकारी	01.07.2012
982	जेसी329096पी	सुबेदार	रमेश चंद्रा सिंह बिष्ट	01.04.2012
983	जेसी330591ए	सुबेदार	रमेश प्रसाद पांडे	01.04.2012
984	जेसी329537ए	सुबेदार	रामवीर सिंह	01.04.2012
985	जेसी329969पी	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.04.2012
986	जेसी329729एक्स	सुबेदार	रंजीत सिंह खाती	01.04.2012
987	जेसी137413डब्ल्यू	सुबेदार	रवि शंकर एल	01.04.2012
988	जेसी199895वाइ	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह	01.02.2012
989	जेसी326092एन	सुबेदार	रवीन्द्र प्रकाश श्रीवास्तवा	01.04.2012
990	जेसी328983पी	सुबेदार	रिखी राम राना	01.07.2012
991	जेसी325985पी	सुबेदार	ऋशिपाल सिंह मलिक	01.07.2012
992	जेसी330448एन	सुबेदार	एस राजशेखरन	01.06.2012
993	जेसी327961के	सुबेदार	साजन सिंह	01.03.2012
994	जेसी330557ए	सुबेदार	सम्भू नाथ सेन	01.03.2012
995	जेसी329853वाइ	सुबेदार	समपूरन चन्द	01.04.2012
996	जेसी327445पी	सुबेदार	शांताकुमार जी.	01.04.2012

997	जेसी330606एक्स	सुबेदार	शरफराज खान	01.02.2012
998	जेसी329649ए	सुबेदार	सतबीर सिंह	01.04.2012
999	जेसी327367एच	सुबेदार	सतीश चंद्रा सुयल	01.06.2012
1000	जेसी329700पी	सुबेदार	सतनाम सिंह	01.04.2012
1001	जेसी329288एम	सुबेदार	सतपाल	01.04.2012
1002	जेसी328197डब्ल्यू	सुबेदार	सत्यवीर यादव	01.03.2012
1003	जेसी329836वाइ	सुबेदार	शैलेंद्र सिंह	01.02.2012
1004	जेसी328602एच	सुबेदार	शत्रुघन पांडे	01.02.2012
1005	जेसी329033एम	सुबेदार	शिव विशाल वर्मा	01.04.2012
1006	जेसी328954ए	सुबेदार	शैलेंद्र सिंह यादव	01.07.2012
1007	जेसी329102एक्स	सुबेदार	शिव शंकर सिंह	01.04.2012
1008	जेसी329538एच	सुबेदार	शिव सिंह	01.04.2012
1009	जेसी328500एम	सुबेदार	श्री नाथ पाल	01.04.2012
1010	जेसी327740एक्स	सुबेदार	श्याम कुमार	01.04.2012
1011	जेसी329156वाइ	सुबेदार	श्याम सिंह	01.03.2012
1012	जेसी327236एक्स	सुबेदार	श्याम सुंदर	01.02.2012
1013	जेसी328225एक्स	सुबेदार	सोहन सिंह	01.05.2012
1014	जेसी338178वाइ	सुबेदार	सौमेन्दू दास	01.04.2012
1015	जेसी328630पी	सुबेदार	सुभाष चंद्र	01.06.2012
1016	जेसी329379डब्ल्यू	सुबेदार	सुभाष नाथ	01.04.2012
1017	जेसी328462एफ	सुबेदार	सुभाष सिंह	01.04.2012
1018	जेसी328201एन	सुबेदार	सुख चैन सिंह	01.08.2012
1019	जेसी329295एच	सुबेदार	सुखविन्दर पाल	01.07.2012
1020	जेसी328409डब्ल्यू	सुबेदार	सुमंत मजूमदार	01.03.2012
1021	जेसी328268एम	सुबेदार	सुनील कुमार	01.08.2012
1022	जेसी330069एक्स	सुबेदार	सुनील कुमार त्रिपाठी	01.03.2012
1023	जेसी326182पी	सुबेदार	एस राम चौधरी	01.06.2012
1024	जेसी329885एफ	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	01.08.2012
1025	जेसी329106एन	सुबेदार	सुरेश चंद्र	01.04.2012
1026	जेसी328812एच	सुबेदार	सुरेश चंद्रा	01.07.2012
1027	जेसी328410एल	सुबेदार	सुरेश प्रसाद शाह	01.03.2012
1028	जेसी328570एल	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.02.2012
1029	जेसी174748एल	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.05.2012
1030	जेसी330093एन	सुबेदार	सुर्वे मनोहर आत्माराम	01.03.2012
1031	जेसी328169के	सुबेदार	स्वर्ण सिंह	01.05.2012
1032	जेसी328935पी	सुबेदार	तेहल सिंह	01.06.2012
1033	जेसी329297एन	सुबेदार	तेज बहादुर सिंह	01.07.2012
1034	जेसी330234एक्स	सुबेदार	टेक बहादुर	01.08.2012
1035	जेसी328751डब्ल्यू	सुबेदार	उमेश दत्ता पांडे	01.07.2012
1036	जेसी330344एम	सुबेदार	वी अरूलापन	01.04.2012



1037	जेसी328778एन	सुबेदार	वी दत्ता	01.02.2012
1038	जेसी224828एफ	सुबेदार	विजय सिंह	01.08.2012
1039	जेसी329300एच	सुबेदार	वी सिंह	01.08.2012
1040	जेसी329541एच	सुबेदार	विनोद प्रकाश	01.05.2012
1041	जेसी329286एफ	सुबेदार	विरेन्द्र सिंह	01.04.2012
1042	जेसी329320डब्ल्यू	सुबेदार	योगेन्द्रा कुमार मिश्रा	01.02.2012
<b>बोम्बे इंजीनियर समूह</b>				
1043	जेसी349677एन	सुबेदार	अब्दुल कयूम	01.04.2012
1044	जेसी350108एम	सुबेदार	अजमल	01.04.2012
1045	जेसी347484पी	सुबेदार	अलोक कुमार	01.08.2012
1046	जेसी349615एन	सुबेदार	ए सुधीर शिवराम	01.04.2012
1047	जेसी349445पी	सुबेदार	ए दशरथ गनपत राव	01.04.2012
1048	जेसी349656एक्स	सुबेदार	अर्विन्द कुमार दत्ता	01.04.2012
1049	जेसी349796के	सुबेदार	अशोक कुमार	01.04.2012
1050	जेसी348790डब्ल्यू	सुबेदार	अवधेश मिश्रा	01.04.2012
1051	जेसी350177एच	सुबेदार	बचन लाल चपारिया	01.04.2012
1052	जेसी350248वाइ	सुबेदार	बलकार सिंह	01.04.2012
1053	जेसी350093पी	सुबेदार	बलवीर सिंह	01.04.2012
1054	जेसी349655पी	सुबेदार	बंगाली राम	01.04.2012
1055	जेसी348854डब्ल्यू	सुबेदार	बी श्रीकृष्णा हरी	01.07.2012
1056	जेसी350171एफ	सुबेदार	बिरेन्द्रा कुमार ठाकुर	01.07.2012
1057	जेसी350285एम	सुबेदार	बोध सिंह	01.04.2012
1058	जेसी349922एल	सुबेदार	चन्द सिंह	01.04.2012
1059	जेसी348184ए	सुबेदार	चन्दन सिंह	01.03.2012
1060	जेसी349777वाइ	सुबेदार	चान्द्राकान्त समभाजी मसाके	01.05.2012
1061	जेसी350082एच	सुबेदार	छोपादे गजानन भीमाजी	01.04.2012
1062	जेसी350191पी	सुबेदार	दाता राम	01.04.2012
1063	जेसी349629एन	सुबेदार	दोलत सिंह	01.06.2012
1064	जेसी350096एच	सुबेदार	धर्मबीर सिंह	01.03.2012
1065	जेसी349996ए	सुबेदार	दीना नाथ त्रिपाठी	01.04.2012
1066	जेसी349962एम	सुबेदार	इथेप रामदास एन	01.08.2012
1067	जेसी350080एक्स	सुबेदार	गंगा प्रसाद वर्मा	01.04.2012
1068	जेसी350103एन	सुबेदार	गया प्रसाद	01.04.2012
1069	जेसी350099डब्ल्यू	सुबेदार	गिरराज सिंह	01.03.2012
1070	जेसी348798एच	सुबेदार	गोविंद सिंह बिष्ट	01.04.2012
1071	जेसी349086एम	सुबेदार	गुलाब सिंह	01.05.2012
1072	जेसी350329वाइ	सुबेदार	गुलजार सिंह	01.04.2012
1073	जेसी349960एफ	सुबेदार	गुरजंत सिंह	01.07.2012
1074	जेसी350264डब्ल्यू	सुबेदार	हंसा सिंह	01.08.2012

1075	जेसी349347पी	सुबेदार	इंग्ले मदन कुंडलिक	01.02.2012
1076	जेसी350299एम	सुबेदार	जगदीश सिंह	01.03.2012
1077	जेसी350119वाइ	सुबेदार	जानकी प्रसाद	01.04.2012
1078	जेसी350362डब्ल्यू	सुबेदार	जीत सिंह	01.04.2012
1079	जेसी348541एक्स	सुबेदार	जबू लाल	01.02.2012
1080	जेसी349938डब्ल्यू	सुबेदार	जितेन्द्रा पाल सिंह	01.04.2012
1081	जेसी349895एम	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.04.2012
1082	जेसी350235एफ	सुबेदार	कादू रंभु शंकर	01.08.2012
1083	जेसी349838एल	सुबेदार	काकडे सुभाष बाबूराव	01.05.2012
1084	जेसी349687एक्स	सुबेदार	काले उत्तातम दामोदर	01.04.2012
1085	जेसी349858वाइ	सुबेदार	कर्मजीत सिंह	01.04.2012
1086	जेसी349899एच	सुबेदार	कुलविन्द्र सिंह	01.04.2012
1087	जेसी348584एम	सुबेदार	लखन सिंह	01.02.2012
1088	जेसी349036एफ	सुबेदार	लक्ष्मन जी. टेक	01.04.2012
1089	जेसी348497वाइ	सुबेदार	मदन सिंह भंडारी	01.07.2012
1090	जेसी348438एम	सुबेदार	ममराज सहारन	01.02.2012
1091	जेसी350076पी	सुबेदार	मनमोहन सिंह	01.08.2012
1092	जेसी350304एम	सुबेदार	एम सिंह	01.08.2012
1093	जेसी160402डब्ल्यू	सुबेदार	एम धर जी.	01.04.2012
1094	जेसी349776डब्ल्यू	सुबेदार	मिलाप सिंह	01.04.2012
1095	जेसी349862एफ	सुबेदार	मितू सिंह	01.05.2012
1096	जेसी348552के	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह राना	01.06.2012
1097	जेसी348791वाइ	सुबेदार	मोरे शाहजी महादेव	01.06.2012
1098	जेसी350336पी	सुबेदार	एन मनी	01.05.2012
1099	जेसी350209ए	सुबेदार	नागरगोजे सरजीराव टिम्बकराव	01.05.2012
1100	जेसी350382के	सुबेदार	नाइक ए मनोहर	01.06.2012
1101	जेसी348226एफ	सुबेदार	नरेंदर सिंह	01.04.2012
1102	जेसी349271ए	सुबेदार	नरेन्द्रा कुमार	01.04.2012
1103	जेसी349923एन	सुबेदार	नवाब अली अंसारी	01.04.2012
1104	जेसी350053एन	सुबेदार	नेहाल सिंह	01.04.2012
1105	जेसी348692डब्ल्यू	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.04.2012
1106	जेसी349713एन	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.08.2012
1107	जेसी348489ए	सुबेदार	ओमर अली मोन्दल	01.05.2012
1108	जेसी349820पी	सुबेदार	पराखे दिलीप रमा	01.04.2012
1109	जेसी350072वाइ	सुबेदार	पाटिल महादेव बलबन्त	01.04.2012
1110	जेसी349750एफ	सुबेदार	पवार बापुसाहब विष्णु	01.08.2012
1111	जेसी349365वाइ	सुबेदार	पी नारायण हरिभाउ	01.03.2012
1112	जेसी350331डब्ल्यू	सुबेदार	प्यारे लाल	01.04.2012
1113	जेसी348187एन	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.03.2012
1114	जेसी349965ए	सुबेदार	राकेश चंद्रा पांडे	01.04.2012

1115	जेसी350347एफ	सुबेदार	राम औतार	01.08.2012
1116	जेसी350229एन	सुबेदार	राम चन्द	01.08.2012
1117	जेसी348488एक्स	सुबेदार	राम लाल	01.07.2012
1118	जेसी348213के	सुबेदार	राम रहीस	01.04.2012
1119	जेसी348292के	सुबेदार	रामायण प्रसाद	01.02.2012
1120	जेसी350157पी	सुबेदार	रमेश चंद्रा	01.04.2012
1121	जेसी350104डब्ल्यू	सुबेदार	रास बिहारी	01.05.2012
1122	जेसी348651एम	सुबेदार	रतन सिंह	01.06.2012
1123	जेसी348617एम	सुबेदार	राउत कृष्णा एम	01.06.2012
1124	जेसी348495एन	सुबेदार	ऋषि ओम	01.07.2012
1125	जेसी349774एल	सुबेदार	सागर सिंह	01.04.2012
1126	जेसी348169एल	सुबेदार	सत्यबीर सिंह	01.03.2012
1127	जेसी349810एल	सुबेदार	शेर दीन	01.04.2012
1128	जेसी350075एम	सुबेदार	शेर मोहम्मद	01.04.2012
1129	जेसी350461वाइ	सुबेदार	शिंदे रामदास परशु राम	01.02.2012
1130	जेसी350009के	सुबेदार	शोकत अली	01.04.2012
1131	जेसी348373के	सुबेदार	श्रीकांतन नायर टी	01.07.2012
1132	जेसी349775एन	सुबेदार	श्री राम वर्मा	01.04.2012
1133	जेसी350437एच	सुबेदार	सुखा लाल	01.08.2012
1134	जेसी350385एक्स	सुबेदार	सुखचैन सिंह	01.07.2012
1135	जेसी350252एफ	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.08.2012
1136	जेसी350064ए	सुबेदार	सुमेर सिंह	01.06.2012
1137	जेसी349171पी	सुबेदार	सुरेश चन्द वर्मा	01.07.2012
1138	जेसी348120पी	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.03.2012
1139	जेसी350141के	सुबेदार	सुरिन्दर पाल सिंह	01.08.2012
1140	जेसी350370पी	सुबेदार	सुरमुख सिंह	01.04.2012
1141	जेसी348476एच	सुबेदार	स्वामी नाथ	01.07.2012
1142	जेसी348460एक्स	सुबेदार	स्वर्ण सिंह	01.06.2012
1143	जेसी350140एफ	सुबेदार	टोंडे चान्द्राकान्त विथोवा	01.08.2012
1144	जेसी349990वाइ	सुबेदार	यू मौहन बालू	01.07.2012
1145	जेसी348416एन	सुबेदार	उमेश चंद्रा बाजपई	01.07.2012
1146	जेसी348146के	सुबेदार	विजय पाल	01.03.2012
1147	जेसी348176एफ	सुबेदार	विजय पाल	01.04.2012
1148	जेसी349991एफ	सुबेदार	विनोद कुमार शर्मा	01.05.2012
1149	जेसी350515पी	सुबेदार	यूसुफ अली	01.05.2012

**सिग्नल्स कोर**

1150	जेसी378247एम	सुबेदार	ए चिन्ना वेन्कटेश्वरलु	01.07.2012
1151	जेसी376541एन	सुबेदार	अब्दुर रहमान	01.05.2012
1152	जेसी374099पी	सुबेदार	आदर्श कुमार पांडे	01.03.2012

1153	जेसी375062ए	सुबेदार	अहमद बेग	01.04.2012
1154	जेसी374707एल	सुबेदार	अखिलेश कुमार पांडे	01.04.2012
1155	जेसी376347वाइ	सुबेदार	अमर जीत	01.04.2012
1156	जेसी375494पी	सुबेदार	अमरेन्द्रा नाथ त्रिपाठी	01.03.2012
1157	जेसी374026एच	सुबेदार	ए गंगाराम शिवाजी	01.07.2012
1158	जेसी375861डब्ल्यू	सुबेदार	आनंद बल्लभ पांडे	01.04.2012
1159	जेसी375585वाइ	सुबेदार	अर्विन्द कुमार शर्मा	01.04.2012
1160	जेसी371982ए	सुबेदार	अशोक कुमार शर्मा	01.07.2012
1161	जेसी373643वाइ	सुबेदार	अशोक कुमार शर्मा	01.02.2012
1162	जेसी376864डब्ल्यू	सुबेदार	अशोके कुमार घोष	01.02.2012
1163	जेसी377133पी	सुबेदार	अशवनी कुमार	01.05.2012
1164	जेसी374719ए	सुबेदार	आत्मा राम	01.07.2012
1165	जेसी373720एच	सुबेदार	ए कुमार सिंह	01.03.2012
1166	जेसी375152एफ	सुबेदार	अवतार सिंह पठानिया	01.03.2012
1167	जेसी369626एफ	सुबेदार	बी राजाराम	01.06.2012
1168	जेसी384802एक्स	सुबेदार	बाबू लाल सिंह	01.02.2012
1169	जेसी376686वाइ	सुबेदार	बच्चै सिंह मेहरा	01.02.2012
1170	जेसी374493ए	सुबेदार	बाल कष्णन	01.05.2012
1171	जेसी374571एम	सुबेदार	बालाकष्णन वी एम	01.04.2012
1172	जेसी373046के	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.05.2012
1173	जेसी377321डब्ल्यू	सुबेदार	बनवारी लाल	01.04.2012
1174	जेसी375040एफ	सुबेदार	बी गोडरा	01.07.2012
1175	जेसी376195एच	सुबेदार	बसंता कुमार परीद	01.07.2012
1176	जेसी154959एम	सुबेदार	बावा सिंह	01.03.2012
1177	जेसी368561एम	सुबेदार	भागीरथी प्रधान	01.07.2012
1178	जेसी375358वाइ	सुबेदार	भरत चंद्रा मंडल	01.02.2012
1179	जेसी371349ए	सुबेदार	बी सिंह इनडे	01.06.2012
1180	जेसी375913एफ	सुबेदार	भोला सिंह	01.03.2012
1181	जेसी375462एम	सुबेदार	भूदेव सिंह	01.02.2012
1182	जेसी376526वाइ	सुबेदार	भुनेश्वर कुमार सिंह	01.03.2012
1183	जेसी372579ए	सुबेदार	भुवन चंद्रा शर्मा	01.03.2012
1184	जेसी376102एच	सुबेदार	बिजय कुमार मोहाप	01.04.2012
1185	जेसी375066डब्ल्यू	सुबेदार	बिजया बहादुर सिंह	01.03.2012
1186	जेसी375366एक्स	सुबेदार	बिजया कुमार मोहाप	01.03.2012
1187	जेसी368574के	सुबेदार	बीरेन सिंघा	01.07.2012
1188	जेसी372455एल	सुबेदार	ब्रम प्रकाश	01.03.2012
1189	जेसी375984एच	सुबेदार	बी सिंह	01.07.2012
1190	जेसी374685एक्स	सुबेदार	बुद्धि सिंह	01.04.2012
1191	जेसी369909एच	सुबेदार	सी एन बी	01.06.2012
1192	जेसी377022एक्स	सुबेदार	चैना राम	01.07.2012

1193	जेसी373657वाइ	सुबेदार	चन्द सिंह	01.06.2012
1194	जेसी372617एल	सुबेदार	चंद्र प्रकाश	01.02.2012
1195	जेसी372374एल	सुबेदार	चंद्रा मोहन	01.04.2012
1196	जेसी375386एल	सुबेदार	चंद्रा पाल सिंह	01.06.2012
1197	जेसी374648के	सुबेदार	चंद्रा वीर सिंह	01.07.2012
1198	जेसी376845एल	सुबेदार	चंद्रन के	01.04.2012
1199	जेसी374340डब्ल्यू	सुबेदार	छत्तार पाल सिंह	01.03.2012
1200	जेसी376569एन	सुबेदार	छेदी लाल	01.04.2012
1201	जेसी375803एम	सुबेदार	डी. सिंह	01.03.2012
1202	जेसी372278डब्ल्यू	सुबेदार	डी. राउत	01.07.2012
1203	जेसी375635वाइ	सुबेदार	दशरथ सिंह	01.04.2012
1204	जेसी376064एक्स	सुबेदार	दया किशन	01.05.2012
1205	जेसी374995एच	सुबेदार	देवनाथ चोबे	01.04.2012
1206	जेसी375513पी	सुबेदार	देवेन्द्र सिंह	01.06.2012
1207	जेसी375940एल	सुबेदार	देवेन्द्र सिंह	01.03.2012
1208	जेसी376643के	सुबेदार	देवेन्द्र सिंह	01.05.2012
1209	जेसी371944के	सुबेदार	धर्म सिंह	01.03.2012
1210	जेसी374839वाइ	सुबेदार	धर्म सिंह	01.04.2012
1211	जेसी377366डब्ल्यू	सुबेदार	धर्म सिंह	01.02.2012
1212	जेसी372451पी	सुबेदार	धर्मवीर	01.06.2012
1213	जेसी376998पी	सुबेदार	धर्मवीर सिंह	01.07.2012
1214	जेसी374119एक्स	सुबेदार	धोनेसवर सेकिआ	01.03.2012
1215	जेसी376529एम	सुबेदार	दिगर सिंह	01.04.2012
1216	जेसी371981एक्स	सुबेदार	दिलबाग राय	01.07.2012
1217	जेसी375395एम	सुबेदार	दिलीप कुमार पात्रा	01.03.2012
1218	जेसी373719एन	सुबेदार	दिनेश कुमार	01.03.2012
1219	जेसी375759एन	सुबेदार	दिनेश कुमार प्रसाद	01.07.2012
1220	जेसी375524एफ	सुबेदार	दिनेश कुमार सिंह	01.03.2012
1221	जेसी375526एम	सुबेदार	दिनेश पाल कनोजिआ	01.04.2012
1222	जेसी375987डब्ल्यू	सुबेदार	दिनेश प्रसाद दास	01.04.2012
1223	जेसी376091एफ	सुबेदार	दिवाकर प्रसाद मौर्या	01.08.2012
1224	जेसी374921एन	सुबेदार	दीवान सिंह	01.07.2012
1225	जेसी376725एम	सुबेदार	जोर्ज ई जे	01.02.2012
1226	जेसी377317एन	सुबेदार	गोकुल चंद्र	01.07.2012
1227	जेसी376605एन	सुबेदार	गोपाकुमार सुंदर के टी	01.08.2012
1228	जेसी376705वाइ	सुबेदार	गोविंद सिंह राना	01.08.2012
1229	जेसी375811एल	सुबेदार	गुरचरण सिंह	01.03.2012
1230	जेसी376067एल	सुबेदार	गुरदीप सिंह	01.02.2012
1231	जेसी374491पी	सुबेदार	गुरमीत सिंह	01.05.2012
1232	जेसी373026डब्ल्यू	सुबेदार	हकीम सिंह	01.04.2012

1233	जेसी375903एक्स	सुबेदार	हरगोविंद सिंह	01.05.2012
1234	जेसी371143एच	सुबेदार	हरी ओम	01.03.2012
1235	जेसी370949डब्ल्यू	सुबेदार	हरी प्रसाद	01.04.2012
1236	जेसी373029के	सुबेदार	हरिन्द्र कुमार	01.08.2012
1237	जेसी376325ए	सुबेदार	हरीश चंद्रा मिश्रा	01.02.2012
1238	जेसी376707के	सुबेदार	एच डी. एस	01.08.2012
1239	जेसी372470ए	सुबेदार	इनामदार नजार बी	01.06.2012
1240	जेसी375236पी	सुबेदार	जगदीश चन्द	01.04.2012
1241	जेसी375227एन	सुबेदार	जय भगवान	01.04.2012
1242	जेसी378164एफ	सुबेदार	जय करन	01.02.2012
1243	जेसी371268ए	सुबेदार	जय प्रकाश	01.03.2012
1244	जेसी375657एक्स	सुबेदार	जनार्दन चतुर्वेदी	01.06.2012
1245	जेसी376906एक्स	सुबेदार	जवाहर सिंह	01.07.2012
1246	जेसी376914डब्ल्यू	सुबेदार	जय कुमार श्रीवास्तव	01.04.2012
1247	जेसी375153के	सुबेदार	जया कुमार सीपी	01.07.2012
1248	जेसी372823पी	सुबेदार	जे सिंह मन्हास	01.04.2012
1249	जेसी376367एम	सुबेदार	जे राम सिंह	01.04.2012
1250	जेसी375461के	सुबेदार	जितेन्द्र कुमार	01.07.2012
1251	जेसी376726पी	सुबेदार	जोगी राम	01.03.2012
1252	जेसी373928एल	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.07.2012
1253	जेसी377048एम	सुबेदार	जे बाड़ा	01.06.2012
1254	जेसी376786के	सुबेदार	के रवि	01.06.2012
1255	जेसी372231एल	सुबेदार	के विजया कुमार	01.04.2012
1256	जेसी374682के	सुबेदार	कैलाश चन्द	01.03.2012
1257	जेसी375663एल	सुबेदार	कैलाश चंद्र भट्ट	01.03.2012
1258	जेसी376345एन	सुबेदार	कालाधरन बी	01.03.2012
1259	जेसी374826एफ	सुबेदार	काले पंधारीनाथ मुरलीधर	01.08.2012
1260	जेसी371930के	सुबेदार	के चरण	01.08.2012
1261	जेसी370519एम	सुबेदार	के मुंडा	01.03.2012
1262	जेसी376075के	सुबेदार	केदार नाथ पांडे	01.08.2012
1263	जेसी370959ए	सुबेदार	केदार सिंह	01.02.2012
1264	जेसी376518ए	सुबेदार	खिल्लू राम	01.08.2012
1265	जेसी376363डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णा कुमार एम	01.08.2012
1266	जेसी376391एच	सुबेदार	कृष्णा पाल	01.07.2012
1267	जेसी377190डब्ल्यू	सुबेदार	कुलामनी बारिक	01.07.2012
1268	जेसी375904ए	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.06.2012
1269	जेसी377879एल	सुबेदार	कुलवीर सिंह	01.04.2012
1270	जेसी370782एक्स	सुबेदार	लखबीर सिंह	01.02.2012
1271	जेसी375340एच	सुबेदार	लखविन्दर सिंह	01.02.2012
1272	जेसी376087वाइ	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	01.03.2012

1273	जेसी376533पी	सुबेदार	लक्ष्मणन एस	01.06.2012
1274	जेसी373802एल	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	01.04.2012
1275	जेसी374748पी	सुबेदार	लीलू राम	01.04.2012
1276	जेसी376887एक्स	सुबेदार	लोकान्था महाराना	01.04.2012
1277	जेसी377269वाइ	सुबेदार	एम मुरुगन	01.08.2012
1278	जेसी373432डब्ल्यू	सुबेदार	मदन लाल चौहान	01.04.2012
1279	जेसी375727एल	सुबेदार	महांथ सिंह	01.04.2012
1280	जेसी376084एल	सुबेदार	महावीर सिंह	01.07.2012
1281	जेसी376388एच	सुबेदार	महेश चंद्रा	01.05.2012
1282	जेसी374846पी	सुबेदार	मानिक कुमार चंदा	01.02.2012
1283	जेसी374680वाइ	सुबेदार	मनोहर कुमार सिंह	01.03.2012
1284	जेसी377871वाइ	सुबेदार	मनोज कुमार चौबे	01.04.2012
1285	जेसी375453एल	सुबेदार	मेथ्यू पीएम	01.06.2012
1286	जेसी375820एम	सुबेदार	मायाधर बेहेरा	01.07.2012
1287	जेसी375434ए	सुबेदार	मोहम्मद असगर	01.07.2012
1288	जेसी372458वाइ	सुबेदार	मोहम्मद इरफान	01.03.2012
1289	जेसी376445वाइ	सुबेदार	मित्रा प्रसाद	01.04.2012
1290	जेसी372858एल	सुबेदार	मोहम्मद अमीन	01.03.2012
1291	जेसी372578एक्स	सुबेदार	मोहन सिंह	01.03.2012
1292	जेसी371734के	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.04.2012
1293	जेसी376540एल	सुबेदार	मुन्ना लाल	01.05.2012
1294	जेसी375962के	सुबेदार	एन सथीया मूर्ती	01.04.2012
1295	जेसी375758एल	सुबेदार	नगीन चन्द शर्मा	01.07.2012
1296	जेसी375296के	सुबेदार	नानक चन्द	01.07.2012
1297	जेसी376656एफ	सुबेदार	नरेश कुमार	01.03.2012
1298	जेसी374096एफ	सुबेदार	निंगप्पा हुदेद	01.04.2012
1299	जेसी376532एम	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.05.2012
1300	जेसी376349के	सुबेदार	ओम प्रकाश सिहाग	01.03.2012
1301	जेसी372230एच	सुबेदार	ओम प्रकाश स्वामी	01.03.2012
1302	जेसी376644एम	सुबेदार	ओम प्रकाश तिवारी	01.05.2012
1303	जेसी373195एक्स	सुबेदार	ओमकार सिंह	01.05.2012
1304	जेसी372881वाइ	सुबेदार	पवन कुमार के	01.04.2012
1305	जेसी374681एफ	सुबेदार	पीयू कुमार चक्रावती	01.03.2012
1306	जेसी374715के	सुबेदार	प्रभाकर तिवारी	01.07.2012
1307	जेसी375574एम	सुबेदार	प्रदीप कुमार सिंह	01.02.2012
1308	जेसी375123एम	सुबेदार	प्रताप चंद्रा पाणिग्रही	01.03.2012
1309	जेसी376446एफ	सुबेदार	प्रविंद्र कुमार	01.04.2012
1310	जेसी375646एल	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.04.2012
1311	जेसी375055के	सुबेदार	प्रेमा राजन ई	01.03.2012
1312	जेसी376724के	सुबेदार	पूर्णा चंद्रा बिस्वाल	01.04.2012

1313	जेसी373439ए	सुबेदार	पुरुषोत्थम चन्द चौधरी	01.02.2012
1314	जेसी377501वाइ	सुबेदार	आर शिवाजी	01.08.2012
1315	जेसी375368एच	सुबेदार	राधा कृष्णा मिश्रा	01.07.2012
1316	जेसी376610वाइ	सुबेदार	राधे श्याम कुम्हार	01.04.2012
1317	जेसी377328ए	सुबेदार	राज कुमार सिंह	01.05.2012
1318	जेसी373444एल	सुबेदार	राज पाल	01.05.2012
1319	जेसी377239एफ	सुबेदार	राजन नायर एन	01.08.2012
1320	जेसी374728एफ	सुबेदार	राजभर एल एफ	01.04.2012
1321	जेसी376116एच	सुबेदार	राजबीर	01.04.2012
1322	जेसी371928एम	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.04.2012
1323	जेसी376694एक्स	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.03.2012
1324	जेसी374720पी	सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद राम	01.07.2012
1325	जेसी376362एन	सुबेदार	राजेश कुमार	01.08.2012
1326	जेसी372679एल	सुबेदार	राजिन्दर कुमार	01.04.2012
1327	जेसी376321के	सुबेदार	राकेश धर	01.03.2012
1328	जेसी375896एम	सुबेदार	राकेश कुमार विश्‍नोई	01.04.2012
1329	जेसी375723पी	सुबेदार	राम औतार गन्वार	01.04.2012
1330	जेसी375843एन	सुबेदार	राम बाबू कुशवाहा	01.07.2012
1331	जेसी371625एक्स	सुबेदार	राम बी यादव	01.02.2012
1332	जेसी376539डब्ल्यू	सुबेदार	राम बिलास सिंह	01.04.2012
1333	जेसी371145एन	सुबेदार	राम दयाल वर्मा	01.03.2012
1334	जेसी371985एन	सुबेदार	राम दीक्षित	01.07.2012
1335	जेसी375216एफ	सुबेदार	राम किशोर साहू	01.03.2012
1336	जेसी377043एन	सुबेदार	राम पुकार सिंह	01.07.2012
1337	जेसी377229एक्स	सुबेदार	रमा शंकर सिंह	01.05.2012
1338	जेसी376338एक्स	सुबेदार	रामचन्द्रन नायर आर	01.04.2012
1339	जेसी376542डब्ल्यू	सुबेदार	रामआशीष चौधरी	01.06.2012
1340	जेसी370557एच	सुबेदार	रमेश चंद्र	01.05.2012
1341	जेसी371270एक्स	सुबेदार	रमेश चंद्रा	01.04.2012
1342	जेसी376327एल	सुबेदार	रमेश चंद्रा	01.02.2012
1343	जेसी374505के	सुबेदार	रमेश चंद्रा अत्री	01.04.2012
1344	जेसी375897पी	सुबेदार	रामनाथ यादव	01.03.2012
1345	जेसी375641एम	सुबेदार	रण विजय कुमार	01.03.2012
1346	जेसी374461एक्स	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.03.2012
1347	जेसी375793एन	सुबेदार	रंजन कुमार दास	01.07.2012
1348	जेसी376844एच	सुबेदार	रंजीत कुमार मंडल	01.04.2012
1349	जेसी375833के	सुबेदार	रविन्द्रनाथ पी के	01.07.2012
1350	जेसी375695एन	सुबेदार	रेबा कांता दत्ता	01.07.2012
1351	जेसी374810डब्ल्यू	सुबेदार	ऋषि मुनि शर्मा	01.07.2012
1352	जेसी376611एफ	सुबेदार	सदानंदन के	01.04.2012



1353	जेसी372690के	सुबेदार	साहब सिंह	01.05.2012
1354	जेसी376103एल	सुबेदार	सकादेवन बी	01.06.2012
1355	जेसी377402डब्ल्यू	सुबेदार	सम्मू प्रसाद	01.06.2012
1356	जेसी376530एफ	सुबेदार	समशेर सिंह	01.04.2012
1357	जेसी374488पी	सुबेदार	संजय कुमार ठाकुर	01.03.2012
1358	जेसी370392पी	सुबेदार	श्रवण सिंह	01.06.2012
1359	जेसी373308पी	सुबेदार	श्रवण सिंह	01.08.2012
1360	जेसी375994एम	सुबेदार	शशिधरा कुरुप एन आर	01.04.2012
1361	जेसी371269एच	सुबेदार	सतीश कुमार	01.03.2012
1362	जेसी376534एक्स	सुबेदार	सतपाल सिंह	01.08.2012
1363	जेसी375493एम	सुबेदार	सतपाल वर्मा	01.06.2012
1364	जेसी374542एक्स	सुबेदार	सत्यविर सिंह	01.07.2012
1365	जेसी378063एन	सुबेदार	सैयद सफयात अली	01.08.2012
1366	जेसी377050के	सुबेदार	शम्मू प्रसाद देवरानी	01.02.2012
1367	जेसी376386एक्स	सुबेदार	एस चरण विश्वास	01.03.2012
1368	जेसी376528के	सुबेदार	शेर दीन	01.03.2012
1369	जेसी375435एच	सुबेदार	शिव चरण	01.07.2012
1370	जेसी372519एल	सुबेदार	शिव लेहरी पी	01.03.2012
1371	जेसी377324के	सुबेदार	एस अहमद	01.02.2012
1372	जेसी376462वाइ	सुबेदार	श्री भगवान	01.03.2012
1373	जेसी374503वाइ	सुबेदार	श्याम बिहारी तिवारी	01.03.2012
1374	जेसी375297एम	सुबेदार	शिवाशंकरा पिल्लई जी.	01.06.2012
1375	जेसी375147डब्ल्यू	सुबेदार	श्री महेंद्र प्रसाद	01.03.2012
1376	जेसी376527एफ	सुबेदार	सुब्रता सिन्हा	01.03.2012
1377	जेसी375892डब्ल्यू	सुबेदार	सुदामा रौय	01.08.2012
1378	जेसी371369एन	सुबेदार	सुदर्शन कुमार	01.07.2012
1379	जेसी376852एफ	सुबेदार	सुजीत कुमार देबनाथ	01.07.2012
1380	जेसी374838डब्ल्यू	सुबेदार	सुखवीर सिंह	01.03.2012
1381	जेसी376716एल	सुबेदार	सुल्तान सिंह	01.03.2012
1382	जेसी376276एच	सुबेदार	सुंदरेशन के जी.	01.08.2012
1383	जेसी375954एल	सुबेदार	सुंदर सिंह	01.04.2012
1384	जेसी372820एफ	सुबेदार	सूरत सिंह	01.02.2012
1385	जेसी375977एम	सुबेदार	सुरेश दिगम्बर मानकर	01.07.2012
1386	जेसी370556ए	सुबेदार	सुरेश कुमार के	01.03.2012
1387	जेसी371348एक्स	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.05.2012
1388	जेसी369256एम	सुबेदार	स्वप्न घोष	01.03.2012
1389	जेसी369616एक्स	सुबेदार	टी एस श्यामसुंदर	01.07.2012
1390	जेसी371907डब्ल्यू	सुबेदार	ताजवर सिंह	01.02.2012
1391	जेसी375415पी	सुबेदार	तारा दत्ता शर्मा	01.06.2012
1392	जेसी375757एच	सुबेदार	तेजा राम	01.03.2012

1393	जेसी376132ए	सुबेदार	टी धोंडिबा अप्पा	01.07.2012
1394	जेसी375429पी	सुबेदार	उदय चन्द्र सिंह	01.03.2012
1395	जेसी370713एफ	सुबेदार	वेद प्रकाश	01.03.2012
1396	जेसी375613ए	सुबेदार	विजय कांत दीक्षित	01.04.2012
1397	जेसी374840एन	सुबेदार	विजय कुमार	01.05.2012
1398	जेसी376711एम	सुबेदार	विजय कुमार	01.03.2012
1399	जेसी376397के	सुबेदार	विजय प्रताप	01.02.2012
1400	जेसी376277एल	सुबेदार	विनोद कुमार	01.08.2012
1401	जेसी377605ए	सुबेदार	विनोद कुमार	01.07.2012
1402	जेसी377326पी	सुबेदार	विनोद सिंह	01.02.2012
1403	जेसी376042वाइ	सुबेदार	यशवंत सिंह	01.02.2012
<b>ब्रिगेड आफ गार्ड्स</b>				
1404	जेसी403709एफ	सुबेदार	अहीर लाला भाई मावा भाई	01.02.2012
1405	जेसी403909एक्स	सुबेदार	भगवान कुशवाहा	01.04.2012
1406	जेसी403901एल	सुबेदार	बी साहू	01.06.2012
1407	जेसी403189एच	सुबेदार	बिरेन्द्रा नाथ मिश्रा	01.03.2012
1408	जेसी403842के	सुबेदार	बीरपाल सिंह यादव	01.08.2012
1409	जेसी403665पी	सुबेदार	ब्रजेश कुमार राय	01.02.2012
1410	जेसी403550एफ	सुबेदार	चंद्रा शेखर प्रसाद यादव	01.04.2012
1411	जेसी402988एल	सुबेदार	दान सिंह	01.07.2012
1412	जेसी403921वाइ	सुबेदार	देविन्द्र कुमार	01.02.2012
1413	जेसी403703ए	सुबेदार	दीवान सिंह	01.03.2012
1414	जेसी403304डब्ल्यू	सुबेदार	गनाना सेकारन एम	01.06.2012
1415	जेसी403663के	सुबेदार	गुलाब चन्द	01.02.2012
1416	जेसी403831एक्स	सुबेदार	हंस राज सिंह	01.03.2012
1417	जेसी403717ए	सुबेदार	हर पाल	01.02.2012
1418	जेसी403809एम	सुबेदार	हरी सिंह	01.04.2012
1419	जेसी403988एक्स	सुबेदार	हसन मोहम्मद	01.05.2012
1420	जेसी403855एफ	सुबेदार	जगबीर सिंह	01.04.2012
1421	जेसी403711वाइ	सुबेदार	जगदेव प्रसाद	01.03.2012
1422	जेसी403772डब्ल्यू	सुबेदार	कल्याण सिंह	01.04.2012
1423	जेसी403371एफ	सुबेदार	करन सिंह	01.03.2012
1424	जेसी403710डब्ल्यू	सुबेदार	कुलविन्द्र सिंह	01.02.2012
1425	जेसी404209डब्ल्यू	सुबेदार	लाल चन्द	01.06.2012
1426	जेसी403749एच	सुबेदार	महावीर सिंह	01.03.2012
1427	जेसी403292एम	सुबेदार	मोहम्मद आर इस्लाम	01.03.2012
1428	जेसी403560एल	सुबेदार	मोहन ठाकुर	01.02.2012
1429	जेसी403834एल	सुबेदार	नरेश शाही	01.06.2012
1430	जेसी403879एल	सुबेदार	ओम प्रकाश गौतम	01.07.2012

1431	जेसी403678एम	सुबेदार	उमनाकुट्टन पी	01.05.2012
1432	जेसी403713के	सुबेदार	पी राम	01.08.2012
1433	जेसी403781एक्स	सुबेदार	प्रेम लाल	01.05.2012
1434	जेसी403574एल	सुबेदार	प्रीतम सिंह	01.05.2012
1435	जेसी403386के	सुबेदार	पुलिन चंद्रा डेका	01.04.2012
1436	जेसी403463एन	सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद	01.05.2012
1437	जेसी403472पी	सुबेदार	राजिन्दर कुमार	01.06.2012
1438	जेसी403730के	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.02.2012
1439	जेसी403761के	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.03.2012
1440	जेसी404111एच	सुबेदार	रंजीत सिंघा	01.04.2012
1441	जेसी403359ए	सुबेदार	सत्य नारायना डी.	01.02.2012
1442	जेसी403870डब्ल्यू	सुबेदार	सत्य प्रकाश	01.08.2012
1443	जेसी404021एफ	सुबेदार	सुनकारी श्रीनिवासुलु	01.06.2012
1444	जेसी403565के	सुबेदार	ताज मोहम्मद	01.04.2012
1445	जेसी403880ए	सुबेदार	तेजवीर सिंह चाहर	01.08.2012
1446	जेसी404023एम	सुबेदार	उदय सिंह	01.05.2012
1447	जेसी403776एम	सुबेदार	वेद पाल	01.04.2012
1448	जेसी403479वाइ	सुबेदार	वीरेंद्र सिंह	01.03.2012
1449	जेसी403455पी	सुबेदार	वाइ वेंकट रामी रेडी	01.07.2012

पैराशूट रेजीमेंट

1450	जेसी412975एफ	सुबेदार	अनिल कुमार पी	01.08.2012
1451	जेसी413011वाइ	सुबेदार	बजरंग सिंह तनवर	01.07.2012
1452	जेसी412872एच	सुबेदार	चंद्र पाल सिंह	01.04.2012
1453	जेसी412771पी	सुबेदार	ज्ञानेन्द्र कुमार	01.06.2012
1454	जेसी412925डब्ल्यू	सुबेदार	हरेन्द्र प्रसाद	01.07.2012
1455	जेसी413043एफ	सुबेदार	जीत सिंह फरत्याल	01.08.2012
1456	जेसी412711ए	सुबेदार	केशा राम	01.03.2012
1457	जेसी413138एफ	सुबेदार	लक्षमन सिंह	01.06.2012
1458	जेसी413099एन	सुबेदार	माधो सिंह एफ	01.06.2012
1459	जेसी412818पी	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.04.2012
1460	जेसी412869एच	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.06.2012
1461	जेसी413067एल	सुबेदार	राकेश चन्द तिवारी	01.06.2012
1462	जेसी412858डब्ल्यू	सुबेदार	सीश पाल	01.06.2012
1463	जेसी412868ए	सुबेदार	सुजान सिंह	01.05.2012
1464	जेसी413034ए	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	01.06.2012
1465	जेसी412984एच	सुबेदार	उदयभान सिंह गुर्जर	01.06.2012
1466	जेसी412887एल	सुबेदार	जिले सिंह	01.04.2012

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेंट

1467	जेसी420863डब्ल्यू	सुबेदार	अंगद सिंह	01.03.2012
1468	जेसी420324ए	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.03.2012
1469	जेसी420468एच	सुबेदार	भजन चन्द	01.04.2012
1470	जेसी420856ए	सुबेदार	भीम सिंह	01.02.2012
1471	जेसी419236एक्स	सुबेदार	भूप नारायन	01.04.2012
1472	जेसी419603वाइ	सुबेदार	ब्रिजेश कुमार	01.08.2012
1473	जेसी419949एच	सुबेदार	चंद्रा एस डी.	01.04.2012
1474	जेसी420864वाइ	सुबेदार	दरिया सिंह	01.08.2012
1475	जेसी419128एन	सुबेदार	दाउ सिंह	01.04.2012
1476	जेसी420733एन	सुबेदार	दोलत सिंह	01.04.2012
1477	जेसी419931एम	सुबेदार	धर्म सिंह	01.04.2012
1478	जेसी420817एफ	सुबेदार	धर्मबीर	01.03.2012
1479	जेसी419319एच	सुबेदार	दिनेश कुमार मिश्रा	01.04.2012
1480	जेसी420825ए	सुबेदार	गगन बहादुर राना	01.03.2012
1481	जेसी420492वाइ	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.06.2012
1482	जेसी420760एक्स	सुबेदार	गोविंद सिंह	01.06.2012
1483	जेसी419536वाइ	सुबेदार	गुलबीर सिंह	01.04.2012
1484	जेसी420241पी	सुबेदार	गुना सेकारन के	01.04.2012
1485	जेसी419748के	सुबेदार	एच टी वी	01.04.2012
1486	जेसी420826एच	सुबेदार	हरी सिंह	01.08.2012
1487	जेसी420876एन	सुबेदार	हरमेल सिंह	01.03.2012
1488	जेसी420272पी	सुबेदार	जगन्ध प्रसाद	01.04.2012
1489	जेसी421029के	सुबेदार	जसवंत सिंह	01.03.2012
1490	जेसी420920एम	सुबेदार	जसविन्दर सिंह	01.03.2012
1491	जेसी420285एम	सुबेदार	कामेश्वर साह	01.04.2012
1492	जेसी418921डब्ल्यू	सुबेदार	कामता राम	01.04.2012
1493	जेसी420169के	सुबेदार	करन सिंह	01.04.2012
1494	जेसी420870एम	सुबेदार	कश्मीर सिंह	01.03.2012
1495	जेसी420325एच	सुबेदार	कीरत सिंह	01.08.2012
1496	जेसी420843एच	सुबेदार	के राम	01.08.2012
1497	जेसी420283एफ	सुबेदार	लोकेन्द्रा सिंह	01.02.2012
1498	जेसी420804के	सुबेदार	लुम्बा राम जाट	01.08.2012
1499	जेसी419987वाइ	सुबेदार	मनसुख लाल चतुर्वेदी	01.04.2012
1500	जेसी420171एफ	सुबेदार	नागाअईया गनचारी	01.04.2012
1501	जेसी419458एम	सुबेदार	नंदा कुमार जीएस	01.04.2012
1502	जेसी420681एच	सुबेदार	ओमाना कुट्टन पिल्लई एस	01.07.2012
1503	जेसी420917एम	सुबेदार	पाटिल डी. श्रीमंत	01.07.2012
1504	जेसी420818के	सुबेदार	प्यार चन्द	01.05.2012

1505	जेसी420814एन	सुबेदार	प्रेम बहादुर	01.04.2012
1506	जेसी420867एम	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.04.2012
1507	जेसी420268एम	सुबेदार	पुरखा राम	01.08.2012
1508	जेसी421004एक्स	सुबेदार	राजेश्वर सिंह	01.03.2012
1509	जेसी420871पी	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.07.2012
1510	जेसी419133वाइ	सुबेदार	राकेश कुमार दुबे	01.04.2012
1511	जेसी420315वाइ	सुबेदार	राम नरेश	01.08.2012
1512	जेसी420857एच	सुबेदार	राम पाल	01.08.2012
1513	जेसी420816वाइ	सुबेदार	राम सुख	01.08.2012
1514	जेसी420630पी	सुबेदार	रामजी महतो	01.02.2012
1515	जेसी420923ए	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.03.2012
1516	जेसी420097एल	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.07.2012
1517	जेसी419922एल	सुबेदार	एस आइ	01.06.2012
1518	जेसी420333एफ	सुबेदार	समशेर सिंह पनवर	01.05.2012
1519	जेसी420071डब्ल्यू	सुबेदार	शशि कुमारन पीसी	01.07.2012
1520	जेसी420320के	सुबेदार	सत्य पाल सिंह	01.04.2012
1521	जेसी419475एम	सुबेदार	सत्य प्रकाश	01.04.2012
1522	जेसी420480के	सुबेदार	एसपी पलनिच्छामी	01.08.2012
1523	जेसी419598वाइ	सुबेदार	सुभाष एस	01.04.2012
1524	जेसी419422एन	सुबेदार	एस नारायन	01.04.2012
1525	जेसी420030वाइ	सुबेदार	सुनील गोगोई	01.04.2012
1526	जेसी420307एक्स	सुबेदार	सुरेन्द्रा प्रसाद सिंह	01.04.2012
1527	जेसी420429के	सुबेदार	सुरेश चन्द	01.08.2012
1528	जेसी420090एफ	सुबेदार	सुरेश चंद्रा मिश्रा	01.04.2012
1529	जेसी419951ए	सुबेदार	सुरेश सिंह	01.06.2012
1530	जेसी420376डब्ल्यू	सुबेदार	त्रिलोक सिंह थापा	01.04.2012
1531	जेसी420845एन	सुबेदार	उमेश कुमार	01.03.2012
1532	जेसी419173ए	सुबेदार	उन्नी राजन ए	01.06.2012
1533	जेसी420878वाइ	सुबेदार	उत्पल सिन्हा रौय	01.04.2012
1534	जेसी420380वाइ	सुबेदार	विरपाल सिंह	01.06.2012
1535	जेसी420819एम	सुबेदार	डब्ल्यू खान	01.03.2012
1536	जेसी419389एफ	सुबेदार	यादव प्रवीण सिंह मान सिंह	01.08.2012

पंजाब रेजीमेंट

1537	जेसी429966डब्ल्यू	सुबेदार	अमरीक सिंह	01.06.2012
1538	जेसी429213के	सुबेदार	अमरीक सिंह	01.02.2012
1539	जेसी429259एम	सुबेदार	ए सिंह	01.06.2012
1540	जेसी429942एम	सुबेदार	अशोक कुमार	01.05.2012
1541	जेसी430211एल	सुबेदार	अशोक कुमार	01.02.2012
1542	जेसी429537पी	सुबेदार	बलदेव सिंह	01.06.2012

1543	जेसी429515डब्ल्यू	सुबेदार	बलजीत सिंह	01.04.2012
1544	जेसी430072एम	सुबेदार	बलकार सिंह	01.02.2012
1545	जेसी430095एन	सुबेदार	बरखा सिंह	01.02.2012
1546	जेसी429736एच	सुबेदार	बठान सिंह	01.04.2012
1547	जेसी430483एल	सुबेदार	भागु राम जाट	01.07.2012
1548	जेसी429783ए	सुबेदार	भुपिन्द्र सिंह	01.06.2012
1549	जेसी429881ए	सुबेदार	बिक्रम सिंह राना	01.04.2012
1550	जेसी430051डब्ल्यू	सुबेदार	चरण सिंह	01.02.2012
1551	जेसी429703एक्स	सुबेदार	चरण सिंह	01.04.2012
1552	जेसी430435एल	सुबेदार	चरनजीत लाल	01.05.2012
1553	जेसी429779एक्स	सुबेदार	दर्शन कुमार	01.05.2012
1554	जेसी429521के	सुबेदार	दर्शन सिंह	01.06.2012
1555	जेसी429882एच	सुबेदार	देश राज	01.04.2012
1556	जेसी430430एम	सुबेदार	दीवान चन्द	01.07.2012
1557	जेसी429555एक्स	सुबेदार	दिलबाग सिंह	01.04.2012
1558	जेसी429590ए	सुबेदार	हरबंस सिंह	01.07.2012
1559	जेसी429349एन	सुबेदार	हरभजन सिंह	01.06.2012
1560	जेसी430172एक्स	सुबेदार	हरपाल सिंह	01.02.2012
1561	जेसी430194डब्ल्यू	सुबेदार	हुकम चन्द	01.05.2012
1562	जेसी430352ए	सुबेदार	जगदीश राज	01.07.2012
1563	जेसी429824वाइ	सुबेदार	जगदीश सिंह	01.06.2012
1564	जेसी430265एम	सुबेदार	जोती सरूप	01.07.2012
1565	जेसी429786एन	सुबेदार	कंवर पाल शर्मा	01.03.2012
1566	जेसी429674एन	सुबेदार	कश्मीर सिंह	01.04.2012
1567	जेसी429752ए	सुबेदार	लाल सिंह	01.04.2012
1568	जेसी430248एम	सुबेदार	महाबीर प्रसाद	01.02.2012
1569	जेसी430096डब्ल्यू	सुबेदार	मनमोहन सिंह	01.02.2012
1570	जेसी429808एफ	सुबेदार	मोहंदर सिंह	01.03.2012
1571	जेसी429958एक्स	सुबेदार	नसीब सिंह	01.06.2012
1572	जेसी429287वाइ	सुबेदार	परमजीत सिंह	01.02.2012
1573	जेसी430316पी	सुबेदार	रघुवीर सिंह	01.07.2012
1574	जेसी429297एच	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.03.2012
1575	जेसी429815एक्स	सुबेदार	राम अवध राम	01.04.2012
1576	जेसी429648एम	सुबेदार	रमेश चन्द	01.02.2012
1577	जेसी430283पी	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.05.2012
1578	जेसी429715एम	सुबेदार	संतोख सिंह	01.02.2012
1579	जेसी429940एफ	सुबेदार	शमशेर सिंह जसरोतिया	01.07.2012
1580	जेसी430185पी	सुबेदार	सुभाष सिंह	01.04.2012
1581	जेसी430132डब्ल्यू	सुबेदार	सुभाष चन्द	01.08.2012
1582	जेसी429753एच	सुबेदार	सुभाष चंद	01.06.2012

1583	जेसी429851एच	सुबेदार	सुदर्शन सिंह	01.04.2012
1584	जेसी429662वाइ	सुबेदार	सुरजीत राम	01.06.2012
1585	जेसी429900ए	सुबेदार	एस सिंह	01.05.2012
1586	जेसी430133वाइ	सुबेदार	त्रिलोक चन्द	01.08.2012
1587	जेसी429831पी	सुबेदार	तिलक राज	01.04.2012

**मद्रास रेजीमेंट**

1588	जेसी439219वाइ	सुबेदार	अशोकन एन	01.06.2012
1589	जेसी439299एफ	सुबेदार	अगस्टिन पीजी.	01.06.2012
1590	जेसी439268एफ	सुबेदार	बी डी. राव	01.06.2012
1591	जेसी439932डब्ल्यू	सुबेदार	बाबू राजन एम	01.05.2012
1592	जेसी439998एम	सुबेदार	बाहूलेयन नायर जी.	01.05.2012
1593	जेसी439407ए	सुबेदार	चंद्रन यू	01.08.2012
1594	जेसी438709ए	सुबेदार	डी. जवाहर	01.03.2012
1595	जेसी439054एल	सुबेदार	दल चंद्रा	01.04.2012
1596	जेसी439077एम	सुबेदार	जी. जे देवसहायम	01.06.2012
1597	जेसी439521एक्स	सुबेदार	गोपीनाथन सी	01.04.2012
1598	जेसी439375एच	सुबेदार	जी.वी प्रभाकर राव	01.03.2012
1599	जेसी439720एल	सुबेदार	जे सिबस्टियन	01.06.2012
1600	जेसी439319के	सुबेदार	जडे गोड़ा	01.06.2012
1601	जेसी439298वाइ	सुबेदार	जयधरन पिल्लई बी	01.06.2012
1602	जेसी439427एन	सुबेदार	के पांडि	01.03.2012
1603	जेसी439555एल	सुबेदार	के शेखरन	01.05.2012
1604	जेसी439611वाइ	सुबेदार	करुणागरन डी.	01.06.2012
1605	जेसी439211एम	सुबेदार	एम मुरुगन	01.08.2012
1606	जेसी439482के	सुबेदार	एम राधाकृष्ण	01.08.2012
1607	जेसी439607डब्ल्यू	सुबेदार	मलप्पा एम	01.06.2012
1608	जेसी439227एक्स	सुबेदार	मणिकांतन नायर एम	01.07.2012
1609	जेसी439244एक्स	सुबेदार	एम सूर्यनारायण	01.06.2012
1610	जेसी439506एच	सुबेदार	एम के मोहाना कुमार	01.03.2012
1611	जेसी439470पी	सुबेदार	मोहानन वी	01.05.2012
1612	जेसी439507एल	सुबेदार	एन थंकाराज	01.04.2012
1613	जेसी439487एच	सुबेदार	पी मुरलीधरन	01.06.2012
1614	जेसी439016पी	सुबेदार	प्रकाशन पी	01.08.2012
1615	जेसी439169वाइ	सुबेदार	राधाकृष्ण जी.	01.02.2012
1616	जेसी439588डब्ल्यू	सुबेदार	रघुनाथन के	01.05.2012
1617	जेसी439154डब्ल्यू	सुबेदार	राजन एन	01.06.2012
1618	जेसी439464एफ	सुबेदार	राजू के	01.05.2012
1619	जेसी439405पी	सुबेदार	रामालिंग एस	01.05.2012
1620	जेसी439356एक्स	सुबेदार	आंर पी गणेशन	01.02.2012

1621	जेसी439170एन	सुबेदार	सदानन्द	01.04.2012
1622	जेसी439291पी	सुबेदार	सदानन्दन पी	01.02.2012
1623	जेसी439132एक्स	सुबेदार	सदाशिवन पीआर	01.06.2012
1624	जेसी439337एम	सुबेदार	साजू जोर्ज	01.05.2012
1625	जेसी439247एल	सुबेदार	सिबस्टियन पीएम	01.04.2012
1626	जेसी439341पी	सुबेदार	शेक कासिम साहेब	01.04.2012
1627	जेसी439136एन	सुबेदार	सोमन्ना केजी	01.04.2012
1628	जेसी439739के	सुबेदार	टी चिदम्बरम्	01.05.2012
1629	जेसी439597एक्स	सुबेदार	ता चंद्रन	01.06.2012
1630	जेसी439911ए	सुबेदार	थंगी श्रीनिवास राव	01.07.2012
1631	जेसी439820डब्ल्यू	सुबेदार	टी कुमार टी	01.08.2012
1632	जेसी439167एन	सुबेदार	वी पेरियालागन	01.06.2012
1633	जेसी439629पी	सुबेदार	विनोद कुमार सी	01.08.2012
<u>ग्रैनेडियर्स</u>				

1634	जेसी450591डब्ल्यू	सुबेदार	अभेय सिंह	01.03.2012
1635	जेसी450265एन	सुबेदार	एक्बाल अहमद	01.07.2012
1636	जेसी450642वाइ	सुबेदार	अमर सिंह	01.08.2012
1637	जेसी450142एफ	सुबेदार	अंसार अहमद	01.07.2012
1638	जेसी449558एम	सुबेदार	बी सिंह	01.08.2012
1639	जेसी449835एम	सुबेदार	बजरंग लाल मीना	01.02.2012
1640	जेसी450008डब्ल्यू	सुबेदार	बेनुधर सेनापती	01.04.2012
1641	जेसी449412वाइ	सुबेदार	भगवाना राम	01.07.2012
1642	जेसी450186वाइ	सुबेदार	भूर सिंह	01.08.2012
1643	जेसी449986एल	सुबेदार	बुध राम	01.08.2012
1644	जेसी449875एन	सुबेदार	फारुक अली	01.04.2012
1645	जेसी450124वाइ	सुबेदार	हबीब अहमद	01.04.2012
1646	जेसी450183एल	सुबेदार	हंस राज	01.03.2012
1647	जेसी450087डब्ल्यू	सुबेदार	हंस राज मीना	01.06.2012
1648	जेसी450636एल	सुबेदार	हरी सिंह	01.07.2012
1649	जेसी450266डब्ल्यू	सुबेदार	इकबाल अली	01.07.2012
1650	जेसी450614एम	सुबेदार	जगदीश चन्द	01.08.2012
1651	जेसी450545एफ	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.08.2012
1652	जेसी450109के	सुबेदार	लियाकत अली	01.04.2012
1653	जेसी449197वाइ	सुबेदार	मदन लाल गूजर	01.06.2012
1654	जेसी450035ए	सुबेदार	मोहम्मद अशरफ अली	01.04.2012
1655	जेसी449938एल	सुबेदार	मोहम्मद बसीर	01.04.2012
1656	जेसी450157के	सुबेदार	नार सिंह	01.08.2012
1657	जेसी450177एक्स	सुबेदार	नवाब अली	01.07.2012
1658	जेसी450210के	सुबेदार	नवाब खान	01.07.2012



1659	जेसी449915के	सुबेदार	निसार अहमद	01.04.2012
1660	जेसी449851के	सुबेदार	नियाज़ अहमद	01.04.2012
1661	जेसी449809एल	सुबेदार	नियाज़ अहमद खान	01.04.2012
1662	जेसी449680एच	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.03.2012
1663	जेसी450446वाइ	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.06.2012
1664	जेसी450408एच	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.08.2012
1665	जेसी450279एन	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह चौहान	01.02.2012
1666	जेसी449885एक्स	सुबेदार	राम हरी	01.08.2012
1667	जेसी450631एम	सुबेदार	राम हरी सिंह	01.02.2012
1668	जेसी450712एम	सुबेदार	राम करन यादव	01.08.2012
1669	जेसी449764डब्ल्यू	सुबेदार	राम नरेश सिंह	01.02.2012
1670	जेसी449682एन	सुबेदार	राम सिंह	01.03.2012
1671	जेसी450387एक्स	सुबेदार	रामदेव सिंह बुदानिया	01.08.2012
1672	जेसी450081पी	सुबेदार	रमेश चंद्रा सिंह	01.02.2012
1673	जेसी450108एफ	सुबेदार	सब्बीर अहमद	01.04.2012
1674	जेसी449861एन	सुबेदार	सब्बीर खान	01.04.2012
1675	जेसी450229एच	सुबेदार	सांवर मल	01.04.2012
1676	जेसी450173एफ	सुबेदार	शामासुद्धीन	01.06.2012
1677	जेसी450075एफ	सुबेदार	शमशेर सिंह	01.03.2012
1678	जेसी450214ए	सुबेदार	शेर सिंह	01.04.2012
1679	जेसी449608एम	सुबेदार	सिम्बू दयाल रावत	01.08.2012
1680	जेसी449489एफ	सुबेदार	शीश राम गूजर	01.02.2012
1681	जेसी450169वाइ	सुबेदार	शिव चंद्रा यादव	01.04.2012
1682	जेसी449445के	सुबेदार	शोकत अली	01.04.2012
1683	जेसी449507वाइ	सुबेदार	एस अली खान	01.04.2012
1684	जेसी450477वाइ	सुबेदार	सिया राम सिंह	01.05.2012
1685	जेसी449968एच	सुबेदार	सूबे सिंह	01.08.2012
1686	जेसी449983एक्स	सुबेदार	सुमेर सिंह	01.06.2012
1687	जेसी450504एक्स	सुबेदार	सुमेर सिंह	01.08.2012
1688	जेसी449759एल	सुबेदार	सूरत सिंह	01.06.2012
1689	जेसी450097ए	सुबेदार	सुरेश चंद्रा राउत	01.07.2012
1690	जेसी449984ए	सुबेदार	सुरेश कुमार सिंह	01.04.2012
1691	जेसी450562एफ	सुबेदार	स्वरूप सिंह भाटी	01.08.2012
1692	जेसी450005एच	सुबेदार	टीकम सिंह	01.08.2012
1693	जेसी449981एम	सुबेदार	उम्मेद सिंह	01.04.2012
1694	जेसी449265एफ	सुबेदार	उस्मान अली	01.04.2012
1695	जेसी450110वाइ	सुबेदार	वेद प्रकाश	01.02.2012
1696	जेसी449821एम	सुबेदार	विजय सिंह	01.07.2012
1697	जेसी450111एफ	सुबेदार	विजय सिंह	01.07.2012
1698	जेसी449891एल	सुबेदार	विजेन्द्र	01.06.2012

1699	जेसी450161एम <u>मराठा लघु सेना</u>	सुबेदार	जहूर खान	01.04.2012
1700	जेसी459269एल	सुबेदार	ए आर गनपतराव	01.04.2012
1701	जेसी459736एक्स	सुबेदार	अंकुश दन्यानोबा देशमुख	01.08.2012
1702	जेसी459177वाइ	सुबेदार	अन्वसो सुराव सूर्यवंशी	01.04.2012
1703	जेसी459718पी	सुबेदार	बी संदीपन कृपे	01.02.2012
1704	जेसी458957एक्स	सुबेदार	बाबू जे	01.04.2012
1705	जेसी459483एन	सुबेदार	ब्रज भान पटेल	01.06.2012
1706	जेसी458825के	सुबेदार	देसे शिवाजी शंकर	01.06.2012
1707	जेसी459049एफ	सुबेदार	धरने बान्द्राकान्त गोविंद	01.02.2012
1708	जेसी458878एच	सुबेदार	दिनकर उधव भोरे	01.04.2012
1709	जेसी459406वाइ	सुबेदार	इक्का पौलुस एस	01.07.2012
1710	जेसी459171एक्स	सुबेदार	गनपत शिवराम चव्हाण	01.05.2012
1711	जेसी459169ए	सुबेदार	गवस अनन्त शान्तराम	01.04.2012
1712	जेसी459448एल	सुबेदार	जे जया प्रकाश	01.02.2012
1713	जेसी458954डब्ल्यू	सुबेदार	जे कासिम	01.06.2012
1714	जेसी459165के	सुबेदार	जाधव पांडुरंग सीताराम	01.04.2012
1715	जेसी458177एम	सुबेदार	जाधव स्वामी गोपीनाथ	01.04.2012
1716	जेसी459267ए	सुबेदार	काजी सरदार महमूद साहेब	01.03.2012
1717	जेसी459465एल	सुबेदार	किसान बंडप्पा पी	01.02.2012
1718	जेसी459686एक्स	सुबेदार	कृष्णाकान्त पटेल	01.06.2012
1719	जेसी458991एक्स	सुबेदार	कुर्णा गंगाराम एम	01.05.2012
1720	जेसी459404एन	सुबेदार	एल केशव डी.	01.02.2012
1721	जेसी459031एल	सुबेदार	मारगाले पांडुरंग विथू	01.02.2012
1722	जेसी459062एल	सुबेदार	मोहन परशुराम शिंदे	01.07.2012
1723	जेसी459227एन	सुबेदार	एन गुन्दू लक्ष्मन	01.08.2012
1724	जेसी458880ए	सुबेदार	पी राजू दनयानु	01.08.2012
1725	जेसी459265पी	सुबेदार	पकीर अहम्मद	01.04.2012
1726	जेसी458804एन	सुबेदार	पाटिल बालासो एम	01.04.2012
1727	जेसी459218एक्स	सुबेदार	पवार वसंत दीनकर	01.08.2012
1728	जेसी459058एच	सुबेदार	पी उषिन	01.06.2012
1729	जेसी459162डब्ल्यू	सुबेदार	प्रेम नारायण यादव	01.04.2012
1730	जेसी458418एफ	सुबेदार	आर जयराम एस	01.08.2012
1731	जेसी459624एक्स	सुबेदार	राम नरेश पटेल	01.06.2012
1732	जेसी459203पी	सुबेदार	रामेश्वर दयाल	01.05.2012
1733	जेसी459683के	सुबेदार	रामलाल पटेल	01.07.2012
1734	जेसी459460एम	सुबेदार	राणे हनुमंत नारायण	01.05.2012
1735	जेसी459266एक्स	सुबेदार	एस सैयद एम	01.03.2012
1736	जेसी459270ए	सुबेदार	शेक अमीर	01.05.2012

1737	जेसी459542पी	सुबेदार	एस सुभाष मोतीराम	01.08.2012
1738	जेसी459164एफ	सुबेदार	टीएडी. बालीराम दत्तू	01.07.2012
1739	जेसी459152एम	सुबेदार	विजय कुमार	01.06.2012
1740	जेसी459319एल	सुबेदार	यादव आर शामराव	01.08.2012

राजपूताना राईफल्स

1741	जेसी469630वाइ	सुबेदार	अशोक सिंह	01.02.2012
1742	जेसी469102पी	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.05.2012
1743	जेसी469805डब्ल्यू	सुबेदार	भगवान सिंह	01.06.2012
1744	जेसी469999के	सुबेदार	भंवर सिंह	01.08.2012
1745	जेसी469986एम	सुबेदार	भंवर सिंह शेखावत	01.04.2012
1746	जेसी469992ए	सुबेदार	भनवारा राम	01.08.2012
1747	जेसी469725वाइ	सुबेदार	भीम सिंह	01.04.2012
1748	जेसी469869एफ	सुबेदार	चैन सिंह राठोड़	01.02.2012
1749	जेसी469275एम	सुबेदार	चंद्र भान	01.06.2012
1750	जेसी469917डब्ल्यू	सुबेदार	छगन सिंह	01.08.2012
1751	जेसी469672एल	सुबेदार	डी. सिंह	01.03.2012
1752	जेसी469831एक्स	सुबेदार	धर्मवीर	01.04.2012
1753	जेसी470241एल	सुबेदार	गज राज	01.08.2012
1754	जेसी470282पी	सुबेदार	गजेन्द्र सिंह	01.05.2012
1755	जेसी470139एच	सुबेदार	गयाद सिंह	01.02.2012
1756	जेसी469834एल	सुबेदार	गिरधारी सिंह बी	01.04.2012
1757	जेसी470102एफ	सुबेदार	हर चन्द	01.04.2012
1758	जेसी470057ए	सुबेदार	जगदीश सिंह चौहान	01.08.2012
1759	जेसी470200एफ	सुबेदार	जय वीर सिंह राना	01.08.2012
1760	जेसी470009ए	सुबेदार	जोरावर सिंह चौहान	01.06.2012
1761	जेसी470063एन	सुबेदार	कालू सिंह	01.02.2012
1762	जेसी470067के	सुबेदार	करनबीर सिंह	01.08.2012
1763	जेसी469351एन	सुबेदार	केशर सिंह	01.08.2012
1764	जेसी470034वाइ	सुबेदार	लायक अहमद	01.03.2012
1765	जेसी469731एम	सुबेदार	मंगू सिंह	01.07.2012
1766	जेसी469331ए	सुबेदार	मंगू सिंह	01.05.2012
1767	जेसी469909एक्स	सुबेदार	मिलाप चन्द	01.07.2012
1768	जेसी470010पी	सुबेदार	मोहन पाल	01.02.2012
1769	जेसी470228एफ	सुबेदार	नरेन्द्रा सिंह	01.02.2012
1770	जेसी469987पी	सुबेदार	पदम सिंह	01.07.2012
1771	जेसी470280के	सुबेदार	पी सिंह	01.02.2012
1772	जेसी469097पी	सुबेदार	पूरन सिंह	01.04.2012
1773	जेसी470039एक्स	सुबेदार	राम निवास	01.06.2012
1774	जेसी469147पी	सुबेदार	राम पाल सिंह	01.04.2012

1775	जेसी470269एल	सुबेदार	राम स्वरूप यादव	01.07.2012
1776	जेसी469832ए	सुबेदार	रामेश्वर	01.04.2012
1777	जेसी470220पी	सुबेदार	रामेश्वर लाल	01.05.2012
1778	जेसी469673एन	सुबेदार	सांता शरण तिचारी	01.03.2012
1779	जेसी469980एल	सुबेदार	एस सिंह	01.06.2012
1780	जेसी470080एन	सुबेदार	सतीश कुमार	01.08.2012
1781	जेसी470160एल	सुबेदार	सतेन्द्रन	01.05.2012
1782	जेसी470035एफ	सुबेदार	सत्यावान	01.06.2012
1783	जेसी470355डब्ल्यू	सुबेदार	शिव सिंह	01.08.2012
1784	जेसी469903डब्ल्यू	सुबेदार	सुमेर सिंह	01.02.2012
1785	जेसी469910एम	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.07.2012
1786	जेसी470132वाइ	सुबेदार	उदय सिंह	01.02.2012
1787	जेसी469748ए	सुबेदार	उदयबीर सिंह	01.04.2012
1788	जेसी470114डब्ल्यू	सुबेदार	उगम सिंह	01.07.2012
1789	जेसी469904वाइ	सुबेदार	वासु देव	01.03.2012
1790	जेसी469920डब्ल्यू	सुबेदार	योगेन्द्रा सिंह	01.08.2012

राजपूत रेजीमेंट

1791	जेसी480172एन	सुबेदार	अल्फू	01.03.2012
1792	जेसी479832एल	सुबेदार	अनन्त राम	01.03.2012
1793	जेसी479936ए	सुबेदार	अर्जुन	01.02.2012
1794	जेसी479459वाइ	सुबेदार	अशोक कुमार	01.08.2012
1795	जेसी479657के	सुबेदार	अतर सिंह गुर्जर	01.03.2012
1796	जेसी479842एक्स	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.02.2012
1797	जेसी479955ए	सुबेदार	बासुदेब घोष	01.05.2012
1798	जेसी479640डब्ल्यू	सुबेदार	भीम सेन सिंह	01.03.2012
1799	जेसी479965के	सुबेदार	भीम सिंह शेखावत	01.07.2012
1800	जेसी479941ए	सुबेदार	भूरी सिंह	01.02.2012
1801	जेसी479093एम	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह चौहान	01.05.2012
1802	जेसी479433के	सुबेदार	छत्रा राम	01.08.2012
1803	जेसी479927एन	सुबेदार	दीन दयाल	01.08.2012
1804	जेसी479967पी	सुबेदार	डी. सिंह पी	01.08.2012
1805	जेसी479767वाइ	सुबेदार	धन सिंह	01.02.2012
1806	जेसी479646एक्स	सुबेदार	धर्म पाल	01.03.2012
1807	जेसी479620एफ	सुबेदार	धर्म सिंह	01.04.2012
1808	जेसी479512एक्स	सुबेदार	गजराज सिंह बिष्ट	01.04.2012
1809	जेसी479714ए	सुबेदार	गोर्धन लाल गूजर	01.05.2012
1810	जेसी479793ए	सुबेदार	हरी बाबू सिंह	01.02.2012
1811	जेसी479348एफ	सुबेदार	जगरूप सिंह परिहार	01.06.2012
1812	जेसी479882वाइ	सुबेदार	जोग सिंह भाटी	01.05.2012

1813	जेसी479859एल	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.05.2012
1814	जेसी480114के	सुबेदार	कष्णन पाल सिंह	01.04.2012
1815	जेसी479318के	सुबेदार	कुबेर सिंह कुशवाहा	01.05.2012
1816	जेसी479364वाइ	सुबेदार	लाल चन्द गूजर	01.07.2012
1817	जेसी478864के	सुबेदार	महाबीर प्रसाद	01.03.2012
1818	जेसी479918एम	सुबेदार	मुन्ना लाल	01.08.2012
1819	जेसी479929वाइ	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.06.2012
1820	जेसी479674के	सुबेदार	प्रदीप कुमार	01.07.2012
1821	जेसी479808एक्स	सुबेदार	प्रहलाद सिंह	01.02.2012
1822	जेसी479983एम	सुबेदार	प्रमेश्वरन नाथ	01.03.2012
1823	जेसी479365एफ	सुबेदार	राज कुमार सिंह	01.05.2012
1824	जेसी479807पी	सुबेदार	राजबीर	01.05.2012
1825	जेसी479357एच	सुबेदार	राजेंद्र कुमार	01.03.2012
1826	जेसी480041एच	सुबेदार	राम किशन यादव	01.03.2012
1827	जेसी479804एफ	सुबेदार	राम किशोर	01.04.2012
1828	जेसी479780एच	सुबेदार	राम फल सिंह	01.05.2012
1829	जेसी480035पी	सुबेदार	राम सिंह	01.06.2012
1830	जेसी479875एच	सुबेदार	ऋचपाल सिंह	01.08.2012
1831	जेसी479847डब्ल्यू	सुबेदार	सतीश कुमार शर्मा	01.08.2012
1832	जेसी479665एच	सुबेदार	श्याम लाल	01.05.2012
1833	जेसी479542डब्ल्यू	सुबेदार	श्री मान	01.07.2012
1834	जेसी479794एच	सुबेदार	श्री पाल सिंह	01.03.2012
1835	जेसी479669वाइ	सुबेदार	सुबाष सिंह	01.08.2012
1836	जेसी479814एल	सुबेदार	सुमेर सिंह	01.03.2012
1837	जेसी479830एच	सुबेदार	सुमेर सिंह	01.02.2012
1838	जेसी480123एल	सुबेदार	सुनील कुमार मोन्डल	01.03.2012
1839	जेसी479724के	सुबेदार	सुरेश सिंह	01.07.2012
1840	जेसी479872पी	सुबेदार	टी हुसैन	01.05.2012
1841	जेसी479895डब्ल्यू	सुबेदार	उदयबीर सिंह	01.08.2012
1842	जेसी479574वाइ	सुबेदार	उमेश सिंह सोलंकी	01.03.2012
1843	जेसी479864डब्ल्यू	सुबेदार	वासु देव	01.02.2012
1844	जेसी479786के	सुबेदार	विशाल सिंह इनडे	01.06.2012
1845	जेसी480192एफ	सुबेदार	वाइ खान	01.08.2012
1846	जेसी480034एम	सुबेदार	जमील अहमद	01.04.2012

**जाट रेजीमेंट**

1847	जेसी490062एम	सुबेदार	अमर भटनागर	01.04.2012
1848	जेसी489633एन	सुबेदार	अमर सिंह	01.03.2012
1849	जेसी489916पी	सुबेदार	ए जाट गोरा	01.03.2012
1850	जेसी489544पी	सुबेदार	बलशोर	01.02.2012

1851	जेसी489457एफ	सुबेदार	बनवारी लाल जाट	01.03.2012
1852	जेसी490163ए	सुबेदार	बिश्नू चरण मोहंती	01.07.2012
1853	जेसी489696डब्ल्यू	सुबेदार	चन्दन सिंह	01.03.2012
1854	जेसी489822एक्स	सुबेदार	छुत्रा राम	01.07.2012
1855	जेसी489728एन	सुबेदार	देवकी नन्दन सिंह	01.03.2012
1856	जेसी489967एच	सुबेदार	दिनेश चंद्रा यादव	01.03.2012
1857	जेसी489829एफ	सुबेदार	दुर्गा राम	01.06.2012
1858	जेसी489982एक्स	सुबेदार	गिरधारी लाल	01.03.2012
1859	जेसी489226एल	सुबेदार	हंस राज सिंह	01.04.2012
1860	जेसी489624एम	सुबेदार	हरजीत	01.02.2012
1861	जेसी489545एक्स	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.02.2012
1862	जेसी489950पी	सुबेदार	जग्गू राम झाझरिया	01.08.2012
1863	जेसी489575पी	सुबेदार	किशन लाल	01.04.2012
1864	जेसी489766के	सुबेदार	कुंवर सिंह सिनसिनवर	01.06.2012
1865	जेसी489924एन	सुबेदार	महावीर प्रसाद	01.06.2012
1866	जेसी489832एफ	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.08.2012
1867	जेसी489532ए	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.05.2012
1868	जेसी489688एक्स	सुबेदार	पदम सिंह	01.06.2012
1869	जेसी490025वाइ	सुबेदार	फूल सिंह	01.06.2012
1870	जेसी489743एच	सुबेदार	प्रेम सिंह गूजर	01.02.2012
1871	जेसी489830डब्ल्यू	सुबेदार	राज पाल	01.06.2012
1872	जेसी489538एफ	सुबेदार	राजपाल सिंह	01.04.2012
1873	जेसी489825एल	सुबेदार	राजवीर सिंह	01.03.2012
1874	जेसी490143एम	सुबेदार	रमेश कुमार	01.07.2012
1875	जेसी489804पी	सुबेदार	रामेश्वर लाल जाट	01.05.2012
1876	जेसी489418एच	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.03.2012
1877	जेसी489305ए	सुबेदार	रौय चेरिअन	01.08.2012
1878	जेसी489566एन	सुबेदार	श्री भगवान	01.08.2012
1879	जेसी490055डब्ल्यू	सुबेदार	श्री राम	01.08.2012
1880	जेसी489915एम	सुबेदार	सुभाष चन्द	01.05.2012
1881	जेसी490080पी	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.06.2012
1882	जेसी490036एल	सुबेदार	वेद पाल सिंह	01.04.2012
1883	जेसी489988वाइ	सुबेदार	विनोद कुमार	01.07.2012
1884	जेसी489662एच	सुबेदार	विरेन्द्र सिंह	01.02.2012
1885	जेसी489720एफ	सुबेदार	विरेन्द्र सिंह	01.02.2012

### सिख रेजीमेंट

1886	जेसी499239डब्ल्यू	सुबेदार	अवतार सिंह	01.02.2012
1887	जेसी499288वाइ	सुबेदार	बाबू लाल	01.05.2012
1888	जेसी499548वाइ	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.03.2012

1889	जेसी499725एन	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.06.2012
1890	जेसी499553के	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.05.2012
1891	जेसी499032डब्ल्यू	सुबेदार	सी डी. राजू	01.07.2012
1892	जेसी498539एल	सुबेदार	घर सिंह	01.04.2012
1893	जेसी498722एन	सुबेदार	हकीम सिंह	01.03.2012
1894	जेसी499138एच	सुबेदार	जगसिर सिंह	01.05.2012
1895	जेसी499244एफ	सुबेदार	जामित सिंह	01.05.2012
1896	जेसी499281पी	सुबेदार	जरनैल सिंह	01.05.2012
1897	जेसी498808एम	सुबेदार	जसपाल सिंह	01.03.2012
1898	जेसी499299एल	सुबेदार	कपूर सिंह	01.06.2012
1899	जेसी499190एल	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.06.2012
1900	जेसी499064वाइ	सुबेदार	माखन सिंह	01.05.2012
1901	जेसी499730वाइ	सुबेदार	एम सिंह	01.05.2012
1902	जेसी498922के	सुबेदार	मुखत्यार सिंह	01.08.2012
1903	जेसी498949एफ	सुबेदार	निर्मल सिंह	01.03.2012
1904	जेसी498848एन	सुबेदार	प्रीतम सिंह	01.06.2012
1905	जेसी499341वाइ	सुबेदार	पूरन सिंह	01.05.2012
1906	जेसी499008ए	सुबेदार	रतन सिंह	01.02.2012
1907	जेसी499146एफ	सुबेदार	सर्बजीत सिंह	01.08.2012
1908	जेसी499250पी	सुबेदार	सतनाम सिंह	01.06.2012
1909	जेसी499130डब्ल्यू	सुबेदार	सुखचैन सिंह	01.04.2012

सिख लघु पैदल सेना

1910	जेसी508907एल	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.02.2012
1911	जेसी509315एन	सुबेदार	बलवीर सिंह	01.02.2012
1912	जेसी509423एक्स	सुबेदार	दलीप सिंह	01.06.2012
1913	जेसी509418एम	सुबेदार	धर्म पाल	01.02.2012
1914	जेसी508742एक्स	सुबेदार	धर्म पाल सिंह	01.02.2012
1915	जेसी508790एक्स	सुबेदार	हरेन्द्र प्रताप सिंह	01.04.2012
1916	जेसी509189एम	सुबेदार	इंद्रजीत सिंह	01.02.2012
1917	जेसी509317वाइ	सुबेदार	जगतार सिंह	01.03.2012
1918	जेसी509394एन	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.06.2012
1919	जेसी509164ए	सुबेदार	लक्षमन सिंह	01.03.2012
1920	जेसी508668एफ	सुबेदार	लखविन्दर सिंह	01.02.2012
1921	जेसी508783एफ	सुबेदार	मनमोहन सिंह	01.04.2012
1922	जेसी508942एन	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.05.2012
1923	जेसी509283डब्ल्यू	सुबेदार	पी सिंह	01.02.2012
1924	जेसी508708एक्स	सुबेदार	रेशम सिंह	01.02.2012
1925	जेसी509312ए	सुबेदार	सतबीर सिंह	01.04.2012
1926	जेसी509357ए	सुबेदार	सेवा सिंह	01.03.2012

1927	जेसी509126के	सुबेदार	सुखवीर सिंह	01.02.2012
1928	जेसी509700एक्स	सुबेदार	सुखविंदर सिंह	01.06.2012
1929	जेसी508996पी	सुबेदार	सुरिन्दर पाल सिंह	01.04.2012
1930	जेसी509118एल	सुबेदार	त्रिलोचन सिंह	01.07.2012
1931	जेसी509771वाइ	सुबेदार	तेजवंत सिंह	01.06.2012
<u>डोंगरा रेजीमेंट</u>				
1932	जेसी520565पी	सुबेदार	अवतार सिंह	01.07.2012
1933	जेसी520508एन	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.05.2012
1934	जेसी520015एम	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.07.2012
1935	जेसी520128पी	सुबेदार	बलकार सिंह	01.06.2012
1936	जेसी520688एफ	सुबेदार	भगवान दास	01.08.2012
1937	जेसी520592वाइ	सुबेदार	बिधि चन्द	01.02.2012
1938	जेसी520470पी	सुबेदार	बीरबल, एसएम	01.02.2012
1939	जेसी520554एन	सुबेदार	बुधी सिंह	01.06.2012
1940	जेसी520252डब्ल्यू	सुबेदार	सी मारिआ वी	01.06.2012
1941	जेसी520078पी	सुबेदार	चिमन सिंह	01.04.2012
1942	जेसी520540एच	सुबेदार	दर्शन कुमार	01.02.2012
1943	जेसी520674एफ	सुबेदार	देविन्द्र सिंह	01.07.2012
1944	जेसी520505ए	सुबेदार	धर्म पाल	01.03.2012
1945	जेसी520200ए	सुबेदार	हुकम चन्द	01.07.2012
1946	जेसी520064पी	सुबेदार	जनक राज	01.04.2012
1947	जेसी520026वाइ	सुबेदार	जोगिंदर सिंह भूरिया	01.02.2012
1948	जेसी520552एक्स	सुबेदार	करनैल सिंह	01.02.2012
1949	जेसी520415वाइ	सुबेदार	करतार चन्द	01.03.2012
1950	जेसी520348वाइ	सुबेदार	करतार सिंह	01.02.2012
1951	जेसी520805एफ	सुबेदार	कस्तूरी लाल	01.07.2012
1952	जेसी520315एन	सुबेदार	खेम चन्द	01.02.2012
1953	जेसी520071एल	सुबेदार	कुलदीप सिंह चौहान	01.04.2012
1954	जेसी520259ए	सुबेदार	कुलदीप चन्द	01.02.2012
1955	जेसी520676एम	सुबेदार	महेन्द्र सिंह	01.07.2012
1956	जेसी520290एम	सुबेदार	महिंद्र सिंह	01.03.2012
1957	जेसी520201एच	सुबेदार	मेस्टन सिंह	01.05.2012
1958	जेसी520019एच	सुबेदार	मेहर चन्द	01.04.2012
1959	जेसी520564एम	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.06.2012
1960	जेसी520207के	सुबेदार	नगेन्द्रा सिंह	01.03.2012
1961	जेसी520029एम	सुबेदार	नरेश चन्द शर्मा	01.03.2012
1962	जेसी520227एक्स	सुबेदार	नेक राम	01.04.2012
1963	जेसी520114पी	सुबेदार	निर्मल सिंह	01.02.2012
1964	जेसी520675के	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.05.2012



1965	जेसी519981एम	सुबेदार	प्रभात चन्द	01.04.2012
1966	जेसी520330एच	सुबेदार	प्रताप चन्द	01.07.2012
1967	जेसी520043वाइ	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.04.2012
1968	जेसी520444एन	सुबेदार	प्रेम चन्द	01.04.2012
1969	जेसी520593एफ	सुबेदार	पंजाब सिंह पी	01.02.2012
1970	जेसी520439एच	सुबेदार	राज पाल सिंह	01.04.2012
1971	जेसी520698एल	सुबेदार	राम कुमार	01.05.2012
1972	जेसी520121एल	सुबेदार	राम प्रसाद	01.04.2012
1973	जेसी520692के	सुबेदार	राम पौल	01.03.2012
1974	जेसी520326ए	सुबेदार	राम सेन	01.02.2012
1975	जेसी520148एच	सुबेदार	रमेश कुमार	01.02.2012
1976	जेसी520471एक्स	सुबेदार	रतन लाल	01.02.2012
1977	जेसी520113एम	सुबेदार	रतन लाल	01.02.2012
1978	जेसी520506एच	सुबेदार	रोमेश सिंह	01.03.2012
1979	जेसी520418एम	सुबेदार	रूप लाल	01.07.2012
1980	जेसी520520पी	सुबेदार	शक्ती सिंह	01.07.2012
1981	जेसी520139एफ	सुबेदार	शूरबीर सिंह	01.03.2012
1982	जेसी520625वाइ	सुबेदार	सीता राम	01.02.2012
1983	जेसी520123डब्ल्यू	सुबेदार	सुदेश कुमार	01.02.2012
1984	जेसी520034एक्स	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह चंदेल	01.04.2012
1985	जेसी520580के	सुबेदार	सुरेश पाल	01.02.2012
1986	जेसी520230एक्स	सुबेदार	सुशील कुमार	01.04.2012
1987	जेसी520110वाइ	सुबेदार	सुशील कुमार	01.02.2012
1988	जेसी520351वाइ	सुबेदार	स्वामी राम	01.02.2012
1989	जेसी520345एल	सुबेदार	तरसेम सिंह	01.05.2012
1990	जेसी520131पी	सुबेदार	तेज पौल राना	01.02.2012
1991	जेसी520703एल	सुबेदार	तेजबीर सिंह	01.08.2012
1992	जेसी520737वाइ	सुबेदार	तिलक राज	01.03.2012
1993	जेसी520579पी	सुबेदार	विजय कुमार	01.02.2012
1994	जेसी520302डब्ल्यू	सुबेदार	विक्रम सिंह	01.04.2012
1995	जेसी519940एच	सुबेदार	विपन कुमार	01.04.2012
1996	जेसी520701ए	सुबेदार	यश पौल	01.02.2012

गढ़वाल राईफल्स

1997	जेसी529065वाइ	सुबेदार	अशोक कुमार	01.04.2012
1998	जेसी530219एम	सुबेदार	औतार सिंह	01.04.2012
1999	जेसी530063ए	सुबेदार	बलदेव सिंह डोगरा	01.03.2012
2000	जेसी529987एफ	सुबेदार	भगत सिंह	01.07.2012
2001	जेसी530217एफ	सुबेदार	बीजू लाल	01.05.2012
2002	जेसी529982एच	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.02.2012

2003	जेसी529919एन	सुबेदार	चंद्र मनी	01.04.2012
2004	जेसी530349पी	सुबेदार	चंद्रा शेखर कुकरेती	01.04.2012
2005	जेसी529912के	सुबेदार	दलबीर सिंह रावत	01.08.2012
2006	जेसी530320एम	सुबेदार	दया किशन जोशी	01.04.2012
2007	जेसी530115एल	सुबेदार	दयानिधि महंता	01.08.2012
2008	जेसी528827पी	सुबेदार	धीरज सिंह	01.04.2012
2009	जेसी530514पी	सुबेदार	दिनेश चंद्रा सिंह	01.05.2012
2010	जेसी529942एफ	सुबेदार	गाबार सिंह	01.05.2012
2011	जेसी530039के	सुबेदार	गजे सिंह	01.07.2012
2012	जेसी530324एच	सुबेदार	गजेन्द्र सिंह	01.07.2012
2013	जेसी530183वाइ	सुबेदार	गजेन्द्र सिंह	01.04.2012
2014	जेसी530342एल	सुबेदार	गोपाल सिंह चौहान	01.06.2012
2015	जेसी530252के	सुबेदार	गुना नन्द	01.04.2012
2016	जेसी529689एल	सुबेदार	हंस राम	01.04.2012
2017	जेसी529774एन	सुबेदार	हरी सिंह नेगी	01.05.2012
2018	जेसी530018एन	सुबेदार	हीरा सिंह	01.07.2012
2019	जेसी530084डब्ल्यू	सुबेदार	ईमान सिंह	01.04.2012
2020	जेसी530385ए	सुबेदार	जगदीप सिंह रावत	01.08.2012
2021	जेसी530107एम	सुबेदार	जय सिंह	01.04.2012
2022	जेसी530043एम	सुबेदार	जयपाल सिंह	01.07.2012
2023	जेसी529873डब्ल्यू	सुबेदार	जसपाल सिंह	01.08.2012
2024	जेसी530406एल	सुबेदार	कलाम सिंह	01.05.2012
2025	जेसी529886एन	सुबेदार	कमला पाती	01.04.2012
2026	जेसी530438एन	सुबेदार	केशवा नन्द	01.07.2012
2027	जेसी530054वाइ	सुबेदार	कुलदीप कुमार	01.07.2012
2028	जेसी529685पी	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	01.04.2012
2029	जेसी530526के	सुबेदार	महाबीर सिंह	01.08.2012
2030	जेसी530117डब्ल्यू	सुबेदार	महीपाल सिंह	01.08.2012
2031	जेसी530298एम	सुबेदार	माकन सिंह	01.03.2012
2032	जेसी529941वाइ	सुबेदार	मनजीत सिंह	01.07.2012
2033	जेसी529641एक्स	सुबेदार	मानवर सिंह	01.07.2012
2034	जेसी529810एन	सुबेदार	मोती सिंह	01.02.2012
2035	जेसी529716के	सुबेदार	एम सिंह	01.05.2012
2036	जेसी530111पी	सुबेदार	पूरन सिंह	01.08.2012
2037	जेसी530056के	सुबेदार	प्रताप राम	01.08.2012
2038	जेसी529879एक्स	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.04.2012
2039	जेसी530148डब्ल्यू	सुबेदार	पूरन सिंह	01.02.2012
2040	जेसी529975एम	सुबेदार	पुशकर सिंह	01.04.2012
2041	जेसी530527एम	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.08.2012
2042	जेसी530214एन	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह राना	01.06.2012

2043	जेसी530017एल	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह रावत	01.05.2012
2044	जेसी530077ए	सुबेदार	राजेश सिंह	01.04.2012
2045	जेसी530265एफ	सुबेदार	राम दयाल सिंह	01.05.2012
2046	जेसी530114एच	सुबेदार	रमेश सिंह	01.04.2012
2047	जेसी530015ए	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.08.2012
2048	जेसी530253एम	सुबेदार	सरत सिंह नेगी	01.07.2012
2049	जेसी530070डब्ल्यू	सुबेदार	सते सिंह	01.08.2012
2050	जेसी530090के	सुबेदार	सतेंद्र सिंह	01.04.2012
2051	जेसी529944एम	सुबेदार	सतेष चंद्रा	01.06.2012
2052	जेसी530430एफ	सुबेदार	सत्ये सिंह	01.06.2012
2053	जेसी530423एल	सुबेदार	एस सिंह	01.08.2012
2054	जेसी529890डब्ल्यू	सुबेदार	शिव चरण	01.06.2012
2055	जेसी530093एक्स	सुबेदार	सोबन सिंह	01.08.2012
2056	जेसी530366पी	सुबेदार	सूदन सिंह	01.06.2012
2057	जेसी530094ए	सुबेदार	सुजान सिंह	01.08.2012
2058	जेसी529633वाइ	सुबेदार	सूरबीर सिंह	01.05.2012
2059	जेसी530488वाइ	सुबेदार	सुरेन्द्र सिंह	01.08.2012
2060	जेसी530026एम	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.03.2012
2061	जेसी530100एच	सुबेदार	तजबार सिंह	01.07.2012
2062	जेसी530036डब्ल्यू	सुबेदार	ताजवर सिंह	01.07.2012
2063	जेसी529924वाइ	सुबेदार	टेक चन्द	01.05.2012
2064	जेसी529798एक्स	सुबेदार	ठाकुर सिंह	01.02.2012
2065	जेसी530462के	सुबेदार	विक्रम सिंह	01.07.2012
2066	जेसी530200एन	सुबेदार	यशबीर सिंह	01.06.2012
2067	जेसी530417एक्स	सुबेदार	योगेन्द्रा सिंह नेगी	01.06.2012
2068	जेसी529925एफ	सुबेदार	युद्धवीर सिंह रावत	01.06.2012

**कुर्माँउ रेजीमेंट**

2069	जेसी539883एन	सुबेदार	अमर सिंह	01.08.2012
2070	जेसी539816एच	सुबेदार	अमर सिंह	01.08.2012
2071	जेसी540204एक्स	सुबेदार	आनंद पाल सिंह	01.02.2012
2072	जेसी539699एच	सुबेदार	अर्विन्द कुमार शर्मा	01.03.2012
2073	जेसी540281एम	सुबेदार	बच्चे राम	01.07.2012
2074	जेसी539601के	सुबेदार	बच्चे राम	01.04.2012
2075	जेसी540325वाइ	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.03.2012
2076	जेसी540059एल	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.05.2012
2077	जेसी540147एफ	सुबेदार	भूपाल सिंह बिष्ट	01.07.2012
2078	जेसी540273एन	सुबेदार	चंचल सिंह	01.03.2012
2079	जेसी539785एन	सुबेदार	चन्दन सिंह	01.04.2012
2080	जेसी539895एच	सुबेदार	चंद्र सिंह	01.08.2012

2081	जेसी539927ए	सुबेदार	धन सिंह	01.08.2012
2082	जेसी539827पी	सुबेदार	दिनेश सिंह सी	01.02.2012
2083	जेसी540373वाइ	सुबेदार	दीवान सिंह महारा	01.07.2012
2084	जेसी540608ए	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.07.2012
2085	जेसी540372डब्ल्यू	सुबेदार	गोपाल सिंह.	01.06.2012
2086	जेसी540341डब्ल्यू	सुबेदार	गोविंद सिंह	01.03.2012
2087	जेसी539558एन	सुबेदार	हरी नंदन	01.04.2012
2088	जेसी539652एक्स	सुबेदार	हरी सिंह	01.06.2012
2089	जेसी539770एल	सुबेदार	हरीश चंद्रा कापरी	01.08.2012
2090	जेसी539956पी	सुबेदार	हेम लाल साह	01.05.2012
2091	जेसी540240एच	सुबेदार	जसवंत सिंह	01.02.2012
2092	जेसी539749एच	सुबेदार	कैलाश चंद्रा	01.02.2012
2093	जेसी540359एम	सुबेदार	कमान सिंह	01.06.2012
2094	जेसी539928एच	सुबेदार	करन सिंह	01.06.2012
2095	जेसी539983वाइ	सुबेदार	केदार सिंह आर	01.07.2012
2096	जेसी540054एम	सुबेदार	केशर सिंह	01.04.2012
2097	जेसी539929एल	सुबेदार	खड़क सिंह एम	01.02.2012
2098	जेसी539691डब्ल्यू	सुबेदार	लाल चन्द यादव	01.07.2012
2099	जेसी540235एक्स	सुबेदार	लाल सिंह	01.08.2012
2100	जेसी540032एन	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	01.04.2012
2101	जेसी540228एफ	सुबेदार	नंदन सिंह	01.03.2012
2102	जेसी540218एक्स	सुबेदार	नारायण चन्द	01.04.2012
2103	जेसी540223एच	सुबेदार	नरेंद्र सिंह डी.	01.02.2012
2104	जेसी539704एच	सुबेदार	पृथ्वी. राज रौतेला	01.04.2012
2105	जेसी539566एम	सुबेदार	पूरन चंद्रा पांडे	01.03.2012
2106	जेसी539735एच	सुबेदार	राजेंद्र सिंह राना	01.04.2012
2107	जेसी540269एल	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.02.2012
2108	जेसी539854वाइ	सुबेदार	राम किशोर	01.06.2012
2109	जेसी539374पी	सुबेदार	राम सिंह	01.04.2012
2110	जेसी539524ए	सुबेदार	रमेश चंद्र जोशी	01.04.2012
2111	जेसी540270ए	सुबेदार	रमेश राम	01.02.2012
2112	जेसी540230वाइ	सुबेदार	रमेश सिंह	01.02.2012
2113	जेसी539713के	सुबेदार	शमशेर सिंह	01.05.2012
2114	जेसी540495एच	सुबेदार	शेर सिंह	01.06.2012
2115	जेसी539991एक्स	सुबेदार	श्याम सिंह रावत	01.06.2012
2116	जेसी539976एच	सुबेदार	श्री राम	01.04.2012
2117	जेसी539905एफ	सुबेदार	उम्मेद सिंह	01.08.2012
2118	जेसी539503के	सुबेदार	योगेंद्र सिंह के	01.04.2012

आसाम रेजीमेंट

2119	जेसी549401एफ	सुबेदार	आनंद राय	01.02.2012
2120	जेसी549546एम	सुबेदार	आन्नथ बंधु कोच	01.07.2012
2121	जेसी549397के	सुबेदार	असविनी कुमार देब बर्मा	01.02.2012
2122	जेसी549371पी	सुबेदार	अतुल सिन्हा	01.03.2012
2123	जेसी549273पी	सुबेदार	भीम बहादुर थापा	01.06.2012
2124	जेसी549423ए	सुबेदार	बीजू केआर दास	01.02.2012
2125	जेसी549220डब्ल्यू	सुबेदार	सी पैथे	01.03.2012
2126	जेसी548793एन	सुबेदार	सी हजोन्ग	01.07.2012
2127	जेसी549424एच	सुबेदार	देबा कांता कलिता	01.02.2012
2128	जेसी549028एम	सुबेदार	दीपक बोराह	01.03.2012
2129	जेसी549018एच	सुबेदार	दीपक च. ज्ञान	01.04.2012
2130	जेसी549434एम	सुबेदार	दुर्गा बहादुर थापा	01.03.2012
2131	जेसी549161पी	सुबेदार	गोना एच गंगटे	01.06.2012
2132	जेसी549436एक्स	सुबेदार	एच किपजेन	01.06.2012
2133	जेसी549561एफ	सुबेदार	हरेन बोरा	01.05.2012
2134	जेसी549447के	सुबेदार	हेम चंद्रा नाथ	01.02.2012
2135	जेसी549144पी	सुबेदार	हेम कुमार थापा	01.08.2012
2136	जेसी549486एच	सुबेदार	हेमा कांत बोरा	01.02.2012
2137	जेसी548921ए	सुबेदार	एच सिन्हा	01.06.2012
2138	जेसी549170डब्ल्यू	सुबेदार	इंद्र सिंह	01.04.2012
2139	जेसी549310एक्स	सुबेदार	जंगा बहादुर थापा	01.08.2012
2140	जेसी549355एक्स	सुबेदार	जीत बहादुर दारजी	01.06.2012
2141	जेसी549390ए	सुबेदार	काली दास सिंघा	01.04.2012
2142	जेसी549457एन	सुबेदार	के बसुमा	01.06.2012
2143	जेसी549143एम	सुबेदार	केदार भुजल	01.05.2012
2144	जेसी548734एफ	सुबेदार	खडगा बहादुर गुरंग	01.06.2012
2145	जेसी549432एफ	सुबेदार	कुमार मगर	30.01.2012
2146	जेसी549258ए	सुबेदार	के सिंघा	01.03.2012
2147	जेसी549055डब्ल्यू	सुबेदार	ललित अलेय	01.04.2012
2148	जेसी549251डब्ल्यू	सुबेदार	मुना चिरू	01.04.2012
2149	जेसी549287पी	सुबेदार	नंदा किशोर राजबोंगशी	01.06.2012
2150	जेसी549159एक्स	सुबेदार	ओ कुंज बाबू सिंघा	01.03.2012
2151	जेसी549133एच	सुबेदार	पी भट्टारिया	01.02.2012
2152	जेसी549559के	सुबेदार	राधा मोहन राजबोंगशी	01.06.2012
2153	जेसी549426एन	सुबेदार	राम बहादुर थापा	01.02.2012
2154	जेसी549481के	सुबेदार	राम बहादुर थापा	01.03.2012
2155	जेसी549279डब्ल्यू	सुबेदार	रंजीत दियोराराजा	01.03.2012
2156	जेसी549556डब्ल्यू	सुबेदार	पुसपालाल स	01.06.2012

2157	जेसी549126एम	सुबेदार	शाम शेर सिंह	01.04.2012
2158	जेसी549057एफ	सुबेदार	श्यामल चंद्रा पौल	01.06.2012
2159	जेसी549329डब्ल्यू	सुबेदार	सुधन चंद्रा देब बर्मा	01.02.2012
2160	जेसी549295एन	सुबेदार	टी एस लोथा	01.06.2012
2161	जेसी549202एन	सुबेदार	यू च. पतर	01.03.2012
2162	जेसी549038डब्ल्यू	सुबेदार	डब्ल्यू संगमा	01.03.2012
<b>बिहार रेजीमेंट</b>				
2163	जेसी559990डब्ल्यू	सुबेदार	अजय पांडे	01.07.2012
2164	जेसी559092एक्स	सुबेदार	अक्षय कुमार लेनका	01.07.2012
2165	जेसी559787ए	सुबेदार	अनिल कुमार	01.04.2012
2166	जेसी559421एच	सुबेदार	अनिल कुमार अनल	01.04.2012
2167	जेसी559959के	सुबेदार	अशोक कुमार	01.04.2012
2168	जेसी559572एफ	सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	01.02.2012
2169	जेसी559940एल	सुबेदार	अशोक कुमार सिन्हा	01.02.2012
2170	जेसी559711ए	सुबेदार	बी सिंह	01.05.2012
2171	जेसी559785पी	सुबेदार	बशिष्ट नारायण सिंह	01.05.2012
2172	जेसी559817एम	सुबेदार	बिजया कुमार सुबुधि	01.06.2012
2173	जेसी559484एल	सुबेदार	बिनय कुमार सिंह	01.04.2012
2174	जेसी559630ए	सुबेदार	बिरसा लोहरा	01.02.2012
2175	जेसी559463पी	सुबेदार	बिरूल के	01.03.2012
2176	जेसी559475के	सुबेदार	ब्रध्दयो प्रसाद	01.05.2012
2177	जेसी558324वाइ	सुबेदार	चक्रधर देवगम	01.04.2012
2178	जेसी559262डब्ल्यू	सुबेदार	चक्रधर मेहता	01.04.2012
2179	जेसी559670एफ	सुबेदार	चंद्रा शेखर सिंह	01.06.2012
2180	जेसी559730एल	सुबेदार	चंद्रिका यादव	01.04.2012
2181	जेसी559253पी	सुबेदार	दामू पूर्ति	01.06.2012
2182	जेसी559777डब्ल्यू	सुबेदार	डी. राय	01.02.2012
2183	जेसी559476एम	सुबेदार	दीना नाथ सिंह	01.04.2012
2184	जेसी559899ए	सुबेदार	दीप लकरा	01.08.2012
2185	जेसी559489के	सुबेदार	डोमैन एल	01.08.2012
2186	जेसी559242एच	सुबेदार	दुलार डंग डंग	01.06.2012
2187	जेसी559111एक्स	सुबेदार	हरे कृष्णा के	01.04.2012
2188	जेसी559715डब्ल्यू	सुबेदार	हेमन्त कुमार माझी	01.07.2012
2189	जेसी559733वाइ	सुबेदार	हीरा लाल	01.02.2012
2190	जेसी559483एच	सुबेदार	जय प्रकाश मेहता	01.04.2012
2191	जेसी559235एम	सुबेदार	जे मरांदी	01.08.2012
2192	जेसी559485एन	सुबेदार	जोगेंद्र प्रसाद	01.04.2012
2193	जेसी559440एन	सुबेदार	के डी. राव डोरा	01.07.2012
2194	जेसी559316एम	सुबेदार	कुर्णा चंद्रा नायक	01.04.2012

2195	जेसी559835पी	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	01.06.2012
2196	जेसी559226एल	सुबेदार	ललन सिंह	01.04.2012
2197	जेसी559446पी	सुबेदार	एल एकसालोक्सो	01.08.2012
2198	जेसी559356एन	सुबेदार	ललित कुमार किसपोत्ता	01.08.2012
2199	जेसी558946ए	सुबेदार	एल खेस	01.03.2012
2200	जेसी559588एम	सुबेदार	लोहरा तिकेई	01.05.2012
2201	जेसी558975पी	सुबेदार	महेन्द्र कुमार जी.	01.06.2012
2202	जेसी559577ए	सुबेदार	महेन्द्र पांडे	01.06.2012
2203	जेसी559855एच	सुबेदार	महेन्द्र सिंह	01.06.2012
2204	जेसी559355एल	सुबेदार	मनोज कुमार दीपक	01.02.2012
2205	जेसी559035डब्ल्यू	सुबेदार	मसीह बोदरा	01.03.2012
2206	जेसी559805एक्स	सुबेदार	मिथलेश कुमार सिंह	01.08.2012
2207	जेसी559368एच	सुबेदार	मोतीराम बारेक	01.07.2012
2208	जेसी559113एच	सुबेदार	नाबा किशोर जैना	01.04.2012
2209	जेसी559468एन	सुबेदार	नबीन प्रसाद	01.04.2012
2210	जेसी559836एक्स	सुबेदार	एन सिंह	01.06.2012
2211	जेसी558699एक्स	सुबेदार	पी जेड	01.08.2012
2212	जेसी559520एल	सुबेदार	राम कैलाश प्रसाद	01.04.2012
2213	जेसी559466एच	सुबेदार	राम के तिवारी	01.08.2012
2214	जेसी559600एच	सुबेदार	राम वाइ प्रसाद	01.05.2012
2215	जेसी559879एम	सुबेदार	रमेश चंद्रा उपाध्याय	01.07.2012
2216	जेसी559826एन	सुबेदार	रंजीत कुमार खल्खो	01.06.2012
2217	जेसी559510एफ	सुबेदार	रवीन्द्र प्रसाद शर्मा	01.04.2012
2218	जेसी559802के	सुबेदार	रोपना के	01.06.2012
2219	जेसी558948एल	सुबेदार	संदीप के	01.07.2012
2220	जेसी559597एन	सुबेदार	शत्रुधना साहू	01.07.2012
2221	जेसी559909वाइ	सुबेदार	शशि भूषण सिंह	01.06.2012
2222	जेसी559618वाइ	सुबेदार	शिवजी राय	01.05.2012
2223	जेसी559263वाइ	सुबेदार	श्रीराम हंसदा	01.08.2012
2224	जेसी559412एफ	सुबेदार	सुनील ओरान	01.05.2012
2225	जेसी559608पी	सुबेदार	तेज नारायण महतो	01.02.2012
2226	जेसी559642पी	सुबेदार	तुराम हेमब्रोम	01.03.2012
2227	जेसी559404एच	सुबेदार	उदय कुमार	01.04.2012
2228	जेसी558846पी	सुबेदार	उपाध्या प्रसाद सिंह	01.04.2012
2229	जेसी559933पी	सुबेदार	वशिषता मुनि पाठक	01.02.2012
2230	जेसी559681एन	सुबेदार	विजय कुमार प्रसाद	01.03.2012
2231	जेसी559895के	सुबेदार	विक्रमा राम	01.03.2012
2232	जेसी559582एल	सुबेदार	याकूब गुरिया	01.08.2012

महार रेजीमेंट

2233	जेसी569528एल	सुबेदार	अनंता कुमार प्रधान	01.02.2012
2234	जेसी569661के	सुबेदार	अरुण कुमार सिंह	01.03.2012
2235	जेसी569470वाइ	सुबेदार	अशोक कुमार	01.03.2012
2236	जेसी569779पी	सुबेदार	बाबू के	01.04.2012
2237	जेसी569690एच	सुबेदार	बाल किशन	01.07.2012
2238	जेसी569879ए	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.04.2012
2239	जेसी569301एक्स	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.06.2012
2240	जेसी569780के	सुबेदार	बी राम	01.04.2012
2241	जेसी569552एफ	सुबेदार	बलवान सिंह	01.03.2012
2242	जेसी569583एफ	सुबेदार	भरत सिंह	01.07.2012
2243	जेसी569480एच	सुबेदार	भीमराव पांडुरंग वाघमरे	01.06.2012
2244	जेसी569809एफ	सुबेदार	बिजेन्द्र सिंह	01.02.2012
2245	जेसी570045पी	सुबेदार	बी पाल	01.03.2012
2246	जेसी569487एम	सुबेदार	चौहान अर्विन्द कुमार रामु सिंह	01.05.2012
2247	जेसी569604एम	सुबेदार	चन्हाण अंकुश बाबूराव	01.03.2012
2248	जेसी569855एल	सुबेदार	चायन सिंह	01.03.2012
2249	जेसी569663वाइ	सुबेदार	डी. बालासाहेब जनार्दन	01.07.2012
2250	जेसी569758वाइ	सुबेदार	देवा राम चौधरी	01.03.2012
2251	जेसी569247पी	सुबेदार	धन देव	01.05.2012
2252	जेसी569643एल	सुबेदार	धर्मबीर	01.06.2012
2253	जेसी569974एम	सुबेदार	धर्मंदर कुमार	01.04.2012
2254	जेसी569276के	सुबेदार	गायकवाड गंगाधर तयिप्पा	01.04.2012
2255	जेसी569088एच	सुबेदार	गनेश श्रीराम जाधव	01.02.2012
2256	जेसी569734पी	सुबेदार	गिरधारी सिंह	01.03.2012
2257	जेसी569651के	सुबेदार	जी. सिंह	01.03.2012
2258	जेसी569990के	सुबेदार	गोविंद लक्ष्मन शिंदे	01.08.2012
2259	जेसी569755एल	सुबेदार	हनुमान सिंह चौहान	01.04.2012
2260	जेसी569874एफ	सुबेदार	हरी ओम शर्मा	01.04.2012
2261	जेसी569726डब्ल्यू	सुबेदार	हरीश कुमार	01.03.2012
2262	जेसी569687एच	सुबेदार	हजारी सिंह	01.03.2012
2263	जेसी569896ए	सुबेदार	जगदीश	01.06.2012
2264	जेसी569857एफ	सुबेदार	जयबीर सिंह	01.05.2012
2265	जेसी569475एक्स	सुबेदार	जनार्दन पुन्दलिकराव काम्बले	01.07.2012
2266	जेसी569725एन	सुबेदार	कमल कुमार यादव	01.02.2012
2267	जेसी569934एल	सुबेदार	कमलेश चंद्रा विश्वास	01.03.2012
2268	जेसी569716एम	सुबेदार	कमलेश बंसी लाल	01.04.2012
2269	जेसी569545एल	सुबेदार	कमलेश चंद्रा	01.02.2012
2270	जेसी570170के	सुबेदार	कारंदे सुभाष मारुति	01.08.2012



2271	जेसी569533डब्ल्यू	सुबेदार	करनैल सिंह	01.02.2012
2272	जेसी569968वाइ	सुबेदार	कष्णन पाल सिंह	01.06.2012
2273	जेसी569128वाइ	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.05.2012
2274	जेसी569620के	सुबेदार	कुलविन्दर सिंह	01.04.2012
2275	जेसी569972एफ	सुबेदार	कुमार कदम प्रकाश भीमराव	01.08.2012
2276	जेसी569941एफ	सुबेदार	कुमार एन	01.04.2012
2277	जेसी569818एच	सुबेदार	लाल मनी	01.04.2012
2278	जेसी569756एन	सुबेदार	लार्डेगे मधुकर जनार्दन राव	01.04.2012
2279	जेसी569193वाइ	सुबेदार	लॉडे मधुकर बाली	01.07.2012
2280	जेसी569263एम	सुबेदार	मथाई पी	01.04.2012
2281	जेसी569598के	सुबेदार	मथ्यू टी के	01.04.2012
2282	जेसी569765पी	सुबेदार	मिलिंद दोलत डी.	01.02.2012
2283	जेसी569752एक्स	सुबेदार	मोहन सिंह	01.03.2012
2284	जेसी569814एम	सुबेदार	मुख्त्यार सिंह	01.04.2012
2285	जेसी569803ए	सुबेदार	नारायण बेहेरा	01.02.2012
2286	जेसी569231के	सुबेदार	नरेश पाल	01.03.2012
2287	जेसी569778एम	सुबेदार	नाजरि हुसैन	01.03.2012
2288	जेसी569406एफ	सुबेदार	निकका राम	01.05.2012
2289	जेसी569207एन	सुबेदार	नूर मोहम्मद	01.07.2012
2290	जेसी569929ए	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.03.2012
2291	जेसी569776एफ	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.03.2012
2292	जेसी569821एच	सुबेदार	पटेल गिरीश कुमार एम भाई	01.06.2012
2293	जेसी569119एक्स	सुबेदार	पटेल सुरेश कुमार रविजी भाई	01.08.2012
2294	जेसी569615वाइ	सुबेदार	प्रफुल्ल कुमार बेहेरा	01.06.2012
2295	जेसी569636पी	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.03.2012
2296	जेसी569913पी	सुबेदार	पुरसोत्तम बिस्वाल	01.06.2012
2297	जेसी569935एन	सुबेदार	पुशकर सिंह	01.02.2012
2298	जेसी570050एल	सुबेदार	राज कुमार	01.03.2012
2299	जेसी569544एच	सुबेदार	राज पाल	01.04.2012
2300	जेसी569565वाइ	सुबेदार	राज पाल सिंह	01.04.2012
2301	जेसी569850एक्स	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.03.2012
2302	जेसी569125एल	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.04.2012
2303	जेसी569967डब्ल्यू	सुबेदार	राजिन्दर कुमार राठोर	01.06.2012
2304	जेसी569693डब्ल्यू	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.04.2012
2305	जेसी569893एम	सुबेदार	राम अवतार	01.06.2012
2306	जेसी570033एल	सुबेदार	राम चंद्रा सिंह	01.06.2012
2307	जेसी569500एल	सुबेदार	राम कुमार टी	01.07.2012
2308	जेसी569873वाइ	सुबेदार	राम राज	01.04.2012
2309	जेसी569354डब्ल्यू	सुबेदार	रामआधार नरोम टी	01.02.2012
2310	जेसी569798ए	सुबेदार	रामजी	01.04.2012

2311	जेसी569652एम	सुबेदार	रूप राम	01.07.2012
2312	जेसी569033वाइ	सुबेदार	रोशन लाल	01.06.2012
2313	जेसी569858के	सुबेदार	रोशन लाल	01.05.2012
2314	जेसी569143एन	सुबेदार	सांता बहादुर प्रधान	01.07.2012
2315	जेसी569782पी	सुबेदार	सरदुल सिंह	01.05.2012
2316	जेसी570030एक्स	सुबेदार	सतबीर सिंह	01.03.2012
2317	जेसी569452एन	सुबेदार	शिने पी मेथ्यू	01.03.2012
2318	जेसी569735एक्स	सुबेदार	शिशु पाल सिंह	01.03.2012
2319	जेसी569309के	सुबेदार	शिवदासन के एस	01.04.2012
2320	जेसी569571एम	सुबेदार	सुभाष चंद्रा	01.04.2012
2321	जेसी569675एन	सुबेदार	सुखवीर	01.04.2012
2322	जेसी569454एफ	सुबेदार	सुमंत कुमार नायक	01.04.2012
2323	जेसी569347ए	सुबेदार	सुमेर सिंह	01.04.2012
2324	जेसी569206एल	सुबेदार	एस के एस	01.02.2012
2325	जेसी569649एम	सुबेदार	सुरेन्द्रा नाथ नायक	01.05.2012
2326	जेसी569775वाइ	सुबेदार	सुरेश राम	01.02.2012
2327	जेसी569064वाइ	सुबेदार	सुरेश संताराम जी.	01.08.2012
2328	जेसी568703पी	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.03.2012
2329	जेसी569957एम	सुबेदार	तारा चन्द	01.03.2012
2330	जेसी569383एल	सुबेदार	तवैयद एम ए	01.08.2012
2331	जेसी569220एक्स	सुबेदार	थोकले मुरलीधर गोविंद	01.08.2012
2332	जेसी569910एफ	सुबेदार	त्रिनाथ परीद	01.06.2012
2333	जेसी569971वाइ	सुबेदार	विद्या भूषण	01.04.2012
2334	जेसी570060पी	सुबेदार	विरेंद्र सिंह	01.03.2012
2335	जेसी569369वाइ	सुबेदार	वाघमरे रघुनाथ एकनाथ	01.02.2012
2336	जेसी569237एल	सुबेदार	वानखडे एस गनपत	01.02.2012
2337	जेसी569872डब्ल्यू	सुबेदार	याद राम	01.04.2012

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

2338	जेसी580620के	सुबेदार	अरुण कुमार	01.05.2012
2339	जेसी580765पी	सुबेदार	अशोक कुमार	01.02.2012
2340	जेसी580774डब्ल्यू	सुबेदार	बाबू सिंह	01.08.2012
2341	जेसी579858एक्स	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.03.2012
2342	जेसी580554एम	सुबेदार	बनवारी लाल	01.02.2012
2343	जेसी579869के	सुबेदार	भूपेंद्र सिंह	01.02.2012
2344	जेसी580335एल	सुबेदार	बृज लाल	01.08.2012
2345	जेसी580557ए	सुबेदार	दलबीर सिंह	01.08.2012
2346	जेसी580143एन	सुबेदार	दलजीत सिंह	01.02.2012
2347	जेसी580172एच	सुबेदार	धर्म सिंह	01.05.2012
2348	जेसी579949एफ	सुबेदार	धर्मपाल शर्मा	01.04.2012

2349	जेसी580266एक्स	सुबेदार	दिलावर सिंह	01.05.2012
2350	जेसी579992एच	सुबेदार	गुलेर चन्द	01.08.2012
2351	जेसी580561एच	सुबेदार	गुरनाम सिंह	01.03.2012
2352	जेसी580429एच	सुबेदार	हरबंस सिंह	01.04.2012
2353	जेसी580264पी	सुबेदार	इंद्र सिंह	01.05.2012
2354	जेसी580421डब्ल्यू	सुबेदार	जगदीश राज	01.03.2012
2355	जेसी580231के	सुबेदार	जागीर सिंह	01.03.2012
2356	जेसी580075एल	सुबेदार	जय गोपाल	01.08.2012
2357	जेसी580508एक्स	सुबेदार	जय लाल	01.03.2012
2358	जेसी579650पी	सुबेदार	जय पाल	01.03.2012
2359	जेसी580197पी	सुबेदार	जंगू राम	01.03.2012
2360	जेसी580424के	सुबेदार	जिया लाल	01.02.2012
2361	जेसी580810डब्ल्यू	सुबेदार	कमल सिंह पुनिया	01.08.2012
2362	जेसी580085पी	सुबेदार	करन सिंह चरक	01.07.2012
2363	जेसी579888पी	सुबेदार	करनैल सिंह	01.06.2012
2364	जेसी580509ए	सुबेदार	केवल कष्णन	01.02.2012
2365	जेसी580159वाइ	सुबेदार	कुलदीप कुमार	01.03.2012
2366	जेसी580236एच	सुबेदार	कुसल सिंह	01.04.2012
2367	जेसी579980एन	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	01.06.2012
2368	जेसी580115एफ	सुबेदार	मनोहर लाल	01.08.2012
2369	जेसी580662डब्ल्यू	सुबेदार	मेहर चन्द	01.05.2012
2370	जेसी580112एन	सुबेदार	मोहन चन्द	01.08.2012
2371	जेसी580422वाइ	सुबेदार	मोहन लाल	01.03.2012
2372	जेसी580111एल	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.04.2012
2373	जेसी580459ए	सुबेदार	मुलख राज	01.02.2012
2374	जेसी580894पी	सुबेदार	मुल्ख राज	01.08.2012
2375	जेसी580549एफ	सुबेदार	नरिंदर पौल	01.05.2012
2376	जेसी579994एन	सुबेदार	निक्का राम	01.04.2012
2377	जेसी580764एम	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.02.2012
2378	जेसी580183पी	सुबेदार	ओंकार चन्द	01.03.2012
2379	जेसी580727वाइ	सुबेदार	पर्शातम कुमार	01.08.2012
2380	जेसी579935एफ	सुबेदार	पवन सिंह	01.03.2012
2381	जेसी579663एम	सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.06.2012
2382	जेसी580538पी	सुबेदार	राज कुमार	01.05.2012
2383	जेसी580204ए	सुबेदार	राज कुमार	01.03.2012
2384	जेसी579551एम	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.03.2012
2385	जेसी580009एच	सुबेदार	राम लाल शर्मा	01.02.2012
2386	जेसी580763के	सुबेदार	रनबीर चन्द	01.02.2012
2387	जेसी580351एच	सुबेदार	रणधीर सिंह पुनिया	01.06.2012
2388	जेसी580275एफ	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह	01.08.2012

2389	जेसी580409पी	सुबेदार	सतीश चन्द	01.02.2012
2390	जेसी580158डब्ल्यू	सुबेदार	शाम लाल	01.03.2012
2391	जेसी580447एल	सुबेदार	शमशेर सिंह	01.03.2012
2392	जेसी580582वाइ	सुबेदार	शेर बहादुर थापा	01.03.2012
2393	जेसी579972पी	सुबेदार	सुबाष चंद्र	01.03.2012
2394	जेसी580314पी	सुबेदार	स्वामी राम	01.02.2012
2395	जेसी579654एल	सुबेदार	टेक सिंह	01.04.2012
2396	जेसी580131वाइ	सुबेदार	तिलक राज	01.03.2012
2397	जेसी579889एक्स	सुबेदार	वीरेंद्र पाल	01.07.2012
2398	जेसी580809एफ	सुबेदार	यशपाल सिंह	01.08.2012
2399	जेसी580300पी	सुबेदार	योग राज	01.02.2012

लधदाख स्काउट

2400	जेसी588191एच	सुबेदार	क्षेवांग दोर्जे	01.08.2012
2401	जेसी588236एक्स	सुबेदार	क्षेवांग नुरुबु	01.03.2012
2402	जेसी588160एच	सुबेदार	क्षेवांग एस	01.05.2012
2403	जेसी588206ए	सुबेदार	दोर्जे नमगैल	01.04.2012
2404	जेसी588282एम	सुबेदार	नवंग रिगजिन	01.04.2012
2405	जेसी588233के	सुबेदार	पारस राम	01.03.2012
2406	जेसी588400पी	सुबेदार	फुनचोक अंगचौक	01.03.2012
2407	जेसी588306एल	सुबेदार	फुनचोक अंगचौक	01.08.2012
2408	जेसी588238एच	सुबेदार	फुनचोक दोर्जे	01.03.2012
2409	जेसी588093एच	सुबेदार	राम पुकार सिंह	01.04.2012
2410	जेसी588113एल	सुबेदार	शाम सिंह जामवाल	01.07.2012
2411	जेसी588314के	सुबेदार	सोनम नुरुबु	01.03.2012
2412	जेसी588173ए	सुबेदार	सोनम सतोबगियास	01.08.2012
2413	जेसी588251एम	सुबेदार	स्टनजिन टी	01.04.2012
2414	जेसी588112एच	सुबेदार	उमेश्वर सिंह	01.05.2012

नागा रेजीमेंट

2415	जेसी590151ए	सुबेदार	अदानी माओ	01.03.2012
2416	जेसी590146पी	सुबेदार	अरीयुबा	01.04.2012
2417	जेसी590201ए	सुबेदार	भीम बहादुर गुरंग	01.03.2012
2418	जेसी590166एच	सुबेदार	बिसुई	01.04.2012
2419	जेसी590189ए	सुबेदार	चतुर बहादुर थापा	01.02.2012
2420	जेसी590157एफ	सुबेदार	के अतीसू	01.03.2012
2421	जेसी539894ए	सुबेदार	मनोहर सिंह	01.04.2012
2422	जेसी590175के	सुबेदार	नव नीत कुमार थापा	01.04.2012
2423	जेसी590159एम	सुबेदार	एस थांगल	01.03.2012
2424	जेसी590199एन	सुबेदार	तेज बहादुर छत्री	01.02.2012

2425	जेसी539724डब्ल्यू	सुबेदार	तेज सिंह काकी	01.06.2012
2426	जेसी590191एफ	सुबेदार	यंगरलेम्बा	01.06.2012
<u>जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल सेना</u>				
2427	जेसी593047एक्स	सुबेदार	अशोक कुमार	01.08.2012
2428	जेसी593362एन	सुबेदार	बोध राज	01.06.2012
2429	जेसी593056वाइ	सुबेदार	दलीप सिंह	01.08.2012
2430	जेसी592855एच	सुबेदार	ध्यान सिंह	01.05.2012
2431	जेसी593215एल	सुबेदार	जी एच नबी मीर	01.06.2012
2432	जेसी593384एम	सुबेदार	हरी कष्णन कोतवाल	01.08.2012
2433	जेसी592829एफ	सुबेदार	जगजीत सिंह	01.05.2012
2434	जेसी593184डब्ल्यू	सुबेदार	जसवंत सिंह	01.02.2012
2435	जेसी593300एन	सुबेदार	काली दास	01.07.2012
2436	जेसी593366के	सुबेदार	करन सिंह	01.08.2012
2437	जेसी593146ए	सुबेदार	कार्म सिंह	01.08.2012
2438	जेसी592901एम	सुबेदार	केवल कष्णन	01.07.2012
2439	जेसी593196एल	सुबेदार	खलील अहमद	01.07.2012
2440	जेसी592873एल	सुबेदार	मदन लाल	01.08.2012
2441	जेसी593147एच	सुबेदार	मोहम्मद फारूक	01.07.2012
2442	जेसी593517एक्स	सुबेदार	नरिंदर कुमार	01.07.2012
2443	जेसी593420एम	सुबेदार	नाज्रि हुसैन	01.06.2012
2444	जेसी593204वाइ	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.08.2012
2445	जेसी593510एन	सुबेदार	पूरन किशोर	01.05.2012
2446	जेसी593319एम	सुबेदार	राज कुमार	01.02.2012
2447	जेसी593038डब्ल्यू	सुबेदार	राजिन्दर कुमार	01.08.2012
2448	जेसी593430डब्ल्यू	सुबेदार	राम पौल	01.04.2012
2449	जेसी592816के	सुबेदार	रवीन्द्र राम	01.05.2012
2450	जेसी593603एच	सुबेदार	एस खान	01.07.2012
<u>1 गोरखा राईफल्स</u>				
2451	जेसी602666पी	सुबेदार	चरण सिंह	01.02.2012
2452	जेसी602588एच	सुबेदार	दिल बहादुर थापा	01.05.2012
2453	जेसी602637ए	सुबेदार	हर्शा बहादुर गुरंग	01.08.2012
2454	जेसी602767एच	सुबेदार	हेम बहादुर गुरंग	01.03.2012
2455	जेसी602701एम	सुबेदार	हीरा बहादुर राना	01.08.2012
2456	जेसी602629एफ	सुबेदार	जय बहादुर थापा	01.08.2012
2457	जेसी602593एन	सुबेदार	के श्रेष्ठा	01.06.2012
2458	जेसी602636एक्स	सुबेदार	खडगा बहादुर थापा	01.04.2012
2459	जेसी602565एफ	सुबेदार	कृष्णा बहादुर थापा	01.04.2012
2460	जेसी602571पी	सुबेदार	कृष्णा बहादुर पुन	01.06.2012

2461	जेसी602559एन	सुबेदार	लाल चन श्रेष्ठा	01.06.2012
2462	जेसी602664के	सुबेदार	लक्ष्मन थापा	01.07.2012
2463	जेसी602692डब्ल्यू	सुबेदार	मोम बहादुर थापा	01.04.2012
2464	जेसी602641एच	सुबेदार	पदम बहादुर थापा	01.07.2012
2465	जेसी602627डब्ल्यू	सुबेदार	प्रीत लाल बुराथोकी	01.02.2012
2466	जेसी602665एम	सुबेदार	पूर्णा बहादुर बुधाथोकी	01.07.2012
2467	जेसी602738एन	सुबेदार	पुस्पा बहादुर गुरंग	01.03.2012
2468	जेसी602533वाइ	सुबेदार	राम बहादुर थापा	01.08.2012
2469	जेसी602693वाइ	सुबेदार	राना बहादुर घले	01.06.2012
2470	जेसी602716पी	सुबेदार	सांता राम गुरंग	01.02.2012
2471	जेसी602497वाइ	सुबेदार	सुदाम कुमार प्रधान	01.08.2012
2472	जेसी602594डब्ल्यू	सुबेदार	तारा बहादुर थापा	01.02.2012
2473	जेसी602561एल	सुबेदार	टेक बहादुर दराई गुरंग	01.04.2012
2474	जेसी602585पी	सुबेदार	टेक लाल गुरंग	01.05.2012
2475	जेसी602686एच	सुबेदार	तोल प्रसाद राना	01.08.2012
2476	जेसी602631वाइ	सुबेदार	याम बहादुर थापा	01.08.2012

### 3 गोरखा राईफल्स

2477	जेसी607588एम	सुबेदार	अनंता बहादुर थापा	01.07.2012
2478	जेसी607559एक्स	सुबेदार	अनूप कुमार राना	01.05.2012
2479	जेसी607679डब्ल्यू	सुबेदार	बज्रा बहादुर थापा	01.05.2012
2480	जेसी607698एफ	सुबेदार	बिमल कुमार रोका	01.08.2012
2481	जेसी607494पी	सुबेदार	चंद्रा बहादुर थापा	01.02.2012
2482	जेसी607689ए	सुबेदार	दिल बहादुर पुन	01.02.2012
2483	जेसी607595एच	सुबेदार	दुर्गा बहादुर राना	01.02.2012
2484	जेसी607575पी	सुबेदार	हिम बहादुर गुरंग	01.05.2012
2485	जेसी607574एम	सुबेदार	इशोर प्रसाद गुरंग	01.04.2012
2486	जेसी607522डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णा प्रसाद गुरंग	01.06.2012
2487	जेसी607709एच	सुबेदार	लोक बहादुर गुरंग	01.08.2012
2488	जेसी607542एच	सुबेदार	मोहम्मद अहसान	01.02.2012
2489	जेसी607678एन	सुबेदार	मुक्ता बहादुर थापा	01.05.2012
2490	जेसी607577ए	सुबेदार	पूर्णा बहादुर गुरंग	01.06.2012
2491	जेसी607521एन	सुबेदार	राम बहादुर थापा	01.03.2012
2492	जेसी607361वाइ	सुबेदार	राम पी पाल	01.07.2012
2493	जेसी607576एक्स	सुबेदार	श्री बहादुर राना	01.06.2012

### 4 गोरखा राईफल्स

2494	जेसी612530वाइ	सुबेदार	ऐश बहादुर थापा	01.08.2012
2495	जेसी612524एल	सुबेदार	बीर बहादुर गुरंग	01.06.2012
2496	जेसी612695एक्स	सुबेदार	देव राज गुरंग	01.08.2012

2497	जेसी612538एल	सुबेदार	दिल बहादुर राना	01.07.2012
2498	जेसी612608वाइ	सुबेदार	हरी बहादुर गुरंग	01.02.2012
2499	जेसी612680पी	सुबेदार	कमल ठाकुर	01.07.2012
2500	जेसी612483एम	सुबेदार	कृष्णा बहादुर गुरंग	01.02.2012
2501	जेसी612517पी	सुबेदार	नंदा बहादुर थापा	01.07.2012
2502	जेसी612557डब्ल्यू	सुबेदार	निर बहादुर छत्री	01.07.2012
2503	जेसी612698एल	सुबेदार	राम बहादुर थापा	01.08.2012
2504	जेसी612562एफ	सुबेदार	राम बहादुर थापा	01.06.2012
2505	जेसी612531एफ	सुबेदार	रवीन्द्र गुरंग	01.08.2012
2506	जेसी612613के	सुबेदार	श्रवण कुमार	01.03.2012
2507	जेसी612414डब्ल्यू	सुबेदार	तोप बहादुर गुरंग	01.06.2012
2508	जेसी612621एच	सुबेदार	उमा शंकर भारती	01.04.2012

**5 गोरखा राईफल्स**

2509	जेसी617785एच	सुबेदार	बिश्नु बहादुर थापा	01.08.2012
2510	जेसी617646वाइ	सुबेदार	एफएटी बहादुर चन्थयाल	01.05.2012
2511	जेसी617681एफ	सुबेदार	घान बहादुर गुरंग	01.06.2012
2512	जेसी617697एम	सुबेदार	हीरा लाल थापा	01.08.2012
2513	जेसी617649एम	सुबेदार	केश बहादुर थापा	01.03.2012
2514	जेसी617713वाइ	सुबेदार	कृष्णा बहादुर गुरंग	01.03.2012
2515	जेसी617419वाइ	सुबेदार	मोहिन्दर पाल	01.04.2012
2516	जेसी617682के	सुबेदार	पिरथी बहादुर पुन	01.07.2012
2517	जेसी617670पी	सुबेदार	प्रेम बहादुर गरबुजा	01.04.2012
2518	जेसी617552एफ	सुबेदार	तेज बहादुर थापा	01.05.2012
2519	जेसी617725एन	सुबेदार	तिल प्रसाद गुरंग	01.05.2012
2520	जेसी617404डब्ल्यू	सुबेदार	याम बहादुर गुरंग	01.03.2012
2521	जेसी617632वाइ	सुबेदार	युव राज गुरंग	01.07.2012

**8 गोरखा राईफल्स**

2522	जेसी623580के	सुबेदार	बीर बहादुर पुन	01.08.2012
2523	जेसी623586एल	सुबेदार	छिज कुमार गुरंग	01.02.2012
2524	जेसी623680पी	सुबेदार	हरी घिमीर	01.07.2012
2525	जेसी623592वाइ	सुबेदार	खुम बहादुर थापा	01.04.2012
2526	जेसी623636पी	सुबेदार	मैता सिंह गुरंग	01.05.2012
2527	जेसी623467पी	सुबेदार	मनोज कोटनाला	01.07.2012
2528	जेसी623630के	सुबेदार	पेहल सिंह अले	01.03.2012
2529	जेसी623626एफ	सुबेदार	टुल बहादुर थापा	01.04.2012

**9 गोरखा राईफल्स**

2530	जेसी629681एन	सुबेदार	अर्जुन बहादुर खादका	01.05.2012
------	--------------	---------	---------------------	------------

2531	जेसी629724एक्स	सुबेदार	भरत बहादुर भंडारी	01.06.2012
2532	जेसी629747वाइ	सुबेदार	भीम बहादुर छत्री	01.05.2012
2533	जेसी629749के	सुबेदार	भीम बहादुर थापा	01.06.2012
2534	जेसी629781वाइ	सुबेदार	भीम सेन थापा	01.06.2012
2535	जेसी629684एफ	सुबेदार	भूवन सिंह छत्री	01.02.2012
2536	जेसी629675ए	सुबेदार	चित्रा बहादुर छत्री	01.07.2012
2537	जेसी629689ए	सुबेदार	दान बहादुर काकी	01.04.2012
2538	जेसी629760एच	सुबेदार	धुरबा छत्री	01.06.2012
2539	जेसी629815एफ	सुबेदार	दिलीप छत्री	01.07.2012
2540	जेसी629764वाइ	सुबेदार	इमान सिंह थापा	01.06.2012
2541	जेसी629732डब्ल्यू	सुबेदार	गजेन्द्र बहादुर खत्री छत्री	01.07.2012
2542	जेसी629561पी	सुबेदार	हरी बहादुर थापा	01.08.2012
2543	जेसी629780डब्ल्यू	सुबेदार	हेम राज भंडारी	01.02.2012
2544	जेसी629574एम	सुबेदार	हीरा बहादुर घरती चेतरी	01.05.2012
2545	जेसी629735के	सुबेदार	इन्द्रा बहादुर बसनत	01.08.2012
2546	जेसी629615एल	सुबेदार	जगत बहादुर माहात	01.02.2012
2547	जेसी629733वाइ	सुबेदार	जतिंद्र बाम मल्ला	01.02.2012
2548	जेसी629804एफ	सुबेदार	कमल धोज मल्ला	01.07.2012
2549	जेसी629761एल	सुबेदार	खेम बहादुर केसी	01.03.2012
2550	जेसी629805एक्स	सुबेदार	खिम बहादुर ठाकुरी	01.07.2012
2551	जेसी629746डब्ल्यू	सुबेदार	किशन बहादुर शाही	01.03.2012
2552	जेसी629349एक्स	सुबेदार	लाल बहादुर थापा	01.05.2012
2553	जेसी629664एन	सुबेदार	मोहन बहादुर साही, एसएम	01.05.2012
2554	जेसी629626एक्स	सुबेदार	पदम बहादुर खत्री	01.08.2012
2555	जेसी629650एन	सुबेदार	प्रेम बहादुर घरती छत्री	01.06.2012
2556	जेसी629580ए	सुबेदार	प्रेम बहादुर साही	01.03.2012
2557	जेसी629774एच	सुबेदार	राम बहादुर छत्री	01.03.2012
2558	जेसी629772एक्स	सुबेदार	आर बहादुर खादका	01.06.2012
2559	जेसी629667एफ	सुबेदार	रुद्रा बहादुर छत्री	01.04.2012
2560	जेसी629783के	सुबेदार	शम्भू बहादुर छत्री	01.08.2012
2561	जेसी629468एन	सुबेदार	शोबित बहादुर खादका	01.02.2012
2562	जेसी629782एफ	सुबेदार	थमन धोज खंड	01.07.2012
2563	जेसी629594ए	सुबेदार	तिका राम थापा	01.04.2012
2564	जेसी629765एफ	सुबेदार	तिलक मल्ला	01.06.2012
2565	जेसी629687एफ	सुबेदार	तिलक राम रोका छत्री	01.05.2012
2566	जेसी629816के	सुबेदार	टी बहादुर मल्ला	01.07.2012
2567	जेसी629708ए	सुबेदार	याम बहादुर खत्री	01.03.2012

#### 11 गोरखा राईफल्स

2568	जेसी634601पी	सुबेदार	भरत मान राय	01.08.2012
------	--------------	---------	-------------	------------



2569	जेसी634650एक्स	सुबेदार	भोज कुमार राय	01.05.2012
2570	जेसी634784डब्ल्यू	सुबेदार	बीर बहादुर तमंग	01.05.2012
2571	जेसी634770डब्ल्यू	सुबेदार	चंद्रा बहादुर राय	01.08.2012
2572	जेसी634764एच	सुबेदार	गंगा बहादुर लिम्बू	01.08.2012
2573	जेसी634723वाइ	सुबेदार	गोपाल लिम्बू	01.06.2012
2574	जेसी634753डब्ल्यू	सुबेदार	हरीश प्रधान	01.07.2012
2575	जेसी634730पी	सुबेदार	कमल कुमार राय	01.08.2012
2576	जेसी634607डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णा बहादुर प्रधान	01.08.2012
2577	जेसी634615पी	सुबेदार	कुल बहादुर छत्री	01.06.2012
2578	जेसी634649एच	सुबेदार	मान बहादुर राय	01.05.2012
2579	जेसी634696ए	सुबेदार	नबीन राय	01.04.2012
2580	जेसी634741एफ	सुबेदार	पसांग तमंग	01.05.2012
2581	जेसी634671एन	सुबेदार	राम प्रसाद राय	01.08.2012
2582	जेसी634736डब्ल्यू	सुबेदार	ऋतु राज राय	01.04.2012
2583	जेसी634212पी	सुबेदार	एस लिम्बू	01.08.2012
2584	जेसी634228ए	सुबेदार	शमशेर सिंह	01.08.2012
2585	जेसी634790के	सुबेदार	टेक बहादुर लिम्बू	01.07.2012
2586	जेसी634701ए	सुबेदार	टी कुमार श्रेष्ठा	01.08.2012
2587	जेसी634545एफ	सुबेदार	दुल बहादुर लिम्बू	01.06.2012
2588	जेसी634272के	सुबेदार	योगेंद्र	01.06.2012
<u>सेना सेवा कोर दक्षिण</u>				

2589	जेसी642500डब्ल्यू	सुबेदार	अभे चरण मंडल	01.07.2012
2590	जेसी642807एफ	सुबेदार	अभे नाथ सिंह यादव	01.08.2012
2591	जेसी6647110डब्ल्यू	सुबेदार	अभी राम घोष	01.02.2012
2592	जेसी642506एक्स	सुबेदार	आदित्य कुमार वर्मा	01.07.2012
2593	जेसी641355एक्स	सुबेदार	ए सिंह	01.04.2012
2594	जेसी642259पी	सुबेदार	अजय बहादुर	01.07.2012
2595	जेसी664208एफ	सुबेदार	अखिलेश कुमार सिंह	01.07.2012
2596	जेसी643053के	सुबेदार	अमर सिंह	01.03.2012
2597	जेसी642070एक्स	सुबेदार	अमर सिंह	01.02.2012
2598	जेसी665186ए	सुबेदार	ए सब्बीर एल	01.04.2012
2599	जेसी642822डब्ल्यू	सुबेदार	अमृत लाल	01.07.2012
2600	जेसी642376ए	सुबेदार	अनूप सिंह दहिया	01.04.2012
2601	जेसी643018एफ	सुबेदार	अर्जुन सिंह	01.03.2012
2602	जेसी643169ए	सुबेदार	ए लाल	01.04.2012
2603	जेसी641353एम	सुबेदार	अशोक कुमार	01.07.2012
2604	जेसी664316एल	सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	01.04.2012
2605	जेसी642298एन	सुबेदार	असीम कुमार भादुरी	01.03.2012
2606	जेसी642380एच	सुबेदार	अशोकन एस	01.03.2012

2607	जेसी663279डब्ल्यू	सुबेदार	अवध किशोर	01.08.2012
2608	जेसी663152एन	सुबेदार	बाबू लाल	01.05.2012
2609	जेसी663259एच	सुबेदार	बच्चू सिंह	01.07.2012
2610	जेसी642806वाइ	सुबेदार	बदारी नाथ यादव	01.07.2012
2611	जेसी663054एन	सुबेदार	बैज नाथ सिंह यादव	01.07.2012
2612	जेसी662868ए	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.06.2012
2613	जेसी664502एफ	सुबेदार	बलदेव सिंह	01.02.2012
2614	जेसी641779एन	सुबेदार	बलदेव सिंह	01.03.2012
2615	जेसी664404एफ	सुबेदार	बाली राम	01.04.2012
2616	जेसी641884के	सुबेदार	बलवीर सिंह	01.03.2012
2617	जेसी663732एच	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.04.2012
2618	जेसी642677के	सुबेदार	बलविन्दर सिंह शिवकंद	01.02.2012
2619	जेसी664266एल	सुबेदार	बनबारी लाल	01.03.2012
2620	जेसी641924ए	सुबेदार	बेंद्रे शिवलिंग पांडुरंग	01.06.2012
2621	जेसी641733एल	सुबेदार	भाग सिंह	01.05.2012
2622	जेसी642875पी	सुबेदार	भगत सिंह बिष्ट	01.02.2012
2623	जेसी642346एच	सुबेदार	भैरब दत्त भट्ट	01.03.2012
2624	जेसी664777पी	सुबेदार	भास्कर नन्द	01.07.2012
2625	जेसी643017वाइ	सुबेदार	भोला राम चौधरी	01.03.2012
2626	जेसी642172एन	सुबेदार	भूरा राम चोपड़ा	01.05.2012
2627	जेसी642065एम	सुबेदार	भुवनेश्वर सामंत	01.06.2012
2628	जेसी642301एच	सुबेदार	बिमल कुमार राय	01.07.2012
2629	जेसी643107ए	सुबेदार	बिनय कृष्णा प्रजापति	01.03.2012
2630	जेसी663246एल	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह	01.07.2012
2631	जेसी643067के	सुबेदार	बोध राज डोगरा	01.03.2012
2632	जेसी664310के	सुबेदार	भूपति के	01.08.2012
2633	जेसी664220एच	सुबेदार	बृज नंदन सिंह	01.04.2012
2634	जेसी662988वाइ	सुबेदार	बृज नाथ	01.07.2012
2635	जेसी641881डब्ल्यू	सुबेदार	चक्रधर बोराह	01.02.2012
2636	जेसी469943एक्स	सुबेदार	चंद्र पाल सिंह	01.08.2012
2637	जेसी642460ए	सुबेदार	चंद्रा भूषण प्रसाद	01.04.2012
2638	जेसी663153डब्ल्यू	सुबेदार	चंद्रा चरण के	01.05.2012
2639	जेसी663947एफ	सुबेदार	चंद्रा नाथ	01.08.2012
2640	जेसी642676एफ	सुबेदार	चंद्रा शाखर जोशी	01.08.2012
2641	जेसी663860ए	सुबेदार	चान्द्राकान्त कुमार	01.08.2012
2642	जेसी642300ए	सुबेदार	दलीप सिंह चौहान	01.04.2012
2643	जेसी663707के	सुबेदार	दाना पाती मंडल	01.07.2012
2644	जेसी643112एल	सुबेदार	दया कृष्णा भट्ट	01.02.2012
2645	जेसी642745एम	सुबेदार	दयानन्द	01.08.2012
2646	जेसी663819के	सुबेदार	दीप चन्द	01.03.2012

2647	जेसी641577एम	सुबेदार	देश राज सिंह	01.06.2012
2648	जेसी663603एच	सुबेदार	देव मुनि पाल यादव	01.08.2012
2649	जेसी664999के	सुबेदार	देवेंदर कुमार सिंह	01.04.2012
2650	जेसी663256पी	सुबेदार	धर्म सिंह	01.06.2012
2651	जेसी642386के	सुबेदार	धर्मवीर सिंह	01.02.2012
2652	जेसी642199एल	सुबेदार	धर्म राज सिंह	01.03.2012
2653	जेसी642063एफ	सुबेदार	दिगम्बर सिंह	01.04.2012
2654	जेसी642804एन	सुबेदार	दिलीप कुमार सिंह	01.03.2012
2655	जेसी643167पी	सुबेदार	दिनेश चंद्रा दुबे	01.04.2012
2656	जेसी643061एच	सुबेदार	दिवाकरण एस	01.03.2012
2657	जेसी643016डब्ल्यू	सुबेदार	डूंगर सिंह	01.03.2012
2658	जेसी663250एन	सुबेदार	द्वारिका सिंह	01.06.2012
2659	जेसी665602वाइ	सुबेदार	दवीपन	01.07.2012
2660	जेसी664265एच	सुबेदार	फैजुर रहमान लश्कर	01.03.2012
2661	जेसी663889एच	सुबेदार	जी. सुन्दरा राजन	01.03.2012
2662	जेसी663263एल	सुबेदार	गजेन्द्र सिंह	01.07.2012
2663	जेसी640805एक्स	सुबेदार	गंगाधरन पी	01.03.2012
2664	जेसी664252एल	सुबेदार	गौतम सिंह	01.08.2012
2665	जेसी642455पी	सुबेदार	ज्ञान चन्द	01.06.2012
2666	जेसी642503के	सुबेदार	गोपाल साह	01.07.2012
2667	जेसी663442एल	सुबेदार	जी. प्रसाद	01.05.2012
2668	जेसी641701एम	सुबेदार	गुरमेल सिंह	01.07.2012
2669	जेसी664126वाइ	सुबेदार	गुर्विन्दर सिंह	01.02.2012
2670	जेसी663464के	सुबेदार	जी. नारायना	01.08.2012
2671	जेसी641450के	सुबेदार	ज्ञान बहादुर सिंह	01.04.2012
2672	जेसी642730के	सुबेदार	हकीम सिंह चौहान	01.08.2012
2673	जेसी663757पी	सुबेदार	हंस राज	01.03.2012
2674	जेसी642671एच	सुबेदार	हरी पाडा दास	01.07.2012
2675	जेसी663155एफ	सुबेदार	हरी राम	01.06.2012
2676	जेसी642833एच	सुबेदार	हरी राम	01.02.2012
2677	जेसी641784वाइ	सुबेदार	हरी सिंह	01.08.2012
2678	जेसी663251डब्ल्यू	सुबेदार	हरीश चंद्रा मिश्रा	01.04.2012
2679	जेसी642502एफ	सुबेदार	हेमंत कुमार सिंह	01.07.2012
2680	जेसी663868एम	सुबेदार	होरेन्द्रा सिंघा	01.08.2012
2681	जेसी662871ए	सुबेदार	आइ वेंकट राव	01.03.2012
2682	जेसी643242एन	सुबेदार	आइ दीन	01.06.2012
2683	जेसी643143एल	सुबेदार	इसाक टी एम	01.07.2012
2684	जेसी641768एफ	सुबेदार	जगत बहादुर	01.04.2012
2685	जेसी642028वाइ	सुबेदार	जगदीश चंद्रा	01.04.2012
2686	जेसी663878डब्ल्यू	सुबेदार	जय भगवान	01.03.2012

2687	जेसी642347एल	सुबेदार	जय प्रकाश त्रिपाठी	04.04.2012
2688	जेसी663184डब्ल्यू	सुबेदार	जंग बहादुर सिंह	01.06.2012
2689	जेसी641350वाइ	सुबेदार	जवाहर सिंह कुल्हाड़ी	01.03.2012
2690	जेसी664778एक्स	सुबेदार	जय प्रकाश	01.08.2012
2691	जेसी663266वाइ	सुबेदार	जितेन्द्रा कुमार मिश्रा	01.04.2012
2692	जेसी663656एफ	सुबेदार	जिउत सिंह यादव	01.07.2012
2693	जेसी664320एन	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.06.2012
2694	जेसी663838पी	सुबेदार	के वेंकटेश्वर राव	01.08.2012
2695	जेसी641243एक्स	सुबेदार	के दत्तत्रे खुशाल राव	01.07.2012
2696	जेसी663281एन	सुबेदार	खेम बहादुर छेत्री	01.08.2012
2697	जेसी663069डब्ल्यू	सुबेदार	खिमा नन्द जोशी	01.04.2012
2698	जेसी664290एफ	सुबेदार	खुमान सिंह	01.05.2012
2699	जेसी663721डब्ल्यू	सुबेदार	के विथल जनाबा	01.07.2012
2700	जेसी642507ए	सुबेदार	के सिंह तोमर	01.07.2012
2701	जेसी642851एल	सुबेदार	किशन सिंह तनवर	01.02.2012
2702	जेसी641740एफ	सुबेदार	कष्णन लाल पुरी	01.05.2012
2703	जेसी643063एन	सुबेदार	कृष्णा मोहन शुक्ला	01.03.2012
2704	जेसी663073वाइ	सुबेदार	कुलदीप कुमार शर्मा	01.06.2012
2705	जेसी663739एम	सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.03.2012
2706	जेसी663631पी	सुबेदार	कुलदीप सिंह चरक	01.07.2012
2707	जेसी642189एफ	सुबेदार	कुलविन्द्र सिंह	01.05.2012
2708	जेसी641939एच	सुबेदार	लाभ सिंह	01.06.2012
2709	जेसी663636एन	सुबेदार	लखविन्दर सिंह	01.07.2012
2710	जेसी664405के	सुबेदार	लक्ष्मी कांता सिन्हा	01.03.2012
2711	जेसी642290एफ	सुबेदार	लक्ष्मी प्रसाद	01.05.2012
2712	जेसी663225पी	सुबेदार	मदन मोहन सिंह	01.05.2012
2713	जेसी664257के	सुबेदार	मधुसूदन गरई	01.05.2012
2714	जेसी643015एन	सुबेदार	मधुसूदन मोहंती	01.03.2012
2715	जेसी642674डब्ल्यू	सुबेदार	महाबीर	01.07.2012
2716	जेसी642514डब्ल्यू	सुबेदार	महादेव थापा	01.02.2012
2717	जेसी663304के	सुबेदार	महावीर प्रसाद	01.05.2012
2718	जेसी641732एच	सुबेदार	महावीर प्रसाद	01.07.2012
2719	जेसी664931एच	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.03.2012
2720	जेसी641728ए	सुबेदार	महेश प्रसाद सिन्हा	01.06.2012
2721	जेसी642252एन	सुबेदार	महेश सिंह	01.04.2012
2722	जेसी642351एन	सुबेदार	माली राम योगी	01.04.2012
2723	जेसी6633833डब्ल्यू	सुबेदार	एम एस	01.08.2012
2724	जेसी663317एफ	सुबेदार	माम चन्द	01.06.2012
2725	जेसी663324एक्स	सुबेदार	माने मोहन बेहेरा	01.07.2012
2726	जेसी641816डब्ल्यू	सुबेदार	मंगल सिंह भादौरिया	01.04.2012

2727	जेसी643003वाइ	सुबेदार	मानिक लाल साहा	01.03.2012
2728	जेसी664256एफ	सुबेदार	मनोरंजन दास	01.05.2012
2729	जेसी642093वाइ	सुबेदार	मोहम्मद अब्दुर आर	01.07.2012
2730	जेसी664595एफ	सुबेदार	मोहम्मद अफसर अली सरदार	01.03.2012
2731	जेसी663855पी	सुबेदार	मोहम्मद एस	01.05.2012
2732	जेसी642667ए	सुबेदार	एम तिवारी	01.07.2012
2733	जेसी643150एफ	सुबेदार	मोहन महतो	01.02.2012
2734	जेसी641746एच	सुबेदार	मोहाना दास	01.07.2012
2735	जेसी664578एफ	सुबेदार	मुरली आर	01.03.2012
2736	जेसी663303एफ	सुबेदार	मुरली धर शर्मा	01.05.2012
2737	जेसी663233एन	सुबेदार	नगेन्द्रा दुबे	01.05.2012
2738	जेसी643019के	सुबेदार	नंदन सिंह एम	01.03.2012
2739	जेसी662999एल	सुबेदार	नारायणन बी टी	01.04.2012
2740	जेसी663252वाइ	सुबेदार	नरेन्द्रा मोहन साहू	01.03.2012
2741	जेसी663937एक्स	सुबेदार	नरेश कुमार	01.08.2012
2742	जेसी664355के	सुबेदार	नरेश कुमार यादव	01.04.2012
2743	जेसी642288के	सुबेदार	नेत राम	01.02.2012
2744	जेसी664580वाइ	सुबेदार	निमासे शिवाजी बाबू राव	01.05.2012
2745	जेसी663939एच	सुबेदार	निशी कांता सिन्हा	01.05.2012
2746	जेसी643241एल	सुबेदार	ओमन पी टी	01.02.2012
2747	जेसी643175एन	सुबेदार	पी बाबू	01.04.2012
2748	जेसी664770एल	सुबेदार	पाले राम	01.04.2012
2749	जेसी664926एक्स	सुबेदार	पी सतीश प्रभाकर	01.04.2012
2750	जेसी642731एम	सुबेदार	पूनम सिंह	01.03.2012
2751	जेसी663392एल	सुबेदार	प्रभाकरण पिल्लई के	01.07.2012
2752	जेसी662984एच	सुबेदार	प्रकाश पात्रा	01.06.2012
2753	जेसी663254के	सुबेदार	प्रमोद कुमार सिंह	01.07.2012
2754	जेसी663346डब्ल्यू	सुबेदार	पी कुमार नायक	01.07.2012
2755	जेसी664640एच	सुबेदार	प्रथुला नंदा सरकार	01.07.2012
2756	जेसी663461डब्ल्यू	सुबेदार	प्रेम चन्द	01.04.2012
2757	जेसी664415एन	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.03.2012
2758	जेसी663668डब्ल्यू	सुबेदार	पुतुल एस	01.05.2012
2759	जेसी642675वाइ	सुबेदार	प्यारे लाल डोगरा	01.08.2012
2760	जेसी663257एक्स	सुबेदार	रबीन्द्र कुमार चंपाती	01.07.2012
2761	जेसी664454एम	सुबेदार	राधा बालव	01.03.2012
2762	जेसी664410पी	सुबेदार	राधिका आरएन गोस्वामी	01.03.2012
2763	जेसी641495के	सुबेदार	राज भवन मिश्रा	01.05.2012
2764	जेसी663075के	सुबेदार	राज कसन	01.05.2012
2765	जेसी642239एफ	सुबेदार	राज करन मिश्रा	01.02.2012
2766	जेसी641351एफ	सुबेदार	राज कुमार	01.07.2012

2767	जेसी642743एफ	सुबेदार	राज कुमार	01.07.2012
2768	जेसी663400वाइ	सुबेदार	राज कुमार मुद्गिल	01.07.2012
2769	जेसी643110ए	सुबेदार	राज कुमार सिंह	01.03.2012
2770	जेसी642297एल	सुबेदार	राज पाल सिंह	01.07.2012
2771	जेसी663247एन	सुबेदार	राजेंद्रा सदासिव बागे	01.04.2012
2772	जेसी643111एच	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.03.2012
2773	जेसी663817वाइ	सुबेदार	राजेश्वर यादव	01.07.2012
2774	जेसी641963वाइ	सुबेदार	राजिन्दर पाल सिंह	01.03.2012
2775	जेसी642176के	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.07.2012
2776	जेसी643054एम	सुबेदार	राजू टी एस	01.03.2012
2777	जेसी642379एन	सुबेदार	राकेश कुमार	01.03.2012
2778	जेसी663308ए	सुबेदार	राम चंद्र	01.08.2012
2779	जेसी641684एन	सुबेदार	राम इंद्र शर्मा	01.03.2012
2780	जेसी663687एफ	सुबेदार	राम जनम यादव	01.07.2012
2781	जेसी642661वाइ	सुबेदार	राम कुमार	01.02.2012
2782	जेसी642651पी	सुबेदार	राम महेश	01.07.2012
2783	जेसी664472पी	सुबेदार	राम मूर्ती सिंह यादव	01.02.2012
2784	जेसी641544एफ	सुबेदार	राम नरेश पांडे	01.07.2012
2785	जेसी663306पी	सुबेदार	राम निवास	01.07.2012
2786	जेसी663161पी	सुबेदार	राम निवास यादव	01.06.2012
2787	जेसी642081के	सुबेदार	राम प्रशाद	01.02.2012
2788	जेसी663334एफ	सुबेदार	राम सागर	01.06.2012
2789	जेसी642493एल	सुबेदार	राम सिंह एस	01.06.2012
2790	जेसी663590डब्ल्यू	सुबेदार	रमा चंद्रन के के	01.05.2012
2791	जेसी641808ए	सुबेदार	रामबीर	01.03.2012
2792	जेसी663318के	सुबेदार	रामबीर	01.07.2012
2793	जेसी643173एच	सुबेदार	रामबीर सिंह	01.04.2012
2794	जेसी664675वाइ	सुबेदार	रमेश	01.03.2012
2795	जेसी642737एन	सुबेदार	रमेश चन्द	01.07.2012
2796	जेसी643129वाइ	सुबेदार	रमेश चन्द राना	01.04.2012
2797	जेसी663866एफ	सुबेदार	रमेश कुमार	01.05.2012
2798	जेसी641966एम	सुबेदार	रमेश कुमार	01.06.2012
2799	जेसी663249वाइ	सुबेदार	रामेश्वर	01.07.2012
2800	जेसी664146एम	सुबेदार	रामेश्वर दयाल यादव	01.07.2012
2801	जेसी664029एफ	सुबेदार	रामवीर सिंह	01.02.2012
2802	जेसी642510ए	सुबेदार	रणधीर सिंह	01.04.2012
2803	जेसी641778एल	सुबेदार	रणधीर सिंह	01.03.2012
2804	जेसी663071एन	सुबेदार	रंगील सिंह ददवाल	01.04.2012
2805	जेसी664428एल	सुबेदार	रत्नेश सिंह	01.05.2012
2806	जेसी642501वाइ	सुबेदार	रतन वीर	01.07.2012

2807	जेसी643009ए	सुबेदार	राय सिंह	01.05.2012
2808	जेसी643168एक्स	सुबेदार	रोहिताश्व कुमार यादव	01.04.2012
2809	जेसी663454ए	सुबेदार	रोमेश चंद्र	01.06.2012
2810	जेसी663322एम	सुबेदार	रूप लाल	01.03.2012
2811	जेसी664769डब्ल्यू	सुबेदार	रुद्रा प्रताप सिंह	01.06.2012
2812	जेसी664655एल	सुबेदार	रूप चन्द	01.08.2012
2813	जेसी663260एक्स	सुबेदार	एस बगवथी	01.07.2012
2814	जेसी664668एच	सुबेदार	एस घोष	01.05.2012
2815	जेसी663943एल	सुबेदार	साजन नियाज अहमद कमल साहेब	01.02.2012
2816	जेसी642494एन	सुबेदार	सलीम बेग	01.06.2012
2817	जेसी664996डब्ल्यू	सुबेदार	सनल कुमार पी	01.06.2012
2818	जेसी662991वाइ	सुबेदार	संग्राम यादव	01.07.2012
2819	जेसी642645एफ	सुबेदार	संतोष कुमार	01.07.2012
2820	जेसी642316एल	सुबेदार	संतोष कुमार कटोच	01.05.2012
2821	जेसी643237एच	सुबेदार	सांवर मल सैनी	01.02.2012
2822	जेसी642187डब्ल्यू	सुबेदार	सांवर मल सैनी	01.04.2012
2823	जेसी664450डब्ल्यू	सुबेदार	शबेश्वर लेनका	01.04.2012
2824	जेसी641381वाइ	सुबेदार	सरजीत सिंह	01.06.2012
2825	जेसी663325ए	सुबेदार	सतीश कुमार राना	01.07.2012
2826	जेसी663740एफ	सुबेदार	सतवीर सिंह	01.05.2012
2827	जेसी642646के	सुबेदार	शंकर दान चरण	01.07.2012
2828	जेसी643176डब्ल्यू	सुबेदार	शान्ति प्रसाद नैटियाल	01.04.2012
2829	जेसी641964एफ	सुबेदार	शारदा बक्श सिंह	01.03.2012
2830	जेसी663621एल	सुबेदार	श्याम सुंदर	01.08.2012
2831	जेसी641958एन	सुबेदार	शिंदे सुधाकर रंगराओ	01.04.2012
2832	जेसी664984एफ	सुबेदार	शिव कुमार सिंह	01.06.2012
2833	जेसी641575एफ	सुबेदार	शिव शंकर सिंह यादव	01.07.2012
2834	जेसी663012एफ	सुबेदार	शिवाजी लक्ष्मन चव्हाण	01.05.2012
2835	जेसी663272एम	सुबेदार	श्री कष्णन वर्मा	01.07.2012
2836	जेसी663638वाइ	सुबेदार	श्री प्रसाद यादव	01.04.2012
2837	जेसी663271के	सुबेदार	श्रीधर ए वी आचार्य	01.06.2012
2838	जेसी664193के	सुबेदार	श्रीधर राय	01.04.2012
2839	जेसी663452पी	सुबेदार	श्रीकांत	01.03.2012
2840	जेसी664632के	सुबेदार	श्रीरंग विठल घोड़े	01.07.2012
2841	जेसी663674के	सुबेदार	श्यामा सुन्दरा बी जी.	01.02.2012
2842	जेसी663513एफ	सुबेदार	सोबरन सिंह	01.08.2012
2843	जेसी662870एक्स	सुबेदार	एस सिंह जामवाल	01.03.2012
2844	जेसी641928डब्ल्यू	सुबेदार	सोमपाल सिंह	01.07.2012
2845	जेसी663347वाइ	सुबेदार	श्रीनिवास राव सी	01.08.2012
2846	जेसी643141ए	सुबेदार	सुबाष चंद्र चंदेल	01.03.2012

2847	जेसी664702एक्स	सुबेदार	सुबाष चंद्रा विश्वास	01.02.2012
2848	जेसी663038डब्ल्यू	सुबेदार	सुभ राम	01.04.2012
2849	जेसी642678एम	सुबेदार	सुभाष चन्द	01.08.2012
2850	जेसी641477एफ	सुबेदार	सुभाष चन्द	01.06.2012
2851	जेसी642508एच	सुबेदार	सुभाष चंद्र	01.07.2012
2852	जेसी664579के	सुबेदार	सुदर्शन प्रसाद यादव	01.04.2012
2853	जेसी642450डब्ल्यू	सुबेदार	सुदर्शन सिंह	01.03.2012
2854	जेसी642842के	सुबेदार	सुजीत कुमार सामंत	01.08.2012
2855	जेसी663214एच	सुबेदार	सुख देव पतियल	01.04.2012
2856	जेसी663932वाइ	सुबेदार	सुख देव राज	01.05.2012
2857	जेसी663032पी	सुबेदार	सुंदर लाल	01.06.2012
2858	जेसी642551के	सुबेदार	सुनील कुमार चतुर्वेदी	01.04.2012
2859	जेसी664988एक्स	सुबेदार	सुनीत कुमार राना	01.04.2012
2860	जेसी642644वाइ	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.07.2012
2861	जेसी641753वाइ	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह यादव	01.04.2012
2862	जेसी642017एम	सुबेदार	सुरेश सी एस	01.03.2012
2863	जेसी663041डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेश वी	01.06.2012
2864	जेसी643243डब्ल्यू	सुबेदार	सुशील कुमार	01.03.2012
2865	जेसी642039एल	सुबेदार	स्वामी मल्लईया एस	01.04.2012
2866	जेसी663681ए	सुबेदार	स्वप्न विश्वास	01.05.2012
2867	जेसी643157एल	सुबेदार	टी हासन	01.04.2012
2868	जेसी642358एक्स	सुबेदार	तरुण बेनरजी	01.08.2012
2869	जेसी642338के	सुबेदार	यू लक्ष्मीनारायण	01.03.2012
2870	जेसी663592एफ	सुबेदार	यूएम राव	01.05.2012
2871	जेसी663262एच	सुबेदार	उमा शंकर वर्मा	01.07.2012
2872	जेसी663212एकए	सुबेदार	उमेद सिंह	01.07.2012
2873	जेसी641683एल	सुबेदार	उमेश प्रसाद सिंह	01.08.2012
2874	जेसी642511एच	सुबेदार	यू सिंह	01.07.2012
2875	जेसी664158एफ	सुबेदार	वकील प्रसाद	01.07.2012
2876	जेसी664779ए	सुबेदार	वासुदेवन पी	01.08.2012
2877	जेसी642498के	सुबेदार	वेद प्रकाश	01.07.2012
2878	जेसी642457ए	सुबेदार	वेद प्रकाश	01.05.2012
2879	जेसी664483एफ	सुबेदार	वेनु गोपालन टी	01.05.2012
2880	जेसी664353वाइ	सुबेदार	विजय बहादुर सिंह	01.04.2012
2881	जेसी664589एन	सुबेदार	विजय कुमार	01.08.2012
2882	जेसी642426ए	सुबेदार	विनया मोहन शुक्ला	01.05.2012
2883	जेसी642372के	सुबेदार	विनोद कुमार	01.06.2012
2884	जेसी665251पी	सुबेदार	विनोद कुमार वर्मा	01.05.2012
2885	जेसी642352डब्ल्यू	सुबेदार	विनोद कुमार यादव	01.05.2012
2886	जेसी641457एन	सुबेदार	विरेंद्र सिंह	01.03.2012



2887	जेसी663284एफ	सुबेदार	विश्वनाथन के	01.05.2012
2888	जेसी664479वाइ	सुबेदार	विश्वानाथन के	01.08.2012
2889	जेसी643062एल	सुबेदार	वाइ लक्ष्मी नारायना	01.03.2012
<u>सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन</u>				
2890	जेसी680845एफ	रिसालदार	आदेश कुमार	01.04.2012
2891	जेसी680893एफ	रिसालदार	अमर पाल	01.07.2012
2892	जेसी680846के	रिसालदार	अरुण कुमार रौय	01.06.2012
2893	जेसी680966एच	रिसालदार	आशा राम	01.05.2012
2894	जेसी680958के	रिसालदार	बलविन्दर सिंह	01.02.2012
2895	जेसी680789एन	रिसालदार	भोला राम	01.04.2012
2896	जेसी680812डब्ल्यू	रिसालदार	बी ठाकुर	01.06.2012
2897	जेसी680787एच	रिसालदार	बृज बिहारी सिंह	01.04.2012
2898	जेसी680782के	रिसालदार	दर्शन सिंह	01.04.2012
2899	जेसी680959एम	रिसालदार	गुरचरण सिंह	01.02.2012
2900	जेसी680778एफ	रिसालदार	इंद्र देव राम	01.04.2012
2901	जेसी680952एच	रिसालदार	इंगले अशोक अप्पा	01.02.2012
2902	जेसी680937एन	रिसालदार	जग मोहन	01.05.2012
2903	जेसी680776डब्ल्यू	रिसालदार	जगत सिंह	01.04.2012
2904	जेसी680863के	रिसालदार	कोमल सिंह	01.07.2012
2905	जेसी680957एफ	रिसालदार	कुलदीप सिंह	01.02.2012
2906	जेसी680831एफ	रिसालदार	एम हेरांज	01.04.2012
2907	जेसी680805ए	रिसालदार	मोलाली ए देसे	01.06.2012
2908	जेसी680874डब्ल्यू	रिसालदार	निहाल सिंह	01.04.2012
2909	जेसी680997एच	रिसालदार	निमाइ चकर्बती	01.04.2012
2910	जेसी680814एफ	रिसालदार	निरंजन साह	01.07.2012
2911	जेसी680779के	रिसालदार	प्रहलाद मीना	01.04.2012
2912	जेसी680793डब्ल्यू	रिसालदार	प्रताप लाल	01.05.2012
2913	जेसी680911वाइ	रिसालदार	प्रवाकर पात्रा	01.04.2012
2914	जेसी680804एक्स	रिसालदार	रघुवंश प्रसाद मिश्रा	01.05.2012
2915	जेसी680799एक्स	रिसालदार	राजपाल	01.05.2012
2916	जेसी680962एम	रिसालदार	राम चंद्र यादव	01.05.2012
2917	जेसी680817पी	रिसालदार	राम कृत राम	01.08.2012
2918	जेसी680816एम	रिसालदार	राम कुमार चौबे	01.07.2012
2919	जेसी680815के	रिसालदार	राम पाल	01.07.2012
2920	जेसी680953एल	रिसालदार	राम प्रकाश	01.07.2012
2921	जेसी680965ए	रिसालदार	सहदेव सिंह	01.04.2012
2922	जेसी680721एम	रिसालदार	संथू साह	01.04.2012
2923	जेसी680777वाइ	रिसालदार	एस सिंह	01.04.2012
2924	जेसी680822ए	रिसालदार	शंकर लाल मीना	01.08.2012

2925	जेसी680872एल	रिसालदार	शिव पाल जायसवाल	01.04.2012
2926	जेसी680996ए	रिसालदार	सुखविंदर सिंह	01.04.2012
<u>सेना चिकित्सा कोर</u>				
2927	जेसी695378एम	सुबेदार	अभी राम मोहाप	01.07.2012
2928	जेसी693673डब्ल्यू	सुबेदार	ए नन्द	01.03.2012
2929	जेसी692550एक्स	सुबेदार	अमर सिंह	01.02.2012
2930	जेसी695916पी	सुबेदार	अरुण आचार्य	01.03.2012
2931	जेसी694181के	सुबेदार	बाल मुकुंद सिंह	01.06.2012
2932	जेसी695283एम	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.05.2012
2933	जेसी161078डब्ल्यू	सुबेदार	भगत राम शर्मा	01.03.2012
2934	जेसी693246ए	सुबेदार	भास्कर आर	01.04.2012
2935	जेसी696191एम	सुबेदार	भूपेंद्र सिंह	01.04.2012
2936	जेसी695870एक्स	सुबेदार	बिर्जेन्द्र सिंह	01.04.2012
2937	जेसी693365डब्ल्यू	सुबेदार	ब्रम पाल सिंह	01.03.2012
2938	जेसी693867वाइ	सुबेदार	बृज लाल	01.04.2012
2939	जेसी696163ए	सुबेदार	दिनेश राय	01.05.2012
2940	जेसी695232वाइ	सुबेदार	गोपाल दत्त	01.05.2012
2941	जेसी696448एम	सुबेदार	गोविंद सिंह बिरोरिया	01.06.2012
2942	जेसी695749के	सुबेदार	हनुमान	01.03.2012
2943	जेसी694380एक्स	सुबेदार	हरी किशन	01.03.2012
2944	जेसी695874एन	सुबेदार	जयवीर	01.05.2012
2945	जेसी692474डब्ल्यू	सुबेदार	जोथी दासन डी.	01.03.2012
2946	जेसी695305ए	सुबेदार	किशोर चंद्रा नायक	01.07.2012
2947	जेसी695222पी	सुबेदार	कृष्णापा शंकर दीक्षित	01.04.2012
2948	जेसी695562एक्स	सुबेदार	कृष्णा कुरुप एम आर	01.04.2012
2949	जेसी693638एन	सुबेदार	लक्षमन सिंह	01.04.2012
2950	जेसी693808एम	सुबेदार	लाल चन्द	01.08.2012
2951	जेसी695404एच	सुबेदार	लाल धर राम	01.03.2012
2952	जेसी696641वाइ	सुबेदार	लाल आर	01.03.2012
2953	जेसी693235एन	सुबेदार	ललता प्रसाद	01.03.2012
2954	जेसी695287एच	सुबेदार	मोती सिंह	01.06.2012
2955	जेसी695385एच	सुबेदार	नागराज एम	01.02.2012
2956	जेसी695171एन	सुबेदार	नन्द सिंह	01.07.2012
2957	जेसी696142के	सुबेदार	प्रहलाद प्रसाद सिंह	01.06.2012
2958	जेसी694805एल	सुबेदार	प्रसन्ना कुमार स्वेन	01.08.2012
2959	जेसी694379एच	सुबेदार	प्रीतम चन्द	01.06.2012
2960	जेसी692971ए	सुबेदार	राधा कृष्णन एन	01.02.2012
2961	जेसी695320पी	सुबेदार	राधा कृष्णन नायर के पी	01.07.2012
2962	जेसी693650पी	सुबेदार	राज कंवर	01.04.2012

2963	जेसी695624एम	सुबेदार	राज नारायण राय	01.07.2012
2964	जेसी695280वाइ	सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद सिंह	01.07.2012
2965	जेसी692651एल	सुबेदार	राजू कुट्टी पी आइ	01.06.2012
2966	जेसी696159एक्स	सुबेदार	राम बाबू सिंह	01.05.2012
2967	जेसी692642के	सुबेदार	राम कुमार	01.06.2012
2968	जेसी161074ए	सुबेदार	राम नरेश दीक्षित	01.06.2012
2969	जेसी696056वाइ	सुबेदार	राम निवास	01.04.2012
2970	जेसी695178डब्ल्यू	सुबेदार	राम सिंह	01.03.2012
2971	जेसी695904ए	सुबेदार	रमेश कंवर	01.04.2012
2972	जेसी693868एफ	सुबेदार	सत प्रकाश फोगट	01.05.2012
2973	जेसी695240एक्स	सुबेदार	सत्यवान	01.07.2012
2974	जेसी692932एफ	सुबेदार	सीबा राम मिश्रा	01.03.2012
2975	जेसी695459एम	सुबेदार	सिद्ध नाथ पासवान	01.07.2012
2976	जेसी696150एच	सुबेदार	स्टेलिन कुमार पी	01.04.2012
2977	जेसी695931के	सुबेदार	सुभाष चंद्रा	01.04.2012
2978	जेसी694292एफ	सुबेदार	एस कुमार परीद	01.04.2012
2979	जेसी696438एच	सुबेदार	सुख प्रकाश	01.04.2012
2980	जेसी693427एल	सुबेदार	सुल्तान सिंह	01.04.2012
2981	जेसी695939डब्ल्यू	सुबेदार	सुरजीत बोरोदोलइ	01.04.2012
2982	जेसी695220के	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	01.04.2012
2983	जेसी694332एक्स	सुबेदार	सुरेन्द्रा राम	01.05.2012
2984	जेसी695486डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.04.2012
2985	जेसी695270पी	सुबेदार	सुरेश चन्द	01.03.2012
2986	जेसी695318एक्स	सुबेदार	सुरेश चंद्रा	01.06.2012
2987	जेसी696196एल	सुबेदार	सुरेश चंद्रा सिंह	01.04.2012
2988	जेसी693802एल	सुबेदार	सुरेश सिंह	01.03.2012
2989	जेसी695161एच	सुबेदार	थामस कुट्टी के	01.04.2012
2990	जेसी695872एच	सुबेदार	टी हज़ारिका	01.04.2012
2991	जेसी694873वाइ	सुबेदार	वकील राय	01.07.2012
2992	जेसी692969एच	सुबेदार	वीरा बी टी	01.02.2012
2993	जेसी693122एल	सुबेदार	विजय बहादुर तिवारी	01.02.2012
2994	जेसी694027एल	सुबेदार	विजय कुमार सिंह	01.07.2012
2995	जेसी694782एफ	सुबेदार	विजय लाल	01.06.2012
2996	जेसी693922के	सुबेदार	विजयाधरन एन	01.08.2012
2997	जेसी696106वाइ	सुबेदार	विक्रमन एन	01.02.2012
2998	जेसी695163एन	सुबेदार	विमल कुमार	01.06.2012
2999	जेसी141978वाइ	सुबेदार	विनोद कुमार गौड़	01.07.2012
3000	जेसी695349एक्स	सुबेदार	विनोद कुमार पांडे	01.07.2012

सेना आयुध कोर

3001	जेसी726229एच	सुबेदार	अजय कुमार पांडे	01.06.2012
3002	जेसी727717एक्स	सुबेदार	अजीत कुमार दास	01.04.2012
3003	जेसी726415वाइ	सुबेदार	अकोल्कर उत्तातम गंगाधर राव	01.07.2012
3004	जेसी724163वाइ	सुबेदार	अमर सिंह	01.06.2012
3005	जेसी727704ए	सुबेदार	आनंद कुमार	01.07.2012
3006	जेसी726412एल	सुबेदार	अनिल कुमार	01.07.2012
3007	जेसी726925ए	सुबेदार	अनिल कुमार जायसवाल	01.04.2012
3008	जेसी726186वाइ	सुबेदार	अनिल कुमार सक्सेना	01.02.2012
3009	जेसी725853पी	सुबेदार	अरविंद कुमार शर्मा	01.05.2012
3010	जेसी727202एक्स	सुबेदार	अर्जुन कुमार	01.06.2012
3011	जेसी726734एल	सुबेदार	अतर सिंह	01.05.2012
3012	जेसी725488वाइ	सुबेदार	बाल कृष्णा पाल	01.05.2012
3013	जेसी726731एक्स	सुबेदार	बालू सिंह	01.04.2012
3014	जेसी726387एक्स	सुबेदार	बलवान सिंह	01.04.2012
3015	जेसी727086ए	सुबेदार	भानु प्रताप	01.04.2012
3016	जेसी726176पी	सुबेदार	भूपाल सिंह	01.05.2012
3017	जेसी726779एल	सुबेदार	बिप्रा चरण स्वेन	01.06.2012
3018	जेसी725349पी	सुबेदार	बिरेन्द्र सिंह यादव	01.05.2012
3019	जेसी726351वाइ	सुबेदार	बिरेन्द्रा कुमार सागर	01.04.2012
3020	जेसी726110वाइ	सुबेदार	बिश्व नाथ प्रसाद	01.02.2012
3021	जेसी726197एल	सुबेदार	चन्द बुखारी एम	01.06.2012
3022	जेसी726795एच	सुबेदार	चन्द्रामा कुशवाहा	01.07.2012
3023	जेसी726167एन	सुबेदार	दलजीत सिंह	01.02.2012
3024	जेसी727609एन	सुबेदार	दया शंकर	01.03.2012
3025	जेसी726603ए	सुबेदार	धर्मवीर सिंह	01.02.2012
3026	जेसी726398के	सुबेदार	दुलार राम	01.07.2012
3027	जेसी727640ए	सुबेदार	एफ जी. भाई गानू भाई	01.06.2012
3028	जेसी726658के	सुबेदार	जी. एलुमलाई	01.07.2012
3029	जेसी727203ए	सुबेदार	गनेश चंद्रा नाथ	01.06.2012
3030	जेसी726249डब्ल्यू	सुबेदार	घान श्याम विद्यार्थी	01.06.2012
3031	जेसी726130एम	सुबेदार	गिरधारी सिंह	01.03.2012
3032	जेसी726196एच	सुबेदार	गिरीश चंद्रा त्रिपाठी	01.06.2012
3033	जेसी726163एक्स	सुबेदार	गोपाल सिंह शेखावत	01.03.2012
3034	जेसी726216एल	सुबेदार	जी. यादव	01.06.2012
3035	जेसी726623एन	सुबेदार	हरदेव गन्वार	01.07.2012
3036	जेसी726122एन	सुबेदार	हरिहर समानत्रे	01.03.2012
3037	जेसी726127एम	सुबेदार	हीरा लाल यादव	01.02.2012
3038	जेसी726208एम	सुबेदार	एच सिंह बिष्ट	01.08.2012

3039	जेसी724735पी	सुबेदार	इश्वर सिंह	01.08.2012
3040	जेसी724974के	सुबेदार	जगपाल सिंह	01.08.2012
3041	जेसी726472ए	सुबेदार	जगरूप सिंह	01.08.2012
3042	जेसी726755एफ	सुबेदार	जसभिन्दर सिंह	01.05.2012
3043	जेसी726131पी	सुबेदार	जसवंत सिंह	01.03.2012
3044	जेसी727029वाइ	सुबेदार	जोसफ देवासिया	01.02.2012
3045	जेसी726560डब्ल्यू	सुबेदार	जयदेव एस	01.03.2012
3046	जेसी726399एम	सुबेदार	काम्बले प्रकाश शिवराम	01.07.2012
3047	जेसी726968पी	सुबेदार	कर्म सिंह	01.08.2012
3048	जेसी726410ए	सुबेदार	केशब चंद्रा बराल	01.07.2012
3049	जेसी726250एल	सुबेदार	खिमा नन्द पंचोली	01.07.2012
3050	जेसी726189एम	सुबेदार	खुशी राम	01.05.2012
3051	जेसी726659एम	सुबेदार	किशोरी लाल	01.03.2012
3052	जेसी726336के	सुबेदार	कृष्णा नन्द कापरी	01.04.2012
3053	जेसी726566एक्स	सुबेदार	लाल सिंह	01.06.2012
3054	जेसी727042एच	सुबेदार	ललता प्रसाद	01.04.2012
3055	जेसी726504एक्स	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.06.2012
3056	जेसी726168डब्ल्यू	सुबेदार	महेश प्रसाद साह	01.04.2012
3057	जेसी726800एच	सुबेदार	मनीर	01.04.2012
3058	जेसी726789पी	सुबेदार	मीर सिंह जाट	01.06.2012
3059	जेसी726172वाइ	सुबेदार	मोहन लाल	01.05.2012
3060	जेसी726713पी	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.08.2012
3061	जेसी726077एम	सुबेदार	मूल राज बी	01.02.2012
3062	जेसी726446वाइ	सुबेदार	नगिन्दर सिंह	01.07.2012
3063	जेसी726571एच	सुबेदार	नानी गौपाल सिंघा	01.07.2012
3064	जेसी726417के	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.08.2012
3065	जेसी726804वाइ	सुबेदार	ओम प्रकाश मिश्रा	01.08.2012
3066	जेसी726115एक्स	सुबेदार	ओमपाल सिंह	01.02.2012
3067	जेसी726501के	सुबेदार	पी बिरेन्द्रा सिंघा	01.04.2012
3068	जेसी723689वाइ	सुबेदार	पछान्न मोहंती	01.02.2012
3069	जेसी727004एम	सुबेदार	पीतम सिंह	01.07.2012
3070	जेसी726210के	सुबेदार	प्रसांत कुमार दाश	01.02.2012
3071	जेसी726080एम	सुबेदार	रछपाल सिंह	01.02.2012
3072	जेसी726902वाइ	सुबेदार	राधेश्याम सिंह	01.07.2012
3073	जेसी727038ए	सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.08.2012
3074	जेसी726681एक्स	सुबेदार	राज बहादुर यादव	01.06.2012
3075	जेसी725603एन	सुबेदार	राज कुमार	01.08.2012
3076	जेसी726173एफ	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.05.2012
3077	जेसी726075एफ	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.02.2012
3078	जेसी726120एच	सुबेदार	राम ब्रिक्षा सिंह	01.02.2012

3079	जेसी726202एल	सुबेदार	राम धनी यादव	01.06.2012
3080	जेसी726253वाइ	सुबेदार	राम धनी यादव	01.07.2012
3081	जेसी726798डब्ल्यू	सुबेदार	राम कुमार	01.06.2012
3082	जेसी726572एल	सुबेदार	राम नारायण कुरील	01.08.2012
3083	जेसी726177एक्स	सुबेदार	राम नारायण सिंह	01.06.2012
3084	जेसी726338पी	सुबेदार	राम निवास आर	01.04.2012
3085	जेसी726479के	सुबेदार	राम निवास	01.03.2012
3086	जेसी726385एम	सुबेदार	राम पुकार राय	01.07.2012
3087	जेसी726823के	सुबेदार	राम शंकर सिंह	01.07.2012
3088	जेसी726414डब्ल्यू	सुबेदार	राम सिंह सैनी	01.07.2012
3089	जेसी726883वाइ	सुबेदार	राम टी	01.06.2012
3090	जेसी727079के	सुबेदार	रणधीर सिंह यादव	01.08.2012
3091	जेसी726230एक्स	सुबेदार	रवीन्द्र कुमार	01.07.2012
3092	जेसी727638एच	सुबेदार	आर फुकन	01.05.2012
3093	जेसी726200ए	सुबेदार	रियासत अली	01.06.2012
3094	जेसी726559एफ	सुबेदार	सच्चिदानंद प्रसाद	01.03.2012
3095	जेसी726174के	सुबेदार	सदानंदन पी के	01.02.2012
3096	जेसी725569वाइ	सुबेदार	साजी वरघेसे	01.06.2012
3097	जेसी726447एफ	सुबेदार	श्रवण सिंह	01.08.2012
3098	जेसी726310पी	सुबेदार	ससिधरन नायर के	01.04.2012
3099	जेसी726384के	सुबेदार	सत्य नारायण यादव	01.07.2012
3100	जेसी726530वाइ	सुबेदार	सुभाष चंद्रा	01.05.2012
3101	जेसी726748एल	सुबेदार	सुख पाल	01.06.2012
3102	जेसी726083ए	सुबेदार	सुखदेव सिंह संधू	01.02.2012
3103	जेसी726612एफ	सुबेदार	सुल्तान सिंह	01.08.2012
3104	जेसी726529के	सुबेदार	सुरेश चन्द	01.04.2012
3105	जेसी727656एल	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.04.2012
3106	जेसी726166एल	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.04.2012
3107	जेसी727002एफ	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.07.2012
3108	जेसी726693एम	सुबेदार	तरसेम लाल	01.03.2012
3109	जेसी726838एम	सुबेदार	उमा शंकर राम	01.06.2012
3110	जेसी726371एम	सुबेदार	उमेश कुमार सिंह	01.07.2012
3111	जेसी726987ए	सुबेदार	वी सजवाल	01.05.2012
3112	जेसी726373एक्स	सुबेदार	विद्या धर पांडे	01.07.2012
3113	जेसी726886एम	सुबेदार	विद्या प्रसाद	01.08.2012
3114	जेसी726632पी	सुबेदार	विजय सिंह मेगी	01.04.2012
3115	जेसी726867एफ	सुबेदार	विजय सिंह	01.08.2012
3116	जेसी726531एफ	सुबेदार	विजयन वी.	01.05.2012
3117	जेसी726964वाइ	सुबेदार	विनोद कुमार यादव	01.08.2012
3118	जेसी726078पी	सुबेदार	विनोद टोपनो	01.02.2012

3119	जेसी726416एफ	सुबेदार	वीरेंद्र सिंह	01.08.2012
3120	जेसी726132एक्स	सुबेदार	याद राम सिंह	01.02.2012
<b>इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स</b>				
3121	जेसी761801के	सुबेदार	अचिन कुमार पाल	01.07.2012
3122	जेसी755477एफ	सुबेदार	आदित्य कुमार घाराए	01.04.2012
3123	जेसी761020डब्ल्यू	सुबेदार	अगस्टिन तिकेई	01.07.2012
3124	जेसी760831पी	सुबेदार	अजय प्रकाश सिंह	01.04.2012
3125	जेसी753863पी	सुबेदार	अखिल सिन्हा	01.04.2012
3126	जेसी755860ए	सुबेदार	अम्बिका प्रसाद	01.08.2012
3127	जेसी749344पी	सुबेदार	अनिल नाथ झा	01.06.2012
3128	जेसी761566डब्ल्यू	सुबेदार	अंजनी कुमार सिंह	01.04.2012
3129	जेसी754972एन	सुबेदार	अनूप कुमार जाना	01.02.2012
3130	जेसी760440के	सुबेदार	अरविंद कुमार शर्मा	01.05.2012
3131	जेसी748769एफ	सुबेदार	अर्जुन कुमार शर्मा	01.04.2012
3132	जेसी757872एन	सुबेदार	अर्जुन सिंह	01.04.2012
3133	जेसी758662ए	सुबेदार	अरुण कुमार राय	01.04.2012
3134	जेसी757666के	सुबेदार	अशोक बाबू	01.03.2012
3135	जेसी757379ए	सुबेदार	अशोक कुमार	01.06.2012
3136	जेसी754002एल	सुबेदार	अशोक कुमार	01.02.2012
3137	जेसी762592के	सुबेदार	अशोक कुमार राय	01.08.2012
3138	जेसी757343एफ	सुबेदार	अशोक कुमार राय	01.04.2012
3139	जेसी753271एल	सुबेदार	अशोक कुमार श्रीवास्तव	01.06.2012
3140	जेसी758974डब्ल्यू	सुबेदार	अशोक रेडी	01.08.2012
3141	जेसी758359वाइ	सुबेदार	असित कुमार पाल	01.02.2012
3142	जेसी757491एम	सुबेदार	अवनीश कुमार	01.03.2012
3143	जेसी754587के	सुबेदार	अवतार सिंह	01.04.2012
3144	जेसी760846एक्स	सुबेदार	अवध बिहारी राय	01.08.2012
3145	जेसी762073एफ	सुबेदार	ए प्रसाद	01.04.2012
3146	जेसी749175वाइ	सुबेदार	बाबू कदान	01.05.2012
3147	जेसी754492के	सुबेदार	बी लाल मंडल	01.02.2012
3148	जेसी751909एन	सुबेदार	बादे सुभाष टतयाब	01.04.2012
3149	जेसी755726पी	सुबेदार	बलजीत सिंह छिकारा	01.02.2012
3150	जेसी750953एल	सुबेदार	बलवान सिंह	01.04.2012
3151	जेसी760428एच	सुबेदार	बंकिम चंद्रा घोष	01.05.2012
3152	जेसी749236एल	सुबेदार	बसंत कुमार सिंह	01.06.2012
3153	जेसी753938एफ	सुबेदार	भगवान दास	01.04.2012
3154	जेसी749174डब्ल्यू	सुबेदार	भंवर लाल जंगीर	01.05.2012
3155	जेसी757107ए	सुबेदार	भंवर लाल कुम्हार	01.05.2012
3156	जेसी760661डब्ल्यू	सुबेदार	बी सिंह	01.06.2012

3157	जेसी760716पी	सुबेदार	भोला नाथ पांडे	01.07.2012
3158	जेसी760843के	सुबेदार	बी साहू	01.08.2012
3159	जेसी756910एम	सुबेदार	भूसेन चंद्रा दास	01.02.2012
3160	जेसी754700एन	सुबेदार	भूवन चंद्रा पांडे	01.07.2012
3161	जेसी756907एम	सुबेदार	बिरप्पा के एन	01.02.2012
3162	जेसी761491के	सुबेदार	बिजइ शंकर दीक्षित	01.08.2012
3163	जेसी758581ए	सुबेदार	बिजय कुमार साहू	01.07.2012
3164	जेसी754229वाइ	सुबेदार	बिपिन बिहारी तिवारी	01.04.2012
3165	जेसी760945ए	सुबेदार	बिपिन सिंघा	01.05.2012
3166	जेसी756908पी	सुबेदार	बीरादर भीमराव शिवराज	01.02.2012
3167	जेसी754570डब्ल्यू	सुबेदार	बिरेन्द्रा कुमार पांडे	01.08.2012
3168	जेसी752764ए	सुबेदार	ब्रम्हा दीन	01.08.2012
3169	जेसी755528के	सुबेदार	बृज विलास मिश्रा	01.08.2012
3170	जेसी762617एल	सुबेदार	बी एस चेन्नइया	01.07.2012
3171	जेसी755761एक्स	सुबेदार	चमन सिंह	01.05.2012
3172	जेसी757388एफ	सुबेदार	चंदेश्वर पांडे	01.02.2012
3173	जेसी753945एक्स	सुबेदार	चंद्रा कुमार मिश्रा	01.08.2012
3174	जेसी756417वाइ	सुबेदार	चंद्रा शेखरन पिल्लई सी	01.08.2012
3175	जेसी755854एम	सुबेदार	चान्द्राकान्त एच	01.08.2012
3176	जेसी760946एच	सुबेदार	चान्द्राकान्त काम्बले	01.08.2012
3177	जेसी761945एम	सुबेदार	छोटे कुमार सिंह	01.08.2012
3178	जेसी751889एल	सुबेदार	चुन्नी लाल	01.07.2012
3179	जेसी750876एफ	सुबेदार	डी. सिंह	01.04.2012
3180	जेसी757185एक्स	सुबेदार	दान सिंह जलाल	01.08.2012
3181	जेसी760567एम	सुबेदार	दशरथ राम	01.06.2012
3182	जेसी758145एच	सुबेदार	दवेन्दरा कुमार राठी	01.05.2012
3183	जेसी753958पी	सुबेदार	दवेन्दर कुमार शर्मा	01.04.2012
3184	जेसी757865एक्स	सुबेदार	डी. सिंह रावत	01.03.2012
3185	जेसी758068वाइ	सुबेदार	दया निधि	01.04.2012
3186	जेसी757403एल	सुबेदार	देशमुख वसंत अनंतराव	01.03.2012
3187	जेसी755718डब्ल्यू	सुबेदार	धन सिंह	01.04.2012
3188	जेसी758265एफ	सुबेदार	धनजय कुमार सिंह	28.04.2012
3189	जेसी755478के	सुबेदार	धन्नजय रौय	01.04.2012
3190	जेसी760380ए	सुबेदार	धर्म बीर	01.08.2012
3191	जेसी754123एम	सुबेदार	धर्म पाल	01.03.2012
3192	जेसी760429एल	सुबेदार	धर्म पाल सिंह	01.05.2012
3193	जेसी760086ए	सुबेदार	धर्म वीर सिंह	01.06.2012
3194	जेसी754430के	सुबेदार	धर्म जीत	01.04.2012
3195	जेसी749341एफ	सुबेदार	धीरेन्द्र सिंह	01.06.2012
3196	जेसी758835एम	सुबेदार	दिलीप कुमार मिश्रा	01.06.2012



3197	जेसी760507एक्स	सुबेदार	दिलीप कुमार यादव	01.06.2012
3198	जेसी759487एच	सुबेदार	दिनेश कुमार	01.08.2012
3199	जेसी753196एम	सुबेदार	दिनेश कुमार	01.04.2012
3200	जेसी754932एम	सुबेदार	दीप नारायण प्रसाद	01.08.2012
3201	जेसी757500एच	सुबेदार	दिवाकरण के	01.04.2012
3202	जेसी760563डब्ल्यू	सुबेदार	डी. सिंह	01.06.2012
3203	जेसी760659वाइ	सुबेदार	जी. सुब्रमणि	01.06.2012
3204	जेसी751115एच	सुबेदार	गायकवाड सुदाम महादु	01.06.2012
3205	जेसी761790एच	सुबेदार	गजेन्द्र पाल सिंह	01.07.2012
3206	जेसी757846एम	सुबेदार	गजराज सिंह	01.07.2012
3207	जेसी754760एच	सुबेदार	गनेश चंद्रा	01.04.2012
3208	जेसी749032वाइ	सुबेदार	जी. प्रकाश मानिक राव	01.04.2012
3209	जेसी753779पी	सुबेदार	ज्ञान चन्द	01.03.2012
3210	जेसी754958एफ	सुबेदार	जी. संताराम गोविन्द	01.07.2012
3211	जेसी755859एल	सुबेदार	गिरीजा शंकर	01.04.2012
3212	जेसी762226ए	सुबेदार	गिरीश चंद्रा उपाध्याय	01.08.2012
3213	जेसी749231एम	सुबेदार	जी. जयन्ता	01.06.2012
3214	जेसी757559एच	सुबेदार	गोपाल चंद्रा साहा	01.04.2012
3215	जेसी749343एम	सुबेदार	गोरा के	01.06.2012
3216	जेसी755488एन	सुबेदार	जी. एस जगदीश वाइ राव	01.03.2012
3217	जेसी758652डब्ल्यू	सुबेदार	गूरव संजय शंकर	01.05.2012
3218	जेसी164261के	सुबेदार	हाफीज़ अब्दुल जब्बार खान	01.04.2012
3219	जेसी761852एक्स	सुबेदार	एच बरुआ	01.02.2012
3220	जेसी755515एम	सुबेदार	हर सिंह	01.06.2012
3221	जेसी761221पी	सुबेदार	हर सिंह मुंडा	01.06.2012
3222	जेसी760553एम	सुबेदार	हारा प्रसाद विश्वास	01.06.2012
3223	जेसी760944एक्स	सुबेदार	हरे राम चौबे	01.08.2012
3224	जेसी754697वाइ	सुबेदार	हरेन्द्र सिंह	01.07.2012
3225	जेसी761567वाइ	सुबेदार	हरी कष्णन	01.04.2012
3226	जेसी759697एच	सुबेदार	एच सिंह	01.04.2012
3227	जेसी749235एच	सुबेदार	हसीब असगर	01.06.2012
3228	जेसी754228डब्ल्यू	सुबेदार	हयात सिंह	01.04.2012
3229	जेसी757034वाइ	सुबेदार	हुकम सिंह	01.04.2012
3230	जेसी760435वाइ	सुबेदार	हुकमा राम बी	01.05.2012
3231	जेसी754230एन	सुबेदार	आइ कानन्न	01.04.2012
3232	जेसी755750एल	सुबेदार	इंद्रजीत	01.06.2012
3233	जेसी760568पी	सुबेदार	इन्द्रा सिंह	01.06.2012
3234	जेसी759254एफ	सुबेदार	इन्द्रजीत	01.06.2012
3235	जेसी751491डब्ल्यू	सुबेदार	ईनावाले सुभाष पांडुरंग	01.08.2012
3236	जेसी748770डब्ल्यू	सुबेदार	जे पांडियन	01.04.2012

3237	जेसी758490डब्ल्यू	सुबेदार	जगताप वसंत हरीबा	01.07.2012
3238	जेसी751911एल	सुबेदार	जयबीर सिंह	01.04.2012
3239	जेसी763157एफ	सुबेदार	जयमल सिंह	01.04.2012
3240	जेसी754025एम	सुबेदार	जयवीर सिंह	01.06.2012
3241	जेसी755463एफ	सुबेदार	जाले सिंह	01.04.2012
3242	जेसी759255के	सुबेदार	जनार्दन पाल	01.06.2012
3243	जेसी747967ए	सुबेदार	जय प्रकाश नारायण साह	01.06.2012
3244	जेसी760847ए	सुबेदार	जयकृष्णा मलिक	01.08.2012
3245	जेसी755895डब्ल्यू	सुबेदार	जयामोहन्न पी	01.07.2012
3246	जेसी763733ए	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.04.2012
3247	जेसी758144ए	सुबेदार	जॉन तिर्केई	01.04.2012
3248	जेसी757021एफ	सुबेदार	के अन्नादुराय	01.08.2012
3249	जेसी759144एम	सुबेदार	के नटराजन	01.08.2012
3250	जेसी757864पी	सुबेदार	के साथूरुक्कन	01.03.2012
3251	जेसी754850के	सुबेदार	कमल सिंह	01.07.2012
3252	जेसी760715एन	सुबेदार	कमलजीत सिंह	01.07.2012
3253	जेसी754201वाइ	सुबेदार	कनक चंद्रा दास	01.04.2012
3254	जेसी761476पी	सुबेदार	कंवर पाल सिंह	01.04.2012
3255	जेसी749264एक्स	सुबेदार	के सहाजी ईश्वर	01.05.2012
3256	जेसी753633एफ	सुबेदार	खलील मियां	01.07.2012
3257	जेसी760504के	सुबेदार	खीर मोहन सरकार	01.06.2012
3258	जेसी754207ए	सुबेदार	किरन संकर रौय	01.03.2012
3259	जेसी754163एन	सुबेदार	किशोरी लाल	01.04.2012
3260	जेसी756953एफ	सुबेदार	कोरदे भरत विश्वनाथ	01.08.2012
3261	जेसी759488एल	सुबेदार	कोतवाल	01.08.2012
3262	जेसी755786के	सुबेदार	कुलबीर सिंह बिस्ट	01.06.2012
3263	जेसी762119वाइ	सुबेदार	कुलदीप राज चौधरी	01.07.2012
3264	जेसी753713वाइ	सुबेदार	कुनछीरामन ए	01.06.2012
3265	जेसी759273एम	सुबेदार	लखबीर सिंह	01.03.2012
3266	जेसी760533वाइ	सुबेदार	एल प्रसाद सिंह	01.06.2012
3267	जेसी761820पी	सुबेदार	एल साह	01.06.2012
3268	जेसी758651एन	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	01.05.2012
3269	जेसी754003एन	सुबेदार	लक्ष्मन यादव	01.04.2012
3270	जेसी754761एल	सुबेदार	लक्ष्मन राय	01.04.2012
3271	जेसी755518ए	सुबेदार	लायक सिंह	01.07.2012
3272	जेसी758984ए	सुबेदार	एल चेतिया	01.08.2012
3273	जेसी754209एल	सुबेदार	एम पौल राज	01.02.2012
3274	जेसी754388डब्ल्यू	सुबेदार	एम वेनूगोपाला कृष्णा रेडी	01.08.2012
3275	जेसी757853एच	सुबेदार	मदन किशोर सिंह	01.06.2012
3276	जेसी751910एच	सुबेदार	मदन मोहन चौबे	01.04.2012

3277	जेसी759373एक्स	सुबेदार	मदन सिंह तारागी	01.06.2012
3278	जेसी760443एक्स	सुबेदार	मधु सूदन मजूमडेर	01.06.2012
3279	जेसी751700एच	सुबेदार	मगदुम श्रीकांत केराबा	01.08.2012
3280	जेसी758484एच	सुबेदार	महाबीर लकरा	01.05.2012
3281	जेसी753792वाइ	सुबेदार	महेन्द्र सिंह	01.04.2012
3282	जेसी754702वाइ	सुबेदार	महेश कुमार	01.03.2012
3283	जेसी755541एन	सुबेदार	महेश कुमार दीक्षित	01.08.2012
3284	जेसी750878एम	सुबेदार	महेश राम	01.04.2012
3285	जेसी758011के	सुबेदार	मंगतू राम जाट	01.04.2012
3286	जेसी757871एल	सुबेदार	मानिक चन्द सिंह	01.04.2012
3287	जेसी754943वाइ	सुबेदार	मार्टीन एच	01.08.2012
3288	जेसी760092एन	सुबेदार	मोहम्मद अतीउल्लाह	01.07.2012
3289	जेसी760093डब्ल्यू	सुबेदार	मोहम्मद आर अंसारी	01.08.2012
3290	जेसी754787ए	सुबेदार	मोहन सिंह	01.04.2012
3291	जेसी755676पी	सुबेदार	मोहाना कुमार केपी	01.08.2012
3292	जेसी760664के	सुबेदार	मोहम्मद इस्माइल	01.07.2012
3293	जेसी761021वाइ	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.08.2012
3294	जेसी760665एम	सुबेदार	मोहम्मद इस्माइल	01.07.2012
3295	जेसी751282वाइ	सुबेदार	मुकित नारायण यादव	01.06.2012
3296	जेसी761769ए	सुबेदार	मुकुंद निबंधे	01.02.2012
3297	जेसी757214एफ	सुबेदार	मुन्नी लाल सिंह यादव	01.08.2012
3298	जेसी748657एफ	सुबेदार	मुशी राम	01.08.2012
3299	जेसी758150एन	सुबेदार	एन रविचंद्रन	01.07.2012
3300	जेसी754371एच	सुबेदार	नाबा कुमार बैग	01.04.2012
3301	जेसी760161वाइ	सुबेदार	नाबा कुमार मोन्दल	01.07.2012
3302	जेसी760850ए	सुबेदार	नबीन बोरा	01.08.2012
3303	जेसी753187एल	सुबेदार	नागाराजन पी	01.05.2012
3304	जेसी758565एच	सुबेदार	नगेन्द्रा सिंह	01.07.2012
3305	जेसी748766एन	सुबेदार	एन राम पासी	01.04.2012
3306	जेसी751415के	सुबेदार	नानक चन्द शर्मा	01.06.2012
3307	जेसी760663एफ	सुबेदार	नन्द के प्रसाद	01.07.2012
3308	जेसी754292एन	सुबेदार	नन्द किशोर चौधरी	01.06.2012
3309	जेसी758252के	सुबेदार	नारायण सेट्टी एचएन	01.08.2012
3310	जेसी760564वाइ	सुबेदार	नरेन्द्रा प्रताप	01.06.2012
3311	जेसी754116डब्ल्यू	सुबेदार	नरेश सिंह	01.03.2012
3312	जेसी749165पी	सुबेदार	नरिंदर सिंह	01.04.2012
3313	जेसी758304पी	सुबेदार	नरसिंह राम	01.06.2012
3314	जेसी760695के	सुबेदार	एन लाल यादव	01.02.2012
3315	जेसी761459पी	सुबेदार	निन्दा कुमार ब्रमा	01.08.2012
3316	जेसी755467एक्स	सुबेदार	निरंजन राउलो	01.07.2012

3317	जेसी760760वाइ	सुबेदार	निरेन नाथ	01.03.2012
3318	जेसी748914एन	सुबेदार	निर्मल कुमार सिंह	01.04.2012
3319	जेसी754847के	सुबेदार	निर्मल सिंह	01.04.2012
3320	जेसी762120एन	सुबेदार	नित्या रंजन साहा	01.08.2012
3321	जेसी755755के	सुबेदार	ओम शंकर सिंह	01.04.2012
3322	जेसी758242ए	सुबेदार	ओमबीर सिंह	01.02.2012
3323	जेसी755785एफ	सुबेदार	उमेंद्रापाल सिंह	01.04.2012
3324	जेसी757762वाइ	सुबेदार	पी बाबू	01.07.2012
3325	जेसी755489डब्ल्यू	सुबेदार	पी रामेश्वर सिंह	01.03.2012
3326	जेसी755447के	सुबेदार	पी एस जी.	01.02.2012
3327	जेसी754848एम	सुबेदार	पलविंदर सिंह	01.06.2012
3328	जेसी753272एन	सुबेदार	प्रकाश साह	01.08.2012
3329	जेसी753596वाइ	सुबेदार	परमेश्वर पण्डित	01.06.2012
3330	जेसी760108एन	सुबेदार	पवन कुमार	01.08.2012
3331	जेसी751666एन	सुबेदार	पवार मारुति तुकाराम	01.02.2012
3332	जेसी751922एक्स	सुबेदार	प्रमोद कुमार त्यागी	01.06.2012
3333	जेसी753653पी	सुबेदार	पिताम्बर दत्त भट्ट	01.07.2012
3334	जेसी756831एक्स	सुबेदार	पी वेन्कटेश्वरलु	01.04.2012
3335	जेसी761627एच	सुबेदार	प्रदीप कुमार पीपी	01.04.2012
3336	जेसी749029वाइ	सुबेदार	प्रदीप कुमार बरुयह	01.04.2012
3337	जेसी754678एन	सुबेदार	प्रदीप कुमार नायक	01.04.2012
3338	जेसी761323एल	सुबेदार	प्रकाश नारायण पांडे	01.04.2012
3339	जेसी758739एक्स	सुबेदार	प्रमोद कुमार महापात्रा	01.07.2012
3340	जेसी756054ए	सुबेदार	प्राथीपन एम	01.08.2012
3341	जेसी755355एक्स	सुबेदार	प्रेम चन्द	01.02.2012
3342	जेसी749180के	सुबेदार	प्रेम चन्द	01.05.2012
3343	जेसी756249एल	सुबेदार	आर सत्या नारायनन	01.03.2012
3344	जेसी754762एन	सुबेदार	राधाकृष्ण पी वी	01.04.2012
3345	जेसी753197पी	सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.05.2012
3346	जेसी755466पी	सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.07.2012
3347	जेसी761309वाइ	सुबेदार	रगुलन के	01.04.2012
3348	जेसी753122एक्स	सुबेदार	राज किशोर मिश्रा	01.04.2012
3349	जेसी754382पी	सुबेदार	राज कुमार	01.06.2012
3350	जेसी757820एक्स	सुबेदार	राज कुमार राघव	01.04.2012
3351	जेसी758069एफ	सुबेदार	राज नारायन महतो	01.04.2012
3352	जेसी760486एम	सुबेदार	राजा राम	01.04.2012
3353	जेसी754118एफ	सुबेदार	राजन पी	01.03.2012
3354	जेसी750882पी	सुबेदार	आर कृष्णा राव	01.05.2012
3355	जेसी749034के	सुबेदार	राजीवन नायक	01.04.2012
3356	जेसी760445एच	सुबेदार	राजेंद्र गिरि	01.06.2012

3357	जेसी751890ए	सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद	01.04.2012
3358	जेसी760844एम	सुबेदार	राजेंद्र सिंह बिस्ट	01.08.2012
3359	जेसी754453एल	सुबेदार	राजेश बाबू	01.04.2012
3360	जेसी756518एम	सुबेदार	राजेश कुमार पांडे	01.04.2012
3361	जेसी760943पी	सुबेदार	राजेश कुमार शर्मा	01.07.2012
3362	जेसी758528पी	सुबेदार	राजेश कुमार सिंह	01.04.2012
3363	जेसी756693एफ	सुबेदार	राजेश लाल वर्मा	01.07.2012
3364	जेसी754374डब्ल्यू	सुबेदार	राजेश्वर शर्मा	01.04.2012
3365	जेसी754283एम	सुबेदार	राजिन्दर पाल सिंह	01.04.2012
3366	जेसी754431एम	सुबेदार	राजनारायण ठाकुर	01.04.2012
3367	जेसी754379पी	सुबेदार	राकेश कुमार शर्मा	01.05.2012
3368	जेसी761715वाइ	सुबेदार	राकेश कुमार सिंह	01.04.2012
3369	जेसी750881एम	सुबेदार	राम बाबू सारस्वत	01.05.2012
3370	जेसी760489ए	सुबेदार	राम बाली रौय	01.07.2012
3371	जेसी761565एन	सुबेदार	राम बिलास सिंह	01.04.2012
3372	जेसी760717एक्स	सुबेदार	राम मेहर	01.07.2012
3373	जेसी753691एल	सुबेदार	राम नारायण राय	01.05.2012
3374	जेसी758266के	सुबेदार	राम निवास गोदारा	01.06.2012
3375	जेसी748773के	सुबेदार	राम निवास कोशिक	01.04.2012
3376	जेसी751280एन	सुबेदार	राम स्वरूप शाक्य	01.04.2012
3377	जेसी752084ए	सुबेदार	रमा कांत	01.04.2012
3378	जेसी761753पी	सुबेदार	रमा नन्द	01.06.2012
3379	जेसी754198के	सुबेदार	रामानन्द यादव	01.04.2012
3380	जेसी757845के	सुबेदार	रमेश चन्द	01.02.2012
3381	जेसी754679डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश चंद्रा खान्दा	01.07.2012
3382	जेसी754293डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश कुमार	01.06.2012
3383	जेसी753458एक्स	सुबेदार	रामेश्वर दास राठी	01.07.2012
3384	जेसी760000डब्ल्यू	सुबेदार	रामेश्वर प्रसाद	01.07.2012
3385	जेसी760439पी	सुबेदार	रामनिवास यादव	01.05.2012
3386	जेसी760905वाइ	सुबेदार	रामफल	01.03.2012
3387	जेसी750877के	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.04.2012
3388	जेसी757190एच	सुबेदार	रंजीत कुमार प्रधान	01.08.2012
3389	जेसी752583पी	सुबेदार	रनवीर सिंह सविता	01.03.2012
3390	जेसी760848एच	सुबेदार	रसकर साजीराओ तुकाराम	01.08.2012
3391	जेसी760658डब्ल्यू	सुबेदार	रवि कांत श्रीवास्तव	01.05.2012
3392	जेसी757877एम	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह	01.08.2012
3393	जेसी754851एम	सुबेदार	रवीन्द्र सिंह	01.07.2012
3394	जेसी754767एम	सुबेदार	रविन्द्रनाथ पी	01.05.2012
3395	जेसी751489वाइ	सुबेदार	रक्सपाल सिंह	01.08.2012
3396	जेसी760941के	सुबेदार	आर सूर्या नारायणा	01.07.2012

3397	जेसी755709पी	सुबेदार	एस लक्ष्मणन	01.05.2012
3398	जेसी754747वाइ	सुबेदार	एस वसूदेवा राव	01.08.2012
3399	जेसी757501एल	सुबेदार	एस मिश्रा	01.08.2012
3400	जेसी754210ए	सुबेदार	एस सिंह	01.04.2012
3401	जेसी754211एच	सुबेदार	साहब सिंह	01.04.2012
3402	जेसी754381एम	सुबेदार	साजन जी.	01.05.2012
3403	जेसी761629एन	सुबेदार	समय लाल भारती	01.04.2012
3404	जेसी756435एफ	सुबेदार	संजय कुमार	01.04.2012
3405	जेसी760085एक्स	सुबेदार	संतोष कुमार	01.06.2012
3406	जेसी751116एल	सुबेदार	एस इश्वर पी	01.06.2012
3407	जेसी761560पी	सुबेदार	श्रवण सिंह	01.04.2012
3408	जेसी762227एच	सुबेदार	सतबीर सिंह	01.08.2012
3409	जेसी761380एम	सुबेदार	सतीश चन्द मिश्रा	01.06.2012
3410	जेसी751923ए	सुबेदार	सत्य बीर सिंह	01.06.2012
3411	जेसी760508ए	सुबेदार	सत्य नारायण	01.06.2012
3412	जेसी754174ए	सुबेदार	सत्य नारायण	01.08.2012
3413	जेसी753185ए	सुबेदार	सत्यवीर सिंह डी.	01.02.2012
3414	जेसी757784एक्स	सुबेदार	शब्बीर अली खान	01.03.2012
3415	जेसी760561एल	सुबेदार	शबीर ए	01.06.2012
3416	जेसी761562ए	सुबेदार	एस जावेद	01.04.2012
3417	जेसी753861के	सुबेदार	शम्भुनाथ प्रसाद	01.06.2012
3418	जेसी753957एम	सुबेदार	शंगारा सिंह	01.04.2012
3419	जेसी758127ए	सुबेदार	शंकर सरवैकर	01.06.2012
3420	जेसी749176एफ	सुबेदार	शीरसत पुर्षोत्तम धनु	01.05.2012
3421	जेसी760433एन	सुबेदार	शिव दास	01.05.2012
3422	जेसी760854डब्ल्यू	सुबेदार	शिव राज सिंह	01.08.2012
3423	जेसी754680एल	सुबेदार	शिवानंद मिश्रा	01.07.2012
3424	जेसी757035एफ	सुबेदार	शिवानंद वी	01.06.2012
3425	जेसी758940एच	सुबेदार	श्री चन्द	01.08.2012
3426	जेसी758290ए	सुबेदार	श्रीकांत तिवारी	01.06.2012
3427	जेसी761379एक्स	सुबेदार	श्याम बिहारी सिंह	01.08.2012
3428	जेसी755451एम	सुबेदार	श्याम नारायण सिंह यादव	01.07.2012
3429	जेसी756299डब्ल्यू	सुबेदार	श्यामल कुमार राय	01.07.2012
3430	जेसी758834के	सुबेदार	श्यामदेव सिंह	01.05.2012
3431	जेसी760569एक्स	सुबेदार	सिद्धनाथ गिरि	01.07.2012
3432	जेसी755079ए	सुबेदार	एस सिंह	01.04.2012
3433	जेसी760714के	सुबेदार	सिया राम	01.07.2012
3434	जेसी758497ए	सुबेदार	एसएन सेलवन	01.06.2012
3435	जेसी761568एफ	सुबेदार	सोहन लाल	01.04.2012
3436	जेसी760191डब्ल्यू	सुबेदार	श्रीनू पीके	01.07.2012

3437	जेसी755561एफ	सुबेदार	स्टैनले जोसफ	01.08.2012
3438	जेसी760660एन	सुबेदार	सूबे राम शर्मा	01.06.2012
3439	जेसी754160ए	सुबेदार	सुभा चन्द यादव	01.04.2012
3440	जेसी761798पी	सुबेदार	सुभाष चंद्र	01.02.2012
3441	जेसी752385के	सुबेदार	सुघार सिंह	01.04.2012
3442	जेसी758727एच	सुबेदार	सुनील कुमार ए	01.03.2012
3443	जेसी753655ए	सुबेदार	एस मधुकर किसान	01.08.2012
3444	जेसी757843वाइ	सुबेदार	सूरत सिंह	01.04.2012
3445	जेसी754879एम	सुबेदार	सुरेन्द्र कुमार	01.04.2012
3446	जेसी760571पी	सुबेदार	सुरेन्द्र सिंह	01.05.2012
3447	जेसी756048एम	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह जादोन	01.04.2012
3448	जेसी755647ए	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह नेगी	01.02.2012
3449	जेसी754979एक्स	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह रावत	01.06.2012
3450	जेसी758684वाइ	सुबेदार	सुरेश चौहान	01.04.2012
3451	जेसी761819ए	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.02.2012
3452	जेसी760566के	सुबेदार	सुरेश आरओआई	01.06.2012
3453	जेसी749031डब्ल्यू	सुबेदार	सुत्रा पाल सिंह	01.04.2012
3454	जेसी758008के	सुबेदार	स्वप्न कुमार विश्वास	01.08.2012
3455	जेसी754846एफ	सुबेदार	स्वर्ण सिंह	01.05.2012
3456	जेसी757128डब्ल्यू	सुबेदार	तारकेशवर मिश्रा	01.07.2012
3457	जेसी760436एफ	सुबेदार	तारकेशवर नाथ पांडे	01.05.2012
3458	जेसी760479डब्ल्यू	सुबेदार	उदय प्रसाद रौय	01.02.2012
3459	जेसी755560वाइ	सुबेदार	उदया नारायण	01.08.2012
3460	जेसी754285एक्स	सुबेदार	उग्रसेन सिंह	01.05.2012
3461	जेसी751487एन	सुबेदार	उकिल चंद्रा दास	01.08.2012
3462	जेसी753451एन	सुबेदार	उमा शंकर सिंह	01.03.2012
3463	जेसी753859एम	सुबेदार	वरघेसे के वी	01.04.2012
3464	जेसी760438एम	सुबेदार	वासुदेव शर्मा	01.05.2012
3465	जेसी753802एक्स	सुबेदार	वीर सिंह सोलंकी	01.02.2012
3466	जेसी754134वाइ	सुबेदार	विद्या शंकर सिंह यादव	01.04.2012
3467	जेसी756848एल	सुबेदार	विजय कुमार यादव	01.08.2012
3468	जेसी754596एल	सुबेदार	विजय प्रसाद	01.04.2012
3469	जेसी757069पी	सुबेदार	विजय सिंह	01.04.2012
3470	जेसी754199एम	सुबेदार	वीजेन्द्र कुमार	01.04.2012
3471	जेसी760430ए	सुबेदार	विनोद कुमार रावत	01.05.2012
3472	जेसी756161एफ	सुबेदार	विनोद सिंह रावत	01.08.2012
3473	जेसी747421ए	सुबेदार	वीरेंद्र कुमार	01.06.2012
3474	जेसी754372एल	सुबेदार	वी सुरेश भगवान	01.04.2012
3475	जेसी753049के	सुबेदार	विश्वाम्बर यादव	01.08.2012
3476	जेसी758402पी	सुबेदार	विश्वनाथ	01.06.2012

3477	जेसी759999पी	सुबेदार	यलप्पा एम	01.06.2012
3478	जेसी760942एम	सुबेदार	योगेन्द्र सिंह	01.07.2012
3479	जेसी758301एफ	सुबेदार	योगराज शर्मा	01.05.2012
3480	जेसी760441एम	सुबेदार	जेड जमन	01.05.2012
<u>सेना शिक्षा कोर</u>				
3481	जेसी803073वाइ	सुबेदार	अजय कुमार सिंह	01.06.2012
3482	जेसी803110एफ	सुबेदार	अनिल कुमार	01.07.2012
3483	जेसी803212एक्स	सुबेदार	अरुण कुमार पिलानिया	01.06.2012
3484	जेसी802714एन	सुबेदार	अरुण कुमार शुक्ला	01.08.2012
3485	जेसी803336एम	सुबेदार	अशोके कुमार घोष	01.08.2012
3486	जेसी802942डब्ल्यू	सुबेदार	भागमल सिंह राना	01.06.2012
3487	जेसी803034ए	सुबेदार	बिशन सिंह	01.06.2012
3488	जेसी802986एन	सुबेदार	ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव	01.02.2012
3489	जेसी803102एच	सुबेदार	देवेंदर कुमार त्रिपाठी	01.08.2012
3490	जेसी802940एल	सुबेदार	धर्म पाल	01.02.2012
3491	जेसी803037एन	सुबेदार	दीन दयाल निरंजन	01.06.2012
3492	जेसी802808एल	सुबेदार	दुर्गा शंकर पाठक	01.07.2012
3493	जेसी802574एम	सुबेदार	हरजीत सिंह	01.02.2012
3494	जेसी802813डब्ल्यू	सुबेदार	हीरा लाल	01.08.2012
3495	जेसी803064एक्स	सुबेदार	एच नारायण कुशवाहा	01.06.2012
3496	जेसी803334एफ	सुबेदार	जगदेव यादव	01.07.2012
3497	जेसी803021एच	सुबेदार	कुरियाकोसे वीएम	01.06.2012
3498	जेसी803174एम	सुबेदार	मनोहर लाल	01.04.2012
3499	जेसी802988वाइ	सुबेदार	मोहम्मद अहमद खान	01.08.2012
3500	जेसी803001पी	सुबेदार	आर इलंगो	01.06.2012
3501	जेसी802552एन	सुबेदार	रघुवीर सिंह	01.04.2012
3502	जेसी803101ए	सुबेदार	राज दर्शन सिंह रावत	01.08.2012
3503	जेसी803036एल	सुबेदार	राज कुमार	01.06.2012
3504	जेसी802812एन	सुबेदार	रसिक बिहारी	01.08.2012
3505	जेसी802604वाइ	सुबेदार	रतन जीत	01.04.2012
3506	जेसी802693एच	सुबेदार	संतोष कुमार श्रीवास्तवा	01.04.2012
3507	जेसी803199वाइ	सुबेदार	सतेंद्र कुमार	01.03.2012
3508	जेसी803147एच	सुबेदार	शैलेश कुमार चौधरी	01.02.2012
3509	जेसी802939डब्ल्यू	सुबेदार	शेर सिंह यादव	01.02.2012
3510	जेसी803094पी	सुबेदार	शिव कुमार	01.06.2012
3511	जेसी803012एफ	सुबेदार	श्री भगवान	01.06.2012
3512	जेसी802863एफ	सुबेदार	श्रीपाल सिंह तोमर	01.04.2012
3513	जेसी802621वाइ	सुबेदार	श्याम बिहारी	01.04.2012
3514	जेसी803100एक्स	सुबेदार	एस पध्य	01.06.2012



3515	जेसी802597एन	सुबेदार	सुभाष चन्द बन्सल	01.04.2012
3516	जेसी803718डब्ल्यू	सुबेदार	सुनील कुमार शर्मा	01.03.2012
3517	जेसी803093एम	सुबेदार	सूरत सिंह	01.06.2012
3518	जेसी803236एफ	सुबेदार	सुरेन्द्रा प्रसाद पौल	01.03.2012
3519	जेसी803099एन	सुबेदार	विक्रम सिंह	01.06.2012
3520	जेसी802712एच	सुबेदार	जमीर अंसारी	01.05.2012

रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर

3521	जेसी797430एक्स	रिसालदार	बलवान सिंह	01.04.2012
3522	जेसी797318एल	रिसालदार	भीम सैन	01.07.2012
3523	जेसी797429एच	रिसालदार	दीना नाथ पांडे	01.06.2012
3524	जेसी797312के	रिसालदार	हरेन्द्र पाल सिंह	01.04.2012
3525	जेसी797325एफ	रिसालदार	होरी लाल	01.04.2012
3526	जेसी797370एन	रिसालदार	जाले सिंह	01.05.2012
3527	जेसी797369वाइ	रिसालदार	किशोरी लाल	01.05.2012
3528	जेसी797464एल	रिसालदार	मधुसूधनन टी	01.08.2012
3529	जेसी797333ए	रिसालदार	मनजीत सिंह	01.05.2012
3530	जेसी797344एम	रिसालदार	मोहम्मद अली	01.05.2012
3531	जेसी797406एफ	रिसालदार	मोहिन्दर सिंह	01.04.2012
3532	जेसी797485एफ	रिसालदार	मोहिंदरा राम	01.08.2012
3533	जेसी797411एम	रिसालदार	मुसाफिर राम	01.04.2012
3534	जेसी797367एन	रिसालदार	नावा कुमार गोगोई	01.04.2012
3535	जेसी797343के	रिसालदार	पदमाजन	01.04.2012
3536	जेसी797529एन	रिसालदार	राज बहादुर	01.05.2012
3537	जेसी797380एक्स	रिसालदार	राज किशोर सिंघा	01.05.2012
3538	जेसी797342एफ	रिसालदार	राज कुमार	01.04.2012
3539	जेसी797316ए	रिसालदार	एस कादुल्ना	01.06.2012
3540	जेसी797475एक्स	रिसालदार	शिव कुमार राय	01.05.2012
3541	जेसी797317एच	रिसालदार	सुनील कुमार सुमन	01.07.2012
3542	जेसी797359पी	रिसालदार	सुरेश कुमार	01.06.2012
3543	जेसी797357के	रिसालदार	उन्नीकृष्णा पी	01.04.2012

आसुचना कोर

3544	जेसी810671वाइ	सुबेदार	अजीत सिंह	01.06.2012
3545	जेसी810856ए	सुबेदार	अमरजीत सिंह	01.04.2012
3546	जेसी810652एन	सुबेदार	आनंद बल्लभ जोशी	01.04.2012
3547	जेसी810693एक्स	सुबेदार	अनिल कुमार पांडे	01.02.2012
3548	जेसी810814एन	सुबेदार	अशोक कुमार	01.07.2012
3549	जेसी810763एल	सुबेदार	ब्यास अशोक नागोराव	01.06.2012
3550	जेसी810655एफ	सुबेदार	बिश्नु कुमार मुखिया	01.05.2012

3551	जेसी810578एक्स	सुबेदार	दुर्गा प्रसाद	01.05.2012
3552	जेसी810712एक्स	सुबेदार	दुर्गा राम	01.04.2012
3553	जेसी810670डब्ल्यू	सुबेदार	गनेश सिंह एच	01.06.2012
3554	जेसी810695एच	सुबेदार	घनश्याम सिंह	01.03.2012
3555	जेसी810678एच	सुबेदार	गोपाल सिंह	01.07.2012
3556	जेसी810851एफ	सुबेदार	हनीफ	01.04.2012
3557	जेसी810526एफ	सुबेदार	लक्ष्मी नारायना त्रिपाठी	01.05.2012
3558	जेसी810517ए	सुबेदार	महादेव प्रसाद पुन	01.04.2012
3559	जेसी810661पी	सुबेदार	महेंद्र कुमार मंडलोई	01.05.2012
3560	जेसी810660एम	सुबेदार	महेश कुमार	01.05.2012
3561	जेसी810802वाइ	सुबेदार	महेश कुमार राघव	01.05.2012
3562	जेसी810680ए	सुबेदार	महीपाल सिंह गोदारा	01.02.2012
3563	जेसी810516एक्स	सुबेदार	मानालन जे	01.07.2012
3564	जेसी810663ए	सुबेदार	मनोहर लाल भाटिया	01.05.2012
3565	जेसी810669एफ	सुबेदार	पीथाला सी के राजू	01.06.2012
3566	जेसी810922एक्स	सुबेदार	पोहाप सिंह	01.07.2012
3567	जेसी810622डब्ल्यू	सुबेदार	प्रमोद सेकिआ	01.05.2012
3568	जेसी810754के	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.04.2012
3569	जेसी810662एक्स	सुबेदार	पूरन चन्द	01.05.2012
3570	जेसी810586डब्ल्यू	सुबेदार	पूरन सिंह	01.08.2012
3571	जेसी810666एन	सुबेदार	राजेश कुमार सिंह	01.04.2012
3572	जेसी810640वाइ	सुबेदार	राम कष्णन	01.04.2012
3573	जेसी811086एल	सुबेदार	रमेश प्रसाद	01.06.2012
3574	जेसी810727ए	सुबेदार	रमेश राना	01.08.2012
3575	जेसी810524डब्ल्यू	सुबेदार	आरएन चातेजी	01.05.2012
3576	जेसी810685वाइ	सुबेदार	सर्वेश कुमार श्रीवास्तव	01.03.2012
3577	जेसी810768के	सुबेदार	शेर बहादुर साही	01.04.2012
3578	जेसी810654वाइ	सुबेदार	सूरज भान	01.04.2012
3579	जेसी810769एम	सुबेदार	सुसीला कुमार महालिक	01.06.2012
3580	जेसी810722एफ	सुबेदार	विजय सिंह यादव	01.07.2012
3581	जेसी810742पी	सुबेदार	विजय कुमार सिंह	01.06.2012

सेना पुलिस कोर

3582	जेसी818802एन	सुबेदार	धर्म पाल	01.04.2012
3583	जेसी819072ए	सुबेदार	गायकवाड आनंद धोंडिबा	01.04.2012
3584	जेसी819045डब्ल्यू	सुबेदार	एन दामोदर रेडी	01.07.2012
3585	जेसी818703एल	सुबेदार	नरेश कुमार	01.04.2012
3586	जेसी818801एल	सुबेदार	राधे श्याम आर	01.03.2012
3587	जेसी819276एम	सुबेदार	संजय कुमार सिंह	01.07.2012
3588	जेसी818807एम	सुबेदार	सोमेन्द्रा सिंह रावत	01.06.2012

सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

3589	जेसी826153एच	सुबेदार	हरबंस लाल	01.04.2012
3590	जेसी826155एन	सुबेदार	मदन लाल शर्मा	01.04.2012
3591	जेसी826151एक्स	सुबेदार	मगन सिंह	01.04.2012
3592	जेसी826166ए	सुबेदार	मोहन लाल	01.05.2012
3593	जेसी826160वाइ	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.04.2012

पायोनियर कोर

3594	जेसी829280एच	सुबेदार	अखिलेश्वर सिंह	01.06.2012
3595	जेसी829324पी	सुबेदार	अमर सिंह	01.04.2012
3596	जेसी829074वाइ	सुबेदार	अनिरुध मिश्रा	01.02.2012
3597	जेसी829290एम	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.07.2012
3598	जेसी829328एल	सुबेदार	के कर्तीकेयन	01.04.2012
3599	जेसी829267वाइ	सुबेदार	पवन कुमार सिंह	01.03.2012
3600	जेसी829389एच	सुबेदार	राजेंद्रा पाल	01.08.2012
3601	जेसी829346एन	सुबेदार	रमेश चंद्रा	01.04.2012
3602	जेसी829413एन	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.04.2012
3603	जेसी829356एक्स	सुबेदार	श्री नाथ सिंह	01.06.2012
3604	जेसी829381डब्ल्यू	सुबेदार	सुकुमारन नायर एम	01.07.2012
3605	जेसी829357ए	सुबेदार	वीरेंद्र कुमार सिंह	01.04.2012

सेना डाक सेवा

3606	जेसी834149पी	सुबेदार	इसाक वरुधिस	01.04.2012
3607	जेसी834323डब्ल्यू	सुबेदार	जगवीर सिंह	01.04.2012
3608	जेसी834297ए	सुबेदार	ललजीत सिंह	01.07.2012
3609	जेसी834194एफ	सुबेदार	मंगत राम	01.04.2012

रक्षा सुरक्षा कोर

3610	जेसी840783एन	सुबेदार	भंवर दान	01.02.2012
3611	जेसी841156एन	सुबेदार	बिजय अचरजी	01.08.2012
3612	जेसी840777ए	सुबेदार	चंद्र भान	01.05.2012
3613	जेसी841952डब्ल्यू	सुबेदार	दशरथ सिंह	01.08.2012
3614	जेसी811203ए	सुबेदार	एकनाथ बालू जाधव	01.03.2012
3615	जेसी842023के	सुबेदार	गवाने किसान दत्तू	01.04.2012
3616	जेसी840908ए	सुबेदार	गिरधारी राम	01.08.2012
3617	जेसी842109एच	सुबेदार	करनैल सिंह	01.07.2012
3618	जेसी841265ए	सुबेदार	खिनव सिंह	01.05.2012
3619	जेसी841892एम	सुबेदार	कुलविन्द्र सिंह	01.05.2012
3620	जेसी841651एम	सुबेदार	महावीर सिंह	01.06.2012

3621	जेसी841821एल	सुबेदार	नगर मल	01.03.2012
3622	जेसी840931एन	सुबेदार	ओम प्रकाश सिंह यादव	01.02.2012
3623	जेसी841282ए	सुबेदार	पी राजू	01.04.2012
3624	जेसी841518के	सुबेदार	पाटिल बालकृशना अनपा	01.07.2012
3625	जेसी842112एच	सुबेदार	प्रफुल्ल कुमार चौधरी	01.08.2012
3626	जेसी841215पी	सुबेदार	राधे श्याम	01.05.2012
3627	जेसी840457एल	सुबेदार	राम किशन	01.05.2012
3628	जेसी841904डब्ल्यू	सुबेदार	रामेश्वर सिंह	01.05.2012
3629	जेसी841648एम	सुबेदार	रामजी लाल	01.06.2012
3630	जेसी842149के	सुबेदार	रमेश कुमार	01.07.2012
3631	जेसी840793एक्स	सुबेदार	शिवाजी श्रीपति कुरने	01.07.2012
3632	जेसी841819एन	सुबेदार	श्रीधर मोहंती	01.08.2012
3633	जेसी840797एन	सुबेदार	सुरेन्द्रन सी के	01.04.2012
3634	जेसी841647के	सुबेदार	तेज प्रताप सिंह	01.08.2012
3635	जेसी841910के	सुबेदार	उत्तातम किसान कदम	01.06.2012

प्रदेशिक सेना

3636	टिजे4128एच	सुबेदार	भूप सिंह	01.06.2012
3637	टिजे4380एफ	सुबेदार	सी एंथोनी स्वामी	01.05.2012
3638	टिजे4755पी	सुबेदार	कला नाथ मिश्रा	01.03.2012
3639	टिजे4565एच	सुबेदार	काम्बले उत्तातम कुमार	01.02.2012
3640	टिजे4144ए	सुबेदार	किशोरी सिंह	01.06.2012
3641	टिजे3909के	सुबेदार	ओमकार	01.02.2012
3642	टिजे4034एल	सुबेदार	पीके नन्दाकुमार	01.03.2012
3643	टिजे4229डब्ल्यू	सुबेदार	राजबीर सिंह	01.04.2012
3644	टिजे5049ए	सुबेदार	एस हासन डब्ल्यू	01.03.2012
3645	टिजे4642एम	सुबेदार	सोम दत्त	01.06.2012
3646	टिजे4447पी	सुबेदार	तिका बहादुर कशीत्री	01.06.2012

अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार के रूप में1 होर्स

1	जेसी242640पी	नायब रिसालदार	मोहन सिंह	01.03.2012
2	जेसी243019डब्ल्यू	नायब रिसालदार	राजेश कुमार सिंह	01.05.2012

आर्मड कोर

3	जेसी243475एफ	नायब रिसालदार	भीम सिंह	01.06.2012
4	जेसी243248एफ	नायब रिसालदार	गिरीश चंद्रा मिश्रा	01.07.2012
5	जेसी243864एफ	नायब रिसालदार	नवाब सिंह बी	01.03.2012
6	जेसी242604के	नायब रिसालदार	ओंकार सिंह	01.03.2012
7	जेसी243412वाइ	नायब रिसालदार	राजबीर सिंह	01.02.2012
8	जेसी242827एफ	नायब रिसालदार	त्रिवेनी प्रसाद	01.06.2012
9	जेसी243444एफ	नायब रिसालदार	वीरेंद्र कुमार सिंह	01.03.2012

आर्टिलरी रेजीमेंट

10	जेसी274476एल	नायब सुबेदार	अभे सिंह	01.02.2012
11	जेसी273468ए	नायब सुबेदार	आदित्य नारायण ओझा	01.02.2012
12	जेसी273192पी	नायब सुबेदार	अर्जुन मिश्रा	01.05.2012
13	जेसी272059ए	नायब सुबेदार	अरुण कुमार	01.02.2012
14	जेसी274704एच	नायब सुबेदार	अशोक कुमार	01.03.2012
15	जेसी277856पी	नायब सुबेदार	अवतार सिंह सोही	01.08.2012
16	जेसी273551एक्स	नायब सुबेदार	अबाते तानाजी नीलकंठ	01.04.2012
17	जेसी275423वाइ	नायब सुबेदार	बाबू राजन ए	01.03.2012
18	जेसी274248एच	नायब सुबेदार	बी एच	01.08.2012
19	जेसी273727एक्स	नायब सुबेदार	बिनोद कुमार	01.02.2012
20	जेसी272881के	नायब सुबेदार	चैन सिंह	01.07.2012
21	जेसी271367एन	नायब सुबेदार	चंद्रा भानु सिंह	01.08.2012
22	जेसी273312एच	नायब सुबेदार	चन्द्रराजीत यादव	01.04.2012
23	जेसी274398वाइ	नायब सुबेदार	दलबीर सिंह	01.03.2012
24	जेसी272040एफ	नायब सुबेदार	फकीरप्पा बदिजर	01.02.2012
25	जेसी273253एफ	नायब सुबेदार	जी. जी.	01.04.2012
26	जेसी271722ए	नायब सुबेदार	जी. रंगा सामी	01.02.2012
27	जेसी273101ए	नायब सुबेदार	हंस राज	01.02.2012
28	जेसी272250एफ	नायब सुबेदार	हृदया नारायण सिंह	01.03.2012
29	जेसी272193एल	नायब सुबेदार	इन्द्रा पाल सिंह	01.03.2012
30	जेसी273676पी	नायब सुबेदार	इश्वर सिंह	01.04.2012
31	जेसी274757एफ	नायब सुबेदार	जाधव पुरुष्वाथम तुकाराम	01.08.2012
32	जेसी272844डब्ल्यू	नायब सुबेदार	जय कुमार	01.02.2012
33	जेसी272850के	नायब सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.03.2012
34	जेसी273330एल	नायब सुबेदार	के मणिकम	01.08.2012
35	जेसी273778एल	नायब सुबेदार	के मुरुगन	01.03.2012
36	जेसी271291वाइ	नायब सुबेदार	के रामचन्द्रन	01.03.2012
37	जेसी275419डब्ल्यू	नायब सुबेदार	कमल नारायण कुंवर	01.06.2012
38	जेसी272001एच	नायब सुबेदार	करनैल सिंह	01.03.2012
39	जेसी271413एक्स	नायब सुबेदार	कश्मीर सिंह	01.02.2012
40	जेसी272738एक्स	नायब सुबेदार	केहर सिंह	01.03.2012
41	जेसी273536एच	नायब सुबेदार	कुलवंत सिंह रनधावा	01.05.2012
42	जेसी272263वाइ	नायब सुबेदार	लखविन्दर सिंह	01.04.2012
43	जेसी274401एन	नायब सुबेदार	लव कुश	01.03.2012
44	जेसी273177ए	नायब सुबेदार	एम मूर्ती	01.03.2012
45	जेसी273032पी	नायब सुबेदार	महीपाल सिंह	01.05.2012
46	जेसी272656पी	नायब सुबेदार	मनोकरण एन	01.02.2012
47	जेसी273714ए	नायब सुबेदार	मरिंदर सिंह	01.03.2012
48	जेसी274181पी	नायब सुबेदार	एम वेंकट लक्ष्मन राव	01.08.2012
49	जेसी274429एन	नायब सुबेदार	मिखेल हिरन्ज	01.02.2012
50	जेसी272855एच	नायब सुबेदार	मोहन सिंह	01.04.2012
51	जेसी273451एम	नायब सुबेदार	नरेश पण्डित	01.02.2012

52	जेसी271279एक्स	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश	01.04.2012
53	जेसी271586पी	नायब सुबेदार	पी माथावा प्रसाद	01.03.2012
54	जेसी271796पी	नायब सुबेदार	परमजीत सिंह	01.02.2012
55	जेसी274261एम	नायब सुबेदार	पंजाब सिंह	01.06.2012
56	जेसी274473एक्स	नायब सुबेदार	आर कुमार	01.04.2012
57	जेसी272005वाइ	नायब सुबेदार	रछपाल सिंह	01.04.2012
58	जेसी274815ए	नायब सुबेदार	रछपाल सिंह	01.08.2012
59	जेसी273188एम	नायब सुबेदार	राज कुमार	01.04.2012
60	जेसी275017वाइ	नायब सुबेदार	आर कुमार दीक्षित	01.02.2012
61	जेसी273964एफ	नायब सुबेदार	राजू बी	01.08.2012
62	जेसी273378वाइ	नायब सुबेदार	रामकृष्ण एन	01.02.2012
63	जेसी272798एम	नायब सुबेदार	रमेश सिंह	01.08.2012
64	जेसी274369के	नायब सुबेदार	रंजीत सिंह	01.03.2012
65	जेसी273588वाइ	नायब सुबेदार	रेशम पाल	01.02.2012
66	जेसी271621एम	नायब सुबेदार	रोहताश कुमार	01.04.2012
67	जेसी273689एम	नायब सुबेदार	एस जीवानन्दम	01.03.2012
68	जेसी271740एच	नायब सुबेदार	सहीद सिंह	01.04.2012
69	जेसी274205एन	नायब सुबेदार	संजय कुमार	01.03.2012
70	जेसी272105के	नायब सुबेदार	सत्यावान	01.04.2012
71	जेसी273148एल	नायब सुबेदार	एस नाथ साह	01.02.2012
72	जेसी273031एम	नायब सुबेदार	शियो मूर्ती सिंह	01.04.2012
73	जेसी273914डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सूबे सिंह	01.05.2012
74	जेसी275384एल	नायब सुबेदार	सूबे सिंह	01.05.2012
75	जेसी273215एल	नायब सुबेदार	सुभाष सिंह	01.04.2012
76	जेसी272517एल	नायब सुबेदार	सुदीर दुबे	01.02.2012
77	जेसी275429ए	नायब सुबेदार	सुलखान सिंह	01.08.2012
78	जेसी274492एच	नायब सुबेदार	सुरेंद्र पाल	01.03.2012
79	जेसी271540एम	नायब सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.03.2012
80	जेसी273540एल	नायब सुबेदार	तेज सिंह	01.08.2012
81	जेसी273738के	नायब सुबेदार	वरदराजन वी	01.02.2012
82	जेसी273812ए	नायब सुबेदार	विजय बहादुर	01.03.2012
83	जेसी273752डब्ल्यू	नायब सुबेदार	विजय कुमार सिंह	01.07.2012
84	जेसी273696एच	नायब सुबेदार	वी शंकर राय	01.08.2012
85	जेसी274406एम	नायब सुबेदार	डब्ल्यू ओ गनपत	01.08.2012

### सेना वायू सुरक्षा

86	जेसी300932एल	नायब सुबेदार	बी चन्द	01.02.2012
87	जेसी300846ए	नायब सुबेदार	बिनोद कुमार सिंह	01.03.2012
88	जेसी300986एम	नायब सुबेदार	चन्दन कुमार साहू	01.02.2012
89	जेसी300813पी	नायब सुबेदार	देवादसन एम	01.04.2012
90	जेसी300940के	नायब सुबेदार	दीना नाथ सिंह	01.04.2012
91	जेसी300687एन	नायब सुबेदार	ज्ञानेन्द्र सिंह	01.02.2012
92	जेसी300911पी	नायब सुबेदार	जितेन्द्रा प्रसाद सिंह	01.05.2012
93	जेसी301061एच	नायब सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.05.2012

94	जेसी300696पी	नायब सुबेदार	कुलवंत सिंह	01.05.2012
95	जेसी300631एफ	नायब सुबेदार	नछेतर सिंह	01.02.2012
96	जेसी300857एम	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश कुशवाहा	01.02.2012
97	जेसी300741डब्ल्यू	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश यादव	01.02.2012
98	जेसी300157वाइ	नायब सुबेदार	राम औतार	01.08.2012
99	जेसी300690एन	नायब सुबेदार	राम कुमार	01.02.2012
100	जेसी301145डब्ल्यू	नायब सुबेदार	श्री राम	01.04.2012
101	जेसी300700एम	नायब सुबेदार	तारा चन्द	01.08.2012
102	जेसी301094एन	नायब सुबेदार	विनोद कुमार	01.07.2012
<b>मद्रास इंजीनियर समूह</b>				
103	जेसी338915पी	नायब सुबेदार	अखिलेश्वर पाठक	01.04.2012
104	जेसी309193एल	नायब सुबेदार	बालासुब्रामन्यन जी.	01.03.2012
105	जेसी309327वाइ	नायब सुबेदार	सी एम	01.02.2012
106	जेसी309391डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सी के	01.05.2012
107	जेसी309451ए	नायब सुबेदार	गंगाधरन सी	01.05.2012
108	जेसी308745एफ	नायब सुबेदार	जया कुमार के	01.06.2012
109	जेसी309517एल	नायब सुबेदार	कारानाम सुब्रमण्यम	01.05.2012
110	जेसी309450एक्स	नायब सुबेदार	एम गुरु संकर	01.04.2012
111	जेसी309763डब्ल्यू	नायब सुबेदार	मधुसूधन्न नायर बीके.	01.08.2012
112	जेसी309648डब्ल्यू	नायब सुबेदार	महानतेश एन	01.06.2012
113	जेसी338707ए	नायब सुबेदार	मुकेश कुमार	01.07.2012
114	जेसी309413के	नायब सुबेदार	पी आर	01.08.2012
115	जेसी308744वाइ	नायब सुबेदार	आर मुरुगेशन	01.06.2012
116	जेसी309518एन	नायब सुबेदार	राजेश कुमार विके	01.06.2012
117	जेसी309404एच	नायब सुबेदार	रविचंद्रन कृष्णन के	01.06.2012
118	जेसी308870एल	नायब सुबेदार	एस जे	01.04.2012
119	जेसी309516एच	नायब सुबेदार	सत्या बाबू के	01.03.2012
120	जेसी309448ए	नायब सुबेदार	शंकरप्पा मेती	01.05.2012
121	जेसी309449एच	नायब सुबेदार	टी रवि	01.06.2012
122	जेसी308710एल	नायब सुबेदार	टी सिवा कोटी रेडी	01.04.2012
123	जेसी309290एच	नायब सुबेदार	विलसन एल के	01.02.2012
<b>बंगाल इंजीनियर समूह</b>				
124	जेसी338914एम	नायब सुबेदार	अनिल कुमार	01.04.2012
125	जेसी338867ए	नायब सुबेदार	अशवनी कुमार शर्मा	01.06.2012
126	जेसी338917ए	नायब सुबेदार	बलबीर सिंह	01.04.2012
127	जेसी338913के	नायब सुबेदार	सी लोहरा	01.02.2012
128	जेसी338638पी	नायब सुबेदार	चंद्रा पाल सिंह	01.08.2012
129	जेसी338799एक्स	नायब सुबेदार	चेत राम	01.05.2012
130	जेसी338907डब्ल्यू	नायब सुबेदार	देश राज	01.07.2012
131	जेसी331099एफ	नायब सुबेदार	धर्मबीर सिंह	01.04.2012
132	जेसी338865पी	नायब सुबेदार	दिलीप कुमार	01.06.2012
133	जेसी338120एफ	नायब सुबेदार	ज्ञानेन्द्र सिंह	01.04.2012

134	जेसी338665वाइ	नायब सुबेदार	जगबीर सिंह	01.05.2012
135	जेसी338060एक्स	नायब सुबेदार	जीवन सिंह	01.06.2012
136	जेसी338702एफ	नायब सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.06.2012
137	जेसी338836ए	नायब सुबेदार	ललित कुमार वर्मा	01.06.2012
138	जेसी329331एच	नायब सुबेदार	मदन कुमार सिंह	01.08.2012
139	जेसी338403एच	नायब सुबेदार	मूल चंद्रा	01.04.2012
140	जेसी338647डब्ल्यू	नायब सुबेदार	नकुल चंद्रा दास	01.07.2012
141	जेसी338314के	नायब सुबेदार	नामवर सिंह यादव	01.08.2012
142	जेसी338918एच	नायब सुबेदार	नरेन्द्रा सिंह	01.08.2012
143	जेसी338664डब्ल्यू	नायब सुबेदार	नृसिंघ चरण नायक	01.04.2012
144	जेसी338852एक्स	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश सिंह	01.03.2012
145	जेसी329198एल	नायब सुबेदार	राना प्रताप सिंह	01.02.2012
146	जेसी338916एक्स	नायब सुबेदार	रणधीर सिंह	01.04.2012
147	जेसी338846एक्स	नायब सुबेदार	समय पाल सिंह	01.02.2012
148	जेसी338229एफ	नायब सुबेदार	संजय थापा	01.04.2012
149	जेसी338771एक्स	नायब सुबेदार	संत बख्श सिंह	01.04.2012
150	जेसी338898ए	नायब सुबेदार	श्याम कुमार	01.02.2012
151	जेसी338972डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सूबे सिंह	01.05.2012
152	जेसी338700डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.02.2012
153	जेसी338697एफ	नायब सुबेदार	तपन कुमार साहा	01.03.2012
154	जेसी338254ए	नायब सुबेदार	विनय कुमार शर्मा	01.03.2012

बोम्बे इंजीनियर समूह

155	जेसी351288एम	नायब सुबेदार	अब्दुल मजीद	01.03.2012
156	जेसी351203एल	नायब सुबेदार	बलवंत राय	01.06.2012
157	जेसी351373पी	नायब सुबेदार	चव्हाण गमपति लक्ष्मण	01.02.2012
158	जेसी351559वाइ	नायब सुबेदार	जी. जेआई यादव	01.08.2012
159	जेसी351289पी	नायब सुबेदार	हरभजन सिंह	01.06.2012
160	जेसी350740के	नायब सुबेदार	जगतार सिंह	01.03.2012
161	जेसी351188एफ	नायब सुबेदार	कारदे आनंदा प्रहलाद	01.05.2012
162	जेसी350174पी	नायब सुबेदार	एल विजय कृष्णा	01.04.2012
163	जेसी350787पी	नायब सुबेदार	मनजीत सिंह	01.08.2012
164	जेसी351102एक्स	नायब सुबेदार	पवार कृशान्त दत्तू	01.04.2012
165	जेसी351189के	नायब सुबेदार	पवार सुभास जे	01.06.2012
166	जेसी350835के	नायब सुबेदार	रनवीर सिंह	01.06.2012
167	जेसी351387पी	नायब सुबेदार	संतोख सिंह	01.02.2012
168	जेसी350836एम	नायब सुबेदार	संतोष कुमार पाल	01.07.2012
169	जेसी351190वाइ	नायब सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.06.2012

सिग्नल्स कोर

170	जेसी378074ए	नायब सुबेदार	अजीत सिंह	01.04.2012
171	जेसी379439डब्ल्यू	नायब सुबेदार	अनूप सिंह	01.04.2012
172	जेसी378360एफ	नायब सुबेदार	आजाद सिंह	01.04.2012
173	जेसी379679एन	नायब सुबेदार	बाल कृष्णा भारती	01.07.2012
174	जेसी378861एफ	नायब सुबेदार	बलबीर सिंह	01.02.2012



175	जेसी376220डब्ल्यू	नायब सुबेदार	भदेवर डेका	01.07.2012
176	जेसी379613एक्स	नायब सुबेदार	भोला नाथ महता	01.07.2012
177	जेसी380024एन	नायब सुबेदार	बी गुप्ता	01.08.2012
178	जेसी378909के	नायब सुबेदार	ब्रज मोहन सिंह	01.02.2012
179	जेसी379342एल	नायब सुबेदार	वृज मोहन सिंह	01.04.2012
180	जेसी378854एल	नायब सुबेदार	दलबीर सिंह	01.08.2012
181	जेसी378001एन	नायब सुबेदार	दलजीत सिंह	01.03.2012
182	जेसी378481एच	नायब सुबेदार	धन सिंह	01.03.2012
183	जेसी379344डब्ल्यू	नायब सुबेदार	धनी राम	01.04.2012
184	जेसी378507एम	नायब सुबेदार	धर्मवीर	01.04.2012
185	जेसी380028के	नायब सुबेदार	धर्मवीर	01.08.2012
186	जेसी378738एच	नायब सुबेदार	गिरधर सिंह	01.02.2012
187	जेसी378233एम	नायब सुबेदार	ज्ञान प्रकाश तिवारी	01.04.2012
188	जेसी379668एफ	नायब सुबेदार	हरेशवर राजबोंगशी	01.06.2012
189	जेसी379343एन	नायब सुबेदार	हरी नारायण सिंह	01.04.2012
190	जेसी381165पी	नायब सुबेदार	जग नारायण सिंह	01.08.2012
191	जेसी379005डब्ल्यू	नायब सुबेदार	जयदेव सिंह	01.04.2012
192	जेसी379500पी	नायब सुबेदार	जयवीर सिंह चौधरी	01.05.2012
193	जेसी379477एम	नायब सुबेदार	जितेन्द्रा नाथ मल	01.04.2012
194	जेसी379008के	नायब सुबेदार	जितेश चंद्रा कर	01.08.2012
195	जेसी378809वाइ	नायब सुबेदार	जे के जे	01.03.2012
196	जेसी379428के	नायब सुबेदार	जोयंता कुमार बोराह	01.04.2012
197	जेसी379004एन	नायब सुबेदार	के बाबू	01.04.2012
198	जेसी379577एक्स	नायब सुबेदार	कमल सिंह	01.04.2012
199	जेसी378752पी	नायब सुबेदार	कामेश्वर राय	01.04.2012
200	जेसी378871एल	नायब सुबेदार	के टी ए	01.02.2012
201	जेसी378750के	नायब सुबेदार	कैसव लाल	01.04.2012
202	जेसी379587एफ	नायब सुबेदार	कृष्णदासन टी पी	01.04.2012
203	जेसी378837एल	नायब सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	01.04.2012
204	जेसी379101एल	नायब सुबेदार	मधु सूदन भट्टाचार्य	01.08.2012
205	जेसी379438एन	नायब सुबेदार	महाबीर सिंह	01.04.2012
206	जेसी377874एम	नायब सुबेदार	महेंद्र नाथ यादव	01.07.2012
207	जेसी379501एक्स	नायब सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.05.2012
208	जेसी379427एफ	नायब सुबेदार	महीपाल सिंह	01.04.2012
209	जेसी378377पी	नायब सुबेदार	एम सुनील दत्ताता राओजी	01.02.2012
210	जेसी379328वाइ	नायब सुबेदार	मलय कुमार मोन्डल	01.02.2012
211	जेसी379499एल	नायब सुबेदार	मलूक सिंह	01.05.2012
212	जेसी379797एफ	नायब सुबेदार	मान सिंह	01.07.2012
213	जेसी380549एक्स	नायब सुबेदार	मनोज कुमार सिंह	01.08.2012
214	जेसी379745एल	नायब सुबेदार	मोहर सिंह	01.08.2012
215	जेसी379480एम	नायब सुबेदार	नन्द किशोर प्रसाद	01.07.2012
216	जेसी379100एच	नायब सुबेदार	एन स्वेन	01.08.2012
217	जेसी378383एच	नायब सुबेदार	निताइ चकर्बती	01.03.2012
218	जेसी378982एच	नायब सुबेदार	पी जॉन के	01.06.2012
219	जेसी379206पी	नायब सुबेदार	आर बी	01.04.2012

220	जेसी379357एन	नायब सुबेदार	राय हरन पाल	01.02.2012
221	जेसी379086एफ	नायब सुबेदार	राज कुमार सिंह	01.06.2012
222	जेसी380528एफ	नायब सुबेदार	राज पाल सिंह	01.04.2012
223	जेसी378851एक्स	नायब सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद तिवारी	01.08.2012
224	जेसी378921एल	नायब सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.04.2012
225	जेसी378922एन	नायब सुबेदार	राजेश कुमार सिंह देव	01.08.2012
226	जेसी379355एच	नायब सुबेदार	राम इकबाल सिंह	01.04.2012
227	जेसी378997एल	नायब सुबेदार	राम गोपाल जाट	01.04.2012
228	जेसी380901डब्ल्यू	नायब सुबेदार	राम जस	01.04.2012
229	जेसी379683डब्ल्यू	नायब सुबेदार	राम कुमार सिंह	01.08.2012
230	जेसी379083एन	नायब सुबेदार	राम शिरोमणि शुक्ला	01.03.2012
231	जेसी379503एच	नायब सुबेदार	रामाश्रय चौधरी	01.06.2012
232	जेसी378388एफ	नायब सुबेदार	रमेश चन्द	01.04.2012
233	जेसी379604डब्ल्यू	नायब सुबेदार	रमेश कुमार	01.07.2012
234	जेसी379437एल	नायब सुबेदार	रामजी राय	01.03.2012
235	जेसी379603एन	नायब सुबेदार	राना प्रताप सिन्हा	01.07.2012
236	जेसी379084डब्ल्यू	नायब सुबेदार	आर सिंह यादव	01.04.2012
237	जेसी378454वाइ	नायब सुबेदार	रतिपाल सिंह	01.03.2012
238	जेसी379440एल	नायब सुबेदार	रतन सिंह	01.04.2012
239	जेसी379715एन	नायब सुबेदार	रवि चंद्रन पी	01.02.2012
240	जेसी379358डब्ल्यू	नायब सुबेदार	रूप किशोर शर्मा	01.04.2012
241	जेसी378962पी	नायब सुबेदार	एस श्रीकांत पांडुरंग	01.06.2012
242	जेसी379682एन	नायब सुबेदार	संजय कुमार वर्मा	01.06.2012
243	जेसी379429एम	नायब सुबेदार	सतबीर सिंह	01.04.2012
244	जेसी378625ए	नायब सुबेदार	सत्येन्द्र प्रसाद सिंह	01.02.2012
245	जेसी379861एन	नायब सुबेदार	शिव कुमार सिंह	01.04.2012
246	जेसी378594एल	नायब सुबेदार	शेष मनी पांडे	01.04.2012
247	जेसी379356एल	नायब सुबेदार	एस पाल सिंह	01.04.2012
248	जेसी379753के	नायब सुबेदार	सीता राम राय	01.06.2012
249	जेसी378504वाइ	नायब सुबेदार	एस प्रसाद	01.03.2012
250	जेसी379502ए	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रा कुमार सिंह	01.05.2012
251	जेसी379238एक्स	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.04.2012
252	जेसी378241एल	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.07.2012
253	जेसी379441एन	नायब सुबेदार	सुरेश चन्द	01.04.2012
254	जेसी379684वाइ	नायब सुबेदार	सुरेश प्रसाद	01.08.2012
255	जेसी378006एम	नायब सुबेदार	एस गोहीना	01.02.2012
256	जेसी378366एच	नायब सुबेदार	तापस कुमार मुखोपाध्याय	01.06.2012
257	जेसी378320ए	नायब सुबेदार	टीसी वेंकटेश	01.03.2012
258	जेसी379316के	नायब सुबेदार	तेजवीर गिरि	01.04.2012
259	जेसी380620ए	नायब सुबेदार	टी यादव	01.03.2012
260	जेसी378176डब्ल्यू	नायब सुबेदार	उदय कुमार एपी	01.07.2012
261	जेसी379504एल	नायब सुबेदार	उदया कुमार पी	01.07.2012
262	जेसी379294डब्ल्यू	नायब सुबेदार	उमा शंकर	01.03.2012

263	जेसी378902ए	नायब सुबेदार	वी ईश्वर रेडी	01.08.2012
264	जेसी378746एफ	नायब सुबेदार	विजय सिंह	01.04.2012
265	जेसी378229के	नायब सुबेदार	योगेन्द्रा सिंह	01.02.2012

ब्रिगेड आफ गार्ड्स

266	जेसी404234पी	नायब सुबेदार	अनोप सिंह चौहान	01.08.2012
267	जेसी403956पी	नायब सुबेदार	बाल कष्णन एम	01.05.2012
268	जेसी404290एन	नायब सुबेदार	एच बाबासाहेब कशना	01.08.2012
269	जेसी404427पी	नायब सुबेदार	जनक राय	01.02.2012
270	जेसी404336एल	नायब सुबेदार	मनजीत सिंह राना	01.07.2012
271	जेसी404032एन	नायब सुबेदार	राज नारायण पांडे	01.03.2012
272	जेसी403816एच	नायब सुबेदार	रमेश चंद्रा	01.02.2012
273	जेसी404386डब्ल्यू	नायब सुबेदार	रमेश लाल	01.07.2012

पैराशूट रेजीमेंट

274	जेसी413407एच	नायब सुबेदार	नंदा बल्लभ जोशी	01.05.2012
275	जेसी413438एच	नायब सुबेदार	शिव सिंह	01.04.2012
276	जेसी413406ए	नायब सुबेदार	उत्तातम सिंह	01.04.2012

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेंट

277	जेसी421045एफ	नायब सुबेदार	ए कुमार एसके.	01.05.2012
278	जेसी421444एल	नायब सुबेदार	अशोक कुमार	01.03.2012
279	जेसी421050एम	नायब सुबेदार	भूवन चंद्रा	01.06.2012
280	जेसी421463डब्ल्यू	नायब सुबेदार	चमन लाल	01.05.2012
281	जेसी421151ए	नायब सुबेदार	दामोदर लेनका	01.07.2012
282	जेसी421044वाइ	नायब सुबेदार	देविन्द्र सिंह	01.05.2012
283	जेसी421149एच	नायब सुबेदार	गंगा पुरी	01.07.2012
284	जेसी421194पी	नायब सुबेदार	जगदीश	01.07.2012
285	जेसी421048पी	नायब सुबेदार	कालिका प्रसाद पाल	01.06.2012
286	जेसी421192के	नायब सुबेदार	कष्णन कुमार	01.04.2012
287	जेसी421150एक्स	नायब सुबेदार	कष्णन कुमार तिवारी	01.07.2012
288	जेसी421148ए	नायब सुबेदार	कुलदीप सिंह	01.06.2012
289	जेसी421193एम	नायब सुबेदार	मोहम्मद अकरम अल्ली	01.07.2012
290	जेसी421046के	नायब सुबेदार	पोख पाल	01.05.2012
291	जेसी421415डब्ल्यू	नायब सुबेदार	प्रभाकर प्रसाद गुप्ता	01.06.2012
292	जेसी421270डब्ल्यू	नायब सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.05.2012
293	जेसी421309एक्स	नायब सुबेदार	रमा शंकर प्रसाद	01.05.2012
294	जेसी421092वाइ	नायब सुबेदार	रणधीर सिंह	01.06.2012
295	जेसी421091डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सतबीर	01.05.2012
296	जेसी421090एन	नायब सुबेदार	सुरेन्द्र सिंह	01.07.2012

297	जेसी421297एन <u>पंजाब रेजीमेंट</u>	नायब सुबेदार	विवेन्द्र कुमार तिवारी	01.08.2012
298	जेसी430624पी	नायब सुबेदार	गुरमुख सिंह	01.06.2012
299	जेसी430687एक्स	नायब सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.08.2012
300	जेसी430625एक्स <u>मद्रास रेजीमेंट</u>	नायब सुबेदार	रंजीत सिंह	01.07.2012
301	जेसी309637के	नायब सुबेदार	बेबी के एन	01.06.2012
302	जेसी309514एक्स	नायब सुबेदार	जयसीलन सी	01.02.2012
303	जेसी309515ए	नायब सुबेदार	आर रवि कुमार	01.02.2012
304	जेसी440176एफ <u>ग्रेनेडियर्स</u>	नायब सुबेदार	थोटा चिन्ना पीरीयाह	01.08.2012
305	जेसी450814एच	नायब सुबेदार	चून सिंह	01.02.2012
306	जेसी450622एल	नायब सुबेदार	गोपाल सिंह ठाकुर	01.06.2012
307	जेसी450386पी <u>मराठा लघु सेना</u>	नायब सुबेदार	सुभाष चन्द भनवाल	01.06.2012
308	जेसी459879एक्स	नायब सुबेदार	गवस गंगाराम विष्णु	01.04.2012
309	जेसी460099वाइ <u>राजपूताना राईफल्स</u>	नायब सुबेदार	मोहन लाल	01.07.2012
310	जेसी470152एम	नायब सुबेदार	बी सिंह	01.02.2012
311	जेसी470598एफ	नायब सुबेदार	दीप चन्द	01.06.2012
312	जेसी470361के	नायब सुबेदार	कप्तान सिंह राजपूत	01.02.2012
313	जेसी470287एन	नायब सुबेदार	श्री पाल सिंह	01.08.2012
314	जेसी470387वाइ <u>राजपूत रेजीमेंट</u>	नायब सुबेदार	सुरेश चंद्रा	01.03.2012
315	जेसी480331ए	नायब सुबेदार	हनुमंत कुमार द्विवेदी	01.07.2012
316	जेसी480289एम	नायब सुबेदार	जगवीर सिंह	01.08.2012
317	जेसी480286वाइ	नायब सुबेदार	मान मोहन सिंह	01.07.2012
318	जेसी480285डब्ल्यू	नायब सुबेदार	प्रमोद कुमार	01.08.2012
319	जेसी480365एन	नायब सुबेदार	रूप सिंह	01.07.2012
320	जेसी480233ए	नायब सुबेदार	श्यामानंद सी	01.08.2012
321	जेसी480539एच <u>जाट रेजीमेंट</u>	नायब सुबेदार	एस सिंह	01.05.2012
322	जेसी490440ए	नायब सुबेदार	गोबिंदा दास	01.08.2012

323	जेसी490279डब्ल्यू <u>सिख रेजीमेंट</u>	नायब सुबेदार	प्रेम सिंह	01.06.2012
324	जेसी500174एच	नायब सुबेदार	गुरदेव सिंह	01.07.2012
325	जेसी499953डब्ल्यू <u>सिख लघु पैदल सेना</u>	नायब सुबेदार	मंगल सिंह	01.08.2012
326	जेसी509817डब्ल्यू	नायब सुबेदार	बी सिंह	01.04.2012
327	जेसी509909एच	नायब सुबेदार	जागीर सिंह	01.04.2012
328	जेसी509630के	नायब सुबेदार	निरंजन सिंह	01.04.2012
329	जेसी509650एक्स	नायब सुबेदार	श्रवण सिंह	01.04.2012
330	जेसी509913एल <u>डोयरा रेजीमेंट</u>	नायब सुबेदार	तरसेम सिंह	01.04.2012
331	जेसी521094वाइ	नायब सुबेदार	गनेश लाल	01.04.2012
332	जेसी521256वाइ <u>गढ़वाल राईफल्स</u>	नायब सुबेदार	राज कुमार	01.05.2012
333	जेसी530375डब्ल्यू	नायब सुबेदार	भरत सिंह	01.06.2012
334	जेसी530700एल	नायब सुबेदार	दीपक कुमार	01.03.2012
335	जेसी530502ए	नायब सुबेदार	दुविजय सिंह	01.04.2012
336	जेसी530728एल	नायब सुबेदार	जगमोहन सिंह रावत	01.08.2012
337	जेसी430211ए	नायब सुबेदार	नाथा सिंह	01.04.2012
338	जेसी530674पी	नायब सुबेदार	संगम सिंह	01.03.2012
339	जेसी530544एम	नायब सुबेदार	सते सिंह	01.04.2012
340	जेसी530735एफ	नायब सुबेदार	शोभनाथ यादव	01.07.2012
341	जेसी530658एक्स <u>कुर्माँउ रेजीमेंट</u>	नायब सुबेदार	विक्रम सिंह भंडारी	01.03.2012
342	जेसी540729एफ	नायब सुबेदार	देब सिंह	01.03.2012
343	जेसी540667एम	नायब सुबेदार	गनेश चंद्रा पंत	01.08.2012
344	जेसी540500एच	नायब सुबेदार	गोविंद बल्लभ	01.03.2012
345	जेसी540744डब्ल्यू	नायब सुबेदार	गोविंद बल्लभ	01.03.2012
346	जेसी540529एल	नायब सुबेदार	गोविंद सिंह खाती	01.02.2012
347	जेसी540308वाइ	नायब सुबेदार	गुर्विन्दर सिंह	01.08.2012
348	जेसी540475पी	नायब सुबेदार	जगदेव यादव	01.05.2012
349	जेसी540626वाइ	नायब सुबेदार	राधे श्याम यादवा	01.05.2012
350	जेसी540651एफ	नायब सुबेदार	उत्तातम सिंह चौहान	01.08.2012

आसाम रेजीमेंट

351	जेसी549844एच	नायब सुबेदार	बसंत राम	01.03.2012
352	जेसी549887एक्स	नायब सुबेदार	एल एन कोनयाक	01.03.2012
353	जेसी549524एन	नायब सुबेदार	मानिक देब बर्मा	01.02.2012

बिहार रेजीमेंट

354	जेसी560071एन	नायब सुबेदार	हरी शंकर यादव	01.02.2012
355	जेसी560272एम	नायब सुबेदार	मोडे भगत	01.06.2012
356	जेसी560171वाइ	नायब सुबेदार	श्याम कुमार पांडे	01.05.2012

महार रेजीमेंट

357	जेसी570216एफ	नायब सुबेदार	बोधू राम	01.03.2012
358	जेसी570119के	नायब सुबेदार	धानावादे मनोहर युवराज	01.08.2012
359	जेसी570167के	नायब सुबेदार	कारंदे रमेश काशिनाथ	01.03.2012
360	जेसी570249एम	नायब सुबेदार	मोरे बालू मोगल	01.04.2012
361	जेसी570401पी	नायब सुबेदार	राम केवल सिंह कुशवाहा	01.07.2012

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

362	जेसी580634के	नायब सुबेदार	देश राज शर्मा	01.03.2012
363	जेसी581092एक्स	नायब सुबेदार	धर्मेश छत्री	01.07.2012
364	जेसी580921एन	नायब सुबेदार	हुम राज गुरंग	01.04.2012
365	जेसी581027एक्स	नायब सुबेदार	प्रणव थापा	01.05.2012

लधदाख स्काउट

366	जेसी588497एल	नायब सुबेदार	छेरिंग जी.	01.03.2012
367	जेसी588510के	नायब सुबेदार	सकाराम छेरिंग	01.04.2012

नागा रेजीमेंट

368	जेसी590207एफ	नायब सुबेदार	भीम बहादुर	01.02.2012
369	जेसी590205डब्ल्यू	नायब सुबेदार	शेर बहादुर	01.02.2012

1 गोरखा राईफल्स

370	जेसी602845पी	नायब सुबेदार	तेज राम	01.07.2012
-----	--------------	--------------	---------	------------

4 गोरखा राईफल्स

371	जेसी421010एल	नायब सुबेदार	हरबंस सिंह	01.05.2012
-----	--------------	--------------	------------	------------

8 गोरखा राईफल्स

372	जेसी623916वाइ	नायब सुबेदार	टीआईके बहादुर पी	01.03.2012
-----	---------------	--------------	------------------	------------

**11 गोरखा राईफल्स**

373	जेसी634832एल	नायब सुबेदार	गोरख नाथ	01.03.2012
374	जेसी634874एक्स सेना सेवा कोर दक्षिण	नायब सुबेदार	महेश कुमार लिम्बू	01.02.2012
375	जेसी665755एच	नायब सुबेदार	अरुण कुमार प्रसाद	01.02.2012
376	जेसी665452एन	नायब सुबेदार	अशवनी कुमार	01.04.2012
377	जेसी665855एन	नायब सुबेदार	अवधेश कुमार सिंह	01.06.2012
378	जेसी665494ए	नायब सुबेदार	बब्बन यादव	01.04.2012
379	जेसी665757एन	नायब सुबेदार	बच्छा सिंह	01.03.2012
380	जेसी665828के	नायब सुबेदार	बहादुर सिंह	01.07.2012
381	जेसी665015एन	नायब सुबेदार	बाममीदी हरी कृष्णा	01.07.2012
382	जेसी668052एम	नायब सुबेदार	भीसे संजय पटलू	01.08.2012
383	जेसी665355डब्ल्यू	नायब सुबेदार	बिश्नू दयाल सिंह	01.03.2012
384	जेसी665785ए	नायब सुबेदार	बृज पाल सिंह	01.02.2012
385	जेसी667331एल	नायब सुबेदार	बूटा राम	01.08.2012
386	जेसी665532एल	नायब सुबेदार	चतर सिंह गुर्जर	01.07.2012
387	जेसी665895पी	नायब सुबेदार	चव्हाण सुरेश जलिन्दर	01.02.2012
388	जेसी665756एल	नायब सुबेदार	दामोर बी भाई मंगा भाई	01.08.2012
389	जेसी665721पी	नायब सुबेदार	देव राज	01.04.2012
390	जेसी668030एन	नायब सुबेदार	दिलीप कुमार मोन्दल	01.03.2012
391	जेसी664785एन	नायब सुबेदार	दीना नाथ राम	01.03.2012
392	जेसी665787एल	नायब सुबेदार	ई एंथनी सामी	01.06.2012
393	जेसी665414एक्स	नायब सुबेदार	फतेह सिंह	01.03.2012
394	जेसी665356वाइ	नायब सुबेदार	गजराज सिंह	01.03.2012
395	जेसी665536एफ	नायब सुबेदार	गनेश प्रसाद	01.06.2012
396	जेसी666001ए	नायब सुबेदार	घान श्याम सिंह	01.03.2012
397	जेसी665528एच	नायब सुबेदार	हनुमान सिंह	01.03.2012
398	जेसी665447एच	नायब सुबेदार	हरे राम सिंह	01.03.2012
399	जेसी665761डब्ल्यू	नायब सुबेदार	इन्द्रा सिंह रावत	01.02.2012
400	जेसी664605ए	नायब सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.04.2012
401	जेसी665715एफ	नायब सुबेदार	जनक सिंह	01.03.2012
402	जेसी664244एम	नायब सुबेदार	जसदेव सिंह	01.08.2012
403	जेसी665336एल	नायब सुबेदार	कामिनी मोहन सिंघा	01.06.2012
404	जेसी665861एफ	नायब सुबेदार	करादे बालाराम लक्ष्मन	01.02.2012
405	जेसी667300एल	नायब सुबेदार	कुलकणी ए मानिक	01.03.2012
406	जेसी665711एल	नायब सुबेदार	लक्ष्मी प्रसाद कन्देल	01.07.2012
407	जेसी665574एक्स	नायब सुबेदार	महेंद्र प्रसाद यादव	01.04.2012
408	जेसी665676एन	नायब सुबेदार	माही पाल सिंह	01.03.2012

409	जेसी665843वाइ	नायब सुबेदार	मनोहर लाल	01.07.2012
410	जेसी667808पी	नायब सुबेदार	मनोज कुमार	01.07.2012
411	जेसी665760एन	नायब सुबेदार	मूसा कोया टी के	01.02.2012
412	जेसी665893के	नायब सुबेदार	नाबा कुमार सरकार	01.05.2012
413	जेसी665989एम	नायब सुबेदार	नाहर सिंह जाट	01.07.2012
414	जेसी665441एफ	नायब सुबेदार	नूरुल हुक चौधुरी	01.06.2012
415	जेसी667092एफ	नायब सुबेदार	ओ पिल्लई केपी	01.07.2012
416	जेसी667645एम	नायब सुबेदार	पदाल्कर धानाजी दाजी	01.08.2012
417	जेसी664089डब्ल्यू	नायब सुबेदार	पद्मा राम टी	01.06.2012
418	जेसी665537के	नायब सुबेदार	परशु राम सिंह	01.04.2012
419	जेसी664800एक्स	नायब सुबेदार	प्रताप चन्द	01.03.2012
420	जेसी665784एक्स	नायब सुबेदार	प्रेमा राम	01.06.2012
421	जेसी665724एच	नायब सुबेदार	राधा श्याम रौय	01.06.2012
422	जेसी664568एक्स	नायब सुबेदार	राम बहादुर सौ	01.03.2012
423	जेसी665606पी	नायब सुबेदार	राम गोपाल	01.03.2012
424	जेसी665481एम	नायब सुबेदार	राम कुमार	01.04.2012
425	जेसी665475पी	नायब सुबेदार	राम पाल	01.07.2012
426	जेसी665914पी	नायब सुबेदार	राम प्रसाद	01.07.2012
427	जेसी665866ए	नायब सुबेदार	राम पुकार महतो	01.07.2012
428	जेसी667335एफ	नायब सुबेदार	रामआधार सिंह यादव	01.07.2012
429	जेसी665613एल	नायब सुबेदार	रमेश चंद्र	01.04.2012
430	जेसी665632डब्ल्यू	नायब सुबेदार	रवीन्द्र कुमार तिवारी	01.07.2012
431	जेसी665937डब्ल्यू	नायब सुबेदार	रोहितासवा यादव	01.07.2012
432	जेसी667024एन	नायब सुबेदार	सनप दिनकर महादु	01.04.2012
433	जेसी664813पी	नायब सुबेदार	सतीश चंद्रा	01.04.2012
434	जेसी665725एल	नायब सुबेदार	शिव प्रसाद रौय	01.06.2012
435	जेसी665928पी	नायब सुबेदार	शिव नंदन यादव	01.05.2012
436	जेसी665541एम	नायब सुबेदार	एस प्रसाद रबिदास	01.05.2012
437	जेसी668025एच	नायब सुबेदार	सुखविन्दर सिंह	01.08.2012
438	जेसी665483एन	नायब सुबेदार	सूरज भान	01.04.2012
439	जेसी665666के	नायब सुबेदार	सुरेश चन्द	01.07.2012
440	जेसी665898एच	नायब सुबेदार	सुरेश सिंह	01.03.2012
441	जेसी667305के	नायब सुबेदार	टी अशोकन	01.04.2012
442	जेसी665622एम	नायब सुबेदार	त्रिलोचन जोशी	01.07.2012
443	जेसी665707एच	नायब सुबेदार	उत्तातम कुमार घोष	01.03.2012
444	जेसी665109एल	नायब सुबेदार	वेद प्रकाश शर्मा	01.07.2012
445	जेसी667207के	नायब सुबेदार	वीएस मरिमुथु	01.04.2012
446	जेसी667056डब्ल्यू	नायब सुबेदार	वाइ सैयद कामिल	01.04.2012
447	जेसी665531एच	नायब सुबेदार	योगेश्वर सिंह	01.05.2012



सेना सेवा कोर जन्तु परिवाहन

448	जेसी681166डब्ल्यू	नायब रिसालदार	अब्दुल गफूर केके	01.06.2012
449	जेसी681111एम	नायब रिसालदार	ए चौधरी	01.07.2012
450	जेसी681109पी	नायब रिसालदार	भगवान सिंह	01.03.2012
451	जेसी681204एफ	नायब रिसालदार	चंद्रा शेखर आज़ाद	01.07.2012
452	जेसी681104डब्ल्यू	नायब रिसालदार	हसमत अली	01.03.2012
453	जेसी681105वाइ	नायब रिसालदार	जय प्रकाश सिंह	01.03.2012
454	जेसी681121डब्ल्यू	नायब रिसालदार	जितेन्द्र सिंह	01.03.2012
455	जेसी681224पी	नायब रिसालदार	के जी.	01.06.2012
456	जेसी681018एल	नायब रिसालदार	नारायण विश्वास	01.05.2012
457	जेसी681165एन	नायब रिसालदार	नरेन्द्रा सिंह	01.06.2012
458	जेसी681230एच	नायब रिसालदार	पारस नाथ पांडे	01.06.2012
459	जेसी681205के	नायब रिसालदार	प्रसांत कुमार विश्वास	01.07.2012
460	जेसी681152डब्ल्यू	नायब रिसालदार	राजेंद्रा कुमार	01.04.2012
461	जेसी681203वाइ	नायब रिसालदार	राम औतार सिंह	01.06.2012
462	जेसी681052एल	नायब रिसालदार	रोबिन बरुयह	01.08.2012
463	जेसी681181एल	नायब रिसालदार	सुदर्शन यदव	01.03.2012
464	जेसी681141के	नायब रिसालदार	सुरेश प्रसाद शर्मा	01.05.2012
465	जेसी681073एच	नायब रिसालदार	वेंकट	01.08.2012
466	जेसी681150एल	नायब रिसालदार	विनोद कुमार	01.07.2012

सेना चिकित्सा कोर

467	जेसी694360के	नायब सुबेदार	ए कुमार मिश्रा	01.04.2012
468	जेसी697373एम	नायब सुबेदार	अनिल कुमार ओझा	01.06.2012
469	जेसी695888एन	नायब सुबेदार	अरुण कुमार सिंह	01.03.2012
470	जेसी697515वाइ	नायब सुबेदार	अतुल प्रकाश शुक्ला	01.08.2012
471	जेसी696906एक्स	नायब सुबेदार	बाबुल कृष्णा दास	01.06.2012
472	जेसी697146एम	नायब सुबेदार	बसंता कुमार दास	01.08.2012
473	जेसी696584एच	नायब सुबेदार	बसंता राजबोंगशी	01.05.2012
474	जेसी696630एम	नायब सुबेदार	भृगु नाथ तिवारी	01.04.2012
475	जेसी695589पी	नायब सुबेदार	बिकाश चंद्रा माझी	01.03.2012
476	जेसी697058डब्ल्यू	नायब सुबेदार	बिरेन्द्रा शाही	01.02.2012
477	जेसी697233ए	नायब सुबेदार	बृज किशोर द्विवेदी	01.08.2012
478	जेसी694925के	नायब सुबेदार	बुधीन चंद्रा दास	01.07.2012
479	जेसी696778एल	नायब सुबेदार	चर्का सुदर्शन मिश्रा	01.08.2012
480	जेसी697437एम	नायब सुबेदार	चंद्रपाल सिंह	01.06.2012
481	जेसी696424एच	नायब सुबेदार	चितरन्जन नंदी	01.07.2012
482	जेसी697001एफ	नायब सुबेदार	दलजीत सिंह	01.04.2012
483	जेसी697295ए	नायब सुबेदार	दामोदर प्रसाद	01.07.2012

484	जेसी696914डब्ल्यू	नायब सुबेदार	दरवान सिंह	01.03.2012
485	जेसी696777एच	नायब सुबेदार	देव नारायण सिंह	01.07.2012
486	जेसी697110एन	नायब सुबेदार	देवी दत्त	01.02.2012
487	जेसी695866पी	नायब सुबेदार	गंगा दीन	01.03.2012
488	जेसी697171एल	नायब सुबेदार	गौतम पौल	01.08.2012
489	जेसी696776ए	नायब सुबेदार	जोर्ज सी के	01.07.2012
490	जेसी697147पी	नायब सुबेदार	गोपाल सिंह नेगी	01.08.2012
491	जेसी697231पी	नायब सुबेदार	जगपाल प्रसाद शुक्ला	01.04.2012
492	जेसी696853के	नायब सुबेदार	जय भंगवान	01.02.2012
493	जेसी697142डब्ल्यू	नायब सुबेदार	के चंद्रन	01.08.2012
494	जेसी697017एम	नायब सुबेदार	के सिवा कुमार	01.08.2012
495	जेसी696240के	नायब सुबेदार	काम्बले प्रभाकर अन्नप्पा	01.03.2012
496	जेसी697048एम	नायब सुबेदार	के राम यादव	01.08.2012
497	जेसी696889एच	नायब सुबेदार	कृष्णा प्रसाद	01.02.2012
498	जेसी697518एम	नायब सुबेदार	लक्ष्मन महादेव इंग्ले	01.05.2012
499	जेसी694924एफ	नायब सुबेदार	मान मोहन सिंह	01.02.2012
500	जेसी697421एफ	नायब सुबेदार	माने विलास बी	01.04.2012
501	जेसी697481डब्ल्यू	नायब सुबेदार	मोहम्मद निजामुद्दीन	01.05.2012
502	जेसी697042एल	नायब सुबेदार	एम लश्कर	01.08.2012
503	जेसी697019एक्स	नायब सुबेदार	मोहन लाल	01.08.2012
504	जेसी695358वाइ	नायब सुबेदार	मोहानन पिल्लई बी	01.03.2012
505	जेसी697216ए	नायब सुबेदार	मुरारी लाल	01.07.2012
506	जेसी697004पी	नायब सुबेदार	नामवर सिंह	01.06.2012
507	जेसी696406ए	नायब सुबेदार	नरेन्द्रा सिंह	01.02.2012
508	जेसी697455पी	नायब सुबेदार	एन कुमार सिंह	01.05.2012
509	जेसी697051एम	नायब सुबेदार	पाटिल गणपति	01.02.2012
510	जेसी697020एम	नायब सुबेदार	पी गुप्ता	01.08.2012
511	जेसी696687एफ	नायब सुबेदार	राज सिंह	01.04.2012
512	जेसी697145के	नायब सुबेदार	राजा भिया यादव	01.05.2012
513	जेसी697105एच	नायब सुबेदार	राजेंद्रा कुमार	01.04.2012
514	जेसी696955ए	नायब सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.07.2012
515	जेसी697229एक्स	नायब सुबेदार	राजू जी.	01.04.2012
516	जेसी697018पी	नायब सुबेदार	राजवीर सिंह यादव	01.08.2012
517	जेसी696779एन	नायब सुबेदार	राम बदन मिश्रा	01.08.2012
518	जेसी697230एम	नायब सुबेदार	राम बी सिंह	01.05.2012
519	जेसी696369एक्स	नायब सुबेदार	रमा कांत विश्वाकमा	01.07.2012
520	जेसी697296एच	नायब सुबेदार	समानुज शर्मा	01.02.2012
521	जेसी696547पी	नायब सुबेदार	रमेश चंद्र मिश्रा	01.08.2012
522	जेसी696201एल	नायब सुबेदार	रनबीर सिंह	01.02.2012
523	जेसी697021पी	नायब सुबेदार	सबले अशोक नारायण राव	01.08.2012

524	जेसी696686वाइ	नायब सुबेदार	सतेंद्र सिंह	01.07.2012
525	जेसी697127एफ	नायब सुबेदार	सतपाल सिंह	01.04.2012
526	जेसी697418एफ	नायब सुबेदार	शचीन्द्र प्रसाद सिंह	01.02.2012
527	जेसी693936के	नायब सुबेदार	एस एस	01.08.2012
528	जेसी697116पी	नायब सुबेदार	सिकंदर सिंह	01.02.2012
529	जेसी696771एफ	नायब सुबेदार	सुधीनदरन पिल्लई पी	01.07.2012
530	जेसी697007एच	नायब सुबेदार	सुनील कुमार सरकार	01.03.2012
531	जेसी696780एच	नायब सुबेदार	सुरेंद्र प्रकाश	01.08.2012
532	जेसी696407एच	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.03.2012
533	जेसी697232एक्स	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.06.2012
534	जेसी697423एम	नायब सुबेदार	सूरजा भान सिंह	01.06.2012
535	जेसी696999एक्स	नायब सुबेदार	स्वप्न कुमार बेरा	01.07.2012
536	जेसी696094पी	नायब सुबेदार	उमा शंकर तिवारी	01.04.2012
537	जेसी696942एच	नायब सुबेदार	उमेश प्रसाद	01.04.2012
538	जेसी696998पी	नायब सुबेदार	उत्पल कोनर	01.07.2012

सेना आयुध कोर

539	जेसी728955डब्ल्यू	नायब सुबेदार	आनंदा राम बी	01.03.2012
540	जेसी728552डब्ल्यू	नायब सुबेदार	अर्विन्द कुमार यादव	01.02.2012
541	जेसी727406के	नायब सुबेदार	अशवनी कुमार	01.06.2012
542	जेसी728233के	नायब सुबेदार	बाल राज सिंह	01.03.2012
543	जेसी728091एक्स	नायब सुबेदार	बलबीर सिंह	01.04.2012
544	जेसी728120एफ	नायब सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह नरवारिया	01.05.2012
545	जेसी728746वाइ	नायब सुबेदार	सी सारंगा पानी	01.04.2012
546	जेसी729032एक्स	नायब सुबेदार	सी सुब्बू राज	01.08.2012
547	जेसी727120पी	नायब सुबेदार	चम्पक कुमार दास	01.04.2012
548	जेसी728087पी	नायब सुबेदार	दल बहादुर पी भैया	01.08.2012
549	जेसी728247के	नायब सुबेदार	धर्म बीर सिंह	01.03.2012
550	जेसी728036एफ	नायब सुबेदार	धर्म नारायण पांडे	01.02.2012
551	जेसी727730एफ	नायब सुबेदार	धरूव नारायण तिवारी	01.05.2012
552	जेसी729030एम	नायब सुबेदार	डी. वारा हालू	01.08.2012
553	जेसी728931एम	नायब सुबेदार	दुर्गा दास	01.07.2012
554	जेसी728930के	नायब सुबेदार	गायकवाड देव राम हरिभाउ	01.07.2012
555	जेसी728978एक्स	नायब सुबेदार	गजानन नारायण श्रीनाथ	01.02.2012
556	जेसी728099के	नायब सुबेदार	गण बहादुर थापा	01.02.2012
557	जेसी727389पी	नायब सुबेदार	गिरीश बाबू यादव	01.08.2012
558	जेसी728890एन	नायब सुबेदार	गोविंद सिंह	01.06.2012
559	जेसी728319एच	नायब सुबेदार	गोपा कुमार एस	01.04.2012
560	जेसी728549डब्ल्यू	नायब सुबेदार	गोपाल	01.03.2012
561	जेसी728270एक्स	नायब सुबेदार	गोपाल लाल मीना	01.08.2012

562	जेसी727555एक्स	नायब सुबेदार	हरे कृष्णा घोष	01.06.2012
563	जेसी728278के	नायब सुबेदार	हृदया नारायण राय	01.02.2012
564	जेसी728380एम	नायब सुबेदार	जगदीश सिंह	01.05.2012
565	जेसी728267एक्स	नायब सुबेदार	जोज़ चेरिअन	01.05.2012
566	जेसी727905वाइ	नायब सुबेदार	खरादी मगन भाई कामजी भाई	01.06.2012
567	जेसी728621एफ	नायब सुबेदार	कष्णन दत्त शर्मा	01.05.2012
568	जेसी728905एल	नायब सुबेदार	कुमार अर्विन्द त्रिवेदी	01.07.2012
569	जेसी728038एम	नायब सुबेदार	लाल बाबू सिंह	01.03.2012
570	जेसी728655पी	नायब सुबेदार	मनिमोहन विश्वास	01.06.2012
571	जेसी728837एच	नायब सुबेदार	एम प्रसाद शुक्ला	01.04.2012
572	जेसी728409के	नायब सुबेदार	मोहम्मद साबिर अंसारी	01.04.2012
573	जेसी728166के	नायब सुबेदार	मोहम्मद सरफुद्दीन	01.06.2012
574	जेसी729116एल	नायब सुबेदार	मोहम्मद जमील खान	01.04.2012
575	जेसी728041एम	नायब सुबेदार	मुरारी लाल	01.06.2012
576	जेसी728095एन	नायब सुबेदार	नागनाथ मारुति गायकवाड	01.05.2012
577	जेसी380515के	नायब सुबेदार	नन्द किशोर	01.07.2012
578	जेसी728622के	नायब सुबेदार	नन्द लाल राम	01.05.2012
579	जेसी728921एच	नायब सुबेदार	पाटिल नामा देव	01.06.2012
580	जेसी728034डब्ल्यू	नायब सुबेदार	फूल सिंह	01.08.2012
581	जेसी728268ए	नायब सुबेदार	प्रभा शंकर दुबे	01.06.2012
582	जेसी728213डब्ल्यू	नायब सुबेदार	प्रदीप जी.	01.07.2012
583	जेसी728957एफ	नायब सुबेदार	आर बी एस शिवनाथ	01.07.2012
584	जेसी728595एल	नायब सुबेदार	रघु नंदन चौहान	01.06.2012
585	जेसी728811एन	नायब सुबेदार	रघु नाथ सिंह	01.06.2012
586	जेसी728246एफ	नायब सुबेदार	राज नारायण सिंह यादव	01.04.2012
587	जेसी728207एच	नायब सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.02.2012
588	जेसी728886एल	नायब सुबेदार	राम लखन यादव	01.07.2012
589	जेसी728722पी	नायब सुबेदार	राम पाल	01.06.2012
590	जेसी727361पी	नायब सुबेदार	राम प्रताप	01.05.2012
591	जेसी727184ए	नायब सुबेदार	रमेश चंद्रा	01.07.2012
592	जेसी728542एम	नायब सुबेदार	रमेश कुमार	01.04.2012
593	जेसी728127एल	नायब सुबेदार	रामफल	01.05.2012
594	जेसी729017एच	नायब सुबेदार	रतन लाल	01.06.2012
595	जेसी728551एन	नायब सुबेदार	साबू पीएस	01.04.2012
596	जेसी728558एक्स	नायब सुबेदार	सदानन्द कुमार मेहता	01.07.2012
597	जेसी728721एम	नायब सुबेदार	सतबीर सिंह	01.07.2012
598	जेसी728254ए	नायब सुबेदार	शैलेश कुमार सिंह	01.05.2012
599	जेसी728090पी	नायब सुबेदार	शीश राम नेहरा	01.04.2012
600	जेसी728906एन	नायब सुबेदार	शेष नाथ दीक्षित	01.08.2012
601	जेसी728167एम	नायब सुबेदार	सुबाष शर्मा	01.07.2012

602	जेसी728341एन	नायब सुबेदार	सुभास चंद्रा पौल	01.03.2012
603	जेसी728410वाइ	नायब सुबेदार	सुभाष	01.06.2012
604	जेसी728119एम	नायब सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	01.04.2012
605	जेसी727968एफ	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.06.2012
606	जेसी728550एल	नायब सुबेदार	सुवेश सी	01.06.2012
607	जेसी728537एफ	नायब सुबेदार	त्रिलोचन सिंह	01.04.2012
608	जेसी727394ए	नायब सुबेदार	टी कुमार घोष	01.04.2012
609	जेसी728054के	नायब सुबेदार	विजय बहादुर सिंह यादवा	01.07.2012
610	जेसी728260एन	नायब सुबेदार	विजया कुमार जी.	01.06.2012
611	जेसी729683एन	नायब सुबेदार	वाइ हरी बाबू	01.08.2012
<u>गेर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स</u>				

612	जेसी764661एन	नायब सुबेदार	ए अवलसिथू	01.03.2012
613	जेसी763738वाइ	नायब सुबेदार	अहीवारन सिंह	01.05.2012
614	जेसी761212एन	नायब सुबेदार	अनिल कुमार	01.08.2012
615	जेसी765063एच	नायब सुबेदार	अर्जुन प्रसाद	01.05.2012
616	जेसी765071एफ	नायब सुबेदार	अरोकिया दास एम	01.08.2012
617	जेसी762797वाइ	नायब सुबेदार	अशोक कुमार पाल	01.05.2012
618	जेसी764017एफ	नायब सुबेदार	बाबू राव स्वामी	01.02.2012
619	जेसी762804के	नायब सुबेदार	बलबीर सिंह	01.04.2012
620	जेसी764260वाइ	नायब सुबेदार	बालीराम प्रसाद	01.02.2012
621	जेसी765076ए	नायब सुबेदार	बी प्रसाद पाठक	01.08.2012
622	जेसी761644एच	नायब सुबेदार	भागीरथ सिंह	01.08.2012
623	जेसी765072के	नायब सुबेदार	डी. हुसैन बरभुईया	01.08.2012
624	जेसी761211एल	नायब सुबेदार	दरवान सिंह	01.05.2012
625	जेसी765075एक्स	नायब सुबेदार	देवेंद्र सिंह	01.08.2012
626	जेसी761540एफ	नायब सुबेदार	दिलीप कुमार मिर्धा	01.08.2012
627	जेसी764582वाइ	नायब सुबेदार	दीना नाथ सिंह	01.02.2012
628	जेसी764021के	नायब सुबेदार	दिनेश्वर गुलाब सिंह वर्मा	01.03.2012
629	जेसी763955पी	नायब सुबेदार	दुर्लव दास	01.02.2012
630	जेसी762555डब्ल्यू	नायब सुबेदार	गंगा मोहन	01.05.2012
631	जेसी761016एन	नायब सुबेदार	जी. सिंह यादव	01.08.2012
632	जेसी764617के	नायब सुबेदार	गोपी रमन	01.02.2012
633	जेसी764018के	नायब सुबेदार	गोविंदराजू एम	01.04.2012
634	जेसी764330एम	नायब सुबेदार	जी. खान	01.04.2012
635	जेसी765026पी	नायब सुबेदार	हंस राज	01.06.2012
636	जेसी764619पी	नायब सुबेदार	हंसा दत्त	01.04.2012
637	जेसी763146पी	नायब सुबेदार	हरी लाल प्रसाद	01.03.2012
638	जेसी761518डब्ल्यू	नायब सुबेदार	हरीश चंद्र	01.06.2012
639	जेसी760792एफ	नायब सुबेदार	हरीश गिरि गोरवामी	01.04.2012

640	जेसी763181एक्स	नायब सुबेदार	होम प्रकाश जी.	01.07.2012
641	जेसी764656एच	नायब सुबेदार	इन्द्रा भूषण कुमार	01.08.2012
642	जेसी764981एच	नायब सुबेदार	जयबीर दास	01.07.2012
643	जेसी763844एक्स	नायब सुबेदार	जमालुद्दीन बी	01.06.2012
644	जेसी761594एच	नायब सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.01.2012
645	जेसी764660एल	नायब सुबेदार	कमलेश कुमार	01.03.2012
646	जेसी765062ए	नायब सुबेदार	खांडेकर निन्प्पा आबा	01.07.2012
647	जेसी765910एन	नायब सुबेदार	के पी	01.04.2012
648	जेसी763163पी	नायब सुबेदार	के अली शेख	01.05.2012
649	जेसी764873वाइ	नायब सुबेदार	ललता प्रसाद सिंह	01.08.2012
650	जेसी764618एम	नायब सुबेदार	एम झा	01.04.2012
651	जेसी764613एन	नायब सुबेदार	महेंद्र नाथ	01.02.2012
652	जेसी763274एम	नायब सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.08.2012
653	जेसी765074पी	नायब सुबेदार	महेंद्र सिंह गुर्जर	01.08.2012
654	जेसी764624ए	नायब सुबेदार	मल्कीत सिंह	01.02.2012
655	जेसी765619एफ	नायब सुबेदार	मान सिंह रावत	01.06.2012
656	जेसी764202पी	नायब सुबेदार	मनमोहन मिश्रा	01.03.2012
657	जेसी764921एन	नायब सुबेदार	मोहम्मद मोतियार रहमान	01.06.2012
658	जेसी764579वाइ	नायब सुबेदार	मिथलेश कुमार	01.02.2012
659	जेसी764127डब्ल्यू	नायब सुबेदार	मोहन सिंघा	01.06.2012
660	जेसी761294एफ	नायब सुबेदार	मोहानन ए	01.08.2012
661	जेसी764614डब्ल्यू	नायब सुबेदार	मोती चन्द	01.03.2012
662	जेसी763078एम	नायब सुबेदार	मुन्ना लाल	01.03.2012
663	जेसी763892एक्स	नायब सुबेदार	मुरलीधरन एस	01.03.2012
664	जेसी763890एम	नायब सुबेदार	नरेन च. दास	01.02.2012
665	जेसी763636एच	नायब सुबेदार	नरेन्द्रा कुमार सिंह	01.03.2012
666	जेसी760793के	नायब सुबेदार	नरेन्द्रा सिंह मान	01.07.2012
667	जेसी765061एक्स	नायब सुबेदार	नरेश कुमार सिंह	01.07.2012
668	जेसी763628के	नायब सुबेदार	नवीन सिंह महारा	01.04.2012
669	जेसी764697एम	नायब सुबेदार	नोरेन देहिगिया	01.03.2012
670	जेसी762447एम	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश	01.04.2012
671	जेसी765065एन	नायब सुबेदार	पकज कुमार नंदी	01.08.2012
672	जेसी764368डब्ल्यू	नायब सुबेदार	परमार लालजी भाई कांजी भाई	01.06.2012
673	जेसी763695पी	नायब सुबेदार	पाटिल श्रीकांत बिराप्पा	01.02.2012
674	जेसी764581डब्ल्यू	नायब सुबेदार	फूल कुमार झा	01.02.2012
675	जेसी763082पी	नायब सुबेदार	प्रभु नाथ चौबे	01.07.2012
676	जेसी761409के	नायब सुबेदार	प्रकाश नाथ गोस्वामी	01.04.2012
677	जेसी761931एम	नायब सुबेदार	प्रमोद कुमार	01.04.2012
678	जेसी764407के	नायब सुबेदार	प्रेम सिंह	01.07.2012
679	जेसी763205डब्ल्यू	नायब सुबेदार	पुरुषोत्तम साहू	01.07.2012

680	जेसी762796डब्ल्यू	नायब सुबेदार	राधे श्याम	01.06.2012
681	जेसी764612एल	नायब सुबेदार	रघुनंदन	01.03.2012
682	जेसी765070वाइ	नायब सुबेदार	राजबीर सिंह	01.08.2012
683	जेसी764045एन	नायब सुबेदार	राजेंद्र कुमार	01.02.2012
684	जेसी765196वाइ	नायब सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.06.2012
685	जेसी763071एच	नायब सुबेदार	राजेश कुमार	01.05.2012
686	जेसी765077एच	नायब सुबेदार	राकेश कुमार	01.07.2012
687	जेसी762990एल	नायब सुबेदार	राम भवन यादव	01.04.2012
688	जेसी764615वाइ	नायब सुबेदार	राम किशोर सिंह	01.02.2012
689	जेसी762798एफ	नायब सुबेदार	राम नारायण सिंह	01.04.2012
690	जेसी764580एन	नायब सुबेदार	राम पी सिंह	01.02.2012
691	जेसी765629एल	नायब सुबेदार	राम प्रसाद	01.04.2012
692	जेसी764528एल	नायब सुबेदार	राम एस पांडे	01.03.2012
693	जेसी764155एच	नायब सुबेदार	रमेश चंद्रा	01.05.2012
694	जेसी761930के	नायब सुबेदार	रमेश कुमार डंगवाल	01.04.2012
695	जेसी763317डब्ल्यू	नायब सुबेदार	राना प्रताप भद्रा	01.06.2012
696	जेसी761932पी	नायब सुबेदार	ऋशिपाल सिंह	01.04.2012
697	जेसी762298के	नायब सुबेदार	सचिन्द्र कुमार	01.02.2012
698	जेसी762554एन	नायब सुबेदार	साजन कुमार	01.03.2012
699	जेसी762513के	नायब सुबेदार	सलीमुद्दीन	01.02.2012
700	जेसी765073एम	नायब सुबेदार	समशेर सिंह	01.08.2012
701	जेसी764046डब्ल्यू	नायब सुबेदार	संतराम मरोती टी	01.08.2012
702	जेसी764616एफ	नायब सुबेदार	सरदार सिंह	01.02.2012
703	जेसी764623एक्स	नायब सुबेदार	सत्य पाल	01.02.2012
704	जेसी762879एफ	नायब सुबेदार	शम्भू नाथ सैनी	01.06.2012
705	जेसी762284के	नायब सुबेदार	शम्भू प्रसाद सिंह	01.03.2012
706	जेसी762586डब्ल्यू	नायब सुबेदार	शिवा शरनअप्पा	01.02.2012
707	जेसी764509ए	नायब सुबेदार	श्री उदय सिंह तोमर	01.06.2012
708	जेसी763789एम	नायब सुबेदार	सुभाष चंद्रा विश्वास	01.03.2012
709	जेसी763891पी	नायब सुबेदार	सुदामा सिंह	01.02.2012
710	जेसी763841के	नायब सुबेदार	सुदेश्वर प्रसाद सिंह	01.03.2012
711	जेसी765055के	नायब सुबेदार	सुखेंद्र सिन्हा	01.06.2012
712	जेसी764364ए	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रा बेहेरा	01.02.2012
713	जेसी764924एफ	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रा कुमार प्रधान	01.06.2012
714	जेसी764543ए	नायब सुबेदार	सुरेश कुमार एस	01.04.2012
715	जेसी764246एम	नायब सुबेदार	सुशील कुमार	01.02.2012
716	जेसी765752के	नायब सुबेदार	स्वामीनाथ यादव	01.03.2012
717	जेसी764925के	नायब सुबेदार	टी चित्ती बाबू	01.06.2012
718	जेसी761659एल	नायब सुबेदार	तापस कर्माकर	01.06.2012
719	जेसी764920एल	नायब सुबेदार	उदय भान सिंह पाल	01.05.2012

720	जेसी763159एम	नायब सुबेदार	उत्तात्म चन्द	01.04.2012
721	जेसी761861वाइ	नायब सुबेदार	विनय गुरंग	01.07.2012
722	जेसी761238एच	नायब सुबेदार	विवेक त्रिवेदी	01.06.2012
723	जेसी762826एच	नायब सुबेदार	युधवीर सिंह	01.04.2012
<u>सेना शिक्षा कोर</u>				
724	जेसी804009एन	नायब सुबेदार	सुरेद्र कुमार	01.03.2012
<u>रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर</u>				
725	जेसी797496एन	नायब रिसालदार	एस सुदालाई मुथु	01.04.2012
726	जेसी797547डब्ल्यू	नायब रिसालदार	साधु प्रसाद गोड़	01.03.2012
<u>आसुचना कोर</u>				
727	जेसी811221एन	नायब सुबेदार	अरूप कुमार घोष	01.02.2012
728	जेसी811270डब्ल्यू	नायब सुबेदार	बलराम सिंह	01.05.2012
729	जेसी811137एन	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश मिश्रा	01.03.2012
730	जेसी811284डब्ल्यू	नायब सुबेदार	राम दत्त यादव	01.03.2012
731	जेसी811108वाइ	नायब सुबेदार	सुधीर चंद्रा दास	01.02.2012
732	जेसी811281एच	नायब सुबेदार	तिरुमलई मोहन एस	01.08.2012
<u>सेना पुलिस कोर</u>				
733	जेसी819472एम	नायब सुबेदार	असिर उद्दीन	01.04.2012
734	जेसी819575एल	नायब सुबेदार	चंद्रा भानु त्रिपाठी	01.06.2012
735	जेसी819461ए	नायब सुबेदार	डी. बोराह	01.04.2012
736	जेसी819347एच	नायब सुबेदार	नबीन सिंह संधू	01.02.2012
737	जेसी819475ए	नायब सुबेदार	रामु यू	01.02.2012
738	जेसी819402एन	नायब सुबेदार	श्री कांत प्रसाद सिंह	01.07.2012
739	जेसी819435वाइ	नायब सुबेदार	सुधीर कुमार सिंह	01.02.2012
740	जेसी819354वाइ	नायब सुबेदार	सूर्या लाल जायसवाल	01.04.2012
<u>सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर</u>				
741	जेसी826225एफ	नायब सुबेदार	सुनील भगवान मोरे	01.07.2012
<u>सेना डाक सेवा</u>				
742	जेसी834453वाइ	नायब सुबेदार	बलवान सिंह	01.04.2012
743	जेसी834732के	नायब सुबेदार	जदाओ एन	01.02.2012
744	जेसी834461एक्स	नायब सुबेदार	जगमोहन राय	01.06.2012
745	जेसी834505के	नायब सुबेदार	केशव दास	01.04.2012
746	जेसी834507पी	नायब सुबेदार	महेंद्र प्रसाद	01.06.2012
747	जेसी834457पी	नायब सुबेदार	महीपाल सिंह	01.04.2012



748	जेसी834766एक्स	नायब सुबेदार	पपिन्दर सिंह	01.03.2012
749	जेसी834422वाइ	नायब सुबेदार	परमजीत सिंह	01.04.2012
750	जेसी834417एन	नायब सुबेदार	पी सिंह	01.06.2012
751	जेसी834804एच	नायब सुबेदार	प्रकाश पांडे	01.02.2012
752	जेसी834460पी	नायब सुबेदार	राजवंत प्रसाद बारी	01.06.2012
753	जेसी834447एल	नायब सुबेदार	राम अवतार	01.04.2012
754	जेसी834413एक्स	नायब सुबेदार	एस सेकार	01.02.2012
755	जेसी834462ए	नायब सुबेदार	सहिक ए अली	01.06.2012
756	जेसी834891एफ	नायब सुबेदार	शीश राम	01.02.2012
757	जेसी834459ए	नायब सुबेदार	सुरेद्र सिंह	01.04.2012
758	जेसी834456एम	नायब सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.04.2012
759	जेसी834450एल	नायब सुबेदार	एस कुमार विश्वास	01.06.2012
760	जेसी834536के	नायब सुबेदार	विनया कुमार	01.04.2012

रक्षा सुरक्षा कोर

761	जेसी843080एक्स	नायब सुबेदार	ए एस राजू	01.07.2012
762	जेसी842869एल	नायब सुबेदार	आलम प्रभु हीरामठ	01.02.2012
763	जेसी842640एम	नायब सुबेदार	अमर सिंह	01.06.2012
764	जेसी842718एम	नायब सुबेदार	बलवान सिंह	01.03.2012
765	जेसी843181एल	नायब सुबेदार	बुद्धु राम	01.07.2012
766	जेसी842790एच	नायब सुबेदार	देवप्पा जयराम डी.	01.07.2012
767	जेसी842834पी	नायब सुबेदार	धर्म पाल	01.05.2012
768	जेसी842398एच	नायब सुबेदार	एफ दशरथ शंकर	01.07.2012
769	जेसी842498एन	नायब सुबेदार	गंगा राम	01.06.2012
770	जेसी842840एच	नायब सुबेदार	हरीश नारायन सिंह	01.06.2012
771	जेसी842512पी	नायब सुबेदार	हरजीत सिंह	01.04.2012
772	जेसी842704एम	नायब सुबेदार	जबेर चन्द	01.04.2012
773	जेसी842729वाइ	नायब सुबेदार	जरनैल सिंह	01.07.2012
774	जेसी842826डब्ल्यू	नायब सुबेदार	खिलाड़ी राम	01.02.2012
775	जेसी842253एक्स	नायब सुबेदार	खुमान	01.05.2012
776	जेसी842772ए	नायब सुबेदार	कुंदन सिंह साही	01.08.2012
777	जेसी842489एम	नायब सुबेदार	मोहन सिंह	01.06.2012
778	जेसी842199एम	नायब सुबेदार	नगेन्द्रा सिंह	01.06.2012
779	जेसी842469वाइ	नायब सुबेदार	नन्दू सिंह यादव	01.02.2012
780	जेसी842570वाइ	नायब सुबेदार	पशोरी लाल	01.07.2012
781	जेसी842907डब्ल्यू	नायब सुबेदार	प्रभाकरण पीपी	01.06.2012
782	जेसी842346एम	नायब सुबेदार	राम निवास	01.06.2012
783	जेसी843044एम	नायब सुबेदार	रांजवीर सिंह	01.02.2012
784	जेसी842848पी	नायब सुबेदार	रनवीर सिंह	01.07.2012
785	जेसी842744एन	नायब सुबेदार	साहबुद्दीन अबास शेख	01.06.2012

786	जेसी842849एक्स	नायब सुबेदार	श्री नारायन मिश्रा	01.02.2012
787	जेसी842402ए	नायब सुबेदार	श्याम बिहारी यादव	01.06.2012
788	जेसी842413एम	नायब सुबेदार	श्री राम	01.05.2012
789	जेसी842838एल	नायब सुबेदार	सुरेश चंद्रा	01.06.2012

[ फा. सं. बी/43432/आई डी-12/ए जी/सी डब्ल्यू-2 ]

जय प्रकाश नेहरा, लै. जनरल, एडजुटेंट जनरल

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th August, 2012

**No. 11(E) dated 15th August, 2012.**— The President is pleased to grant honorary ranks to the undermentioned Honorary Lieutenants and JCOs on the eve of Independence Day 2012 on retirement under Para 179 of Regulations for the Army 1987 with effect from the dates shown against their names :-

### TO BE HONORARY CAPTAINS

#### 7 CAVALRY

1	JC 241585X	RIS & HONY LT	DIL BAG SINGH	01-04-2012
2	JC 241687N	RIS & HONY LT	JODHA RAM	01-07-2012

#### 1 HORSE

3	JC 238752K	RIS & HONY LT	RAJ KUMAR RANA	01-04-2012
---	------------	------------------	----------------	------------

#### 14 HORSE

4	JC 243225A	RIS & HONY LT	KARAMJIT SINGH	01-02-2012
---	------------	------------------	----------------	------------

#### 62 CAVALRY

5	JC 239790A	RIS MAJ & HONY LT	JAI LAL SINGH	01-07-2012
---	------------	----------------------	---------------	------------

#### 65 ARMOURED REGIMENT

6	JC 241016K	RIS & HONY LT	BHOOP SINGH	01-05-2012
7	JC 241609W	RIS & HONY LT	DEO KARAN SINGH	01-07-2012
8	JC 242847P	RIS & HONY LT	NARPAT SINGH RATHORE	01-02-2012
9	JC 242933A	RIS & HONY LT	RAGHVEER SINGH	01-06-2012

#### 69 ARMOURED REGIMENT

10	JC 238080W	RIS MAJ & HONY LT	MUTHU KUMARAN M	01-02-2012
----	------------	----------------------	-----------------	------------

#### 74 ARMOURED REGIMENT

11	JC 239470L	RIS MAJ & HONY LT	ROHITASHWA YADAV	01-05-2012
----	------------	----------------------	------------------	------------

**81 ARMOURED REGIMENT**

12	JC 242605M	RIS & HONY LT	SARJEET SINGH	01-07-2012
----	------------	------------------	---------------	------------

**82 ARMOURED REGIMENT**

13	JC 241393A	RIS & HONY LT	MANGU SINGH	01-05-2012
14	JC 241552M	RIS & HONY LT	SURENDRANATH SWAIN	01-06-2012

**83 ARMOURED REGIMENT**

15	JC 239099F	RIS MAJ & HONY LT	RAM NIWAS	01-02-2012
----	------------	----------------------	-----------	------------

**84 ARMOURED REGIMENT**

16	JC 239453L	RIS MAJ & HONY LT	INDER SINGH	01-05-2012
----	------------	----------------------	-------------	------------

**89 ARMOURED REGIMENT**

17	JC 237840F	RIS MAJ & HONY LT	RAVINDER SINGH	01-03-2012
----	------------	----------------------	----------------	------------

**90 ARMOURED REGIMENT**

18	JC 238796P	RIS MAJ & HONY LT	MAHABIR SINGH	01-07-2012
----	------------	----------------------	---------------	------------

**48 ARMOURED REGIMENT**

19	JC 239604Y	RIS MAJ & HONY LT	DHANE ASHOK VISHNU	01-02-2012
----	------------	----------------------	--------------------	------------

**5 ARMOURED REGIMENT**

20	JC 235886L	RIS MAJ & HONY LT	SHARA BANNA	01-05-2012
----	------------	----------------------	-------------	------------

**6 ARMOURED REGIMENT**

21	JC 237544W	RIS MAJ & HONY LT	SOM LAL	01-04-2012
----	------------	----------------------	---------	------------

**52 ARMOURED REGIMENT**

22	JC 239023F	RIS MAJ & HONY LT	PARGAT SINGH	01-05-2012
----	------------	----------------------	--------------	------------

**53 ARMOURED REGIMENT**

23	JC 238327M	RIS MAJ & HONY LT	NARENDRA SINGH	01-05-2012
----	------------	----------------------	----------------	------------

**ARMOURED CORPS**

24	JC 238558H	RIS MAJ & HONY LT	SOM RAJ	01-03-2012
----	------------	----------------------	---------	------------

**REGIMENT OF ARTILLERY**

25	JC 259269F	SUB MAJ & ARJUN PRASAD SINGH HONY LT	01-06-2012
26	JC 257735M	SUB MAJ & ASHOK KUMAR TIWARI HONY LT	01-05-2012
27	JC 261556K	SUB MAJ & BALAKRISHNAN V HONY LT	01-04-2012
28	JC 260034F	SUB MAJ & BALWAN SINGH HONY LT	01-08-2012
29	JC 258260A	SUB MAJ & BETAL SINGH HONY LT	01-04-2012
30	JC 260067M	SUB MAJ & BINOD DAN KUJUR HONY LT	01-05-2012
31	JC 261768P	SUB MAJ & CHOUDHARI MOHAN MANCHAK RAO HONY LT	01-03-2012
32	JC 257331K	SUB MAJ & DEBI RAM HONY LT	01-04-2012
33	JC 261419L	SUB MAJ & DHRAMVIR SHARMA HONY LT	01-06-2012
34	JC 255124Y	SUB MAJ & DIGVIJAI SINGH HONY LT	01-03-2012
35	JC 258711P	SUB MAJ & DUNI CHAND HONY LT	01-06-2012
36	JC 260581W	SUB MAJ & GIAN SINGH HONY LT	01-03-2012
37	JC 260507P	SUB MAJ & HARDIP SINGH HONY LT	01-05-2012
38	JC 150005K	SUB MAJ & HARI SHANKER HONY LT	01-08-2012
39	JC 259490A	SUB MAJ & JARNAIL SINGH HONY LT	01-03-2012
40	JC 257610P	SUB MAJ & JETHU SINGH RATHORE HONY LT	01-04-2012
41	JC 257654M	SUB MAJ & KASHMIR SINGH HONY LT	01-04-2012
42	JC 255686W	SUB MAJ & KUL BHUSHAN MEHTA HONY LT	01-03-2012
43	JC 258714H	SUB MAJ & MADAN SINGH HONY LT	01-07-2012
44	JC 256879H	SUB MAJ & MANI RAM HONY LT	01-04-2012
45	JC 257692H	SUB MAJ & MANNA RAM MAHALLA HONY LT	01-04-2012
46	JC 258779W	SUB MAJ & NAIKA NAWARE DHANAWANT HONY LT SITARAM	01-06-2012
47	JC 130085L	SUB MAJ & NARENDRA KUMAR SHUKLA HONY LT	01-03-2012
48	JC 137667N	SUB MAJ & NAVEEN CHANDRA PANT HONY LT	01-06-2012

49	JC 260335L	SUB MAJ & OM PARKASH HONY LT	01-07-2012
50	JC 142731K	SUB MAJ & PREM BALLABH PANT HONY LT	01-06-2012
51	JC 257022F	SUB MAJ & PREM SINGH MERTTYA HONY LT	01-04-2012
52	JC 258257A	SUB MAJ & PRITAM CHAND HONY LT	01-06-2012
53	JC 264632W	SUB MAJ & RAJJAN SINGH YADAV HONY LT	01-07-2012
54	JC 262146A	SUB MAJ & RAKESH CHANDRA HONY LT	01-05-2012
55	JC 258826H	SUB MAJ & RAM KISHORE HONY LT	01-08-2012
56	JC 256875M	SUB MAJ & RAM NAIK HONY LT	01-04-2012
57	JC 258265Y	SUB MAJ & RAMAN LAL HONY LT	01-07-2012
58	JC 260027L	SUB MAJ & S SENTHIL NAYAGAM HONY LT	01-06-2012
59	JC 259957A	SUB MAJ & SADASIVAN PILLAI B HONY LT	01-08-2012
60	JC 259414N	SUB MAJ & SATVEER HONY LT	01-02-2012
61	JC 127133P	SUB MAJ & SATYA NARAIN TRIPATHI HONY LT	01-03-2012
62	JC 260081Y	SUB MAJ & SHAKTI SINGH HONY LT	01-03-2012
63	JC 260414A	SUB MAJ & VIJAY SHANKAR SINGH HONY LT	01-06-2012
64	JC 258041Y	SUB MAJ & VISHWANATH SINGH HONY LT	01-06-2012
65	JC 267847A	SUB & ABHEY SINGH HONY LT	01-07-2012
66	JC 268561X	SUB & AKSHAY LAL MAHTO HONY LT	01-07-2012
67	JC 269494K	SUB & ANANDA K D HONY LT	01-06-2012
68	JC 266052A	SUB & BAHADUR SINGH HONY LT	01-04-2012
69	JC 268724A	SUB & BAJRANGI PRASAD SHARMA HONY LT	01-07-2012
70	JC 269669F	SUB & BANNA SINGH RAWAT HONY LT	01-04-2012
71	JC 270483K	SUB & BHAPKAR NAVANATH UTTAM HONY LT	01-07-2012
72	JC 269531M	SUB & DAL SINGH HONY LT	01-04-2012
73	JC 262600P	SUB & DEV SHANKAR JHA HONY LT	01-04-2012

74	JC 266911A	SUB & HONY LT	DILBAG SINGH	01-05-2012
75	JC 267516Y	SUB & HONY LT	DILBAG SINGH	01-04-2012
76	JC 267111N	SUB & HONY LT	GURDEV SINGH	01-04-2012
77	JC 268953L	SUB & HONY LT	JAIPAL SINGH	01-04-2012
78	JC 267920N	SUB & HONY LT	KARAN SINGH	01-04-2012
79	JC 261541F	SUB & HONY LT	M MUNI RAJ	01-04-2012
80	JC 271491P	SUB & HONY LT	MANIYAN M	01-02-2012
81	JC 268498N	SUB & HONY LT	MASTAN SINGH	01-05-2012
82	JC 265053W	SUB & HONY LT	MITTAR SINGH	01-03-2012
83	JC 268471W	SUB & HONY LT	NISHAN SINGH	01-05-2012
84	JC 269132H	SUB & HONY LT	OM PARKASH	01-04-2012
85	JC 269547X	SUB & HONY LT	PRAMOD KUMAR	01-04-2012
86	JC 266974H	SUB & HONY LT	RAJAN BABOO	01-04-2012
87	JC 267994H	SUB & HONY LT	RAJENDER SINGH	01-08-2012
88	JC 270660Y	SUB & HONY LT	RAJENDER SINGH	01-05-2012
89	JC 269554N	SUB & HONY LT	RAJINDER KUMAR	01-06-2012
90	JC 269733N	SUB & HONY LT	RAKESH BABU	01-02-2012
91	JC 270350N	SUB & HONY LT	RAM PAL SINGH	01-04-2012
92	JC 267821L	SUB & HONY LT	RAVI KUMAR	01-04-2012
93	JC 263830P	SUB & HONY LT	SATENDRA SINGH	01-03-2012
94	JC 264439K	SUB & HONY LT	SUKHBIR SINGH	01-07-2012
95	JC 262517X	SUB & HONY LT	SUKHDEV SINGH	01-04-2012
96	JC 271582Y	SUB & HONY LT	TIRTH NATH YADAW	01-08-2012
97	JC 267333H	SUB & HONY LT	TOMY MATHEW O M	01-04-2012
98	JC 268187A	SUB & HONY LT	VINOD KUMAR	01-08-2012

**ARMY AIR DEFENCE**

99	JC 297400X	SUB MAJ & BABURAO ZINGADE HONY LT	01-08-2012
100	JC 297122P	SUB MAJ & BALA DATT JOSHI HONY LT	01-06-2012
101	JC 296594Y	SUB MAJ & BARENDIYA YUGRAJ CHHUNNILAL HONY LT	01-02-2012
102	JC 296605A	SUB MAJ & DURGA CHAND HONY LT	01-06-2012
103	JC 297481H	SUB MAJ & GOVIND HONY LT	01-07-2012
104	JC 296869F	SUB MAJ & HAYAT SINGH HONY LT	01-06-2012
105	JC 297454Y	SUB MAJ & HEM RAJ HONY LT	01-08-2012
106	JC 296542H	SUB MAJ & MURALEEDHARAN PILLAI V HONY LT	01-03-2012
107	JC 296331A	SUB MAJ & NARENDRA SINGH PARIHAR HONY LT	01-03-2012
108	JC 297390Y	SUB MAJ & PRABHU SINGH HONY LT	01-04-2012
109	JC 297002W	SUB MAJ & RAJ KISHORE SINGH HONY LT	01-04-2012
110	JC 296198H	SUB MAJ & SANGRAM SINGH HONY LT	01-03-2012
111	JC 297025X	SUB MAJ & UTTAM SINGH HONY LT	01-02-2012
112	JC 297338W	SUB MAJ & V GANESAN HONY LT	01-06-2012
113	JC 299675K	SUB & ABHAY SINGH YADAV HONY LT	01-04-2012
114	JC 299743M	SUB & GOPAL DASS HONY LT	01-03-2012
115	JC 299459W	SUB & GOPAL MALLA HONY LT	01-02-2012
116	JC 299055N	SUB & NABA KUMAR MONDAL HONY LT	01-07-2012

**MADRAS ENGINEER GROUP**

117	JC 306319P	SUB MAJ & PANDU RATNA JYOTHI HONY LT	01-02-2012
118	JC 306406H	SUB MAJ & R KALIRAJ HONY LT	01-07-2012
119	JC 306653W	SUB MAJ & RAJAN A HONY LT	01-08-2012
120	JC 306661P	SUB MAJ & SABU B HONY LT	01-07-2012
121	JC 307653H	SUB & A AROKIASAMY HONY LT	01-04-2012

122	JC 307933W	SUB & HONY LT	A VICTOR	01-06-2012
123	JC 308088H	SUB & HONY LT	BHIMAPPA	01-05-2012
124	JC 308308F	SUB & HONY LT	CHANDRASHEKAR HARIJAN	01-04-2012
125	JC 308029W	SUB & HONY LT	G KESAVELU	01-04-2012
126	JC 308390F	SUB & HONY LT	GUNASEKARAN V	01-04-2012
127	JC 308574A	SUB & HONY LT	K JAYARAMAN	01-04-2012
128	JC 308085P	SUB & HONY LT	KRISHNA K	01-04-2012
129	JC 308391K	SUB & HONY LT	M THAMILARASAN, SM	01-04-2012
130	JC 307677M	SUB & HONY LT	MURALEEDHARAN M	01-04-2012
131	JC 308186H	SUB & HONY LT	RADHAKRISHNAN NAIR K	01-04-2012
132	JC 308460P	SUB & HONY LT	S RATHINAM	01-06-2012
133	JC 308693W	SUB & HONY LT	SEKAR	01-06-2012
134	JC 307889X	SUB & HONY LT	SUBRAMANIYAM N	01-04-2012
135	JC 308219H	SUB & HONY LT	THOMAS N JAMES	01-04-2012

**BENGAL ENGINEER GROUP**

136	JC 327649F	SUB MAJ & HONY LT	BALARAJAN PARAMMAL	01-04-2012
137	JC 327616W	SUB MAJ & HONY LT	DAYA LAL	01-08-2012
138	JC 197160W	SUB MAJ & HONY LT	GANGADHAR GHARAI	01-03-2012
139	JC 130067H	SUB MAJ & HONY LT	JANKI PRASAD	01-08-2012
140	JC 326091L	SUB MAJ & HONY LT	KAMESHWAR SINGH	01-07-2012
141	JC 326197X	SUB MAJ & HONY LT	MANGAL SEN	01-05-2012
142	JC 325756K	SUB MAJ & HONY LT	MANOHARAN K K	01-02-2012
143	JC 327815K	SUB MAJ & HONY LT	RAM SUBHASH DIXIT	01-04-2012
144	JC 326523P	SUB MAJ & HONY LT	S SHIVA SANKARA RAO	01-08-2012
145	JC 329805Y	SUB & HONY LT	ABHEY SINGH	01-02-2012



146	JC 329776P	SUB & HONY LT	ANIL KUMAR DAS	01-04-2012
147	JC 329804W	SUB & HONY LT	BALBINDER SINGH	01-02-2012
148	JC 329291M	SUB & HONY LT	BALWINDER SINGH	01-05-2012
149	JC 329111Y	SUB & HONY LT	BANE SINGH	01-04-2012
150	JC 329546F	SUB & HONY LT	CHANDAN SINGH	01-07-2012
151	JC 329542L	SUB & HONY LT	CHANDER KIRAN SINGH	01-05-2012
152	JC 329294A	SUB & HONY LT	DALIP SINGH NEGI	01-07-2012
153	JC 329380L	SUB & HONY LT	HARGOVIND SINGH	01-04-2012
154	JC 329112F	SUB & HONY LT	HIMMAT SINGH DHAMI	01-04-2012
155	JC 329628K	SUB & HONY LT	HIRA SINGH BORA	01-07-2012
156	JC 329272F	SUB & HONY LT	JAGBIR PRASAD	01-04-2012
157	JC 329691Y	SUB & HONY LT	JAGDISH CHANDRA	01-06-2012
158	JC 329391X	SUB & HONY LT	JITENDRA PRASAD	01-04-2012
159	JC 329982Y	SUB & HONY LT	JOGINDER SINGH	01-05-2012
160	JC 329985M	SUB & HONY LT	KEDAR MANDAL	01-06-2012
161	JC 329871F	SUB & HONY LT	KULWANT SINGH	01-04-2012
162	JC 329277A	SUB & HONY LT	MANDIP SINGH	01-07-2012
163	JC 329520M	SUB & HONY LT	NAGENDRA PRASAD SINGH	01-04-2012
164	JC 329972P	SUB & HONY LT	NIRMAL BARA	01-04-2012
165	JC 329595K	SUB & HONY LT	PRAKASH CHAND	01-05-2012
166	JC 329381N	SUB & HONY LT	RAJENDER SINGH	01-05-2012
167	JC 329949F	SUB & HONY LT	RAJWANT SINGH	01-04-2012
168	JC 329296L	SUB & HONY LT	RAM BABU KUREEL	01-07-2012
169	JC 329547K	SUB & HONY LT	RAM BAHADUR SINGH PARMAR	01-07-2012
170	JC 329144K	SUB & HONY LT	RAMESH CHAND	01-04-2012

171	JC 329544W	SUB & HONY LT	SIDHESHWAR KUMAR SINGH	01-05-2012
172	JC 329292P	SUB & HONY LT	TEJ SINGH	01-07-2012
173	JC 329540A	SUB & HONY LT	VIJAY SINGH	01-05-2012
174	JC 329103A	SUB & HONY LT	VIRENDRA KUMAR SINGH	01-04-2012
175	JC 329101P	SUB & HONY LT	VISHWANATH PRASAD BAMRARA	01-04-2012
176	JC 329264H	SUB & HONY LT	YOGENDER SINGH	01-04-2012

### **BOMBAY ENGINEER GROUP**

177	JC 348429L	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRA PAL SINGH	01-06-2012
178	JC 348814P	SUB MAJ & HONY LT	DAVINDER SINGH	01-07-2012
179	JC 347582P	SUB MAJ & HONY LT	HARSWAROOP	01-03-2012
180	JC 348694F	SUB MAJ & HONY LT	PADAM NARAYAN	01-07-2012
181	JC 348092N	SUB MAJ & HONY LT	SHINDE BAJIRAO BABARAO	01-03-2012
182	JC 348440K	SUB MAJ & HONY LT	YOGESHWAR TRIPATHI	01-07-2012
183	JC 349952H	SUB & HONY LT	ASHOK BAPURAO SATPUTE	01-07-2012
184	JC 348131F	SUB & HONY LT	BACHCHA LAL	01-03-2012
185	JC 349696Y	SUB & HONY LT	DHARAM PAL	01-04-2012
	JC 349657A	SUB & HONY LT	GUND VIJU BHAGWAN	01-05-2012
187	JC 349840H	SUB & HONY LT	GURJANT SINGH	01-08-2012
188	JC 350250W	SUB & HONY LT	HOSHIAR SINGH	01-05-2012
189	JC 348502Y	SUB & HONY LT	JAI BHAGWAN	01-08-2012
190	JC 348999F	SUB & HONY LT	KASHID SHIVAJI DAYAN DEO	01-04-2012
191	JC 349946P	SUB & HONY LT	KHAMAKAR BHIMRAO DATTATRAY	01-08-2012
192	JC 349894K	SUB & HONY LT	KULWANT SINGH	01-04-2012
193	JC 349953L	SUB & HONY LT	LAXMAN RAMCHANDRA SAKPAL	01-08-2012
194	JC 349859F	SUB & HONY LT	NIVRUTTI JANARDAN PATIL	01-04-2012

195	JC 350017H	SUB & HONY LT	NIZZAMUDIN	01-04-2012
196	JC 348313P	SUB & HONY LT	RAM LAL BERWA	01-06-2012
197	JC 350249F	SUB & HONY LT	SURAJ BHAN	01-04-2012
198	JC 348505M	SUB & HONY LT	TALEWAR SINGH	01-07-2012
199	JC 350251Y	SUB & HONY LT	TIRTH SINGH	01-06-2012

**CORPS OF SIGNALS**

200	JC 371116Y	SUB MAJ & HONY LT	ABRAHAM P V	01-06-2012
201	JC 371204P	SUB MAJ & HONY LT	BALAKRISHAN SHARMA	01-07-2012
202	JC 370669H	SUB MAJ & HONY LT	BISWA PRAKASH SAHOO	01-06-2012
203	JC 369434K	SUB MAJ & HONY LT	BOLIN HAZARIKA	01-07-2012
204	JC 368755P	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRA BHUSHAN SINGH	01-06-2012
205	JC 371068K	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRA MOHAN JHA	01-04-2012
206	JC 367913M	SUB MAJ & HONY LT	DARSHAN LAL	01-04-2012
207	JC 368326N	SUB MAJ & HONY LT	JEETENDRA KUMAR SINGH	01-03-2012
208	JC 367911F	SUB MAJ & HONY LT	K BAGAVATHI MUTHU PANDIAN	01-05-2012
209	JC 368604W	SUB MAJ & HONY LT	K CHELLA DURAI	01-04-2012
210	JC 368451X	SUB MAJ & HONY LT	KISHORE CHAND	01-03-2012
211	JC 370611L	SUB MAJ & HONY LT	KUNDAN LAL	01-04-2012
212	JC 371848P	SUB MAJ & HONY LT	LAXMAN VYANKATI KOKATE	01-03-2012
213	JC 371033N	SUB MAJ & HONY LT	MALLESWARA RAO PEDADA	01-03-2012
214	JC 369956A	SUB MAJ & HONY LT	MAN SINGH	01-03-2012
215	JC 371197K	SUB MAJ & HONY LT	MUKAND LAL SHARMA	01-07-2012
216	JC 372732L	SUB MAJ & HONY LT	NILKANTA DAS	01-06-2012
217	JC 370668A	SUB MAJ & HONY LT	PARMA NAND	01-06-2012
218	JC 371133Y	SUB MAJ & HONY LT	RAJ KUMAR	01-05-2012

219	JC 370929H	SUB MAJ & HONY LT	RAJAN M B	01-03-2012
220	JC 367904L	SUB MAJ & HONY LT	RAJINDER NATH	01-03-2012
221	JC 368973N	SUB MAJ & HONY LT	RANJIT SINGH RANA	01-06-2012
222	JC 370848H	SUB MAJ & HONY LT	ROSHAN LAL	01-02-2012
223	JC 150085M	SUB MAJ & HONY LT	SAMBHU DAYAL GARG	01-08-2012
224	JC 369997K	SUB MAJ & HONY LT	SASANKA SEKHAR GHOSH	01-05-2012
225	JC 372362W	SUB MAJ & HONY LT	SATHYANADHAN ATAKKANDY	01-04-2012
226	JC 370610H	SUB MAJ & HONY LT	SATISH KUMAR	01-02-2012
227	JC 371104K	SUB MAJ & HONY LT	SELVARAJ D	01-04-2012
228	JC 371128N	SUB MAJ & HONY LT	SHAM SINGH RANA	01-05-2012
229	JC 371520N	SUB MAJ & HONY LT	SHAMBHU DAYAL JAT	01-02-2012
230	JC 371202K	SUB MAJ & HONY LT	SUBHASH CHAWLA	01-07-2012
231	JC 370697P	SUB MAJ & HONY LT	SURENDER SINGH	01-02-2012
232	JC 371071K	SUB MAJ & HONY LT	SURESH KUMAR	01-04-2012
233	JC 371873N	SUB MAJ & HONY LT	VED PRAKASH	01-02-2012
234	JC 375948X	SUB & HONY LT	BALDEV KISHAN	01-04-2012
235	JC 374510P	SUB & HONY LT	BINESHWAR ROY	01-03-2012
236	JC 375918A	SUB & HONY LT	BRAJA BANDHU MAHANTY	01-02-2012
237	JC 373654L	SUB & HONY LT	GANESH DAS	01-03-2012
238	JC 376646X	SUB & HONY LT	JAGENDER SINGH	01-04-2012
239	JC 377320N	SUB & HONY LT	JAGESHWAR PRASAD	01-04-2012
240	JC 375606K	SUB & HONY LT	KAPTAN SINGH YADAV	01-03-2012
241	JC 376198W	SUB & HONY LT	KRISHAN KUMAR	01-07-2012
242	JC 375039M	SUB & HONY LT	MAHAVIR SINGH	01-07-2012
243	JC 375832F	SUB & HONY LT	PARMESHWAR TIWARI	01-07-2012

244	JC 374805L.	SUB & HONY LT	PROBIN HAZARIKA	01-03-2012
245	JC 376712P	SUB & HONY LT	RAMESH KUMAR	01-03-2012
246	JC 376850W	SUB & HONY LT	HANJAVURU S GANESH	01-08-2012

**THE BRIGADE OF GUARDS**

247	JC 402867K	SUB MAJ & HONY LT	RAMADHAR MAHTO	01-08-2012
248	JC 402347Y	SUB MAJ & HONY LT	SUNIL KUMAR SINGH	01-02-2012
249	JC 403632K	SUB & HONY LT	CHANCHAL SINGH	01-05-2012
250	JC 403735H	SUB & HONY LT	LABANYA KUMAR RAY	01-03-2012
251	JC 404014L	SUB & HONY LT	PADAM KUMAR TIWARI	01-06-2012
252	JC 403732P	SUB & HONY LT	PURNA CH RAY	01-03-2012
253	JC 403778X	SUB & HONY LT	ROSHAN LAL	01-08-2012
254	JC 403621X	SUB & HONY LT	SHRI KRISHAN	01-05-2012
255	JC 403987P	SUB & HONY LT	SUMER SINGH RATHORE	01-08-2012

**THE PARACHUTE REGIMENT**

256	JC 412360W	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRA PAL SINGH	01-02-2012
257	JC 412248K	SUB MAJ & HONY LT	PRADIP CHANDRA BORAH	01-02-2012
258	JC 412217K	SUB MAJ & HONY LT	RAGHUBIR SINGH DADWAL	01-05-2012
259	JC 412643X	SUB & HONY LT	AJIT SINGH BANYAL	01-08-2012
260	JC 412583N	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH	01-05-2012
261	JC 412736M	SUB & HONY LT	INDER PAUL VIDYARTHI	01-08-2012
262	JC 412904A	SUB & HONY LT	JODHA RAM	01-06-2012
263	JC 412411Y	SUB & HONY LT	LACKHI RAM	01-06-2012
264	JC 412827W	SUB & HONY LT	MAHAVIR SINGH	01-06-2012
265	JC 412699K	SUB & HONY LT	RAVINDER KUMAR, SM	01-04-2012
266	JC 412679W	SUB & HONY LT	RUMEL SINGH	01-07-2012

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

267	JC 130091Y	SUB MAJ & HONY LT	ASHOK KUMAR SHARMA	01-06-2012
268	JC 418298L	SUB MAJ & HONY LT	IRAPPA TILAGANJI	01-03-2012
269	JC 418870N	SUB MAJ & HONY LT	KADAM DHANAJI RAGUNATH	01-07-2012
270	JC 418823W	SUB MAJ & HONY LT	MEHARBAN SINGH PUNDIR	01-03-2012
271	JC 420183W	SUB & HONY LT	JOGINDER SINGH	01-04-2012
272	JC 420011F	SUB & HONY LT	KAILASH SINGH GURUNG	01-06-2012
273	JC 420211X	SUB & HONY LT	KALE BALASAHEB SANTARAM	01-08-2012
274	JC 420709X	SUB & HONY LT	RAGHUVEER SINGH	01-02-2012
275	JC 420548A	SUB & HONY LT	RAJ KISHORE PRASAD CHAURASIA	01-06-2012
276	JC 419852X	SUB & HONY LT	RAM SAGAR	01-04-2012
277	JC 419739H	SUB & HONY LT	SHIVNATH SHARMA	01-06-2012
278	JC 420411N	SUB & HONY LT	SUBHASH CHAND	01-04-2012
279	JC 420182N	SUB & HONY LT	TIRATH RAM	01-04-2012

**THE PUNJAB REGIMENT**

280	JC 429675W	SUB MAJ & HONY LT	AMRIK SINGH	01-04-2012
281	JC 429410M	SUB MAJ & HONY LT	ANIL KUMAR	01-03-2012
282	JC 430187A	SUB MAJ & HONY LT	ATTAR SINGH	01-08-2012
283	JC 429722H	SUB MAJ & HONY LT	BAJ SINGH	01-04-2012
284	JC 428957H	SUB MAJ & HONY LT	BAL KRISHAN	01-08-2012
285	JC 428735N	SUB MAJ & HONY LT	BALVIR SINGH	01-02-2012
286	JC 429583K	SUB MAJ & HONY LT	DALIP SINGH	01-04-2012
287	JC 429689W	SUB MAJ & HONY LT	DALJIT SINGH	01-04-2012
288	JC 429027N	SUB MAJ & HONY LT	GOPAL SINGH	01-07-2012
289	JC 429578Y	SUB MAJ & HONY LT	GULZAR SINGH	01-04-2012

290	JC 429036P	SUB MAJ & JARNAIL SINGH HONY LT	01-05-2012
291	JC 429111N	SUB MAJ & KAMAL SINGH HONY LT	01-08-2012
292	JC 429756W	SUB MAJ & KULDIP SINGH HONY LT	01-05-2012
293	JC 429795P	SUB MAJ & NARENDAR GAJRAJ HONY LT	01-05-2012
294	JC 429832X	SUB MAJ & NISHAN SINGH HONY LT	01-07-2012
295	JC 430249P	SUB MAJ & PARDEEP KUMAR HONY LT	01-02-2012
296	JC 164324F	SUB MAJ & RAMESH CHAND SHARMA HONY LT	01-05-2012
297	JC 429378H	SUB MAJ & RIVAL SINGH HONY LT	01-06-2012
298	JC 429678K	SUB MAJ & SANSAR CHAND HONY LT	01-05-2012
299	JC 429690L	SUB MAJ & SATNAM SINGH HONY LT	01-07-2012
300	JC 429751X	SUB MAJ & SUBASH CHANDER HONY LT	01-04-2012
301	JC 430308W	SUB MAJ & SURESH KUMAR HONY LT	01-02-2012
302	JC 429614Y	SUB MAJ & SURINDRA KUMAR HONY LT	01-04-2012

**THE MADRAS REGIMENT**

303	JC 438161A	SUB MAJ & M MOHAN HONY LT	01-05-2012
304	JC 438564A	SUB MAJ & P CHANDIRAN HONY LT	01-04-2012
305	JC 439710F	SUB & GV RAMANA HONY LT	01-06-2012
306	JC 439037L	SUB & KY MAMMADU HONY LT	01-02-2012
307	JC 439471X	SUB & MALLIKARJUN SHIVASHIMPUR HONY LT	01-05-2012
308	JC 439814H	SUB & P SIVARAJ HONY LT	01-08-2012
309	JC 439503P	SUB & PEDDINTI SAMBASIVA RAO HONY LT	01-05-2012
310	JC 439329N	SUB & SADASIVAN PILLAI KS HONY LT	01-04-2012
311	JC 439203N	SUB & SHAIK SUBHAN HONY LT	01-05-2012
312	JC 439363N	SUB & VK MOHAN HONY LT	01-04-2012

**THE GRENADIERS**

313	JC 449095H	SUB MAJ & HONY LT	AMAR SINGH DHAYAL	01-08-2012
314	JC 449329F	SUB MAJ & HONY LT	ISHWAR SINGH	01-08-2012
315	JC 448882X	SUB MAJ & HONY LT	JAMALUDDIN ANSARI	01-06-2012
316	JC 128617F	SUB MAJ & HONY LT	RAJINDER PRASAD SHARMA	01-05-2012
317	JC 450699N	SUB & HONY LT	AMRIK SINGH	01-06-2012
318	JC 449945F	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH	01-05-2012
319	JC 450041N	SUB & HONY LT	HARI SINGH	01-07-2012
320	JC 449985H	SUB & HONY LT	JETHU SINGH	01-08-2012
321	JC 449808H	SUB & HONY LT	MADAN LAL	01-03-2012
322	JC 449946K	SUB & HONY LT	NIZAMUDDIN	01-04-2012
323	JC 449291H	SUB & HONY LT	POKHAR LAL POSWAL	01-08-2012
324	JC 449980K	SUB & HONY LT	RAJESH KUMAR	01-07-2012
325	JC 450514F	SUB & HONY LT	RANJIT SINGH	01-04-2012
326	JC 450015M	SUB & HONY LT	TILAK RAJ	01-04-2012
327	JC 450176P	SUB & HONY LT	TURAB ALI	01-05-2012
328	JC 450453P	SUB & HONY LT	UDAIVIR SINGH	01-02-2012

**THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

329	JC 458503K	SUB MAJ & HONY LT	GAIDHANI RAVINDRA RUPCHAND	01-02-2012
330	JC 458554X	SUB MAJ & HONY LT	JAGTAP SHAHAJI MANIK	01-06-2012
331	JC 458372K	SUB MAJ & HONY LT	NILAKANTH NAIK	01-05-2012
332	JC 458633M	SUB MAJ & HONY LT	VASUDEV PHATU GAWADE	01-03-2012
333	JC 459130N	SUB & HONY LT	DAJIBA PATIL	01-06-2012
334	JC 458830P	SUB & HONY LT	DHAVLE SUBHASH KASHINATH	01-05-2012
335	JC 459550N	SUB & HONY LT	RAM NARAYAN TIWARI	01-06-2012



336	JC 458787Y	SUB & HONY LT	SALUNKHE RAVSAHEB RAMCHANDRA	01-02-2012
337	JC 459451L	SUB & HONY LT	SATHISHKUMAR K	01-06-2012
338	JC 459543X	SUB & HONY LT	SHEKH ABBAS SK JAMAL	01-07-2012
339	JC 458881H	SUB & HONY LT	SUNIL ATMARAM SURVE	01-02-2012
340	JC 459520W	SUB & HONY LT	SURESH BHIVA GAVDE	01-07-2012

**THE RAJPUTANA RIFLES**

341	JC 469245P	SUB MAJ & HONY LT	DATTAR SINGH	01-08-2012
342	JC 468664A	SUB MAJ & HONY LT	DHARAMVIR	01-08-2012
343	JC 468556W	SUB MAJ & HONY LT	GOPAL SINGH SHEKHAWAT	01-07-2012
344	JC 468613M	SUB MAJ & HONY LT	JAGDIP SINGH	01-08-2012
345	JC 468558F	SUB MAJ & HONY LT	MAHAVIR SINGH CHAHAR	01-05-2012
346	JC 468181H	SUB MAJ & HONY LT	RAN SINGH	01-06-2012
347	JC 144563P	SUB MAJ & HONY LT	SATISH CHANDRA	01-03-2000
348	JC 468730X	SUB MAJ & HONY LT	SUGHAR SINGH SIKARWAR	01-03-2012
349	JC 469234H	SUB & HONY LT	AMAR SINGH GURJAR	01-02-2012
350	JC 470012A	SUB & HONY LT	BABU SINGH	01-02-2012
351	JC 469268W	SUB & HONY LT	BHANWAR SINGH RATHORE	01-08-2012
352	JC 469852N	SUB & HONY LT	BHAWANI SINGH	01-08-2012
353	JC 469206W	SUB & HONY LT	HAMID	01-03-2012
354	JC 470038F	SUB & HONY LT	JABAR SINGH RATHORE	01-02-2012
355	JC 470122P	SUB & HONY LT	JAGBIR SINGH	01-04-2012
356	JC 469684A	SUB & HONY LT	KALI RAM	01-03-2012
357	JC 469700M	SUB & HONY LT	KRISHAN PAL SINGH	01-02-2012
358	JC 469477N	SUB & HONY LT	LOON SINGH	01-05-2012
359	JC 470124A	SUB & HONY LT	MANVIR SINGH	01-08-2012

360	JC 469960X	SUB & HONY LT	MUL SINGH	01-02-2012
361	JC 469861P	SUB & HONY LT	PADAM SINGH	01-06-2012
362	JC 469747X	SUB & HONY LT	RAJBIR SINGH	01-04-2012
363	JC 469278A	SUB & HONY LT	RAM KARAN SINGH	01-05-2012
364	JC 469622A	SUB & HONY LT	RAM KARAN SINGH	01-04-2012
365	JC 469689Y	SUB & HONY LT	RAM KISHOR	01-04-2012
366	JC 469441P	SUB & HONY LT	SAWAI SINGH	01-08-2012
367	JC 469615K	SUB & HONY LT	SUMER SINGH	01-07-2012
368	JC 469723N	SUB & HONY LT	VIJENDER SINGH	01-04-2012

### THE RAJPUT REGIMENT

369	JC 478419L	SUB MAJ & HONY LT	ISTEKHAR KHAN	01-04-2012
370	JC 478739A	SUB MAJ & HONY LT	MAHENDER SINGH	01-02-2012
371	JC 478718K	SUB MAJ & HONY LT	ROHTASH	01-02-2012
372	JC 480101M	SUB & HONY LT	BABU SINGH	01-08-2012
373	JC 480016M	SUB & HONY LT	BADRI NATH SINGH	01-05-2012
374	JC 480179X	SUB & HONY LT	BRAHMA NAND	01-04-2012
375	JC 479159X	SUB & HONY LT	DHANSI RAM	01-02-2012
376	JC 479920K	SUB & HONY LT	GORDHAN RAM	01-08-2012
377	JC 479952M	SUB & HONY LT	HARPAL SINGH	01-08-2012
378	JC 479826A	SUB & HONY LT	LILU RAM	01-05-2012
379	JC 480050K	SUB & HONY LT	MAHAVEER SINGH	01-02-2012
380	JC 479492W	SUB & HONY LT	MAHINDER SINGH	01-02-2012
381	JC 479813H	SUB & HONY LT	MOHAMMED JAMAL KHAN	01-04-2012
382	JC 480030W	SUB & HONY LT	NARAYAN CHAND GHOSHAL	01-02-2012
383	JC 479885M	SUB & HONY LT	OM PARKASH	01-03-2012

384	JC 479759A	SUB & HONY LT	OM PRAKASH SINGH CHAUHAN	01-03-2012
385	JC 479936P	SUB & HONY LT	OMVIR SINGH	01-05-2012
386	JC 479946Y	SUB & HONY LT	PARSU RAM	01-05-2012
387	JC 480019X	SUB & HONY LT	PRATAP SINGH	01-03-2012
388	JC 479961N	SUB & HONY LT	RAM PAL	01-05-2012
389	JC 479844H	SUB & HONY LT	RAM SHARAN SINGH	01-02-2012
390	JC 479845L	SUB & HONY LT	RAM SINGH	01-02-2012
391	JC 479495K	SUB & HONY LT	RAMESH CHANDER	01-05-2012
392	JC 480144F	SUB & HONY LT	SHIV KUMAR	01-08-2012
393	JC 479650A	SUB & HONY LT	SHIV KUMAR SINGH	01-04-2012
394	JC 480177M	SUB & HONY LT	SHREE CHAND	01-05-2012
395	JC 479766W	SUB & HONY LT	VIDYA RAM	01-08-2012
396	JC 479802W	SUB & HONY LT	VIRENDER SINGH	01-05-2012
397	JC 479708M	SUB & HONY LT	VIRENDRA SINGH, SM	01-03-2012

**THE JAT REGIMENT**

398	JC 488829P	SUB MAJ & HONY LT	ALBEL SINGH, SM	01-08-2012
399	JC 488827K	SUB MAJ & HONY LT	CHANDI RAM	01-06-2012
400	JC 488293K	SUB MAJ & HONY LT	DAYA CHAND	01-05-2012
401	JC 488920L	SUB MAJ & HONY LT	HARPAL SINGH	01-08-2012
402	JC 488499F	SUB MAJ & HONY LT	JAIVIR SINGH BANA	01-08-2012
403	JC 488429H	SUB MAJ & HONY LT	KAPTAN SINGH RATHI	01-07-2012
404	JC 489983M	SUB & HONY LT	BHAGIRATH MAL	01-06-2012
405	JC 490058K	SUB & HONY LT	INDER PAL SINGH	01-03-2012
406	JC 489565L	SUB & HONY LT	JAI SINGH	01-08-2012
407	JC 489776N	SUB & HONY LT	KISHAN PAL	01-02-2012

408	JC 489840A	SUB & HONY LT	LALA RAM	01-08-2012
409	JC 490030K	SUB & HONY LT	PREMA RAM	01-06-2012
410	JC 489805X	SUB & HONY LT	RAMESH CHANDER	01-06-2012
411	JC 489529A	SUB & HONY LT	SUBHASH CHANDER	01-03-2012
412	JC 489584W	SUB & HONY LT	VEER SINGH	01-07-2012
413	JC 490059M	SUB & HONY LT	YOGENDRA SINGH	01-03-2012

**THE SIKH REGIMENT**

414	JC 498501F	SUB MAJ & HONY LT	HARDEEP SINGH	01-04-2012
415	JC 498497K	SUB MAJ & HONY LT	KIRPAL SINGH	01-07-2012
416	JC 498373P	SUB MAJ & HONY LT	ROOP SINGH	01-06-2012
417	JC 498496F	SUB MAJ & HONY LT	SHAMSHER SINGH	01-02-2012
418	JC 498832H	SUB & HONY LT	AJAIB SINGH	01-04-2012
419	JC 498748H	SUB & HONY LT	AVTAR SINGH	01-05-2012
420	JC 499346X	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	01-08-2012
421	JC 499898L	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH	01-05-2012
422	JC 499150K	SUB & HONY LT	MAGHAR SINGH	01-03-2012
423	JC 498831A	SUB & HONY LT	PAL SINGH	01-06-2012
424	JC 499186H	SUB & HONY LT	SARABJIT SINGH	01-03-2012

**THE SIKH LIGHT INFANTRY**

425	JC 508576P	SUB MAJ & HONY LT	SURJIT PAL SINGH	01-06-2012
426	JC 508816F	SUB & HONY LT	AVTAR SINGH	01-03-2012
427	JC 508747W	SUB & HONY LT	BISHAN SINGH PAWAR	01-05-2012
428	JC 509264L	SUB & HONY LT	HARNAIK SINGH	01-06-2012
429	JC 509578M	SUB & HONY LT	JASBIR SINGH	01-06-2012
430	JC 508806X	SUB & HONY LT	KASHMIR SINGH	01-05-2012

431	JC 508740M	SUB & HONY LT	MADAN LAL SHARMA	01-07-2012
432	JC 509094M	SUB & HONY LT	TARSEM SINGH	01-02-2012
<b><u>THE DOGRA REGIMENT</u></b>				
433	JC 519524Y	SUB MAJ & HONY LT	BAHADUR CHAND	01-07-2012
434	JC 519131H	SUB MAJ & HONY LT	LAL SINGH	01-04-2012
435	JC 519552L	SUB MAJ & HONY LT	MADAN LAL	01-07-2012
436	JC 519315F	SUB MAJ & HONY LT	PURAN CHAND	01-04-2012
437	JC 519210X	SUB MAJ & HONY LT	SURESH CHAND	01-08-2012
438	JC 519184F	SUB MAJ & HONY LT	VIJAY SINGH	01-05-2012
439	JC 520626F	SUB & HONY LT	GAGAN SINGH	01-03-2012
440	JC 520210K	SUB & HONY LT	JANAK RAJ	01-04-2012
441	JC 520238K	SUB & HONY LT	JOGINDER SINGH	01-05-2012
442	JC 520044F	SUB & HONY LT	QUMIT SINGH	01-04-2012
443	JC 520350W	SUB & HONY LT	RAM LAL	01-07-2012
444	JC 520284Y	SUB & HONY LT	RANJIT SINGH	01-04-2012
445	JC 520702H	SUB & HONY LT	RAVINDER SINGH	01-02-2012
446	JC 519998A	SUB & HONY LT	ROOP LAL	01-02-2012
447	JC 520278L	SUB & HONY LT	SANTOSH PAL	01-06-2012
448	JC 520735N	SUB & HONY LT	SATWINDER NATH	01-05-2012
449	JC 520441A	SUB & HONY LT	SUBHASH CHAND	01-07-2012
450	JC 520582P	SUB & HONY LT	SUKESH KUMAR	01-02-2012
451	JC 520695X	SUB & HONY LT	SURJEET SINGH	01-05-2012
452	JC 520616X	SUB & HONY LT	SURJIT SINGH	01-02-2012
453	JC 520596P	SUB & HONY LT	YODHVIR SINGH	01-03-2012

**THE GARHWAL RIFLES**

454	JC 528931H	SUB MAJ & HONY LT	GOPAL SINGH	01-04-2012
455	JC 528977L	SUB MAJ & HONY LT	KUNDAN SINGH RAWAT	01-07-2012
456	JC 528988X	SUB MAJ & HONY LT	NARENDRA SINGH	01-04-2012
457	JC 528839K	SUB MAJ & HONY LT	RAMENDRA SINGH	01-02-2012
458	JC 529059L	SUB MAJ & HONY LT	TRILOK SINGH	01-05-2012
459	JC 530237P	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH NEGI	01-05-2012
460	JC 530146L	SUB & HONY LT	DAMODHAR PRASAD KANDAWAL	01-05-2012
461	JC 530384X	SUB & HONY LT	JAI SINGH, SM	01-08-2012
462	JC 529930M	SUB & HONY LT	MANOJ KUMAR KIMOTI	01-03-2012
463	JC 529828K	SUB & HONY LT	MANWAR SINGH BIST	01-04-2012
464	JC 529730W	SUB & HONY LT	RAJE SINGH	01-04-2012
465	JC 529745Y	SUB & HONY LT	RAJENDRA PRASAD	01-04-2012
466	JC 529921L	SUB & HONY LT	SAROP SINGH	01-08-2012
467	JC 530244L	SUB & HONY LT	SHAKTI PRASAD, SM	01-05-2012
468	JC 529672X	SUB & HONY LT	YASHWANT SINGH	01-04-2012

**THE KUMAON REGIMENT**

469	JC 539074N	SUB MAJ & HONY LT	BAHADUR CHAND	01-04-2012
470	JC 539876X	SUB & HONY LT	BHAIRAB DATT	01-03-2012
471	JC 539799N	SUB & HONY LT	DHAN SINGH	01-07-2012
472	JC 539203H	SUB & HONY LT	DIKAR SINGH	01-08-2012
473	JC 199317K	SUB & HONY LT	ISHWAR SINGH	01-04-1999
474	JC 539258M	SUB & HONY LT	JAGAT SINGH MEHTA	01-04-2012
475	JC 539693F	SUB & HONY LT	KHUSHAL SINGH	01-06-2012
476	JC 539122H	SUB & HONY LT	MADHAN CHAND, SM	01-05-2012

477	JC 538983M	SUB & HONY LT	MANGTU RAM	01-05-2012
478	JC 539814X	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	01-06-2012
479	JC 539139W	SUB & HONY LT	PURAN SINGH BORA	01-05-2012
480	JC 538943L	SUB & HONY LT	RAM SINGH	01-02-2012
481	JC 539270N	SUB & HONY LT	RAM SINGH	01-08-2012
482	JC 539602M	SUB & HONY LT	SHIV RAJ SINGH BISHT	01-08-2012
483	JC 539865L	SUB & HONY LT	SURAJ MAL	01-08-2012
484	JC 540052F	SUB & HONY LT	SURENDER SINGH	01-08-2012
485	JC 539968K	SUB & HONY LT	UMED SINGH	01-04-2012

**THE ASSAM REGIMENT**

486	JC 548306H	SUB MAJ & HONY LT	AMANG CHONGLOI	01-08-2012
487	JC 548372L	SUB MAJ & HONY LT	TANKESWAR SARMA	01-04-2012
488	JC 549545K	SUB & HONY LT	BABURAM POWDEL	01-03-2012
489	JC 549292A	SUB & HONY LT	BIR BABU SINGHA	01-02-2012
490	JC 549256P	SUB & HONY LT	EN NGAIH MUNG	01-02-2012
491	JC 549518A	SUB & HONY LT	N BIREN SINGHA	01-07-2012
492	JC 548830W	SUB & HONY LT	N LIANZAM	01-04-2012
493	JC 549502P	SUB & HONY LT	PRODIP KUMAR BASUMATARY	01-07-2012
494	JC 549581P	SUB & HONY LT	RAMENDRA BASUMATARY	01-03-2012
495	JC 549430W	SUB & HONY LT	RANHANG AFI	01-03-2012
496	JC 549369X	SUB & HONY LT	SHUVIT BARMAN	01-07-2012
497	JC 549157M	SUB & HONY LT	T MANGBOY GANGTE	01-04-2012
498	JC 548835P	SUB & HONY LT	TAWNGLAL VAIPHEI	01-07-2012
499	JC 549530F	SUB & HONY LT	TH REN JHON LAMKANG	01-06-2012
500	JC 549156K	SUB & HONY LT	VANLALTHIENG	01-05-2012

**THE BIHAR REGIMENT**

501	JC 558912M	SUB MAJ & HONY LT	ATHNAS KERKETTA	01-08-2012
502	JC 558673H	SUB MAJ & HONY LT	DADAN PRASAD SINGH YADAV	01-08-2012
503	JC 558642H	SUB MAJ & HONY LT	INDRA MANI SETHI	01-04-2012
504	JC 558767A	SUB MAJ & HONY LT	JABAHAR LAL SAHU	01-04-2012
505	JC 558880P	SUB MAJ & HONY LT	RAM BABU PRASAD	01-05-2012
506	JC 558859M	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH CHANDRA SAHU	01-05-2012
507	JC 559575P	SUB & HONY LT	ARUN KAJUR	01-04-2012
508	JC 559545Y	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR SINGH	01-03-2012
509	JC 559580A	SUB & HONY LT	BIJAY BAHADUR SINGH	01-04-2012
510	JC 559595H	SUB & HONY LT	DINESH PRASAD YADAV	01-04-2012
511	JC 559705M	SUB & HONY LT	INDRAJIT BARIK	01-07-2012
512	JC 559133W	SUB & HONY LT	MITHLESH KUMAR SINGH	01-05-2012
513	JC 559628H	SUB & HONY LT	OM PRAKASH GUPTA	01-04-2012
514	JC 559685K	SUB & HONY LT	OMLAN HORO	01-04-2012

**THE MAHAR REGIMENT**

515	JC 568706W	SUB MAJ & HONY LT	BISHRAM SINGH	01-07-2012
516	JC 568371K	SUB MAJ & HONY LT	LUTFUL HOQUE	01-02-2012
517	JC 568345H	SUB MAJ & HONY LT	OMVIR SINGH	01-04-2012
518	JC 568711F	SUB MAJ & HONY LT	PYARE LAL	01-06-2012
519	JC 568449K	SUB MAJ & HONY LT	RISHI PAL SINGH	01-03-2012
520	JC 569789Y	SUB & HONY LT	BANI SINGH	01-04-2012
521	JC 569196M	SUB & HONY LT	BRIJENDRA SINGH	01-04-2012
522	JC 569612L	SUB & HONY LT	CHANDRAJEET YADAV	01-02-2012
523	JC 569724L	SUB & HONY LT	DHARMENDRA SINGH	01-02-2012



524	JC 569410K	SUB & HONY LT	JAGATTAR SINGH	01-04-2012
525	JC 569739N	SUB & HONY LT	JAI SINGH NEGI	01-03-2012
526	JC 569364A	SUB & HONY LT	OM PRAKASH	01-02-2012
527	JC 570208H	SUB & HONY LT	RAM CHANDER PANDEY	01-04-2012
528	JC 569781M	SUB & HONY LT	SHANKAR SINGH	01-04-2012
529	JC 569647F	SUB & HONY LT	SITA RAM NAYAK	01-03-2012
530	JC 569727Y	SUB & HONY LT	YASH PAL SINGH	01-03-2012

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

531	JC 578937A	SUB MAJ & HONY LT	HANS RAJ	01-07-2012
532	JC 579351W	SUB MAJ & HONY LT	MOHD RAZAQ	01-02-2012
533	JC 578666N	SUB MAJ & HONY LT	PARTAP CHAND JASWAL	01-03-2012
534	JC 579139Y	SUB MAJ & HONY LT	PUKAR LAMA, SM	01-05-2012
535	JC 579421K	SUB MAJ & HONY LT	SHRI RAM	01-04-2012
536	JC 578657M	SUB MAJ & HONY LT	UTTAM CHAND	01-03-2012
537	JC 580146F	SUB & HONY LT	AJMER SINGH	01-06-2012
538	JC 580526A	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR	01-02-2012
539	JC 580848A	SUB & HONY LT	AVTAR SINGH	01-05-2012
540	JC 580089L	SUB & HONY LT	BABU RAM	01-08-2012
541	JC 580832P	SUB & HONY LT	BACHAN LAL	01-02-2012
542	JC 580528L	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH ATRI	01-02-2012
543	JC 580756N	SUB & HONY LT	GURBACHAN SINGH	01-02-2012
544	JC 580230F	SUB & HONY LT	GURMESH SINGH	01-02-2012
545	JC 580676W	SUB & HONY LT	JOGINDER PAUL SHARMA	01-03-2012
546	JC 580336N	SUB & HONY LT	KIRPA RAM	01-08-2012
547	JC 580407K	SUB & HONY LT	LEKH RAJ	01-08-2012
548	JC 580086X	SUB &	NAND LAL SHARMA	01-08-2012

549	JC 580305N	HONY LT SUB & HONY LT	OM PRAKASH	01-02-2012
550	JC 579887M	HONY LT SUB & HONY LT	PADAM SINGH	01-02-2012
551	JC 580306W	HONY LT SUB & HONY LT	PRADEEP SINGH	01-02-2012
552	JC 580167X	HONY LT SUB & HONY LT	PRASHAR DEV	01-03-2012
553	JC 580210N	HONY LT SUB & HONY LT	RANJIT SINGH	01-04-2012
554	JC 580752X	HONY LT SUB & HONY LT	RAVI KUMAR	01-02-2012
555	JC 580485F	HONY LT SUB & HONY LT	WARYAM SINGH	01-03-2012

**THE LADAKH SCOUTS**

556	JC 129499L	SUB MAJ & HONY LT	LOBZANG STANDER	01-03-2012
557	JC 588331K	SUB & HONY LT	STANZIN ANGCHOK	01-08-2012
558	JC 588190A	SUB & HONY LT	TASHI WANGIAL	01-05-2012
559	JC 588207H	SUB & HONY LT	TSERING JORFAIL	01-04-2012

**THE NAGA REGIMENT**

560	JC 590095M	SUB & HONY LT	LETKHOLIM KHONGSAI, SM	01-03-2012
-----	------------	------------------	------------------------	------------

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

561	JC 592652Y	SUB MAJ & HONY LT	GH RASOOL WANI	01-04-2012
562	JC 592441W	SUB MAJ & HONY LT	ONKAR CHAND BAKSHI	01-04-2012
563	JC 592561P	SUB MAJ & HONY LT	RAGHUBIR SINGH	01-08-2012
564	JC 592948X	SUB & HONY LT	AB HAMID MIR	01-05-2012
565	JC 593209X	SUB & HONY LT	ANCHAL SINGH	01-08-2012
566	JC 592919H	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR	01-08-2012
567	JC 593002X	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR	01-06-2012
568	JC 593454A	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR	01-06-2012
569	JC 593390A	SUB & HONY LT	BALWAN SINGH	01-07-2012
570	JC 593636N	SUB & HONY LT	CHANDER MOHAN	01-08-2012

571	JC 593028M	SUB & HONY LT	DAYA KRISHAN	01-08-2012
572	JC 592847K	SUB & HONY LT	DES RAJ	01-04-2012
573	JC 593314N	SUB & HONY LT	DHRUB SINGH	01-06-2012
574	JC 593026F	SUB & HONY LT	ISHER DASS	01-04-2012
575	JC 592383X	SUB & HONY LT	JAGDISH RAJ	01-08-2012
576	JC 593113P	SUB & HONY LT	JARNAIL SINGH	01-08-2012
577	JC 592846F	SUB & HONY LT	KAMAL RAJ	01-04-2012
578	JC 592723P	SUB & HONY LT	KARNAIL SINGH CHIB	01-08-2012
579	JC 592994M	SUB & HONY LT	KARTAR SINGH	01-08-2012
580	JC 592427K	SUB & HONY LT	KRISHAN SINGH	01-07-2012
581	JC 592977M	SUB & HONY LT	LIYAQAT ALI	01-04-2012
582	JC 593111K	SUB & HONY LT	MADAN LAL	01-05-2012
583	JC 593077P	SUB & HONY LT	MADAN MOHAN	01-08-2012
584	JC 592686M	SUB & HONY LT	MOHD BASHIR	01-06-2012
585	JC 592722M	SUB & HONY LT	MOHD YAQOOB	01-05-2012
586	JC 592750Y	SUB & HONY LT	PAHIL SINGH	01-05-2012
587	JC 592808L	SUB & HONY LT	RANJIT SINGH	01-04-2012
588	JC 593106Y	SUB & HONY LT	ROMESH LAL	01-05-2012
589	JC 593270F	SUB & HONY LT	ROSHAN LAL	01-08-2012
590	JC 593251W	SUB & HONY LT	SANDEEP KUMAR	01-06-2012
591	JC 593068N	SUB & HONY LT	SHER SINGH	01-08-2012
592	JC 593256P	SUB & HONY LT	SOHAN LAL	01-08-2012
593	JC 593098L	SUB & HONY LT	SOM DUTT	01-08-2012
594	JC 592648W	SUB & HONY LT	SURAM SINGH	01-05-2012
595	JC 592843N	SUB & HONY LT	TARA CHAND	01-08-2012

596	JC 592875W	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR	01-04-2012
<b><u>1 GORKHA RIFLES</u></b>				
597	JC 602297H	SUB MAJ & HONY LT	THAKUR BAHADUR THAPA	01-06-2012
598	JC 602658W	SUB & HONY LT	BISHWO KIRAN SHRESTHA	01-05-2012
599	JC 602614Y	SUB & HONY LT	CHHETRA BAHADUR GURUNG	01-06-2012
600	JC 602721A	SUB & HONY LT	DEB BAHADUR THAPA	01-02-2012
<b><u>3 GORKHA RIFLES</u></b>				
601	JC 607320P	SUB & HONY LT	CHINTAN KUMAR SINGH	01-07-2012
602	JC 607511K	SUB & HONY LT	SHAMSHER BAHADUR THAPA	01-06-2012
603	JC 607510F	SUB & HONY LT	SHANT BAHADUR THAPA	01-02-2012
<b><u>4 GORKHA RIFLES</u></b>				
604	JC 612428W	SUB MAJ & HONY LT	DEEPAK KUMAR THAPA	01-03-2012
605	JC 612334Y	SUB MAJ & HONY LT	RAM CHANDRA THAPA	01-08-2012
606	JC 612312A	SUB MAJ & HONY LT	RAM LAXMAN THAPA	01-05-2012
607	JC 612360A	SUB MAJ & HONY LT	TEK BAHADUR GURUNG	01-05-2012
608	JC 612569L	SUB & HONY LT	DHIR BAHADUR GURUNG	01-02-2012
609	JC 612476W	SUB & HONY LT	KHEM BAHADUR GURUNG	01-05-2012
610	JC 612555L	SUB & HONY LT	NARENDRA KUMAR	01-06-2012
<b><u>5 GORKHA RIFLES</u></b>				
611	JC 617524P	SUB MAJ & HONY LT	HARI BAHADUR BHUJEL	01-05-2012
612	JC 617467Y	SUB MAJ & HONY LT	PREM KUMAR GURUNG	01-06-2012
613	JC 617408M	SUB MAJ & HONY LT	YAM BAHADUR	01-05-2012
614	JC 617683M	SUB & HONY LT	KRISHNA BAHADUR PUN	01-06-2012
615	JC 617673H	SUB & HONY LT	TARA LAL MALLA	01-05-2012

**8 GORKHA RIFLES**

616	JC 623596P	SUB & HONY LT	BALA KRISHNA THAPA	01-04-2012
617	JC 623676M	SUB & HONY LT	BHIM BAHADUR THAPA	01-08-2012
618	JC 623574W	SUB & HONY LT	DEB BAHADUR THAPA	01-04-2012
619	JC 623663P	SUB & HONY LT	GOBARDHAN PRADHAN	01-07-2012
620	JC 623598A	SUB & HONY LT	JHALAK PRASAD GURUNG	01-05-2012
621	JC 623549X	SUB & HONY LT	KRISHNA BAHADUR PUN	01-02-2012

**9 GORKHA RIFLES**

622	JC 629838H	SUB & HONY LT	HIRA BAHADUR THAPA	01-08-2012
623	JC 629599Y	SUB & HONY LT	HUMENDRA SINGH RAY MAJHI	01-05-2012
624	JC 629813W	SUB & HONY LT	MADAN KUMAR CHHETRI	01-02-2012

**11 GORKHA RIFLES**

625	JC 634280H	SUB MAJ & HONY LT	TIKA RAM SHRESTHA	01-07-2012
626	JC 634605L	SUB & HONY LT	PADAM PRASAD LIMBU	01-07-2012
627	JC 634541L	SUB & HONY LT	RAJA RAI	01-07-2012
628	JC 634704N	SUB & HONY LT	YUB RAJ LIMBU	01-02-2012

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

629	JC 662267P	SUB MAJ & HONY LT	GHAN SHAYAM	01-08-2012
630	JC 641651H	SUB MAJ & HONY LT	HARI DAS MUKHERJEE	01-08-2012
631	JC 640681N	SUB MAJ & HONY LT	KRISHNAN K	01-07-2012
632	JC 641239P	SUB MAJ & HONY LT	LAXMI NATH KASHYAP	01-06-2012
633	JC 640659H	SUB MAJ & HONY LT	M PARIMANI	01-04-2012
634	JC 640727L	SUB MAJ & HONY LT	MANGAL SINGH RAWAT	01-06-2012
635	JC 640378M	SUB MAJ & HONY LT	NATHU LAL	01-03-2012
636	JC 640399H	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDER PANDEY	01-03-2012

637	JC 662196Y	SUB MAJ & HONY LT	RAM JIAWAN	01-05-2012
638	JC 662119K	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH RAJU C	01-03-2012
639	JC 641396F	SUB MAJ & HONY LT	S CHIDAMBARAM	01-07-2012
640	JC 662215Y	SUB MAJ & HONY LT	SHIV NARAYAN MISHRA	01-08-2012
641	JC 640734F	SUB MAJ & HONY LT	SURINDER SINGH	01-07-2012
642	JC 215516K	SUB MAJ & HONY LT	SURYA NATH RAM	01-04-2012
643	JC 662228W	SUB MAJ & HONY LT	UMED SINGH JODHA	01-07-2012
644	JC 165615N	SUB & HONY LT	BINAY KUMAR SHARMA	01-02-2012
645	JC 663265W	SUB & HONY LT	DILIP KUMAR DAS	01-05-2012
646	JC 663084L	SUB & HONY LT	RAJ BAHADUR	01-07-2012
647	JC 642195P	SUB & HONY LT	RAM JANAM RAM	01-06-2012
648	JC 641574Y	SUB & HONY LT	RAMESH CHAND SHARMA	01-07-2012
649	JC 643146Y	SUB & HONY LT	RANJIT SARKAR	01-03-2012
650	JC 643020Y	SUB & HONY LT	SHANU SINGH	01-03-2012
651	JC 663348F	SUB & HONY LT	SUNIL KUMAR SINGH	01-08-2012

**ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)**

652	JC 680595L	RIS MAJ & HONY LT	KAILASH KUMAR	01-07-2012
653	JC 680810L	RIS & HONY LT	BHAWANI DIN	01-04-2012
654	JC 680798P	RIS & HONY LT	ELRED KHALKHO	01-04-2012
655	JC 680963P	RIS & HONY LT	GOVIND LAL	01-07-2012
656	JC 680806H	RIS & HONY LT	JAGDISH PRASAD	01-06-2012
657	JC 680888W	RIS & HONY LT	MAHESH LOHRA	01-04-2012
658	JC 680811N	RIS & HONY LT	MARUTI LAXMAN HOOLI	01-06-2012
659	JC 680668M	RIS & HONY LT	MOHAN RAM	01-04-2012
660	JC 680873N	RIS & HONY LT	NARESH PRASAD	01-04-2012

661	JC 680803P	RIS & HONY LT	RAGHUBIR SINGH	01-05-2012
662	JC 680861Y	RIS & HONY LT	RAM GATI SINGH	01-05-2012
663	JC 680800F	RIS & HONY LT	SACHINDRA SINGHA	01-05-2012
664	JC 680825N	RIS & HONY LT	SHEO NARAYAN SINGH	01-08-2012
665	JC 680813Y	RIS & HONY LT	SHYAM BIHARI SINGH	01-07-2012
666	JC 680691A	RIS & HONY LT	SUDERSHAN PRASAD	01-06-2012
667	JC 680769A	RIS & HONY LT	UMA SHANKER	01-07-2012

**ARMY MEDICAL CORPS**

668	JC 692916K	SUB MAJ & HONY LT	AJAY KUMAR PATRA	01-03-2012
669	JC 690407M	SUB MAJ & HONY LT	BIMAL KUMAR ROY	01-08-2012
670	JC 694003F	SUB MAJ & HONY LT	DAYANANDA T S	01-07-2012
671	JC 130406X	SUB MAJ & HONY LT	GANGA PRASAD PATHAK	01-07-2012
672	JC 693543N	SUB MAJ & HONY LT	KUMARESAN M	01-06-2012
673	JC 691634Y	SUB MAJ & HONY LT	NARENDRA PAL SINGH	01-03-2012
674	JC 693798N	SUB MAJ & HONY LT	NETRAPAL SINGH	01-03-2012
675	JC 692912N	SUB MAJ & HONY LT	PREM PRAKASH	01-02-2012
676	JC 694013L	SUB MAJ & HONY LT	RAJ KUMAR	01-07-2012
677	JC 693078M	SUB MAJ & HONY LT	RAJEEV KUMAR MISHRA	01-05-2012
678	JC 693196A	SUB MAJ & HONY LT	RAKESH KUMAR	01-06-2012
679	JC 218615X	SUB MAJ & HONY LT	RAM BAHADUR	01-04-2012
680	JC 148707K	SUB MAJ & HONY LT	RAMA KANT TIWARI	01-06-2012
681	JC 693655N	SUB MAJ & HONY LT	RINCHEN SIMICK	01-08-2012
682	JC 692917M	SUB MAJ & HONY LT	SURENDRA NATH PANDEY	01-03-2012
683	JC 691741A	SUB MAJ & HONY LT	SWARN LAL VERMA	01-08-2012
684	JC 692219K	SUB MAJ & HONY LT	UMMAR K E	01-08-2012

685	JC 695241A	SUB & HONY LT	ARUNA KUMAR MOHANTY	01-07-2012
686	JC 695691X	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR	01-06-2012
687	JC 695900K	SUB & HONY LT	BALWAN SINGH	01-04-2012
688	JC 693695P	SUB & HONY LT	BHAGWAN SINGH BOHARA	01-07-2012
689	JC 693783L	SUB & HONY LT	DEBASIS DAS	01-03-2012
690	JC 694731F	SUB & HONY LT	GOVIND SINGH	01-07-2012
691	JC 695231W	SUB & HONY LT	KAMALASANAN NAIR K	01-07-2012
692	JC 693784N	SUB & HONY LT	OM PRAKASH PANDEY	01-03-2012
693	JC 691763Y	SUB & HONY LT	SATYA PRAKASH TIWARI	01-07-2012
694	JC 692526F	SUB & HONY LT	SHRI NIWASH VARMA	01-04-2012
695	JC 694730Y	SUB & HONY LT	THOMAS KUTTY K J	01-07-2012
696	JC 693878L	SUB & HONY LT	VASANT SAWANT	01-08-2012

#### ARMY ORDNANCE CORPS

697	JC 723637H	SUB MAJ & HONY LT	AMARJIT SINGH	01-07-2012
698	JC 723745M	SUB MAJ & HONY LT	ASHOK KUMAR	01-06-2012
699	JC 724060A	SUB MAJ & HONY LT	BHANDAR KAWTHE SIDRAM	01-08-2012
700	JC 723198H	SUB MAJ & HONY LT	CHANDER SINGH	01-05-2012
701	JC 723525H	SUB MAJ & HONY LT	HAFIZUL MOKID KHAN	01-03-2012
702	JC 723527N	SUB MAJ & HONY LT	HARINDRA PRASAD VARMA	01-02-2012
703	JC 723627Y	SUB MAJ & HONY LT	KHURSHED AHMAD	01-04-2012
704	JC 723895H	SUB MAJ & HONY LT	NIKAM KESHAV MOKINDA	01-07-2012
705	JC 723523X	SUB MAJ & HONY LT	PURAN CHANDRA LENKA	01-02-2012
706	JC 723769W	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH CHANDRA NAYAK	01-04-2012
707	JC 723529Y	SUB MAJ & HONY LT	SARDARI LAL SHARMA	01-05-2012
708	JC 725945F	SUB MAJ & HONY LT	SHAIK KASIM PERA	01-06-2012



709	JC 723785N	SUB MAJ & SHINGE BHAGAVANT SHANKAR HONY LT	01-07-2012
710	JC 723811K	SUB MAJ & SHRI SAHEB RAM HONY LT	01-02-2012
711	JC 723784I	SUB MAJ & SUBHASH CHAND GULERIA HONY LT	01-06-2012
712	JC 722902F	SUB MAJ & SURENDRAN NAIR T R HONY LT	01-02-2012
713	JC 723663K	SUB MAJ & UTHAMAN V K HONY LT	01-02-2012
714	JC 726079X	SUB & ASHOK KUMAR HONY LT	01-02-2012
715	JC 726682A	SUB & DEV RAJ HONY LT	01-02-2012
716	JC 726252W	SUB & MANORANJAN BISWAS HONY LT	01-07-2012
717	JC 726076K	SUB & OMPAL SINGH HONY LT	01-02-2012
718	JC 726171W	SUB & RAGHUBIR SINGH HONY LT	01-03-2012
719	JC 726881N	SUB & RAGHUNATH GHOSH HONY LT	01-06-2012
720	JC 726201H	SUB & SHRIKANT HONGAL HONY LT	01-06-2012

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**

721	JC 751298K	SUB MAJ & BHUPINDER KUMAR HONY LT	01-02-2012
722	JC 752001K	SUB MAJ & BISWANATH SEN GUPTA HONY LT	01-04-2012
723	JC 752550K	SUB MAJ & DHIRAJ SINGH NEGI HONY LT	01-06-2012
724	JC 752958H	SUB MAJ & HRIDAY CHAND REJ HONY LT	01-08-2012
725	JC 752406P	SUB MAJ & JAINANDAN THAKUR HONY LT	01-04-2012
726	JC 752595K	SUB MAJ & JAWAHAR LAL SINGH HONY LT	01-06-2012
727	JC 752339P	SUB MAJ & MUKADEO RAM GUPTA HONY LT	01-02-2012
728	JC 752944H	SUB MAJ & NAGU RAM HONY LT	01-07-2012
729	JC 754225H	SUB MAJ & P KUSUMAKUMAR HONY LT	01-04-2012
730	JC 756231P	SUB MAJ & PRAMOD DUBE HONY LT	01-03-2012
731	JC 751274A	SUB MAJ & PV JAYASEELAN HONY LT	01-02-2012
732	JC 753733M	SUB MAJ & RAGHUBIR SINGH HONY LT	01-03-2012

733	JC 751840P	SUB MAJ & RAJ KUMAR HONY LT	01-04-2012
734	JC 753632Y	SUB MAJ & RAM SAKAL PRASAD HONY LT	01-02-2012
735	JC 752569H	SUB MAJ & RAM SHARAN RAM HONY LT	01-06-2012
736	JC 752478Y	SUB MAJ & RAMESH KUMAR HONY LT	01-05-2012
737	JC 753892K	SUB MAJ & SARWAN SINGH HONY LT	01-02-2012
738	JC 756945H	SUB MAJ & SATYA BADI PATRA HONY LT	01-07-2012
739	JC 752942X	SUB MAJ & SHARMA HEMANT PRASAD HONY LT HARIKRISHNA	01-07-2012
740	JC 752256K	SUB MAJ & SHIV KUMAR HONY LT	01-04-2012
741	JC 749171H	SUB MAJ & SHYLAJAN K HONY LT	01-07-2012
742	JC 750998L	SUB MAJ & SOMAN N HONY LT	01-03-2012
743	JC 750304A	SUB MAJ & SUBHASH MS HONY LT	01-05-2012
744	JC 751023W	SUB MAJ & SUBHASH SINGH HONY LT	01-02-2012
745	JC 752721L	SUB MAJ & SULEMAN KHAN HONY LT	01-02-2012
746	JC 750404L	SUB MAJ & SURENDER SINGH RAWAT HONY LT	01-02-2012
747	JC 750296M	SUB MAJ & SURJIT SINGH HONY LT	01-02-2012
748	JC 760853N	SUB & AMAN KUMAR HONY LT	01-08-2012
749	JC 760209F	SUB & ASHOK KUMAR SINGH HONY LT	01-04-2012
750	JC 749337Y	SUB & BAIDYA NATH SINGH HONY LT	01-06-2012
751	JC 758829Y	SUB & BHOINWAD HARI CHANDRA HONY LT PANDURANG	01-06-2012
752	JC 760442P	SUB & BRIJENDRA KUMAR SINGH HONY LT	01-05-2012
753	JC 758227L	SUB & DHARM PAL HONY LT	01-08-2012
754	JC 753737H	SUB & GOUR GOPAL ADHIKARY HONY LT	01-06-2012
755	JC 754000A	SUB & HARJINDER SINGH HONY LT	01-04-2012
756	JC 758287A	SUB & JAGDISH CHAND HONY LT	01-04-2012
757	JC 754764Y	SUB & JAGDISH PRASAD HONY LT	01-07-2012

758	JC 749181M	SUB & HONY LT	KURIAKOSE VK	01-05-2012
759	JC 751130X	SUB & HONY LT	LAKSHAMAN RAY	01-06-2012
760	JC 749169L	SUB & HONY LT	MAHESH CHANDRA	01-04-2012
761	JC 754111X	SUB & HONY LT	MUKUT CHANDRA MEDHI	01-03-2012
762	JC 753116K	SUB & HONY LT	NIRMAL KUMAR SINGH	01-04-2012
763	JC 749035M	SUB & HONY LT	PRADEEPAN K	01-04-2012
764	JC 751111M	SUB & HONY LT	PRATAP SINGH SAINI	01-04-2012
765	JC 758250Y	SUB & HONY LT	PURNANANDA GOGAI	01-05-2012
766	JC 760851H	SUB & HONY LT	PUSHPA KARAN VC	01-08-2012
767	JC 756519P	SUB & HONY LT	RAJINDER SINGH	01-06-2012
768	JC 757062L	SUB & HONY LT	RAKESH BABU	01-03-2012
769	JC 760211Y	SUB & HONY LT	RAM BABU	01-04-2012
770	JC 760560H	SUB & HONY LT	RAVINDRA PRASAD SINGH	01-06-2012
771	JC 758401M	SUB & HONY LT	SAMBHUNATH JHA	01-06-2012
772	JC 761818X	SUB & HONY LT	SATISH CHANDRA SHARMA	01-04-2012
773	JC 754389Y	SUB & HONY LT	SHIVA SHANKAR SATAPPA KARNURE	01-08-2012
774	JC 760509H	SUB & HONY LT	SHRI KANT KUSHWAHA	01-06-2012
775	JC 759405P	SUB & HONY LT	SIBA PRASAD RAVA	01-08-2012
776	JC 751112P	SUB & HONY LT	SOM DATT	01-04-2012
777	JC 753755L	SUB & HONY LT	SUBASH CHARAN SAHA	01-04-2012
778	JC 757995A	SUB & HONY LT	SUBRAHMANNIAN IP	01-04-2012
779	JC 749233X	SUB & HONY LT	TULSA RAM SIYAK	01-05-2012
780	JC 755405X	SUB & HONY LT	UNNI KRISHNAN CP	01-02-2012
781	JC 754386L	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR	01-08-2012
782	JC 753501Y	SUB & HONY LT	VIJAYAVEL G	01-03-2012
783	JC 758249K	SUB &	YOGOL SINGH KUSHWAHA	01-05-2012

## HONY LT

**ARMY EDUCATION CORPS**

784	JC 802324L	SUB MAJ & HONY LT	ASHOK KUMAR TYAGI	01-06-2012
785	JC 802169P	SUB MAJ & HONY LT	CHANDER SHAKHER	01-04-2012
786	JC 802084Y	SUB MAJ & HONY LT	DALIP KUMAR KANWAR	01-02-2012
787	JC 802178W	SUB MAJ & HONY LT	KARAM BIR SINGH	01-05-2012
788	JC 802323H	SUB MAJ & HONY LT	KASHMIRI LAL	01-06-2012
789	JC 802046H	SUB MAJ & HONY LT	MAHENDRA SINGH KOSHYARI	01-02-2012
790	JC 802087M	SUB MAJ & HONY LT	PRASANNA KUMAR SUBUDHI RAY	01-02-2012
791	JC 802284P	SUB MAJ & HONY LT	RAJ KUMAR SINGH	01-07-2012
792	JC 802177N	SUB MAJ & HONY LT	SAGAR SINGH LALOTRA	01-05-2012
793	JC 802172P	SUB MAJ & HONY LT	SURESH CHAND	01-04-2012
794	JC 802799P	SUB & HONY LT	DEEP CHAND	01-04-2012
795	JC 802586F	SUB & HONY LT	SUKRAM PAL	01-04-2012

**REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

796	JC 797381A	RIS & HONY LT	CHHEDA LAL	01-04-2012
797	JC 797403N	RIS & HONY LT	RAGHBIR SINGH	01-04-2012

**THE INTELLIGENCE CORPS**

798	JC 810072Y	SUB MAJ & HONY LT	BAIS BAHADUR GURUNG	01-08-2012
799	JC 810116L	SUB MAJ & HONY LT	BHUPENDER SINGH	01-06-2012
800	JC 810066L	SUB MAJ & HONY LT	DIWAN SINGH	01-06-2012
801	JC 810071W	SUB MAJ & HONY LT	LABH SINGH	01-07-2012
802	JC 810029X	SUB MAJ & HONY LT	SANSAR CHAND	01-03-2012
803	JC 810058M	SUB MAJ & HONY LT	SUDHIR KUMAR GURUNG	01-05-2012
804	JC 810668Y	SUB & HONY LT	LAL SINGH	01-06-2012
805	JC 810644P	SUB &	ONKAR CHAND SHARMA	01-04-2012

806	JC 810687K	HONY LT SUB & HONY LT	RAJINDER KUMAR	01-08-2012
807	JC 810641F	HONY LT SUB & HONY LT	SUBHASH CHAND PARMAR	01-04-2012
<b><u>CORPS OF MILITARY POLICE</u></b>				
808	JC 818676M	SUB MAJ & HONY LT	DINA NATH SINGH	01-07-2012
809	JC 818617A	SUB MAJ & HONY LT	PH BASNA SINGHA	01-02-2012
810	JC 818690Y	SUB & HONY LT	KRISHNA KUMAR S	01-02-2012
811	JC 818816N	SUB & HONY LT	PRATHVI RAJ SINGH GAUR	01-07-2012
812	JC 819049M	SUB & HONY LT	RAM PRASIDH MISHRA	01-03-2012
813	JC 818808P	SUB & HONY LT	S LINGARAJ ACHARY	01-07-2012
<b><u>ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS</u></b>				
814	JC 826091N	SUB MAJ & HONY LT	BHIM BAHADUR THAPA	01-05-2012
<b><u>THE PIONEER CORPS</u></b>				
815	JC 829145P	SUB MAJ & HONY LT	MD KAMAL KHAN	01-02-2012
816	JC 829177X	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH M C	01-04-2012
817	JC 829207K	SUB MAJ & HONY LT	VIRENDRA KUMAR SINGH	01-05-2012
818	JC 829322K	SUB & HONY LT	SANTOSH KUMAR	01-04-2012
819	JC 829325X	SUB & HONY LT	SUBODH SAGAR CHAURASIA	01-04-2012
<b><u>ARMY POSTAL SERVICE</u></b>				
820	JC 834188N	SUB & HONY LT	NARENDRA PRASAD	01-04-2012
<b><u>DEFENCE SECURITY CORPS</u></b>				
821	JC 840474L	SUB MAJ & HONY LT	SUDESH KUMAR	01-04-2012
822	JC 840673Y	SUB & HONY LT	KRISHAN SINGH	01-04-2012
823	JC 842176N	SUB & HONY LT	M RAJAN	01-07-2012
824	JC 841709Y	SUB & HONY LT	MELA SINGH	01-06-2012
825	JC 841871W	SUB &	MILAP CHAND RANA	01-04-2012

826	JC 841577W	HONY LT SUB & HONY LT	SHIB SANKAR LAHA	01-03-2012
-----	------------	-----------------------------	------------------	------------

**TERRITORIAL ARMY**

827	TJ 4448X	SUB MAJ & HONY LT	JASWANT SINGH	01-03-2012
828	TJ 4884P	SUB MAJ & HONY LT	ONKAR SINGH	01-07-2012
829	TJ 3619M	SUB MAJ & HONY LT	PURNA BAHADUR RAI	01-07-2012
830	TJ 4307H	SUB & HONY LT	ABINASH KUMAR KATTIYAR	01-07-2012
831	TJ 3911H	SUB & HONY LT	ASHWANY KUMAR	01-05-2012
832	TJ 4700L	SUB & HONY LT	BRIJ NANDAN LAL	01-07-2012
833	TJ 4829Y	SUB & HONY LT	BUDH SEN PRASAD PANDEY	01-08-2012
834	TJ 4421A	SUB & HONY LT	CHANDRASEKHARAN NAIR K	01-03-2012
835	TJ 4859W	SUB & HONY LT	GURDEV RAJ	01-06-2012
836	TJ 4305X	SUB & HONY LT	HARPAL SINGH	01-04-2012
837	TJ 4368A	SUB & HONY LT	KURANE NIVRUTI RAJARAM	01-03-2012
838	TJ 4338H	SUB & HONY LT	MOHAN LAL	01-04-2012
839	TJ 4306A	SUB & HONY LT	RAMBIR SINGH	01-07-2012
840	TJ 4976F	SUB & HONY LT	SUBHASH	01-08-2012

**TO BE HONORARY LIEUTENANTS****PRESIDENT'S BODY GUARD**

1	JC 235014H	RIS MAJ	SUKHRAJ SINGH	01-05-2012
<b><u>16 CAVALRY</u></b>				
2	JC 239227N	RIS MAJ	KASINATHAN C	01-02-2012
3	JC 239490Y	RIS MAJ	RAMACHANDRAN PILLAI G	01-06-2012
<b><u>8 CAVALRY</u></b>				
4	JC 239650N	RIS MAJ	JAGBIR SINGH	01-05-2012
<b><u>45 CAVALRY</u></b>				
5	JC 238909M	RIS MAJ	JAYADEVAN K	01-06-2012
<b><u>64 CAVALRY</u></b>				
6	JC 239147W	RIS MAJ	BALWINDER SINGH	01-05-2012
<b><u>87 ARMOURED REGIMENT</u></b>				
7	JC 239364M	RIS MAJ	A MANIKANDAN	01-05-2012

**5 ARMoured REGIMENT**

8	JC 237571A	RIS MAJ	KADAR SINGH BHADORIA	01-08-2012
---	------------	---------	----------------------	------------

**10 ARMoured REGIMENT**

9	JC 237152H	RIS MAJ	NAND KISHORE PRASAD	01-06-2012
---	------------	---------	---------------------	------------

**ARMoured CORPS**

10	JC 238454F	RIS MAJ	OMVIR SINGH	01-03-2012
----	------------	---------	-------------	------------

**REGIMENT OF ARTILLERY**

11	JC 256464N	SUB MAJ	A SIVALINGAM	01-03-2012
12	JC 259568A	SUB MAJ	AMARJIT SINGH	01-06-2012
13	JC 259324M	SUB MAJ	AMERJIT SINGH	01-05-2012
14	JC 258175X	SUB MAJ	AN SINGH	01-04-2012
15	JC 263197A	SUB MAJ	AVAD BIHARI SINGH	01-02-2012
16	JC 261353A	SUB MAJ	BHARAT SINGH	01-06-2012
17	JC 261476M	SUB MAJ	BIJENDRA SINGH	01-06-2012
18	JC 260394X	SUB MAJ	CHILGAR KISAN SAMBHU	01-03-2012
19	JC 260602F	SUB MAJ	DUNGAR SINGH	01-06-2012
20	JC 259911X	SUB MAJ	GANDHARB SINGH	01-05-2012
21	JC 258927W	SUB MAJ	GURDIP SINGH	01-02-2012
22	JC 261337H	SUB MAJ	KANTI PRASAD SHARMA	01-02-2012
23	JC 259413L	SUB MAJ	MANJIT SINGH	01-08-2012
24	JC 260679K	SUB MAJ	MEHAR SINGH	01-06-2012
25	JC 259848N	SUB MAJ	MOHANAN PILLAI G	01-06-2012
26	JC 257225L	SUB MAJ	NAND KUMAR SINGH	01-02-2012
27	JC 258710M	SUB MAJ	OM PARKASH	01-04-2012
28	JC 262069W	SUB MAJ	PADMANABHAN VAYALAPRA	01-04-2012
29	JC 260188N	SUB MAJ	PRITAM SINGH	01-07-2012
30	JC 258702N	SUB MAJ	RADHA KRISHAN RAO	01-04-2012
31	JC 259663M	SUB MAJ	RAM EKBAL CHOUDHARY	01-02-2012
32	JC 258843H	SUB MAJ	RAM PRAVESH SHARMA	01-02-2012
33	JC 261626X	SUB MAJ	S PANDI	01-07-2012
34	JC 259296L	SUB MAJ	SANTOSH KUMAR	01-07-2012
35	JC 260331P	SUB MAJ	SHYAMA CHARAN	01-05-2012
36	JC 257769A	SUB MAJ	SOM DUTT	01-05-2012
37	JC 257035Y	SUB MAJ	SUCHA SINGH	01-02-2012
38	JC 259779H	SUB MAJ	TARKESHWAR MISRA	01-07-2012
39	JC 258275H	SUB MAJ	VENU KUMAR K	01-07-2012

**ARMY AIR DEFENCE**

40	JC 297304H	SUB MAJ	A RAJENDRAN	01-03-2012
41	JC 296344X	SUB MAJ	AMRIK SINGH	01-06-2012
42	JC 297409M	SUB MAJ	ANIL KUMAR	01-06-2012
43	JC 296897N	SUB MAJ	B J RAMACHANDRAN	01-03-2012
44	JC 296608N	SUB MAJ	CHHAJU RAM	01-03-2012
45	JC 297292Y	SUB MAJ	DARSHAN SINGH	01-03-2012
46	JC 297301P	SUB MAJ	DAYA NAND	01-03-2012
47	JC 297204X	SUB MAJ	HANS RAJ	01-06-2012
48	JC 297276F	SUB MAJ	HAR SINGH CHAMIAL	01-04-2012
49	JC 296384Y	SUB MAJ	JAIPAL SINGH	01-05-2012
50	JC 297475P	SUB MAJ	JASWANT MASIH	01-06-2012
51	JC 297497N	SUB MAJ	JOGINDER SINGH	01-07-2012

52	JC 297488M	SUB MAJ	K KALYANI	01-03-2012
53	JC 297610X	SUB MAJ	KARNA BAHADUR THAPA	01-08-2012
54	JC 297149M	SUB MAJ	MAHENDRA PRATAP RAI	01-08-2012
55	JC 297032N	SUB MAJ	MOHAN SINGH	01-07-2012
56	JC 297102F	SUB MAJ	R MARIKKALAI	01-05-2012
57	JC 297080N	SUB MAJ	RACHHPAL SINGH	01-04-2012
58	JC 297408K	SUB MAJ	SANT KUMAR DUBEY	01-04-2012
59	JC 297331M	SUB MAJ	SATVIR SINGH	01-08-2012
60	JC 226349Y	SUB MAJ	SHIV NARAYAN SINGH	01-05-2012
61	JC 296712F	SUB MAJ	SUKUMARAN NAIR R	01-02-2012

**MADRAS ENGINEER GROUP**

62	JC 306559M	SUB MAJ	A AROCKIA SAMY	01-04-2012
63	JC 306548A	SUB MAJ	A ESWANTHA RAO	01-03-2012
64	JC 306554N	SUB MAJ	C GNANASEKAR	01-04-2012
65	JC 306553L	SUB MAJ	CHANDRAMOHAN TN	01-03-2012
66	JC 306552H	SUB MAJ	FRANKLIN JOSE PS	01-06-2012
67	JC 306508Y	SUB MAJ	HARI NARAYANAN C	01-02-2012
68	JC 306498A	SUB MAJ	HAWA SINGH	01-02-2012
69	JC 306658P	SUB MAJ	JOJI JOSEPH	01-06-2012
70	JC 306513K	SUB MAJ	KARIAPPA CS	01-04-2012
71	JC 306127X	SUB MAJ	KRISHNAPPA B P	01-02-2012
72	JC 306505L	SUB MAJ	KVG PRASADA RAO	01-02-2012
73	JC 306549H	SUB MAJ	L SUNDARA RAJ	01-03-2012
74	JC 306666N	SUB MAJ	LAXMAN RAM	01-07-2012
75	JC 306001X	SUB MAJ	MAM CHAND	01-02-2012
76	JC 306626M	SUB MAJ	MOHAN DAS PK	01-07-2012
77	JC 306545M	SUB MAJ	P SELVARAJ	01-02-2012
78	JC 306172K	SUB MAJ	PARTHASARATHY C	01-02-2012
79	JC 306692P	SUB MAJ	RAMJI SHUKLA	01-08-2012
80	JC 306542Y	SUB MAJ	REGHU K	01-03-2012
81	JC 306496P	SUB MAJ	SREELEJA KUMAR S	01-02-2012
82	JC 306391L	SUB MAJ	SUGUMARAN R	01-05-2012
83	JC 306659X	SUB MAJ	SUNIL KUMAR K	01-08-2012
84	JC 305320X	SUB MAJ	SUNNY KM	01-02-2012
85	JC 306125M	SUB MAJ	THULASEEDHARAN PILLAI G	01-03-2012
86	JC 306576M	SUB MAJ	VIKRAMAN TV	01-04-2012

**BENGAL ENGINEER GROUP**

87	JC 179905W	SUB MAJ	AJAY KUMAR	01-04-2012
88	JC 207628P	SUB MAJ	AJAY KUMAR	01-06-2012
89	JC 305537F	SUB MAJ	ALIAS AMBATTU	01-05-2012
90	JC 199898M	SUB MAJ	AMAR SINGH	01-04-2012
91	JC 325992L	SUB MAJ	ANUP SINGH	01-03-2012
92	JC 327802M	SUB MAJ	ARHDUMAN SINGH	01-05-2012
93	JC 327639X	SUB MAJ	ARUN KUMAR	01-04-2012
94	JC 327764F	SUB MAJ	ASHOK KUMAR SHARMA	01-05-2012
95	JC 146193Y	SUB MAJ	ATTERJIT SINGH	01-05-2012
96	JC 327836A	SUB MAJ	BABU LAL	01-03-2012
97	JC 219544N	SUB MAJ	BABU T	01-05-2012
98	JC 197240N	SUB MAJ	BALA KRISHANAN V V	01-06-2012
99	JC 199865F	SUB MAJ	BALA KUMAR D	01-02-2012
100	JC 325697H	SUB MAJ	BALRAM SINGH BANAI	01-05-2012
101	JC 327816M	SUB MAJ	BALWAN SINGH	01-02-2012



102	JC 327677N	SUB MAJ	BANKE SHIVAJI TATOBA	01-05-2012
103	JC 327679Y	SUB MAJ	BASANT SINGH	01-04-2012
104	JC 327491K	SUB MAJ	BEANT SINGH GILL	01-06-2012
105	JC 327771X	SUB MAJ	BHAGGURAM MOURYA	01-06-2012
106	JC 327439F	SUB MAJ	BIMAN NANDY	01-02-2012
107	JC 325672W	SUB MAJ	BINOD KUMAR JHA	01-04-2012
108	JC 224936L	SUB MAJ	BIRJOO YADAVA	01-04-2012
109	JC 199867M	SUB MAJ	CHRISTOPHER SAMSON D	01-05-2012
110	JC 199948M	SUB MAJ	DALAVI SAHAJI BRAHAMDEO	01-04-2012
111	JC 325303Y	SUB MAJ	DALBIR SINGH	01-02-2012
112	JC 174758P	SUB MAJ	DALBIR SINGH	01-05-2012
113	JC 326260F	SUB MAJ	DAYA NAND	01-08-2012
114	JC 327433A	SUB MAJ	DAYA SHANKER MISHRA	01-04-2012
115	JC 327334X	SUB MAJ	DESAI SHELAR SHIVAJI	01-06-2012
116	JC 325847N	SUB MAJ	DEVENDRA PATIL	01-04-2012
117	JC 326272W	SUB MAJ	DHANENDRA NATH MALLICK	01-04-2012
118	JC 327469Y	SUB MAJ	DHARAM PAL SINGH	01-05-2012
119	JC 224938W	SUB MAJ	DHURPATE DATTATRAYA SHIVRAM	01-04-2012
120	JC 327799X	SUB MAJ	G RAVI	01-04-2012
121	JC 327661H	SUB MAJ	GAJARE NANABHAU POPAT	01-05-2012
122	JC 326186L	SUB MAJ	GAWAS BABAN SHANKER	01-06-2012
123	JC 199844L	SUB MAJ	GHATE AJAY NARAYAN	01-04-2012
124	JC 327766M	SUB MAJ	GOKARAN SINGH	01-05-2012
125	JC 327178Y	SUB MAJ	GURCHARAN SINGH	01-08-2012
126	JC 330005M	SUB MAJ	GURDEEP SINGH	01-02-2012
127	JC 327192L	SUB MAJ	GURMEET SINGH	01-04-2012
128	JC 325945N	SUB MAJ	GURMEJ SINGH	01-06-2012
129	JC 207661M	SUB MAJ	GURPREET SINGH GUJRAL	01-06-2012
130	JC 174695X	SUB MAJ	HARI RAM SOROUT	01-08-2012
131	JC 174818Y	SUB MAJ	HARISH SINGH DANGI	01-03-2012
132	JC 191554Y	SUB MAJ	IKRAR AHMAD	01-05-2012
133	JC 327479H	SUB MAJ	ISHWAR SINGH	01-06-2012
134	JC 327421L	SUB MAJ	JAGBIR SINGH	01-02-2012
135	JC 326932H	SUB MAJ	JAGTAR SINGH	01-04-2012
136	JC 174789P	SUB MAJ	JAI KRISHAN PETWAL	01-06-2012
137	JC 327051W	SUB MAJ	JAI RAM PRASAD	01-02-2012
138	JC 327481A	SUB MAJ	JANARDAN MAURYA	01-08-2012
139	JC 179926M	SUB MAJ	JASWINDER SINGH	01-03-2012
140	JC 305546H	SUB MAJ	JOHN THOMAS	01-05-2012
141	JC 326176F	SUB MAJ	JOHNY T T	01-06-2012
142	JC 305534N	SUB MAJ	K GNANASEKARAN	01-04-2012
143	JC 199969H	SUB MAJ	K R SAHEB SHANKAR	01-04-2012
144	JC 327161L	SUB MAJ	KADAM SHIVADAS ARJUN	01-04-2012
145	JC 325526W	SUB MAJ	KALYAN KUMAR GUPTA	01-07-2012
146	JC 327659L	SUB MAJ	KARANDE DATTATRAY ANNA	01-05-2012
147	JC 325677P	SUB MAJ	KARRI VEERA VENKATA RATNAM	01-04-2012
148	JC 199987L	SUB MAJ	KASHMIR SINGH	01-04-2012
149	JC 327160H	SUB MAJ	KEHAR SINGH	01-04-2012
150	JC 191540Y	SUB MAJ	KHAJAN SINGH RAWAT	01-05-2012
151	JC 325852Y	SUB MAJ	KHASTI BALLABH OLI	01-08-2012
152	JC 224924W	SUB MAJ	KHOMANE BABAN NATH	01-05-2012
153	JC 327309Y	SUB MAJ	KISHORI LAL	01-05-2012
154	JC 224937N	SUB MAJ	KORADE PRAKASH RAJA RAM	01-06-2012
155	JC 327770P	SUB MAJ	KRISHAN KUMAR THAKRAN	01-07-2012

156	JC 327871H	SUB MAJ	<b>KRISHAN SINGH</b>	01-08-2012
157	JC 326519M	SUB MAJ	<b>KRISHNA NAMA MONY N</b>	01-07-2012
158	JC 325955X	SUB MAJ	<b>KULDIP CHAND</b>	01-08-2012
159	JC 327768X	SUB MAJ	<b>KULWANT SINGH</b>	01-04-2012
160	JC 327196F	SUB MAJ	<b>KUSHAL SINGH BAJETHA</b>	01-05-2012
161	JC 327503N	SUB MAJ	<b>LAKSHMAN SINGH RANA</b>	01-04-2012
162	JC 325916Y	SUB MAJ	<b>LAKSHMAN SUNAGAR</b>	01-08-2012
163	JC 325513Y	SUB MAJ	<b>LAL BABU PRASAD</b>	01-05-2012
164	JC 330000N	SUB MAJ	<b>LAL SINGH</b>	01-04-2012
165	JC 179887Y	SUB MAJ	<b>MAN SINGH RAWAT</b>	01-05-2012
166	JC 174777A	SUB MAJ	<b>MODAK ANAJI KALURAM</b>	01-07-2012
167	JC 327660A	SUB MAJ	<b>MOHAMMAD SHADAB</b>	01-05-2012
168	JC 126986A	SUB MAJ	<b>MOHAMMED K A</b>	01-06-2012
169	JC 328157P	SUB MAJ	<b>MOHAN CHANDRA PANDEY</b>	01-08-2012
170	JC 328379K	SUB MAJ	<b>MOHAN SINGH</b>	01-02-2012
171	JC 328250W	SUB MAJ	<b>MOHAN SINGH</b>	01-07-2012
172	JC 219572A	SUB MAJ	<b>MOHAN V</b>	01-05-2012
173	JC 199920M	SUB MAJ	<b>MCHINDER SINGH</b>	01-03-2012
174	JC 325822F	SUB MAJ	<b>N CHANDERSEKHAR P</b>	01-04-2012
175	JC 327648Y	SUB MAJ	<b>NAGENDER KUMAR PANDEY</b>	01-03-2012
176	JC 325686W	SUB MAJ	<b>NARENDRA PRASAD SHARMA</b>	01-08-2012
177	JC 328183W	SUB MAJ	<b>NARESH PAL</b>	01-05-2012
178	JC 327772A	SUB MAJ	<b>NIRANJAN KUMAR MONDAL</b>	01-05-2012
179	JC 326426X	SUB MAJ	<b>OM PRAKASH DANGI</b>	01-06-2012
180	JC 326233X	SUB MAJ	<b>P VEERA BHADRA RAMA RAO</b>	01-04-2012
181	JC 191562X	SUB MAJ	<b>PANKAJ JAIN</b>	01-05-2012
182	JC 326427A	SUB MAJ	<b>PARESHWAR DATT</b>	01-05-2012
183	JC 174752N	SUB MAJ	<b>PARVEEN KUMAR</b>	01-05-2012
184	JC 327651Y	SUB MAJ	<b>PATIL SHASHI KANT SHANKAR</b>	01-04-2012
185	JC 327674A	SUB MAJ	<b>PRABIR ROY</b>	01-08-2012
186	JC 327899H	SUB MAJ	<b>PRAKASHAN P</b>	01-02-2012
187	JC 327760L	SUB MAJ	<b>PRAMOD K</b>	01-04-2012
188	JC 330004K	SUB MAJ	<b>PREM CHANDRA</b>	01-04-2012
189	JC 146188N	SUB MAJ	<b>PREM PRAKASH PUROHIT</b>	01-06-2012
190	JC 327522Y	SUB MAJ	<b>PREM SINGH</b>	01-05-2012
191	JC 207637W	SUB MAJ	<b>PUNIT SARASWAT</b>	01-08-2012
192	JC 325843X	SUB MAJ	<b>PV SUDHAKARA NAIDU</b>	01-06-2012
193	JC 177202W	SUB MAJ	<b>R JAYARAMAN</b>	01-06-2012
194	JC 326934N	SUB MAJ	<b>R KUTTIRAJU</b>	01-04-2012
195	JC 305552W	SUB MAJ	<b>R MADHU SUDHAN REDDY</b>	01-05-2012
196	JC 186252H	SUB MAJ	<b>RADHA KRISHNA PILLAI S</b>	01-06-2012
197	JC 327520N	SUB MAJ	<b>RAGHUNATH ROY</b>	01-06-2012
198	JC 327166K	SUB MAJ	<b>RAJ KANWAR</b>	01-04-2012
199	JC 325656Y	SUB MAJ	<b>RAJ PAL SINGH PUNDIR</b>	01-04-2012
200	JC 327427M	SUB MAJ	<b>RAJENDRA PAL SINGH</b>	01-02-2012
201	JC 327438Y	SUB MAJ	<b>RAJENDRA PRASAD</b>	01-02-2012
202	JC 327336H	SUB MAJ	<b>RAJENDRAN MK</b>	01-08-2012
203	JC 199954A	SUB MAJ	<b>RAJIV NAHARIA</b>	01-05-2012
204	JC 325596P	SUB MAJ	<b>RAJKARAN SINGH</b>	01-08-2012
205	JC 129493K	SUB MAJ	<b>RAKESH KUMAR</b>	01-02-2012
206	JC 174817W	SUB MAJ	<b>RAKESH KUMAR</b>	01-04-2012
207	JC 326369F	SUB MAJ	<b>RAM DHYAN YADAV</b>	01-05-2012
208	JC 330014N	SUB MAJ	<b>RAM PARKASH</b>	01-02-2012
209	JC 207614P	SUB MAJ	<b>RAMESH CHAND</b>	01-07-2012

210	JC 327468W	SUB MAJ	RAMESH KUMAR MALIK	01-04-2012
211	JC 326028W	SUB MAJ	RAMVIR SINGH	01-05-2012
212	JC 325653L	SUB MAJ	RANJAN KUMAR	01-05-2012
213	JC 327638P	SUB MAJ	RATTAN CHAND	01-05-2012
214	JC 177203Y	SUB MAJ	RAVI KUMAR SALOMON D	01-04-2012
215	JC 169500X	SUB MAJ	RAVI SHANKAR D N	01-06-2012
216	JC 327321A	SUB MAJ	ROHANI KUMAR SINGH	01-03-2012
217	JC 325366F	SUB MAJ	ROMESH PAUL	01-05-2012
218	JC 326183X	SUB MAJ	RUKHSAR KHAN	01-06-2012
219	JC 305542M	SUB MAJ	SABU V V	01-04-2012
220	JC 219579K	SUB MAJ	SANJAY NADH VB	01-06-2012
221	JC 326192Y	SUB MAJ	SATYA PAL YADAV	01-08-2012
222	JC 327736P	SUB MAJ	SELVARAJU K	01-06-2012
223	JC 305541K	SUB MAJ	SHAKEEL AHMED SHARIFF	01-08-2012
224	JC 326447N	SUB MAJ	SHAMSUDDIN	01-04-2012
225	JC 327314K	SUB MAJ	SHAN MOHAMMED	01-06-2012
226	JC 224943F	SUB MAJ	SHINDE RAMHARI APPA	01-04-2012
227	JC 325882W	SUB MAJ	SHRI NIWAS	01-03-2012
228	JC 327297P	SUB MAJ	SUBHAS CHANDRA PAL	01-05-2012
229	JC 191535N	SUB MAJ	SUBHASH CHAND	01-03-2012
230	JC 191525K	SUB MAJ	SUBHASH CHANDRA DEORANI	01-08-2012
231	JC 327154P	SUB MAJ	SUDHANA KUMAR T	01-08-2012
232	JC 325826X	SUB MAJ	SUDHEER KUMAR	01-06-2012
233	JC 327186X	SUB MAJ	SUKH DEV SINGH	01-04-2012
234	JC 325052A	SUB MAJ	SUKHDEV SINGH	01-04-2012
235	JC 327550L	SUB MAJ	SUKHPAL SINGH	01-02-2012
236	JC 327763Y	SUB MAJ	SURESH CHANDRA KUKRETI	01-04-2012
237	JC 325524L	SUB MAJ	SURESH CHANDRA UPADHYAY	01-06-2012
238	JC 326174W	SUB MAJ	SURJYA KANTA KALITA	01-07-2012
239	JC 191531X	SUB MAJ	SUSHIL KUMAR CHAUHAN	01-05-2012
240	JC 177219K	SUB MAJ	SV SATHISH SOWNDIAH	01-04-2012
241	JC 199944W	SUB MAJ	TEJ SINGH	01-05-2012
242	JC 330030L	SUB MAJ	U S REDDY	01-05-1912
243	JC 327656X	SUB MAJ	UDAI BIR SINGH	01-04-2012
244	JC 327306L	SUB MAJ	UGAMA RAM DUDI	01-05-2012
245	JC 325907X	SUB MAJ	UMA SHANKAR SHARMA	01-05-2012
246	JC 199874H	SUB MAJ	V BABU	01-02-2012
247	JC 174839P	SUB MAJ	VIKRAM SINGH JUREL	01-05-2012
248	JC 179921N	SUB MAJ	VISHAL	01-02-2012
249	JC 165117F	SUB MAJ	VISHESHWAR PRASAD	01-06-2012
250	JC 199940A	SUB MAJ	YASH PAL	01-05-2012
251	JC 199941H	SUB MAJ	ZAWARE BABA VITTHAL	01-05-2012

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

252	JC 348333H	SUB MAJ	BAJINDER	01-05-2012
253	JC 348467F	SUB MAJ	BALWINDER SINGH	01-05-2012
254	JC 347616X	SUB MAJ	BHIM SINGH BISHT	01-06-2012
255	JC 347714X	SUB MAJ	CHANDAN SINGH	01-03-2012
256	JC 347608Y	SUB MAJ	CHANDER MOHAN PATHAK	01-03-2012
257	JC 347784W	SUB MAJ	CHOUGULE MADHUKAR DATTATRAY	01-04-2012
258	JC 347931N	SUB MAJ	DEV KUMAR PANDEY	01-05-2012
259	JC 347602X	SUB MAJ	FATEH CHAND SHARMA	01-05-2012
260	JC 347469A	SUB MAJ	HARPAL SINGH	01-05-2012
261	JC 347954P	SUB MAJ	JAGDISH CHAND	01-05-2012
262	JC 347685N	SUB MAJ	JOS M	01-03-2012

263	JC 348411P	SUB MAJ	KARAT BALU KRISHNA	01-04-2012
264	JC 347965F	SUB MAJ	KUMAR PAUL SHARMA	01-06-2012
265	JC 347955X	SUB MAJ	MANGE LAL	01-05-2012
266	JC 347949K	SUB MAJ	MANSOOR AHMED KHAN	01-04-2012
267	JC 347773K	SUB MAJ	NALWADE PANDURANG JAGANNATH	01-06-2012
268	JC 348034K	SUB MAJ	NARHARI NARAYAN DUBEY	01-05-2012
269	JC 347611Y	SUB MAJ	PIAR CHAND THAKUR	01-02-2012
270	JC 348049M	SUB MAJ	RAJA RAM	01-08-2012
271	JC 347779L	SUB MAJ	RAJINDER SINGH	01-04-2012
272	JC 348062W	SUB MAJ	RAM CHANDER	01-06-2012
273	JC 347956A	SUB MAJ	RAM PAUL SHARMA	01-06-2012
274	JC 347911A	SUB MAJ	RAM RAJ MISHRA	01-02-2012
275	JC 347966K	SUB MAJ	RAMESH	01-08-2012
276	JC 347769F	SUB MAJ	RAMESH CHAND SHARMA	01-03-2012
277	JC 347793X	SUB MAJ	RAMVIR SINGH	01-03-2012
278	JC 347704N	SUB MAJ	RATTAN SINGH	01-02-2012
279	JC 347958L	SUB MAJ	RAVINDRA SINGH	01-07-2012
280	JC 348038A	SUB MAJ	ROHTAS KUMAR SHARMA	01-07-2012
281	JC 347624W	SUB MAJ	SATBIR SINGH	01-03-2012
282	JC 347606N	SUB MAJ	SATHEESAN M D	01-02-2012
283	JC 348299N	SUB MAJ	SOHANVIR SINGH MAN	01-03-2012
284	JC 347963W	SUB MAJ	SREE KUMAR S	01-08-2012
285	JC 348910K	SUB MAJ	SUCHA SINGH	01-05-2012
286	JC 347850N	SUB MAJ	VEER DATTATRYA DAGADU	01-08-2012
287	JC 347587N	SUB MAJ	VIJAY KUMAR DUGGAL	01-06-2012
288	JC 347589Y	SUB MAJ	VINOD KUMAR	01-05-2012

**CORPS OF SIGNALS**

289	JC 371616W	SUB MAJ	AYAZ WARISH KHAN	01-02-2012
290	JC 371020W	SUB MAJ	BIJANDER SINGH	01-03-2012
291	JC 369777A	SUB MAJ	BIRBAL SINGH	01-02-2012
292	JC 371075A	SUB MAJ	CHAMAN LAL	01-05-2012
293	JC 371037K	SUB MAJ	DAN SINGH	01-04-2012
294	JC 367955Y	SUB MAJ	DINESH KUMAR	01-07-2012
295	JC 371044A	SUB MAJ	HARIDAS SINGH	01-05-2012
296	JC 367919N	SUB MAJ	HARIDAS V K	01-07-2012
297	JC 370002F	SUB MAJ	INDRAJEET	01-02-2012
298	JC 370351L	SUB MAJ	JAYRAM CHAUHAN	01-03-2012
299	JC 370012L	SUB MAJ	KARTICK CHANDRA SAMANTA	01-06-2012
300	JC 367910Y	SUB MAJ	KASHMIR SINGH	01-06-2012
301	JC 367917H	SUB MAJ	KHUSHAL SINGH	01-07-2012
302	JC 371214A	SUB MAJ	KULWANT SINGH	01-04-2012
303	JC 372105Y	SUB MAJ	KULWANT SINGH	01-02-2012
304	JC 371108A	SUB MAJ	LAKSHMI NARAYAN JHA	01-05-2012
305	JC 367967N	SUB MAJ	M PATTABI	01-04-2012
306	JC 368521L	SUB MAJ	MOHINDER PAL	01-06-2012
307	JC 371013A	SUB MAJ	NAND LAL	01-03-2012
308	JC 367920H	SUB MAJ	OM PRAKASH	01-07-2012
309	JC 370014W	SUB MAJ	PATIL BHANUDAS TUKARAM	01-08-2012
310	JC 371042P	SUB MAJ	PIARA LAL	01-04-2012
311	JC 371123P	SUB MAJ	PRITHVI CHAND SHARMA	01-07-2012
312	JC 368671F	SUB MAJ	PURAN CHAND	01-05-2012
313	JC 371008P	SUB MAJ	RABINDER KUMAR	01-02-2012
314	JC 371896P	SUB MAJ	RAM PAUL SHARMA	01-04-2012

315	JC 368524Y	SUB MAJ	RAM SINGH	01-05-2012
316	JC 160633M	SUB MAJ	RAMAVATAR PANDEY	01-06-2012
317	JC 368924L	SUB MAJ	SAMIR KUMAR DEY	01-02-2012
318	JC 368669K	SUB MAJ	SHASHI KANT SINGH	01-02-2012
319	JC 371205X	SUB MAJ	SHIV KARAN SINGH	01-08-2012
320	JC 368976F	SUB MAJ	SHIVAPPA CHOUDANNANAVAR	01-08-2012
321	JC 367257W	SUB MAJ	SHRINIWAS SINGH	01-03-2012
322	JC 367276F	SUB MAJ	SHYAMJEE PD SINGH	01-04-2012
323	JC 371010M	SUB MAJ	SUBH KARAN	01-02-2012
324	JC 369996F	SUB MAJ	SURENDER SINGH PUNIA	01-05-2012
325	JC 368537W	SUB MAJ	SWARN SINGH PATIHAL	01-04-2012
326	JC 369994W	SUB MAJ	UMAPADA PAUL	01-05-2012
327	JC 367925F	SUB MAJ	UNNIKRISHNAN C K	01-08-2012
328	JC 368670Y	SUB MAJ	VIJAY BAMBAL	01-05-2012
329	JC 371826W	SUB MAJ	VIJAYAN A	01-08-2012
330	JC 368453H	SUB MAJ	VINOD KUMAR	01-04-2012
<b><u>THE BRIGADE OF GUARDS</u></b>				
331	JC 402512Y	SUB MAJ	ABDUL WAHID KHAN	01-04-2012
332	JC 402691K	SUB MAJ	BALDEV RAJ	01-07-2012
333	JC 402521A	SUB MAJ	BOLLIMADA A MANJAPPA	01-07-2012
334	JC 402553H	SUB MAJ	GAJE SINGH	01-08-2012
335	JC 402595P	SUB MAJ	GANGA SINGH	01-04-2012
336	JC 402620H	SUB MAJ	PARKASH CHANDER UPRETI	01-02-2012
337	JC 402685W	SUB MAJ	PAWAR MACHINDRA POONA RAM	01-06-2012
338	JC 402844H	SUB MAJ	PUSA RAM	01-08-2012
339	JC 402367M	SUB MAJ	VIRI SINGH	01-04-2012
<b><u>THE PARACHUTE REGIMENT</u></b>				
340	JC 412167K	SUB MAJ	SATBIR SINGH	01-07-2012
<b><u>THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT</u></b>				
341	JC 216363X	SUB MAJ	BALVINDER SINGH	01-04-2012
342	JC 135906Y	SUB MAJ	BHAIRAV DATT SHARMA	01-07-2012
343	JC 418845P	SUB MAJ	RAMAN KUMAR	01-05-2012
344	JC 418657N	SUB MAJ	VINJOLA SHREEDHAR PRASAD	01-08-2012
<b><u>THE PUNJAB REGIMENT</u></b>				
345	JC 428924X	SUB MAJ	AJIT SINGH	01-03-2012
346	JC 429308K	SUB MAJ	BALBIR SINGH	01-07-2012
347	JC 428964Y	SUB MAJ	DARSHAN SINGH	01-05-2012
348	JC 428853F	SUB MAJ	GURMAIL SINGH	01-07-2012
349	JC 428787K	SUB MAJ	RANJIT SINGH	01-02-2012
<b><u>THE MADRAS REGIMENT</u></b>				
350	JC 438751Y	SUB MAJ	GEORGE BRITTO	01-04-2012
351	JC 548224A	SUB MAJ	N DURAI	01-03-2012
352	JC 438794N	SUB MAJ	P KUMAR	01-05-2012
353	JC 438390L	SUB MAJ	RAJAN PV	01-06-2012
<b><u>THE GRENADIERS</u></b>				
354	JC 449441N	SUB MAJ	SATYAVIR SINGH	01-08-2012
355	JC 449315F	SUB MAJ	SURINDER SINGH BAGAL	01-03-2012
<b><u>THE MARATHA LIGHT INFANTRY</u></b>				
356	JC 458322Y	SUB MAJ	BASAPPA SASANUR	01-07-2012

357	JC 458300A	SUB MAJ	LIYAKATH ALIN	01-06-2012
358	JC 458356M	SUB MAJ	MD MUNEEEM PASHA	01-05-2012
<b><u>THE RAJPUTANA RIFLES</u></b>				
359	JC 468825X	SUB MAJ	MOHAN SINGH	01-07-2012
360	JC 468462Y	SUB MAJ	RAM PAL SINGH	01-07-2012
361	JC 468636N	SUB MAJ	SURAJ MAL SINGH BHATI	01-07-2012
362	JC 468686Y	SUB MAJ	SURESH PRATAP SINGH	01-08-2012
<b><u>THE RAJPUT REGIMENT</u></b>				
363	JC 478655M	SUB MAJ	RAJ KUMAR	01-05-2012
364	JC 478522W	SUB MAJ	RAM PARSHAD	01-03-2012
365	JC 478479A	SUB MAJ	SUBE SINGH	01-08-2012
<b><u>THE JAT REGIMENT</u></b>				
366	JC 488710L	SUB MAJ	BANWARI LAL JAT	01-06-2012
367	JC 489108X	SUB MAJ	PRAKASH CHAND DHAKA	01-04-2012
<b><u>THE SIKH REGIMENT</u></b>				
368	JC 498515F	SUB MAJ	GURDEEP SINGH	01-07-2012
<b><u>THE SIKH LIGHT INFANTRY</u></b>				
369	JC 508408W	SUB MAJ	AMARJIT SINGH	01-05-2012
370	JC 508385A	SUB MAJ	KASHMIR SINGH	01-02-2012
<b><u>THE GARHWAL RIFLES</u></b>				
371	JC 528595F	SUB MAJ	AMBA DATT	01-04-2012
372	JC 529206H	SUB MAJ	MAHENDRA SINGH	01-07-2012
373	JC 528384Y	SUB MAJ	RAJENDRA SINGH	01-02-2012
<b><u>THE KUMAON REGIMENT</u></b>				
374	JC 538765N	SUB MAJ	BANSHI DHAR KANDPAL	01-03-2012
375	JC 539144F	SUB MAJ	DIWAN GIRI GOSWAMI	01-08-2012
376	JC 538950F	SUB MAJ	MAN SINGH	01-05-2012
377	JC 538873X	SUB MAJ	OM PARKASH YADAV	01-03-2012
<b><u>THE ASSAM REGIMENT</u></b>				
378	JC 548332K	SUB MAJ	BHUPEN GOGOI	01-02-2012
379	JC 548587K	SUB MAJ	PABITRA PHUKAN	01-06-2012
380	JC 548015H	SUB MAJ	SYED KHAIRUL HUSSAIN	01-02-2012
<b><u>THE BIHAR REGIMENT</u></b>				
381	JC 558857F	SUB MAJ	GIRISH CHANDRA ROUT	01-06-2012
382	JC 558873Y	SUB MAJ	MURALIDHAR BARIK	01-08-2012
<b><u>THE MAHAR REGIMENT</u></b>				
383	JC 568750A	SUB MAJ	SURESH CHANDER MATHPAL	01-02-2012
384	JC 568519X	SUB MAJ	ZOMBADE NAGNATH ABHIMANYU	01-04-2012
<b><u>THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES</u></b>				
385	JC 579286F	SUB MAJ	BABU RAM	01-04-2012
386	JC 578790P	SUB MAJ	GOPAL SINGH	01-03-2012
387	JC 579189K	SUB MAJ	SATNAM SINGH	01-04-2012
<b><u>THE LADAKH SCOUTS</u></b>				
388	JC 588107X	SUB MAJ	CHHERING PHUNCHOK	01-07-2012

389	JC 588103F	SUB MAJ	NAWANG STOB DAN	01-04-2012
<b><u>THE NAGA REGIMENT</u></b>				
390	JC 538772K	SUB MAJ	JAGDISH CHANDRA	01-07-2012
<b><u>THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY</u></b>				
391	JC 592518N	SUB MAJ	BHOPINDER SINGH	01-02-2012
392	JC 592486W	SUB MAJ	MOHAN LAL	01-08-2012
393	JC 592412F	SUB MAJ	MOHD MUZAFER	01-03-2012
<b><u>1 GORKHA RIFLES</u></b>				
394	JC 602143W	SUB MAJ	CHUNI LAL RANA	01-02-2012
<b><u>5 GORKHA RIFLES</u></b>				
395	JC 617495L	SUB MAJ	RAJESH GURUNG	01-07-2012
<b><u>9 GORKHA RIFLES</u></b>				
396	JC 629439Y	SUB MAJ	YUDH VIR	01-02-2012
<b><u>11 GORKHA RIFLES</u></b>				
397	JC 634177X	SUB MAJ	DIL KUMAR RAI	01-08-2012
<b><u>ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)</u></b>				
398	JC 640414M	SUB MAJ	AMAR SINGH SHEKHAWAT	01-08-2012
399	JC 662292N	SUB MAJ	AMRIT KUMAR SINGHA	01-07-2012
400	JC 640657X	SUB MAJ	AMRIT NATH DWIVEDI	01-03-2012
401	JC 641205F	SUB MAJ	BACHAN LAL	01-08-2012
402	JC 640783K	SUB MAJ	BASANT PAL SINGH	01-08-2012
403	JC 640002L	SUB MAJ	BROJA BABU SINGHA	01-05-2012
404	JC 662211H	SUB MAJ	CHANDERMA SINGH	01-08-2012
405	JC 641241M	SUB MAJ	CHANDRA BHAN YADAV	01-08-2012
406	JC 640410W	SUB MAJ	CHANDRIKA PRASAD	01-05-2012
407	JC 640221M	SUB MAJ	G SOUNDARAM	01-04-2012
408	JC 642162K	SUB MAJ	GHAN SHYAM SINGH	01-08-2012
409	JC 640682W	SUB MAJ	HARI SHANKAR SINGH	01-08-2012
410	JC 640412F	SUB MAJ	KRISHNA KUMAR RAWAT	01-04-2012
411	JC 640703F	SUB MAJ	MOHAMMED SERAJULLAH KHAN	01-03-2012
412	JC 662257L	SUB MAJ	MUNNI LAL RAM	01-02-2012
413	JC 640452H	SUB MAJ	NORDEN SHERPA	01-06-2012
414	JC 640667F	SUB MAJ	RAM MURTI SHARMA	01-03-2012
415	JC 662195W	SUB MAJ	RAMA SHANKAR TIWARI	01-05-2012
416	JC 662168M	SUB MAJ	S GOPU	01-03-2012
417	JC 640382P	SUB MAJ	SANT RAM	01-05-2012
418	JC 662236P	SUB MAJ	SHAMSHER SINGH TANWAR	01-08-2012
419	JC 662171M	SUB MAJ	SHANKAR DEYAL RAM	01-05-2012
420	JC 217862Y	SUB MAJ	SUNDARAN A	01-04-2012
421	JC 640726H	SUB MAJ	TEJ KANT JHA	01-08-2012
422	JC 662272A	SUB MAJ	TEJ NARAYAN CHOUBEY	01-02-2012
423	JC 641180A	SUB MAJ	VAKIL SINGH	01-06-2012
424	JC 640465A	SUB MAJ	YUDHISTER KUMAR	01-08-2012

**ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)**

425	JC 680331K	RIS MAJ	RAM NIWAS	01-08-2012
426	JC 680611X	RIS MAJ	TAPAN GHOSH	01-06-2012

**ARMY MEDICAL CORPS**

427	JC 692915F	SUB MAJ	BASUDEB LENKA	01-02-2012
428	JC 691738A	SUB MAJ	BINOY KUMAR NATH	01-03-2012
429	JC 693143F	SUB MAJ	DEVENDRA KUMAR	01-02-2012
430	JC 693074W	SUB MAJ	GANGA BISHAN SINGH CHOUHAN	01-02-2012
431	JC 693777X	SUB MAJ	GOWRACHARI B	01-07-2012
432	JC 691274N	SUB MAJ	HARI LAL KUSHAWAHA	01-03-2012
433	JC 691093H	SUB MAJ	JAGBIR SINGH	01-05-2012
434	JC 692624F	SUB MAJ	LAXMI NARAYAN	01-02-2012
435	JC 692630P	SUB MAJ	M ZAFFAR ALAM	01-06-2012
436	JC 691018Y	SUB MAJ	MOHANAN K V	01-04-2012
437	JC 691091X	SUB MAJ	MOHANAN NAIR M R	01-08-2012
438	JC 691751K	SUB MAJ	RAJENDRAN P	01-02-2012
439	JC 693243M	SUB MAJ	RAM CHANDRA SINGH	01-08-2012
440	JC 692125M	SUB MAJ	RAMACHANDRA PRASAD SAHOO	01-04-2012
441	JC 693613F	SUB MAJ	RAVEENDRAN P M	01-05-2012
442	JC 693658F	SUB MAJ	ROHTAS SINGH	01-07-2012
443	JC 161061H	SUB MAJ	SHYAM BHADUR CHATURVEDI	01-08-2012
444	JC 693192K	SUB MAJ	SRIDHAR PAGAL	01-04-2012

**ARMY ORDNANCE CORPS**

445	JC 723121A	SUB MAJ	GIRISH CHANDRA SRIVASTAVA	01-03-2012
446	JC 725986L	SUB MAJ	GOVIND RAM	01-06-2012
447	JC 726025W	SUB MAJ	GUMANA RAM CHAUDHARY	01-03-2012
448	JC 723681M	SUB MAJ	HARISH CHANDER BHANDARI	01-07-2012
449	JC 723535M	SUB MAJ	KULDEEP SINGH	01-05-2012
450	JC 723783H	SUB MAJ	LALJI PATHAK	01-03-2012
451	JC 724111H	SUB MAJ	PRATAP SINGH BISHT	01-07-2012
452	JC 723526L	SUB MAJ	RAM PHAL	01-04-2012
453	JC 723771N	SUB MAJ	RAMBIR SINGH GAWARIA	01-05-2012
454	JC 723788F	SUB MAJ	SANKAR KUMAR PAUL	01-07-2012
455	JC 164879H	SUB MAJ	SUBHASH CHANDRA PANDEY	01-03-2012
456	JC 722746H	SUB MAJ	SUKH RAM SINGH	01-06-2012
457	JC 723626W	SUB MAJ	TILAK RAJ	01-03-2012
458	JC 723219N	SUB MAJ	VED PRAKASH SHARMA	01-02-2012
459	JC 723717A	SUB MAJ	YOGESH KUMAR	01-06-2012

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**

460	JC 750624P	SUB MAJ	BIBHUTI BHUSANA ROUT	01-07-2012
461	JC 749245M	SUB MAJ	BIRENDAR SINGH	01-02-2012
462	JC 754537Y	SUB MAJ	CHANDER PRAKASH	01-06-2012
463	JC 754279K	SUB MAJ	DALVIR SHARMA	01-04-2012
464	JC 164253L	SUB MAJ	GAYA DATT SEMWAL	01-06-2012
465	JC 749170A	SUB MAJ	GOPINATHAN PILLAI R	01-03-2012
466	JC 754154M	SUB MAJ	GUPTA NARAYAN SINGH	01-03-2012
467	JC 752953K	SUB MAJ	GURNAM SINGH MONKOTIA	01-08-2012



468	JC 750650W	SUB MAJ	JAY PRAKASH	01-05-2012
469	JC 750812W	SUB MAJ	KANWAR PAL SINGH	01-08-2012
470	JC 752209M	SUB MAJ	KESHAW PRASAD MISHRA	01-04-2012
471	JC 752529F	SUB MAJ	KRISHANA MURARI SRIMAL	01-08-2012
472	JC 752649A	SUB MAJ	KULBAHADUR CHETRI	01-07-2012
473	JC 751391L	SUB MAJ	KULDEEP KUMAR SHARMA	01-02-2012
474	JC 752608W	SUB MAJ	M BALAKRISHNAN	01-07-2012
475	JC 750769A	SUB MAJ	MADAN MOHAN	01-02-2012
476	JC 754582L	SUB MAJ	NARADE MAHAVIR TAVANAPPA	01-08-2012
477	JC 751143P	SUB MAJ	NARASIMHULU NAIDU S	01-03-2012
478	JC 754927F	SUB MAJ	PRITHVI PAL	01-05-2012
479	JC 750596N	SUB MAJ	RAJESHWAR SINGH	01-02-2012
480	JC 753356F	SUB MAJ	RAM BAHADUR SINGH	01-07-2012
481	JC 752861X	SUB MAJ	RAM MILAN SHUKLA	01-08-2012
482	JC 756896L	SUB MAJ	RAM PRAKASH SHARMA	01-05-2012
483	JC 753447L	SUB MAJ	RAM SARAN	01-08-2012
484	JC 749667X	SUB MAJ	RAMESH CHANDER	01-07-2012
485	JC 753052K	SUB MAJ	SANJAY KUMAR SINHA	01-07-2012
486	JC 749167A	SUB MAJ	SASI E	01-03-2012
487	JC 751405A	SUB MAJ	SHASHIKAR UPADHYAY	01-04-2012
488	JC 753177F	SUB MAJ	SHIV KARAN VISHWAKARMA	01-08-2012
489	JC 751320K	SUB MAJ	SHIV RAM SINGH	01-08-2012
490	JC 752864L	SUB MAJ	TARSEM CHAND SHARMA	01-08-2012
491	JC 753027L	SUB MAJ	THAMPAN K	01-08-2012
492	JC 752479F	SUB MAJ	UMESH CHANDRA BAJPAI	01-05-2012
493	JC 755831L	SUB MAJ	V SUGUMARAN	01-05-2012
494	JC 751306X	SUB MAJ	VIJAY SHANKER	01-02-2012

**ARMY EDUCATION CORPS**

495	JC 802188A	SUB MAJ	BALKAR SINGH SINGDOYA	01-07-2012
496	JC 802082N	SUB MAJ	CHOK BAHADUR GURUNG	01-02-2012
497	JC 802403A	SUB MAJ	DAYA SHANKAR MISHRA	01-08-2012
498	JC 802175H	SUB MAJ	DHARMVIR SINGH BAUNDWAL	01-06-2012
499	JC 802401P	SUB MAJ	GABAR SINGH BISHT	01-08-2012
500	JC 802192H	SUB MAJ	GORAKH NATH MALAKAR	01-08-2012
501	JC 802259W	SUB MAJ	MAHESH PRASAD TRIPATHI	01-08-2012
502	JC 802389Y	SUB MAJ	PRAHLAD SINGH	01-02-2012
503	JC 802260L	SUB MAJ	RAJEEV KUMAR SHAKYA	01-08-2012
504	JC 802388W	SUB MAJ	RAJPATI YADAV	01-02-2012
505	JC 802183F	SUB MAJ	RATHNAKARAN PATHUKKULANGARA	01-06-2012
506	JC 802285X	SUB MAJ	SATYA NARAYAN YADAV	01-08-2012
507	JC 802400M	SUB MAJ	VIJENDRA PAL SINGH	01-07-2012

**REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

508	JC 797300P	RIS MAJ	HIRDAYANAND SINGH	01-08-2012
509	JC 797298H	RIS MAJ	RAM NANDAN SAH	01-06-2012
510	JC 797111L	RIS MAJ	SAIKH MERAJ MOHAMMED	01-04-2012
511	JC 797056A	RIS MAJ	SUBE SINGH	01-08-2012
512	JC 797071P	RIS MAJ	SUKANTA KUMAR DAS	01-06-2012

**THE INTELLIGENCE CORPS**

513	JC 810515P	SUB MAJ	BRAHAM DASS SHARMA	01-07-2012
514	JC 810019M	SUB MAJ	DHARAM BIR	01-03-2012
515	JC 810124K	SUB MAJ	ISHWAR SINGH	01-06-2012

**CORPS OF MILITARY POLICE**

516	JC 818680P	SUB MAJ	HARI OM	01-08-2012
-----	------------	---------	---------	------------

**ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS**

517	JC 826089W	SUB MAJ	VASANT ALAPPA AJMANE	01-04-2012
-----	------------	---------	----------------------	------------

**THE PIONEER CORPS**

518	JC 829172Y	SUB MAJ	DAROGA SINGH	01-04-2012
519	JC 829192M	SUB MAJ	KARTIKA CHANDRA SATAPATHY	01-06-2012
520	JC 829194X	SUB MAJ	KISHAN SINGH BHADORIA	01-06-2012
521	JC 225338A	SUB MAJ	MANAGER PRADHAN	01-03-2012

**DEFENCE SECURITY CORPS**

522	JC 840723Y	SUB MAJ	DIGGEWADI SUBHAS	01-06-2012
523	JC 840754Y	SUB MAJ	HARBANS LAL	01-08-2012
524	JC 840782L	SUB MAJ	ROMESH CHAND	01-06-2012
525	JC 840477Y	SUB MAJ	S NADARAJAN	01-03-2012
526	JC 840476Y	SUB MAJ	TARSEM RAJ VISHISHT	01-06-2012

**TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR MAJOR****PRESIDENT'S BODY GUARD**

1	JC 235033N	RIS	MAHENDER SINGH	01-02-2012
---	------------	-----	----------------	------------

**16 CAVALRY**

2	JC 240682H	RIS	LAKKANNA GOWDA BT	01-06-2012
---	------------	-----	-------------------	------------

**7 CAVALRY**

3	JC 243234F	RIS	BHOOTA SINGH	01-03-2012
4	JC 242653M	RIS	CHANDAN SINGH	01-02-2012
5	JC 243059X	RIS	RAM KISHOR	01-02-2012
6	JC 241808K	RIS	SUKHDEV SINGH	01-07-2012

**8 CAVALRY**

7	JC 243622Y	RIS	GURCHARAN SINGH	01-07-2012
8	JC 243167F	RIS	SUKHWINDER SINGH	01-02-2012
9	JC 243306A	RIS	SURINDER KUMAR	01-02-2012

**1 HORSE**

10	JC 242013H	RIS	BALBIR SINGH	01-02-2012
11	JC 238134M	RIS	DARSHAN SINGH	01-04-2012
12	JC 239480P	RIS	RAM KUMAR SINGH	01-05-2012
13	JC 242864P	RIS	SHILENDRA PAL SINGH	01-05-2012
14	JC 239058X	RIS	SURENDER SINGH	01-04-2012

**2 LANCERS**

15	JC 242708L	RIS	ARBIND KUMAR SINGH	01-04-2012
----	------------	-----	--------------------	------------

16	JC 242843Y	RIS	DINESH SINGH	01-06-2012
17	JC 241750X	RIS	JAYRAM SINGH	01-06-2012
18	JC 242762Y	RIS	SHER SINGH	01-05-2012

**17 HORSE**

19	JC 241099A	RIS	DALJIT SINGH	01-03-2012
20	JC 243783F	RIS	KALA SINGH	01-05-2012
21	JC 241144F	RIS	KESAR SINGH	01-03-2012
22	JC 242436W	RIS	KISHAN SINGH	01-08-2012
23	JC 242788N	RIS	RAJ KUMAR SINGH	01-08-2012
24	JC 241356M	RIS	SHAMSHER SINGH	01-04-2012

**9 HORSE**

25	JC 243498H	RIS	JATINDER PAUL	01-03-2012
26	JC 243394F	RIS	MOHINDER SINGH	01-05-2012
27	JC 243938L	RIS	QUBAL SINGH	01-07-2012
28	JC 243939N	RIS	SUBHASH CHAND	01-07-2012
29	JC 243414K	RIS	SURINDER SINGH	01-06-2012

**14 HORSE**

30	JC 243654F	RIS	BALBIR SINGH	01-06-2012
31	JC 243927Y	RIS	BALDEV SINGH	01-07-2012
32	JC 243457Y	RIS	BALWAN RAJ	01-03-2012
33	JC 243182W	RIS	DALBIR SINGH	01-02-2012
34	JC 243459K	RIS	GURMIT SINGH	01-03-2012
35	JC 243452A	RIS	GURNAM SINGH	01-02-2012
36	JC 243573F	RIS	HARDIP SINGH	01-05-2012
37	JC 243207X	RIS	JIA LAL	01-04-2012
38	JC 243672K	RIS	KASHMIR SINGH	01-02-2012
39	JC 243146L	RIS	MOHAN SINGH	01-03-2012
40	JC 243472N	RIS	NARDEV SINGH PARMAR	01-04-2012

**3 CAVALRY**

41	JC 242338W	RIS	AJAI KUMAR SINGH	01-05-2012
42	JC 242399N	RIS	BALJIT SINGH	01-08-1912
43	JC 240409N	RIS	BALWINDER SINGH	01-02-2012
44	JC 242745Y	RIS	GHAN SHYAM BHAGOD	01-02-2012
45	JC 241037A	RIS	KARTAR SINGH	01-02-2012
46	JC 241263X	RIS	KULWANT SINGH	01-03-2012
47	JC 242901X	RIS	MANEGER SINGH	01-07-2012
48	JC 242781K	RIS	RAM NIWAS	01-08-2012
49	JC 242335H	RIS	S SATISH BHADUR SINGH	01-03-2012
50	JC 242638X	RIS	SALAM SINGH	01-07-2012
51	JC 240996K	RIS	SATNAM SINGH	01-02-2012
52	JC 241305Y	RIS	SHAM SINGH	01-03-2012

**18 CAVALRY**

53	JC 240895W	RIS	IKHLAK HUSSAIN	01-04-2012
54	JC 243628A	RIS	PREM SINGH	01-03-2012

**4 HORSE**

55	JC 243187P	RIS	PARAM JIT SINGH	01-04-2012
56	JC 242835A	RIS	SARVEEN KUMAR MAMANIA	01-05-2012

**CENTRAL INDIA HORSE**

57	JC 239567W	RIS	BRAHAM SINGH	01-05-2012
58	JC 242223H	RIS	KAMLESH KUMAR SHARMA	01-06-2012
59	JC 242319L	RIS	PARASH RAM	01-06-2012

**62 CAVALRY**

60	JC 242789W	RIS	LAKHRAJ SINGH	01-07-2012
----	------------	-----	---------------	------------

**20 LANCERS**

61	JC 243383P	RIS	BALDEV SINGH	01-04-2012
62	JC 242770X	RIS	BIJENDER SINGH	01-03-2012
63	JC 244143K	RIS	DILEEP SINGH	01-08-2012
64	JC 243122F	RIS	HARENDRA SINGH TOMAR	01-08-2012
65	JC 240251W	RIS	JASWINDER SINGH	01-06-2012
66	JC 241973P	RIS	KULDIP SINGH	01-02-2012
67	JC 242136P	RIS	KULJINDER SINGH	01-02-2012
68	JC 243072P	RIS	OM PRAKASH SINGH	01-07-2012
69	JC 243614A	RIS	SATYA PRAKASH	01-04-2012

**63 CAVALRY**

70	JC 241578F	RIS	DALJIT SINGH	01-02-2012
71	JC 242825W	RIS	HARI SINGH	01-05-2012
72	JC 242076L	RIS	JASVINDER SINGH	01-02-2012
73	JC 242107A	RIS	LAKHBIR SINGH	01-03-2012
74	JC 242685P	RIS	MAHAVIR SINGH	01-03-2012
75	JC 242398L	RIS	PRABHAKAR SINGH	01-02-2012
76	JC 241685H	RIS	RATTAN SINGH	01-03-2012

**61 CAVALRY**

77	JC 241377H	RIS	CHANDR BHAN SINGH	01-04-2012
----	------------	-----	-------------------	------------

**45 CAVALRY**

78	JC 241209K	RIS	RAJENDER SINGH	01-04-2012
79	JC 242251P	RIS	SATHEESH KUMAR KS	01-06-2012

**64 CAVALRY**

80	JC 242655X	RIS	AMAR PAL SINGH	01-07-2012
81	JC 239912Y	RIS	BANT SINGH	01-04-2012
82	JC 242303A	RIS	CHARAN SINGH	01-02-2012
83	JC 242614N	RIS	JAGVIR SINGH	01-05-2012
84	JC 242617L	RIS	MOHAN SINGH	01-02-2012
85	JC 240337P	RIS	RAKESH KUMAR RAJPUT	01-05-2012

**65 ARMOURD REGIMENT**

86	JC 241010H	RIS	BALDEV CHAND	01-04-2012
87	JC 242870H	RIS	MAHAVEER SINGH	01-06-2012

**66 ARMOURD REGIMENT**

88	JC 242852A	RIS	DINKAR SALVE	01-04-2012
89	JC 243001A	RIS	JAI SINGH YADAV	01-08-2012
90	JC 242715F	RIS	MOHINDER SINGH	01-03-2012
91	JC 242756L	RIS	RAJAN AP	01-04-2012
92	JC 242853H	RIS	ROSHAN LAL	01-05-2012

**67 ARMOURED REGIMENT**

93	JC 240221Y	RIS	BALBIR SINGH	01-08-2012
94	JC 241409A	RIS	RAM SINGH	01-02-2012
95	JC 241705L	RIS	RATTAN SINGH	01-03-2012

**68 ARMOURED REGIMENT**

96	JC 240661M	RIS	BOTE TANAJI JAY SINGH	01-04-2012
97	JC 243409Y	RIS	RAJENDER SINGH	01-08-2012

**69 ARMOURED REGIMENT**

98	JC 241607L	RIS	GOPAL SINGH	01-04-2012
99	JC 241176K	RIS	JAGDISH PRASAD	01-05-2012
100	JC 240871M	RIS	PRABHU SINGH MEENA	01-04-2012
101	JC 240872P	RIS	RAJENDER SINGH	01-04-2012
102	JC 241136H	RIS	SHIV KUMAR SINGH	01-04-2012

**70 ARMOURED REGIMENT**

103	JC 242842W	RIS	ARJUN SINGH	01-08-2012
104	JC 242954W	RIS	BABU SINGH	01-08-2012
105	JC 242841N	RIS	HIRA SINGH	01-07-2012
106	JC 242725L	RIS	JAGJIT SINGH	01-04-2012
107	JC 242617F	RIS	KAMLESH KUMAR	01-03-2012
108	JC 242826Y	RIS	KARNAIL SINGH	01-04-2012
109	JC 242736X	RIS	MANJIT SINGH	01-04-2012
110	JC 242814K	RIS	NARESH KUMAR	01-04-2012
111	JC 242953N	RIS	PARDEEP KUMAR	01-08-2012
112	JC 242737A	RIS	SAMAR VIR SINGH	01-04-2012

**71 ARMOURED REGIMENT**

113	JC 243990N	RIS	JARNAIL SINGH	01-07-2012
114	JC 243579H	RIS	VIJAY SINGH	01-07-2012

**72 ARMOURED REGIMENT**

115	JC 241251H	RIS	KEHAR SINGH	01-04-2012
116	JC 240612K	RIS	NAND RAM	01-07-2012
117	JC 240026F	RIS	RANDHIR SINGH	01-04-2012
118	JC 241521M	RIS	UNKAR SINGH	01-07-2012
119	JC 241279H	RIS	VIJAY KUMAR	01-05-2012

**73 ARMOURED REGIMENT**

120	JC 243117W	RIS	NARAYAN SINGH	01-02-2012
121	JC 242646W	RIS	SATNAM SINGH	01-03-2012

**74 ARMOURED REGIMENT**

122	JC 241137L	RIS	AMRIK SINGH	01-02-2012
123	JC 243200N	RIS	BACHAN LAL	01-03-2012
124	JC 243391N	RIS	PARAMJIT SINGH	01-06-2012

**75 ARMOURED REGIMENT**

125	JC 240850W	RIS	DARMADASAN PN	01-04-2012
126	JC 240967P	RIS	RAJU VT	01-05-2012

**82 ARMOURED REGIMENT**

127	JC 242634F	RIS	ASHOK KUMAR	01-04-2012
128	JC 242844F	RIS	SAHIB SINGH	01-04-2012
129	JC 242995A	RIS	SITA RAM YADAV	01-07-2012

**83 ARMOURED REGIMENT**

130	JC 242403L	RIS	ANIL KUMAR	01-06-2012
131	JC 242054M	RIS	KHEMA RAM	01-05-2012

**84 ARMOURED REGIMENT**

132	JC 242900P	RIS	GAUTAM SINGH	01-06-2012
133	JC 240383K	RIS	PRAYAG ROY	01-04-2012
134	JC 240279W	RIS	SHANKAR ARYA	01-04-2012
135	JC 242895P	RIS	SUKHDEV SINGH	01-08-2012

**85 ARMOURED REGIMENT**

136	JC 242587P	RIS	BANIA RAM	01-08-2012
137	JC 242370L	RIS	KULBIR SINGH	01-02-2012
138	JC 242661L	RIS	NARINDER SINGH	01-08-2012
139	JC 242429A	RIS	RAMAYAN TIWARI	01-04-2012
140	JC 242545H	RIS	TILAK RAJ	01-06-2012

**86 ARMOURED REGIMENT**

141	JC 241699H	RIS	KRISHNA DHAN BISWAS	01-03-2012
142	JC 242641X	RIS	LILLU KHAN	01-06-2012
143	JC 243034L	RIS	RAJ SINGH	01-08-2012
144	JC 243112X	RIS	SADHU RAM	01-05-2012
145	JC 242250M	RIS	SHRI RAM	01-08-2012
146	JC 241719L	RIS	SOHRAI HERENJ	01-05-2012

**89 ARMOURED REGIMENT**

147	JC 241194M	RIS	BALWANT SINGH	01-04-2012
148	JC 241438P	RIS	MATHAI Y	01-06-2012
149	JC 241470K	RIS	NAGENDRA TIWARI	01-05-2012
150	JC 242705X	RIS	PARASRAM GANGARAMJI CHUMBRE	01-05-2012
151	JC 242691H	RIS	SHAMSHER SINGH	01-03-2012

**90 ARMOURED REGIMENT**

152	JC 242812Y	RIS	MAHIPAL SINGH	01-04-2012
-----	------------	-----	---------------	------------

**42 ARMOURED REGIMENT**

153	JC 242947A	RIS	SUKHDEV SINGH	01-08-2012
-----	------------	-----	---------------	------------

**43 ARMOURED REGIMENT**

154	JC 242460M	RIS	GURMAL SINGH	01-04-2012
155	JC 242462X	RIS	RAJINDER SINGH	01-06-2012
156	JC 241259P	RIS	RAM KUMAR SHARMA	01-04-2012
157	JC 242458P	RIS	VINOD KUMAR	01-02-2012

**46 ARMOURED REGIMENT**

158	JC 242669X	RIS	MANOJ KUMAR ROY	01-03-2012
159	JC 242926K	RIS	RAJWANT SINGH	01-08-2012
160	JC 242923W	RIS	RAKESH SINGH	01-03-2012

**47 ARMOURED REGIMENT**

161	JC 240801N	RIS	BHIRDKAR BALASO BABU	01-04-2012
162	JC 241731M	RIS	D KUMAR	01-08-2012
163	JC 240797W	RIS	GOUTAM SAHA	01-03-2012
164	JC 241852N	RIS	JAGDISH CHANDER	01-08-2012
165	JC 242366H	RIS	MAHABIR SINGH RAJAPOOT	01-04-2012
166	JC 241555A	RIS	PRATIM KUMAR DEKA	01-04-2012
167	JC 242496L	RIS	SHER SINGH LAMBA	01-05-2012

**48 ARMOURED REGIMENT**

168	JC 240908H	RIS	DAWARKA PRASAD	01-04-2012
169	JC 241582K	RIS	DINESH KUMAR PAL	01-04-2012
170	JC 242769H	RIS	RAJBANSH SHUKLA	01-04-2012

**49 ARMOURED REGIMENT**

171	JC 242391F	RIS	GURMEET SINGH	01-04-2012
172	JC 242384L	RIS	JASBIR SINGH	01-02-2012
173	JC 242457M	RIS	PARMA NAND	01-04-2012
174	JC 242800K	RIS	SAWAI SINGH	01-08-2012

**5 ARMOURED REGIMENT**

175	JC 239522W	RIS	JAI PAL SINGH	01-04-2012
176	JC 241064K	RIS	MARA BHATHINI SRINIVAS RAO	01-08-2012
177	JC 239541F	RIS	PRITHIVIRAJ C	01-07-2012
178	JC 240690F	RIS	SHIV VARAN	01-08-2012

**11 ARMOURED REGIMENT**

179	JC 241526L	RIS	RAMVIR	01-04-2012
-----	------------	-----	--------	------------

**12 ARMOURED REGIMENT**

180	JC 240171Y	RIS	MUNNA LAL PARIHAR	01-06-2012
181	JC 240573W	RIS	SATYENDRA KUMAR SHUKLA	01-04-2012

**13 ARMOURED REGIMENT**

182	JC 242785A	RIS	GURBAX SINGH	01-06-2012
183	JC 242743N	RIS	SAKTHIDHARAN NAIR N	01-06-2012
184	JC 242050W	RIS	SATNAM SINGH	01-02-2012

**15 ARMOURED REGIMENT**

185	JC 242492P	RIS	DURG SINGH SISODIYA	01-06-2012
186	JC 242516N	RIS	OM PRAKASH	01-03-2012

**19 ARMOURED REGIMENT**

187	JC 242551W	RIS	AJIT SINGH	01-05-2012
188	JC 242928P	RIS	BALBIR SINGH	01-06-2012
189	JC 242993P	RIS	LAXMI CHAND	01-07-2012
190	JC 242570F	RIS	ONKAR SINGH	01-05-2012
191	JC 243067W	RIS	RAMESHWAR LAL	01-07-2012
192	JC 242930M	RIS	V CHANDRA BABU NAIDU	01-06-2012

**50 ARMOURED REGIMENT**

193	JC 243103W	RIS	DEVA RAM CHOUDHARY	01-08-2012
194	JC 242331M	RIS	MADAN LAL	01-02-2012

**51 ARMOURED REGIMENT**

195	JC 242014L	RIS	MANIRAJ SINGH	01-02-2012
-----	------------	-----	---------------	------------

**52 ARMOURED REGIMENT**

196	JC 241593W	RIS	KANWARPAL SINGH	01-03-2012
197	JC 241987P	RIS	MANVENDRA PRATAP SINGH	01-06-2012
198	JC 241313X	RIS	MUKHTAR SINGH	01-02-2012
199	JC 241653A	RIS	RAGUBIR SINGH	01-05-2012

200	JC 241600F	RIS	RAMESH CHANDRA	01-04-2012
201	JC 241646K	RIS	RAVINDER SINGH	01-04-2012
202	JC 242279P	RIS	SAWROOP CHAND	01-07-2012
203	JC 239528X	RIS	SHANKAR SINGH	01-05-2012

**53 ARMoured REGIMENT**

204	JC 241471M	RIS	BHAWAR SINGH RAJPUT	01-02-2012
205	JC 242121M	RIS	SURADRA PAL SINGH	01-03-2012
206	JC 242274W	RIS	TARSEM SINGH	01-02-2012

**ARMoured CORPS**

207	JC 239511K	RIS	ANIL KUMAR SAHOO	01-05-2012
208	JC 241977L	RIS	BHOOP SINGH CHAUHAN	01-03-2012
209	JC 240413W	RIS	GOPAL CHANDRA GHOSH	01-03-2012
210	JC 239529A	RIS	LOUIS CJ	01-02-2012
211	JC 240798Y	RIS	MAHAVIR PRASAD	01-04-2012
212	JC 239551L	RIS	MAHENDRA SINGH	01-08-2012
213	JC 241639N	RIS	PARSADI LAL DOUBELA	01-08-2012
214	JC 240418P	RIS	PRASANTA KUMAR PATTANAYAK	01-06-2012
215	JC 242243W	RIS	PREMA KUMARAN NAIR B	01-07-2012
216	JC 240710K	RIS	RAM BAHADUR	01-05-2012
217	JC 241978N	RIS	RAM PRATAP SINGH	01-04-2012
218	JC 241510A	RIS	SHALENDER SINGH	01-04-2012
219	JC 241045Y	RIS	SHIV PRASAD SHARMA	01-08-2012
220	JC 241536P	RIS	U PACKIAM	01-04-2012

**REGIMENT OF ARTILLERY**

221	JC 266623N	SUB	A SREENIVASA REDDY	01-08-2012
222	JC 263889P	SUB	A VIJAYAN	01-03-2012
223	JC 268999N	SUB	ACHCHHEY LAL	01-04-2012
224	JC 262177A	SUB	AJAYVIR SINGH VERMA	01-07-2012
225	JC 270024L	SUB	AJIT SINGH	01-04-2012
226	JC 270552P	SUB	AMAR KUMAR SINGHA	01-04-2012
227	JC 269681H	SUB	AMAR NATH SINGH	01-06-2012
228	JC 267169L	SUB	AMAR PAL SINGH PANWAR	01-03-2012
229	JC 269024Y	SUB	AMAR SINGH	01-04-2012
230	JC 265247Y	SUB	AMARNATH	01-04-2012
231	JC 265385A	SUB	AMRIK SINGH	01-02-2012
232	JC 269851F	SUB	AMRIK SINGH	01-03-2012
233	JC 268739H	SUB	ANAND PRAKASH	01-04-2012
234	JC 268521W	SUB	ANAND SINGH NAGAR KOTI	01-04-2012
235	JC 269163H	SUB	ANIL KUMAR	01-04-2012
236	JC 270474H	SUB	ANIL KUMAR K P	01-05-2012
237	JC 268025P	SUB	ARJUN SINGH	01-06-2012
238	JC 268713N	SUB	ARVIND DUTT	01-07-2012
239	JC 268927K	SUB	ASHOK KUMAR	01-03-2012
240	JC 270732X	SUB	ASHOK KUMAR	01-05-2012
241	JC 265950M	SUB	ASHOK KUMAR MANDAL	01-03-2012
242	JC 269146H	SUB	ASHOK PATTANASHETTI	01-02-2012
243	JC 265071Y	SUB	ASOKAN T	01-03-2012
244	JC 267335N	SUB	AVTAR SINGH	01-05-2012



245	JC 270863H	SUB	BABAN PRASAD	01-02-2012
246	JC 268684K	SUB	BABU RANJAN NATH	01-04-2012
247	JC 273006N	SUB	BACHAN LAL	01-02-2012
248	JC 270018X	SUB	BACHAN SINGH	01-06-2012
249	JC 272820M	SUB	BACHCHA SINGH	01-03-2012
250	JC 270150X	SUB	BAIJNATH SINGH	01-06-2012
251	JC 266889A	SUB	BALBIR SINGH	01-03-2012
252	JC 269775A	SUB	BALDEV SINGH	01-03-2012
253	JC 270555H	SUB	BALDEV SINGH	01-03-2012
254	JC 268763Y	SUB	BALIHAR SINGH	01-03-2012
255	JC 269612M	SUB	BALJIT SINGH	01-02-2012
256	JC 269682L	SUB	BALKAR SINGH JASROTIA	01-04-2012
257	JC 264593H	SUB	BALKISHAN	01-07-2012
258	JC 261256H	SUB	BALRAM SINGH	01-04-2012
259	JC 269034H	SUB	BALWINDER SINGH	01-02-2012
260	JC 269287X	SUB	BALWINDER SINGH	01-04-2012
261	JC 269992W	SUB	BALWINDER SINGH	01-08-2012
262	JC 271354W	SUB	BALWINDER SINGH	01-04-2012
263	JC 270454P	SUB	BHAGWAN DASS	01-04-2012
264	JC 270503M	SUB	BHANWAR LAL	01-06-2012
265	JC 271052K	SUB	BHANWAR SINGH	01-04-2012
266	JC 268945M	SUB	BHAUSAHEB SHIDU DAKE	01-02-2012
267	JC 273487L	SUB	BHAWNESHAWAR	01-03-2012
268	JC 269778N	SUB	BHOLA NATH YADAV	01-04-2012
269	JC 262425L	SUB	BHUPENDER SINGH	01-04-2012
270	JC 270211K	SUB	BIKAS CHANDRA GHARA	01-03-2012
271	JC 271160N	SUB	BIPUL CHANDRA NATH	01-06-2012
272	JC 269009K	SUB	BIRENDER SINGH	01-04-2012
273	JC 268958K	SUB	BIRENDRA KUMAR SINGH	01-04-2012
274	JC 270128M	SUB	BIRENDRA PRASAD SINGH	01-04-2012
275	JC 268290L	SUB	BRAM PARKASH	01-04-2012
276	JC 270001K	SUB	BRIJESH	01-02-2012
277	JC 269643M	SUB	C ANBIN SOGAYAM	01-03-2012
278	JC 269373H	SUB	C SOUNDARA PANDIAN	01-02-2012
279	JC 270752L	SUB	CHAMAN SINGH	01-07-2012
280	JC 265377F	SUB	CHANCHAL SINGH NAGAR KOTI	01-02-2012
281	JC 269423H	SUB	CHANDESHWARI PRASAD YADAV	01-04-2012
282	JC 268228Y	SUB	CHANDRAPPA H V	01-04-2012
283	JC 269829W	SUB	CHARAN SINGH	01-04-2012
284	JC 267313P	SUB	CHAUHAN RAMESH JAGANNATH	01-08-2012
285	JC 267373K	SUB	CHHOTE LAL	01-04-2012
286	JC 269358N	SUB	CHOKHE LAL	01-07-2012
287	JC 267380A	SUB	DALJIT SINGH	01-04-2012
288	JC 270251L	SUB	DAMODARAN P K	01-02-2012
289	JC 269575K	SUB	DARA SINGH	01-07-2012
290	JC 266604H	SUB	DARSHAN SINGH	01-04-2012
291	JC 270621A	SUB	DARSHAN SINGH	01-04-2012
292	JC 270249N	SUB	DAULAT RAM SHARMA	01-04-2012
293	JC 268150Y	SUB	DAYA SHANKAR YADAV	01-02-2012
294	JC 270702A	SUB	DAYAL SINGH RAWAT	01-03-2012
295	JC 271624A	SUB	DAYALAN S	01-03-2012

296	JC 264519F	SUB	DEEPA CHAND RAM	01-04-2012
297	JC 269675P	SUB	DES RAJ	01-08-2012
298	JC 268819A	SUB	DHAMESHAR RAM	01-04-2012
299	JC 270112F	SUB	DHANAPPA MALAKAPPA MEDIDAR	01-02-2012
300	JC 269205K	SUB	DHARAM VIR SINGH	01-08-2012
301	JC 271792Y	SUB	DHARMENDRA SINGH	01-08-2012
302	JC 268473F	SUB	DILBER SINGH RAWAT	01-04-2012
303	JC 267901H	SUB	DIWAN SINGH	01-07-2012
304	JC 268289W	SUB	FAKEER NAGARAL	01-07-2012
305	JC 272549N	SUB	G RAVI CHANDRAN	01-02-2012
306	JC 268825N	SUB	GHAN SHAYAM JOSHI	01-04-2012
307	JC 270748H	SUB	GIAN CHAND	01-04-2012
308	JC 267666P	SUB	GURDIAL SINGH	01-04-2012
309	JC 268333P	SUB	GURMEET SINGH	01-05-2012
310	JC 269117N	SUB	GURMIT SINGH	01-02-2012
311	JC 268378P	SUB	GURNAM SINGH	01-04-2012
312	JC 270136L	SUB	GURUGUBELL ASIRI NAIDU	01-05-2012
313	JC 270097X	SUB	HAKE GOPINATH KISAN	01-05-2012
314	JC 266182H	SUB	HANAMAPPA HAVARAGI	01-08-2012
315	JC 270737W	SUB	HAR SWAROOP SINGH	01-04-2012
316	JC 265239A	SUB	HARI BABU	01-03-2012
317	JC 270571A	SUB	HARI OM	01-04-2012
318	JC 270729X	SUB	HARI SHANKAR SINGH CHAUHAN	01-07-2012
319	JC 262554L	SUB	HARJEET KUMAR	01-07-2012
320	JC 269422A	SUB	HARJEET SINGH	01-04-2012
321	JC 262179L	SUB	HARMONDIP SINGH	01-02-2012
322	JC 270628K	SUB	HARPAL SINGH	01-02-2012
323	JC 269913W	SUB	HIMAT SINGH SHEKHAWAT	01-04-2012
324	JC 269000P	SUB	HIRA LAL PATEL	01-08-2012
325	JC 268907W	SUB	HIRA THAKUR	01-07-2012
326	JC 259929N	SUB	HUKAM CHAND SAMKRIA	01-08-2012
327	JC 266260P	SUB	I DURAISAMY	01-02-2012
328	JC 268976M	SUB	I EDWARD	01-04-2012
329	JC 268510K	SUB	INDRA JEET DUBEY	01-05-2012
330	JC 263911P	SUB	INDRAJEET	01-02-2012
331	JC 269043K	SUB	ISHWAR CHAND	01-07-2012
332	JC 268264K	SUB	ISHWAR SINGH	01-04-2012
333	JC 273669Y	SUB	JACOB T C	01-05-2012
334	JC 268467N	SUB	JAG MOHAN GUPTA	01-04-2012
335	JC 270138W	SUB	JAGAT NARAIN SINGH	01-03-2012
336	JC 270347N	SUB	JAGDISH CHANDER	01-06-2012
337	JC 270347N	SUB	JAGDISH CHANDER	01-06-2012
338	JC 273211P	SUB	JAGDISH CHANDRA	01-03-2012
339	JC 267449Y	SUB	JAGIR SINGH	01-06-2012
340	JC 273064X	SUB	JAI KARAN SINGH	01-03-2012
341	JC 269119Y	SUB	JAI KISHAN	01-04-2012
342	JC 270102X	SUB	JAI KUMAR	01-04-2012
343	JC 269925L	SUB	JAI PAL SINGH	01-08-2012
344	JC 267102M	SUB	JAI PRAKASH NAMDEO INGLE	01-02-2012
345	JC 266827A	SUB	JAI PRAKASH SINGH	01-05-2012
346	JC 269981K	SUB	JAISA RAM	01-04-2012

347	JC 268081N	SUB	JALBIR SINGH	01-04-2012
348	JC 272971L	SUB	JASPAL SINGH	01-05-2012
349	JC 271581W	SUB	JASWANT SINGH	01-04-2012
350	JC 261832F	SUB	JASWINDER SINGH	01-08-2012
351	JC 271176Y	SUB	JEEWAN SINGH RANA	01-02-2012
352	JC 272078L	SUB	JEVINDER SINGH	01-02-2012
353	JC 270573L	SUB	JITEN CHANDRA TAMULI	01-07-2012
354	JC 269558K	SUB	JOGADAND BALAJEE DATTU	01-05-2012
355	JC 270616P	SUB	JOGINDER LAL	01-08-2012
356	JC 268979A	SUB	JOGINDER PAL	01-04-2012
357	JC 264442K	SUB	JOGINDER SINGH	01-03-2012
358	JC 270392A	SUB	JOGINDER SINGH	01-06-2012
359	JC 271356F	SUB	JOGINDER SINGH	01-02-2012
360	JC 271358M	SUB	K THANGA DURAI	01-08-2012
361	JC 269202W	SUB	KAILASH CHANDRA YADAV	01-04-2012
362	JC 270846H	SUB	KALAHASTI VENKATARATNAM	01-07-2012
363	JC 269859N	SUB	KALI SAHAY	01-08-2012
364	JC 268740X	SUB	KANHAIA LAL	01-04-2012
365	JC 269679L	SUB	KANWAR SINGH	01-08-2012
366	JC 269002A	SUB	KARAM SINGH	01-07-2012
367	JC 269519L	SUB	KARNAIL SINGH	01-03-2012
368	JC 270500Y	SUB	KARPAL SINGH	01-06-2012
369	JC 270132P	SUB	KASHID BABAN DADA	01-03-2012
370	JC 269830L	SUB	KASHMIR SINGH	01-04-2012
371	JC 269457W	SUB	KAUSHAL KISHOR SINGH	01-07-2012
372	JC 267879H	SUB	KESAVAN C	01-08-2012
373	JC 270981W	SUB	KEWAL PARKASH	01-05-2012
374	JC 265125P	SUB	KEWAL SINGH	01-04-2012
375	JC 267981L	SUB	KHUSHAHAL MANI	01-06-2012
376	JC 267543H	SUB	KRISHAN CHAND	01-04-2012
377	JC 269670W	SUB	KRISHAN KUMAR	01-04-2012
378	JC 268700W	SUB	KRISHNA PAL	01-06-2012
379	JC 270721L	SUB	KRISHNA PAL	01-08-2012
380	JC 268559A	SUB	KRISNA NANDA RAI	01-06-2012
381	JC 270742F	SUB	KULWANT SINGH	01-05-2012
382	JC 270743K	SUB	KULWANT SINGH	01-03-2012
383	JC 262571L	SUB	KUMARASWAMY MARATI	01-07-2012
384	JC 264281M	SUB	KUSUMAKAR RAI	01-04-2012
385	JC 271949N	SUB	LAIRENKHOMBA SINGHA	01-06-2012
386	JC 268497L	SUB	LAKHBIR SINGH	01-07-2012
387	JC 267410M	SUB	LAKHWINDER SINGH	01-04-2012
388	JC 269093P	SUB	LAKHWINDER SINGH	01-06-2012
389	JC 270042N	SUB	LEKH RAJ	01-04-2012
390	JC 267596F	SUB	LILA KANTA BARUAH	01-02-2012
391	JC 269524W	SUB	LOKENDRA SINGH	01-04-2012
392	JC 268827Y	SUB	M D BODRODDOZA	01-04-2012
393	JC 267793K	SUB	M SATHIYA MOORTHY	01-08-2012
394	JC 269296Y	SUB	MADAN LAL	01-04-2012
395	JC 268329M	SUB	MAHESH CHANDER	01-04-2012
396	JC 271594N	SUB	MAJOR SINGH	01-08-2012
397	JC 271637X	SUB	MALI VIJAY KUMAR NIVRATTI	01-04-2012

398	JC 268485W	SUB	MALIKHAN SINGH	01-03-2012
399	JC 271202P	SUB	MALKIT SINGH	01-08-2012
400	JC 269922X	SUB	MAN MOHAN SINGH	01-05-2012
401	JC 269429K	SUB	MAN SINGH	01-04-2012
402	JC 269585N	SUB	MAN SINGH	01-05-2012
403	JC 269019N	SUB	MANE PRAKASH KHASHABA	01-02-2012
404	JC 268749M	SUB	MANGEY RAM	01-04-2012
405	JC 268028M	SUB	MANIKANTAN S	01-02-2012
406	JC 262170W	SUB	MANOJ KUMAR SINGH	01-04-2012
407	JC 267810Y	SUB	MATTAVARA PRASADA REDDY	01-04-2012
408	JC 273204Y	SUB	MD KALAMUDDIN	01-02-2012
409	JC 268693L	SUB	MD MUZIBAR RAHMAN	01-07-2012
410	JC 270031F	SUB	MITHILESH KUMAR MISHRA	01-05-2012
411	JC 272554Y	SUB	MOHAN LAL	01-02-2012
412	JC 259712K	SUB	MOHAN SINGH	01-02-2012
413	JC 262565X	SUB	MOHINDER SINGH	01-03-2012
414	JC 266384K	SUB	MOHINDER SINGH	01-02-2012
415	JC 272015H	SUB	MUKAND SINGH	01-08-2012
416	JC 268564L	SUB	MUKAT RAM	01-04-2012
417	JC 271842Y	SUB	MUNNA LAL	01-08-2012
418	JC 266625Y	SUB	NAIPAL SINGH	01-02-2012
419	JC 271839Y	SUB	NAKKA VENKATESWARULU	01-03-2012
420	JC 271804H	SUB	NALWADE ASHOK ABASAHEB	01-03-2012
421	JC 270889X	SUB	NARAIN SINGH	01-03-2012
422	JC 268330M	SUB	NARENDRA KUMAR BARIK	01-05-2012
423	JC 268531A	SUB	NARENDRA KUMAR MISHRA	01-04-2012
424	JC 272425Y	SUB	NASIB SINGH	01-02-2012
425	JC 269372A	SUB	NATTER PARKASH	01-08-2012
426	JC 269107K	SUB	NEELAM SINGH	01-06-2012
427	JC 270123N	SUB	NEMI CHAND	01-04-2012
428	JC 270377L	SUB	NINGAPPA RONAD	01-06-2012
429	JC 269788X	SUB	NIRJAN SINGH	01-04-2012
430	JC 269092M	SUB	NIRMAL SINGH	01-04-2012
431	JC 268630H	SUB	OM PARKASH	01-07-2012
432	JC 270731P	SUB	OM SINGH	01-04-2012
433	JC 269464M	SUB	OUSEPH C J	01-04-2012
434	JC 269055Y	SUB	F M UNNIKRISHNAN	01-03-2012
435	JC 268073P	SUB	P RADHA KRISHNAN	01-05-2012
436	JC 269495M	SUB	PANDURANG PISHTE	01-04-2012
437	JC 268560P	SUB	PARAMJEET SINGH	01-02-2012
438	JC 268061L	SUB	PARCHAVA SINGH	01-05-2012
439	JC 267304L	SUB	PARMANAND SINGH	01-04-2012
440	JC 269695H	SUB	PAROPKAR SINGH	01-03-2012
441	JC 268675H	SUB	PARTAP SINGH	01-04-2012
442	JC 269994F	SUB	PATEL ANIL KUMAR ARJUN BHAI	01-02-2012
443	JC 267633P	SUB	PATIL UTTAM VISHWANATH	01-03-2012
444	JC 268336H	SUB	PHOOL CHANDRA VERMA	01-07-2012
445	JC 270533K	SUB	PIKKILI SUBBARAYUDU	01-04-2012
446	JC 270386M	SUB	PRABHAKAR ARJUN PAWAR	01-06-2012
447	JC 270175K	SUB	PRALADRAM KUMAWAT	01-08-2012
448	JC 272060P	SUB	PRALHAD WAVDHANE	01-04-2012

449	JC 267796X	SUB	PRASANNA BORUAH	01-02-2012
450	JC 266302W	SUB	PRASANNAN K	01-03-2012
451	JC 268679Y	SUB	PRATHEEP KUMAR P	01-03-2012
452	JC 270373P	SUB	PREM CHAND	01-08-2012
453	JC 270300H	SUB	PREM KUMAR T	01-05-2012
454	JC 269297F	SUB	PREM SINGH	01-04-2012
455	JC 271488P	SUB	PREM SINGH	01-04-2012
456	JC 270879N	SUB	PREM SINGH BANIWAL	01-03-2012
457	JC 271378A	SUB	PUPINDER SINGH	01-08-2012
458	JC 268623M	SUB	PURAN SINGH	01-06-2012
459	JC 271053M	SUB	PURSHOTTAM RAM	01-03-2012
460	JC 270584X	SUB	PYARA KUZUR	01-06-2012
461	JC 269207P	SUB	R GANAPATHI	01-02-2012
462	JC 272101N	SUB	R RAVI	01-08-2012
463	JC 268916X	SUB	RABINDRA RAM	01-04-2012
464	JC 268919L	SUB	RACHHPAL CHAND	01-06-2012
465	JC 267297H	SUB	RACHHPAL SINGH	01-03-2012
466	JC 269561K	SUB	RADHA KRISHNAN S	01-02-2012
467	JC 270209M	SUB	RADHAKRISHNAN P N	01-07-2012
468	JC 271216P	SUB	RAGHUBIR SINGH YADAV	01-04-2012
469	JC 269604N	SUB	RAJ KUMAR	01-04-2012
470	JC 264622M	SUB	RAJ KUMAR ROY	01-05-2012
471	JC 269570L	SUB	RAJENDER GIRI	01-06-2012
472	JC 261459M	SUB	RAJENDRA PRASAD	01-04-2012
473	JC 266737Y	SUB	RAJESHWAR SINGH	01-04-2012
474	JC 268091X	SUB	RAJINDER RANA	01-04-2012
475	JC 268503N	SUB	RAJINDER SINGH	01-07-2012
476	JC 267865H	SUB	RAKESH CHANDRA	01-06-2012
477	JC 267806W	SUB	RAKESH SINGH	01-07-2012
478	JC 266442H	SUB	RAM BRIKSH SHUKLA	01-04-2012
479	JC 270238F	SUB	RAM GILAS GUJAR	01-07-2012
480	JC 270705N	SUB	RAM KARAN GUJAR	01-07-2012
481	JC 267446L	SUB	RAM KHELAWAN SAHU	01-04-2012
482	JC 271180F	SUB	RAM KISHAN	01-08-2012
483	JC 269339H	SUB	RAM KUMAR	01-06-2012
484	JC 268114N	SUB	RAM NARESH	01-08-2012
485	JC 265254P	SUB	RAM NATH	01-03-2012
486	JC 267354Y	SUB	RAM NIHOR SINGH	01-05-2012
487	JC 267585P	SUB	RAM PIRITI SINGH YADAV	01-05-2012
488	JC 270145M	SUB	RAM PRAKASH	01-04-2012
489	JC 268016N	SUB	RAM PRAKASH TRIPATHI	01-04-2012
490	JC 267944X	SUB	RAM RATHI PATEL	01-04-2012
491	JC 264537K	SUB	RAM RATTAN	01-04-2012
492	JC 269300W	SUB	RAM SINGH YADAV	01-02-2012
493	JC 267309M	SUB	RAM SUJAN	01-03-2012
494	JC 268331K	SUB	RAM SURESH VERMA	01-04-2012
495	JC 265058P	SUB	RAMA DAS M	01-05-2012
496	JC 270342P	SUB	RAMA SHISH SINGH YADAV	01-07-2012
497	JC 257458M	SUB	RAMAMOORTHY P	01-04-2012
498	JC 268085K	SUB	RAMBIR SINGH	01-02-2012
499	JC 271314P	SUB	RAMESH CHAND	01-03-2012

500	JC 272252M	SUB	RAMESH CHAND	01-08-2012
501	JC 268374Y	SUB	RAMESH CHANDRA PANDEY	01-02-2012
502	JC 266976N	SUB	RAMESH KUMAR	01-04-2012
503	JC 269898M	SUB	RAMESH KUMAR	01-08-2012
504	JC 270431N	SUB	RAMESH PRASAD	01-04-2012
505	JC 274467K	SUB	RAMESH RAM	01-04-2012
506	JC 269633H	SUB	RAMESHWAR SINGH SAMBYAL	01-03-2012
507	JC 268529H	SUB	RAMJI SINGH	01-04-2012
508	JC 269912N	SUB	RAMNIWAS	01-04-2012
509	JC 267405F	SUB	RAMVRIKSHA PRASAD	01-06-2012
510	JC 265517H	SUB	RAN SINGH JAT	01-03-2012
511	JC 265250Y	SUB	RANBIR SINGH	01-04-2012
512	JC 266730P	SUB	RANDEV SINGH BHADWAL	01-04-2012
513	JC 267227K	SUB	RANGE GOWDA H C	01-03-2012
514	JC 265737M	SUB	RATAN LAL	01-04-2012
515	JC 269735Y	SUB	RATI RAM SINGH	01-07-2012
516	JC 268651Y	SUB	RAVINDER SINGH	01-04-2012
517	JC 270341M	SUB	RISHI MUNI SINGH YADAV	01-04-2012
518	JC 270418K	SUB	RISHI SINGH	01-03-2012
519	JC 271588A	SUB	ROOP SINGH	01-03-2012
520	JC 267179P	SUB	ROTAN SINGH RAWAT	01-06-2012
521	JC 269091K	SUB	RUPASH TAMANG	01-07-2012
522	JC 271553K	SUB	S KASTHURI	01-02-2012
523	JC 268094L	SUB	SADANANDAN O P	01-04-2012
524	JC 269115H	SUB	SAHADEV SINGH	01-04-2012
525	JC 265284M	SUB	SANTOSH KUMAR CHATURVEDI	01-04-2012
526	JC 271377X	SUB	SARDAR SINGH	01-08-2012
527	JC 268982A	SUB	SAROJ KUMAR	01-04-2012
528	JC 258916K	SUB	SATHEESH BABU R	01-04-2012
529	JC 270797L	SUB	SATPAL SINGH	01-03-2012
530	JC 269508Y	SUB	SATVIR SINGH	01-04-2012
531	JC 269066L	SUB	SATYA NARAIN SAH	01-02-2012
532	JC 268135K	SUB	SATYABIR SINGH	01-07-2012
533	JC 271140A	SUB	SATYAVIR SINGH	01-07-2012
534	JC 268573M	SUB	SETTU P	01-02-2012
535	JC 264054M	SUB	SHABEG SINGH	01-02-2012
536	JC 265159H	SUB	SHAMBHU PRASAD	01-03-2012
537	JC 269972H	SUB	SHANKAR DATT	01-05-2012
538	JC 270188F	SUB	SHANTA RAM GANPAT SAKPAL	01-03-2012
539	JC 270129P	SUB	SHEODAN SINGH	01-05-2012
540	JC 270057W	SUB	SHEOPAL SINGH	01-04-2012
541	JC 268416A	SUB	SHER SINGH	01-04-2012
542	JC 269020H	SUB	SHIOBACHAN RAM	01-04-2012
543	JC 270997F	SUB	SHISHUPAL SINGH	01-03-2012
544	JC 268190A	SUB	SHIV MURTI	01-04-2012
545	JC 270022A	SUB	SHIV SINGH	01-05-2012
546	JC 270225K	SUB	SHIVA PUTRAPPA	01-07-2012
547	JC 265636Y	SUB	SHIVANNA	01-03-2012
548	JC 267834H	SUB	SHRI KANT SINGH	01-07-2012
549	JC 270256K	SUB	SHYAMBIR SINGH	01-02-2012
550	JC 272712H	SUB	SIDDAPA GUGGARATI	01-05-2012

551	JC 268683F	SUB	SIVA PRASAD B	01-03-2012
552	JC 271421W	SUB	SMAIL RAJ	01-02-2012
553	JC 265952X	SUB	SOHAN SINGH RANA	01-03-2012
554	JC 268877K	SUB	SOMAN B	01-07-2012
555	JC 267746M	SUB	SONBIR SINGH	01-04-2012
556	JC 272383X	SUB	SREE KUMAR D	01-06-2012
557	JC 270490A	SUB	SRI GHASI RAM DUBEY	01-03-2012
558	JC 267347H	SUB	SRINARAYAN SINGH	01-08-2012
559	JC 267669H	SUB	SRINIBASH MAJUMDAR	01-05-2012
560	JC 267048K	SUB	SUBASH SINGH	01-03-2012
561	JC 269596A	SUB	SUBEH SINGH YADAV	01-04-2012
562	JC 268229F	SUB	SUBHASH SAVANT	01-06-2012
563	JC 269640Y	SUB	SUCHA SINGH	01-07-2012
564	JC 270854F	SUB	SUDARSANAN PARIYARATH	01-04-2012
565	JC 265249K	SUB	SUKHA RAM	01-03-2012
566	JC 269782W	SUB	SUKHDEO ANANDA WAGH	01-06-2012
567	JC 270390P	SUB	SUKHWINDER SINGH	01-03-2012
568	JC 269362W	SUB	SUMER SINGH	01-03-2012
569	JC 269526F	SUB	SUMOD KUMAR	01-04-2012
570	JC 266857X	SUB	SUNDER LAL	01-02-2012
571	JC 271464L	SUB	SUNIL KUMAR KOLATIKANDIYIL	01-08-2012
572	JC 271050Y	SUB	SURAM SINGH	01-03-2012
573	JC 271242W	SUB	SURENDER SINGH	01-02-2012
574	JC 265088M	SUB	SURENDER SINGH NEGI	01-05-2012
575	JC 270437P	SUB	SURENDRA KUMAR PANDEY	01-02-2012
576	JC 269157P	SUB	SURESH BABU G	01-03-2012
577	JC 265824A	SUB	SURESH CHAND	01-07-2012
578	JC 268024M	SUB	SURESH KUMAR	01-02-2012
579	JC 265379M	SUB	SURESH KUMAR VERMA	01-08-2012
580	JC 271239W	SUB	SURINDER KUMAR	01-05-2012
581	JC 268029L	SUB	SURJAN SINGH	01-03-2012
582	JC 268501H	SUB	SURJIT SINGH	01-06-2012
583	JC 266109K	SUB	SWAPAN BANDYOPADHYAY	01-02-2012
584	JC 268285A	SUB	SWARAN SINGH	01-03-2012
585	JC 270598X	SUB	T HERA BABU SINGHA	01-02-2012
586	JC 272065N	SUB	T PAPPAYAN	01-04-2012
587	JC 268421L	SUB	TEK CHAND	01-07-2012
588	JC 269538W	SUB	THANKACHAN J	01-03-2012
589	JC 266328L	SUB	THANKACHAN M T	01-06-2012
590	JC 270843P	SUB	UMESH PRASAD	01-02-2012
591	JC 269336P	SUB	UNNI P	01-05-2012
592	JC 270264H	SUB	USHPAL SINGH CHOKER	01-02-2012
593	JC 268214Y	SUB	UTSAN KUMAR GOGOI	01-04-2012
594	JC 268673X	SUB	UTTAM KUMAR SINHA	01-08-2012
595	JC 270734H	SUB	V BHARATHI	01-03-2012
596	JC 266892A	SUB	V RAJARAM	01-08-2012
597	JC 270427L	SUB	V RANGANATHAN	01-04-2012
598	JC 267813M	SUB	V V KAMANA	01-04-2012
599	JC 268004Y	SUB	VED PRAKASH	01-07-2012
600	JC 269337X	SUB	VED PRAKASH	01-03-2012
601	JC 265124M	SUB	VEER BHAN SINGH	

602	JC 268509P	SUB	VEER SINGH	01-07-2012
603	JC 267809K	SUB	VELLIN GIRI K	01-07-2012
604	JC 273481K	SUB	VIJAY KUMAR	01-03-2012
605	JC 270695P	SUB	VIJAY NAND	01-02-2012
606	JC 266029M	SUB	VIJAY PRASAD	01-02-2012
607	JC 270375A	SUB	VIJAY SHANKAR PANDEY	01-04-2012
608	JC 260051F	SUB	VIR SEN	01-04-2012
609	JC 269285M	SUB	VIRENDER SINGH	01-04-2012
610	JC 269856A	SUB	VIRENDRA KUMAR YADAV	01-06-2012
611	JC 269826H	SUB	VIRUPAXAPPA NERABENCHI	01-04-2012
612	JC 266024N	SUB	VISHWANATH MISHRA	01-03-2012
613	JC 270193M	SUB	VISWA KUMAR K	01-03-2012
614	JC 267853W	SUB	Y NARSIMULU	01-04-2012
615	JC 266962N	SUB	YADUVIR SINGH	01-04-2012
616	JC 269364F	SUB	YAKUB ALI	01-04-2012
617	JC 268966H	SUB	YODESH KUMAR	01-04-2012
618	JC 268347P	SUB	YOG RAJ SHARMA	01-04-2012
619	JC 270113K	SUB	ZAFAR HUSAIN	01-03-2012

**ARMY AIR DEFENCE**

620	JC 299914N	SUB	A ALAGIRI RAJ	01-02-2012
621	JC 298611M	SUB	ADIVEPPA M TIGADI	01-07-2012
622	JC 274260K	SUB	AJIT SINGH	01-07-2012
623	JC 300425X	SUB	AMILAL SAINI	01-02-2012
624	JC 299575Y	SUB	ANAND SINGH	01-04-2012
625	JC 300021P	SUB	ANIL KUMAR P	01-03-2012
626	JC 300543L	SUB	APPAIAH H K	01-02-2012
627	JC 299054L	SUB	ASHOK KUMAR T	01-04-2012
628	JC 298865K	SUB	ASOKAN D	01-03-2012
629	JC 299059K	SUB	ASWASTHAMA	01-04-2012
630	JC 300330X	SUB	BABU K GEORGE	01-05-2012
631	JC 300256F	SUB	BABYA KONDIBA MANE	01-03-2012
632	JC 299398K	SUB	BALDEV SINGH	01-04-2012
633	JC 298820K	SUB	BARUN KUMAR JHA	01-04-2012
634	JC 300153H	SUB	BHAWANATH SHARMA	01-05-2012
635	JC 299709M	SUB	BHUPENDER SINGH	01-04-2012
636	JC 297673A	SUB	BIDHI CHAND	01-04-2012
637	JC 299364W	SUB	BIRENDRA SINGH	01-04-2012
638	JC 300667A	SUB	BRAHMDEV UPADHYAY	01-03-2012
639	JC 299720L	SUB	C RAVI	01-06-2012
640	JC 300097P	SUB	CHANDRA BHUSHAN SINGH	01-02-2012
641	JC 298080A	SUB	DARSHAN LAL	01-06-2012
642	JC 299142F	SUB	DESH RAJ DHANAK	01-07-2012
643	JC 299636L	SUB	DEVENDER SINGH	01-02-2012
644	JC 299274P	SUB	DILBAGH SINGH	01-02-2012
645	JC 296815A	SUB	DIWAN AKHLAK AHMED KHAN	01-06-2012
646	JC 299484P	SUB	GAJENDER SINGH	01-04-2012
647	JC 298273A	SUB	HAWAI SINGH HARIJAN	01-03-2012
648	JC 300926X	SUB	HIRA SINGH RAWAT	01-06-2012
649	JC 297917H	SUB	J GAJAPATHI	01-08-2012
650	JC 298398X	SUB	JAGAT SINGH	01-03-2012



651	JC 298222M	SUB	JAGDISH KUMAR	01-03-2012
652	JC 298671F	SUB	JASPAL SINGH	01-04-2012
653	JC 300377H	SUB	JASRAM SINGH PAL	01-05-2012
654	JC 299234N	SUB	JATINDER SINGH	01-02-2012
655	JC 297708L	SUB	JITENDER SINGH	01-05-2012
656	JC 300024H	SUB	K GURUNATHAN	01-04-2012
657	JC 299724F	SUB	KAHAN SINGH	01-04-2012
658	JC 299439H	SUB	KULDEEP RAJ	01-04-2012
659	JC 300213M	SUB	KULDEEP SINGH	01-05-2012
660	JC 299079X	SUB	KULWINDER SINGH	01-04-2012
661	JC 299548P	SUB	KUMARPAL SINGH	01-07-2012
662	JC 298915K	SUB	LAL BABU SINGH	01-05-2012
663	JC 299622L	SUB	LALLU PRASAD DWIVEDI	01-05-2012
664	JC 298476K	SUB	LEE JACOB P K	01-02-2012
665	JC 300277X	SUB	M ARUMUGAM	01-02-2012
666	JC 299495F	SUB	M MURUGAN	01-03-2012
667	JC 299302W	SUB	M MURUGESAN	01-04-2012
668	JC 298999H	SUB	MAHADEV	01-08-2012
669	JC 297399N	SUB	MUKESH KUMAR	01-04-2012
670	JC 299572L	SUB	MUNNI LAL	01-05-2012
671	JC 299694P	SUB	MURALEEDHARAN S	01-02-2012
672	JC 298202Y	SUB	OM PRAKASH UPADHYAY	01-03-2012
673	JC 273118N	SUB	PARTHIVAN S	01-06-2012
674	JC 299645M	SUB	PIAR SINGH	01-04-2012
675	JC 299150A	SUB	PRADIP GHOSH	01-04-2012
676	JC 299482K	SUB	PRAHLAD	01-04-2012
677	JC 299781H	SUB	PRAMOD KUMAR	01-02-2012
678	JC 299687Y	SUB	PRASANNA GOGOI	01-04-2012
679	JC 298322X	SUB	PRASANNA KUMAR R	01-02-2012
680	JC 298805P	SUB	PRAYAG DATT AWASTHI	01-07-2012
681	JC 299934F	SUB	PREM PRAKASH CHATURVEDI	01-05-2012
682	JC 297523K	SUB	PURAN SINGH	01-06-2012
683	JC 298841A	SUB	R KRISHNA MOORTHY	01-04-2012
684	JC 300268W	SUB	RAJ DEO MISHRA	01-05-2012
685	JC 297892F	SUB	RAJ KUMAR SHARMA	01-04-2012
686	JC 299409L	SUB	RAJAN K V	01-02-2012
687	JC 298895F	SUB	RAJENDRA SINGH	01-04-2012
688	JC 298680H	SUB	RAJPAL SINGH	01-05-2012
689	JC 299494Y	SUB	RAM MURTI	01-04-2012
690	JC 298837X	SUB	RAM PAYAR SHARMA	01-04-2012
691	JC 299639Y	SUB	RAMA CHANDRAN K	01-02-2012
692	JC 298094A	SUB	RAMAUTAR SINGH	01-07-2012
693	JC 299298Y	SUB	RAMDHAN YADAV	01-06-2012
694	JC 299190F	SUB	RAMESHWAR DAYAL	01-07-2012
695	JC 300227M	SUB	RAMUNA SINGH	01-02-2012
696	JC 299315N	SUB	RAVENDRA SINGH	01-04-2012
697	JC 298648N	SUB	RAVINDRAN K	01-05-2012
698	JC 299526W	SUB	SABU G	01-03-2012
699	JC 299052A	SUB	SAJI V P	01-06-2012
700	JC 299867F	SUB	SANTOKH SINGH	01-05-2012
701	JC 299599H	SUB	SAPAN KUMAR PURKAYASTA	01-04-2012

702	JC 298422H	SUB	SATHYAN K P	01-06-2012
703	JC 298405H	SUB	SATISH KUMAR CHAUHAN	01-05-2012
704	JC 299447F	SUB	SHAJI N	01-05-2012
705	JC 299537H	SUB	SHALENDRA KUMAR	01-04-2012
706	JC 299477Y	SUB	SHALIGRAM SHESHRAO ARBAT	01-04-2012
707	JC 299404M	SUB	SHASANKA SHEKHAR PAUL	01-04-2012
708	JC 299406X	SUB	SHEDOLE NEELKANT PANDURANGRAO	01-04-2012
709	JC 299559F	SUB	SHYAM LAL YADAV	01-08-2012
710	JC 297548W	SUB	SHYAM NARAYAN RAM	01-04-2012
711	JC 300209K	SUB	SHYAMA PRASAD SINGH	01-04-2012
712	JC 299985P	SUB	SIVAN G	01-02-2012
713	JC 299154W	SUB	SOM DATT YADAV	01-04-2012
714	JC 298465X	SUB	SREE RAM	01-07-2012
715	JC 298425W	SUB	SUBHASH CHAND	01-04-2012
716	JC 298521L	SUB	SUCHA SINGH	01-04-2012
717	JC 299841M	SUB	SUKHJIWAN SINGH	01-05-2012
718	JC 298748Y	SUB	SUKHRAJ THAPA	01-02-2012
719	JC 299377N	SUB	SULTAN SINGH	01-05-2012
720	JC 298933M	SUB	SURAT SINGH	01-04-2012
721	JC 299793X	SUB	SURENDRA PRASAD YADAV	01-02-2012
722	JC 298172M	SUB	SURINDER KUMAR	01-02-2012
723	JC 299594K	SUB	TAPAS KUMAR MONDAL	01-07-2012
724	JC 299120H	SUB	THAKRE TEJRAM FULICHAND	01-04-2012
725	JC 299765L	SUB	UMESH CHANDRA	01-04-2012
726	JC 300271W	SUB	V SANTHIAGURAJ	01-05-2012
727	JC 298313W	SUB	VAJI NATH	01-07-2012
728	JC 298295Y	SUB	VENKATACHALAM V	01-08-2012
729	JC 300129M	SUB	VINODI LAL	01-04-2012

**MADRAS ENGINEER GROUP**

730	JC 308091H	SUB	A DURAI	01-06-2012
731	JC 307512N	SUB	A JOHN JOSEPH	01-04-2012
732	JC 308254L	SUB	A KARUNANITHI	01-08-2012
733	JC 308092L	SUB	A SIVASUBRAMANI	01-06-2012
734	JC 308187L	SUB	AMARANATHAN KM	01-04-2012
735	JC 306356H	SUB	ASOKAN B	01-04-2012
736	JC 308733M	SUB	B RAJENDRAN	01-06-2012
737	JC 308099P	SUB	BABURAJAN KV	01-07-2012
738	JC 308139L	SUB	BATTULA VENKATESWARLU	01-04-2012
739	JC 307932N	SUB	C CHINNASAMY	01-06-2012
740	JC 308019M	SUB	C MANOHARAN	01-06-2012
741	JC 308732K	SUB	C MUNUSWAMY	01-06-2012
742	JC 308318L	SUB	C THNGAMANI	01-04-2012
743	JC 307773F	SUB	CHANDER BHAN	01-06-2012
744	JC 308675N	SUB	D MURALI	01-08-2012
745	JC 308424K	SUB	D RAMU	01-02-2012
746	JC 307836Y	SUB	DELEAP WILLIAMS K	01-08-2012
747	JC 307257M	SUB	DEV NARAIN MISRA	01-08-2012
748	JC 307596M	SUB	G RAMA NAIDU	01-04-2012
749	JC 308083K	SUB	G UDAYA KUMAR	01-04-2012
750	JC 306517A	SUB	GENASURAN PR	01-05-2012

751	JC 308086X	SUB	GOPALAKRISHNAN M	01-04-2012
752	JC 307520M	SUB	GOPINATHAN PILLAI CK	01-05-2012
753	JC 307379W	SUB	GOVINDA SAMY R	01-04-2012
754	JC 308263M	SUB	GULLAPUDI VENKATESWARA RAO	01-04-2012
755	JC 308041X	SUB	GURUSIDDHA KOTAGI	01-06-2012
756	JC 308096F	SUB	JOHNSON WILLIAM J	01-04-2012
757	JC 308356F	SUB	JOSEPH KJ	01-07-2012
758	JC 308514L	SUB	K ABU BAKKAR SHAREEF	01-03-2012
759	JC 308698P	SUB	KANDERI HARIKESAVULU	01-06-2012
760	JC 306353P	SUB	KURIA KOSE PI	01-04-2012
761	JC 308730Y	SUB	L AROCKIASAMY	01-08-2012
762	JC 308477H	SUB	M RAJENDIRAN	01-08-2012
763	JC 307407X	SUB	MADHUSUDANAN K	01-06-2012
764	JC 308478L	SUB	MALLAPPA GOLAYI	01-04-2012
765	JC 308498Y	SUB	MARANABASARI SHARANAPPA	01-06-2012
766	JC 308467Y	SUB	MAREDDY SAMBASIVA REDDY	01-06-2012
767	JC 308320H	SUB	MUNIAPPAN M	01-06-2012
768	JC 308310Y	SUB	MURALI D	01-04-2012
769	JC 307972P	SUB	MURALI V V	01-04-2012
770	JC 308221A	SUB	NAGARAJAN	01-06-2012
771	JC 307912A	SUB	NARESH CHAND	01-02-2012
772	JC 307930H	SUB	NINGAPPA MK	01-05-2012
773	JC 308493A	SUB	P KRISHNAN	01-02-2012
774	JC 308591A	SUB	P MURUGESAN	01-06-2012
775	JC 308224N	SUB	P RAJENDRAN	01-05-2012
776	JC 307869K	SUB	PADHAYYA THANETI	01-04-2012
777	JC 308527H	SUB	PALAKAVEETI VEERABHADRUDU	01-05-2012
778	JC 308020F	SUB	PALAKURU VENKATA NARAYANA	01-07-2012
779	JC 308176Y	SUB	PITCHA PILLAIN	01-04-2012
780	JC 307829H	SUB	PRAMOD TARALE	01-04-2012
781	JC 309000A	SUB	PREMA LAL KG	01-06-2012
782	JC 308006P	SUB	PURUSHOTHAMAN KURUKKALM	01-04-2012
783	JC 308461X	SUB	R SEKAR	01-08-2012
784	JC 308173L	SUB	R SENTHUR PANDIAN	01-06-2012
785	JC 308089L	SUB	RAJAN T	01-05-2012
786	JC 307302N	SUB	RAJENDRAN P	01-06-2012
787	JC 306004L	SUB	RAM DULARE	01-07-2012
788	JC 307924P	SUB	RAMARAJA KURUP KM	01-04-2012
789	JC 308090A	SUB	S ARJUNAN	01-06-2012
790	JC 307876A	SUB	S DEENADAYALAN	01-06-2012
791	JC 306298K	SUB	S GAFFAR	01-03-2012
792	JC 307925X	SUB	S MOHAN	01-04-2012
793	JC 308214K	SUB	S MOSES DURAI	01-06-2012
794	JC 307923M	SUB	S VINCENT POUL	01-04-2012
795	JC 308773N	SUB	SA ANTONYSAMY	01-02-2012
796	JC 307059F	SUB	SADANANDAN KK	01-04-2012
797	JC 308816X	SUB	SASIDHARAN P	01-06-2012
798	JC 308403N	SUB	SIGA PANDURANGAIAH	01-04-2012
799	JC 308688L	SUB	SREENIVASAN CHETTIAR K	01-05-2012
800	JC 308098M	SUB	SUDHAKARAN KC	01-07-2012
801	JC 308428A	SUB	SURESH CV	01-07-2012

802	JC 306558K	SUB	SURESH TV	01-06-2012
803	JC 307897W	SUB	T ABRAHAM	01-06-2012
804	JC 308509A	SUB	T MANTHIRA PANDY	01-08-2012
805	JC 308264P	SUB	T PARAMASIVAN	01-04-2012
806	JC 306345W	SUB	THANIKACHALAM D	01-04-2012
807	JC 308180F	SUB	UNNIKRISHNAN KR	01-04-2012
808	JC 307446W	SUB	V ARULSELVAM	01-06-2012
809	JC 308691L	SUB	V KALIYANI	01-04-2012
810	JC 307515F	SUB	V MUNIRATHINAM	01-06-2012
811	JC 308780K	SUB	V RAJENDIRAN	01-05-2012
812	JC 307973X	SUB	V SELVAKUMAR	01-04-2012
813	JC 308331P	SUB	VEMULAPALLI SURYA PRAKASH RAO	01-06-2012
814	JC 308462A	SUB	VENUGOPAN V	01-06-2012
815	JC 307372M	SUB	VIJAYAKUMARAN NAIR G	01-04-2012
816	JC 307975H	SUB	VIJAYAN V	01-04-2012
817	JC 308087A	SUB	YASHAWANT	01-04-2012

**BENGAL ENGINEER GROUP**

818	JC 329174F	SUB	ABRAHAM K J	01-06-2012
819	JC 328017H	SUB	AJIT KUMAR PAUL	01-03-2012
820	JC 159411L	SUB	AJMER SINGH	01-07-2012
821	JC 329950W	SUB	AKSHAY KUMAR PATHAK	01-04-2012
822	JC 166932F	SUB	ALEXANDER THOMAS	01-06-2012
823	JC 328749Y	SUB	AMAR CHAND TANWER	01-07-2012
824	JC 328750N	SUB	AMRIK SINGH	01-07-2012
825	JC 329289P	SUB	AN SINGH	01-04-2012
826	JC 338024M	SUR	ANAND SINGH BHANDARI	01-04-2012
827	JC 329357X	SUB	ANAND SINGH KHATI	01-04-2012
828	JC 328691M	SUB	ANIL KUMAR KAUSHIK	01-02-2012
829	JC 328548A	SUB	ANUP KONWAR	01-07-2012
830	JC 330932A	SUB	ARBIND PRASAD MANDAL	01-06-2012
831	JC 330567K	SUB	ASHARDEEN	01-06-2012
832	JC 328713A	SUB	ASHOK KUMAR THAKUR	01-07-2012
833	JC 329648X	SUB	ASHUTOSH KUMAR SINGH	01-07-2012
834	JC 330372Y	SUB	ATMA SINGH	01-04-2012
835	JC 329273K	SUB	AWADESH PRATAP SINGH	01-05-2012
836	JC 325892A	SUB	AWADH BIHARI SINGH	01-04-2012
837	JC 328601A	SUB	BABAN RAM	01-02-2012
838	JC 328656K	SUB	BADRI NARAYAN TIWARI	01-06-2012
839	JC 330600W	SUB	BALBIR SINGH	01-05-2012
840	JC 329341M	SUB	BALLU BAHADUR	01-06-2012
841	JC 329525L	SUB	BALVIR SINGH	01-05-2012
842	JC 328605W	SUB	BALWAN SINGH	01-06-2012
843	JC 328657M	SUB	BHAJAN SINGH	01-06-2012
844	JC 329498M	SUB	BHARAT SINGH	01-04-2012
845	JC 330133K	SUB	BHARAT SINGH	01-04-2012
846	JC 329299Y	SUB	BHAWANI DATT SHARMA	01-08-2012
847	JC 329158K	SUB	BHIM YADAV	01-04-2012
848	JC 327908Y	SUB	BHOLA MUKHERJEE	01-02-2012
849	JC 329163P	SUB	BHOLA NATH	01-04-2012
850	JC 328168F	SUB	BIJENDER PAL SINGH	01-04-2012

851	JC 329873M	SUB	BINOD SINGH	01-07-2012
852	JC 329543N	SUB	BIPIN CHANDRA BORAH	01-05-2012
853	JC 329104H	SUB	BIRENDRA KUMAR SINGH	01-04-2012
854	JC 328498A	SUB	BRAHAM DUTT SHARMA	01-04-2012
855	JC 329020P	SUB	BRIJESH KUMAR	01-04-2012
856	JC 329986P	SUB	BRIND BIHARI SINGH	01-07-2012
857	JC 329315L	SUB	CHAIN SINGH	01-07-2012
858	JC 328953X	SUB	CHANDRA BHUSAN SINGH	01-07-2012
859	JC 327853A	SUB	CHAVIR DASHARATH MARUTI	01-06-2012
860	JC 327781F	SUB	CHELLATHURAI M	01-04-2012
861	JC 326191W	SUB	CHHOTE RAM	01-03-2012
862	JC 330483W	SUB	CHIRAMDASU VENKATA SWAMY	01-08-2012
863	JC 329522X	SUB	DALBIR SINGH	01-04-2012
864	JC 329290K	SUB	DALWINDER SINGH	01-04-2012
865	JC 329146P	SUB	DARWAN SINGH	01-06-2012
866	JC 328141K	SUB	DEV RAJ MEASSI	01-04-2012
867	JC 328145A	SUB	DHANANJAY KUMAR SINGH	01-02-2012
868	JC 327923N	SUB	DHANI RAM	01-03-2012
869	JC 328768K	SUB	DHARAM PAL SHARMA	01-07-2012
870	JC 329265L	SUB	DINESH CHANDER	01-06-2012
871	JC 330384N	SUB	G RAMA CHANDRAN	01-04-2012
872	JC 329945L	SUB	GAJENDRA SINGH	01-04-2012
873	JC 329252N	SUB	GANESH SINGH	01-04-2012
874	JC 328936X	SUB	GANESH SINGH DANU	01-07-2012
875	JC 328661P	SUB	GIAN SINGH	01-06-2012
876	JC 325751L	SUB	GOPI R	01-06-2012
877	JC 327891W	SUB	GULHANE RAJENDRA VISHNUPANT	01-07-2012
878	JC 329203L	SUB	GURDEV SINGH	01-07-2012
879	JC 328457W	SUB	GURMAIL SINGH	01-04-2012
880	JC 329721L	SUB	HARBHAJAN SINGH	01-04-2012
881	JC 329142Y	SUB	HARBIR SINGH	01-04-2012
882	JC 326421Y	SUB	HARCHARN SINGH	01-04-2012
883	JC 174747H	SUB	HARGOBIND SINGH	01-05-2012
884	JC 328981K	SUB	HARISH CHANDRA TIWARI	01-07-2012
885	JC 330595W	SUB	HARISH KUMAR	01-06-2012
886	JC 327919L	SUB	HIRA SINGH	01-03-2012
887	JC 330148M	SUB	INDULKAR ANANDA RAMA	01-04-2012
888	JC 329535P	SUB	ISHWAR CHANDRA TIWARI	01-04-2012
889	JC 328223M	SUB	ISHWAR SINGH	01-05-2012
890	JC 330371W	SUB	J SUBRAMANI	01-04-2012
891	JC 327353H	SUB	JACOB PT	01-04-2012
892	JC 328660M	SUB	JAGAT SINGH	01-06-2012
893	JC 329984K	SUB	JAGAT SINGH	01-06-2012
894	JC 329813X	SUB	JAGDISH	01-07-2012
895	JC 329118H	SUB	JAGDISH CHANDRA PATHAK	01-08-2012
896	JC 329152H	SUB	JAGDISH SINGH KHATI	01-05-2012
897	JC 330608H	SUB	JAGNNADHAMU PAPPALA	01-05-2012
898	JC 329536X	SUB	JAGTAR SINGH	01-04-2012
899	JC 329822Y	SUB	JAI PARKASH SINGH	01-05-2012
900	JC 329097X	SUB	JAI SHANKAR	01-04-2012
901	JC 329338M	SUB	JAIBIR SINGH	01-04-2012

902	JC 327924W	SUB	JANAK RAJ RANA	01-03-2012
903	JC 327732Y	SUB	JANARDNANAN E V	01-06-2012
904	JC 328604N	SUB	JARNAIL SINGH MANKOTIA	01-06-2012
905	JC 328980F	SUB	JITENDRA KUMAR VISHWAKARMA	01-07-2012
906	JC 328654Y	SUB	JOGINDER KUMAR BHAGAT	01-06-2012
907	JC 327926F	SUB	JOGINDER SINGH PATYAL	01-03-2012
908	JC 329825M	SUB	JUNUL KERKETTA	01-07-2012
909	JC 329218N	SUB	KAMAL SINGH	01-04-2012
910	JC 329249N	SUB	KHYALI SINGH	01-04-2012
911	JC 327782K	SUB	KRISHNA KISHORE SUKHAVASI	01-04-2012
912	JC 329271Y	SUB	KUNDAN SINGH	01-04-2012
913	JC 329365W	SUB	KUNDAN SINGH	01-04-2012
914	JC 329988A	SUB	KUNDAN SINGH	01-07-2012
915	JC 329117A	SUB	LEKH RAJ	01-06-2012
916	JC 328521H	SUB	MADAN LAL	01-05-2012
917	JC 328934M	SUB	MADAN PAL SINGH	01-03-2012
918	JC 328050A	SUB	MAHAVIR PRASAD	01-03-2012
919	JC 328977F	SUB	MAHAVIR SINGH MALIK	01-07-2012
920	JC 330263M	SUB	MAHENDER PAL SINGH	01-04-2012
921	JC 329314H	SUB	MAHESH CHANDRA	01-07-2012
922	JC 325738F	SUB	MAHIPAL SINGH	01-04-2012
923	JC 329245X	SUB	MALKIT SINGH	01-04-2012
924	JC 329675F	SUB	MALOOK SINGH BARDHAN	01-05-2012
925	JC 329529F	SUB	MANAK CHAND SHARMA	01-05-2012
926	JC 327363M	SUB	MANMOHAN RAWAT	01-05-2012
927	JC 328776H	SUB	MANOHAR RAM	01-07-2012
928	JC 328499H	SUB	MANOJ MISHRA	01-04-2012
929	JC 338132W	SUB	MATA PRASAD	01-08-2012
930	JC 329481Y	SUB	MAYANK PRASAD SHUKLA	01-04-2012
931	JC 329670H	SUB	MOHAN CHANDER	01-04-2012
932	JC 329545Y	SUB	MOHAN RAM	01-07-2012
933	JC 330110H	SUB	MOHD SHAKIR ALI	01-04-2012
934	JC 328546P	SUB	MOHINDER PAL SHARMA	01-05-2012
935	JC 328951M	SUB	MOHINDER SINGH	01-06-2012
936	JC 328629A	SUB	MOTI RAM	01-06-2012
937	JC 328607F	SUB	MURLI MANOHAR TIWARI	01-06-2012
938	JC 328501P	SUB	NARAYAN SINGH	01-04-2012
939	JC 329247H	SUB	NARAYAN SINGH MANKOTI	01-04-2012
940	JC 329250H	SUB	NARENDER BAHADUR SINGH	01-04-2012
941	JC 329151A	SUB	NAWAB SINGH	01-04-2012
942	JC 328196N	SUB	NIKHIL RAJAN GHOSAL	01-03-2012
943	JC 328496P	SUB	OM PRAKASH	01-04-2012
944	JC 328625K	SUB	OM PRAKASH SINGH	01-06-2012
945	JC 328633H	SUB	OMKAR NATH SHARMA	01-02-2012
946	JC 327590M	SUB	PARANI DASS K	01-04-2012
947	JC 326468K	SUB	PARDIP SINGH	01-05-2012
948	JC 329594F	SUB	PATITAPABANA ROUT	01-04-2012
949	JC 329523A	SUB	PAWAN KUMAR	01-05-2012
950	JC 328522L	SUB	PIAR SINGH	01-06-2012
951	JC 126281N	SUB	PRABHAKAR DHONDIRAM BODAKE	01-02-2012
952	JC 327703K	SUB	PRADIP KUMAR DEY	01-02-2012

953	JC 328753F	SUB	PRAVAT CHANDRA DHAR MOHAPATRA	01-05-2012
954	JC 329763X	SUB	PREM GIRI	01-04-2012
955	JC 328775A	SUB	PREM NATH JARGAL	01-07-2012
956	JC 328047A	SUB	PURAN SINGH KHANKA	01-03-2012
957	JC 330596Y	SUB	PURUSHOTTAM BHIMRAO JAWANJAL	01-04-2012
958	JC 329826P	SUB	RABINDRA NATH RANA	01-06-2012
959	JC 329285Y	SUB	RABINDRA NATH SINGH	01-04-2012
960	JC 329275P	SUB	RAGHUBIR SINGH	01-05-2012
961	JC 329604A	SUB	RAJ KISHOR SINGH	01-04-2012
962	JC 328774X	SUB	RAJ KUMAR SHARMA	01-07-2012
963	JC 327381P	SUB	RAJALINGAM M	01-08-2012
964	JC 328142M	SUB	RAJBIR	01-05-2012
965	JC 329698H	SUB	RAJENDER SINGH	01-07-2012
966	JC 146191N	SUB	RAJENDER SINGH DUHAN	01-06-2012
967	JC 326823W	SUB	RAJENDRA PRASAD	01-04-2012
968	JC 329823F	SUB	RAJINDER PRASAD	01-04-2012
969	JC 329287K	SUB	RAJINDER SINGH	01-04-2012
970	JC 328200L	SUB	RAM BILASH SINGH YADAV	01-07-2012
971	JC 328979M	SUB	RAM CHANDRA	01-07-2012
972	JC 330199A	SUB	RAM CHANDRA VERMA	01-04-2012
973	JC 330362P	SUB	RAM KUMAR SINGH	01-04-2012
974	JC 327459P	SUB	RAM NIWAS	01-04-2012
975	JC 328222K	SUB	RAM PAL	01-03-2012
976	JC 328628X	SUB	RAM PALL	01-06-2012
977	JC 329317W	SUB	RAM RAJ	01-06-2012
978	JC 329482F	SUB	RAM VILAS	01-04-2012
979	JC 328013M	SUB	RAMA KANT DHER DUBEY	01-04-2012
980	JC 328091K	SUB	RAMESH CHANDRA	01-04-2012
981	JC 328712X	SUB	RAMESH CHANDRA ADHIKARI	01-07-2012
982	JC 329096P	SUB	RAMESH CHANDRA SINGH BISHT	01-04-2012
983	JC 330591A	SUB	RAMESH PRASAD PANDEY	01-04-2012
984	JC 329537A	SUB	RAMVIR SINGH	01-04-2012
985	JC 329969P	SUB	RANBIR SINGH	01-04-2012
986	JC 329729X	SUB	RANJIT SINGH KHATI	01-04-2012
987	JC 137413W	SUB	RAVI SHANKAR L	01-04-2012
988	JC 199895Y	SUB	RAVINDER SINGH	01-02-2012
989	JC 326092N	SUB	RAVINDRA PRAKASH SHRIVASTAVA	01-04-2012
990	JC 328983P	SUB	RIKHI RAM RANA	01-07-2012
991	JC 325985P	SUB	RISHIPAL SINGH MALIK	01-07-2012
992	JC 330448N	SUB	S RAJASEKHARAN	01-06-2012
993	JC 327961K	SUB	SAJJAN SINGH	01-03-2012
994	JC 330557A	SUB	SAMBHU NATH SEN	01-03-2012
995	JC 329853Y	SUB	SAMPURAN CHAND	01-04-2012
996	JC 327445P	SUB	SANTHAKUMAR G	01-04-2012
997	JC 330606X	SUB	SARFRAJ KHAN	01-02-2012
998	JC 329649A	SUB	SATBIR SINGH	01-04-2012
999	JC 327367H	SUB	SATISH CHANDRA SUYAL	01-06-2012
1000	JC 329700P	SUB	SATNAM SINGH	01-04-2012
1001	JC 329288M	SUB	SATPAL	01-04-2012
1002	JC 328197W	SUB	SATYAVIR YADAV	01-03-2012
1003	JC 329836Y	SUB	SHAILENDRA SINGH	01-02-2012

1004	JC 328602H	SUB	SHATRUGHAN PANDEY	01-02-2012
1005	JC 329033M	SUB	SHEO VISHAL VERMA	01-04-2012
1006	JC 328954A	SUB	SHILENDRA SINGH YADAV	01-07-2012
1007	JC 329102X	SUB	SHIV SHANKAR SINGH	01-04-2012
1008	JC 329538H	SUB	SHIV SINGH	01-04-2012
1009	JC 328500M	SUB	SHRI NATH PAL	01-04-2012
1010	JC 327740X	SUB	SHYAM KUMAR	01-04-2012
1011	JC 329156Y	SUB	SHYAM SINGH	01-03-2012
1012	JC 327236X	SUB	SHYAM SUNDER	01-02-2012
1013	JC 328225X	SUB	SOHAN SINGH	01-05-2012
1014	JC 338178Y	SUB	SOUMENDU DAS	01-04-2012
1015	JC 328630P	SUB	SUBHASH CHANDER	01-06-2012
1016	JC 329379W	SUB	SUBHASH NATH	01-04-2012
1017	JC 328462F	SUB	SUBHASH SINGH	01-04-2012
1018	JC 328201N	SUB	SUKH CHAIN SINGH	01-08-2012
1019	JC 329295H	SUB	SUKHWINDAR PAL	01-07-2012
1020	JC 328409W	SUB	SUMANTA MAJUMDAR	01-03-2012
1021	JC 328268M	SUB	SUNIL KUMAR	01-08-2012
1022	JC 330069X	SUB	SUNIL KUMAR TRIPATHI	01-03-2012
1023	JC 326182P	SUB	SURATA RAM CHOUDHARY	01-06-2012
1024	JC 329885F	SUB	SURENDER SINGH	01-08-2012
1025	JC 329106N	SUB	SURESH CHANDER	01-04-2012
1026	JC 328812H	SUB	SURESH CHANDRA	01-07-2012
1027	JC 328410L	SUB	SURESH PRASAD SHAW	01-03-2012
1028	JC 328570L	SUB	SURINDER SINGH	01-02-2012
1029	JC 174748L	SUB	SURINDER SINGH	01-05-2012
1030	JC 330093N	SUB	SURVE MANOHAR ATMARAM	01-03-2012
1031	JC 328169K	SUB	SWARN SINGH	01-05-2012
1032	JC 328935P	SUB	TEHAL SINGH	01-06-2012
1033	JC 329297N	SUB	TEJ BAHADUR SINGH	01-07-2012
1034	JC 330234X	SUB	TEK BAHADUR	01-08-2012
1035	JC 328751W	SUB	UMESH DUTT PANDEY	01-07-2012
1036	JC 330344M	SUB	V ARULAPPAN	01-04-2012
1037	JC 328778N	SUB	VAISHNO DUTT	01-02-2012
1038	JC 224828F	SUB	VIJAY SINGH	01-08-2012
1039	JC 329300H	SUB	VIJAYVIR SINGH	01-08-2012
1040	JC 329541H	SUB	VINOD PRAKASH	01-05-2012
1041	JC 329286F	SUB	VIRENDER SINGH	01-04-2012
1042	JC 329320W	SUB	YOGENDRA KUMAR MISHRA	01-02-2012

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

1043	JC 349677N	SUB	ABDUL QAYUM	01-04-2012
1044	JC 350108M	SUB	AJMAL	01-04-2012
1045	JC 347484P	SUB	ALOK KUMAR	01-08-2012
1046	JC 349615N	SUB	AMBARE SUDHIR SHIVARAM	01-04-2012
1047	JC 349445P	SUB	ARDALKAR DASHARATH GANAPAT RAO	01-04-2012
1048	JC 349656X	SUB	ARVIND KUMAR DUTTA	01-04-2012
1049	JC 349796K	SUB	ASHOK KUMAR	01-04-2012
1050	JC 348790W	SUB	AWADHESH MISHRA	01-04-2012
1051	JC 350177H	SUB	BACHAN LAL CHAPARIA	01-04-2012
1052	JC 350248Y	SUB	BALKAR SINGH	01-04-2012



1053	JC 350093P	SUB	BALVIR SINGH	01-04-2012
1054	JC 349655P	SUB	BANGALI RAM	01-04-2012
1055	JC 348854W	SUB	BAWASKAR SHRIKRISHNA HARI	01-07-2012
1056	JC 350171F	SUB	BIRENDRA KUMAR THAKUR	01-07-2012
1057	JC 350285M	SUB	BODH SINGH	01-04-2012
1058	JC 349922L	SUB	CHAND SINGH	01-04-2012
1059	JC 348184A	SUB	CHANDAN SINGH	01-03-2012
1060	JC 349777Y	SUB	CHANDRAKANT SAMBHAJI MHASKE	01-05-2012
1061	JC 350082H	SUB	CHOPADE GAJANAN BHIMAJI	01-04-2012
1062	JC 350191P	SUB	DATA RAM	01-04-2012
1063	JC 349629N	SUB	DAULAT SINGH	01-06-2012
1064	JC 350096H	SUB	DHARAMBIR SINGH	01-03-2012
1065	JC 349996A	SUB	DINA NATH TRIPATHI	01-04-2012
1066	JC 349962M	SUB	ETHAPE RAMDAS NANABHAU	01-08-2012
1067	JC 350080X	SUB	GANGA PRAŠAD VERMA	01-04-2012
1068	JC 350103N	SUB	GAYA PRASAD	01-04-2012
1069	JC 350099W	SUB	GIRRAJ SINGH	01-03-2012
1070	JC 348798H	SUB	GOVIND SINGH BISHT	01-04-2012
1071	JC 349086M	SUB	GULAB SINGH	01-05-2012
1072	JC 350329Y	SUB	GULZAR SINGH	01-04-2012
1073	JC 349960F	SUB	GURJANT SINGH	01-07-2012
1074	JC 350264W	SUB	HANSA SINGH	01-08-2012
1075	JC 349347P	SUB	INGLE MADAN KUNDLIK	01-02-2012
1076	JC 350299M	SUB	JAGDISH SINGH	01-03-2012
1077	JC 350119Y	SUB	JANKI PRASAD	01-04-2012
1078	JC 350362W	SUB	JEET SINGH	01-04-2012
1079	JC 348541X	SUB	JHABBOO LAL	01-02-2012
1080	JC 349938W	SUB	JITENDRA PAL SINGH	01-04-2012
1081	JC 349895M	SUB	JOGINDER SINGH	01-04-2012
1082	JC 350235F	SUB	KADU RAMBHAU SHANKAR	01-08-2012
1083	JC 349838L	SUB	KAKADE SUBHASH BABURAO	01-05-2012
1084	JC 349687X	SUB	KALE UTTAM DAMODAR	01-04-2012
1085	JC 349858Y	SUB	KARAMJIT SINGH	01-04-2012
1086	JC 349899H	SUB	KULWINDER SINGH	01-04-2012
1087	JC 348584M	SUB	LAKHAN SINGH	01-02-2012
1088	JC 349036F	SUB	LAXMAN GUNAWANT TAKE	01-04-2012
1089	JC 348497Y	SUB	MADAN SINGH BHANDARI	01-07-2012
1090	JC 348438M	SUB	MAMRAJ SAHARAN	01-02-2012
1091	JC 350076P	SUB	MANMOHAN SINGH	01-08-2012
1092	JC 350304M	SUB	MARKANDAY SINGH	01-08-2012
1093	JC 160402W	SUB	MEDHANI DHAR GODIYAL	01-04-2012
1094	JC 349776W	SUB	MILAP SINGH	01-04-2012
1095	JC 349862F	SUB	MITHU SINGH	01-05-2012
1096	JC 348552K	SUB	MOHINDER SINGH RANA	01-06-2012
1097	JC 348791Y	SUB	MORE SHAHJI MAHADEO	01-06-2012
1098	JC 350336P	SUB	N MANI	01-05-2012
1099	JC 350209A	SUB	NAGARGOJE SARJERAO TRIMBAKRAO	01-05-2012
1100	JC 350382K	SUB	NAIK ABHAYKUMAR MANOHAR	01-06-2012
1101	JC 348226F	SUB	NARENDER SINGH	01-04-2012
1102	JC 349271A	SUB	NARENDRA KUMAR	01-04-2012
1103	JC 349923N	SUB	NAWAB ALI ANSARI	01-04-2012

1104	JC 350053N	SUB	NEHAL SINGH	01-04-2012
1105	JC 348692W	SUB	OM PRAKASH	01-04-2012
1106	JC 349713N	SUB	OM PRAKASH	01-08-2012
1107	JC 348489A	SUB	OMAR ALI MONDAL	01-05-2012
1108	JC 349820P	SUB	PARAKHE DILIP RAMA	01-04-2012
1109	JC 350072Y	SUB	PATIL MAHADEO BALAVANT	01-04-2012
1110	JC 349750F	SUB	PAWAR BAPUSAHEB VISHNU	01-08-2012
1111	JC 349365Y	SUB	PIMPALNERKAR NARAYAN HARIBHAU	01-03-2012
1112	JC 350331W	SUB	PYARE LAL	01-04-2012
1113	JC 348187N	SUB	RAJINDER SINGH	01-03-2012
1114	JC 349965A	SUB	RAKESH CHANDRA PANDEY	01-04-2012
1115	JC 350347F	SUB	RAM AUTAR	01-08-2012
1116	JC 350229N	SUB	RAM CHAND	01-08-2012
1117	JC 348488X	SUB	RAM LAL	01-07-2012
1118	JC 348213K	SUB	RAM RAHIS	01-04-2012
1119	JC 348292K	SUB	RAMAYAN PRASAD	01-02-2012
1120	JC 350157P	SUB	RAMESH CHANDRA	01-04-2012
1121	JC 350104W	SUB	RAS BIHARI	01-05-2012
1122	JC 348651M	SUB	RATTAN SINGH	01-06-2012
1123	JC 348617M	SUB	RAUT KRISHNA MUKINDA	01-06-2012
1124	JC 348495N	SUB	RISHI OM	01-07-2012
1125	JC 349774L	SUB	SAGAR SINGH	01-04-2012
1126	JC 348169L	SUB	SATYABIR SINGH	01-03-2012
1127	JC 349810L	SUB	SHER DIN	01-04-2012
1128	JC 350075M	SUB	SHER MUHAMMAD	01-04-2012
1129	JC 350461Y	SUB	SHINDE RAMDAS PARASHU RAM	01-02-2012
1130	JC 350009K	SUB	SHOKAT ALI	01-04-2012
1131	JC 348373K	SUB	SREEKANTAN NAIR T	01-07-2012
1132	JC 349775N	SUB	SRI RAM VERMA	01-04-2012
1133	JC 350437H	SUB	SUKHA LAL	01-08-2012
1134	JC 350385X	SUB	SUKHCHAIN SINGH	01-07-2012
1135	JC 350252F	SUB	SUKHDEV SINGH	01-08-2012
1136	JC 350064A	SUB	SUMER SINGH	01-06-2012
1137	JC 349171P	SUB	SURESH CHAND VERMA	01-07-2012
1138	JC 348120P	SUB	SURESH KUMAR	01-03-2012
1139	JC 350141K	SUB	SURINDER PAL SINGH	01-08-2012
1140	JC 350370P	SUB	SURMUKH SINGH	01-04-2012
1141	JC 348476H	SUB	SWAMI NATH	01-07-2012
1142	JC 348460X	SUB	SWARN SINGH	01-06-2012
1143	JC 350140F	SUB	TONDE CHANDRAKANT VITHOBA	01-08-2012
1144	JC 349990Y	SUB	UBHEY MOHAN BALU	01-07-2012
1145	JC 348416N	SUB	UMESH CHANDRA BAJPAI	01-07-2012
1146	JC 348146K	SUB	VIJAY PAL	01-03-2012
1147	JC 348176F	SUB	VIJAY PAL	01-04-2012
1148	JC 349991F	SUB	VINOD KUMAR SHARMA	01-05-2012
1149	JC 350515P	SUB	YOUSUF ALI	01-05-2012

**CORPS OF SIGNALS**

1150	JC 378247M	SUB	A CHINNA VENKATESWARLU	01-07-2012
1151	JC 376541N	SUB	ABDUR RAHMAN	01-05-2012
1152	JC 374099P	SUB	ADARSH KUMAR PANDEY	01-03-2012

1153	JC 375062A	SUB	AHAMAD BAIG	01-04-2012
1154	JC 374707L	SUB	AKHILESH KUMAR PANDEY	01-04-2012
1155	JC 376347Y	SUB	AMAR JIT	01-04-2012
1156	JC 375494P	SUB	AMARENDRA NATH TRIPATHI	01-03-2012
1157	JC 374026H	SUB	AMBULKAR GANGARAM SHIVAJI	01-07-2012
1158	JC 375861W	SUB	ANAND BALLABH PANDEY	01-04-2012
1159	JC 375585Y	SUB	ARVIND KUMAR SHARMA	01-04-2012
1160	JC 371982A	SUB	ASHOK KUMAR SHARMA	01-07-2012
1161	JC 373643Y	SUB	ASHOK KUMAR SHARMA	01-02-2012
1162	JC 376864W	SUB	ASHOKE KUMAR GHOSH	01-02-2012
1163	JC 377133P	SUB	ASHWANI KUMAR	01-05-2012
1164	JC 374719A	SUB	ATMA RAM	01-07-2012
1165	JC 373720H	SUB	AVNINDER KUMAR SINGH	01-03-2012
1166	JC 375152F	SUB	AVTAR SINGH PATHANIA	01-03-2012
1167	JC 369626F	SUB	B RAJARAM	01-06-2012
1168	JC 384802X	SUB	BABU LAL SINGH	01-02-2012
1169	JC 376686Y	SUB	BACHE SINGH MEHRA	01-02-2012
1170	JC 374493A	SUB	BAL KRISHAN	01-05-2012
1171	JC 374571M	SUB	BALAKRISHNAN V M	01-04-2012
1172	JC 373046K	SUB	BALBIR SINGH	01-05-2012
1173	JC 377321W	SUB	BANWARI LAL	01-04-2012
1174	JC 375040F	SUB	BASANGOUDA GOUDRA	01-07-2012
1175	JC 376195H	SUB	BASANTA KUMAR PARIDA	01-07-2012
1176	JC 154959M	SUB	BAWA SINGH	01-03-2012
1177	JC 368561M	SUB	BHAGIRATHI PRADHAN	01-07-2012
1178	JC 375358Y	SUB	BHARAT CHANDRA MANDAL	01-02-2012
1179	JC 371349A	SUB	BHEEK SINGH INDA	01-06-2012
1180	JC 375913F	SUB	BHOLA SINGH	01-03-2012
1181	JC 375462M	SUB	BHUDEV SINGH	01-02-2012
1182	JC 376526Y	SUB	BHUNESHWAR KUMAR SINGH	01-03-2012
1183	JC 372579A	SUB	BHUVAN CHANDRA SHARMA	01-03-2012
1184	JC 376102H	SUB	BIJAY KUMAR MOHAPATRA	01-04-2012
1185	JC 375066W	SUB	BIJAYA BAHADUR SINGH	01-03-2012
1186	JC 375366X	SUB	BIJAYA KUMAR MOHAPATRA	01-03-2012
1187	JC 368574K	SUB	BIREN SINGHA	01-07-2012
1188	JC 372455L	SUB	BRAHAM PARKASH	01-03-2012
1189	JC 375984H	SUB	BRAHAMPAL SINGH	01-07-2012
1190	JC 374685X	SUB	BUDDHI SINGH	01-04-2012
1191	JC 369909H	SUB	C N BAGEWADI	01-06-2012
1192	JC 377022X	SUB	CHAINA RAM	01-07-2012
1193	JC 373657Y	SUB	CHAND SINGH	01-06-2012
1194	JC 372617L	SUB	CHANDER PRAKASH	01-02-2012
1195	JC 372374L	SUB	CHANDRA MOHAN	01-04-2012
1196	JC 375386L	SUB	CHANDRA PAL SINGH	01-06-2012
1197	JC 374648K	SUB	CHANDRA VIR SINGH	01-07-2012
1198	JC 376845L	SUB	CHANDRAN K	01-04-2012
1199	JC 374340W	SUB	CHHATTAR PAL SINGH	01-03-2012
1200	JC 376569N	SUB	CHHEDI LAL	01-04-2012
1201	JC 375803M	SUB	DADHIBAL SINGH	01-03-2012
1202	JC 372278W	SUB	DARPANARAYAN ROUT	01-07-2012
1203	JC 375635Y	SUB	DASHRATH SINGH	01-04-2012

1204	JC 376064X	SUB	DAYA KISHAN	01-05-2012
1205	JC 374995H	SUB	DEONATH CHAUBEY	01-04-2012
1206	JC 375513P	SUB	DEVENDRA SINGH	01-06-2012
1207	JC 375940L	SUB	DEVENDRA SINGH	01-03-2012
1208	JC 376643K	SUB	DEVENDRA SINGH	01-05-2012
1209	JC 371944K	SUB	DHARAM SINGH	01-03-2012
1210	JC 374839Y	SUB	DHARAM SINGH	01-04-2012
1211	JC 377366W	SUB	DHARAM SINGH	01-02-2012
1212	JC 372451P	SUB	DHARAMVIR	01-06-2012
1213	JC 376998P	SUB	DHARMVIR SINGH	01-07-2012
1214	JC 374119X	SUB	DHONESWAR SAIKIA	01-03-2012
1215	JC 376529M	SUB	DIGAR SINGH	01-04-2012
1216	JC 371981X	SUB	DILBAG RAI	01-07-2012
1217	JC 375395M	SUB	DILIP KUMAR PATRA	01-03-2012
1218	JC 373719N	SUB	DINESH KUMAR	01-03-2012
1219	JC 375759N	SUB	DINESH KUMAR PRASAD	01-07-2012
1220	JC 375524F	SUB	DINESH KUMAR SINGH	01-03-2012
1221	JC 375526M	SUB	DINESH PAL KANAUIA	01-04-2012
1222	JC 375987W	SUB	DINESH PRASAD DAS	01-04-2012
1223	JC 376091F	SUB	DIVAKAR PRASAD MAURYA	01-08-2012
1224	JC 374921N	SUB	DIWAN SINGH	01-07-2012
1225	JC 376725M	SUB	GEORGE E J	01-02-2012
1226	JC 377317N	SUB	GOKUL CHANDER	01-07-2012
1227	JC 376605N	SUB	GOPAKUMAR SUNDER KT	01-08-2012
1228	JC 376705Y	SUB	GOVIND SINGH RANA	01-08-2012
1229	JC 375811L	SUB	GURCHARAN SINGH	01-03-2012
1230	JC 376067L	SUB	GURDIP SINGH	01-02-2012
1231	JC 374491P	SUB	GURMEET SINGH	01-05-2012
1232	JC 373026W	SUB	HAKIM SINGH	01-04-2012
1233	JC 375903X	SUB	HARGOVIND SINGH	01-05-2012
1234	JC 371143H	SUB	HARI OM	01-03-2012
1235	JC 370949W	SUB	HARI PRASAD	01-04-2012
1236	JC 373029K	SUB	HARINDER KUMAR	01-08-2012
1237	JC 376325A	SUB	HARISH CHANDRA MISHRA	01-02-2012
1238	JC 376707K	SUB	HARSHAVARDHANA D S	01-08-2012
1239	JC 372470A	SUB	INAMDAR NAJAR BABUKHAN	01-06-2012
1240	JC 375236P	SUB	JAGDISH CHAND	01-04-2012
1241	JC 375227N	SUB	JAI BHAGWAN	01-04-2012
1242	JC 378164F	SUB	JAI KARAN	01-02-2012
1243	JC 371268A	SUB	JAI PARKASH	01-03-2012
1244	JC 375657X	SUB	JANARDAN CHATURVEDI	01-06-2012
1245	JC 376906X	SUB	JAWAHAR SINGH	01-07-2012
1246	JC 376914W	SUB	JAY KUMAR SRIVASTAVA	01-04-2012
1247	JC 375153K	SUB	JAYA KUMAR CP	01-07-2012
1248	JC 372823P	SUB	JEETAM SINGH MANHAS	01-04-2012
1249	JC 376367M	SUB	JHURU RAM SINGH	01-04-2012
1250	JC 375461K	SUB	JITENDER KUMAR	01-07-2012
1251	JC 376726P	SUB	JOGI RAM	01-03-2012
1252	JC 373928L	SUB	JOGINDER SINGH	01-07-2012
1253	JC 377048M	SUB	JOHNSAN BARA	01-06-2012
1254	JC 376786K	SUB	K RAVI	01-06-2012

1255	JC 372231L	SUB	K VIJAYA KUMAR	01-04-2012
1256	JC 374682K	SUB	KAILASH CHAND	01-03-2012
1257	JC 375663L	SUB	KAILASH CHANDER BHATT	01-03-2012
1258	JC 376345N	SUB	KALADHARAN B	01-03-2012
1259	JC 374826F	SUB	KALE PANDHARINATH MURLIDHAR	01-08-2012
1260	JC 371930K	SUB	KANDAN CHARAN	01-08-2012
1261	JC 370519M	SUB	KANGALU MUNDA	01-03-2012
1262	JC 376075K	SUB	KEDAR NATH PANDEY	01-08-2012
1263	JC 370959A	SUB	KEDAR SINGH	01-02-2012
1264	JC 376518A	SUB	KHILLU RAM	01-08-2012
1265	JC 376363W	SUB	KRISHNA KUMAR M	01-08-2012
1266	JC 376391H	SUB	KRISHNA PAL	01-07-2012
1267	JC 377190W	SUB	KULAMANI BARIK	01-07-2012
1268	JC 375904A	SUB	KULDEEP SINGH	01-06-2012
1269	JC 377879L	SUB	KULVIR SINGH	01-04-2012
1270	JC 370782X	SUB	LAKHBIR SINGH	01-02-2012
1271	JC 375340H	SUB	LAKHWINDER SINGH	01-02-2012
1272	JC 376087Y	SUB	LAKSHMAN SINGH	01-03-2012
1273	JC 376533P	SUB	LAKSHMANAN S	01-06-2012
1274	JC 373802L	SUB	LAXMAN SINGH	01-04-2012
1275	JC 374748P	SUB	LILU RAM	01-04-2012
1276	JC 376887X	SUB	LOKANATH MAHARANA	01-04-2012
1277	JC 377269Y	SUB	M MURUGAN	01-08-2012
1278	JC 373432W	SUB	MADAN LAL CHOUHAN	01-04-2012
1279	JC 375727L	SUB	MAHANTH SINGH	01-04-2012
1280	JC 376084L	SUB	MAHAVIR SINGH	01-07-2012
1281	JC 376388H	SUB	MAHESH CHANDRA	01-05-2012
1282	JC 374846P	SUB	MANIK KUMAR CHANDA	01-02-2012
1283	JC 374680Y	SUB	MANOHAR KUMAR SINGH	01-03-2012
1284	JC 377871Y	SUB	MANOJ KUMAR CHAUBEY	01-04-2012
1285	JC 375453L	SUB	MATHEW PM	01-06-2012
1286	JC 375820M	SUB	MAYADHAR BEHERA	01-07-2012
1287	JC 375434A	SUB	MD ASGHAR	01-07-2012
1288	JC 372458Y	SUB	MD IRFAN	01-03-2012
1289	JC 376445Y	SUB	MITRA PRASAD	01-04-2012
1290	JC 372858L	SUB	MOHAMMAD AMIN	01-03-2012
1291	JC 372578X	SUB	MOHAN SINGH	01-03-2012
1292	JC 371734K	SUB	MOHINDER SINGH	01-04-2012
1293	JC 376540L	SUB	MUNNA LAL	01-05-2012
1294	JC 375962K	SUB	N SATHIA MOORTHY	01-04-2012
1295	JC 375758L	SUB	NAGIN CHAND SHARMA	01-07-2012
1296	JC 375296K	SUB	NANAK CHAND	01-07-2012
1297	JC 376656F	SUB	NARESH KUMAR	01-03-2012
1298	JC 374096F	SUB	NINGAPPA HUDED	01-04-2012
1299	JC 376532M	SUB	OM PRAKASH	01-05-2012
1300	JC 376349K	SUB	OM PRAKASH SIHAG	01-03-2012
1301	JC 372230H	SUB	OM PRAKASH SWAMI	01-03-2012
1302	JC 376644M	SUB	OM PRAKASH TIWARI	01-05-2012
1303	JC 373195X	SUB	OMKAR SINGH	01-05-2012
1304	JC 372881Y	SUB	PAVAN KUMAR KACHHAWAH	01-04-2012
1305	JC 374681F	SUB	PIYUSH KUMAR CHAKRAVARTY	01-03-2012

1306	JC 374715K	SUB	PRABHAKAR TIWARI	01-07-2012
1307	JC 375574M	SUB	PRADIP KUMAR SINGH	01-02-2012
1308	JC 375123M	SUB	PRATAP CHANDRA PANIGRAHI	01-03-2012
1309	JC 376446F	SUB	PRAVINDRA KUMAR	01-04-2012
1310	JC 375646L	SUB	PREM SINGH	01-04-2012
1311	JC 375055K	SUB	PREMA RAJAN EDACHIRA	01-03-2012
1312	JC 376724K	SUB	PURNA CHANDRA BISWAL	01-04-2012
1313	JC 373439A	SUB	PURSHOTTAM CHAND CHOUDHARY	01-02-2012
1314	JC 377501Y	SUB	R SIVAJI	01-08-2012
1315	JC 375368H	SUB	RADHA KRISHNA MISHRA	01-07-2012
1316	JC 376610Y	SUB	RADHE SHYAM KUMHAR	01-04-2012
1317	JC 377328A	SUB	RAJ KUMAR SINGH	01-05-2012
1318	JC 373444L	SUB	RAJ PAL	01-05-2012
1319	JC 377239F	SUB	RAJAN NAIR N	01-08-2012
1320	JC 374728F	SUB	RAJBHAR LALLBAHADUR FULLCHAND	01-04-2012
1321	JC 376116H	SUB	RAJBIR	01-04-2012
1322	JC 371928M	SUB	RAJENDER SINGH	01-04-2012
1323	JC 376694X	SUB	RAJENDER SINGH	01-03-2012
1324	JC 374720P	SUB	RAJENDRA PRASAD RAM	01-07-2012
1325	JC 376362N	SUB	RAJESH KUMAR	01-08-2012
1326	JC 372679L	SUB	RAJINDER KUMAR	01-04-2012
1327	JC 376321K	SUB	RAKESH DHAR	01-03-2012
1328	JC 375896M	SUB	RAKESH KUMAR VISHNOI	01-04-2012
1329	JC 375723P	SUB	RAM AUTAR GANGWAR	01-04-2012
1330	JC 375843N	SUB	RAM BABU KUSHWAHA	01-07-2012
1331	JC 371625X	SUB	RAM BARIKA YADAWA	01-02-2012
1332	JC 376539W	SUB	RAM BILAS SINGH	01-04-2012
1333	JC 371145N	SUB	RAM DAYAL VERMA	01-03-2012
1334	JC 371985N	SUB	RAM DIXIT	01-07-2012
1335	JC 375216F	SUB	RAM KISHORE SAHU	01-03-2012
1336	JC 377043N	SUB	RAM PUKAR SINGH	01-07-2012
1337	JC 377229X	SUB	RAMA SHANKER SINGH	01-05-2012
1338	JC 376338X	SUB	RAMACHANDRAN NAIR R	01-04-2012
1339	JC 376542W	SUB	RAMASHISH CHAUDHARY	01-06-2012
1340	JC 370557H	SUB	RAMESH CHANDER	01-05-2012
1341	JC 371270X	SUB	RAMESH CHANDRA	01-04-2012
1342	JC 376327L	SUB	RAMESH CHANDRA	01-02-2012
1343	JC 374505K	SUB	RAMESH CHANDRA ATTRI	01-04-2012
1344	JC 375897P	SUB	RAMNATH YADAV	01-03-2012
1345	JC 375641M	SUB	RAN VIJAY KUMAR	01-03-2012
1346	JC 374461X	SUB	RANBIR SINGH	01-03-2012
1347	JC 375793N	SUB	RANJAN KUMAR DAS	01-07-2012
1348	JC 376844H	SUB	RANJIT KUMAR MANDAL	01-04-2012
1349	JC 375833K	SUB	RAVINDRANATH P K	01-07-2012
1350	JC 375695N	SUB	REBA KANTA DUTTA	01-07-2012
1351	JC 374810W	SUB	RISHI MUNI SHARMA	01-07-2012
1352	JC 376611F	SUB	SADANANDAN K	01-04-2012
1353	JC 372690K	SUB	SAHAB SINGH	01-05-2012
1354	JC 376103L	SUB	SAKADEVAN B	01-06-2012
1355	JC 377402W	SUB	SAMBHU PRASAD	01-06-2012
1356	JC 376530F	SUB	SAMSHER SINGH	01-04-2012

1357	JC 374488P	SUB	SANJAY KUMAR THAKUR	01-03-2012
1358	JC 370392P	SUB	SARWAN SINGH	01-06-2012
1359	JC 373308P	SUB	SARWAN SINGH	01-08-2012
1360	JC 375994M	SUB	SASIDHARA KURUP N R	01-04-2012
1361	JC 371269H	SUB	SATISH KUMAR	01-03-2012
1362	JC 376534X	SUB	SATPAL SINGH	01-08-2012
1363	JC 375493M	SUB	SATPAL VERMA	01-06-2012
1364	JC 374542X	SUB	SATYVIR SINGH	01-07-2012
1365	JC 378063N	SUB	SAYED SAFFAYET ALI	01-08-2012
1366	JC 377050K	SUB	SHAMBHU PRASAD DEVRANI	01-02-2012
1367	JC 376386X	SUB	SHASHTHI CHARAN BISWAS	01-03-2012
1368	JC 376528K	SUB	SHER DEEN	01-03-2012
1369	JC 375435H	SUB	SHIV CHARAN	01-07-2012
1370	JC 372519L	SUB	SHIV LAHARI PUSPAD	01-03-2012
1371	JC 377324K	SUB	SHKAR AHMED	01-02-2012
1372	JC 376462Y	SUB	SHRI BHAGWAN	01-03-2012
1373	JC 374503Y	SUB	SHYAM BIHARI TIWARY	01-03-2012
1374	JC 375297M	SUB	SIVASANKARA PILLAI G	01-06-2012
1375	JC 375147W	SUB	SRI MAHENDRA PRASAD	01-03-2012
1376	JC 376527F	SUB	SUBRATA SINHA	01-03-2012
1377	JC 375892W	SUB	SUDAMA ROY	01-08-2012
1378	JC 371369N	SUB	SUDERSHAN KUMAR	01-07-2012
1379	JC 376852F	SUB	SUJIT KUMAR DEBNATH	01-07-2012
1380	JC 374838W	SUB	SUKHVEER SINGH	01-03-2012
1381	JC 376716L	SUB	SULTAN SINGH	01-03-2012
1382	JC 376276H	SUB	SUNDARESAN K G	01-08-2012
1383	JC 375954L	SUB	SUNDER SINGH	01-04-2012
1384	JC 372820F	SUB	SURAT SINGH	01-02-2012
1385	JC 375977M	SUB	SURESH DIGAMBAR MANKAR	01-07-2012
1386	JC 370556A	SUB	SURESH KUMAR K	01-03-2012
1387	JC 371348X	SUB	SURINDER SINGH	01-05-2012
1388	JC 369256M	SUB	SWAPAN GHOSH	01-03-2012
1389	JC 369616X	SUB	T S SHYAMSUNDER	01-07-2012
1390	JC 371907W	SUB	TAJWAR SINGH	01-02-2012
1391	JC 375415P	SUB	TARA DUTT SHARMA	01-06-2012
1392	JC 375757H	SUB	TEJA RAM	01-03-2012
1393	JC 376132A	SUB	TIURAWADKAR DHONDIBA APPA	01-07-2012
1394	JC 375429P	SUB	UDAI CHANDR SINGH	01-03-2012
1395	JC 370713F	SUB	VED PARKASH	01-03-2012
1396	JC 375613A	SUB	VIJAY KANT DIXIT	01-04-2012
1397	JC 374840N	SUB	VIJAY KUMAR	01-05-2012
1398	JC 376711M	SUB	VIJAY KUMAR	01-03-2012
1399	JC 376397K	SUB	VIJAY PRATAP	01-02-2012
1400	JC 376277L	SUB	VINOD KUMAR	01-08-2012
1401	JC 377605A	SUB	VINOD KUMAR	01-07-2012
1402	JC 377326P	SUB	VINOD SINGH	01-02-2012
1403	JC 376042Y	SUB	YASHWANT SINGH	01-02-2012

**THE BRIGADE OF GUARDS**

1404	JC 403709F	SUB	AHIR LALA BHAI MAVA BHAI	01-02-2012
1405	JC 403909X	SUB	BHAGWAN KUSHWAHA	01-04-2012

1406	JC 403901L	SUB	BHIKSHYAKARI SAHOO	01-06-2012
1407	JC 403489H	SUB	BIRENDRA NATH MISHRA	01-03-2012
1408	JC 403842K	SUB	BIRPAL SINGH YADAV	01-08-2012
1409	JC 403665P	SUB	BRAJESH KUMAR RAI	01-02-2012
1410	JC 403550F	SUB	CHANDRA SHEKHAR PRASAD YADAV	01-04-2012
1411	JC 402988L	SUB	DAN SINGH	01-07-2012
1412	JC 403921Y	SUB	DEVINDER KUMAR	01-02-2012
1413	JC 403703A	SUB	DIWAN SINGH	01-03-2012
1414	JC 403304W	SUB	GNANA SEKARAN M	01-06-2012
1415	JC 403663K	SUB	GULAB CHAND	01-02-2012
1416	JC 403831X	SUB	HANS RAJ SINGH	01-03-2012
1417	JC 403717A	SUB	HAR PAL	01-02-2012
1418	JC 403809M	SUB	HARI SINGH	01-04-2012
1419	JC 403988X	SUB	HASSAN MOHAMMAD	01-05-2012
1420	JC 403855F	SUB	JAGBIR SINGH	01-04-2012
1421	JC 403711Y	SUB	JAGDEV PRASAD	01-03-2012
1422	JC 403772W	SUB	KALYAN SINGH	01-04-2012
1423	JC 403371F	SUB	KARAN SINGH	01-03-2012
1424	JC 403710W	SUB	KULWINDER SINGH	01-02-2012
1425	JC 404209W	SUB	LAL CHAND	01-06-2012
1426	JC 403749H	SUB	MAHAVIR SINGH	01-03-2012
1427	JC 403292M	SUB	MD ROKIBUL ISLAM	01-03-2012
1428	JC 403560L	SUB	MOHAN THAKUR	01-02-2012
1429	JC 403834L	SUB	NARESH SHAHI	01-06-2012
1430	JC 403879L	SUB	OM PRAKASH GAUTAM	01-07-2012
1431	JC 403678M	SUB	OMANAKUTTAN P	01-05-2012
1432	JC 403713K	SUB	PIRA RAM	01-08-2012
1433	JC 403781X	SUB	PREM LAL	01-05-2012
1434	JC 403574L	SUB	PRITAM SINGH	01-05-2012
1435	JC 403386K	SUB	PULIN CHANDRA DEKA	01-04-2012
1436	JC 403463N	SUB	RAJENDRA PRASAD	01-05-2012
1437	JC 403472P	SUB	RAJINDER KUMAR	01-06-2012
1438	JC 403730K	SUB	RAJINDER SINGH	01-02-2012
1439	JC 403761K	SUB	RANBIR SINGH	01-03-2012
1440	JC 404111H	SUB	RANJIT SINGHA	01-04-2012
1441	JC 403359A	SUB	SATHYA NARAYANA D	01-02-2012
1442	JC 403870W	SUB	SATYA PRAKASH	01-08-2012
1443	JC 404021F	SUB	SUNKARI SREENIVASULU	01-06-2012
1444	JC 403565K	SUB	TAJ MOHAMMED	01-04-2012
1445	JC 403880A	SUB	TEJVIR SINGH CHAHAR	01-08-2012
1446	JC 404023M	SUB	UDAI SINGH	01-05-2012
1447	JC 403776M	SUB	VED PAL	01-04-2012
1448	JC 403479Y	SUB	VIRENDRA SINGH	01-03-2012
1449	JC 403455P	SUB	YATAPU VENKATA RAMI REDDY	01-07-2012

**THE PARACHUTE REGIMENT**

1450	JC 412975F	SUB	ANIL KUMAR P	01-08-2012
1451	JC 413011Y	SUB	BAJARANG SINGH TANWAR	01-07-2012
1452	JC 412872H	SUB	CHANDER PAL SINGH	01-04-2012
1453	JC 412771P	SUB	GYANENDRA KUMAR	01-06-2012
1454	JC 412925W	SUB	HARENDRA PRASAD	01-07-2012



1455	JC 413043F	SUB	JEET SINGH PHARTYAL	01-08-2012
1456	JC 412711A	SUB	KESHA RAM	01-03-2012
1457	JC 413138F	SUB	LACHHAM SINGH	01-06-2012
1458	JC 413099N	SUB	MADHO SINGH FARTIYAL	01-06-2012
1459	JC 412818P	SUB	OM PRAKASH	01-04-2012
1460	JC 412869H	SUB	RAJBIR SINGH	01-06-2012
1461	JC 413067L	SUB	RAKESH CHAND TIWARI	01-06-2012
1462	JC 412858W	SUB	SISH PAL	01-06-2012
1463	JC 412868A	SUB	SUJAN SINGH	01-05-2012
1464	JC 413034A	SUB	SURENDER SINGH	01-06-2012
1465	JC 412984H	SUB	UDAIBHAN SINGH GURJAR	01-06-2012
1466	JC 412887L	SUB	ZILE SINGH	01-04-2012

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

1467	JC 420863W	SUB	ANGAD SINGH	01-03-2012
1468	JC 420324A	SUB	BALWINDER SINGH	01-03-2012
1469	JC 420468H	SUB	BHAJAN CHAND	01-04-2012
1470	JC 420856A	SUB	BHIM SINGH	01-02-2012
1471	JC 419236X	SUB	BHOOP NARAIN	01-04-2012
1472	JC 419603Y	SUB	BRJESH KUMAR	01-08-2012
1473	JC 419949H	SUB	CHANDRA SEKHARAYYA DODDIMATHI	01-04-2012
1474	JC 420864Y	SUB	DARIYA SINGH	01-08-2012
1475	JC 419128N	SUB	DAU SINGH	01-04-2012
1476	JC 420733N	SUB	DAULAT SINGH	01-04-2012
1477	JC 419931M	SUB	DHARAM SINGH	01-04-2012
1478	JC 420817F	SUB	DHARAMBIR	01-03-2012
1479	JC 419319H	SUB	DINESH KUMAR MISHRA	01-04-2012
1480	JC 420825A	SUB	GAGAN BAHADUR RANA	01-03-2012
1481	JC 420492Y	SUB	GOPAL SINGH	01-06-2012
1482	JC 420760X	SUB	GOVIND SINGH	01-06-2012
1483	JC 419536Y	SUB	GULBIR SINGH	01-04-2012
1484	JC 420241P	SUB	GUNA SEKARAN K	01-04-2012
1485	JC 419748K	SUB	HAREESHAN TV	01-04-2012
1486	JC 420826H	SUB	HARI SINGH	01-08-2012
1487	JC 420876N	SUB	HARMAIL SINGH	01-03-2012
1488	JC 420272P	SUB	JAGANNATH PRASAD	01-04-2012
1489	JC 421029K	SUB	JASWANT SINGH	01-03-2012
1490	JC 420920M	SUB	JASWINDER SINGH	01-03-2012
1491	JC 420285M	SUB	KAMESHWAR SAH	01-04-2012
1492	JC 418921W	SUB	KAMTA RAM	01-04-2012
1493	JC 420169K	SUB	KARAN SINGH	01-04-2012
1494	JC 420870M	SUB	KASHMIR SINGH	01-03-2012
1495	JC 420325H	SUB	KIRAT SINGH	01-08-2012
1496	JC 420843H	SUB	KUNANA RAM	01-08-2012
1497	JC 420283F	SUB	LOKENDRA SINGH	01-02-2012
1498	JC 420804K	SUB	LUMBA RAM JAT	01-08-2012
1499	JC 419987Y	SUB	MANSUKH LAL CHATURVEDI	01-04-2012
1500	JC 420171F	SUB	NAGAYYA GANACHARI	01-04-2012
1501	JC 419458M	SUB	NANDA KUMAR GS	01-04-2012
1502	JC 420681H	SUB	OMANA KUTTAN PILLAI S.	01-07-2012
1503	JC 420917M	SUB	PATIL DHARERAO SHRIMANT	01-07-2012

1504	JC 420818K	SUB	PIAR CHAND	01-05-2012
1505	JC 420814N	SUB	PREM BAHADUR	01-04-2012
1506	JC 420867M	SUB	PREM SINGH	01-04-2012
1507	JC 420268M	SUB	PURKHA RAM	01-08-2012
1508	JC 421004X	SUB	RAJESHWAR SINGH	01-03-2012
1509	JC 420871P	SUB	RAJINDER SINGH	01-07-2012
1510	JC 419133Y	SUB	RAKESH KUMAR DUBE	01-04-2012
1511	JC 420315Y	SUB	RAM NARESH	01-08-2012
1512	JC 420857H	SUB	RAM PAL	01-08-2012
1513	JC 420816Y	SUB	RAM SUKH	01-08-2012
1514	JC 420630P	SUB	RAMJI MAHTO	01-02-2012
1515	JC 420923A	SUB	RANJEET SINGH	01-03-2012
1516	JC 420097L	SUB	RANJIT SINGH	01-07-2012
1517	JC 419922L	SUB	S IYYAPPASAMY	01-06-2012
1518	JC 420333F	SUB	SAMSHER SINGH PANWAR	01-05-2012
1519	JC 420071W	SUB	SASI KUMARAN PC	01-07-2012
1520	JC 420320K	SUB	SATYA PAL SINGH	01-04-2012
1521	JC 419475M	SUB	SATYA PRAKASH	01-04-2012
1522	JC 420480K	SUB	SP PALANICHAMY	01-08-2012
1523	JC 419598Y	SUB	SUBHASH SHINDHE	01-04-2012
1524	JC 419422N	SUB	SUKENDRA NARAIN	01-04-2012
1525	JC 420030Y	SUB	SUNIL GOGOI	01-04-2012
1526	JC 420307X	SUB	SURENDRA PRASAD SINGH	01-04-2012
1527	JC 420429K	SUB	SURESH CHAND	01-08-2012
1528	JC 420090F	SUB	SURESH CHANDRA MISHRA	01-04-2012
1529	JC 419951A	SUB	SURESH SINGH	01-06-2012
1530	JC 420376W	SUB	TRILOK SINGH THAPA	01-04-2012
1531	JC 420845N	SUB	UMESH KUMAR	01-03-2012
1532	JC 419173A	SUB	UNNI RAJAN A	01-06-2012
1533	JC 420878Y	SUB	UTPAL SINHA ROY	01-04-2012
1534	JC 420380Y	SUB	VIRPAL SINGH	01-06-2012
1535	JC 420819M	SUB	WAJED KHAN	01-03-2012
1536	JC 419389F	SUB	YADAV PRAVIN SINH MAN SINH	01-08-2012

**THE PUNJAB REGIMENT**

1537	JC 429966W	SUB	AMRIK SINGH	01-06-2012
1538	JC 429213K	SUB	AMRIK SINGH	01-02-2012
1539	JC 429259M	SUB	ANTHER SINGH	01-06-2012
1540	JC 429942M	SUB	ASHOK KUMAR	01-05-2012
1541	JC 430211L	SUB	ASHOK KUMAR	01-02-2012
1542	JC 429537P	SUB	BALDEV SINGH	01-06-2012
1543	JC 429515W	SUB	BALJIT SINGH	01-04-2012
1544	JC 430072M	SUB	BALKAR SINGH	01-02-2012
1545	JC 430095N	SUB	BARKHA SINGH	01-02-2012
1546	JC 429736H	SUB	BATTAN SINGH	01-04-2012
1547	JC 430483L	SUB	BHAGU RAM JAT	01-07-2012
1548	JC 429783A	SUB	BHUPINDER SINGH	01-06-2012
1549	JC 429881A	SUB	BIKRAM SINGH RANA	01-04-2012
1550	JC 430051W	SUB	CHARAN SINGH	01-02-2012
1551	JC 429703X	SUB	CHARAN SINGH	01-04-2012
1552	JC 430435L	SUB	CHARANJIT LAL	01-05-2012

1553	JC 429779X	SUB	DARSHAN KUMAR	01-05-2012
1554	JC 429521K	SUB	DARSHAN SINGH	01-06-2012
1555	JC 429882H	SUB	DESH RAJ	01-04-2012
1556	JC 430430M	SUB	DEWAN CHAND	01-07-2012
1557	JC 429555X	SUB	DILBAG SINGH	01-04-2012
1558	JC 429590A	SUB	HARBANS SINGH	01-07-2012
1559	JC 429349N	SUB	HARBHAJAN SINGH	01-06-2012
1560	JC 430172X	SUB	HARPAL SINGH	01-02-2012
1561	JC 430194W	SUB	HUKAM CHAND	01-05-2012
1562	JC 430352A	SUB	JAGDISH RAJ	01-07-2012
1563	JC 429824Y	SUB	JAGDISH SINGH	01-05-2012
1564	JC 430265M	SUB	JOTI SARUP	01-07-2012
1565	JC 429786N	SUB	KANWAR PAL SHARMA	01-03-2012
1566	JC 429674N	SUB	KASHMIR SINGH	01-04-2012
1567	JC 429752A	SUB	LAL SINGH	01-04-2012
1568	JC 430248M	SUB	MAHABIR PRASAD	01-02-2012
1569	JC 430096W	SUB	MANMOHAN SINGH	01-02-2012
1570	JC 429808F	SUB	MOHANDER SINGH	01-03-2012
1571	JC 429958X	SUB	NASIB SINGH	01-05-2012
1572	JC 429287Y	SUB	PARAMJIT SINGH	01-02-2012
1573	JC 430316P	SUB	RAGHUVIR SINGH	01-07-2012
1574	JC 429297H	SUB	RAJENDER SINGH	01-03-2012
1575	JC 429815X	SUB	RAM AWADH RAM	01-04-2012
1576	JC 429648M	SUB	RAMESH CHAND	01-02-2012
1577	JC 430283P	SUB	RANJIT SINGH	01-05-2012
1578	JC 429715M	SUB	SANTOKH SINGH	01-02-2012
1579	JC 429940F	SUB	SHAMSHER SINGH JAIN	01-07-2012
1580	JC 430185P	SUB	SUBASH SINGH	01-04-2012
1581	JC 430132W	SUB	SUBHASH CHAND	01-08-2012
1582	JC 429753H	SUB	SUBHASH CHANDER	01-06-2012
1583	JC 429851H	SUB	SUDARSHAN SINGH	01-04-2012
1584	JC 429662Y	SUB	SURJIT RAM	01-06-2012
1585	JC 429900A	SUB	SURMIT SINGH	01-05-2012
1586	JC 430133Y	SUB	TARLOK CHAND	01-08-2012
1587	JC 429831P	SUB	TILAK RAJ	01-04-2012

**THE MADRAS REGIMENT**

1588	JC 439219Y	SUB	ASOKAN N	01-05-2012
1589	JC 439299F	SUB	AUGUSTINE PG	01-05-2012
1590	JC 439268F	SUB	B DHASARATHA RAO	01-05-2012
1591	JC 439932W	SUB	BABU RAJAN M	01-05-2012
1592	JC 439998M	SUB	BAHULEYAN NAIR G	01-05-2012
1593	JC 439407A	SUB	CHANDRAN U	01-03-2012
1594	JC 438709A	SUB	D JAWAHAR	01-03-2012
1595	JC 439054L	SUB	DAL CHANDRA	01-04-2012
1596	JC 439077M	SUB	G JEROLD DEVASAHAYAM	01-05-2012
1597	JC 439521X	SUB	GOPINATHAN C	01-04-2012
1598	JC 439375H	SUB	GV PRABAKAR RAO	01-03-2012
1599	JC 439720L	SUB	J SEBASTIAN	01-06-2012
1600	JC 439319K	SUB	JADE GOUDA	01-06-2012
1601	JC 439298Y	SUB	JAYADHARAN PILLAI B	01-06-2012

1602	JC 439427N	SUB	K PANDI	01-03-2012
1603	JC 439555L	SUB	K SEKHARAN	01-05-2012
1604	JC 439611Y	SUB	KARUNAGARAN D	01-06-2012
1605	JC 439211M	SUB	M MURUGAN	01-08-2012
1606	JC 439482K	SUB	M RADHAKRISHNAN	01-08-2012
1607	JC 439607W	SUB	MALLAPPA MURANAL	01-06-2012
1608	JC 439227X	SUB	MANIKANTAN NAIR M	01-07-2012
1609	JC 439244X	SUB	MARUPU SURYANARAYANA	01-06-2012
1610	JC 439506H	SUB	MK MOHANA KUMAR	01-03-2012
1611	JC 439470P	SUB	MOHANAN V	01-05-2012
1612	JC 439507L	SUB	N THANKARAJ	01-04-2012
1613	JC 439487H	SUB	P MURALEEDHARAN	01-06-2012
1614	JC 439016P	SUB	PRAKASHAN P	01-08-2012
1615	JC 439169Y	SUB	RADHAKRISHNAN G	01-02-2012
1616	JC 439588W	SUB	RAGHUNATHAN K	01-05-2012
1617	JC 439154W	SUB	RAJAN NAGATH	01-06-2012
1618	JC 439464F	SUB	RAJU K	01-05-2012
1619	JC 439405P	SUB	RAMALING SALI	01-05-2012
1620	JC 439356X	SUB	RP GANESAN	01-02-2012
1621	JC 439170N	SUB	SADANAND	01-04-2012
1622	JC 439291P	SUB	SADANANDAN P	01-02-2012
1623	JC 439132X	SUB	SADASIVAN PR	01-06-2012
1624	JC 439337M	SUB	SAJU GEORGE	01-05-2012
1625	JC 439247L	SUB	SEBASTIAN PM	01-04-2012
1626	JC 439341P	SUB	SHAIK KASIM SAHEB	01-04-2012
1627	JC 439136N	SUB	SOMANNA KG	01-04-2012
1628	JC 439739K	SUB	T CHIDAMBARAM	01-05-2012
1629	JC 439597X	SUB	TA CHANDRAN	01-06-2012
1630	JC 439911A	SUB	THANGI SRINIVASA RAO	01-07-2012
1631	JC 439820W	SUB	THANKA KUMAR T	01-08-2012
1632	JC 439167N	SUB	V PERIALAGAN	01-06-2012
1633	JC 439629P	SUB	VINOD KUMAR C	01-08-2012

**THE GRENADIERS**

1634	JC 450591W	SUB	ABHEY SINGH	01-03-2012
1635	JC 450265N	SUB	AKBAL AHAMAD	01-07-2012
1636	JC 450642Y	SUB	AMAR SINGH	01-08-2012
1637	JC 450142F	SUB	ANSAR AHMED	01-07-2012
1638	JC 449558M	SUB	BAJEER SINGH	01-08-2012
1639	JC 449835M	SUB	BAJRANG LAL MEENA	01-02-2012
1640	JC 450008W	SUB	BENUDHAR SENAPATI	01-04-2012
1641	JC 449412Y	SUB	BHAGWANA RAM	01-07-2012
1642	JC 450186Y	SUB	BHOOR SINGH	01-08-2012
1643	JC 449986L	SUB	BUDH RAM	01-08-2012
1644	JC 449875N	SUB	FARUK ALI	01-04-2012
1645	JC 450124Y	SUB	HABIB AHMED	01-04-2012
1646	JC 450183L	SUB	HANS RAJ	01-03-2012
1647	JC 450087W	SUB	HANS RAJ MEENA	01-06-2012
1648	JC 450636L	SUB	HARI SINGH	01-07-2012
1649	JC 450266W	SUB	IQBAL ALI	01-07-2012
1650	JC 450614M	SUB	JAGDISH CHAND	01-08-2012

1651	JC 450545F	SUB	JAGDISH PRASAD	01-08-2012
1652	JC 450109K	SUB	LIYAKAT ALI	01-04-2012
1653	JC 449197Y	SUB	MADAN LAL GUJAR	01-06-2012
1654	JC 450035A	SUB	MD ASRAF ALI	01-04-2012
1655	JC 449938L	SUB	MOHMAD BASIR	01-04-2012
1656	JC 450157K	SUB	NAR SINGH	01-08-2012
1657	JC 450177X	SUB	NAWAB ALI	01-07-2012
1658	JC 450210K	SUB	NAWAB KHAN	01-07-2012
1659	JC 449915K	SUB	NISAR AHMED	01-04-2012
1660	JC 449851K	SUB	NIYAZ AHMAD	01-04-2012
1661	JC 449809L	SUB	NIYAZ AHMED KHAN	01-04-2012
1662	JC 449680H	SUB	OM PARKASH	01-03-2012
1663	JC 450446Y	SUB	OM PRAKASH	01-06-2012
1664	JC 450408H	SUB	PRATAP SINGH	01-08-2012
1665	JC 450279N	SUB	RAJENDRA SINGH CHAUHAN	01-02-2012
1666	JC 449885X	SUB	RAM HARI	01-08-2012
1667	JC 450631M	SUB	RAM HARI SINGH	01-02-2012
1668	JC 450712M	SUB	RAM KARAN YADAV	01-08-2012
1669	JC 449764W	SUB	RAM NARESH SINGH	01-02-2012
1670	JC 449682N	SUB	RAM SINGH	01-03-2012
1671	JC 450387X	SUB	RAMDEV SINGH BUDANIA	01-08-2012
1672	JC 450081P	SUB	RAMESH CHANDRA SINGH	01-02-2012
1673	JC 450108F	SUB	SABBIR AHMED	01-04-2012
1674	JC 449861N	SUB	SABBIR KHAN	01-04-2012
1675	JC 450229H	SUB	SANWAR MAL	01-04-2012
1676	JC 450173F	SUB	SHAMASUDDIN	01-06-2012
1677	JC 450075F	SUB	SHAMSHER SINGH	01-03-2012
1678	JC 450214A	SUB	SHER SINGH	01-04-2012
1679	JC 449608M	SUB	SHIMBU DAYAL RAWAT	01-08-2012
1680	JC 449489F	SUB	SHISH RAM GUJAR	01-02-2012
1681	JC 450169Y	SUB	SHIV CHANDRA YADAV	01-04-2012
1682	JC 449445K	SUB	SHOKAT ALI	01-04-2012
1683	JC 449507Y	SUB	SIFTE ALI KHAN	01-04-2012
1684	JC 450477Y	SUB	SIYA RAM SINGH	01-05-2012
1685	JC 449968H	SUB	SUBE SINGH	01-08-2012
1686	JC 449983X	SUB	SUMER SINGH	01-06-2012
1687	JC 450504X	SUB	SUMER SINGH	01-08-2012
1688	JC 449759L	SUB	SURAT SINGH	01-06-2012
1689	JC 450097A	SUB	SURESH CHANDRA ROUT	01-07-2012
1690	JC 449984A	SUB	SURESH KUMAR SINGH	01-04-2012
1691	JC 450562F	SUB	SWAROOP SINGH BHATI	01-08-2012
1692	JC 450005H	SUB	TIKAM SINGH	01-08-2012
1693	JC 449981M	SUB	UMMED SINGH	01-04-2012
1694	JC 449265F	SUB	USMAN ALI	01-04-2012
1695	JC 450110Y	SUB	VED PARKASH	01-02-2012
1696	JC 449821M	SUB	VIJAY SINGH	01-07-2012
1697	JC 450111F	SUB	VIJAY SINGH	01-07-2012
1698	JC 449891L	SUB	VIJENDER	01-06-2012
1699	JC 450161M	SUB	ZAHOR KHAN	01-04-2012

**THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

1700	JC 459269L	SUB	ANERAO RAJABHAU GANPATRAO	01-04-2012
1701	JC 459736X	SUB	ANKUSH DNYANOBA DESHMUKH	01-08-2012
1702	JC 459177Y	SUB	ANNASO SUBRAO SURYAWANSHI	01-04-2012
1703	JC 459718P	SUB	BABRU SANDIPAN KARPE	01-02-2012
1704	JC 458957X	SUB	BABU JOGANI	01-04-2012
1705	JC 459483N	SUB	BRAJ BHAN PATEL	01-06-2012
1706	JC 458825K	SUB	DESAI SHIVAJI SHANKAR	01-06-2012
1707	JC 459049F	SUB	DHARNE CHANDRAKANT GOVIND	01-02-2012
1708	JC 458878H	SUB	DINKAR UDHAV BHORE	01-04-2012
1709	JC 459406Y	SUB	EKKA PAULUS SHEBRUS	01-07-2012
1710	JC 459171X	SUB	GANPAT SHIVRAM CHAVAN	01-05-2012
1711	JC 459169A	SUB	GAWAS ANANT SHANTARAM	01-04-2012
1712	JC 459448L	SUB	J JAYA PRAKASH	01-02-2012
1713	JC 458951W	SUB	J KASSIM	01-06-2012
1714	JC 459165K	SUB	JADHAV PANDURANG SITARAM	01-04-2012
1715	JC 458177M	SUB	JADHAV SWAMI GOPINATH	01-04-2012
1716	JC 459267A	SUB	KAZI SARDAR MAHAMOOD SAHEB	01-03-2012
1717	JC 459465L	SUB	KISAN BANDAPPA PHATEPURE	01-02-2012
1718	JC 459686X	SUB	KRISHNAKANT PATEL	01-06-2012
1719	JC 458991X	SUB	KRUSHNA GANGARAM MHADIK	01-05-2012
1720	JC 459404N	SUB	LAHANE KESHAV DHUPAJI	01-02-2012
1721	JC 459031L	SUB	MARGALE PANDURANG VITHU	01-02-2012
1722	JC 459062L	SUB	MOHAN PARSHURAM SHINDE	01-07-2012
1723	JC 459227N	SUB	NESARKAR GUNDU LAXMAN	01-08-2012
1724	JC 458880A	SUB	PADLE RAJU DNYANU	01-08-2012
1725	JC 459265P	SUB	PAKEER AHAMMAD	01-04-2012
1726	JC 458804N	SUB	PATIL BALASO MHADU	01-04-2012
1727	JC 459218X	SUB	PAWAR VASANT DEENKAR	01-08-2012
1728	JC 459058H	SUB	PAXAPPA UPPIN	01-06-2012
1729	JC 459162W	SUB	PREM NARAIN YADAV	01-04-2012
1730	JC 458418F	SUB	RAJESHIRKE JAIRAM SHANKARAO	01-08-2012
1731	JC 459624X	SUB	RAM NARESH PATEL	01-06-2012
1732	JC 459203P	SUB	RAMESHWAR DAYAL	01-05-2012
1733	JC 459683K	SUB	RAMLAL PATEL	01-07-2012
1734	JC 459460M	SUB	RANE HANUMANT NARAYAN	01-05-2012
1735	JC 459266X	SUB	SANDUVEEDI SYED MASTHAN	01-03-2012
1736	JC 459270A	SUB	SHAIK AMEER	01-05-2012
1737	JC 459542P	SUB	SURASHE SUBHASH MOTIRAM	01-08-2012
1738	JC 459164F	SUB	TAD BALIRAM DATTU	01-07-2012
1739	JC 459152M	SUB	VIJAY KUMAR	01-06-2012
1740	JC 459319L	SUB	YADAV RAYASHING SHAMRAO	01-08-2012

**THE RAJPUTANA RIFLES**

1741	JC 469630Y	SUB	ASHOK SINGH	01-02-2012
1742	JC 469102P	SUB	BALWANT SINGH	01-05-2012
1743	JC 469805W	SUB	BHAGWAN SINGH	01-06-2012
1744	JC 469999K	SUB	BHANWAR SINGH	01-08-2012
1745	JC 469986M	SUB	BHANWAR SINGH SHEKHAWAT	01-04-2012
1746	JC 469992A	SUB	BHANWARA RAM	01-08-2012

1747	JC 469725Y	SUB	BHIM SINGH	01-04-2012
1748	JC 469869F	SUB	CHAIN SINGH RATHOR	01-02-2012
1749	JC 469275M	SUB	CHANDER BHAN	01-06-2012
1750	JC 469917W	SUB	CHHAGAN SINGH	01-08-2012
1751	JC 469672L	SUB	DEWAJIT SINGH	01-03-2012
1752	JC 469831X	SUB	DHARMVIR	01-04-2012
1753	JC 470241L	SUB	GAJ RAJ	01-08-2012
1754	JC 470282P	SUB	GAJENDRA SINGH	01-05-2012
1755	JC 470139H	SUB	GAYAD SINGH	01-02-2012
1756	JC 469834L	SUB	GIRDHARI SINGH BANKAWAT	01-04-2012
1757	JC 470102F	SUB	HAR CHAND	01-04-2012
1758	JC 470057A	SUB	JAGDISH SINGH CHOUHAN	01-08-2012
1759	JC 470200F	SUB	JAI VIR SINGH RANA	01-08-2012
1760	JC 470009A	SUB	JORAWER SINGH CHOUHAN	01-06-2012
1761	JC 470063N	SUB	KALU SINGH	01-02-2012
1762	JC 470067K	SUB	KARANBIR SINGH	01-08-2012
1763	JC 469351N	SUB	KESHAR SINGH	01-08-2012
1764	JC 470034Y	SUB	LAIK AHMED	01-03-2012
1765	JC 469731M	SUB	MANGU SINGH	01-07-2012
1766	JC 469331A	SUB	MANGU SINGH	01-05-2012
1767	JC 469909X	SUB	MILAP CHAND	01-07-2012
1768	JC 470010P	SUB	MOHAN PAL	01-02-2012
1769	JC 470228F	SUB	NARENDRA SINGH	01-02-2012
1770	JC 469987P	SUB	PADAM SINGH	01-07-2012
1771	JC 470280K	SUB	PAIM SINGH	01-02-2012
1772	JC 469097P	SUB	PURAN SINGH	01-04-2012
1773	JC 470039X	SUB	RAM NIWAS	01-06-2012
1774	JC 469147P	SUB	RAM PAL SINGH	01-04-2012
1775	JC 470269L	SUB	RAM SWAROOP YADAV	01-07-2012
1776	JC 469832A	SUB	RAMESHWAR	01-04-2012
1777	JC 470220P	SUB	RAMESHWAR LAL	01-05-2012
1778	JC 469673N	SUB	SANTA SHARAN TIWARI	01-03-2012
1779	JC 469980L	SUB	SARWANN SINGH	01-06-2012
1780	JC 470080N	SUB	SATISH KUMAR	01-08-2012
1781	JC 470160L	SUB	SATNARAIN	01-05-2012
1782	JC 470035F	SUB	SATYAWAN	01-06-2012
1783	JC 470355W	SUB	SHIV SINGH	01-08-2012
1784	JC 469903W	SUB	SUMER SINGH	01-02-2012
1785	JC 469910M	SUB	SURESH KUMAR	01-07-2012
1786	JC 470132Y	SUB	UDAI SINGH	01-02-2012
1787	JC 469748A	SUB	UDAIBIR SINGH	01-04-2012
1788	JC 470114W	SUB	UGAM SINGH	01-07-2012
1789	JC 469904Y	SUB	VASU DEV	01-03-2012
1790	JC 469920W	SUB	YOGENDRA SINGH	01-08-2012

**THE RAJPUT REGIMENT**

1791	JC 480172N	SUB	ALFU	01-03-2012
1792	JC 479862L	SUB	ANANT RAM	01-03-2012
1793	JC 479986A	SUB	ARJUN	01-02-2012
1794	JC 479459Y	SUB	ASHOK KUMAR	01-08-2012
1795	JC 479657K	SUB	ATAR SINGH GURJAR	01-03-2012

1796	JC 479842X	SUB	BALBIR SINGH	01-02-2012
1797	JC 479955A	SUB	BASUDEB GHOSH	01-05-2012
1798	JC 479640W	SUB	BHIM SEN SINGH	01-03-2012
1799	JC 479965K	SUB	BHIM SINGH SHEKHAWAT	01-07-2012
1800	JC 479941A	SUB	BHURI SINGH	01-02-2012
1801	JC 479093M	SUB	BIRENDRA SINGH CHAUHAN	01-05-2012
1802	JC 479433K	SUB	CHATRA RAM	01-08-2012
1803	JC 479927N	SUB	DEEN DAYAL	01-08-2012
1804	JC 479967P	SUB	DEWI SINGH PATAWAT	01-08-2012
1805	JC 479767Y	SUB	DHAN SINGH	01-02-2012
1806	JC 479646X	SUB	DHARAM PAL	01-03-2012
1807	JC 479620H	SUB	DHARAM SINGH	01-04-2012
1808	JC 479512X	SUB	GAJRAJ SINGH BISHT	01-04-2012
1809	JC 479714A	SUB	GORDHAN LAL GUJAR	01-05-2012
1810	JC 479793A	SUB	HARI BABU SINGH	01-02-2012
1811	JC 479348F	SUB	JAGROOP SINGH PARIHAR	01-06-2012
1812	JC 479882Y	SUB	JOG SINGH BHATI	01-05-2012
1813	JC 479859L	SUB	JOGINDER SINGH	01-05-2012
1814	JC 480114K	SUB	KRISHAN PAL SINGH	01-04-2012
1815	JC 479318K	SUB	KUBER SINGH KUSHWAHA	01-05-2012
1816	JC 479364Y	SUB	LAL CHAND GUJAR	01-07-2012
1817	JC 478864K	SUB	MAHABIR PRASAD	01-03-2012
1818	JC 479918M	SUB	MUNNA LAL	01-08-2012
1819	JC 479929Y	SUB	OM PARKASH	01-06-2012
1820	JC 479674K	SUB	PRADIP KUMAR	01-07-2012
1821	JC 479808X	SUB	PRAHLAD SINGH	01-02-2012
1822	JC 479983M	SUB	PREMESWAR NATH	01-03-2012
1823	JC 479365F	SUB	RAJ KUMAR SINGH	01-05-2012
1824	JC 479807P	SUB	RAJBIR	01-05-2012
1825	JC 479357H	SUB	RAJENDER KUMAR	01-03-2012
1826	JC 480041H	SUB	RAM KISHAN YADAV	01-03-2012
1827	JC 479804F	SUB	RAM KISHORE	01-04-2012
1828	JC 479780H	SUB	RAM PHAL SINGH	01-05-2012
1829	JC 480035P	SUB	RAM SINGH	01-06-2012
1830	JC 479875H	SUB	RICHPAL SINGH	01-08-2012
1831	JC 479847W	SUB	SATISH KUMAR SHARMA	01-08-2012
1832	JC 479665H	SUB	SHAYAM LAL	01-05-2012
1833	JC 479542W	SUB	SRI MAN	01-07-2012
1834	JC 479794H	SUB	SRI PAL SINGH	01-03-2012
1835	JC 479669Y	SUB	SUBASH SINGH	01-08-2012
1836	JC 479814L	SUB	SUMER SINGH	01-03-2012
1837	JC 479830H	SUB	SUMER SINGH	01-02-2012
1838	JC 480123L	SUB	SUNIL KUMAR MONDAL	01-03-2012
1839	JC 479724K	SUB	SURESH SINGH	01-07-2012
1840	JC 479872P	SUB	TAUHID HUSSAIN	01-05-2012
1841	JC 479895W	SUB	UDAIBIR SINGH	01-08-2012
1842	JC 479574Y	SUB	UMESH SINGH SOLANKI	01-03-2012
1843	JC 479864W	SUB	VASU DEV	01-02-2012
1844	JC 479786K	SUB	VISHAL SINGH INDA	01-06-2012
1845	JC 480192F	SUB	YUNAS KHAN	01-08-2012
1846	JC 480034M	SUB	ZAMIL AHMED	01-04-2012



**THE JAT REGIMENT**

1847	JC 490062M	SUB	AMAR BHATNAGAR	01-04-2012
1848	JC 489633N	SUB	AMAR SINGH	01-03-2012
1849	JC 489916P	SUB	ANDARAM JAT GORA	01-03-2012
1850	JC 489544P	SUB	BALSHER	01-02-2012
1851	JC 489457F	SUB	BANWARI LAL JAT	01-03-2012
1852	JC 490163A	SUB	BISHNU CHARAN MOHANTY	01-07-2012
1853	JC 489696W	SUB	CHANDAN SINGH	01-03-2012
1854	JC 489822X	SUB	CHUTRA RAM	01-07-2012
1855	JC 489728N	SUB	DEVKI NANDAN SINGH	01-03-2012
1856	JC 489967H	SUB	DINESH CHANDRA YADAV	01-03-2012
1857	JC 489829F	SUB	DURGA RAM	01-06-2012
1858	JC 489982X	SUB	GIRDHARI LAL	01-03-2012
1859	JC 489226L	SUB	HANS RAJ SINGH	01-04-2012
1860	JC 489624M	SUB	HARJEET	01-02-2012
1861	JC 489545X	SUB	JAGDISH PRASAD	01-02-2012
1862	JC 489950P	SUB	JAGGU RAM JHAJHARIA	01-08-2012
1863	JC 489575P	SUB	KISHAN LAL	01-04-2012
1864	JC 489766K	SUB	KUNWAR SINGH SINSINWAR	01-06-2012
1865	JC 489924N	SUB	MAHAVIR PRASAD	01-06-2012
1866	JC 489832F	SUB	MAHENDER SINGH	01-08-2012
1867	JC 489532A	SUB	OM PARKASH	01-05-2012
1868	JC 489688X	SUB	PADAM SINGH	01-06-2012
1869	JC 490025Y	SUB	PHOOL SINGH	01-06-2012
1870	JC 489743H	SUB	PREM SINGH GUJAR	01-02-2012
1871	JC 489830W	SUB	RAJ PAL	01-06-2012
1872	JC 489538F	SUB	RAJPAL SINGH	01-04-2012
1873	JC 489825L	SUB	RAJVIR SINGH	01-03-2012
1874	JC 490143M	SUB	RAMESH KUMAR	01-07-2012
1875	JC 489804P	SUB	RAMESHWAR LAL JAT	01-05-2012
1876	JC 489418H	SUB	RANJIT SINGH	01-03-2012
1877	JC 489305A	SUB	ROY CHERIAN	01-08-2012
1878	JC 489566N	SUB	SHRI BHAGWAN	01-08-2012
1879	JC 490055W	SUB	SHRI RAM	01-08-2012
1880	JC 489915M	SUB	SUBHASH CHAND	01-05-2012
1881	JC 490080P	SUB	SURESH KUMAR	01-06-2012
1882	JC 490036L	SUB	VED PAL SINGH	01-04-2012
1883	JC 489988Y	SUB	VINOD KUMAR	01-07-2012
1884	JC 489662H	SUB	VIRENDER SINGH	01-02-2012
1885	JC 489720F	SUB	VIRENDER SINGH	01-02-2012

**THE SIKH REGIMENT**

1886	JC 499239W	SUB	AVTAR SINGH	01-02-2012
1887	JC 499288Y	SUB	BABU LAL	01-05-2012
1888	JC 499548Y	SUB	BALBIR SINGH	01-03-2012
1889	JC 499725N	SUB	BALBIR SINGH	01-06-2012
1890	JC 499553K	SUB	BALWINDER SINGH	01-05-2012
1891	JC 499032W	SUB	CHUKKA DAVEEDU RAJU	01-07-2012
1892	JC 498539L	SUB	G HAR SINGH	01-04-2012
1893	JC 498722N	SUB	HAKIM SINGH	01-03-2012

1894	JC 499138H	SUB	JAGSIR SINGH	01-05-2012
1895	JC 499244F	SUB	JAMIT SINGH	01-05-2012
1896	JC 499281P	SUB	JARNAIL SINGH	01-05-2012
1897	JC 498808M	SUB	JASPAL SINGH	01-03-2012
1898	JC 499299L	SUB	KAPOOR SINGH	01-06-2012
1899	JC 499190L	SUB	KULDIP SINGH	01-06-2012
1900	JC 499064Y	SUB	MAKHAN SINGH	01-05-2012
1901	JC 499730Y	SUB	MOHABAT SINGH	01-05-2012
1902	JC 498922K	SUB	MUKHTIAR SINGH	01-08-2012
1903	JC 498949F	SUB	NIRMAL SINGH	01-03-2012
1904	JC 498848N	SUB	PRITAM SINGH	01-06-2012
1905	JC 499341Y	SUB	PURAN SINGH	01-05-2012
1906	JC 499008A	SUB	RATTAN SINGH	01-02-2012
1907	JC 499146F	SUB	SARBJIT SINGH	01-08-2012
1908	JC 499250P	SUB	SATNAM SINGH	01-06-2012
1909	JC 499130W	SUB	SUKHCHAIN SINGH	01-04-2012

**THE SIKH LIGHT INFANTRY**

1910	JC 508907L	SUB	BALBIR SINGH	01-02-2012
1911	JC 509315N	SUB	BALVIR SINGH	01-02-2012
1912	JC 509423X	SUB	DALIP SINGH	01-06-2012
1913	JC 509418M	SUB	DHARAM PAL	01-02-2012
1914	JC 508742X	SUB	DHARAM PAL SINGH	01-02-2012
1915	JC 508790X	SUB	HARENDRA PRATAP SINGH	01-04-2012
1916	JC 509189M	SUB	INDERJIT SINGH	01-02-2012
1917	JC 509317Y	SUB	JAGTAR SINGH	01-03-2012
1918	JC 509394N	SUB	KULDIP SINGH	01-06-2012
1919	JC 509164A	SUB	LACHHMAN SINGH	01-03-2012
1920	JC 508668F	SUB	LAKHWINDER SINGH	01-02-2012
1921	JC 508783F	SUB	MANMOHAN SINGH	01-04-2012
1922	JC 508942N	SUB	MOHINDER SINGH	01-05-2012
1923	JC 509283W	SUB	PIRTHIPAL SINGH	01-02-2012
1924	JC 508708X	SUB	RESHAM SINGH	01-02-2012
1925	JC 509312A	SUB	SATBIR SINGH	01-04-2012
1926	JC 509357A	SUB	SEWA SINGH	01-03-2012
1927	JC 509126K	SUB	SUKHVIR SINGH	01-02-2012
1928	JC 509700X	SUB	SUKHWINDER SINGH	01-06-2012
1929	JC 508996P	SUB	SURINDER PAL SINGH	01-04-2012
1930	JC 509118L	SUB	TARLOCHAN SINGH	01-07-2012
1931	JC 509771Y	SUB	TEJWANT SINGH	01-06-2012

**THE DOGRA REGIMENT**

1932	JC 520565P	SUB	AVTAR SINGH	01-07-2012
1933	JC 520508N	SUB	BALBIR SINGH	01-05-2012
1934	JC 520015M	SUB	BALBIR SINGH	01-07-2012
1935	JC 520128P	SUB	BALKAR SINGH	01-06-2012
1936	JC 520688F	SUB	BHAGWAN DASS	01-08-2012
1937	JC 520592Y	SUB	BIDHI CHAND	01-02-2012
1938	JC 520470P	SUB	BIRBAL, SM	01-02-2012
1939	JC 520654N	SUB	BUDHI SINGH	01-08-2012
1940	JC 520252W	SUB	C MARIA VILMUT	01-06-2012

1941	JC 520078P	SUB	CHIMAN SINGH	01-04-2012
1942	JC 520540H	SUB	DARSHAN KUMAR	01-02-2012
1943	JC 520674F	SUB	DAVINDER SINGH	01-07-2012
1944	JC 520505A	SUB	DHARAM PAL	01-02-2012
1945	JC 520200A	SUB	HUKAM CHAND	01-07-2012
1946	JC 520064P	SUB	JANAK RAJ	01-04-2012
1947	JC 520026Y	SUB	JOGINDER SINGH BHURIA	01-02-2012
1948	JC 520552X	SUB	KARNAIL SINGH	01-02-2012
1949	JC 520415Y	SUB	KARTAR CHAND	01-03-2012
1950	JC 520348Y	SUB	KARTAR SINGH	01-02-2012
1951	JC 520805F	SUB	KASTURI LAL	01-07-2012
1952	JC 520315N	SUB	KHEM CHAND	01-02-2012
1953	JC 520071L	SUB	KULDEEP SINGH CHAUHAN	01-04-2012
1954	JC 520259A	SUB	KULDIP CHAND	01-02-2012
1955	JC 520676M	SUB	MAHENDAR SINGH	01-07-2012
1956	JC 520290M	SUB	MAHINDER SINGH	01-03-2012
1957	JC 520201H	SUB	MASTAN SINGH	01-05-2012
1958	JC 520019H	SUB	MEHAR CHAND	01-04-2012
1959	JC 520564M	SUB	MOHINDER SINGH	01-06-2012
1960	JC 520207K	SUB	NAGENDRA SINGH	01-03-2012
1961	JC 520029M	SUB	NARESH CHAND SHARMA	01-03-2012
1962	JC 520227X	SUB	NEK RAM	01-04-2012
1963	JC 520114P	SUB	NIRMAL SINGH	01-02-2012
1964	JC 520675K	SUB	OM PRAKASH	01-05-2012
1965	JC 519981M	SUB	PARBHAT CHAND	01-04-2012
1966	JC 520330H	SUB	PRATAP CHAND	01-07-2012
1967	JC 520043Y	SUB	PRATAP SINGH	01-04-2012
1968	JC 520444N	SUB	PREM CHAND	01-04-2012
1969	JC 520593F	SUB	PUNJAB SINGH PARSHER	01-02-2012
1970	JC 520439H	SUB	RAJ PAL SINGH	01-04-2012
1971	JC 520698L	SUB	RAM KUMAR	01-05-2012
1972	JC 520121L	SUB	RAM PARSHAD	01-04-2012
1973	JC 520692K	SUB	RAM PAUL	01-03-2012
1974	JC 520326A	SUB	RAM SEN	01-02-2012
1975	JC 520148H	SUB	RAMESH KUMAR	01-02-2012
1976	JC 520471X	SUB	RATTAN LAL	01-02-2012
1977	JC 520113M	SUB	RATTAN LAL	01-02-2012
1978	JC 520506H	SUB	ROMESH SINGH	01-03-2012
1979	JC 520418M	SUB	RUP LAL	01-07-2012
1980	JC 520520P	SUB	SHAKTI SINGH	01-07-2012
1981	JC 520139F	SUB	SHURBIR SINGH	01-03-2012
1982	JC 520625Y	SUB	SITA RAM	01-02-2012
1983	JC 520123W	SUB	SUDESH KUMAR	01-02-2012
1984	JC 520034X	SUB	SURENDER SINGH CHANDEL	01-04-2012
1985	JC 520580K	SUB	SURESH PAL	01-02-2012
1986	JC 520230X	SUB	SUSHIL KUMAR	01-04-2012
1987	JC 520110Y	SUB	SUSHIL KUMAR	01-02-2012
1988	JC 520351Y	SUB	SWAMI RAM	01-02-2012
1989	JC 520345L	SUB	TARSAIM SINGH	01-05-2012
1990	JC 520131P	SUB	TEJ PAUL RANA	01-02-2012
1991	JC 520703L	SUB	TEJBIR SINGH	01-08-2012

1992	JC 520737Y	SUB	TILAK RAJ	01-03-2012
1993	JC 520579P	SUB	VIJAY KUMAR	01-02-2012
1994	JC 520302W	SUB	VIKRAM SINGH	01-04-2012
1995	JC 519940H	SUB	VIPAN KUMAR	01-04-2012
1996	JC 520701A	SUB	YASH PAUL	01-02-2012

**THE GARHWAL RIFLES**

1997	JC 529065Y	SUB	ASHOK KUMAR	01-04-2012
1998	JC 530219M	SUB	AUTAR SINGH	01-04-2012
1999	JC 530063A	SUB	BALDEV SINGH DOGRA	01-03-2012
2000	JC 529987F	SUB	BHAGAT SINGH	01-07-2012
2001	JC 530217F	SUB	BIJU LAL	01-05-2012
2002	JC 529982H	SUB	BIRENDRA SINGH	01-02-2012
2003	JC 529919N	SUB	CHANDER MANI	01-04-2012
2004	JC 530349P	SUB	CHANDRA SHEKHER KUKRETI	01-04-2012
2005	JC 529912K	SUB	DALBIR SINGH RAWAT	01-08-2012
2006	JC 530320M	SUB	DAYA KISHAN JOSHI	01-04-2012
2007	JC 530115L	SUB	DAYANIDHI MAHANTA	01-08-2012
2008	JC 528827P	SUB	DHIRAJ SINGH	01-04-2012
2009	JC 530514P	SUB	DINESH CHANDRA SINGH	01-05-2012
2010	JC 529942F	SUB	GABAR SINGH	01-05-2012
2011	JC 530039K	SUB	GAJE SINGH	01-07-2012
2012	JC 530324H	SUB	GAJENDRA SINGH	01-07-2012
2013	JC 530183Y	SUB	GAJENDRA SINGH	01-04-2012
2014	JC 530342L	SUB	GOPAL SINGH CHAUHAN	01-06-2012
2015	JC 530252K	SUB	GUNA NAND	01-04-2012
2016	JC 529689L	SUB	HANS RAM	01-04-2012
2017	JC 529774N	SUB	HARI SINGH NEGI	01-05-2012
2018	JC 530018N	SUB	HIRA SINGH	01-07-2012
2019	JC 530084W	SUB	IMAN SINGH	01-04-2012
2020	JC 530385A	SUB	JAGADEEP SINGH RAWAT	01-08-2012
2021	JC 530107M	SUB	JAI SINGH	01-04-2012
2022	JC 530043M	SUB	JAIPAL SINGH	01-07-2012
2023	JC 529873W	SUB	JASPAL SINGH	01-08-2012
2024	JC 530406L	SUB	KALAM SINGH	01-05-2012
2025	JC 529886N	SUB	KAMLA PATI	01-04-2012
2026	JC 530438N	SUB	KESHWA NAND	01-07-2012
2027	JC 530054Y	SUB	KULDEEP KUMAR	01-07-2012
2028	JC 529685P	SUB	LAXMAN SINGH	01-04-2012
2029	JC 530526K	SUB	MAHABEER SINGH	01-08-2012
2030	JC 530117W	SUB	MAHIPAL SINGH	01-08-2012
2031	JC 530298M	SUB	MAKAN SINGH	01-03-2012
2032	JC 529941Y	SUB	MANJEET SINGH	01-07-2012
2033	JC 529641X	SUB	MANWAR SINGH	01-07-2012
2034	JC 529810N	SUB	MOTI SINGH	01-02-2012
2035	JC 529716K	SUB	MUHAKAM SINGH	01-05-2012
2036	JC 530111P	SUB	POORAN SINGH	01-08-2012
2037	JC 530056K	SUB	PRATAP RAM	01-08-2012
2038	JC 529879X	SUB	PREM SINGH	01-04-2012
2039	JC 530148W	SUB	PURAN SINGH	01-02-2012
2040	JC 529975M	SUB	PUSHKAR SINGH	01-04-2012

2041	JC 530527M	SUB	RAJENDRA SINGH	01-08-2012
2042	JC 530214N	SUB	RAJENDRA SINGH RANA	01-06-2012
2043	JC 530017L	SUB	RAJENDRA SINGH RAWAT	01-05-2012
2044	JC 530077A	SUB	RAJESH SINGH	01-04-2012
2045	JC 530265F	SUB	RAM DAYAL SINGH	01-05-2012
2046	JC 530114H	SUB	RAMESH SINGH	01-04-2012
2047	JC 530015A	SUB	RANBEER SINGH	01-08-2012
2048	JC 530253M	SUB	SARAT SINGH NEGI	01-07-2012
2049	JC 530070W	SUB	SATE SINGH	01-08-2012
2050	JC 530090K	SUB	SATENDRA SINGH	01-04-2012
2051	JC 529944M	SUB	SATESH CHANDRA	01-06-2012
2052	JC 530430F	SUB	SATYE SINGH	01-06-2012
2053	JC 530423L	SUB	SHEESHPAL SINGH	01-08-2012
2054	JC 529890W	SUB	SHIV CHARAN	01-06-2012
2055	JC 530093X	SUB	SOBAN SINGH	01-08-2012
2056	JC 530366P	SUB	SUDAN SINGH	01-06-2012
2057	JC 530094A	SUB	SUJAN SINGH	01-08-2012
2058	JC 529633Y	SUB	SURBIR SINGH	01-05-2012
2059	JC 530488Y	SUB	SURENDAR SINGH	01-08-2012
2060	JC 530026M	SUB	SURENDRA SINGH	01-03-2012
2061	JC 530100H	SUB	TAJBAR SINGH	01-07-2012
2062	JC 530036W	SUB	TAJWAR SINGH	01-07-2012
2063	JC 529924Y	SUB	TEK CHAND	01-05-2012
2064	JC 529798X	SUB	THAKUR SINGH	01-02-2012
2065	JC 530462K	SUB	VIKRAM SINGH	01-07-2012
2066	JC 530200N	SUB	YASHBIR SINGH	01-06-2012
2067	JC 530417X	SUB	YOGENDRA SINGH NEGI	01-06-2012
2068	JC 529925F	SUB	YUDHVIR SINGH RAWAT	01-06-2012

**THE KUMAON REGIMENT**

2069	JC 539883N	SUB	AMAR SINGH	01-08-2012
2070	JC 539816H	SUB	AMAR SINGH	01-08-2012
2071	JC 540204X	SUB	ANAND PAL SINGH	01-02-2012
2072	JC 539699H	SUB	ARVIND KUMAR SHARMA	01-03-2012
2073	JC 540281M	SUB	BACHI RAM	01-07-2012
2074	JC 539601K	SUB	BACHI RAM	01-04-2012
2075	JC 540325Y	SUB	BALWANT SINGH	01-03-2012
2076	JC 540059L	SUB	BALWANT SINGH	01-05-2012
2077	JC 540147F	SUB	BHUPAL SINGH BISHT	01-07-2012
2078	JC 540273N	SUB	CHANCHAL SINGH	01-03-2012
2079	JC 539785N	SUB	CHANDAN SINGH	01-04-2012
2080	JC 539895H	SUB	CHANDER SINGH	01-08-2012
2081	JC 539927A	SUB	DHAN SINGH	01-08-2012
2082	JC 539827P	SUB	DINESH SINGH CHAMYAL	01-02-2012
2083	JC 540373Y	SUB	DIWAN SINGH MAHARA	01-07-2012
2084	JC 540608A	SUB	GOPAL SINGH	01-07-2012
2085	JC 540372W	SUB	GOPAL SINGH	01-06-2012
2086	JC 540341W	SUB	GOVIND SINGH	01-03-2012
2087	JC 539558N	SUB	HARI NANDAN	01-04-2012
2088	JC 539652X	SUB	HARI SINGH	01-06-2012
2089	JC 539770L	SUB	HARISH CHANDRA KAPRI	01-08-2012

2090	JC 539956P	SUB	HEM LAL SAH	01-05-2012
2091	JC 540240H	SUB	JASWANT SINGH	01-02-2012
2092	JC 539749H	SUB	KAILASH CHANDRA	01-02-2012
2093	JC 540359M	SUB	KAMAN SINGH	01-06-2012
2094	JC 539928H	SUB	KARAN SINGH	01-06-2012
2095	JC 539983Y	SUB	KEDAR SINGH RANSWAL	01-07-2012
2096	JC 540054M	SUB	KESHAR SINGH	01-04-2012
2097	JC 539929L	SUB	KHARAK SINGH MATHWAL	01-02-2012
2098	JC 539691W	SUB	LAL CHAND YADAV	01-07-2012
2099	JC 540235X	SUB	LAL SINGH	01-08-2012
2100	JC 540032N	SUB	LAXMAN SINGH	01-04-2012
2101	JC 540228F	SUB	NANDAN SINGH	01-03-2012
2102	JC 540218X	SUB	NARAYAN CHAND	01-04-2012
2103	JC 540223H	SUB	NARENDER SINGH DAPHATI	01-02-2012
2104	JC 539704H	SUB	PRITHVI RAJ RAUTELA	01-04-2012
2105	JC 539566M	SUB	PURAN CHANDRA PANDEY	01-03-2012
2106	JC 539735H	SUB	RAJENDER SINGH RANA	01-04-2012
2107	JC 540269L	SUB	RAJENDRA SINGH	01-02-2012
2108	JC 539854Y	SUB	RAM KISHOR	01-06-2012
2109	JC 539374P	SUB	RAM SINGH	01-04-2012
2110	JC 539524A	SUB	RAMESH CHANDER JOSHI	01-04-2012
2111	JC 540270A	SUB	RAMESH RAM	01-02-2012
2112	JC 540230Y	SUB	RAMESH SINGH	01-02-2012
2113	JC 539713K	SUB	SHAMSHER SINGH	01-05-2012
2114	JC 540495H	SUB	SHER SINGH	01-06-2012
2115	JC 539991X	SUB	SHYAM SINGH RAWAT	01-06-2012
2116	JC 539976H	SUB	SRI RAM	01-04-2012
2117	JC 539905F	SUB	UMMED SINGH	01-08-2012
2118	JC 539503K	SUB	YOGENDER SINGH KIRLAULA	01-04-2012

**THE ASSAM REGIMENT**

2119	JC 549401F	SUB	ANAND RAI	01-02-2012
2120	JC 549546M	SUB	ANATH BANDHU KOCH	01-07-2012
2121	JC 549397K	SUB	ASWINI KUMAR DEB BARMA	01-02-2012
2122	JC 549371P	SUB	ATUL SINHA	01-03-2012
2123	JC 549273P	SUB	BHIM BAHADUR THAPA	01-06-2012
2124	JC 549423A	SUB	BIJU KR DAS	01-02-2012
2125	JC 549220W	SUB	CHINKHANMANG PAITE	01-03-2012
2126	JC 548793N	SUB	CHITTRANJAN HAJONG	01-07-2012
2127	JC 549424H	SUB	DEBA KANTA KALITA	01-02-2012
2128	JC 549028M	SUB	DIPAK BORAH	01-03-2012
2129	JC 549018H	SUB	DIPAK CH GAYAN	01-04-2012
2130	JC 549434M	SUB	DURGA BAHADUR THAPA	01-03-2012
2131	JC 549161P	SUB	GENA H GANGTE	01-06-2012
2132	JC 549436X	SUB	HAOSEI KIPGEN	01-06-2012
2133	JC 549561F	SUB	HAREN BORA	01-05-2012
2134	JC 549447K	SUB	HEM CHANDRA NATH	01-02-2012
2135	JC 549144P	SUB	HEM KUMAR THAPA	01-08-2012
2136	JC 549486H	SUB	HEMA KANT BORA	01-02-2012
2137	JC 548921A	SUB	HIRONMAY SINHA	01-06-2012
2138	JC 549170W	SUB	INDER SINGH	01-04-2012

2139	JC 549310X	SUB	JANGA BAHADUR THAPA	01-08-2012
2140	JC 549355X	SUB	JIT BAHADUR DARJEE	01-06-2012
2141	JC 549390A	SUB	KALI DAS SINGHA	01-04-2012
2142	JC 549457N	SUB	KANENDRA BASUMATARY	01-06-2012
2143	JC 549143M	SUB	KEDAR BHUJEL	01-05-2012
2144	JC 548734F	SUR	KHADGA BAHADUR GURUNG	01-06-2012
2145	JC 549432F	SUB	KUMAR MAGAR	30-01-2012
2146	JC 549258A	SUB	KUNJADHAN SINGHA	01-03-2012
2147	JC 549055W	SUB	LALIT ALEY	01-04-2012
2148	JC 549251W	SUB	MUNA CHIRU	01-04-2012
2149	JC 549287P	SUB	NANDA KISHORE RAJBONGSHI	01-06-2012
2150	JC 549159X	SUB	O KUNJA BABU SINGHA	01-03-2012
2151	JC 549133H	SUB	PUSPALAL BHATTARAI	01-02-2012
2152	JC 549559K	SUB	RADHA MOHAN RAJBONGSHI	01-06-2012
2153	JC 549426N	SUB	RAM BAHADUR THAPA	01-02-2012
2154	JC 549481K	SUB	RAM BAHADUR THAPA	01-03-2012
2155	JC 549279W	SUB	RANJIT DEORAJA	01-03-2012
2156	JC 549556W	SUB	SELZALIEN	01-06-2012
2157	JC 549126M	SUB	SHAM SHER SINGH	01-04-2012
2158	JC 549057F	SUB	SHYAMAL CHANDRA PAUL	01-06-2012
2159	JC 549329W	SUB	SUDHAN CHANDRA DEB BARMA	01-02-2012
2160	JC 549295N	SUB	T SANPEMO LOTHIA	01-06-2012
2161	JC 549202N	SUB	USIT CH PATAR	01-03-2012
2162	JC 549038W	SUB	WARLING SANGMA	01-03-2012

**THE BIHAR REGIMENT**

2163	JC 559990W	SUB	AJAY PANDEY	01-07-2012
2164	JC 559092X	SUB	AKSHAY KUMAR LENKA	01-07-2012
2165	JC 559787A	SUB	ANIL KUMAR	01-04-2012
2166	JC 559421H	SUB	ANIL KUMAR ANAL	01-04-2012
2167	JC 559959K	SUB	ASHOK KUMAR	01-04-2012
2168	JC 559572F	SUB	ASHOK KUMAR SINGH	01-02-2012
2169	JC 559940L	SUB	ASHOK KUMAR SINHA	01-02-2012
2170	JC 559711A	SUB	BAPAN SINGH	01-05-2012
2171	JC 559785P	SUB	BASHISHT NARAYAN SINGH	01-05-2012
2172	JC 559817M	SUB	BIJAYA KUMAR SUBUDHI	01-06-2012
2173	JC 559484L	SUB	BINAY KUMAR SINGH	01-04-2012
2174	JC 559630A	SUB	BIRSA LOHRA	01-02-2012
2175	JC 559463P	SUB	BIRUAL KISPATTA	01-03-2012
2176	JC 559475K	SUB	BRAHMDEO PRASAD	01-05-2012
2177	JC 558324Y	SUB	CHAKRADHAR DEOGAM	01-04-2012
2178	JC 559262W	SUB	CHAKRADHAR MEHTA	01-04-2012
2179	JC 559670F	SUB	CHANDRA SHEKHAR SINGH	01-06-2012
2180	JC 559730L	SUB	CHANDRIKA YADAV	01-04-2012
2181	JC 559253P	SUB	DAMU PURTY	01-06-2012
2182	JC 559777W	SUB	DILESHWAR RAI	01-02-2012
2183	JC 559476M	SUB	DINA NATH SINGH	01-04-2012
2184	JC 559899A	SUB	DIP LAKRA	01-08-2012
2185	JC 559489K	SUB	DOMAN LAKADA	01-08-2012
2186	JC 559242H	SUB	DULAR DUNG DUNG	01-06-2012
2187	JC 559111X	SUB	HARE KRISHNA KHILAR	01-04-2012

2188	JC 559715W	SUB	HEMANTA KUMAR MAJHI	01-07-2012
2189	JC 559733Y	SUB	HIRA LAL	01-02-2012
2190	JC 559483H	SUB	JAY PRAKASH MEHTA	01-04-2012
2191	JC 559235M	SUB	JITRAY MARNDI	01-08-2012
2192	JC 559485N	SUB	JOGENDRA PRASAD	01-04-2012
2193	JC 559440N	SUB	K DHURAMA RAO DORA	01-07-2012
2194	JC 559316M	SUB	KRUSHNA CHANDRA NAYAK	01-04-2012
2195	JC 559835P	SUB	LAKSHMAN SINGH	01-06-2012
2196	JC 559226L	SUB	LALAN SINGH	01-04-2012
2197	JC 559446P	SUB	LALINDRA XALXO	01-08-2012
2198	JC 559356N	SUB	LALIT KUMAR KISPOTTA	01-08-2012
2199	JC 558946A	SUB	LINUS KHES	01-03-2012
2200	JC 559588M	SUB	LOHRA TIRKEY	01-05-2012
2201	JC 558975P	SUB	MAHENDRA KUMAR GIDHI	01-06-2012
2202	JC 559577A	SUB	MAHENDRA PANDEY	01-06-2012
2203	JC 559855H	SUB	MAHENDRA SINGH	01-06-2012
2204	JC 559355L	SUB	MANOJ KUMAR DEEPAK	01-02-2012
2205	JC 559035W	SUB	MASIH BODRA	01-03-2012
2206	JC 559805X	SUB	MITHLESH KUMAR SINGH	01-08-2012
2207	JC 559368H	SUB	MOTIRAM BARAIK	01-07-2012
2208	JC 559113H	SUB	NABA KISHORE JENA	01-04-2012
2209	JC 559468N	SUB	NABIN PRASAD	01-04-2012
2210	JC 559836X	SUB	NAWLAKH SINGH	01-06-2012
2211	JC 558699X	SUB	PANDUARAM ZERAI	01-08-2012
2212	JC 559520L	SUB	RAM KAILASH PRASAD	01-04-2012
2213	JC 559466H	SUB	RAM KATESH TIWARI	01-08-2012
2214	JC 559600H	SUB	RAM YUGUT PRASAD	01-05-2012
2215	JC 559879M	SUB	RAMESH CHANDRA UPADHYAY	01-07-2012
2216	JC 559826N	SUB	RANJIT KUMAR KHALKHO	01-06-2012
2217	JC 559510F	SUB	RAVINDER PRASAD SHARMA	01-04-2012
2218	JC 559802K	SUB	ROPNA KHARIYA	01-06-2012
2219	JC 558948L	SUB	SANDEEP KALUNDIA	01-07-2012
2220	JC 559597N	SUB	SATRUGHANA SAHOO	01-07-2012
2221	JC 559909Y	SUB	SHASHI BHUSHAN SINGH	01-06-2012
2222	JC 559618Y	SUB	SHIVJI RAI	01-05-2012
2223	JC 559263Y	SUB	SRIRAM HANSDA	01-08-2012
2224	JC 559412F	SUB	SUNIL ORAON	01-05-2012
2225	JC 559608P	SUB	TEJ NARAYAN MAHTO	01-02-2012
2226	JC 559642P	SUB	TURAM HEMBRAM	01-03-2012
2227	JC 559404H	SUB	UDAY KUMAR	01-04-2012
2228	JC 558846P	SUB	UPADHYA PRASAD SINGH	01-04-2012
2229	JC 559933P	SUB	VASHISHTA MUNI PATHAK	01-02-2012
2230	JC 559681N	SUB	VIJAY KUMAR PRASAD	01-03-2012
2231	JC 559895K	SUB	VIKRAMA RAM	01-03-2012
2232	JC 559582L	SUB	YAKUB GURIA	01-08-2012

**THE MAHAR REGIMENT**

2233	JC 569528L	SUB	ANANTA KUMAR PRADHAN	01-02-2012
2234	JC 569661K	SUB	ARUN KUMAR SINGH	01-03-2012
2235	JC 569470Y	SUB	ASHOK KUMAR	01-03-2012
2236	JC 569779P	SUB	BABU K	01-04-2012



2237	JC 569690H	SUB	BAL KISHAN	01-07-2012
2238	JC 569879A	SUB	BALBIR SINGH	01-04-2012
2239	JC 569301X	SUB	BALBIR SINGH	01-06-2012
2240	JC 569780K	SUB	BALKISUN RAM	01-04-2012
2241	JC 569552F	SUB	BALWAN SINGH	01-03-2012
2242	JC 569583F	SUB	BHARAT SINGH	01-07-2012
2243	JC 569480H	SUB	BHIMRAO PANDURANG WAGHMARE	01-06-2012
2244	JC 569809F	SUB	BIJENDER SINGH	01-02-2012
2245	JC 570045P	SUB	BISE PAL	01-03-2012
2246	JC 569487M	SUB	CHAUHAN ARVIND KUMAR RAMU SINH	01-05-2012
2247	JC 569604M	SUB	CHAVAN ANKUSH BABURAO	01-03-2012
2248	JC 569855L	SUB	CHAYAN SINGH	01-03-2012
2249	JC 569663Y	SUB	DAVARE BALASAHEB JANARDAN	01-07-2012
2250	JC 569758Y	SUB	DEVA RAM CHOUDHARY	01-03-2012
2251	JC 569247P	SUB	DHAN DEV	01-05-2012
2252	JC 569643L	SUB	DHARAMBIR	01-06-2012
2253	JC 569974M	SUB	DHARMENDER KUMAR	01-04-2012
2254	JC 569276K	SUB	GAIKWAD GANGADHAR TAYAPPA	01-04-2012
2255	JC 569088H	SUB	GANESH SHRIRAM JADHAV	01-02-2012
2256	JC 569734P	SUB	GIRDHARI SINGH	01-03-2012
2257	JC 569651K	SUB	GIRVER SINGH	01-03-2012
2258	JC 569990K	SUB	GOVIND LAXMAN SHINDE	01-08-2012
2259	JC 569755L	SUB	HANUMAN SINGH CHAUHAN	01-04-2012
2260	JC 569874F	SUB	HARI OM SHARMA	01-04-2012
2261	JC 569726W	SUB	HARISH KUMAR	01-03-2012
2262	JC 569687H	SUB	HAZARI SINGH	01-03-2012
2263	JC 569896A	SUB	JAGDISH	01-06-2012
2264	JC 569857F	SUB	JAIBIR SINGH	01-05-2012
2265	JC 569475X	SUB	JANARDHAN PUNDLIKRAO KAMBLE	01-07-2012
2266	JC 569725N	SUB	KAMAL KUMAR YADAV	01-02-2012
2267	JC 569934L	SUB	KAMALESH CHANDRA BISWAS	01-03-2012
2268	JC 569716M	SUB	KAMLESH BANSI LAL	01-04-2012
2269	JC 569545L	SUB	KAMLESH CHANDRA	01-02-2012
2270	JC 570170K	SUB	KARANDE SUBHASH MARUTI	01-08-2012
2271	JC 569533W	SUB	KARNAIL SINGH	01-02-2012
2272	JC 569968Y	SUB	KRISHAN PAL SINGH	01-06-2012
2273	JC 569128Y	SUB	KULDEEP SINGH	01-05-2012
2274	JC 569620K	SUB	KULVINDER SINGH	01-04-2012
2275	JC 569972F	SUB	KUMAR KADAM PRAKASH BHIMRAO	01-08-2012
2276	JC 569941F	SUB	KUMAR N	01-04-2012
2277	JC 569818H	SUB	LAL MANI	01-04-2012
2278	JC 569756N	SUB	LANDGE MADHUKAR JANARDHAN RAO	01-04-2012
2279	JC 569193Y	SUB	LONDE MADHUKAR BALI	01-07-2012
2280	JC 569263M	SUB	MATHAI P	01-04-2012
2281	JC 569598K	SUB	MATHEW T K	01-04-2012
2282	JC 569765P	SUB	MILIND DOULAT DHARGAVE	01-02-2012
2283	JC 569752X	SUB	MOHAN SINGH	01-03-2012
2284	JC 569814M	SUB	MUKHTIAR SINGH	01-04-2012
2285	JC 569803A	SUB	NARAYAN BEHERA	01-02-2012
2286	JC 569231K	SUB	NARESH PAL	01-03-2012
2287	JC 569778M	SUB	NAZIR HUSSAIN	01-03-2012

2288	JC 569406F	SUB	NIKKA RAM	01-05-2012
2289	JC 569207N	SUB	NOOR MOHAMED	01-07-2012
2290	JC 569929A	SUB	OM PARKASH	01-03-2012
2291	JC 569776F	SUB	OM PRAKASH	01-03-2012
2292	JC 569821H	SUB	PATEL GIRISH KUMAR MULAJI BHAI	01-06-2012
2293	JC 569119X	SUB	PATEL SURESH KUMAR RAVJI BHAI	01-08-2012
2294	JC 569615Y	SUB	PRAFULLA KUMAR BEHERA	01-06-2012
2295	JC 569636P	SUB	PRATAP SINGH	01-03-2012
2296	JC 569913P	SUB	PURUSOTAM BISWAL	01-06-2012
2297	JC 569935N	SUB	PUSHKER SINGH	01-02-2012
2298	JC 570050L	SUB	RAJ KUMAR	01-03-2012
2299	JC 569544H	SUB	RAJ PAL	01-04-2012
2300	JC 569565Y	SUB	RAJ PAL SINGH	01-04-2012
2301	JC 569850X	SUB	RAJBIR SINGH	01-03-2012
2302	JC 569125L	SUB	RAJENDRA SINGH	01-04-2012
2303	JC 569967W	SUB	RAJINDER KUMAR RATHORE	01-06-2012
2304	JC 569693W	SUB	RAJINDER SINGH	01-04-2012
2305	JC 569893M	SUB	RAM AVTAR	01-06-2012
2306	JC 570033L	SUB	RAM CHANDRA SINGH	01-06-2012
2307	JC 569500L	SUB	RAM KUMAR TAMONG	01-07-2012
2308	JC 569873Y	SUB	RAM RAJ	01-04-2012
2309	JC 569354W	SUB	RAMADHAR NAROTTAM TEMBHURKAR	01-02-2012
2310	JC 569798A	SUB	RAMJEE	01-04-2012
2311	JC 569652M	SUB	ROOP RAM	01-07-2012
2312	JC 569033Y	SUB	ROSHAN LAL	01-06-2012
2313	JC 569858K	SUB	ROSHAN LAL	01-05-2012
2314	JC 569143N	SUB	SANTA BAHADUR PRADHAN	01-07-2012
2315	JC 569782P	SUB	SARDUL SINGH	01-05-2012
2316	JC 570030X	SUB	SATBIR SINGH	01-03-2012
2317	JC 569452N	SUB	SHINE P MATHEW	01-03-2012
2318	JC 569735X	SUB	SHISHU PAL SINGH	01-03-2012
2319	JC 569309K	SUB	SIVADASAN K S	01-04-2012
2320	JC 569571M	SUB	SUBHASH CHANDRA	01-04-2012
2321	JC 569675N	SUB	SUKHVIR	01-04-2012
2322	JC 569454F	SUB	SUMANTA KUMAR NAYAK	01-04-2012
2323	JC 569347A	SUB	SUMER SINGH	01-04-2012
2324	JC 569206L	SUB	SUNNICHAN K S	01-02-2012
2325	JC 569649M	SUB	SURENDRA NATH NAYAK	01-05-2012
2326	JC 569775Y	SUB	SURESH RAM	01-02-2012
2327	JC 569064Y	SUB	SURESH SANTARAM GOTURE	01-08-2012
2328	JC 568703P	SUB	SURINDER SINGH	01-03-2012
2329	JC 569957M	SUB	TARA CHAND	01-03-2012
2330	JC 569383L	SUB	TAVIAD MANABHAI AKHAMBHAI	01-08-2012
2331	JC 569220X	SUB	THOKALE MURALIDHAR GOVIND	01-08-2012
2332	JC 569910F	SUB	TRINATHA PARIDA	01-06-2012
2333	JC 569971Y	SUB	VIDHYA BHUSHAN	01-04-2012
2334	JC 570060P	SUB	VIRENDER SINGH	01-03-2012
2335	JC 569369Y	SUB	WAGHMARE RAGHUNATH EKNATH	01-02-2012
2336	JC 569237L	SUB	WANKHADE SHIODAS GANPAT	01-02-2012
2337	JC 569872W	SUB	YAD RAM	01-04-2012

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

2338	JC 580620K	SUB	ARUN KUMAR	01-05-2012
2339	JC 580765P	SUB	ASHOK KUMAR	01-02-2012
2340	JC 580774W	SUB	BABU SINGH	01-08-2012
2341	JC 579858X	SUB	BALBIR SINGH	01-03-2012
2342	JC 580554M	SUB	BANWARI LAL	01-02-2012
2343	JC 579869K	SUB	BHUPENDER SINGH	01-02-2012
2344	JC 580335L	SUB	BRIJ LAL	01-08-2012
2345	JC 580557A	SUB	DALBIR SINGH	01-08-2012
2346	JC 580143N	SUB	DALJEET SINGH	01-02-2012
2347	JC 580172H	SUB	DHARM SINGH	01-05-2012
2348	JC 579949F	SUB	DHARPAL SHARMA	01-04-2012
2349	JC 580266X	SUB	DILAWAR SINGH	01-05-2012
2350	JC 579992H	SUB	GULER CHAND	01-08-2012
2351	JC 580561H	SUB	GURNAM SINGH	01-03-2012
2352	JC 580429H	SUB	HARBANS SINGH	01-04-2012
2353	JC 580264P	SUB	INDER SINGH	01-05-2012
2354	JC 580421W	SUB	JAGDISH RAJ	01-03-2012
2355	JC 580231K	SUB	JAGIR SINGH	01-03-2012
2356	JC 580075L	SUB	JAI GOPAL	01-08-2012
2357	JC 580508X	SUB	JAI LAL	01-03-2012
2358	JC 579650P	SUB	JAI PAL	01-03-2012
2359	JC 580197P	SUB	JANGU RAM	01-03-2012
2360	JC 580424K	SUB	JIA LAL	01-02-2012
2361	JC 580810W	SUB	KAMAL SINGH PUNIA	01-08-2012
2362	JC 580085P	SUB	KARAN SINGH CHARAK	01-07-2012
2363	JC 579888P	SUB	KARNAIL SINGH	01-06-2012
2364	JC 580509A	SUB	KEWAL KRISHAN	01-02-2012
2365	JC 580159Y	SUB	KULDEEP KUMAR	01-03-2012
2366	JC 580236H	SUB	KUSAL SINGH	01-04-2012
2367	JC 579980N	SUB	LAXMAN SINGH	01-06-2012
2368	JC 580115F	SUB	MANOHAR LAL	01-08-2012
2369	JC 580662W	SUB	MEHAR CHAND	01-05-2012
2370	JC 580112N	SUB	MOHAN CHAND	01-08-2012
2371	JC 580422Y	SUB	MOHAN LAL	01-03-2012
2372	JC 580111L	SUB	MOHINDER SINGH	01-04-2012
2373	JC 580459A	SUB	MULAKH RAJ	01-02-2012
2374	JC 580894P	SUB	MULKH RAJ	01-08-2012
2375	JC 580549F	SUB	NARINDER PAUL	01-05-2012
2376	JC 579994N	SUB	NIKKA RAM	01-04-2012
2377	JC 580764M	SUB	OM PARKASH	01-02-2012
2378	JC 580183P	SUB	ONKAR CHAND	01-03-2012
2379	JC 580727Y	SUB	PARSHOTAM KUMAR	01-08-2012
2380	JC 579935F	SUB	PAWAN SINGH	01-03-2012
2381	JC 579663M	SUB	RAGHUBIR SINGH	01-06-2012
2382	JC 580538P	SUB	RAJ KUMAR	01-05-2012
2383	JC 580204A	SUB	RAJ KUMAR	01-03-2012
2384	JC 579551M	SUB	RAJINDER SINGH	01-03-2012
2385	JC 580009H	SUB	RAM LAL SHARMA	01-02-2012
2386	JC 580763K	SUB	RANBIR CHAND	01-02-2012

2387	JC 580351H	SUB	RANDHIR SINGH PUNIA	01-06-2012
2388	JC 580275F	SUB	RAVINDER SINGH	01-08-2012
2389	JC 580409P	SUB	SATISH CHAND	01-02-2012
2390	JC 580158W	SUB	SHAM LAL	01-03-2012
2391	JC 580447L	SUB	SHAMSHER SINGH	01-03-2012
2392	JC 580582Y	SUB	SHER BAHADUR THAPA	01-03-2012
2393	JC 579972P	SUB	SUBASH CHANDER	01-03-2012
2394	JC 580314P	SUB	SWAMI RAM	01-02-2012
2395	JC 579654L	SUB	TEK SINGH	01-04-2012
2396	JC 580131Y	SUB	TILAK RAJ	01-03-2012
2397	JC 579889X	SUB	VIRENDRA PAL	01-07-2012
2398	JC 580809F	SUB	YASHPAL SINGH	01-08-2012
2399	JC 580300P	SUB	YOG RAJ	01-02-2012

**THE LADAKH SCOUTS**

2400	JC 588191H	SUB	CHHEWANG DORJE	01-08-2012
2401	JC 588236X	SUB	CHHEWANG NURBU	01-03-2012
2402	JC 588160H	SUB	CHHEWANG SANDUP	01-05-2012
2403	JC 588206A	SUB	DORJE NAMGIAL	01-04-2012
2404	JC 588282M	SUB	NAWANG RIGZIN	01-04-2012
2405	JC 588233K	SUB	PARAS RAM	01-03-2012
2406	JC 588400P	SUB	PHUNCHOK ANGCHOK	01-03-2012
2407	JC 588306L	SUB	PHUNCHOK ANGCHOK	01-08-2012
2408	JC 588238H	SUB	PHUNCHOK DORJE	01-03-2012
2409	JC 588093H	SUB	RAM PUKAR SINGH	01-04-2012
2410	JC 588113L	SUB	SHAM SINGH JAMWAL	01-07-2012
2411	JC 588314K	SUB	SONAM NURBU	01-03-2012
2412	JC 588173A	SUB	SONAM STOBGIAS	01-08-2012
2413	JC 588251M	SUB	STANZIN THANLES	01-04-2012
2414	JC 588112H	SUB	UMESHWAR SINGH	01-05-2012

**THE NAGA REGIMENT**

2415	JC 590151A	SUB	ADANI MAO	01-03-2012
2416	JC 590146P	SUB	ARIYUBA	01-04-2012
2417	JC 590201A	SUB	BHIM BAHADUR GURUNG	01-03-2012
2418	JC 590166H	SUB	BISUE	01-04-2012
2419	JC 590189K	SUB	CHATUR BAHADUR THAPA	01-02-2012
2420	JC 590157F	SUB	KAIKHO ATHISU	01-03-2012
2421	JC 539894A	SUB	MANOHAR SINGH	01-04-2012
2422	JC 590175K	SUB	NAV NEET KUMAR THAPA	01-04-2012
2423	JC 590159M	SUB	SITBAN THANGAL	01-03-2012
2424	JC 590199N	SUB	TEJ BAHADUR CHHETRI	01-02-2012
2425	JC 539724W	SUB	TEJ SINGH KARKI	01-06-2012
2426	JC 590191F	SUB	YANGERLEMBA	01-06-2012

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

2427	JC 593047X	SUB	ASHOK KUMAR	01-08-2012
2428	JC 593362N	SUB	BODH RAJ	01-06-2012
2429	JC 593056Y	SUB	DALEEP SINGH	01-08-2012
2430	JC 592855H	SUB	DHIAN SINGH	01-05-2012
2431	JC 593215L	SUB	GH NABI MIR	01-06-2012

2432	JC 593384M	SUB	HARI KRISHAN KOTWAL	01-08-2012
2433	JC 592829F	SUB	JAGJIT SINGH	01-05-2012
2434	JC 593184W	SUB	JASWANT SINGH	01-02-2012
2435	JC 593300N	SUB	KALI DASS	01-07-2012
2436	JC 593366K	SUB	KARAN SINGH	01-08-2012
2437	JC 593146A	SUB	KARM SINGH	01-08-2012
2438	JC 592901M	SUB	KEWAL KRISHAN	01-07-2012
2439	JC 593196L	SUB	KHALIL AHMED	01-07-2012
2440	JC 592873L	SUB	MADAN LAL	01-08-2012
2441	JC 593147H	SUB	MOHD FAROOQ	01-07-2012
2442	JC 593517X	SUB	NARINDER KUMAR	01-07-2012
2443	JC 593420M	SUB	NAZIR HUSSAIN	01-06-2012
2444	JC 593204Y	SUB	OM PARKASH	01-08-2012
2445	JC 593510N	SUB	PURAN KISHORE	01-05-2012
2446	JC 593319M	SUB	RAJ KUMAR	01-02-2012
2447	JC 593038W	SUB	RAJINDER KUMAR	01-08-2012
2448	JC 593430W	SUB	RAM PAUL	01-04-2012
2449	JC 592816K	SUB	RAVINDRA RAM	01-05-2012
2450	JC 593603H	SUB	SAFIER KHAN	01-07-2012

**1 GORKHA RIFLES**

2451	JC 602666P	SUB	CHARAN SINGH	01-02-2012
2452	JC 602588H	SUB	DIL BAHADUR THAPA	01-05-2012
2453	JC 602637A	SUB	HARSHA BAHADUR GURUNG	01-08-2012
2454	JC 602767H	SUB	HEM BAHADUR GURUNG	01-03-2012
2455	JC 602701M	SUB	HIRA BAHADUR RANA	01-08-2012
2456	JC 602629F	SUB	JAY BAHADUR THAPA	01-08-2012
2457	JC 602593N	SUB	KESHARMAN SHRESTHA	01-06-2012
2458	JC 602636X	SUB	KHADGA BAHADUR THAPA	01-04-2012
2459	JC 602565F	SUB	KRISHNA BAHADUR THAPA	01-04-2012
2460	JC 602571P	SUB	KRISNA BAHADUR PUN	01-06-2012
2461	JC 602559N	SUB	LAL CHAN SHRESTHA	01-06-2012
2462	JC 602664K	SUB	LAXMAN THAPA	01-07-2012
2463	JC 602692W	SUB	MOM BAHADUR THAPA	01-04-2012
2464	JC 602641H	SUB	PADAM BAHADUR THAPA	01-07-2012
2465	JC 602627W	SUB	PRITH LAL BURATHOKI	01-02-2012
2466	JC 602665M	SUB	PURNA BAHADUR BUDHATHOKI	01-07-2012
2467	JC 602738N	SUB	PUSPA BAHADUR GURUNG	01-03-2012
2468	JC 602533Y	SUB	RAM BAHADUR THAPA	01-08-2012
2469	JC 602693Y	SUB	RANA BAHADUR GHALE	01-06-2012
2470	JC 602716P	SUB	SANTA RAM GURUNG	01-02-2012
2471	JC 602497Y	SUB	SUDAM KUMAR PRADHAN	01-08-2012
2472	JC 602594W	SUB	TARA BAHADUR THAPA	01-02-2012
2473	JC 602561L	SUB	TEK BAHADUR DARAI GURUNG	01-04-2012
2474	JC 602585P	SUB	TEK LAL GURUNG	01-05-2012
2475	JC 602686H	SUB	TOL PRASAD RANA	01-08-2012
2476	JC 602631Y	SUB	YAM BAHADUR THAPA	01-08-2012

**3 GORKHA RIFLES**

2477	JC 607588M	SUB	ANANTA BAHADUR THAPA	01-07-2012
2478	JC 607559X	SUB	ANUP KUMAR RANA	01-05-2012

2479	JC 607679W	SUB	BAJRA BAHADUR THAPA	01-05-2012
2480	JC 607698F	SUB	BIMAL KUMAR ROKA	01-08-2012
2481	JC 607494P	SUB	CHANDRA BAHADUR THAPA	01-02-2012
2482	JC 607689A	SUB	DIL BAHADUR PUN	01-02-2012
2483	JC 607595H	SUB	DURGA BAHADUR RANA	01-02-2012
2484	JC 607575P	SUB	HIM BAHADUR GURUNG	01-05-2012
2485	JC 607574M	SUB	ISHOR PRASAD GURUNG	01-04-2012
2486	JC 607522W	SUB	KRISHNA PRASAD GURUNG	01-06-2012
2487	JC 607709H	SUB	LOK BAHADUR GURUNG	01-08-2012
2488	JC 607542H	SUB	MOHAMMAD AHSAN	01-02-2012
2489	JC 607678N	SUB	MUKTA BAHADUR THAPA	01-05-2012
2490	JC 607577A	SUB	PURNA BAHADUR GURUNG	01-06-2012
2491	JC 607521N	SUB	RAM BAHADUR THAPA	01-03-2012
2492	JC 607361Y	SUB	RAM PALTEN PAL	01-07-2012
2493	JC 607576X	SUB	SHREE BAHADUR RANA	01-06-2012

**4 GORKHA RIFLES**

2494	JC 612530Y	SUB	ASH BAHADUR THAPA	01-08-2012
2495	JC 612524L	SUB	BIR BAHADUR GURUNG	01-06-2012
2496	JC 612695X	SUB	DEV RAJ GURUNG	01-08-2012
2497	JC 612538L	SUB	DIL BAHADUR RANA	01-07-2012
2498	JC 612608Y	SUB	HARI BAHADUR GURUNG	01-02-2012
2499	JC 612680P	SUB	KAMAL THAKUR	01-07-2012
2500	JC 612483M	SUB	KRISHNA BAHADUR GURUNG	01-02-2012
2501	JC 612517P	SUB	NANDA BAHADUR THAPA	01-07-2012
2502	JC 612557W	SUB	NIR BAHADUR CHHETRI	01-07-2012
2503	JC 612698L	SUB	RAM BAHADUR THAPA	01-08-2012
2504	JC 612562F	SUB	RAM BAHADUR THAPA	01-06-2012
2505	JC 612531F	SUB	RAVINDRA GURUNG	01-08-2012
2506	JC 612613K	SUB	SARWAN KUMAR	01-03-2012
2507	JC 612414W	SUB	TOP BAHADUR GURUNG	01-06-2012
2508	JC 612621H	SUB	UMA SHANKAR BHARATI	01-04-2012

**5 GORKHA RIFLES**

2509	JC 617785H	SUB	BISHNU BAHADUR THAPA	01-08-2012
2510	JC 617646Y	SUB	FAT BAHADUR CHHANTYAL	01-05-2012
2511	JC 617681F	SUB	GHAN BAHADUR GURUNG	01-06-2012
2512	JC 617697M	SUB	HIRA LAL THAPA	01-08-2012
2513	JC 617649M	SUB	KESH BAHADUR THAPA	01-03-2012
2514	JC 617713Y	SUB	KRISHNA BAHADUR GURUNG	01-03-2012
2515	JC 617419Y	SUB	MOHINDER PAL	01-04-2012
2516	JC 617682K	SUB	PIRTHI BAHADUR PUN	01-07-2012
2517	JC 617670P	SUB	PREM BAHADUR GARBUJA	01-04-2012
2518	JC 617552F	SUB	TEJ BAHADUR THAPA	01-05-2012
2519	JC 617725N	SUB	TIL PRASAD GURUNG	01-05-2012
2520	JC 617404W	SUB	YAM BAHADUR GURUNG	01-03-2012
2521	JC 617632Y	SUB	YUB RAJ GURUNG	01-07-2012

**8 GORKHA RIFLES**

2522	JC 623580K	SUB	BIR BAHADUR PUN	01-08-2012
2523	JC 623586L	SUB	CHIJ KUMAR GURUNG	01-02-2012

2524	JC 623680P	SUB	HARI GHIMIRE	01-07-2012
2525	JC 623592Y	SUB	KHUM BAHADUR THAPA	01-04-2012
2526	JC 623636P	SUB	MAITA SINGH GURUNG	01-05-2012
2527	JC 623467P	SUB	MANOJ KOTNALA	01-07-2012
2528	JC 623630K	SUB	PAHAL SINGH ALE	01-03-2012
2529	JC 623626F	SUB	TUL BAHADUR THAPA	01-04-2012

**9 GORKHA RIFLES**

2530	JC 629681N	SUB	ARJUN BAHADUR KHADKA	01-05-2012
2531	JC 629724X	SUB	BHARAT BAHADUR BHANDARI	01-06-2012
2532	JC 629747Y	SUB	BHIM BAHADUR CHHETRI	01-05-2012
2533	JC 629749K	SUB	BHIM BAHADUR THAPA	01-06-2012
2534	JC 629781Y	SUB	BHIM SEN THAPA	01-06-2012
2535	JC 629684F	SUB	BHUWAN SINGH CHHETRI	01-02-2012
2536	JC 629675A	SUB	CHITRA BAHADUR CHHETRI	01-07-2012
2537	JC 629689A	SUB	DAN BAHADUR KARKI	01-04-2012
2538	JC 629760H	SUB	DHURBA CHHETRI	01-06-2012
2539	JC 629815F	SUB	DILIP CHHETRY	01-07-2012
2540	JC 629764Y	SUB	EMAN SINGH THAPA	01-06-2012
2541	JC 629732W	SUB	GAJENDRA BAHADUR KHATRI CHHETRI	01-07-2012
2542	JC 629561P	SUB	HARI BAHADUR THAPA	01-08-2012
2543	JC 629780W	SUB	HEM RAJ BHANDARI	01-02-2012
2544	JC 629574M	SUB	HIRA BAHADUR GHARTI CHETRI	01-05-2012
2545	JC 629735K	SUB	INDRA BAHADUR BASNET	01-08-2012
2546	JC 629615L	SUB	JAGAT BAHADUR MAHAT	01-02-2012
2547	JC 629733Y	SUB	JATINDRA BAM MALLA	01-02-2012
2548	JC 629804F	SUB	KAMAL DHOJ MALLA	01-07-2012
2549	JC 629761L	SUB	KHEM BAHADUR KC	01-03-2012
2550	JC 629805X	SUB	KHIM BAHADUR THAKURI	01-07-2012
2551	JC 629746W	SUB	KISHAN BAHADUR SHAHI	01-03-2012
2552	JC 629349X	SUB	LAL BAHADUR THAPA	01-05-2012
2553	JC 629664N	SUB	MOHAN BAHADUR SAHI, SM	01-05-2012
2554	JC 629626X	SUB	PADAM BAHADUR KHATRI	01-08-2012
2555	JC 629650N	SUB	PREM BAHADUR GHARTI CHHETRI	01-06-2012
2556	JC 629580A	SUB	PREM BAHADUR SAHI	01-03-2012
2557	JC 629774H	SUB	RAM BAHADUR CHHETRI	01-03-2012
2558	JC 629772X	SUB	RIKHA BAHADUR KHADKA	01-06-2012
2559	JC 629667F	SUB	RUDRA BAHADUR CHHETRY	01-04-2012
2560	JC 629783K	SUB	SHAMBHU BAHADUR CHHETRI	01-08-2012
2561	JC 629468N	SUB	SOBIT BAHADUR KHADKA	01-02-2012
2562	JC 629782F	SUB	THAMAN DHOJ KHAND	01-07-2012
2563	JC 629594A	SUB	TIKA RAM THAPA	01-04-2012
2564	JC 629765F	SUB	TILAK MALLA	01-06-2012
2565	JC 629687F	SUB	TILAK RAM ROKA CHHETRI	01-05-2012
2566	JC 629816K	SUB	TOJENDRA BAHADUR MALLA	01-07-2012
2567	JC 629708A	SUB	YAM BAHADUR KHATTRI	01-05-2012

**11 GORKHA RIFLES**

2568	JC 634601P	SUB	BHARAT MAN RAI	01-08-2012
2569	JC 634650X	SUB	BHOJ KUMAR RAI	01-05-2012
2570	JC 634784W	SUB	BIR BAHADUR TAMANG	01-05-2012

2571	JC 634770W	SUB	CHANDRA BAHADUR RAI	01-08-2012
2572	JC 634764H	SUB	GANGA BAHADUR LIMBU	01-08-2012
2573	JC 634723Y	SUB	GOPAL LIMBU	01-06-2012
2574	JC 634753W	SUB	HARISH PRADHAN	01-07-2012
2575	JC 634730P	SUB	KAMAL KUMAR RAI	01-08-2012
2576	JC 634607W	SUB	KRISHNA BAHADUR PRADHAN	01-08-2012
2577	JC 634615P	SUB	KUL BAHADUR CHHETRI	01-06-2012
2578	JC 634649H	SUB	MAN BAHADUR RAI	01-05-2012
2579	JC 634696A	SUB	NABIN RAI	01-04-2012
2580	JC 634741F	SUB	PASANG TAMANG	01-05-2012
2581	JC 634671N	SUB	RAM PRASAD RAI	01-08-2012
2582	JC 634736W	SUB	RITU RAJ RAI	01-04-2012
2583	JC 634212P	SUB	SAHARJUNG LIMBU	01-08-2012
2584	JC 634228A	SUB	SHAMSHER SINGH	01-08-2012
2585	JC 634790K	SUB	TEK BAHADUR LIMBU	01-07-2012
2586	JC 634701A	SUB	THAGINDER KUMAR SHRESTHA	01-08-2012
2587	JC 634545F	SUB	TUL BAHADUR LIMBU	01-06-2012
2588	JC 634272K	SUB	YOGENDER	01-06-2012

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

2589	JC 642500W	SUB	ABHAY CHARAN MANDAL	01-07-2012
2590	JC 642807F	SUB	ABHAY NATH SINGH YADAV	01-08-2012
2591	JC 664710W	SUB	ABHI RAM GHOSH	01-02-2012
2592	JC 642506X	SUB	ADITYA KUMAR VERMA	01-07-2012
2593	JC 641355X	SUB	AIDAL SINGH	01-04-2012
2594	JC 642259P	SUB	AJAY BAHADUR	01-07-2012
2595	JC 664208F	SUB	AKHILESH KUMAR SINGH	01-07-2012
2596	JC 643053K	SUB	AMAR SINGH	01-03-2012
2597	JC 642070X	SUB	AMAR SINGH	01-02-2012
2598	JC 665186A	SUB	AMATE SABBIR LADALESO	01-04-2012
2599	JC 642822W	SUB	AMRIT LAL	01-07-2012
2600	JC 642376A	SUB	ANUP SINGH DAHIYA	01-04-2012
2601	JC 643018F	SUB	ARJUN SINGH	01-03-2012
2602	JC 643169A	SUB	ASHARPHI LAL	01-04-2012
2603	JC 641353M	SUB	ASHOK KUMAR	01-07-2012
2604	JC 664316L	SUB	ASHOK KUMAR SINGH	01-04-2012
2605	JC 642298N	SUB	ASIM KUMAR BHADURI	01-03-2012
2606	JC 642380H	SUB	ASOKAN S	01-03-2012
2607	JC 663279W	SUB	AVADH KISHORE	01-08-2012
2608	JC 663152N	SUB	BABU LAL	01-05-2012
2609	JC 663259H	SUB	BACHU SINGH	01-07-2012
2610	JC 642806Y	SUB	BADRI NATH YADAV	01-07-2012
2611	JC 663054N	SUB	BAJ NATH SINGH YADAV	01-07-2012
2612	JC 662868A	SUB	BALBIR SINGH	01-06-2012
2613	JC 664502F	SUB	BALDEV SINGH	01-02-2012
2614	JC 641779N	SUB	BALDEV SINGH	01-03-2012
2615	JC 664404F	SUB	BALI RAM	01-04-2012
2616	JC 641884K	SUB	BALVIR SINGH	01-03-2012
2617	JC 663732H	SUB	BALWANT SINGH	01-04-2012
2618	JC 642677K	SUB	BALWINDER SINGH SHEOKAND	01-02-2012
2619	JC 664266L	SUB	BANBARI LAL	01-03-2012



2620	JC 641924A	SUB	BENDRE SHIVALING PANDURANG	01-06-2012
2621	JC 641733L	SUB	BHAG SINGH	01-05-2012
2622	JC 642875P	SUB	BHAGAT SINGH BISHT	01-02-2012
2623	JC 642346H	SUB	BHAIRAB DATT BHATT	01-03-2012
2624	JC 664777P	SUB	BHASKARA NAND	01-07-2012
2625	JC 643017Y	SUB	BHOLA RAM CHOUDHARY	01-03-2012
2626	JC 642172N	SUB	BHOORA RAM CHOPRA	01-05-2012
2627	JC 642065M	SUB	BHUBANESWAR SAMANTA	01-06-2012
2628	JC 642301H	SUB	BIMAL KUMAR RAI	01-07-2012
2629	JC 643107A	SUB	BINAY KRISHNA PRAJAPATI	01-03-2012
2630	JC 663246L	SUB	BIRENDER SINGH	01-07-2012
2631	JC 643067K	SUB	BODH RAJ DOGRA	01-03-2012
2632	JC 664310K	SUB	BOOPATHI K	01-08-2012
2633	JC 664220H	SUB	BRIJ NANDAN SINGH	01-04-2012
2634	JC 662988Y	SUB	BRIJ NATH	01-07-2012
2635	JC 641881W	SUB	CHAKRADHAR BORAH	01-02-2012
2636	JC 469943X	SUB	CHANDER PAL SINGH	01-08-2012
2637	JC 642460A	SUB	CHANDRA BHUSHAN PRASAD	01-04-2012
2638	JC 663153W	SUB	CHANDRA CHARAN KAKTI	01-05-2012
2639	JC 663947F	SUB	CHANDRA NATH	01-08-2012
2640	JC 642676F	SUB	CHANDRA SHAKHER JOSHI	01-08-2012
2641	JC 663860A	SUB	CHANDRAKANT KUMAR	01-08-2012
2642	JC 642300A	SUB	DALIP SINGH CHAUHAN	01-04-2012
2643	JC 663707K	SUB	DANA PATI MANDAL	01-07-2012
2644	JC 643112L	SUB	DAYA KRISHNA BHATT	01-02-2012
2645	JC 642745M	SUB	DAYANAND	01-08-2012
2646	JC 663819K	SUB	DEEP CHAND	01-03-2012
2647	JC 641577M	SUB	DESH RAJ SINGH	01-06-2012
2648	JC 663603H	SUB	DEV MUNI PAL YADAV	01-08-2012
2649	JC 664999K	SUB	DEVENDER KUMAR SINGH	01-04-2012
2650	JC 663256P	SUB	DHARAM SINGH	01-06-2012
2651	JC 642386K	SUB	DHARAMVIR SINGH	01-02-2012
2652	JC 642199L	SUB	DHARM RAJ SINGH	01-03-2012
2653	JC 642063F	SUB	DIGAMBER SINGH	01-04-2012
2654	JC 642804N	SUB	DILIP KUMAR SINGH	01-03-2012
2655	JC 643167P	SUB	DINESH CHANDRA DUBEY	01-04-2012
2656	JC 643061H	SUB	DIVAKARAN S	01-03-2012
2657	JC 643016W	SUB	DUNGAR SINGH	01-03-2012
2658	JC 663250N	SUB	DWARIKA SINGH	01-06-2012
2659	JC 665602Y	SUB	DWIPAN	01-07-2012
2660	JC 664265H	SUB	FAIZUR RAHMAN LASKAR	01-03-2012
2661	JC 663889H	SUB	G SUNDARA RAJAN	01-03-2012
2662	JC 663263L	SUB	GAJENDRA SINGH	01-07-2012
2663	JC 640805X	SUB	GANGADHARAN P	01-03-2012
2664	JC 664252L	SUB	GAUTAM SINGH	01-08-2012
2665	JC 642455P	SUB	GIAN CHAND	01-06-2012
2666	JC 642503K	SUB	GOPAL SAH	01-07-2012
2667	JC 663442L	SUB	GUNNU PRASAD	01-05-2012
2668	JC 641701M	SUB	GURMAIL SINGH	01-07-2012
2669	JC 664126Y	SUB	GURVINDER SINGH	01-02-2012
2670	JC 663464K	SUB	GUTHA NARAYANA	01-08-2012

2671	JC 641450K	SUB	GYAN BAHADUR SINGH	01-04-2012
2672	JC 642730K	SUB	HAKIM SINGH CHAUHAN	01-08-2012
2673	JC 663757P	SUB	HANS RAJ	01-03-2012
2674	JC 642671H	SUB	HARI PADA DAS	01-07-2012
2675	JC 663155F	SUB	HARI RAM	01-06-2012
2676	JC 642833H	SUB	HARI RAM	01-02-2012
2677	JC 641784Y	SUB	HARI SINGH	01-08-2012
2678	JC 663251W	SUB	HARISH CHANDRA MISHRA	01-04-2012
2679	JC 642502F	SUB	HEMANT KUMAR SINGH	01-07-2012
2680	JC 663868M	SUB	HORENDRA SINGHA	01-08-2012
2681	JC 662871A	SUB	IKKURTHI VENKATA RAO	01-03-2012
2682	JC 643242N	SUB	ILMU DIN	01-06-2012
2683	JC 643143L	SUB	ISSAC T M	01-07-2012
2684	JC 641768F	SUB	JAGAT BAHADUR	01-04-2012
2685	JC 642028Y	SUB	JAGDISH CHANDRA	01-04-2012
2686	JC 663878W	SUB	JAI BHAGWAN	01-03-2012
2687	JC 642347L	SUB	JAI PRAKASH TRIPATHI	01-04-2012
2688	JC 663184W	SUB	JANG BAHADUR SINGH	01-06-2012
2689	JC 641350Y	SUB	JAWAHAR SINGH KULHARI	01-03-2012
2690	JC 664778X	SUB	JAY PRAKASH	01-08-2012
2691	JC 663266Y	SUB	JITENDRA KUMAR MISHRA	01-04-2012
2692	JC 663656F	SUB	JIUT SINGH YADAV	01-07-2012
2693	JC 664320N	SUB	JOGINDER SINGH	01-06-2012
2694	JC 663838P	SUB	K VENKATESWARA RAO	01-08-2012
2695	JC 641243X	SUB	KEKADE DATTATRAY KHUSHAL RAO	01-07-2012
2696	JC 663281N	SUB	KHEM BAHADUR CHHETTRI	01-08-2012
2697	JC 663069W	SUB	KHIMA NAND JOSHI	01-04-2012
2698	JC 664290F	SUB	KHUMAN SINGH	01-05-2012
2699	JC 663721W	SUB	KHUMBHAR VITHAL JANABA	01-07-2012
2700	JC 642507A	SUB	KIRANDAN SINGH TOMAR	01-07-2012
2701	JC 642851L	SUB	KISHAN SINGH TANWAR	01-02-2012
2702	JC 641740F	SUB	KRISHAN LAL PURI	01-05-2012
2703	JC 643063N	SUB	KRISHNA MOHAN SUKLA	01-03-2012
2704	JC 663073Y	SUB	KULDEEP KUMAR SHARMA	01-06-2012
2705	JC 663739M	SUB	KULDIP SINGH	01-03-2012
2706	JC 663631P	SUB	KULDIP SINGH CHARAK	01-07-2012
2707	JC 642189F	SUB	KULWINDER SINGH	01-05-2012
2708	JC 641939H	SUB	LABH SINGH	01-06-2012
2709	JC 663636N	SUB	LAKHWINDER SINGH	01-07-2012
2710	JC 664405K	SUB	LAKSHMI KANTA SINHA	01-03-2012
2711	JC 642290F	SUB	LAKSHMI PRASAD	01-05-2012
2712	JC 663225P	SUB	MADAN MOHAN SINGH	01-05-2012
2713	JC 664257K	SUB	MADHUSUDAN GARAI	01-03-2012
2714	JC 643015N	SUB	MADHUSUDAN MOHANTY	01-03-2012
2715	JC 642674W	SUB	MAHABIR	01-07-2012
2716	JC 642514W	SUB	MAHADEV THAPA	01-02-2012
2717	JC 663304K	SUB	MAHAVIR PRASAD	01-05-2012
2718	JC 641732H	SUB	MAHAVIR PRASAD	01-07-2012
2719	JC 664931H	SUB	MAHENDRA SINGH	01-03-2012
2720	JC 641728A	SUB	MAHESH PRASAD SINHA	01-06-2012
2721	JC 642252L	SUB	MAHESH SINGH	01-04-2012

2722	JC 642351N	SUB	MALI RAM YOGI	01-04-2012
2723	JC 663833W	SUB	MALLEDU SRENIVASULU	01-08-2012
2724	JC 663317F	SUB	MAM CHAND	01-06-2012
2725	JC 663324X	SUB	MANA MOHAN BEHERA	01-07-2012
2726	JC 641816W	SUB	MANGAL SINGH BHADAURIA	01-04-2012
2727	JC 643003Y	SUB	MANIK LAL SAHA	01-03-2012
2728	JC 664256F	SUB	MANORANJAN DAS	01-05-2012
2729	JC 642093Y	SUB	MD ABDUR REZZAQUE	01-07-2012
2730	JC 664595F	SUB	MD AFSAR ALI SARDAR	01-03-2012
2731	JC 663855P	SUB	MD SAHAZHAN	01-05-2012
2732	JC 642667A	SUB	MITHELESH TIWARI	01-07-2012
2733	JC 643150F	SUB	MOHAN MAHATO	01-02-2012
2734	JC 641746H	SUB	MOHANA DASS	01-07-2012
2735	JC 664578F	SUB	MURALI R	01-03-2012
2736	JC 663303F	SUB	MURLI DHAR SHARMA	01-05-2012
2737	JC 663233N	SUB	NAGENDRA DUBE	01-05-2012
2738	JC 643019K	SUB	NANDAN SINGH MYAL	01-03-2012
2739	JC 662999L	SUB	NARAYANAN B T	01-04-2012
2740	JC 663252Y	SUB	NARENDRA MOHAN SAHU	01-03-2012
2741	JC 663937X	SUB	NARESH KUMAR	01-08-2012
2742	JC 664355K	SUB	NARESH KUMAR YADAV	01-04-2012
2743	JC 642288K	SUB	NET RAM	01-02-2012
2744	JC 664580Y	SUB	NIMASE SHIVAJI BABU RAO	01-05-2012
2745	JC 663939H	SUB	NISHI KANTA SINHA	01-05-2012
2746	JC 643241L	SUB	OOMMEN P T	01-02-2012
2747	JC 643175N	SUB	P BABU	01-04-2012
2748	JC 664770L	SUB	PALE RAM	01-04-2012
2749	JC 664926X	SUB	PATTHEY SATISH PRABHAKAR	01-04-2012
2750	JC 642731M	SUB	POONAM SINGH	01-03-2012
2751	JC 663392L	SUB	PRABHAKARAN PILLAI K	01-07-2012
2752	JC 662984H	SUB	PRAKASH PATRA	01-06-2012
2753	JC 663254K	SUB	PRAMOD KUMAR SINGH	01-07-2012
2754	JC 663346W	SUB	PRASON KUMAR NAYAK	01-07-2012
2755	JC 664640H	SUB	PRATULA NANDA SARKAR	01-07-2012
2756	JC 663461W	SUB	PREM CHAND	01-04-2012
2757	JC 664415N	SUB	PREM SINGH	01-03-2012
2758	JC 663668W	SUB	PUTUL SADHANIDAR	01-05-2012
2759	JC 642675Y	SUB	PYARE LAL DOGRA	01-08-2012
2760	JC 663257X	SUB	RABINDRA KUMAR CHAMPATI	01-07-2012
2761	JC 664454M	SUB	RADHA BALLAV	01-03-2012
2762	JC 664410P	SUB	RADHIKA RN GOSWAMI	01-03-2012
2763	JC 641495K	SUB	RAJ BHAWAN MISHRA	01-05-2012
2764	JC 663075K	SUB	RAJ KARAN	01-05-2012
2765	JC 642239F	SUB	RAJ KARAN MISHRA	01-02-2012
2766	JC 641351F	SUB	RAJ KUMAR	01-07-2012
2767	JC 642743F	SUB	RAJ KUMAR	01-07-2012
2768	JC 663400Y	SUB	RAJ KUMAR MUDGIL	01-07-2012
2769	JC 643110A	SUB	RAJ KUMAR SINGH	01-03-2012
2770	JC 642297L	SUB	RAJ PAL SINGH	01-07-2012
2771	JC 663247N	SUB	RAJENDRA SADASHIV BAGE	01-04-2012
2772	JC 643111H	SUB	RAJENDRA SINGH	01-03-2012

2773	JC 663817Y	SUB	RAJESHWAR YADAV	01-07-2012
2774	JC 641963Y	SUB	RAJINDER PAL SINGH	01-03-2012
2775	JC 642176K	SUB	RAJINDER SINGH	01-07-2012
2776	JC 643054M	SUB	RAJU T S	01-03-2012
2777	JC 642379N	SUB	RAKESH KUMAR	01-03-2012
2778	JC 663308A	SUB	RAM CHANDER	01-08-2012
2779	JC 641684N	SUB	RAM INDER SHARMA	01-03-2012
2780	JC 663687F	SUB	RAM JANAM YADAV	01-07-2012
2781	JC 642661Y	SUB	RAM KUMAR	01-02-2012
2782	JC 642651P	SUB	RAM MAHESH	01-07-2012
2783	JC 664472P	SUB	RAM MURTI SINGH YADAV	01-02-2012
2784	JC 641544F	SUB	RAM NARESH PANDEY	01-07-2012
2785	JC 663306P	SUB	RAM NIWAS	01-07-2012
2786	JC 663161P	SUB	RAM NIWAS YADAV	01-06-2012
2787	JC 642081K	SUB	RAM PERSHAD	01-02-2012
2788	JC 663334F	SUB	RAM SAGER	01-06-2012
2789	JC 642493L	SUB	RAM SINGH SRAH	01-06-2012
2790	JC 663590W	SUB	RAMA CHANDRAN K K	01-05-2012
2791	JC 641808A	SUB	RAMBIR	01-03-2012
2792	JC 663318K	SUB	RAMBIR	01-07-2012
2793	JC 643173H	SUB	RAMBIR SINGH	01-04-2012
2794	JC 664675Y	SUB	RAMESH	01-03-2012
2795	JC 642737N	SUB	RAMESH CHAND	01-07-2012
2796	JC 643129Y	SUB	RAMESH CHAND RANA	01-04-2012
2797	JC 663866F	SUB	RAMESH KUMAR	01-05-2012
2798	JC 641966M	SUB	RAMESH KUMAR	01-06-2012
2799	JC 663249Y	SUB	RAMESHWAR	01-07-2012
2800	JC 664146M	SUB	RAMESHWAR DAYAL YADAV	01-07-2012
2801	JC 664029F	SUB	RAMVIR SINGH	01-02-2012
2802	JC 642510A	SUB	RANDHIR SINGH	01-04-2012
2803	JC 641778L	SUB	RANDHIR SINGH	01-03-2012
2804	JC 663071N	SUB	RANGIL SINGH DADWAL	01-04-2012
2805	JC 664428L	SUB	RATNESH SINGH	01-05-2012
2806	JC 642501Y	SUB	RATTAN VIR	01-07-2012
2807	JC 643009A	SUB	RAY SINGH	01-05-2012
2808	JC 643168X	SUB	ROHITASHW KUMAR YADAV	01-04-2012
2809	JC 663454A	SUB	ROMESH CHANDER	01-06-2012
2810	JC 663322M	SUB	ROOP LAL	01-03-2012
2811	JC 664769W	SUB	RUDRA PRATAP SINGH	01-06-2012
2812	JC 664655L	SUB	RUP CHAND	01-08-2012
2813	JC 663260X	SUB	S BAGAVATHI	01-07-2012
2814	JC 664668H	SUB	SAILENDRANATH GHOSH	01-05-2012
2815	JC 663943L	SUB	SAJAN NIYAJ AHAMAD KAMAL SAHEB	01-02-2012
2816	JC 642494N	SUB	SALIM BAIG	01-06-2012
2817	JC 664996W	SUB	SANAL KUMAR P	01-06-2012
2818	JC 662991Y	SUB	SANGRAM YADAV	01-07-2012
2819	JC 642645F	SUB	SANTOSH KUMAR	01-07-2012
2820	JC 642316L	SUB	SANTOSH KUMAR KATOCH	01-05-2012
2821	JC 643237H	SUB	SANWAR MAL SAINI	01-02-2012
2822	JC 642187W	SUB	SANWAR MAL SAINI	01-04-2012
2823	JC 664450W	SUB	SARBESWAR LENKA	01-04-2012

2824	JC 641381Y	SUB	SARJIT SINGH	01-06-2012
2825	JC 663325A	SUB	SATISH KUMAR RANA	01-07-2012
2826	JC 663740F	SUB	SATVIR SINGH	01-05-2012
2827	JC 642646K	SUB	SHANKAR DAN CHARAN	01-07-2012
2828	JC 643176W	SUB	SHANTI PRASAD NAUTYAL	01-04-2012
2829	JC 641964F	SUB	SHARDA BAKSH SINGH	01-03-2012
2830	JC 663621L	SUB	SHAYAM SUNDER	01-08-2012
2831	JC 641958N	SUB	SHINDE SUDHAKAR RANGRAO	01-04-2012
2832	JC 664984F	SUB	SHIV KUMAR SINGH	01-06-2012
2833	JC 641575F	SUB	SHIV SHANKAR SINGH YADAV	01-07-2012
2834	JC 663012F	SUB	SHIVAJI LAXMAN CHAVAN	01-05-2012
2835	JC 663272M	SUB	SHRI KRISHAN VERMA	01-07-2012
2836	JC 663638Y	SUB	SHRI PRASAD YADAV	01-04-2012
2837	JC 663271K	SUB	SHRIDHAR ARMUGOM VELLE ACHARYA	01-06-2012
2838	JC 664193K	SUB	SHRIDHAR RAI	01-04-2012
2839	JC 663452P	SUB	SHRIKANT	01-03-2012
2840	JC 664632K	SUB	SHRIRANG VITTHAL GHODE	01-07-2012
2841	JC 663674K	SUB	SHYAMA SUNDARA B G	01-02-2012
2842	JC 663513F	SUB	SOBARAN SINGH	01-08-2012
2843	JC 662870X	SUB	SODHAGAR SINGH JAMWAL	01-03-2012
2844	JC 641928W	SUB	SOMPAL SINGH	01-07-2012
2845	JC 663347Y	SUB	SRINIVASA RAO CHAVALI	01-08-2012
2846	JC 643141A	SUB	SUBASH CHANDER CHANDEL	01-03-2012
2847	JC 664702X	SUB	SUBASH CHANDRA BISWAS	01-02-2012
2848	JC 663038W	SUB	SUBH RAM	01-04-2012
2849	JC 642678M	SUB	SUBHASH CHAND	01-08-2012
2850	JC 641477F	SUB	SUBHASH CHAND	01-06-2012
2851	JC 642508H	SUB	SUBHASH CHANDER	01-07-2012
2852	JC 664579K	SUB	SUDARSHAN PRASAD YADAV	01-04-2012
2853	JC 642450W	SUB	SUDARSHAN SINGH	01-03-2012
2854	JC 642842K	SUB	SUJIT KUMAR SAMANTA	01-08-2012
2855	JC 663214H	SUB	SUKH DEV PATIYAL	01-04-2012
2856	JC 663932Y	SUB	SUKH DEV RAJ	01-05-2012
2857	JC 663032P	SUB	SUNDER LAL	01-06-2012
2858	JC 642551K	SUB	SUNIL KUMAR CHATURVEDI	01-04-2012
2859	JC 664988X	SUB	SUNIT KUMAR RANA	01-04-2012
2860	JC 642644Y	SUB	SURENDRA SINGH	01-07-2012
2861	JC 641753Y	SUB	SURENDRA SINGH YADAV	01-04-2012
2862	JC 642017M	SUB	SURESH CS	01-03-2012
2863	JC 663041W	SUB	SURESH V	01-06-2012
2864	JC 643243W	SUB	SUSHIL KUMAR	01-03-2012
2865	JC 642039L	SUB	SWAMI MALLAYYA SHANKRAYYA	01-04-2012
2866	JC 663681A	SUB	SWAPAN BISWAS	01-05-2012
2867	JC 643157L	SUB	TAMIZUL HASAN	01-04-2012
2868	JC 642358X	SUB	TARUN BANERJEE	01-08-2012
2869	JC 642338K	SUB	U LAXMINARAYAN	01-03-2012
2870	JC 663592F	SUB	UM RAO	01-05-2012
2871	JC 663262H	SUB	UMA SHANKAR VERMA	01-07-2012
2872	JC 663212X	SUB	UMED SINGH	01-07-2012
2873	JC 641683L	SUB	UMESH PRASAD SINGH	01-08-2012
2874	JC 642511H	SUB	USHPAL SINGH	01-07-2012

2875	JC 664158F	SUB	VAKIL PRASAD	01-07-2012
2876	JC 664779A	SUB	VASUDEVAN P	01-08-2012
2877	JC 642498K	SUB	VED PRAKASH	01-07-2012
2878	JC 642457A	SUB	VED PRAKASH	01-05-2012
2879	JC 664483F	SUB	venu GOPALAN T	01-05-2012
2880	JC 664353Y	SUB	VIJAY BHADUR SINGH	01-04-2012
2881	JC 664589N	SUB	VIJAY KUMAR	01-08-2012
2882	JC 642426A	SUB	VINAYA MOHAN SHUKLA	01-05-2012
2883	JC 642372K	SUB	VINOD KUMAR	01-06-2012
2884	JC 665251P	SUB	VINOD KUMAR VERMA	01-05-2012
2885	JC 642352W	SUB	VINOD KUMAR YADAV	01-05-2012
2886	JC 641457N	SUB	VIRENDER SINGH	01-03-2012
2887	JC 663284F	SUB	VISWANADHAN K	01-05-2012
2888	JC 664479Y	SUB	VISWANATHEN K	01-08-2012
2889	JC 643062L	SUB	YELCHERU LAKSHMI NARAYANA	01-03-2012

**ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)**

2890	JC 680845F	RIS	ADESH KUMAR	01-04-2012
2891	JC 680893F	RIS	AMAR PAL	01-07-2012
2892	JC 680846K	RIS	ARUN KUMAR ROY	01-06-2012
2893	JC 680966H	RIS	ASHA RAM	01-05-2012
2894	JC 680958K	RIS	BALWINDER SINGH	01-02-2012
2895	JC 680789N	RIS	BHOLA RAM	01-04-2012
2896	JC 680812W	RIS	BISHARJAN THAKUR	01-06-2012
2897	JC 680787H	RIS	BRIJ BIHARI SINGH	01-04-2012
2898	JC 680782K	RIS	DARSHAN SINGH	01-04-2012
2899	JC 680959M	RIS	GURCHARAN SINGH	01-02-2012
2900	JC 680778F	RIS	INDER DEV RAM	01-04-2012
2901	JC 680952H	RIS	INGALE ASHOK APPA	01-02-2012
2902	JC 680937N	RIS	JAG MOHAN	01-05-2012
2903	JC 680776W	RIS	JAGAT SINGH	01-04-2012
2904	JC 680863K	RIS	KOMAL SINGH	01-07-2012
2905	JC 680957F	RIS	KULDIP SINGH	01-02-2012
2906	JC 680831F	RIS	MARSEL HERANJ	01-04-2012
2907	JC 680805A	RIS	MOULALI AHAMMADASAB DESAI	01-06-2012
2908	JC 680874W	RIS	NIHAL SINGH	01-04-2012
2909	JC 680997H	RIS	NIMAI CHAKRABORTY	01-04-2012
2910	JC 680814F	RIS	NIRANJAN SAH	01-07-2012
2911	JC 680779K	RIS	PRAHLAD MEENA	01-04-2012
2912	JC 680793W	RIS	PRATAP LAL	01-05-2012
2913	JC 680911Y	RIS	PRAVAKAR PATRA	01-04-2012
2914	JC 680804X	RIS	RAGHUBANSH PRASAD MISHRA	01-05-2012
2915	JC 680799X	RIS	RAJPAL	01-05-2012
2916	JC 680962M	RIS	RAM CHANDER YADAV	01-05-2012
2917	JC 680817P	RIS	RAM KRIT RAM	01-08-2012
2918	JC 680816M	RIS	RAM KUMAR CHOUBEY	01-07-2012
2919	JC 680815K	RIS	RAM PAL	01-07-2012
2920	JC 680953L	RIS	RAM PRAKASH	01-07-2012
2921	JC 680965A	RIS	SAHDEO SINGH	01-04-2012
2922	JC 680721M	RIS	SANTU SAH	01-04-2012
2923	JC 680777Y	RIS	SAUBARAM SINGH	01-04-2012

2924	JC 680822A	RIS	SHANKAR LAL MEENA	01-08-2012
2925	JC 680872L	RIS	SHIV PAL JAISWAL	01-04-2012
2926	JC 680996A	RIS	SUKHWINDER SINGH	01-04-2012

**ARMY MEDICAL CORPS**

2927	JC 695378M	SUB	ABHI RAM MOHAPATRA	01-07-2012
2928	JC 693673W	SUB	ACHITA NAND	01-03-2012
2929	JC 692550X	SUB	AMAR SINGH	01-02-2012
2930	JC 695916P	SUB	ARUN ACHARYA	01-03-2012
2931	JC 694181K	SUB	BAL MUKUND SINGH	01-06-2012
2932	JC 695283M	SUB	BALWANT SINGH	01-05-2012
2933	JC 161078W	SUB	BHAGAT RAM SHARMA	01-03-2012
2934	JC 693246A	SUB	BHASKAR R	01-04-2012
2935	JC 696191M	SUB	BHUPENDER SINGH	01-04-2012
2936	JC 695870X	SUB	BIJENDRA SINGH	01-04-2012
2937	JC 693365W	SUB	BRHAM PAL SINGH	01-03-2012
2938	JC 693867Y	SUB	BRIJ LAL	01-04-2012
2939	JC 696163A	SUB	DINESH RAI	01-05-2012
2940	JC 695232Y	SUB	GOPAL DATT	01-05-2012
2941	JC 696448M	SUB	GOVIND SINGH BIRORIYA	01-06-2012
2942	JC 695749K	SUB	HANUMAN	01-03-2012
2943	JC 694380X	SUB	HARI KISHAN	01-03-2012
2944	JC 695874N	SUB	JAIVEER	01-05-2012
2945	JC 692474W	SUB	JOTHI DASAN D	01-03-2012
2946	JC 695305A	SUB	KISHOR CHANDRA NAYAK	01-07-2012
2947	JC 695222P	SUB	KRIPA SHANKER DIXIT	01-04-2012
2948	JC 695562X	SUB	KRISHNA KURUP M R	01-04-2012
2949	JC 693638N	SUB	LACHHAM SINGH	01-04-2012
2950	JC 693808M	SUB	LAL CHAND	01-08-2012
2951	JC 695404H	SUB	LAL DHAR RAM	01-03-2012
2952	JC 696641Y	SUB	LAL ROMAWIA	01-03-2012
2953	JC 693235N	SUB	LALTA PRASAD	01-03-2012
2954	JC 695287H	SUB	MOTI SINGH	01-06-2012
2955	JC 695385H	SUB	NAGARAJ M	01-02-2012
2956	JC 695171N	SUB	NAND SINGH	01-07-2012
2957	JC 696142K	SUB	PRAHLAD PRASAD SINGH	01-06-2012
2958	JC 694805L	SUB	PRASANNA KUMAR SWAIN	01-08-2012
2959	JC 694379H	SUB	PRITAM CHAND	01-06-2012
2960	JC 692971A	SUB	RADHA KRISHNAN N	01-02-2012
2961	JC 695320P	SUB	RADHA KRISHNAN NAIR K P	01-07-2012
2962	JC 693650P	SUB	RAJ KANWAR	01-04-2012
2963	JC 695624M	SUB	RAJ NARAYAN RAY	01-07-2012
2964	JC 695280Y	SUB	RAJENDRA PRASAD SINGH	01-07-2012
2965	JC 692651L	SUB	RAJU KUTTY P I	01-06-2012
2966	JC 696159X	SUB	RAM BABU SINGH	01-05-2012
2967	JC 692642K	SUB	RAM KUMAR	01-06-2012
2968	JC 161074A	SUB	RAM NARESH DIXIT	01-06-2012
2969	JC 696056Y	SUB	RAM NIWAS	01-04-2012
2970	JC 695178W	SUB	RAM SINGH	01-03-2012
2971	JC 695904A	SUB	RAMESH KANWAR	01-04-2012
2972	JC 693868F	SUB	SAT PARKASH PHOGAT	01-05-2012

2973	JC 695240X	SUB	SATYAVAN	01-07-2012
2974	JC 692932F	SUB	SIBA RAM MISHRA	01-03-2012
2975	JC 695459M	SUB	SIDH NATH PASWAN	01-07-2012
2976	JC 696150H	SUB	STALIN KUMAR P	01-04-2012
2977	JC 695931K	SUB	SUBHASH CHANDRA	01-04-2012
2978	JC 694292F	SUB	SUDHIRA KUMAR PARIDA	01-04-2012
2979	JC 696438H	SUB	SUKH PARKASH	01-04-2012
2980	JC 693427L	SUB	SULTAN SINGH	01-04-2012
2981	JC 695939W	SUB	SURAJIT BORDOLOI	01-04-2012
2982	JC 695220K	SUB	SURENDER SINGH	01-04-2012
2983	JC 694332X	SUB	SURENDRA RAM	01-05-2012
2984	JC 695486W	SUB	SURENDRA SINGH	01-04-2012
2985	JC 695270P	SUB	SURESH CHAND	01-03-2012
2986	JC 695318X	SUB	SURESH CHANDRA	01-06-2012
2987	JC 696196L	SUB	SURESH CHANDRA SINGH	01-04-2012
2988	JC 693802L	SUB	SURESH SINGH	01-03-2012
2989	JC 695161H	SUB	THOMAS KUTTY K	01-04-2012
2990	JC 695872H	SUB	TUKHEN HAZARIKA	01-04-2012
2991	JC 694873Y	SUB	VAKIL RAY	01-07-2012
2992	JC 692969H	SUB	VEERA BAHADRAPPA TANVASHE	01-02-2012
2993	JC 693122L	SUB	VIJAI BAHADUR TIWARI	01-02-2012
2994	JC 694027L	SUB	VIJAY KUMAR SINGH	01-07-2012
2995	JC 694782F	SUB	VIJAY LAL	01-06-2012
2996	JC 693922K	SUB	VIJAYADHARAN N	01-08-2012
2997	JC 696106Y	SUB	VIKRAMAN N	01-02-2012
2998	JC 695163N	SUB	VIMAL KUMAR	01-06-2012
2999	JC 141978Y	SUB	VINOD KUMAR GAUR	01-07-2012
3000	JC 695349X	SUB	VINOD KUMAR PANDEY	01-07-2012

**ARMY ORDNANCE CORPS**

3001	JC 726229H	SUB	AJAY KUMAR PANDEY	01-06-2012
3002	JC 727717X	SUB	AJIT KUMAR DAS	01-04-2012
3003	JC 726415Y	SUB	AKOLKAR UTTAM GANGADHAR RAO	01-07-2012
3004	JC 724163Y	SUB	AMAR SINGH	01-06-2012
3005	JC 727704A	SUB	ANAND KUMAR	01-07-2012
3006	JC 726412L	SUB	ANIL KUMAR	01-07-2012
3007	JC 726925A	SUB	ANIL KUMAR JAISWAL	01-04-2012
3008	JC 726186Y	SUB	ANIL KUMAR SAXENA	01-02-2012
3009	JC 725853P	SUB	ARBIND KUMAR SHARMA	01-05-2012
3010	JC 727202X	SUB	ARJUN KUMAR	01-06-2012
3011	JC 726734L	SUB	ATTAR SINGH	01-05-2012
3012	JC 725488Y	SUB	BAL KRISHNA PAL	01-05-2012
3013	JC 726731X	SUB	BALU SINGH	01-04-2012
3014	JC 726387X	SUB	BALWAN SINGH	01-04-2012
3015	JC 727086A	SUB	BHANU PRATAP	01-04-2012
3016	JC 726176P	SUB	BHUPAL SINGH	01-05-2012
3017	JC 726779L	SUB	BIPRA CHARAN SWAIN	01-06-2012
3018	JC 725349P	SUB	BIRENDER SINGH YADAV	01-05-2012
3019	JC 726351Y	SUB	BIRENDRA KUMAR SAGAR	01-04-2012
3020	JC 726110Y	SUB	BISHWA NATH PRASAD	01-02-2012
3021	JC 726197L	SUB	CHAND BUKHARI MARUF	01-06-2012



3022	JC 726795H	SUB	CHANDRMA KUSHWAHA	01-07-2012
3023	JC 726167N	SUB	DALJIT SINGH	01-02-2012
3024	JC 727609N	SUB	DAYA SHANKER	01-03-2012
3025	JC 726603A	SUB	DHARAMVIR SINGH	01-02-2012
3026	JC 726398K	SUB	DULAR RAM	01-07-2012
3027	JC 727640A	SUB	FOFANTYA GANGAJ BHAI GANU BHAI	01-06-2012
3028	JC 726658K	SUB	G ELUMALAI	01-07-2012
3029	JC 727203A	SUB	GANESH CHANDRA NATH	01-06-2012
3030	JC 726249W	SUB	GHAN SHYAM VIDYARTHI	01-06-2012
3031	JC 726130M	SUB	GIRDHARI SINGH	01-03-2012
3032	JC 726196H	SUB	GIRISH CHANDRA TRIPATHY	01-06-2012
3033	JC 726163X	SUB	GOPAL SINGH SHEKHAWAT	01-03-2012
3034	JC 726216L	SUB	GUNAAE YADAVA	01-06-2012
3035	JC 726623N	SUB	HARDEV GANGWAR	01-07-2012
3036	JC 726122N	SUB	HARIHAR SAMANTRAY	01-03-2012
3037	JC 726127M	SUB	HIRA LAL YADAV	01-02-2012
3038	JC 726208M	SUB	HUKKAM SINGH BISHT	01-08-2012
3039	JC 724735P	SUB	ISHWAR SINGH	01-08-2012
3040	JC 724974K	SUB	JAGPAL SINGH	01-08-2012
3041	JC 726472A	SUB	JAGRUP SINGH	01-08-2012
3042	JC 726755F	SUB	JASBHINDER SINGH	01-05-2012
3043	JC 726131P	SUB	JASWANT SINGH	01-03-2012
3044	JC 727029Y	SUB	JOSEPH DEVASIA	01-02-2012
3045	JC 726560W	SUB	JOYDEV SHANKHARI	01-03-2012
3046	JC 726399M	SUB	KAMBALE PRAKASH SHIVRAM	01-07-2012
3047	JC 726968P	SUB	KARAM SINGH	01-08-2012
3048	JC 726410A	SUB	KESHAB CHANDRA BARAL	01-07-2012
3049	JC 726230L	SUB	KHIMA NAND PANCHOLI	01-07-2012
3050	JC 726139M	SUB	KHUSHI RAM	01-05-2012
3051	JC 726659M	SUB	KISHORI LAL	01-03-2012
3052	JC 726336K	SUB	KRISHNA NAND KAPRI	01-04-2012
3053	JC 726566X	SUB	LAL SINGH	01-06-2012
3054	JC 727042H	SUB	LALTA PRASAD	01-04-2012
3055	JC 726504X	SUB	MAHENDRA SINGH	01-06-2012
3056	JC 726168W	SUB	MAHESH PRASAD SAH	01-04-2012
3057	JC 726800H	SUB	MANIR	01-04-2012
3058	JC 726789P	SUB	MIR SINGH JAT	01-06-2012
3059	JC 726172Y	SUB	MOHAN LAL	01-05-2012
3060	JC 726713P	SUB	MOHINDER SINGH	01-08-2012
3061	JC 726077M	SUB	MOOL RAJ BHAGHAT	01-02-2012
3062	JC 726446Y	SUB	NAGINDER SINGH	01-07-2012
3063	JC 726571H	SUB	NANI GOPAL SINGHA	01-07-2012
3064	JC 726417K	SUB	OM PRAKASH	01-08-2012
3065	JC 726804Y	SUB	OM PRAKASH MISHRA	01-08-2012
3066	JC 726115X	SUB	OMPAL SINGH	01-02-2012
3067	JC 726501K	SUB	P BIRENDRA SINGHA	01-04-2012
3068	JC 723689Y	SUB	PANCHANAN MOHANTY	01-02-2012
3069	JC 727004M	SUB	PITAM SINGH	01-07-2012
3070	JC 726210K	SUB	PRASANTA KUMAR DASH	01-02-2012
3071	JC 726080M	SUB	RACHHPAL SINGH	01-02-2012
3072	JC 726902Y	SUB	RADHESHYAM SINGH	01-07-2012

3073	JC 727038A	SUB	RAGHUBIR SINGH	01-08-2012
3074	JC 726681X	SUB	RAJ BAHADUR YADAV	01-06-2012
3075	JC 725603N	SUB	RAJ KUMAR	01-08-2012
3076	JC 726173F	SUB	RAJENDRA SINGH	01-05-2012
3077	JC 726075F	SUB	RAJINDER SINGH	01-02-2012
3078	JC 726120H	SUB	RAM BRIKSHA SINGH	01-02-2012
3079	JC 726202L	SUB	RAM DHANI YADAV	01-06-2012
3080	JC 726253Y	SUB	RAM DHANI YADAV	01-07-2012
3081	JC 726798W	SUB	RAM KUMAR	01-06-2012
3082	JC 726572L	SUB	RAM NARAIN KUREEL	01-08-2012
3083	JC 726177X	SUB	RAM NARAYAN SINGH	01-06-2012
3084	JC 726338P	SUB	RAM NIVAS RAVALDIA	01-04-2012
3085	JC 726479K	SUB	RAM NIWAS	01-03-2012
3086	JC 726385M	SUB	RAM PUKAR RAY	01-07-2012
3087	JC 726823K	SUB	RAM SHANKER SINGH	01-07-2012
3088	JC 726414W	SUB	RAM SINGH SAINI	01-07-2012
3089	JC 726883Y	SUB	RAM TAPESHA	01-06-2012
3090	JC 727079K	SUB	RANDHIR SINGH YADAV	01-08-2012
3091	JC 726230X	SUB	RAVINDRA KUMAR	01-07-2012
3092	JC 727638H	SUB	RENTU PHUKAN	01-05-2012
3093	JC 726200A	SUB	RIYASAT ALI	01-06-2012
3094	JC 726559F	SUB	SACHCHIDANAND PRASAD	01-03-2012
3095	JC 726174K	SUB	SADANANDAN P K	01-02-2012
3096	JC 725569Y	SUB	SAJI VARCHESE	01-06-2012
3097	JC 726447F	SUB	SARWAN SINGH	01-08-2012
3098	JC 726310P	SUB	SASIDHARAN NAIR K	01-06-2012
3099	JC 726384K	SUB	SATYA NARAYAN YADAV	01-07-2012
3100	JC 726530Y	SUB	SUBHASH CHANDRA	01-05-2012
3101	JC 726748L	SUB	SUKH PAL	01-06-2012
3102	JC 726083A	SUB	SUKHDEV SINGH SANDHU	01-02-2012
3103	JC 726612F	SUB	SULTAN SINGH	01-08-2012
3104	JC 726529K	SUB	SURESH CHAND	01-04-2012
3105	JC 727656L	SUB	SURESH KUMAR	01-04-2012
3106	JC 726166L	SUB	SURINDER SINGH	01-04-2012
3107	JC 727002F	SUB	SURINDER SINGH	01-07-2012
3108	JC 726693M	SUB	TARSEM LAL	01-03-2012
3109	JC 726838M	SUB	UMA SHANKAR RAM	01-06-2012
3110	JC 726371M	SUB	UMESH KUMAR SINGH	01-07-2012
3111	JC 726987A	SUB	VEDMENTER SAJWAL	01-05-2012
3112	JC 726373X	SUB	VIDYA DHAR PANDEY	01-07-2012
3113	JC 726886M	SUB	VIDYA PRASAD	01-08-2012
3114	JC 726632P	SUB	VIBAI SINGH NEGI	01-04-2012
3115	JC 726867F	SUB	VIJAY SINGH	01-08-2012
3116	JC 726531F	SUB	VIJAYAN V	01-05-2012
3117	JC 726964Y	SUB	VINOD KUMAR YADAV	01-08-2012
3118	JC 726078P	SUB	VINOD TOPNO	01-02-2012
3119	JC 726416F	SUB	VIRENDRA SINGH	01-08-2012
3120	JC 726132X	SUB	YAD RAM SINGH	01-02-2012

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**

3121	JC 761801K	SUB	ACHIN KUMAR PAL	01-07-2012
------	------------	-----	-----------------	------------

3122	JC 755477F	SUB	ADITYA KUMAR GHARAI	01-04-2012
3123	JC 761020W	SUB	AGUSTIN TIRKEY	01-07-2012
3124	JC 760831P	SUB	AJAY PRAKASH SINGH	01-04-2012
3125	JC 753863P	SUB	AKHIL SINHA	01-04-2012
3126	JC 755860A	SUB	AMBIKA PRASAD	01-08-2012
3127	JC 749344P	SUB	ANIL NATH JHA	01-06-2012
3128	JC 761566W	SUB	ANJANI KUMAR SINGH	01-04-2012
3129	JC 754972N	SUB	ANUP KUMAR JANA	01-02-2012
3130	JC 760440K	SUB	ARBIND KUMAR SHARMA	01-05-2012
3131	JC 748769F	SUB	ARJUN KUMAR SHARMA	01-04-2012
3132	JC 757872N	SUB	ARJUN SINGH	01-04-2012
3133	JC 758662A	SUB	ARUN KUMAR RAY	01-04-2012
3134	JC 757666K	SUB	ASHOK BABU	01-03-2012
3135	JC 757379A	SUB	ASHOK KUMAR	01-06-2012
3136	JC 754002L	SUB	ASHOK KUMAR	01-02-2012
3137	JC 762592K	SUB	ASHOK KUMAR RAI	01-08-2012
3138	JC 757343F	SUB	ASHOK KUMAR RAI	01-04-2012
3139	JC 753271L	SUB	ASHOK KUMAR SRIVASTVA	01-06-2012
3140	JC 758974W	SUB	ASHOK REDDY	01-08-2012
3141	JC 758359Y	SUB	ASIT KUMAR PAL	01-02-2012
3142	JC 757491M	SUB	AVANISH KUMAR	01-03-2012
3143	JC 754587K	SUB	AVTAR SINGH	01-04-2012
3144	JC 760846X	SUB	AWADH BIHARI RAI	01-08-2012
3145	JC 762073F	SUB	AYODHOYA PRASAD	01-04-2012
3146	JC 749175Y	SUB	BABU KADAN	01-05-2012
3147	JC 754492K	SUB	BACHHE LAL MANDAL	01-02-2012
3148	JC 751909N	SUB	BADE SUBHASH TATYBA	01-04-2012
3149	JC 755726P	SUB	BALJIT SINGH CHHIKARA	01-02-2012
3150	JC 750953L	SUB	BALWAN SINGH	01-04-2012
3151	JC 760428H	SUB	BANKIM CHANDRA GHOSH	01-05-2012
3152	JC 749236L	SUB	BASANT KUMAR SINGH	01-06-2012
3153	JC 753938F	SUB	BHAGWAN DASS	01-04-2012
3154	JC 749174W	SUB	BHANWAR LAL JANGIR	01-05-2012
3155	JC 757107A	SUB	BHANWAR LAL KUMHAR	01-05-2012
3156	JC 760661W	SUB	BHIKE SINGH	01-06-2012
3157	JC 760716P	SUB	BHOLA NATH PANDEY	01-07-2012
3158	JC 760843K	SUB	BHUBANI SAHU	01-08-2012
3159	JC 756910M	SUB	BHUSAN CHANDRA DAS	01-02-2012
3160	JC 754700N	SUB	BHUWAN CHANDRA PANDEY	01-07-2012
3161	JC 756907M	SUB	BIDDAPPA KN	01-02-2012
3162	JC 761491K	SUB	BIJAI SHANKAR DIXIT	01-08-2012
3163	JC 758581A	SUB	BIJOY KUMAR SAHU	01-07-2012
3164	JC 754229Y	SUB	BIPIN BIHARI TIWARI	01-04-2012
3165	JC 760945A	SUB	BIPIN SINGHA	01-05-2012
3166	JC 756908P	SUB	BIRADAR BHIMRAO SHIVRAJ	01-02-2012
3167	JC 754570W	SUB	BIRENDRA KUMAR PANDEY	01-08-2012
3168	JC 752764A	SUB	BRAMH DIN	01-08-2012
3169	JC 755528K	SUB	BRIJ VILASH MISHRA	01-08-2012
3170	JC 762617L	SUB	BYLLA S CHENNAIAH	01-07-2012
3171	JC 755761X	SUB	CHAMAN SINGH	01-05-2012
3172	JC 757388F	SUB	CHANDESHWAR PANDEY	01-02-2012

3173	JC 753945X	SUB	CHANDRA KUMAR MISHRA	01-08-2012
3174	JC 756417Y	SUB	CHANDRA SEKHARAN PILLAI C	01-08-2012
3175	JC 755854M	SUB	CHANDRAKANT HALALLI	01-08-2012
3176	JC 760946H	SUB	CHANDRAKANT KAMBLE	01-08-2012
3177	JC 761945M	SUB	CHHOTE KUMAR SINGH	01-08-2012
3178	JC 751889L	SUB	CHUNNI LAL	01-07-2012
3179	JC 750876F	SUB	DADDOO SINGH	01-04-2012
3180	JC 757185X	SUB	DAN SINGH JALAL	01-08-2012
3181	JC 760567M	SUB	DASHRATH RAM	01-06-2012
3182	JC 758145H	SUB	DAVANDRA KUMAR RATHI	01-05-2012
3183	JC 753958P	SUB	DAVENDER KUMAR SHARMA	01-04-2012
3184	JC 757865X	SUB	DAVENDERA SINGH RAWAT	01-03-2012
3185	JC 758068Y	SUB	DAYA NIDHI	01-04-2012
3186	JC 757403L	SUB	DESHMUKH VASANT ANANTRAO	01-03-2012
3187	JC 755718W	SUB	DHAN SINGH	01-04-2012
3188	JC 758265F	SUB	DHANANJAY KUMAR SINGH	28-04-2012
3189	JC 755478K	SUB	DHANANJOY ROY	01-04-2012
3190	JC 760380A	SUB	DHARAM BIR	01-08-2012
3191	JC 754123M	SUB	DHARAM PAL	01-03-2012
3192	JC 760429L	SUB	DHARAM PAL SINGH	01-05-2012
3193	JC 760086A	SUB	DHARAM VIR SINGH	01-06-2012
3194	JC 754430K	SUB	DHARM JIT	01-04-2012
3195	JC 749341F	SUB	DHIRENDRA SINGH	01-06-2012
3196	JC 758835M	SUB	DILIP KUMAR MISHRA	01-06-2012
3197	JC 760507X	SUB	DILIP KUMAR YADAV	01-06-2012
3198	JC 759487H	SUB	DINESH KUMAR	01-08-2012
3199	JC 753196M	SUB	DINESH KUMAR	01-04-2012
3200	JC 754932M	SUB	DIP NARAYAN PRASAD	01-08-2012
3201	JC 757500H	SUB	DIVAKARAN K	01-04-2012
3202	JC 760563W	SUB	DURBIN SINGH	01-06-2012
3203	JC 760659Y	SUB	G SUBRAMANI	01-06-2012
3204	JC 751115H	SUB	GAIKWAD SUDAM MAHADU	01-06-2012
3205	JC 761790H	SUB	GAJENDRA PAL SINGH	01-07-2012
3206	JC 757846M	SUB	GAJRAJ SINGH	01-07-2012
3207	JC 754760H	SUB	GANESH CHANDRA	01-04-2012
3208	JC 749032Y	SUB	GHURDE PRAKASH MANIK RAO	01-04-2012
3209	JC 753779P	SUB	GIAN CHAND	01-03-2012
3210	JC 754958F	SUB	GIRAM SANTARAM GOVINDA	01-07-2012
3211	JC 755859L	SUB	GIRIJA SHANKER	01-04-2012
3212	JC 762226A	SUB	GIRISH CHANDRA UPADHYAY	01-08-2012
3213	JC 749231M	SUB	GONCHIKERA JAYANNA	01-06-2012
3214	JC 757559H	SUB	GOPAL CHANDRA SAHA	01-04-2012
3215	JC 749343H	SUB	GORA KESALAH	01-06-2012
3216	JC 755488N	SUB	GOULI SHIVAREKAR JAGDISH YADNESHVAR RAO	01-03-2012
3217	JC 758652W	SUB	GURAV SANJAY SHANKAR	01-05-2012
3218	JC 164261K	SUB	HAFIZ ABDUL JABBAR KHAN	01-04-2012
3219	JC 761852X	SUB	HANDRY BARUA	01-02-2012
3220	JC 755515M	SUB	HAR SINGH	01-06-2012
3221	JC 761221P	SUB	HAR SINGH MUNDA	01-06-2012
3222	JC 760553M	SUB	HARA PRASAD BISWAS	01-06-2012

3223	JC 760944X	SUB	HARE RAM CHAUBEY	01-08-2012
3224	JC 754697Y	SUB	HARENDRA SINGH	01-07-2012
3225	JC 761567Y	SUB	HARI KRISHAN	01-04-2012
3226	JC 759697H	SUB	HARIDEO SINGH	01-04-2012
3227	JC 749235H	SUB	HASIB ASGER	01-06-2012
3228	JC 754228W	SUB	HAYAT SINGH	01-04-2012
3229	JC 757034Y	SUB	HUKAM SINGH	01-04-2012
3230	JC 760435Y	SUB	HUKMA RAM BHEEL	01-05-2012
3231	JC 754230N	SUB	I KANNAN	01-04-2012
3232	JC 755750L	SUB	INDERJIT	01-06-2012
3233	JC 760568P	SUB	INDRA SINGH	01-06-2012
3234	JC 759254F	SUB	INDRAJEET	01-06-2012
3235	JC 751491W	SUB	INGAWALE SUBHASH PANDURANG	01-08-2012
3236	JC 748770W	SUB	J PANDIAN	01-04-2012
3237	JC 758490W	SUB	JAGTAP VASANT HARIBA	01-07-2012
3238	JC 751911L	SUB	JAIBIR SINGH	01-04-2012
3239	JC 763157F	SUB	JAIMAL SINGH	01-04-2012
3240	JC 754025M	SUB	JAIVIR SINGH	01-06-2012
3241	JC 755463F	SUB	JALE SINGH	01-04-2012
3242	JC 759255K	SUB	JANARDAN PAL	01-06-2012
3243	JC 747967A	SUB	JAY PRAKASH NARAYAN SAH	01-06-2012
3244	JC 760847A	SUB	JAYAKRISHNA MALIK	01-08-2012
3245	JC 755895W	SUB	JAYAMOHANAN P	01-07-2012
3246	JC 763733A	SUB	JOGINDER SINGH	01-04-2012
3247	JC 758144A	SUB	JOHN TIRKEY	01-04-2012
3248	JC 757021F	SUB	K ANNADURAI	01-08-2012
3249	JC 759144M	SUB	K NATARAJAN	01-08-2012
3250	JC 757864P	SUB	K SATHURUKKANNAN	01-03-2012
3251	JC 754850K	SUB	KAMAL SINGH	01-07-2012
3252	JC 760715N	SUB	KAMALJIT SINGH	01-07-2012
3253	JC 754201Y	SUB	KANAK CHANDRA DAS	01-04-2012
3254	JC 761476P	SUB	KANWAR PAL SINGH	01-04-2012
3255	JC 749264X	SUB	KENGAR SHAHAJI ISHWARA	01-05-2012
3256	JC 753633F	SUB	KHALIL MIAN	01-07-2012
3257	JC 760504K	SUB	KHIR MOHAN SARKAR	01-06-2012
3258	JC 754207A	SUB	KIRAN SANKAR ROY	01-03-2012
3259	JC 754163N	SUB	KISHORI LAL	01-04-2012
3260	JC 756953F	SUB	KORADE BHARAT VISHWANATH	01-08-2012
3261	JC 759488L	SUB	KOTWAL	01-08-2012
3262	JC 755786K	SUB	KULBIR SINGH BIST	01-06-2012
3263	JC 762119Y	SUB	KULDEEP RAJ CHOUDHARY	01-07-2012
3264	JC 753713Y	SUB	KUNCHIRAMAN A	01-06-2012
3265	JC 759273M	SUB	LAKHBIR SINGH	01-03-2012
3266	JC 760533Y	SUB	LAKSHAMESHWAR PRASAD SINGH	01-06-2012
3267	JC 761820P	SUB	LAMBODAR SAH	01-06-2012
3268	JC 759651N	SUB	LAXMAN SINGH	01-05-2012
3269	JC 754003N	SUB	LAXMAN YADAV	01-04-2012
3270	JC 754761L	SUB	LAXUMAN RAY	01-04-2012
3271	JC 755518A	SUB	LAYAK SINGH	01-07-2012
3272	JC 758984A	SUB	LUHIT CHETIA	01-08-2012
3273	JC 754209L	SUB	M PAUL RAJ	01-02-2012

3274	JC 754388W	SUB	M VENUGOPALA KRISHNA REDDY	01-08-2012
3275	JC 757853H	SUB	MADAN KISHORE SINGH	01-06-2012
3276	JC 751910H	SUB	MADAN MOHAN CHOBAY	01-04-2012
3277	JC 759373X	SUB	MADAN SINGH TARAGI	01-06-2012
3278	JC 760443X	SUB	MADHU SUDAN MAJUMDER	01-06-2012
3279	JC 751700H	SUB	MAGADUM SHRIKANT KERABA	01-08-2012
3280	JC 758484H	SUB	MAHABIR LAKRA	01-05-2012
3281	JC 753792Y	SUB	MAHENDRA SINGH	01-04-2012
3282	JC 754702Y	SUB	MAHESH KUMAR	01-03-2012
3283	JC 755541N	SUB	MAHESH KUMAR DIXIT	01-08-2012
3284	JC 750878M	SUB	MAHESH RAM	01-04-2012
3285	JC 758011K	SUB	MANGTU RAM JAT	01-04-2012
3286	JC 757871L	SUB	MANIK CHAND SINGH	01-04-2012
3287	JC 754943Y	SUB	MARTIN H	01-08-2012
3288	JC 760092N	SUB	MD ATIULLAH	01-07-2012
3289	JC 760093W	SUB	MOHAMAD RAFIUDDIN ANSARI	01-08-2012
3290	JC 754787A	SUB	MOHAN SINGH	01-04-2012
3291	JC 755676P	SUB	MOHANA KUMAR KP	01-08-2012
3292	JC 760664K	SUB	MOHD ISMAIL	01-07-2012
3293	JC 761021Y	SUB	MOHINDER SINGH	01-08-2012
3294	JC 760665M	SUB	MOHMMAD ISMAIL	01-07-2012
3295	JC 751282Y	SUB	MUKTI NARAYAN YADAV	01-06-2012
3296	JC 761769A	SUB	MUKUND NIBANDHE	01-02-2012
3297	JC 757214F	SUB	MUNNI LAL SINGH YADAWA	01-08-2012
3298	JC 748657F	SUB	MUNSHI RAM	01-08-2012
3299	JC 758150N	SUB	N RAVICHANDRAN	01-07-2012
3300	JC 754371H	SUB	NABA KUMAR BAG	01-04-2012
3301	JC 760161Y	SUB	NABA KUMAR MONDAL	01-07-2012
3302	JC 760850A	SUB	NABIN BORA	01-08-2012
3303	JC 753187L	SUB	NAGARAJAN P	01-05-2012
3304	JC 758565H	SUB	NAGENDRA SINGH	01-07-2012
3305	JC 748766N	SUB	NAKHURU RAM PASSI	01-04-2012
3306	JC 751415K	SUB	NANAK CHAND SHARMA	01-06-2012
3307	JC 760663F	SUB	NAND KESHEV PRASAD	01-07-2012
3308	JC 754292N	SUB	NAND KISHORE CHOUDHARY	01-06-2012
3309	JC 758252K	SUB	NARAYAN SETTY HN	01-08-2012
3310	JC 760564Y	SUB	NARENDRA PRATAP	01-06-2012
3311	JC 754116W	SUB	NARESH SINGH	01-03-2012
3312	JC 749165P	SUB	NARINDER SINGH	01-04-2012
3313	JC 758304P	SUB	NARSINGH RAM	01-06-2012
3314	JC 760695K	SUB	NIBBU LAL YADAV	01-02-2012
3315	JC 761459P	SUB	NINDA KUMAR BRAHMA	01-08-2012
3316	JC 755467X	SUB	NIRANJAN RAULO	01-07-2012
3317	JC 760760Y	SUB	NIREN NATH	01-03-2012
3318	JC 748914N	SUB	NIRMAL KUMAR SINGH	01-04-2012
3319	JC 754847K	SUB	NIRMAL SINGH	01-04-2012
3320	JC 762120N	SUB	NITYA RANJAN SAHA	01-08-2012
3321	JC 755755K	SUB	OM SHANKER SINGH	01-04-2012
3322	JC 758242A	SUB	OMBIR SINGH	01-02-2012
3323	JC 755785F	SUB	OMENDRAPAL SINGH	01-04-2012
3324	JC 757762Y	SUB	P BABU	01-07-2012

3325	JC 755489W	SUB	P RAMESHWAR SINGH	01-03-2012
3326	JC 755447K	SUB	P S GLADWIN	01-02-2012
3327	JC 754848M	SUB	PALWINDER SINGH	01-06-2012
3328	JC 753272N	SUB	PARKASH SAH	01-08-2012
3329	JC 753596Y	SUB	PARMESHWAR PANDIT	01-06-2012
3330	JC 760108N	SUB	PAVAN KUMAR	01-08-2012
3331	JC 751666N	SUB	PAWAR MARUTI TUKARAM	01-02-2012
3332	JC 751922X	SUB	PERMOD KUMAR TYAGI	01-06-2012
3333	JC 753653P	SUB	PITAMBER DATT BHATT	01-07-2012
3334	JC 756831X	SUB	PORUMAMILLA VENKATESWARLU	01-04-2012
3335	JC 761627H	SUB	PRADEEP KUMAR PP	01-04-2012
3336	JC 749029Y	SUB	PRADIP KUMAR BARUAH	01-04-2012
3337	JC 754678N	SUB	PRADIP KUMAR NAYAK	01-04-2012
3338	JC 761323L	SUB	PRAKASH NARAYAN PANDEY	01-04-2012
3339	JC 758739X	SUB	PRAMOD KUMAR MAHAPATRA	01-07-2012
3340	JC 756054A	SUB	PRATHEEPAN M	01-08-2012
3341	JC 755355X	SUB	PREM CHAND	01-02-2012
3342	JC 749180K	SUB	PREM CHAND	01-05-2012
3343	JC 756249L	SUB	R SATHIYA NARAYANAN	01-03-2012
3344	JC 754762N	SUB	RADHAKRISHNAN P V	01-04-2012
3345	JC 753197P	SUB	RAGHUBIR SINGH	01-05-2012
3346	JC 755466P	SUB	RAGUBIR SINGH	01-07-2012
3347	JC 761309Y	SUB	RAGULAN K	01-04-2012
3348	JC 753122X	SUB	RAJ KISHOR MISHRA	01-04-2012
3349	JC 754382P	SUB	RAJ KUMAR	01-06-2012
3350	JC 757820X	SUB	RAJ KUMAR RAGHAV	01-04-2012
3351	JC 758069F	SUB	RAJ NARAIN MAHTO	01-04-2012
3352	JC 760486M	SUB	RAJA RAM	01-04-2012
3353	JC 754118F	SUB	RAJAN P	01-03-2012
3354	JC 750882P	SUB	RAJANALA KRISHNA RAO	01-05-2012
3355	JC 749034K	SUB	RAJEEVAN NK	01-04-2012
3356	JC 760445H	SUB	RAJENDER GIRI	01-06-2012
3357	JC 751890A	SUB	RAJENDER PRASAD	01-04-2012
3358	JC 760844M	SUB	RAJENDER SINGH BIST	01-08-2012
3359	JC 754453L	SUB	RAJESH BABU	01-04-2012
3360	JC 756518M	SUB	RAJESH KUMAR PANDEY	01-04-2012
3361	JC 760943P	SUB	RAJESH KUMAR SHARMA	01-07-2012
3362	JC 758528P	SUB	RAJESH KUMAR SINGH	01-04-2012
3363	JC 756693F	SUB	RAJESH LAL VERMA	01-07-2012
3364	JC 754374W	SUB	RAJESHWAR SHARMA	01-04-2012
3365	JC 754283M	SUB	RAJINDER PAL SINGH	01-04-2012
3366	JC 754431M	SUB	RAJNARAYAN THAKUR	01-04-2012
3367	JC 754379P	SUB	RAKESH KUMAR SHARMA	01-05-2012
3368	JC 761715Y	SUB	RAKESH KUMAR SINGH	01-04-2012
3369	JC 750881M	SUB	RAM BABU SARSWAT	01-05-2012
3370	JC 760489A	SUB	RAM BALI ROY	01-07-2012
3371	JC 761565N	SUB	RAM BILAS SINGH	01-04-2012
3372	JC 760717X	SUB	RAM MEHAR	01-07-2012
3373	JC 753691L	SUB	RAM NARAIN RAI	01-05-2012
3374	JC 758266K	SUB	RAM NIWAS GODARA	01-06-2012
3375	JC 748773K	SUB	RAM NIWAS KOUSHIK	01-04-2012

3376	JC 751280N	SUB	RAM SWARUP SHAKYA	01-04-2012
3377	JC 752084A	SUB	RAMA KANT	01-04-2012
3378	JC 761753P	SUB	RAMA NAND	01-06-2012
3379	JC 754198K	SUB	RAMANAND YADAV	01-04-2012
3380	JC 757845K	SUB	RAMESH CHAND	01-02-2012
3381	JC 754679W	SUB	RAMESH CHANDRA KHANDA	01-07-2012
3382	JC 754293W	SUB	RAMESH KUMAR	01-06-2012
3383	JC 753458X	SUB	RAMESHWAR DASS RATHI	01-07-2012
3384	JC 760000W	SUB	RAMESHWAR PRASAD	01-07-2012
3385	JC 760439P	SUB	RAMNIWAS YADAV	01-05-2012
3386	JC 760905Y	SUB	RAMPHAL	01-03-2012
3387	JC 750877K	SUB	RANBIR SINGH	01-04-2012
3388	JC 757190H	SUB	RANJIT KUMAR PRADHAN	01-08-2012
3389	JC 752583P	SUB	RANVIR SINGH SAVITA	01-03-2012
3390	JC 760848H	SUB	RASKAR SHAHAJIRAO TUKARAM	01-08-2012
3391	JC 760658W	SUB	RAVI KANT SRIVASTVA	01-05-2012
3392	JC 757877M	SUB	RAVINDER SINGH	01-08-2012
3393	JC 754851M	SUB	RAVINDRA SINGH	01-07-2012
3394	JC 754767M	SUB	RAVINDRANATH P	01-05-2012
3395	JC 751489Y	SUB	RAXPAL SINGH	01-08-2012
3396	JC 760941K	SUB	RONAKKI SURYA NARAYANA	01-07-2012
3397	JC 755709P	SUB	S LAKSHMANAN	01-05-2012
3398	JC 754747Y	SUB	S VASUDEVA RAO	01-08-2012
3399	JC 757501L	SUB	SACHHIDANANDA MISRA	01-08-2012
3400	JC 754210A	SUB	SADHO SINGH	01-04-2012
3401	JC 754211H	SUB	SAHAB SINGH	01-04-2012
3402	JC 754381M	SUB	SAJAN G	01-05-2012
3403	JC 761629N	SUB	SAMAY LAL BHARTI	01-04-2012
3404	JC 756435F	SUB	SANJAY KUMAR	01-04-2012
3405	JC 760085X	SUB	SANTOSH KUMAR	01-06-2012
3406	JC 751116L	SUB	SARVADE ISHWAR POPATALAL	01-06-2012
3407	JC 761560P	SUB	SARWAN SINGH	01-04-2012
3408	JC 762227H	SUB	SATBIR SINGH	01-08-2012
3409	JC 761380M	SUB	SATISH CHAND MISRA	01-06-2012
3410	JC 751923A	SUB	SATYA BIR SINGH	01-06-2012
3411	JC 760508A	SUB	SATYA NARAYAN	01-06-2012
3412	JC 754174A	SUB	SATYA NARAYAN	01-08-2012
3413	JC 753185A	SUB	SATYAVEER SINGH DAHIMA	01-02-2012
3414	JC 757784X	SUB	SHABBIR ALI KHAN	01-03-2012
3415	JC 760561L	SUB	SHABIR AHAMD	01-06-2012
3416	JC 761562A	SUB	SHAFQAT JAWED	01-04-2012
3417	JC 753861K	SUB	SHAMBHUNATH PRASAD	01-06-2012
3418	JC 753957M	SUB	SHANGARA SINGH	01-04-2012
3419	JC 758127A	SUB	SHANKAR SARVANKAR	01-06-2012
3420	JC 749176F	SUB	SHIRSAT PURSHOTAM DHANU	01-05-2012
3421	JC 760433N	SUB	SHIV DAS	01-05-2012
3422	JC 760854W	SUB	SHIV RAJ SINGH	01-08-2012
3423	JC 754680L	SUB	SHIVANAND MISHRA	01-07-2012
3424	JC 757035F	SUB	SHIVANANDA VADALAR	01-05-2012
3425	JC 758940H	SUB	SHREE CHAND	01-08-2012
3426	JC 758290A	SUB	SHRIKANT TIWARI	01-06-2012



3427	JC 761379Y	SUB	SHYAM BIHARI SINGH	01-08-2012
3428	JC 755451M	SUB	SHYAM NARAYAN SINGH YADAV	01-07-2012
3429	JC 756299W	SUB	SHYAMAL KUMAR RAY	01-07-2012
3430	JC 758834K	SUB	SHYAMDEV SINGH	01-05-2012
3431	JC 760569X	SUB	SIDHNATH GIRI	01-07-2012
3432	JC 755079A	SUB	SIRNAM SINGH	01-04-2012
3433	JC 760714K	SUB	SIYA RAM	01-07-2012
3434	JC 758497A	SUB	SN SELVAN	01-06-2012
3435	JC 761568F	SUB	SOHAN LAL	01-04-2012
3436	JC 760191W	SUB	SREENU PK	01-07-2012
3437	JC 755561F	SUB	STANLEY JOSEPH	01-08-2012
3438	JC 760660N	SUB	SUBE RAM SHARMA	01-06-2012
3439	JC 754160A	SUB	SUBHA CHAND YADAV	01-04-2012
3440	JC 761798P	SUB	SUBHASH CHANDER	01-02-2012
3441	JC 752385K	SUB	SUGHAR SINGH	01-04-2012
3442	JC 758727H	SUB	SUNIL KUMAR AVSTHI	01-03-2012
3443	JC 753655A	SUB	SUPANEKAR MADHUKAR KISAN	01-08-2012
3444	JC 757843Y	SUB	SURAT SINGH	01-04-2012
3445	JC 754879M	SUB	SURENDAR KUMAR	01-04-2012
3446	JC 760571P	SUB	SURENDAR SINGH	01-05-2012
3447	JC 756048M	SUB	SURENDER SINGH JADOUN	01-04-2012
3448	JC 755647A	SUB	SURENDRA SINGH NEGI	01-02-2012
3449	JC 754979X	SUB	SURENDRA SINGH RAWAT	01-06-2012
3450	JC 758684Y	SUB	SURESH CHAUHAN	01-04-2012
3451	JC 761819A	SUB	SURESH KUMAR	01-02-2012
3452	JC 760556Y	SUB	SURESH ROI	01-06-2012
3453	JC 749031W	SUB	SUTRA PAL SINGH	01-04-2012
3454	JC 758008K	SUB	SWAPAN KUMAR BISWAS	01-08-2012
3455	JC 754846F	SUB	SWARAN SINGH	01-05-2012
3456	JC 757128W	SUB	TARKESHWAR MISHRA	01-07-2012
3457	JC 760436F	SUB	TARKESHWAR NATH PANDEY	01-05-2012
3458	JC 760479W	SUB	UDAY PRASAD ROY	01-02-2012
3459	JC 755560Y	SUB	UDAYA NARAYAN	01-08-2012
3460	JC 754285X	SUB	UGRASEN SINGH	01-05-2012
3461	JC 751487N	SUB	UKIL CHANDRA DAS	01-08-2012
3462	JC 753451N	SUB	UMA SHANKAR SINGH	01-03-2012
3463	JC 753859M	SUB	VARGHESE KV	01-04-2012
3464	JC 760438M	SUB	VASUDEV SHARMA	01-05-2012
3465	JC 753802X	SUB	VEER SINGH SOLANKI	01-02-2012
3466	JC 754134Y	SUB	VIDHYA SHANKAR SINGH YADAV	01-04-2012
3467	JC 756848L	SUB	VIJAY KUMAR YADAV	01-08-2012
3468	JC 754596L	SUB	VIJAY PRASAD	01-04-2012
3469	JC 757069P	SUB	VIJAY SINGH	01-04-2012
3470	JC 754199M	SUB	VIJENDRA KUMAR	01-04-2012
3471	JC 760430A	SUB	VINOD KUMAR RAWAT	01-05-2012
3472	JC 756161F	SUB	VINOD SINGH RAWAT	01-08-2012
3473	JC 747421A	SUB	VIRENDRA KUMAR	01-06-2012
3474	JC 754372L	SUB	VIRULKAR SURESH BHAGWAN	01-04-2012
3475	JC 753049K	SUB	VISHWAMBHAR YADAV	01-08-2012
3476	JC 758402P	SUB	VISHWANATH	01-06-2012
3477	JC 759999P	SUB	YALLAPPA MODEKAR	01-06-2012

3478	JC 760942M	SUB	YOGENDAR SINGH	01-07-2012
3479	JC 758301F	SUB	YOGRAJ SHARMA	01-05-2012
3480	JC 760441M	SUB	ZEAZUL ZAMAN	01-05-2012

**ARMY EDUCATION CORPS**

3481	JC 803073Y	SUB	AJAI KUMAR SINGH	01-06-2012
3482	JC 803110F	SUB	ANIL KUMAR	01-07-2012
3483	JC 803212X	SUB	ARUN KUMAR PILANIA	01-06-2012
3484	JC 802714N	SUB	ARUN KUMAR SHUKLA	01-08-2012
3485	JC 803336M	SUB	ASHOKE KUMAR GHOSH	01-08-2012
3486	JC 802942W	SUB	BHAGMAL SINGH RANA	01-06-2012
3487	JC 803034A	SUB	BISHAN SINGH	01-06-2012
3488	JC 802986N	SUB	BRIJESH KUMAR SRIVASTAVA	01-02-2012
3489	JC 803102H	SUB	DEVENDER KUMAR TRIPATHI	01-08-2012
3490	JC 802940L	SUB	DHARAM PAL	01-02-2012
3491	JC 803037N	SUB	DIN DAYAL NIRANJAN	01-06-2012
3492	JC 802808L	SUB	DURGA SHANKER PATHAK	01-07-2012
3493	JC 802574M	SUB	HARJIT SINGH	01-02-2012
3494	JC 802813W	SUB	HIRA LAL	01-08-2012
3495	JC 803064X	SUB	HIRDAI NARAIN KUSHWAHA	01-06-2012
3496	JC 803334F	SUB	JAGDEV YADAV	01-07-2012
3497	JC 803021H	SUB	KURIAKKOSE VM	01-06-2012
3498	JC 803174M	SUB	MANOHAR LAL	01-04-2012
3499	JC 802988Y	SUB	MOHD AHMAD KHAN	01-08-2012
3500	JC 803001P	SUB	R ILANGO	01-06-2012
3501	JC 802552N	SUB	RAGHUVIR SINGH	01-04-2012
3502	JC 803101A	SUB	RAJ DARSHAN SINGH RAWAT	01-08-2012
3503	JC 803036L	SUB	RAJ KUMAR	01-06-2012
3504	JC 802812N	SUB	RASIK BIHARI	01-08-2012
3505	JC 802604Y	SUB	RATTAN JIT	01-04-2012
3506	JC 802693H	SUB	SANTOSH KUMAR SHRIVASTAVA	01-04-2012
3507	JC 803199Y	SUB	SATENDRA KUMAR	01-03-2012
3508	JC 803147H	SUB	SHAILESH KUMAR CHOUDHARY	01-02-2012
3509	JC 802939W	SUB	SHER SINGH YADAV	01-02-2012
3510	JC 803094P	SUB	SHIV KUMAR	01-06-2012
3511	JC 803012F	SUB	SHRI BHAGWAN	01-06-2012
3512	JC 802863F	SUB	SHRIPAL SINGH TOMER	01-04-2012
3513	JC 802621Y	SUB	SHYAM BIHARI	01-04-2012
3514	JC 803100X	SUB	SIMANCHALA PADHY	01-06-2012
3515	JC 802597N	SUB	SUBHASH CHAND BANSAL	01-04-2012
3516	JC 803718W	SUB	SUNEEL KUMAR SHARMA	01-03-2012
3517	JC 803097M	SUB	SURAT SINGH	01-06-2012
3518	JC 803236F	SUB	SURENDRA PRASAD PAUL	01-03-2012
3519	JC 803099N	SUB	VIKRAM SINGH	01-06-2012
3520	JC 802712H	SUB	ZAMIR ANSARI	01-05-2012

**REMOUIT AND VETERINARY CORPS**

3521	JC 797430X	RIS	BALWAN SINGH	01-04-2012
3522	JC 797318L	RIS	BHIM SAIN	01-07-2012
3523	JC 797429H	RIS	DINA NATH PANDEY	01-06-2012
3524	JC 797312K	RIS	HARENDRA PAL SINGH	01-04-2012

3525	JC 797325F	RIS	HORI LAL	01-04-2012
3526	JC 797370N	RIS	JALE SINGH	01-05-2012
3527	JC 797369Y	RIS	KISHORI LAL	01-05-2012
3528	JC 797464L	RIS	MADHUSUDHANAN T	01-08-2012
3529	JC 797333A	RIS	MANJIT SINGH	01-05-2012
3530	JC 797344M	RIS	MOHAMMAD ALI	01-05-2012
3531	JC 797406F	RIS	MOHINDER SINGH	01-04-2012
3532	JC 797485F	RIS	MOHINDRA RAM	01-08-2012
3533	JC 797411M	RIS	MUSAFIR RAM	01-04-2012
3534	JC 797367N	RIS	NAVA KUMAR GOGOI	01-04-2012
3535	JC 797343K	RIS	PADMAJAN	01-04-2012
3536	JC 797529N	RIS	RAJ BAHADUR	01-05-2012
3537	JC 797380X	RIS	RAJ KISHORE SINGHA	01-05-2012
3538	JC 797342F	RIS	RAJ KUMAR	01-04-2012
3539	JC 797316A	RIS	SADO KANDULNA	01-06-2012
3540	JC 797475X	RIS	SHIV KUMAR RAI	01-05-2012
3541	JC 797317H	RIS	SUNIL KUMAR SUMAN	01-07-2012
3542	JC 797359P	RIS	SURESH KUMAR	01-06-2012
3543	JC 797357K	RIS	UNNIKRISHANAN P	01-04-2012

**THE INTELLIGENCE CORPS**

3544	JC 810671Y	SUB	AJIT SINGH	01-06-2012
3545	JC 810856A	SUB	AMARJIT SINGH	01-04-2012
3546	JC 810652N	SUB	ANAND BALLABH JOSHI	01-04-2012
3547	JC 810693X	SUB	ANIL KUMAR PANDEY	01-02-2012
3548	JC 810814N	SUB	ASHOK KUMAR	01-07-2012
3549	JC 810763L	SUB	BAYAS ASHOK NAGORAO	01-06-2012
3550	JC 810655F	SUB	BISHNU KUMAR MUKHIA	01-05-2012
3551	JC 810578X	SUB	DURGA PRASAD	01-05-2012
3552	JC 810712X	SUB	DURGA RAM	01-04-2012
3553	JC 810670W	SUB	GANESH SINGH HARARIYA	01-06-2012
3554	JC 810695H	SUB	GHANSHIAM SINGH	01-03-2012
3555	JC 810678H	SUB	GOPAL SINGH	01-07-2012
3556	JC 810851F	SUB	HANIF	01-04-2012
3557	JC 810526F	SUB	LAXMI NARAYANA TRIPATHY	01-05-2012
3558	JC 810517A	SUB	MAHADEV PRASAD PUN	01-04-2012
3559	JC 810661P	SUB	MAHENDRA KUMAR MANDLOI	01-05-2012
3560	JC 810660M	SUB	MAHESH KUMAR	01-05-2012
3561	JC 810802Y	SUB	MAHESH KUMAR RAGHAV	01-05-2012
3562	JC 810680A	SUB	MAHIPAL SINGH GODARA	01-02-2012
3563	JC 810516X	SUB	MANALAN J	01-07-2012
3564	JC 810663A	SUB	MANOHAR LAL BHATIA	01-05-2012
3565	JC 810669F	SUB	PEETHALA CK RAJU	01-06-2012
3566	JC 810922X	SUB	POHAP SINGH	01-07-2012
3567	JC 810622W	SUB	PRAMOD SAIKIA	01-05-2012
3568	JC 810754K	SUB	PREM SINGH	01-04-2012
3569	JC 810662X	SUB	PURAN CHAND	01-05-2012
3570	JC 810586W	SUB	PURAN SINGH	01-08-2012
3571	JC 810666N	SUB	RAJESH KUMAR SINGH	01-04-2012
3572	JC 810640Y	SUB	RAM KRISHAN	01-04-2012
3573	JC 811086L	SUB	RAMESH PRASAD	01-06-2012

3574	JC 810727A	SUB	RAMESH RANA	01-08-2012
3575	JC 810524W	SUB	RN CHATTERJEE	01-05-2012
3576	JC 810685Y	SUB	SARVESH KUMAR SRIVASTAVA	01-03-2012
3577	JC 810768K	SUB	SHER BAHADUR SAHI	01-04-2012
3578	JC 810654Y	SUB	SURAJ BHAN	01-04-2012
3579	JC 810769M	SUB	SUSILA KUMAR MAHALIK	01-06-2012
3580	JC 810722F	SUB	VIJAI SINGH YADAV	01-07-2012
3581	JC 810742P	SUB	VIJAY KUMAR SINGH	01-06-2012

**CORPS OF MILITARY POLICE**

3582	JC 818802N	SUB	DHARAM PAL	01-04-2012
3583	JC 819072A	SUB	GAIKWAD ANAND DHONDIBA	01-04-2012
3584	JC 819045W	SUB	N DAMODARA REDDY	01-07-2012
3585	JC 818703L	SUB	NARESH KUMAR	01-04-2012
3586	JC 818801L	SUB	RADHAY SHYAM ROHILLA	01-03-2012
3587	JC 819276M	SUB	SANJAY KUMAR SINGH	01-07-2012
3588	JC 818807M	SUB	SOMENDRA SINGH RAWAT	01-06-2012

**ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS**

3589	JC 826153H	SUB	HARBANS LAL	01-04-2012
3590	JC 826155N	SUB	MADAN LAL SHARMA	01-04-2012
3591	JC 826151X	SUB	MAGAN SINGH	01-04-2012
3592	JC 826166A	SUB	MOHAN LAL	01-05-2012
3593	JC 826160Y	SUB	SURESH KUMAR	01-04-2012

**THE PIONEER CORPS**

3594	JC 829280H	SUB	AKHILESHWAR SINGH	01-06-2012
3595	JC 829324P	SUB	AMAR SINGH	01-04-2012
3596	JC 829074Y	SUB	ANIRUDH MISHRA	01-02-2012
3597	JC 829290M	SUB	JAGDISH PRASAD	01-07-2012
3598	JC 829328L	SUB	K KARTIKEYAN	01-04-2012
3599	JC 829267Y	SUB	PAWAN KUMAR SINGH	01-03-2012
3600	JC 829389H	SUB	RAJENDRA PAL	01-08-2012
3601	JC 829346N	SUB	RAMESH CHANDRA	01-04-2012
3602	JC 829413N	SUB	RANBIR SINGH	01-04-2012
3603	JC 829356X	SUB	SHREE NATH SINGH	01-06-2012
3604	JC 829381W	SUB	SUKUMARAN NAIR M	01-07-2012
3605	JC 829357A	SUB	VIRENDRA KUMAR SINGH	01-04-2012

**ARMY POSTAL SERVICE**

3606	JC 834149P	SUB	ISSAC VARUGHESE	01-04-2012
3607	JC 834323W	SUB	JAGVIR SINGH	01-04-2012
3608	JC 834297A	SUB	LALJIT SINGH	01-07-2012
3609	JC 834194F	SUB	MANGAT RAM	01-04-2012

**DEFENCE SECURITY CORPS**

3610	JC 840783N	SUB	BHANWAR DAN	01-02-2012
3611	JC 841156N	SUB	BIJOY ACHARJEE	01-08-2012
3612	JC 840777A	SUB	CHANDER BHAN	01-05-2012
3613	JC 841952W	SUB	DASHRATH SINGH	01-08-2012
3614	JC 811203A	SUB	EKNATH BALU JADHAV	01-03-2012

3615	JC 842023K	SUB	GAVANE KISAN DATTU	01-04-2012
3616	JC 840908A	SUB	GIRDHARI RAM	01-08-2012
3617	JC 842109H	SUB	KARNAIL SINGH	01-07-2012
3618	JC 841265A	SUB	KHINV SINGH	01-05-2012
3619	JC 841892M	SUB	KULWINDER SINGH	01-05-2012
3620	JC 841651M	SUB	MAHAVIR SINGH	01-06-2012
3621	JC 841821L	SUB	NAGAR MAL	01-03-2012
3622	JC 840931N	SUB	OM PRAKASH SINGH YADAV	01-02-2012
3623	JC 841282A	SUB	P RAJU	01-04-2012
3624	JC 841518K	SUB	PATIL BALKRISHNA ANAPA	01-07-2012
3625	JC 842112H	SUB	PRAFULLA KUMAR CHAUDHURI	01-08-2012
3626	JC 841215P	SUB	RADHEY SHYAM	01-05-2012
3627	JC 840457L	SUB	RAM KISHAN	01-05-2012
3628	JC 841904W	SUB	RAMESHWAR SINGH	01-05-2012
3629	JC 841648M	SUB	RAMJI LAL	01-06-2012
3630	JC 842149K	SUB	RAMESH KUMAR	01-07-2012
3631	JC 840793X	SUB	SHIVAJI SHRIPATI KURNE	01-07-2012
3632	JC 841819N	SUB	SRIDHAR MOHANTY	01-08-2012
3633	JC 840797N	SUB	SURENDRAN CK	01-04-2012
3634	JC 841647K	SUB	TEJ PRATAP SINGH	01-08-2012
3635	JC 841910K	SUB	UTTAM KISAN KADAM	01-06-2012

**TERRITORIAL ARMY**

3636	TJ 4128H	SUB	BHUP SINGH	01-06-2012
3637	TJ 4380F	SUB	C ANTHONY SWAMY	01-05-2012
3638	TJ 4755P	SUB	KALA NATH MISHRA	01-03-2012
3639	TJ 4565H	SUB	KAMBALE UTTAM KUMAR	01-02-2012
3640	TJ 4144A	SUB	KISHORI SINGH	01-06-2012
3641	TJ 3909K	SUB	OMKAR	01-02-2012
3642	TJ 4034L	SUB	PK NANDAKUMAR	01-03-2012
3643	TJ 4229W	SUB	RAJBIR SINGH	01-04-2012
3644	TJ 5049A	SUB	SHAIKA HASAN WALISAHEB	01-03-2012
3645	TJ 4642M	SUB	SOM DATT	01-06-2012
3646	TJ 4447P	SUB	TIKA BAHADUR KSHETRI	01-06-2012

**TO BE HONORARY RISALDARS/SUBEDARS****1 HORSE**

1	JC 242640P	NB RIS	MOHAN SINGH	01-03-2012
2	JC 243019W	NB RIS	RAJESH KUMAR SINGH	01-05-2012

**ARMOURED CORPS**

3	JC 243475F	NB RIS	BHIM SINGH	01-06-2012
4	JC 243248F	NB RIS	GIRISH CHANDRA MISHRA	01-07-2012
5	JC 243864F	NB RIS	NAWAB SINGH BHARANGAR	01-03-2012
6	JC 242604K	NB RIS	ONKAR SINGH	01-03-2012
7	JC 243412Y	NB RIS	RABHBIR SINGH	01-02-2012
8	JC 242827F	NB RIS	TRIVENI PRASAD	01-06-2012
9	JC 243444F	NB RIS	VIRENDRA KUMAR SINGH	01-03-2012

**REGIMENT OF ARTILLERY**

10	JC 274476L	NB SUB	ABHAY SINGH	01-02-2012
11	JC 273468A	NB SUB	ADITYA NARAYAN OJHA	01-02-2012
12	JC 273192P	NB SUB	ARJUN MISHRA	01-05-2012
13	JC 272059A	NB SUB	ARUN KUMAR	01-02-2012
14	JC 274704H	NB SUB	ASHOK KUMAR	01-03-2012
15	JC 277856P	NB SUB	AVTAR SINGH SOHI	01-08-2012
16	JC 273551X	NB SUB	AWATE TANAJI NILAKANTH	01-04-2012
17	JC 275423Y	NB SUB	BABU RAJAN A	01-03-2012
18	JC 274248H	NB SUB	BASEVARAJ HARALI	01-08-2012
19	JC 273727X	NB SUB	BINOD KUMAR	01-02-2012
20	JC 272881K	NB SUB	CHAIN SINGH	01-07-2012
21	JC 271367N	NB SUB	CHANDRA BHANU SINGH	01-08-2012
22	JC 273312H	NB SUB	CHANDRAJIT YADAV	01-04-2012
23	JC 274398Y	NB SUB	DALBIR SINGH	01-03-2012
24	JC 272040F	NB SUB	FAKEERAPPA BADIGER	01-02-2012
25	JC 273253F	NB SUB	G GOTHANDARAMAN	01-04-2012
26	JC 271722A	NB SUB	G RANGA SAMY	01-02-2012
27	JC 273101A	NB SUB	HANS RAJ	01-02-2012
28	JC 272250F	NB SUB	HRIDAYA NARAYAN SINGH	01-03-2012
29	JC 272193L	NB SUB	INDRA PAL SINGH	01-03-2012
30	JC 273676P	NB SUB	ISHWAR SINGH	01-04-2012
31	JC 274757F	NB SUB	JADHAV PURUSHOTTAM TUKARAM	01-08-2012
32	JC 272844W	NB SUB	JAI KUMAR	01-02-2012
33	JC 272850K	NB SUB	JOGINDER SINGH	01-03-2012
34	JC 273330L	NB SUB	K MANICKAM	01-08-2012
35	JC 273778L	NB SUB	K MURUGAN	01-03-2012
36	JC 271291Y	NB SUB	K RAMACHANDRAN	01-03-2012
37	JC 275419W	NB SUB	KAMAL NARAYAN KUWAR	01-06-2012
38	JC 272001H	NB SUB	KARNAIL SINGH	01-03-2012
39	JC 271413X	NB SUB	KASHMIR SINGH	01-02-2012
40	JC 272738X	NB SUB	KEHAR SINGH	01-03-2012
41	JC 273536H	NB SUB	KULWANT SINGH RANDHAWA	01-05-2012

42	JC 272263Y	NB SUB	LAKHWINDER SINGH	01-04-2012
43	JC 274401N	NB SUB	LAV KUSH	01-03-2012
44	JC 273177A	NB SUB	M MURTHI	01-03-2012
45	JC 273032P	NB SUB	MAHIPAL SINGH	01-05-2012
46	JC 272656P	NB SUB	MANOKARAN N	01-02-2012
47	JC 273714A	NB SUB	MARINDER SINGH	01-03-2012
48	JC 274181P	NB SUB	MARTE VENKAT LAXMAN RAO	01-08-2012
49	JC 274429N	NB SUB	MIKHEL HERENJ	01-02-2012
50	JC 272855H	NB SUB	MOHAN SINGH	01-04-2012
51	JC 273451M	NB SUB	NARESH PANDIT	01-02-2012
52	JC 271279X	NB SUB	OM PRAKASH	01-04-2012
53	JC 271586P	NB SUB	P MATHAVA PRASAD	01-03-2012
54	JC 271796P	NB SUB	PARAMJEET SINGH	01-02-2012
55	JC 274261M	NB SUB	PUNJAB SINGH	01-06-2012
56	JC 274473X	NB SUB	R KUMAR	01-04-2012
57	JC 272005Y	NB SUB	RACHHPAL SINGH	01-04-2012
58	JC 274815A	NB SUB	RACHHPAL SINGH	01-08-2012
59	JC 273188M	NB SUB	RAJ KUMAR	01-04-2012
60	JC 275017Y	NB SUB	RAJEDNRA KUMAR DIXIT	01-02-2012
61	JC 273964F	NB SUB	RAJU B	01-08-2012
62	JC 273378Y	NB SUB	RAMAKRISHNAN N	01-02-2012
63	JC 272798M	NB SUB	RAMESH SINGH	01-08-2012
64	JC 274369K	NB SUB	RANJIT SINGH	01-03-2012
65	JC 273588Y	NB SUB	RESHAM PAL	01-02-2012
66	JC 271621M	NB SUB	ROHTASH KUMAR	01-04-2012
67	JC 273689M	NB SUB	S JEEVANANDAM	01-03-2012
68	JC 271740H	NB SUB	SAHEED SINGH	01-04-2012
69	JC 274205N	NB SUB	SANJAY KUMAR	01-03-2012
70	JC 272105K	NB SUB	SATYAWAN	01-04-2012
71	JC 273148L	NB SUB	SHAMBO NATH SAH	01-02-2012
72	JC 273031M	NB SUB	SHIO MURTY SINGH	01-04-2012
73	JC 273914W	NB SUB	SUBE SINGH	01-05-2012
74	JC 275384L	NB SUB	SUBE SINGH	01-05-2012
75	JC 273215L	NB SUB	SUBHASH SINGH	01-04-2012
76	JC 272517L	NB SUB	SUDEER DUBEY	01-02-2012
77	JC 275429A	NB SUB	SULAKHAN SINGH	01-08-2012
78	JC 274492H	NB SUB	SURENDER PAL	01-03-2012
79	JC 271540M	NB SUB	SURINDER SINGH	01-03-2012
80	JC 273540L	NB SUB	TEJ SINGH	01-08-2012
81	JC 273738K	NB SUB	VARADARAJAN V	01-02-2012
82	JC 273812A	NB SUB	VIJAY BAHADUR	01-03-2012
83	JC 273752W	NB SUB	VIJAY KUMAR SINGH	01-07-2012
84	JC 273696H	NB SUB	VIJYA SHANKAR RAI	01-08-2012
85	JC 274406M	NB SUB	WADASKAR ONKARESHWAR GANPAT	01-08-2012

**ARMY AIR DEFENCE**

86	JC 300932L	NB SUB	BHAMEE CHAND	01-02-2012
87	JC 300846A	NB SUB	BINOD KUMAR SINGH	01-03-2012
88	JC 300986M	NB SUB	CHANDAN KUMAR SAHU	01-02-2012
89	JC 300813P	NB SUB	DEVADASAN M	01-04-2012
90	JC 300940K	NB SUB	DINA NATH SINGH	01-04-2012

91	JC 300687N	NB SUB	GYANENDRA SINGH	01-02-2012
92	JC 300911P	NB SUB	JITENDRA PRASAD SINGH	01-05-2012
93	JC 301061H	NB SUB	KULDIP SINGH	01-05-2012
94	JC 300696P	NB SUB	KULWANT SINGH	01-05-2012
95	JC 300631F	NB SUB	NACHHATTAR SINGH	01-02-2012
96	JC 300857M	NB SUB	OM PRAKASH KUSHWAHA	01-02-2012
97	JC 300741W	NB SUB	OM PRAKASH YADAV	01-02-2012
98	JC 300157Y	NB SUB	RAM AUTAR	01-08-2012
99	JC 300690N	NB SUB	RAM KUMAR	01-02-2012
100	JC 301145W	NB SUB	SHRI RAM	01-04-2012
101	JC 300700M	NB SUB	TARA CHAND	01-08-2012
102	JC 301094N	NB SUB	VINOD KUMAR	01-07-2012

**MADRAS ENGINEER GROUP**

103	JC 338915P	NB SUB	AKHILESHWAR PATHAK	01-04-2012
104	JC 309193L	NB SUB	BALASUBRAMANIAN G	01-03-2012
105	JC 309327Y	NB SUB	C MUTHUVEERAPPAN	01-02-2012
106	JC 309391W	NB SUB	CHINNAPAIYYAN K	01-05-2012
107	JC 309451A	NB SUB	GANGADHARAN C	01-05-2012
108	JC 308745F	NB SUB	JAYA KUMAR K	01-06-2012
109	JC 309517L	NB SUB	KARANAM SUBRAHMANYAM	01-05-2012
110	JC 309450X	NB SUB	M GURU SANKAR	01-04-2012
111	JC 309763W	NB SUB	MADHUSOODANAN NAIR BK	01-08-2012
112	JC 309648W	NB SUB	MAHANTESH NEELAPPANVAR	01-06-2012
113	JC 338707A	NB SUB	MUKESH KUMAR	01-07-2012
114	JC 309413K	NB SUB	P RAGOTHAMAN	01-08-2012
115	JC 308744Y	NB SUB	R MURUGESAN	01-06-2012
116	JC 309518N	NB SUB	RAJESH KUMAR VK	01-06-2012
117	JC 309404H	NB SUB	RAVICHANDRAN KRISHNAN K	01-06-2012
118	JC 308870L	NB SUB	S JABAKUMAR	01-04-2012
119	JC 309516H	NB SUB	SATHIYA BABU K	01-03-2012
120	JC 309448A	NB SUB	SHANKARAPPA METI	01-05-2012
121	JC 309449H	NB SUB	T RAVI	01-06-2012
122	JC 308710L	NB SUB	T SIVA KOTI REDDY	01-04-2012
123	JC 309290H	NB SUB	WILSON L KOLLAPPALLIL	01-02-2012

**BENGAL ENGINEER GROUP**

124	JC 338914M	NB SUB	ANIL KUMAR	01-04-2012
125	JC 338867A	NB SUB	ASHWANI KUMAR SHARMA	01-06-2012
126	JC 338917A	NB SUB	BALBIR SINGH	01-04-2012
127	JC 338913K	NB SUB	CHAITU LOHRA	01-02-2012
128	JC 338638P	NB SUB	CHANDRA PAL SINGH	01-08-2012
129	JC 338799X	NB SUB	CHET RAM	01-05-2012
130	JC 338907W	NB SUB	DESH RAJ	01-07-2012
131	JC 331099F	NB SUB	DHARAMBIR SINGH	01-04-2012
132	JC 338865P	NB SUB	DILEEP KUMAR	01-06-2012
133	JC 338120F	NB SUB	GYANENDER SINGH	01-04-2012
134	JC 338665Y	NB SUB	JAGBIR SINGH	01-05-2012
135	JC 338060X	NB SUB	JEEWAN SINGH	01-06-2012
136	JC 338702F	NB SUB	JOGINDER SINGH	01-06-2012
137	JC 338836A	NB SUB	LALIT KUMAR VERMA	01-06-2012



138	JC 32933IH	NB SUB	MADAN KUMAR SINGH	01-08-2012
139	JC 338403H	NB SUB	MOOL CHANDRA	01-04-2012
140	JC 338647W	NB SUB	NAKUL CHANDRA DAS	01-07-2012
141	JC 338314K	NB SUB	NAMWAR SINGH YADAVA	01-08-2012
142	JC 338918H	NB SUB	NARENDRA SINGH	01-08-2012
143	JC 338664W	NB SUB	NRUSINGH CHARAN NAYAK	01-04-2012
144	JC 338852X	NB SUB	OM PRAKASH SINGH	01-03-2012
145	JC 329198L	NB SUB	RANA PRATAP SINGH	01-02-2012
146	JC 338916X	NB SUB	RANDHIR SINGH	01-04-2012
147	JC 338846X	NB SUB	SAMAY PAL SINGH	01-02-2012
148	JC 338229F	NB SUB	SANJAY THAPA	01-04-2012
149	JC 338771X	NB SUB	SANT BAX SINGH	01-04-2012
150	JC 338898A	NB SUB	SHYAM KUMAR	01-02-2012
151	JC 338972W	NB SUB	SUBE SINGH	01-05-2012
152	JC 338700W	NB SUB	SUKHDEV SINGH	01-02-2012
153	JC 338697F	NB SUB	TAPAN KUMAR SAHA	01-03-2012
154	JC 338254A	NB SUB	VINAY KUMAR SHARMA	01-03-2012

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

155	JC 351288M	NB SUB	ABDUL MAZID	01-03-2012
156	JC 351203L	NB SUB	BALWANT RAI	01-06-2012
157	JC 351373P	NB SUB	CHAVAN GANPATI LAXMAN	01-02-2012
158	JC 351559Y	NB SUB	GOLPAL JI YADAV	01-08-2012
159	JC 351289P	NB SUB	HARBHAJAN SINGH	01-06-2012
160	JC 350740K	NB SUB	JAGTAR SINGH	01-03-2012
161	JC 351188H	NB SUB	KARANDE ANANDA PRALHAD	01-05-2012
162	JC 350174P	NB SUB	LAKAMALE VIJAY KRISHNA	01-04-2012
163	JC 350787P	NB SUB	MANJIT SINGH	01-08-2012
164	JC 351102X	NB SUB	PAWAR KRISHNAT DATTU	01-04-2012
165	JC 351189K	NB SUB	PAWAR SUBHAS JAYASING	01-06-2012
166	JC 350835K	NB SUB	RANVIR SINGH	01-06-2012
167	JC 351387P	NB SUB	SANTOKH SINGH	01-02-2012
168	JC 350836M	NB SUB	SANTOSH KUMAR PAL	01-07-2012
169	JC 351190Y	NB SUB	SUKHDEV SINGH	01-06-2012

**CORPS OF SIGNALS**

170	JC 378074A	NB SUB	AJIT SINGH	01-04-2012
171	JC 379439W	NB SUB	ANUP SINGH	01-04-2012
172	JC 378360F	NB SUB	AZAD SINGH	01-04-2012
173	JC 379679N	NB SUB	BAL KRISHNA BHARTI	01-07-2012
174	JC 378861F	NB SUB	BALBIR SINGH	01-02-2012
175	JC 376220W	NB SUB	BHADRESWAR DEKA	01-07-2012
176	JC 379613X	NB SUB	BHOLA NATH MAHANTA	01-07-2012
177	JC 380024N	NB SUB	BINAYENDRA GUPTA	01-08-2012
178	JC 378909K	NB SUB	BRAJ MOHAN SINGH	01-02-2012
179	JC 379342L	NB SUB	BRIJ MOHAN SINGH	01-04-2012
180	JC 378854L	NB SUB	DALBIR SINGH	01-08-2012
181	JC 378001N	NB SUB	DALJIT SINGH	01-03-2012
182	JC 378481H	NB SUB	DHAN SINGH	01-03-2012
183	JC 379344W	NB SUB	DHANI RAM	01-04-2012
184	JC 378507M	NB SUB	DHARAMVIR	01-04-2012

185	JC 380028K	NB SUB	DHARMBIR	01-08-2012
186	JC 378738H	NB SUB	GIRDHAR SINGH	01-02-2012
187	JC 378233M	NB SUB	GYAN PRAKASH TIWARI	01-04-2012
188	JC 379668F	NB SUB	HARESWAR RAJBONGSHI	01-06-2012
189	JC 379343N	NB SUB	HARI NARAYAN SINGH	01-04-2012
190	JC 381165P	NB SUB	JAG NARAYAN SINGH	01-08-2012
191	JC 379005W	NB SUB	JAYADEV SINGH	01-04-2012
192	JC 379500P	NB SUB	JAYVIR SINGH CHAUDHARY	01-05-2012
193	JC 379477M	NB SUB	JITENDRA NATH MAL	01-04-2012
194	JC 379008K	NB SUB	JITESH CHANDRA KAR	01-08-2012
195	JC 378809Y	NB SUB	JOJI K J	01-03-2012
196	JC 379428K	NB SUB	JOYANTA KUMAR BORAH	01-04-2012
197	JC 379004N	NB SUB	K BABU	01-04-2012
198	JC 379577X	NB SUB	KAMAL SINGH	01-04-2012
199	JC 378752P	NB SUB	KAMESHWAR RAY	01-04-2012
200	JC 378871L	NB SUB	KARAPPAN T A	01-02-2012
201	JC 378750K	NB SUB	KESAV LAL	01-04-2012
202	JC 379587F	NB SUB	KRISHNADASAN T P	01-04-2012
203	JC 378837L	NB SUB	LAXMAN SINGH	01-04-2012
204	JC 379101L	NB SUB	MADHU SUDAN BHATTACHARYA	01-08-2012
205	JC 379438N	NB SUB	MAHABIR SINGH	01-04-2012
206	JC 377874M	NB SUB	MAHENDRA NATH YADAV	01-07-2012
207	JC 379501X	NB SUB	MAHENDRA SINGH	01-05-2012
208	JC 379427F	NB SUB	MAHIPAL SINGH	01-04-2012
209	JC 378377P	NB SUB	MAHIRE SUNIL DATTA RAOJI	01-02-2012
210	JC 379328Y	NB SUB	MALAY KUMAR MONDAL	01-02-2012
211	JC 379499L	NB SUB	MALOOK SINGH	01-05-2012
212	JC 379797F	NB SUB	MAN SINGH	01-07-2012
213	JC 380549X	NB SUB	MANOJ KUMAR SINGH	01-08-2012
214	JC 379745L	NB SUB	MOHAR SINGH	01-08-2012
215	JC 379480M	NB SUB	NAND KISHORE PRASAD	01-07-2012
216	JC 379100H	NB SUB	NATABAR SWAIN	01-08-2012
217	JC 378383H	NB SUB	NITAI CHAKRABORTI	01-03-2012
218	JC 378982H	NB SUB	P JOHN KENEDY	01-06-2012
219	JC 379206P	NB SUB	RADHUNATHAN B	01-04-2012
220	JC 379357N	NB SUB	RAI HARAN PAL	01-02-2012
221	JC 379086F	NB SUB	RAJ KUMAR SINGH	01-06-2012
222	JC 380528F	NB SUB	RAJ PAL SINGH	01-04-2012
223	JC 378851X	NB SUB	RAJENDRA PRASAD TEWARI	01-08-2012
224	JC 378921L	NB SUB	RAJENDRA SINGH	01-04-2012
225	JC 378922N	NB SUB	RAJESH KUMAR SINGH DEO	01-08-2012
226	JC 379355H	NB SUB	RAM EKBAL SINGH	01-04-2012
227	JC 378997L	NB SUB	RAM GOPAL JAT	01-04-2012
228	JC 380901W	NB SUB	RAM JAS	01-04-2012
229	JC 379683W	NB SUB	RAM KUMAR SINGH	01-08-2012
230	JC 379083N	NB SUB	RAM SHIROMANI SHUKLA	01-03-2012
231	JC 379503H	NB SUB	RAMASHRAY CHOUDHARY	01-06-2012
232	JC 378388F	NB SUB	RAMESH CHAND	01-04-2012
233	JC 379604W	NB SUB	RAMESH KUMAR	01-07-2012
234	JC 379437L	NB SUB	RAMJEE RAI	01-03-2012
235	JC 379603N	NB SUB	RANA PRATAP SINHA	01-07-2012

236	JC 379084W	NB SUB	RANGLAL SINGH YADAV	01-04-2012
237	JC 378454Y	NB SUB	RATIPAL SINGH	01-03-2012
238	JC 379440L	NB SUB	RATTAN SINGH	01-04-2012
239	JC 379715N	NB SUB	RAVICHANDRAN P	01-02-2012
240	JC 379358W	NB SUB	RAJESH KISHORE SHARMA	01-04-2012
241	JC 378962P	NB SUB	S. SHRIKANT PANDURANG	01-06-2012
242	JC 379682N	NB SUB	SANJAY KUMAR VERMA	01-06-2012
243	JC 379429M	NB SUB	SATBIR SINGH	01-04-2012
244	JC 378625A	NB SUB	SATYENDRA PRASAD SINGH	01-02-2012
245	JC 379861N	NB SUB	SEEJO KUMAR SINGH	01-04-2012
246	JC 378594L	NB SUB	SHESH MANI PANDEY	01-04-2012
247	JC 379356L	NB SUB	SHIKUNT PAL SINGH	01-04-2012
248	JC 379753K	NB SUB	SIDH RAM RAI	01-06-2012
249	JC 378504Y	NB SUB	SIGURIM PRASAD	01-03-2012
250	JC 379502A	NB SUB	SURENDRA KUMAR SINGH	01-05-2012
251	JC 379238X	NB SUB	SURENDRA SINGH	01-04-2012
252	JC 378241L	NB SUB	SURENDRA SINGH	01-07-2012
253	JC 379441N	NB SUB	SURESH CHAND	01-04-2012
254	JC 379684Y	NB SUB	SURESH PRASAD	01-08-2012
255	JC 378006M	NB SUB	SUSENDRA GOHAIN	01-02-2012
256	JC 378366H	NB SUB	TAPAS KUMAR MUKHOPADHYAY	01-06-2012
257	JC 378320A	NB SUB	TC VENKATESH	01-03-2012
258	JC 379316K	NB SUB	TEJWIR GIRI	01-04-2012
259	JC 380620A	NB SUB	TRIDEO YADAV	01-03-2012
260	JC 378176W	NB SUB	UDAY KUMAR AP	01-07-2012
261	JC 379504L	NB SUB	UDAYA KUMAR PUHAN	01-07-2012
262	JC 379294W	NB SUB	UMA SHANKAR	01-03-2012
263	JC 378902A	NB SUB	V ESWARA REDDY	01-08-2012
264	JC 378746F	NB SUB	VIJAY SINGH	01-04-2012
265	JC 378229K	NB SUB	YOGENDRA SINGH	01-02-2012

**THE BRIGADE OF GUARDS**

266	JC 404234P	NB SUB	ANOP SINGH CHAUHAN	01-08-2012
267	JC 403956P	NB SUB	BAL KRISHAN MAHORI	01-05-2012
268	JC 404290N	NB SUB	HIPPARKAR BABASAHEB KRASHNA	01-08-2012
269	JC 404427P	NB SUB	JANAK RAI	01-02-2012
270	JC 404336L	NB SUB	MANJIT SINGH RANA	01-07-2012
271	JC 404032N	NB SUB	RAJ NARAYAN PANDEY	01-03-2012
272	JC 403816H	NB SUB	RAMESH CHANDRA	01-02-2012
273	JC 404386W	NB SUB	RAMESH LAL	01-07-2012

**THE PARACHUTE REGIMENT**

274	JC 413407H	NB SUB	NANDA BALLABH JOSHI	01-05-2012
275	JC 413438H	NB SUB	SHIV SINGH	01-04-2012
276	JC 413406A	NB SUB	UTTAM SINGH	01-04-2012

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

277	JC 421045F	NB SUB	AMARENDAR KUMAR SK	01-05-2012
278	JC 421444L	NB SUB	ASHOK KUMAR	01-03-2012
279	JC 421050M	NB SUB	BHUWAN CHANDRA	01-06-2012
280	JC 421463W	NB SUB	CHAMAN LAL	01-05-2012

281	JC 421151A	NB SUB	DAMODAR LENKA	01-07-2012
282	JC 421044Y	NB SUB	DEVINDER SINGH	01-05-2012
283	JC 421149H	NB SUB	GANGA PURI	01-07-2012
284	JC 421194P	NB SUB	JAGDISH	01-07-2012
285	JC 421048P	NB SUB	KALIKA PRASAD PAL	01-06-2012
286	JC 421192K	NB SUB	KRISHAN KUMAR	01-04-2012
287	JC 421150X	NB SUB	KRISHAN KUMAR TIWARI	01-07-2012
288	JC 421148A	NB SUB	KULDIP SINGH	01-06-2012
289	JC 421193M	NB SUB	MD AKRAM ALLI	01-07-2012
290	JC 421046K	NB SUB	POKH PAL	01-05-2012
291	JC 421415W	NB SUB	PRABHAKAR PRASAD GUPTA	01-06-2012
292	JC 421270W	NB SUB	RAJENDER SINGH	01-05-2012
293	JC 421309X	NB SUB	RAMA SHANKAR PRASAD	01-05-2012
294	JC 421092Y	NB SUB	RANDHIR SINGH	01-06-2012
295	JC 421091W	NB SUB	SATBIR	01-05-2012
296	JC 421090N	NB SUB	SURENDAR SINGH	01-07-2012
297	JC 421297N	NB SUB	VIRENDER KUMAR TIWARI	01-08-2012
<b><u>THE PUNJAB REGIMENT</u></b>				
298	JC 430624P	NB SUB	GURMUKH SINGH	01-06-2012
299	JC 430687X	NB SUB	RAJINDER SINGH	01-08-2012
300	JC 430625X	NB SUB	RANJEET SINGH	01-07-2012
<b><u>THE MADRAS REGIMENT</u></b>				
301	JC 309637K	NB SUB	BABY KN	01-06-2012
302	JC 309514X	NB SUB	JAYASEELAN C	01-02-2012
303	JC 309515A	NB SUB	R RAVI KUMAR	01-02-2012
304	JC 440176F	NB SUB	THOTA CHINNA PEERAI AH	01-08-2012
<b><u>THE GRENADIERS</u></b>				
305	JC 450814H	NB SUB	CHUN SINGH	01-02-2012
306	JC 450622L	NB SUB	GOPAL SINGH THAKUR	01-06-2012
307	JC 450386P	NB SUB	SUBHASH CHAND BHANWAL	01-06-2012
<b><u>THE MARATHA LIGHT INFANTRY</u></b>				
308	JC 459879X	NB SUB	GAWAS GANGARAM VISHNU	01-04-2012
309	JC 460099Y	NB SUB	MOHAN LAL	01-07-2012
<b><u>THE RAJPUTANA RIFLES</u></b>				
310	JC 470152M	NB SUB	BINDESHVARI SINGH	01-02-2012
311	JC 470598F	NB SUB	DEEP CHAND	01-06-2012
312	JC 470361K	NB SUB	KAPTAN SINGH RAJPUT	01-02-2012
313	JC 470287N	NB SUB	SHRI PAL SINGH	01-08-2012
314	JC 470387Y	NB SUB	SURESH CHANDRA	01-03-2012
<b><u>THE RAJPUT REGIMENT</u></b>				
315	JC 480331A	NB SUB	HANUMANT KUMAR DWIVEDI	01-07-2012
316	JC 480289M	NB SUB	JAGVIR SINGH	01-08-2012
317	JC 480286Y	NB SUB	MAN MOHAN SINGH	01-07-2012
318	JC 480285W	NB SUB	PRAMOD KUMAR	01-08-2012
319	JC 480365N	NB SUB	ROOP SINGH	01-07-2012

320	JC 480233A	NB SUB	SHYAMANAND CHATURBEDY	01-08-2012
321	JC 480539H	NB SUB	SUBER SINGH	01-05-2012
<b><u>THE JAT REGIMENT</u></b>				
322	JC 490440A	NB SUB	GOBINDA DAS	01-08-2012
323	JC 490279W	NB SUB	PREM SINGH	01-06-2012
<b><u>THE SIKH REGIMENT</u></b>				
324	JC 500174H	NB SUB	GURDEV SINGH	01-07-2012
325	JC 499953W	NB SUB	MANGAL SINGH	01-08-2012
<b><u>THE SIKH LIGHT INFANTRY</u></b>				
326	JC 509817W	NB SUB	BALDEC SINGH	01-04-2012
327	JC 509909H	NB SUB	JAGIR SINGH	01-04-2012
328	JC 509630K	NB SUB	NIRANJAN SINGH	01-04-2012
329	JC 509650X	NB SUB	SARWAN SINGH	01-04-2012
330	JC 509913L	NB SUB	TARSEM SINGH	01-04-2012
<b><u>THE DOGRA REGIMENT</u></b>				
331	JC 521094Y	NB SUB	GANESH LAL	01-04-2012
332	JC 521256Y	NB SUB	RAJ KUMAR	01-05-2012
<b><u>THE GARHWAL RIFLES</u></b>				
333	JC 530375W	NB SUB	BHARAT SINGH	01-06-2012
334	JC 530700L	NB SUB	DEEPAK KUMAR	01-03-2012
335	JC 530502A	NB SUB	DURVIJAY SINGH	01-04-2012
336	JC 530728L	NB SUB	JAGMOHAN SINGH RAWAT	01-08-2012
337	JC 430211A	NB SUB	NATHA SINGH	01-04-2012
338	JC 530674P	NB SUB	SANGAM SINGH	01-03-2012
339	JC 530544M	NB SUB	SATE SINGH	01-04-2012
340	JC 530735F	NB SUB	SHOBHNATH YADAV	01-07-2012
341	JC 530658X	NB SUB	VIKRAM SINGH BHANDARI	01-03-2012
<b><u>THE KUMAON REGIMENT</u></b>				
342	JC 540729F	NB SUB	DEB SINGH	01-03-2012
343	JC 540667M	NB SUB	GANESH CHANDRA PANT	01-08-2012
344	JC 540500H	NB SUB	GOVIND BALLABH	01-03-2012
345	JC 540744W	NB SUB	GOVIND BALLABH	01-03-2012
346	JC 540529L	NB SUB	GOVIND SINGH KHATI	01-02-2012
347	JC 540308Y	NB SUB	GURVINDER SINGH	01-08-2012
348	JC 540475P	NB SUB	JAGDEV YADAV	01-05-2012
349	JC 540626Y	NB SUB	RADHEY SHYAM YADAVA	01-05-2012
350	JC 540651F	NB SUB	UTTAM SINGH CHAUHAN	01-08-2012
<b><u>THE ASSAM REGIMENT</u></b>				
351	JC 549844H	NB SUB	BASANT RAM	01-03-2012
352	JC 549887X	NB SUB	L NOKMAN KONYAK	01-03-2012
353	JC 549524N	NB SUB	MANIK DEB BARMA	01-02-2012
<b><u>THE BIHAR REGIMENT</u></b>				
354	JC 560071N	NB SUB	HARI SHANKAR YADAV	01-02-2012

355	JC 560272M	NB SUB	MODE BHAGAT	01-07-2012
356	JC 560171Y	NB SUB	SHYAM KUMAR PANDEY	01-07-2012
<b><u>THE MAHAR REGIMENT</u></b>				
357	JC 570216F	NB SUB	BODHU RAM	01-07-2012
358	JC 570119K	NB SUB	DHANAWADE MANOHAR YUVARAJ	01-07-2012
359	JC 570167K	NB SUB	KARANDE RAMESH KASHINATH	01-03-2012
360	JC 570249M	NB SUB	MORE BALU MOGAL	01-07-2012
361	JC 570401P	NB SUB	RAM KEWAL SINGH KUSHWAHA	01-07-2012
<b><u>THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES</u></b>				
362	JC 580634K	NB SUB	DESH RAJ SHARMA	01-07-2012
363	JC 581092X	NB SUB	DHARMESH CHHETRI	01-07-2012
364	JC 580921N	NB SUB	HUM RAJ GURUNG	01-01-2012
365	JC 581027X	NB SUB	PRANAV THAPA	01-07-2012
<b><u>THE LADAKH SCOUTS</u></b>				
366	JC 588497L	NB SUB	CHHERING GIACHO	01-07-2012
367	JC 588510K	NB SUB	SKARMA CHHERING	01-07-2012
<b><u>THE NAGA REGIMENT</u></b>				
368	JC 590207F	NB SUB	BHIM BAHADUR	01-07-2012
369	JC 590205W	NB SUB	SHER BAHADUR	01-07-2012
<b><u>1 GORKHA RIFLES</u></b>				
370	JC 602845P	NB SUB	TEJ RAM	01-07-2012
<b><u>4 GORKHA RIFLES</u></b>				
371	JC 421010L	NB SUB	HARBANS SINGH	01-07-2012
<b><u>8 GORKHA RIFLES</u></b>				
372	JC 623916Y	NB SUB	TIK BAHADUR PAIJA	01-07-2012
<b><u>11 GORKHA RIFLES</u></b>				
373	JC 634832L	NB SUB	GORAKH NATH	01-03-2012
374	JC 634874X	NB SUB	MAHESH KUMAR LIMBU	01-07-2012
<b><u>ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)</u></b>				
375	JC 665755H	NB SUB	ARUN KUMAR PRASAD	01-07-2012
376	JC 665452N	NB SUB	ASHWANI KUMAR	01-04-2012
377	JC 665855N	NB SUB	AWDHESH KUMAR SINGH	01-07-2012
378	JC 665494A	NB SUB	BABBAN YADAV	01-07-2012
379	JC 665757N	NB SUB	BACHCHA SINGH	01-04-2012
380	JC 665828K	NB SUB	BAHADUR SINGH	01-03-2012
381	JC 665015N	NB SUB	BAMMIDI HARI KRISHNA	01-07-2012
382	JC 668052M	NB SUB	BHISE SANJAY PATLU	01-07-2012
383	JC 665355W	NB SUB	BISHNU DAYAL SINGH	01-08-2012
384	JC 665785A	NB SUB	BRIJ PAL SINGH	01-03-2012
385	JC 667331L	NB SUB	BUTA RAM	01-02-2012
386	JC 665532L	NB SUB	CHATAR SINGH GURJAR	01-08-2012
387	JC 665895P	NB SUB	CHAVAN SURESH JALINDER	01-07-2012

388	JC 665756L	NB SUB	DAMOR BHEMA BHAI MANGA BHAI	01-08-2012
389	JC 665721P	NB SUB	DEV RAJ	01-04-2012
390	JC 668030N	NB SUB	DILIP KUMAR MONDAL	01-03-2012
391	JC 664785N	NB SUB	DINA NATH RAM	01-03-2012
392	JC 665787L	NB SUB	E ANTHONI SAMY	01-06-2012
393	JC 665414X	NB SUB	FATEH SINGH	01-03-2012
394	JC 665356Y	NB SUB	GAJRAJ SINGH	01-03-2012
395	JC 665536F	NB SUB	GANESH PRASAD	01-06-2012
396	JC 666001A	NB SUB	GHAN SHYAM SINGH	01-03-2012
397	JC 665528H	NB SUB	HANUMAN SINGH	01-03-2012
398	JC 665447H	NB SUB	HARE RAM SINGH	01-03-2012
399	JC 665761W	NB SUB	INDRA SINGH RAWAT	01-02-2012
400	JC 664605A	NB SUB	JAGDISH PRASAD	01-04-2012
401	JC 665715F	NB SUB	JANAK SINGH	01-03-2012
402	JC 664244M	NB SUB	JASDEV SINGH	01-08-2012
403	JC 665336L	NB SUB	KAMINI MOHAN SINGHA	01-06-2012
404	JC 665861F	NB SUB	KARADE BALARAM LAXMAN	01-02-2012
405	JC 667300L	NB SUB	KULKARNI ANKUS MANIK	01-03-2012
406	JC 665711L	NB SUB	LAXMI PRASAD KANDEL	01-07-2012
407	JC 665574X	NB SUB	MAHENDRA PRASAD YADAV	01-04-2012
408	JC 665676N	NB SUB	MAHI PAL SINGH	01-03-2012
409	JC 665843Y	NB SUB	MANOHAR LAL	01-07-2012
410	JC 667808P	NB SUB	MANOJ KUMAR	01-07-2012
411	JC 665760N	NB SUB	MOOSA KOYA T K	01-02-2012
412	JC 665893K	NB SUB	NABA KUMAR SARKAR	01-05-2012
413	JC 665989M	NB SUB	NAHAR SINGH JAT	01-07-2012
414	JC 665441F	NB SUB	NURUL HOQUE CHOWDHURY	01-06-2012
415	JC 667092F	NB SUB	ONNIKRISHNA PILLAI KP	01-07-2012
416	JC 667645M	NB SUB	PADALKAR DHANAJI DAJI	01-08-2012
417	JC 664089W	NB SUB	PADMA RAM THORI	01-06-2012
418	JC 665537K	NB SUB	PARSHU RAM SINGH	01-04-2012
419	JC 664800X	NB SUB	PRATAP CHAND	01-03-2012
420	JC 665784X	NB SUB	PREMA RAM	01-06-2012
421	JC 665724H	NB SUB	RADHA SHYAM ROY	01-06-2012
422	JC 664568X	NB SUB	RAM BAHADUR SAW	01-03-2012
423	JC 665606P	NB SUB	RAM GOPAL	01-03-2012
424	JC 665481M	NB SUB	RAM KUMAR	01-04-2012
425	JC 665475P	NB SUB	RAM PAL	01-07-2012
426	JC 665914P	NB SUB	RAM PRASAD	01-07-2012
427	JC 665866A	NB SUB	RAM PUKAR MAHATO	01-07-2012
428	JC 667335F	NB SUB	RAMADHAR SINGH YADAWA	01-07-2012
429	JC 665613L	NB SUB	RAMESH CHANDER	01-04-2012
430	JC 665632W	NB SUB	RAVINDER KUMAR TIWARI	01-07-2012
431	JC 665937W	NB SUB	ROHITASVA YADAV	01-07-2012
432	JC 667024N	NB SUB	SANAP DINKAR MAHADU	01-04-2012
433	JC 664813P	NB SUB	SATISH CHANDRA	01-04-2012
434	JC 665725L	NB SUB	SHIB PRASAD ROY	01-06-2012
435	JC 665928P	NB SUB	SHIV NANDAN YADAV	01-05-2012
436	JC 665541M	NB SUB	SIBU PRASAD RABIDAS	01-05-2012
437	JC 668025H	NB SUB	SUKHVINDER SINGH	01-08-2012
438	JC 665483N	NB SUB	SURAJ BHAN	01-04-2012

439	JC 665666K	NB SUB	SURESH CHAND	01-07-2012
440	JC 665898H	NB SUB	SURESH SINGH	01-03-2012
441	JC 667305K	NB SUB	T ASOKAN	01-04-2012
442	JC 665622M	NB SUB	TRILOCHAN JOSHI	01-07-2012
443	JC 665707H	NB SUB	UTTAM KUMAR GHOSH	01-03-2012
444	JC 665109L	NB SUB	VED PRAKASH SHARMA	01-07-2012
445	JC 667207K	NB SUB	VS MARIMUTHU	01-04-2012
446	JC 667056W	NB SUB	Y SYED KAMIL	01-04-2012
447	JC 665531H	NB SUB	YOGESHWAR SINGH	01-05-2012

**ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)**

448	JC 681166W	NB RIS	ABDUL GAFOOR KK	01-06-2012
449	JC 681111M	NB RIS	ARIBIND CHOUDHARY	01-07-2012
450	JC 681109P	NB RIS	BHAGWAN SINGH	01-03-2012
451	JC 681204F	NB RIS	CHANDRA SEKHAR AZAD	01-07-2012
452	JC 681104W	NB RIS	HASMAT ALI	01-03-2012
453	JC 681105Y	NB RIS	JAI PRAKASH SINGH	01-03-2012
454	JC 681121W	NB RIS	JITENDER SINGH	01-03-2012
455	JC 681224P	NB RIS	KATHIRAVAN G	01-06-2012
456	JC 681018L	NB RIS	NARAYAN BISWAS	01-05-2012
457	JC 681165N	NB RIS	NARENDRA SINGH	01-06-2012
458	JC 681230H	NB RIS	PARAS NATH PANDEY	01-06-2012
459	JC 681205K	NB RIS	PRASANTA KUMAR BISWAS	01-07-2012
460	JC 681152W	NB RIS	RAJENDRA KUMAR	01-04-2012
461	JC 681203Y	NB RIS	RAM AUTAR SINGH	01-06-2012
462	JC 681052L	NB RIS	ROBIN BARUAH	01-08-2012
463	JC 681181L	NB RIS	SUDARSAN YADAV	01-03-2012
464	JC 681141K	NB RIS	SURESH PRASAD SHARMA	01-05-2012
465	JC 681073H	NB RIS	VENKAT	01-08-2012
466	JC 681150L	NB RIS	VINOD KUMAR	01-07-2012

**ARMY MEDICAL CORPS**

467	JC 694360K	NB SUB	ANATHA KUMAR MISHRA	01-04-2012
468	JC 697373M	NB SUB	ANIL KUMAR OJHA	01-06-2012
469	JC 695888N	NB SUB	ARUN KUMAR SINGH	01-03-2012
470	JC 697515Y	NB SUB	ATUL PRAKASH SUKLA	01-08-2012
471	JC 696906X	NB SUB	BABUL KRISHNA DAS	01-06-2012
472	JC 697146M	NB SUB	BASANTA KUMAR DAS	01-08-2012
473	JC 696584H	NB SUB	BASANTA RAJBONGSHI	01-05-2012
474	JC 696630M	NB SUB	BHRIGU NATH TIWARI	01-04-2012
475	JC 695589P	NB SUB	BIKASH CHANDRA MAJHI	01-03-2012
476	JC 697058W	NB SUB	BIRENDRA SHAHI	01-02-2012
477	JC 697233A	NB SUB	BRIJ KISHOR DWIVEDI	01-08-2012
478	JC 694925K	NB SUB	BUDHIN CHANDRA DASS	01-07-2012
479	JC 696778L	NB SUB	CHAKRA SUDARSHAN MISHRA	01-08-2012
480	JC 697437M	NB SUB	CHANDRAPAL SINGH	01-06-2012
481	JC 696424H	NB SUB	CHITTARANJAN NANDI	01-07-2012
482	JC 697001F	NB SUB	DALJIT SINGH	01-04-2012



483	JC 697295A	NB SUB	DAMODAR PRASAD	01-07-2012
484	JC 696914W	NB SUB	DARWAN SINGH	01-03-2012
485	JC 696777H	NB SUB	DEO NARAYAN SINGH	01-07-2012
486	JC 697110N	NB SUB	DEVI DATT	01-02-2012
487	JC 695866P	NB SUB	GANGA DIN	01-03-2012
488	JC 697171L	NB SUB	GAUTAM PAUL	01-08-2012
489	JC 696776A	NB SUB	GEORGE C K	01-07-2012
490	JC 697147P	NB SUB	GOPAL SINGH NEGI	01-08-2012
491	JC 697231P	NB SUB	JAGPAL PRASAD SUKLA	01-04-2012
492	JC 696853K	NB SUB	JAI BHAGWAN	01-02-2012
493	JC 697142W	NB SUB	K CHANDRAN	01-08-2012
494	JC 697017M	NB SUB	K SIVA KUMAR	01-08-2012
495	JC 696240K	NB SUB	KAMBALE PRABHAKAR ANNAPPA	01-03-2012
496	JC 697048M	NB SUB	KHIRODHAR RAM YADAV	01-08-2012
497	JC 696889H	NB SUB	KRISHNA PRASAD	01-02-2012
498	JC 697518M	NB SUB	LAXMAN MAHADEO INGLE	01-05-2012
499	JC 694924F	NB SUB	MAN MOHAN SINGH	01-02-2012
500	JC 697421F	NB SUB	MANE VILAS BRHMADEV	01-04-2012
501	JC 697481W	NB SUB	MD NIJAMUDIN	01-05-2012
502	JC 697042L	NB SUB	MILANUDDIN LASKAR	01-08-2012
503	JC 697019X	NB SUB	MOHAN LAL	01-08-2012
504	JC 695358Y	NB SUB	MOHANAN PILLAI B	01-03-2012
505	JC 697216A	NB SUB	MURARI LAL	01-07-2012
506	JC 697004P	NB SUB	NAMWAR SINGH	01-06-2012
507	JC 696406A	NB SUB	NARENDRA SINGH	01-02-2012
508	JC 697135P	NB SUB	NAWNIT KUMAR SINGH	01-05-2012
509	JC 697051M	NB SUB	PATIL GANAPATI	01-02-2012
510	JC 697020M	NB SUB	PUNNALAL GUPTA	01-08-2012
511	JC 696687F	NB SUB	RAJ SINGH	01-04-2012
512	JC 697145K	NB SUB	RAJA BHIYA YADAV	01-05-2012
513	JC 697105H	NB SUB	RAJENDRA KUMAR	01-04-2012
514	JC 696955A	NB SUB	RAJENDRA SINGH	01-07-2012
515	JC 697229X	NB SUB	RAJU G	01-04-2012
516	JC 697018P	NB SUB	RAJVEER SINGH YADAV	01-08-2012
517	JC 696779N	NB SUB	RAM BADAN MISHRA	01-08-2012
518	JC 697230M	NB SUB	RAM BHAJJO SINGH	01-05-2012
519	JC 696369X	NB SUB	RAMA KANT VISHWAKARMA	01-07-2012
520	JC 697296H	NB SUB	RAMANUJ SHARMA	01-02-2012
521	JC 696547P	NB SUB	RAMESH CHANDER MISHRA	01-08-2012
522	JC 696201L	NB SUB	RANBIR SINGH	01-02-2012
523	JC 697021P	NB SUB	SABLE ASHOK NARAYAN RAO	01-08-2012
524	JC 696686Y	NB SUB	SATENDRA SINGH	01-07-2012
525	JC 697127F	NB SUB	SATPAL SINGH	01-04-2012
526	JC 697418F	NB SUB	SHACHINDRA PRASAD SINGH	01-02-2012
527	JC 693936K	NB SUB	SHADANANAN S	01-08-2012
528	JC 697116P	NB SUB	SIKANDER SINGH	01-02-2012
529	JC 696771F	NB SUB	SUDHEENDRAN PILLAI P	01-07-2012
530	JC 697007H	NB SUB	SUNIL KUMAR SARKAR	01-03-2012

531	JC 696780H	NB SUB	SURENDER PRAKASH	01-08-2012
532	JC 696407H	NB SUB	SURENDRA SINGH	01-03-2012
533	JC 697232X	NB SUB	SURENDRA SINGH	01-06-2012
534	JC 697423M	NB SUB	SURJA BHAN SINGH	01-06-2012
535	JC 696999X	NB SUB	SWAPAN KUMAR BERA	01-07-2012
536	JC 696094P	NB SUB	UMA SHANKAR TIWARY	01-04-2012
537	JC 696942H	NB SUB	UMESH PRASAD	01-04-2012
538	JC 696998P	NB SUB	UTPAL KONER	01-07-2012

**ARMY ORDNANCE CORPS**

539	JC 728955W	NB SUB	ANANDA RAM BANIKYA	01-03-2012
540	JC 728552W	NB SUB	ARVIND KUMAR YADAV	01-02-2012
541	JC 727406K	NB SUB	ASHWANI KUMAR	01-06-2012
542	JC 728233K	NB SUB	BAL RAJ SINGH	01-03-2012
543	JC 728091X	NB SUB	BALBIR SINGH	01-04-2012
544	JC 728120F	NB SUB	BIRENDRA SINGH NARWARIA	01-05-2012
545	JC 728746Y	NB SUB	C SARANGA PANI	01-04-2012
546	JC 729032X	NB SUB	C SUBBU RAJ	01-08-2012
547	JC 727120P	NB SUB	CHAMPAK KUMAR DAS	01-04-2012
548	JC 728087P	NB SUB	DAL BAHADUR PACHA BHAIYA	01-08-2012
549	JC 728247K	NB SUB	DHARAM BIR SINGH	01-03-2012
550	JC 728036F	NB SUB	DHARAM NARAYAN PANDEY	01-02-2012
551	JC 727730F	NB SUB	DHRUW NARAYAN TIWARI	01-05-2012
552	JC 729030M	NB SUB	DUBASI VARA HAU	01-08-2012
553	JC 728931M	NB SUB	DURGA DASS	01-07-2012
554	JC 728930K	NB SUB	GAIKWAD DEO RAM HARIBHAU	01-07-2012
555	JC 728978X	NB SUB	GAJANAN NARAYAN SHRINATH	01-02-2012
556	JC 728099K	NB SUB	GAN BAHADUR THEPA	01-02-2012
557	JC 727389P	NB SUB	GIRISH BABU YADAV	01-08-2012
558	JC 728890N	NB SUB	GOBIND SINGH	01-06-2012
559	JC 728319H	NB SUB	GOPA KUMAR S	01-04-2012
560	JC 728549W	NB SUB	GOPAL	01-03-2012
561	JC 728270X	NB SUB	GOPAL LAL MEENA	01-08-2012
562	JC 727555X	NB SUB	HARE KRISHNA GHOSH	01-06-2012
563	JC 728278K	NB SUB	HIRDAY NARAYAN RAI	01-02-2012
564	JC 728380M	NB SUB	JAGDISH SINGH	01-05-2012
565	JC 728267X	NB SUB	JOSE CHERIAN	01-05-2012
566	JC 727905Y	NB SUB	KHARADI MAGAN BHAI KANJI BHAI	01-06-2012
567	JC 728621F	NB SUB	KRISHAN DATT SHARMA	01-05-2012
568	JC 728905L	NB SUB	KUMAR ARVIND TRIVEDI	01-07-2012
569	JC 728038M	NB SUB	LAL BABU SINGH	01-03-2012
570	JC 728655P	NB SUB	MANIMOHAN BISWAS	01-06-2012
571	JC 728837H	NB SUB	MANPurna PRASAD SHUKLA	01-04-2012
572	JC 728409K	NB SUB	MOHD SABIR ANSARI	01-04-2012
573	JC 728166K	NB SUB	MOHD SARFUDIN	01-06-2012
574	JC 729116L	NB SUB	MUHAMMAD JAMEEL KHAN	01-04-2012

575	JC 728041M	NB SUB	MURARILAL	01-05-2012
576	JC 72805N	NB SUB	YOGESHJI MANJUNATH GAIKWAD	01-05-2012
577	JC 7280515K	NB SUB	NAND KUMAR	01-07-2012
578	JC 728622K	NB SUB	NAND LAL RAM	01-05-2012
579	JC 728821H	NB SUB	PATEL NAMA DEV	01-05-2012
580	JC 728834W	NB SUB	PRADIP SINGH	01-08-2012
581	JC 728839A	NB SUB	PRABHA SHANKAR DUBEY	01-06-2012
582	JC 728839W	NB SUB	PRADIP G	01-07-2012
583	JC 728839F	NB SUB	R.B.S SHIVNATH	01-07-2012
584	JC 728839L	NB SUB	RAGHU NANDAN CHAUHAN	01-06-2012
585	JC 728831N	NB SUB	RAGHU NATH SINGH	01-06-2012
586	JC 728246F	NB SUB	RAJ NARAIN SINGH YADAV	01-04-2012
587	JC 728207H	NB SUB	RAJENDRA SINGH	01-02-2012
588	JC 728886L	NB SUB	RAM LAKHAN YADAV	01-07-2012
589	JC 728722P	NB SUB	RAMJAL	01-06-2012
590	JC 727361P	NB SUB	RAM PRATAP	01-05-2012
591	JC 727184A	NB SUB	RAMESH CHANDRA	01-07-2012
592	JC 728542M	NB SUB	RAMESH KUMAR	01-04-2012
593	JC 728127L	NB SUB	RANJHAL	01-05-2012
594	JC 729017H	NB SUB	RATAN LAL	01-06-2012
595	JC 728551N	NB SUB	SANJAYS	01-04-2012
596	JC 728558X	NB SUB	SADANAND KUMAR MEHTA	01-07-2012
597	JC 728721M	NB SUB	SATYR SINGH	01-07-2012
598	JC 728254A	NB SUB	SHALESH KUMAR SINGH	01-05-2012
599	JC 728090P	NB SUB	SHESH RAM NEHARA	01-04-2012
600	JC 728906N	NB SUB	SHEKHAR DIXIT	01-08-2012
601	JC 728167M	NB SUB	SUBASH SHARMA	01-07-2012
602	JC 728341N	NB SUB	SUBHAS CHANDRA PAUL	01-08-2012
603	JC 728410Y	NB SUB	SUBHASH	01-06-2012
604	JC 728119M	NB SUB	SURENDER SINGH	01-04-2012
605	JC 727968F	NB SUB	SURENDRA SINGH	01-06-2012
606	JC 728550L	NB SUB	SUVASH CHNDRA	01-06-2012
607	JC 728537F	NB SUB	TRILOKHAN SINGH	01-04-2012
608	JC 727394A	NB SUB	TUSER KUMAR GHOSH	01-04-2012
609	JC 728054K	NB SUB	VHAY BAHADUR SINGH YADAVA	01-07-2012
610	JC 728260N	NB SUB	VHAYA KUMAR G	01-06-2012
611	JC 729683N	NB SUB	YEANUMALA HARI BABU	01-08-2012

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**

612	JC 764661N	NB SUB	A AVALSITHU	01-03-2012
613	JC 763738Y	NB SUB	AHIVARAN SINGH	01-05-2012
614	JC 761212N	NB SUB	ANIL KUMAR	01-08-2012
615	JC 765063H	NB SUB	ARJUN PRASAD	01-05-2012
616	JC 765071F	NB SUB	AROKIA DASS M	01-08-2012
617	JC 762797Y	NB SUB	ASHOK KUMAR PAL	01-05-2012
618	JC 764017F	NB SUB	BABU RAO SWAMY	01-02-2012

619	JC 762804K	NB SUB	BALBIR SINGH	01-04-2012
620	JC 764260Y	NB SUB	BALIRAM PRASAD	01-02-2012
621	JC 765076A	NB SUB	BHAGAUTEE PRASAD PATHAK	01-08-2012
622	JC 761644H	NB SUB	BHAGIRATH SINGH	01-08-2012
623	JC 765072K	NB SUB	DARUAL HUSSAIN BARBHUTYA	01-08-2012
624	JC 761211L	NB SUB	DARWAN SINGH	01-05-2012
625	JC 765075X	NB SUB	DEVENDER SINGH	01-08-2012
626	JC 761540F	NB SUB	DILIP KUMAR MIRDHA	01-08-2012
627	JC 764582Y	NB SUB	DINA NATH SINGH	01-02-2012
628	JC 764021K	NB SUB	DNYANESHWAR GULAB SINGH VERMA	01-03-2012
629	JC 763955P	NB SUB	DURLAV DAS	01-02-2012
630	JC 762555W	NB SUB	GANGA MOHAN	01-05-2012
631	JC 761016N	NB SUB	GOOGAN SINGH YADAV	01-08-2012
632	JC 764617K	NB SUB	GOPI RAMAN	01-02-2012
633	JC 764018K	NB SUB	GOVINDARAJU M	01-04-2012
634	JC 764330M	NB SUB	GYANUDDIN KHAN	01-04-2012
635	JC 765026P	NB SUB	HANS RAJ	01-06-2012
636	JC 764619P	NB SUB	HANSA DATT	01-04-2012
637	JC 763146P	NB SUB	HARI LAL PRASAD	01-03-2012
638	JC 761518W	NB SUB	HARISH CHANDER	01-06-2012
639	JC 760792F	NB SUB	HARISH GIRI GOSWAMI	01-04-2012
640	JC 763181X	NB SUB	HOM PRAKASH GANGBER	01-07-2012
641	JC 764656H	NB SUB	INDRA BHUSHAN KUMAR	01-08-2012
642	JC 764981H	NB SUB	JAIBIR DAS	01-07-2012
643	JC 763844X	NB SUB	JAMALUDDIN BARGHUTYA	01-06-2012
644	JC 761594H	NB SUB	JOGINDER SINGH	01-01-2012
645	JC 764660L	NB SUB	KAMLESH KUMAR	01-03-2012
646	JC 765062A	NB SUB	KHANDEKAR NINAPPA ABA	01-07-2012
647	JC 765910N	NB SUB	KODEESWARAN P	01-04-2012
648	JC 763163P	NB SUB	KOWSAR ALI SHAIKH	01-05-2012
649	JC 764873Y	NB SUB	LALTA PRASAD SINGH	01-08-2012
650	JC 764618M	NB SUB	MADHUVENDRA JHA	01-04-2012
651	JC 764613N	NB SUB	MAHENDRA NATH	01-02-2012
652	JC 763274M	NB SUB	MAHENDRA SINGH	01-08-2012
653	JC 765074P	NB SUB	MAHENDRA SINGH GURJAR	01-08-2012
654	JC 764624A	NB SUB	MALKIT SINGH	01-02-2012
655	JC 765619F	NB SUB	MAN SINGH RAWAT	01-06-2012
656	JC 764202P	NB SUB	MANMOHAN MISHRA	01-03-2012
657	JC 764921N	NB SUB	MD MOTIUR RAHMAN	01-06-2012
658	JC 764579Y	NB SUB	MITHLESH KUMAR	01-02-2012
659	JC 764127W	NB SUB	MOHAN SINGHA	01-06-2012
660	JC 761294F	NB SUB	MOHANAN A	01-08-2012
661	JC 764614W	NB SUB	MOTI CHAND	01-03-2012
662	JC 763078M	NB SUB	MUNNA LAL	01-03-2012
663	JC 763892X	NB SUB	MURALEEDHARAN S	01-03-2012
664	JC 763890M	NB SUB	NAREN CH DAS	01-02-2012
665	JC 763636H	NB SUB	NARENDRA KUMAR SINGH	01-03-2012

666	JC 760793K	NB SUB	NARENDRA SINGH MAAN	01-07-2012
667	JC 765061X	NB SUB	NARESH KUMAR SINGH	01-07-2012
668	JC 763628K	NB SUB	NAVIN SINGH MAHARA	01-04-2012
669	JC 764697M	NB SUB	NOREN DEHINGIA	01-03-2012
670	JC 762447M	NB SUB	OM PRAKASH	01-04-2012
671	JC 765065N	NB SUB	PANKAJ KUMAR NANDI	01-08-2012
672	JC 764368W	NB SUB	PARMAR LALJI BHAI KANJI BHAI	01-06-2012
673	JC 763695P	NB SUB	PATIL SHRIKANT BIRAPPA	01-02-2012
674	JC 764581W	NB SUB	PHOOL KUMAR JHA	01-02-2012
675	JC 763082P	NB SUB	PRABHU NATH CHOUBEY	01-07-2012
676	JC 761409K	NB SUB	PRAKASH NATH GOSWAMI	01-04-2012
677	JC 761931M	NB SUB	PRAMOD KUMAR	01-04-2012
678	JC 764407K	NB SUB	PREM SINGH	01-07-2012
679	JC 763205W	NB SUB	PUSPA RANJAN SAHU	01-07-2012
680	JC 762796W	NB SUB	RADHEY SHYAM	01-06-2012
681	JC 764612L	NB SUB	RAGHUNANDAN	01-03-2012
682	JC 765070Y	NB SUB	RAJBIR SINGH	01-08-2012
683	JC 764045N	NB SUB	RAJENDER KUMAR	01-02-2012
684	JC 765196Y	NB SUB	RAJENDRA SINGH	01-06-2012
685	JC 763071H	NB SUB	RAJESH KUMAR	01-05-2012
686	JC 765077H	NB SUB	RAKESH KUMAR	01-07-2012
687	JC 762990L	NB SUB	RAM BHAVAN YADAV	01-04-2012
688	JC 764615Y	NB SUB	RAM KISHOR SINGH	01-02-2012
689	JC 762798F	NB SUB	RAM NARAYAN SINGH	01-04-2012
690	JC 764580N	NB SUB	RAM PERVESH SINGH	01-02-2012
691	JC 765629L	NB SUB	RAM PRASAD	01-04-2012
692	JC 764528L	NB SUB	RAM SHABAD PANDEY	01-03-2012
693	JC 764155H	NB SUB	RAMESH CHANDRA	01-05-2012
694	JC 761930K	NB SUB	RAMESH KUMAR DANGWAL	01-04-2012
695	JC 763317W	NB SUB	RANA PRATAP BHADRA	01-06-2012
696	JC 761932P	NB SUB	RISHIPAL SINGH	01-04-2012
697	JC 762298K	NB SUB	SACHINDRA KUMAR	01-02-2012
698	JC 762554N	NB SUB	SAJJAN KUMAR	01-03-2012
699	JC 762513K	NB SUB	SALIMUDDIN	01-02-2012
700	JC 765073M	NB SUB	SAMSHER SINGH	01-08-2012
701	JC 764046W	NB SUB	SANTRAM MAROTI THAMKE	01-08-2012
702	JC 764616F	NB SUB	SARDAR SINGH	01-02-2012
703	JC 764623X	NB SUB	SATYA PAL	01-02-2012
704	JC 762879F	NB SUB	SHAMBHU NATH SAINI	01-06-2012
705	JC 762284K	NB SUB	SHAMBHU PRASAD SINGH	01-03-2012
706	JC 762586W	NB SUB	SHIVA SHARNAPPA	01-02-2012
707	JC 764509A	NB SUB	SRI UDAY SINGH TOMAR	01-06-2012
708	JC 763789M	NB SUB	SUBHASH CHANDRA BISWAS	01-03-2012
709	JC 763891P	NB SUB	SUDAMA SINGH	01-02-2012
710	JC 763841K	NB SUB	SUDHESWAR PRASAD SINGH	01-03-2012
711	JC 765055K	NB SUB	SUKHENDRA SINHA	01-06-2012
712	JC 764364A	NB SUB	SURENDRA BEHERA	01-02-2012

713	JC 764924F	NB SUB	SURENDRA KUMAR PRADHAN	01-06-2012
714	JC 764543A	NB SUB	SURESH KUMAR S	01-04-2012
715	JC 764246M	NB SUB	SUSHIL KUMAR	01-02-2012
716	JC 765752K	NB SUB	SWAMINATH YADAV	01-03-2012
717	JC 764925K	NB SUB	T CHITTI BABU	01-06-2012
718	JC 761659L	NB SUB	TAPAS KARMAKAR	01-06-2012
719	JC 764920L	NB SUB	UDAI BHAN SINGH PAL	01-05-2012
720	JC 763159M	NB SUB	UTTAM CHAND	01-04-2012
721	JC 761861Y	NB SUB	VINAY GURANG	01-07-2012
722	JC 761238H	NB SUB	VIVEK TRIVEDI	01-06-2012
723	JC 762826H	NB SUB	YUDHBIR SINGH	01-04-2012

**ARMY EDUCATION CORPS**

724	JC 804009N	NB SUB	SURENDER KUMAR	01-03-2012
-----	------------	--------	----------------	------------

**REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

725	JC 797496N	NB RIS	S SUDALAI MUTHU	01-04-2012
726	JC 797547W	NB RIS	SADHU PRASAD GOUR	01-03-2012

**THE INTELLIGENCE CORPS**

727	JC 811221N	NB SUB	ARUP KUMAR GHOSH	01-02-2012
728	JC 811270W	NB SUB	BALRAM SINGH	01-05-2012
729	JC 811137N	NB SUB	OM PRAKASH MISHRA	01-03-2012
730	JC 811284W	NB SUB	RAM DATT YADAV	01-03-2012
731	JC 811108Y	NB SUB	SUDHIR CHANDRA DAS	01-02-2012
732	JC 811281H	NB SUB	THIRUMALAI MOHAN S	01-08-2012

**CORPS OF MILITARY POLICE**

733	JC 819472M	NB SUB	ASIR UDDIN	01-04-2012
734	JC 819575L	NB SUB	CHANDRA BHANU TRIPATHY	01-06-2012
735	JC 819461A	NB SUB	DAMBARUDHOR BORAH	01-04-2012
736	JC 819347H	NB SUB	NABIN SINGH SANDHU	01-02-2012
737	JC 819475A	NB SUB	RAMU URANG	01-02-2012
738	JC 819402N	NB SUB	SHRI KANT PRASAD SINGH	01-07-2012
739	JC 819435Y	NB SUB	SUDHIR KUMAR SINGH	01-02-2012
740	JC 819354Y	NB SUB	SURYA LAL JAISWAL	01-04-2012

**ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS**

741	JC 826225F	NB SUB	SUNIL BHAGWAN MORE	01-07-2012
-----	------------	--------	--------------------	------------

**ARMY POSTAL SERVICE**

742	JC 834453Y	NB SUB	BALWAN SINGH	01-04-2012
743	JC 834732K	NB SUB	JADHAO NANDKUAMR	01-02-2012

744	JC 834461X	NB SUB	JAGMOHAN RAY	01-06-2012
745	JC 834505K	NB SUB	KESHAV DAS	01-04-2012
746	JC 834507P	NB SUB	MAHENDRA PRASAD	01-06-2012
747	JC 834457P	NB SUB	MAHIPAL SINGH	01-04-2012
748	JC 834766X	NB SUB	PAPINDER SINGH	01-03-2012
749	JC 834422Y	NB SUB	PARAMJEET SINGH	01-04-2012
750	JC 834417N	NB SUB	PEETAM SINGH	01-06-2012
751	JC 834804H	NB SUB	PRAKASH PANDEY	01-02-2012
752	JC 834460P	NB SUB	RAJWANT PRASAD BARI	01-06-2012
753	JC 834447L	NB SUB	RAM AVTAR	01-04-2012
754	JC 834413X	NB SUB	S SEKAR	01-02-2012
755	JC 834462A	NB SUB	SEIKH ASHRF ALI	01-06-2012
756	JC 834891F	NB SUB	SHEESH RAM	01-02-2012
757	JC 834459A	NB SUB	SURENDER SINGH	01-04-2012
758	JC 834456M	NB SUB	SURINDER SINGH	01-04-2012
759	JC 834450L	NB SUB	SYAMAL KUMAR BISWAS	01-06-2012
760	JC 834536K	NB SUB	VINAYA KUMAR	01-04-2012

**DEFENCE SECURITY CORPS**

761	JC 843080X	NB SUB	A SIMION RAJU	01-07-2012
762	JC 842869L	NB SUB	ALLAM PRABHU HIREMATH	01-02-2012
763	JC 842640M	NB SUB	AMAR SINGH	01-06-2012
764	JC 842718M	NB SUB	BALWAN SINGH	01-03-2012
765	JC 843181L	NB SUB	BUDDHU RAM	01-07-2012
766	JC 842790H	NB SUB	DEVAPPA JAYARAM DEVAMANE	01-07-2012
767	JC 842834P	NB SUB	DHARAM PAL	01-05-2012
768	JC 842398H	NB SUB	FADATARE DASHRATH SHANKAR	01-07-2012
769	JC 842498N	NB SUB	GANGA RAM	01-06-2012
770	JC 842840H	NB SUB	HARISH NARAIN SINGH	01-06-2012
771	JC 842512P	NB SUB	HARJIT SINGH	01-04-2012
772	JC 842704M	NB SUB	JABER CHAND	01-04-2012
773	JC 842729Y	NB SUB	JARNAIL SINGH	01-07-2012
774	JC 842826W	NB SUB	KHILARI RAM	01-02-2012
775	JC 842253X	NB SUB	KHUMAN	01-05-2012
776	JC 842772A	NB SUB	KUNDAN SINGH SAHI	01-08-2012
777	JC 842489M	NB SUB	MOHAN SINGH	01-06-2012
778	JC 842199M	NB SUB	NAGENDRA SINGH	01-06-2012
779	JC 842469Y	NB SUB	NANDU SINGH YADAV	01-02-2012
780	JC 842570Y	NB SUB	PASHORI LAL	01-07-2012
781	JC 842907W	NB SUB	PRABHAKARAN PP	01-06-2012
782	JC 842346M	NB SUB	RAM NIWAS	01-06-2012
783	JC 843044M	NB SUB	RAJVIR SINGH	01-02-2012
784	JC 842848P	NB SUB	RANVIR SINGH	01-07-2012
785	JC 842744N	NB SUB	SAHABUDDIN ABAS SHAIKH	01-06-2012
786	JC 842849X	NB SUB	SHRI NARAIN MISRA	01-02-2012
787	JC 842402A	NB SUB	SHYAM BIHARI YADAV	01-06-2012

788	JC 842413M	NB SUB	SIRI RAM	01-05-2012
789	JC 842838L	NB SUB	SURESH CHANDRA	01-06-2012

[F. No. B/43432/ID-12/AG/CW-2]

JAI PRAKASH NEHRA, Lt. Gen., Adjutant General

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2012

**सं. 12(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2012.**— राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित हवलदार एवं दफादार को उनकी सेवा पूरी होने पर उनके नामों के सामने दी हुई तिथि से सेना विनियामावली 1987 के पैरा 179 के अधीन उनको अवैतनिक पद प्रदान करते हैं :-

### अवैतनिक नायब रिसालदार / सुबेदार के रूप में

#### 9 होर्स

1 1088724एन हवलदार सुभाष चन्द 01.03.2012  
61 केवेलरी

2 1088757वाइ दफादार एम के सीताराम 01.05.2012  
82 आर्मड रेजीमेंट

3 1087785वाइ दफादार राजेश कुमार 01.04.2012  
आर्मड कोर

4	1087830ए	दफादार	अनूप कुमार नरजारी	01.01.2012
5	1087790के	दफादार	अर्जुन प्रासा यादव	01.06.2012
6	1088635पी	दफादार	अवधेश कुमार	01.04.2012
7	1088582एफ	हवलदार	बियंत राम	01.06.2012
8	1088626एन	दफादार	बोनोद कुमार	01.04.2012
9	1087794ए	दफादार	चैन सिंह	01.07.2012
10	1579267एम	हवलदार	चुन्नी लाल	01.02.2012
11	1087814एच	दफादार	दिलीप कुमार	01.08.2012
12	1088713एफ	दफादार	गिरिधर प्रधान	01.02.2012
13	1087803डब्ल्यू	दफादार	गुमान सिंह थापा	01.08.2012
14	1088779के	दफादार	करण बसुमा	01.08.2012
15	1088708डब्ल्यू	दफादार	एम आर मोन्डल	01.02.2012
16	1087695एक्स	हवलदार	मदन लाल	01.03.2012
17	1087723वाइ	हवलदार	मुल्तान राम	01.04.2012
18	1088781पी	दफादार	ओम प्रकाश	01.08.2012



19	7239704एल	दफादार	पुत्तन लाल	01.06.2012
20	13976901डब्ल्यू	दफादार	आर के छेहत्री	01.05.2012
21	1088727एफ	दफादार	राम चंद्र	01.03.2012
22	1088740एल	दफादार	राम कुमार बैता	01.05.2012
23	1088795पी	दफादार	राम निवास	01.08.2012
24	1087700एक्स	दफादार	सदा शिव	01.04.2012
25	1579451एक्स	दफादार	संजय कुमार शर्मा	01.04.2012
26	1088701एम	हवलदार	सुरेश सिंह	01.02.2012

आर्टिलरी रेजीमेंट

27	15112104पी	हवलदार	ए मधु	01.03.2012
28	15301912डब्ल्यू	हवलदार	ए राजेन्द्रन	01.08.2012
29	14400231ए	हवलदार	ए सुसाईराज	01.03.2012
30	15107232एच	हवलदार	अनिल कुम्र सिंह	01.02.2012
31	15112093एन	हवलदार	अनिल कुमार पी	01.03.2012
32	15108090एच	हवलदार	अनिरुध यादव	01.03.2012
33	14399621एन	हवलदार	अरोकिया सगायराज एसएस	01.02.2012
34	6385902एन	हवलदार	आशनी कुमार	01.04.2012
35	14394762वाइ	हवलदार	अशोक कुमार सिंह	01.02.2012
36	15108543एच	हवलदार	अशोक कुमार सिंह	01.04.2012
37	15111796एच	हवलदार	बी संतोष मनोहर	01.02.2012
38	15111828ए	हवलदार	बाल बहादुर सिंह	01.02.2012
39	15111952एफ	हवलदार	बाल राम	01.03.2012
40	15112495एल	हवलदार	बलबीर सिंह	01.04.2012
41	15108431एच	हवलदार	बलजिन्दर सिंह	01.04.2012
42	15108193एफ	हवलदार	बलजीत सिंह	01.03.2012
43	14395483ए	हवलदार	बी अली	01.08.2012
44	14399260ए	हवलदार	बउधा नागो किसान	01.06.2012
45	15108191डब्ल्यू	हवलदार	बेनी माधव सिंह	01.03.2012
46	15112340डब्ल्यू	हवलदार	भूप सिंह यादव	01.04.2012
47	15107550एम	हवलदार	बिनोद कुमार वर्मा	01.02.2012
48	15111831ए	हवलदार	बीर भान	01.02.2012
49	15107459डब्ल्यू	हवलदार	ब्रिजेश शिव राज कला	01.02.2012
50	15111794एक्स	हवलदार	चंद्रा भूसेन सिंह	01.02.2012
51	15108153ए	हवलदार	छोटे लाल भारती	01.03.2012
52	15112173एल	हवलदार	छोब सिंह तोमर	01.03.2012
53	14400470पी	हवलदार	डी. मुरुगन	01.04.2012
54	15112245के	हवलदार	डी. रविचंद्रन	01.04.2012
55	15107466एम	हवलदार	दलबीर सिंह	01.02.2012
56	15108721ए	हवलदार	दलीप कुमार	01.04.2012
57	15112250पी	हवलदार	डेविड विलसन आर	01.04.2012

58	15111905के	हवलदार	देविन्द्र कुमार	01.02.2012
59	14400664एक्स	हवलदार	देविन्द्र सिंह	01.07.2012
60	14400568एच	हवलदार	दीपक यादव	01.04.2012
61	14399634एल	हवलदार	धन राज लश्करी	01.02.2012
62	14400242एम	हवलदार	धर्मा बाबू सिंह	01.04.2012
63	14400575वाइ	हवलदार	धर्मन्द्र सिंह	01.04.2012
64	14400409एल	हवलदार	धूप सिंह	01.04.2012
65	14400046एम	हवलदार	दिवाकर दत्त तिवारी	01.03.2012
66	15108709वाइ	हवलदार	जी. राम यादव	01.04.2012
67	15107760एम	हवलदार	गायकवाड दत्ताता बाबू राव	01.02.2012
68	14399689पी	हवलदार	गजेन्द्र सिंह	01.02.2012
69	15108928ए	हवलदार	गनेश राम	01.05.2012
70	15107905एम	हवलदार	ज्ञान सिंह	01.02.2012
71	15107421एम	हवलदार	गिरधारी लाल	01.02.2012
72	15107744पी	हवलदार	गिरधारी रिगमी	01.02.2012
73	15108552के	हवलदार	गोमा राम	01.04.2012
74	14394998एन	हवलदार	गुलाब सिंह	01.04.2012
75	14400410ए	हवलदार	गुलाब सिंह	01.04.2012
76	15112346एक्स	हवलदार	गुरदेव सिंह	01.04.2012
77	15112653पी	हवलदार	गुरजंत सिंह	01.05.2012
78	14395549एल	हवलदार	गुरनाम सिंह	01.08.2012
79	15108820एच	हवलदार	ज्ञान सिंह	01.04.2012
80	15112629वाइ	हवलदार	हमबिर सिंह	01.04.2012
81	14400205वाइ	हवलदार	हनुमान सिंह	01.03.2012
82	15111944एच	हवलदार	हरबिलास	01.03.2012
83	15112558एच	हवलदार	हरदीप सिंह	01.04.2012
84	15112180एफ	हवलदार	हरेन चंद्रा डेका	01.03.2012
85	15111814ए	हवलदार	हरी सिंह	01.02.2012
86	14400120एच	हवलदार	हरपाल सिंह	01.03.2012
87	15112651के	हवलदार	हरपाल सिंह	01.05.2012
88	14399896एफ	हवलदार	हरपाल सिंह	01.03.2012
89	14400486ए	हवलदार	हेम राज	01.04.2012
90	15108698एक्स	हवलदार	होशियार सिंह	01.04.2012
91	14394940डब्ल्यू	हवलदार	होशियार सिंह	01.04.2012
92	14400425एच	हवलदार	इन्द्रा कोनवर	01.04.2012
93	15111428एन	हवलदार	जे राधाकृष्ण	01.06.2012
94	14395282एफ	हवलदार	जे सिंह	01.08.2012
95	15108141एल	हवलदार	जगन्नाथ धारा	01.03.2012
96	15107610डब्ल्यू	हवलदार	जगत पाती साह	01.02.2012
97	15111893ए	हवलदार	जगबीर सिंह	01.02.2012
98	15108333एच	हवलदार	जे यादव	01.03.2012

99	14400544वाइ	हवलदार	जगदीप कुमार	01.04.2012
100	15108410एम	हवलदार	जगदीश चन्द	01.04.2012
101	15112658एन	हवलदार	जगतार सिंह	01.05.2012
102	14400554एच	हवलदार	जय चन्द	01.04.2012
103	15111803एन	हवलदार	जसवंत सिंह	01.02.2012
104	14400416एफ	हवलदार	जसविन्दर सिंह	01.04.2012
105	15112552एफ	हवलदार	जीत सिंह	01.04.2012
106	15108067पी	हवलदार	जितेन्द्र सिंह	01.03.2012
107	15108640ए	हवलदार	जितेन्द्रा कुमार	01.04.2012
108	15108510एक्स	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.04.2012
109	14399701एल	हवलदार	के मनी	01.02.2012
110	14400011डब्ल्यू	हवलदार	के रवि चन्दरन	01.03.2012
111	14399764एन	हवलदार	के आर खान	01.02.2012
112	15108943पी	हवलदार	काले दिलीप भौसाहब	01.07.2012
113	15108248ए	हवलदार	कालो खान	01.03.2012
114	15112179एम	हवलदार	कमला कांता ओ	01.03.2012
115	15112057एच	हवलदार	कमलेश सिंह	01.03.2012
116	14395162एच	हवलदार	कर्म सिंह	01.08.2012
117	13969884वाइ	हवलदार	के लाल रजाक	01.07.2012
118	15110528एम	हवलदार	केदार सिंह	01.05.2012
119	14395402पी	हवलदार	के सिंह	01.08.2012
120	15109716एफ	हवलदार	केवल सिंह	01.08.2012
121	15112430एक्स	हवलदार	किरन तामूले	01.04.2012
122	15112549एफ	हवलदार	किशोरी लाल शर्मा	01.04.2012
123	14609524डब्ल्यू	हवलदार	के बहादुर चेट्टरी	01.02.2012
124	15107931एफ	हवलदार	कष्णन कुमार यादव	01.03.2012
125	14400629पी	हवलदार	कुलबीर सिंह	01.06.2012
126	14400536ए	हवलदार	लाल साहब	01.04.2012
127	15107546के	हवलदार	लक्ष्मी चन्द योगी	01.02.2012
128	15107366एफ	हवलदार	लक्ष्मी नारायण यादव	01.02.2012
129	14400357ए	हवलदार	एम दुरई	01.04.2012
130	14395097एन	हवलदार	एम राजामणिकम	01.08.2012
131	14399956एल	हवलदार	एम टी लिंगम	01.03.2012
132	14395520एच	हवलदार	एम वमपादियम	01.08.2012
133	15111986पी	हवलदार	महादेव सवासुद्धी	01.03.2012
134	15108779एक्स	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.04.2012
135	8032345एम	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.06.2012
136	14394796एम	हवलदार	महेश कुमार	01.02.2012
137	14400206एफ	हवलदार	महीपाल	01.03.2012
138	14395537डब्ल्यू	हवलदार	महीपाल	01.08.2012
139	14400627के	हवलदार	मलकियत सिंह	01.06.2012

140	14400599एच	हवलदार	मंगत राम	01.05.2012
141	15107587एन	हवलदार	मनोहर लाल	01.02.2012
142	15112123ए	हवलदार	मथुरा प्रसाद यादव	01.03.2012
143	14395087के	हवलदार	मोहम्मद सलीम	01.07.2012
144	15107452एम	हवलदार	मिन बहादुर	01.02.2012
145	14396669डब्ल्यू	हवलदार	मिथलेश यादव	01.03.2012
146	15107530वाइ	हवलदार	मोहम्मद रफीक	01.02.2012
147	15112672ए	हवलदार	मोहन लाल चौहान	01.06.2012
148	13977352एन	हवलदार	मुन्ना लाल	01.08.2012
149	15108438एम	हवलदार	एम सिंह भादौरिया	01.04.2012
150	14607299एन	हवलदार	मुथा ए	01.05.2012
151	15108370डब्ल्यू	हवलदार	नारायण	01.03.2012
152	15112377एक्स	हवलदार	नारायण सिंह	01.04.2012
153	15108553एम	हवलदार	नरिंदर सिंह	01.04.2012
154	15112329एक्स	हवलदार	निहाल सिंह यादव	01.04.2012
155	15108449वाइ	हवलदार	निरंजन सिंह	01.04.2012
156	15108245एम	हवलदार	निरवैल सिंह	01.03.2012
157	14399359डब्ल्यू	हवलदार	ओम प्रकाश	01.07.2012
158	15109474के	हवलदार	ओम प्रकाश	01.06.2012
159	15108923एफ	हवलदार	ओम प्रकाश शर्मा	01.04.2012
160	15112693डब्ल्यू	हवलदार	ओम प्रकाश	01.07.2012
161	14400220एन	हवलदार	पी गुनाशेखरन	01.03.2012
162	15112459ए	हवलदार	पारस नाथ यादव	01.04.2012
163	15111837एफ	हवलदार	प्रमोद कुमार	01.02.2012
164	15110654वाइ	हवलदार	पटेल दाला भाई कुराजी	01.06.2012
165	15112435डब्ल्यू	हवलदार	पाटिल बाजीराव रघुनाथ	01.04.2012
166	14400189एम	हवलदार	पवन कुमार	01.03.2012
167	14396807एम	हवलदार	पवार मोतीलाल शाम राव	01.06.2012
168	14400181ए	हवलदार	फनी धर रौय	01.03.2012
169	15111811एम	हवलदार	प्रावेश कुमार	01.02.2012
170	15111891पी	हवलदार	प्रहलाद राम एल	01.02.2012
171	15112324वाइ	हवलदार	प्रमोद सिंह	01.04.2012
172	14395602एल	हवलदार	पूरन सिंह	01.08.2012
173	15107754वाइ	हवलदार	राज पाल	01.02.2012
174	15112115एफ	हवलदार	राजा राम	01.03.2012
175	15108093डब्ल्यू	हवलदार	राजीव कुमार	01.03.2012
176	14400411एच	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.04.2012
177	15108765एक्स	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.04.2012
178	15107234एन	हवलदार	राजेंद्र पाल सिंह	01.02.2012
179	15107771वाइ	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद	01.02.2012
180	14399759एच	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद	01.02.2012

181	15112513एच	हवलदार	राजेंद्रा सिंह भंडारी	01.04.2012
182	15112252ए	हवलदार	राजेश कुमार त्रिपाठी	01.04.2012
183	15108021एम	हवलदार	राजेश सिंह कुशवाह	01.03.2012
184	14400064पी	हवलदार	राजपाल सिंह यादव	01.03.2012
185	15112458एक्स	हवलदार	राम डी. यादव	01.04.2012
186	13977372एफ	हवलदार	राम किशोर	01.08.2012
187	15109632एन	हवलदार	राम कृष्ण	01.05.2012
188	15107238के	हवलदार	राम नरेश दीक्षित	01.02.2012
189	15112464एल	हवलदार	राम सेवक सिंह यादवा	01.04.2012
190	15107510एल	हवलदार	राम सिपाही पटेल	01.02.2012
191	15112132एफ	हवलदार	रामअवतार यादव	01.03.2012
192	8032296पी	हवलदार	रमेश चन्द	01.07.2012
193	15112701के	हवलदार	रमेश चंद्रा	01.07.2012
194	15108697पी	हवलदार	रमेश चंद्रा रजाक	01.04.2012
195	15111946एन	हवलदार	रमेश कुमार	01.03.2012
196	15107542एन	हवलदार	रमेश लाल	01.02.2012
197	15108301ए	हवलदार	रमेश प्रसाद यादवा	01.03.2012
198	14399943एन	हवलदार	रामजस यादव	01.03.2012
199	15112380एक्स	हवलदार	रामोवतार	01.04.2012
200	15112533डब्ल्यू	हवलदार	रामराज सिंह	01.04.2012
201	15111948वाइ	हवलदार	रणधीर	01.03.2012
202	14398506एफ	हवलदार	रंगाले नागेस्वर राव	01.02.2012
203	14395179डब्ल्यू	हवलदार	राठोड़ सना भाई कुबेर भाई	01.08.2012
204	14395067डब्ल्यू	हवलदार	रवीन्द्र कुमार	01.04.2012
205	15107590एन	हवलदार	रवीन्द्र प्रसाद यादव	01.02.2012
206	15112347ए	हवलदार	एस ए कुमार	01.04.2012
207	15107593एफ	हवलदार	एस सिंह	01.02.2012
208	15112271एल	हवलदार	संतोष कुमार पी	01.04.2012
209	15108856एफ	हवलदार	सर्बेश सिंह	01.04.2012
210	14400527वाइ	हवलदार	एस राम	01.04.2012
211	14395438एन	हवलदार	सरजीत सिंह यादव	01.08.2012
212	14395169एम	हवलदार	सतीश कुमार सिंह	01.08.2012
213	15112086एक्स	हवलदार	सतनाम सिंह	01.03.2012
214	15112210एन	हवलदार	सत्यावीर सिंह यादव	01.04.2012
215	15107938एक्स	हवलदार	शैलेंद्र सिंह	01.03.2012
216	14395688पी	हवलदार	एस प्रसाद	01.08.2012
217	15112161डब्ल्यू	हवलदार	एस राजेंद्रा	01.03.2012
218	15112429एच	हवलदार	शिवराज सिंह हाडा	01.04.2012
219	15107861ए	हवलदार	श्री पाल	01.02.2012
220	14400582पी	हवलदार	श्याम बिहारी सिंह यादव	01.04.2012
221	14399993वाइ	हवलदार	सोहन सिंह	01.03.2012

222	15111918एफ	हवलदार	श्री महेश कुमार यादव	01.03.2012
223	15112191एन	हवलदार	सुभ राम सिंह	01.03.2012
224	14399914वाइ	हवलदार	सुभाष सदासिव भोपाली	01.03.2012
225	13977481एन	हवलदार	सुब्रमणि के	01.08.2012
226	15110906ए	हवलदार	सुब्रमनिअन ए	01.06.2012
227	14399767एफ	हवलदार	सुधीर कुमार	01.02.2012
228	15108638एच	हवलदार	सुखवीर सिंह	01.04.2012
229	15112220एक्स	हवलदार	सुनील कुमार सिंह यादव	01.04.2012
230	15112071पी	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार यादव	01.03.2012
231	14394761डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश सिंह	01.02.2012
232	15107963डब्ल्यू	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.03.2012
233	14800633एल	हवलदार	सुरवासे गोविंद पण्डित राव	01.08.2012
234	15112211डब्ल्यू	हवलदार	सुवेश यादव	01.04.2012
235	15107564एम	हवलदार	टी एलुमलाई	01.02.2012
236	15111734एच	हवलदार	तमिल सेलवन बी	01.02.2012
237	15112546एन	हवलदार	तरसेम लाल	01.04.2012
238	15112282एक्स	हवलदार	थोन्दा मल्ला ब्रहमाहयी	01.04.2012
239	15111185एन	हवलदार	थोर्वे कासी नाथ दसरथ	01.06.2012
240	14395634एन	हवलदार	तोरन लाल	01.08.2012
241	15112131वाइ	हवलदार	टी राम यादव	01.03.2012
242	15108746एम	हवलदार	उदय भान यादव	01.04.2012
243	15112171ए	हवलदार	उदय सिंह तोमर	01.03.2012
244	14395444एफ	हवलदार	उधो राम	01.08.2012
245	15108000डब्ल्यू	हवलदार	उथमन पीवी	01.03.2012
246	14395457वाइ	हवलदार	वी दुराईराज	01.08.2012
247	15112109एन	हवलदार	वी महेंद्रन	01.03.2012
248	15107302डब्ल्यू	हवलदार	वी पोवन	01.02.2012
249	14394851एक्स	हवलदार	वी रमन	01.03.2012
250	14394831के	हवलदार	विजय कुमार	01.03.2012
251	15112035के	हवलदार	विजय सिंह	01.03.2012
252	15107708के	हवलदार	विमल कुमार तिवारी	01.02.2012
253	14610068एच	हवलदार	विनोद कुमार	01.03.2012
254	15108413ए	हवलदार	विरेन्द्र सिंह	01.04.2012
255	15112045एन	हवलदार	डब्ल्यू डागु के राव	01.03.2012
256	15112078वाइ	हवलदार	यदू नाथ सिंह	01.03.2012
257	15112207एन	हवलदार	यमुना सिंह	01.04.2012
258	15108085एक्स	हवलदार	यशवंत सिंह	01.03.2012
259	15112277एम	हवलदार	यशवंत सिंह	01.04.2012
<b>वायु सुरक्षा आर्टिलरी कोर</b>				
260	14394990एफ	हवलदार	अचल सिंह	01.04.2012

261	14399044एम	हवलदार	अजायब सिंह	01.07.2012
262	14400247एल	हवलदार	अर्विन्द सिंह	01.04.2012
263	14400406एक्स	हवलदार	अर्विन्द सिंह	01.04.2012
264	14400414डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार	01.04.2012
265	15108367डब्ल्यू	हवलदार	असीम कुमार हल्दर	01.03.2012
266	14400209पी	हवलदार	अतर सिंह	01.03.2012
267	14394819एन	हवलदार	भगत सिंह	01.02.2012
268	15107950वाइ	हवलदार	भट्ट विरेन्द्र के ए आर	01.03.2012
269	14395043एम	हवलदार	दलीप सिंह	01.04.2012
270	14395200एन	हवलदार	दाता राम	01.08.2012
271	14400643एफ	हवलदार	धन देव	01.06.2012
272	14400154डब्ल्यू	हवलदार	धर्म पाल यादव	01.03.2012
273	15108158वाइ	हवलदार	धर्मवीर सिंह	01.03.2012
274	15107885के	हवलदार	दिनेश कुमार सिंह	01.02.2012
275	14400364डब्ल्यू	हवलदार	कृष्णन जी.	01.04.2012
276	14395276एन	हवलदार	लिला राम	01.08.2012
277	14395199के	हवलदार	एम गोड़ा आर पाटिल	01.08.2012
278	14395511एफ	हवलदार	मनोहर प्रसाद	01.08.2012
279	14400188के	हवलदार	एम हुसैन	01.03.2012
280	14395470एच	हवलदार	मूल चन्द सिंह	01.08.2012
281	14395278वाइ	हवलदार	नरेश कुमार	01.08.2012
282	15108320एल	हवलदार	नवीन चंद्रा	01.03.2012
283	14394825डब्ल्यू	हवलदार	पुशकर सिंह एल	01.02.2012
284	14400227एक्स	हवलदार	आर एन	01.03.2012
285	14400651ए	हवलदार	रघुबीर सिंह राना	01.07.2012
286	15110127एक्स	हवलदार	राम बरन	01.07.2012
287	14400202एल	हवलदार	रमा एस महतो	01.03.2012
288	15108446एल	हवलदार	रनबीर सिंह	01.04.2012
289	14399931वाइ	हवलदार	सर्वर्न सिंह	01.03.2012
290	15108325के	हवलदार	शिव लखन राम	01.03.2012
291	14394755एच	हवलदार	श्यामबीर सिंह	01.02.2012
292	14395074एम	हवलदार	एस राजा राव	01.04.2012
293	14395031एक्स	हवलदार	सुदामा लाल	01.04.2012
294	14395683डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश चंद्रा बी	01.08.2012
295	14395515एक्स	हवलदार	सुवेश कुमार सिंह	01.08.2012
296	14398930के	हवलदार	टी अली	01.08.2012
297	14400663पी	हवलदार	तरसेम सिंह	01.07.2012
298	15108255डब्ल्यू	हवलदार	त्रिलोचन जोशी	01.03.2012
299	15112507पी	हवलदार	वरिंदर कुमार	01.04.2012
300	15107689के	हवलदार	विनोद प्रसाद	01.02.2012
301	14400468एक्स	हवलदार	वाइ नारायना राव	01.04.2012

मद्रास इंजीनियर समूह

302	15305166डब्ल्यू	हवलदार	ए आनन्दराज	01.06.2012
303	15301793एल	हवलदार	ए पर्नार सेलवम	01.08.2012
304	15301339एल	हवलदार	ए शण्मुगमै	01.05.2012
305	15301123के	हवलदार	अंबालामन बी	01.03.2012
306	15301190पी	हवलदार	अपुकुटन बी	01.03.2012
307	15305126पी	हवलदार	ए कान्छारना	01.06.2012
308	15304916एक्स	हवलदार	अतर सिंह यादव	01.05.2012
309	15301359वाइ	हवलदार	बी भास्कर नायडू	01.05.2012
310	15301305एक्स	हवलदार	बी नानाजी	01.04.2012
311	15304660ए	हवलदार	सी एच आर राव	01.02.2012
312	15305367पी	हवलदार	चको पीओ	01.08.2012
313	15305317के	हवलदार	चिदाम्बरम ए	01.08.2012
314	15305042एफ	हवलदार	डी. बाबू	01.05.2012
315	15301064एच	हवलदार	डी. मुरली	01.02.2012
316	15305034एच	हवलदार	दीपक पीएम	01.05.2012
317	15301812एल	हवलदार	ईपनागांदला पी	01.08.2012
318	15301366पी	हवलदार	एलवारा सन आर	01.05.2012
319	15301349पी	हवलदार	जी. मुरुगन	01.05.2012
320	15301926डब्ल्यू	हवलदार	जी. पुरुशेथम	01.08.2012
321	15301537डब्ल्यू	हवलदार	जी. रथाकृशन्न	01.06.2012
322	15302051एक्स	हवलदार	गनेश दत्त	01.02.2012
323	15301293एन	हवलदार	गंगाधरन पिल्लई के	01.04.2012
324	15301440एल	हवलदार	गंजी आर	01.06.2012
325	15301869ए	हवलदार	जी. लक्ष्मी रेडी	01.08.2012
326	15305239एक्स	हवलदार	जी. कमातागी	01.07.2012
327	15301505एन	हवलदार	जगदीश प्रसाद	01.06.2012
328	15301167एफ	हवलदार	जसवीर सिंह	01.03.2012
329	15305124के	हवलदार	जोसफ कुज पी	01.06.2012
330	15301469एन	हवलदार	के चिन्नब्बा	01.06.2012
331	15304926एफ	हवलदार	के दनाराज	01.05.2012
332	15305133एल	हवलदार	के केनालवी ए	01.06.2012
333	15304650डब्ल्यू	हवलदार	के एस राव	01.02.2012
334	15305098एन	हवलदार	के वेंकटामणी	01.06.2012
335	15301298एम	हवलदार	के श्रीनिवास राव	01.04.2012
336	15301280डब्ल्यू	हवलदार	के रेडी	01.04.2012
337	15301872ए	हवलदार	कोम्मूनूरी राजा राव	01.08.2012
338	15301225ए	हवलदार	के कसईयाह	01.04.2012
339	15304881एम	हवलदार	कृष्णन जी	01.04.2012
340	15305263एन	हवलदार	एम जॉनसन	01.07.2012



341	15301240पी	हवलदार	एम थाना बालन	01.04.2012
342	15305040डब्ल्यू	हवलदार	मथाई के	01.05.2012
343	15305435एक्स	हवलदार	मथाई वीएम	01.08.2012
344	15304753पी	हवलदार	एम थिरू पथी रेडी	01.03.2012
345	15304606एम	हवलदार	मोहानन एके	01.06.2012
346	15301271पी	हवलदार	मुथु राज एल	01.04.2012
347	15301749एफ	हवलदार	एन थंगाराजु	01.08.2012
348	15307219एच	हवलदार	नागोस्वर राव जे	01.08.2012
349	15301522एन	हवलदार	नुकिनाईडू के	01.06.2012
350	15305312एल	हवलदार	पी मुरुगन	01.08.2012
351	15301730एच	हवलदार	पी रमेश बाबू	01.06.2012
352	15301256ए	हवलदार	आर मोहन	01.04.2012
353	15305323एक्स	हवलदार	आर सेकार	01.08.2012
354	15304767पी	हवलदार	राधाकृष्ण पीजी.	01.03.2012
355	15301395के	हवलदार	रघु नाथन पी	01.05.2012
356	15303428एच	हवलदार	राज कुमार	01.07.2012
357	15301092पी	हवलदार	राजेन्द्रन के	01.02.2012
358	15301217एफ	हवलदार	राजेन्द्रन नायर एम के	01.03.2012
359	15305041वाइ	हवलदार	रविन्द्रन ए	01.05.2012
360	15305150एल	हवलदार	आर के विजयासिन्हा रेडी	01.06.2012
361	15301061पी	हवलदार	एस बरितो	01.02.2012
362	15305106एफ	हवलदार	एस जसदुस	01.06.2012
363	15301886ए	हवलदार	एस कुमार	01.08.2012
364	15301423एल	हवलदार	सहदेवन पीके	01.05.2012
365	15301635डब्ल्यू	हवलदार	संगप्पा के	01.07.2012
366	15304959एम	हवलदार	सरवानन पी	01.05.2012
367	15301834के	हवलदार	ससिधरन पिल्लई बी	01.08.2012
368	15304690एक्स	हवलदार	सतीस कुमार श्री	01.03.2012
369	15305284के	हवलदार	शेक चन्द्र बाशा	01.07.2012
370	15301226एच	हवलदार	शेक एच	01.04.2012
371	15302275एक्स	हवलदार	शिवासंकरन एम	01.06.2012
372	15301965पी	हवलदार	स्टीफन ए	01.08.2012
373	15305394वाइ	हवलदार	सुब्बुरमन एम	01.08.2012
374	15304724ए	हवलदार	सुभाष जी.	01.03.2012
375	15301895एफ	हवलदार	सुरेन्द्रन किलोथ	01.08.2012
376	15304892वाइ	हवलदार	सुरेन्द्रन पिल्लई एमबी	01.05.2012
377	15305346वाइ	हवलदार	सुरेश कुमार पीवी	01.08.2012
378	15305038वाइ	हवलदार	सुरेश कुमार वी	01.05.2012
379	15301392डब्ल्यू	हवलदार	सैयद खासिम शरीफ	01.05.2012
380	15301742एक्स	हवलदार	टी चिन्नम्मा नायडू	01.07.2012
381	15301662ए	हवलदार	थमिलानागन एस	01.07.2012

382	15301351एम	हवलदार	वी रामालिंगम	01.05.2012
383	15305103एन	हवलदार	वी सदाशिवम	01.06.2012
384	15301845डब्ल्यू	हवलदार	वी सिल्वाराज	01.08.2012
385	15304786ए	हवलदार	वीरप्पा जाधव	01.04.2012
386	15301695एल	हवलदार	वेकटेशन सी	01.07.2012
387	15301358डब्ल्यू	हवलदार	विजयाकुमारन के	01.05.2012
388	15304848पी	हवलदार	वाइ मोहम्मद सलीम	01.04.2012
<b>बंगाल इंजीनियर समूह</b>				
389	1479540एफ	हवलदार	अब्दुल डब्ल्यू सिद्दीकी	01.05.2012
390	1479747एफ	हवलदार	अजय कुमार तोमर	01.04.2012
391	1479668एम	हवलदार	अजय प्रताप सिंह	01.06.2012
392	1479149के	हवलदार	अजीत सिंह	01.02.2012
393	1479929पी	हवलदार	अक्लेश कुमार	01.08.2012
394	1479280एफ	हवलदार	अल्गु राम	01.02.2012
395	1481864एल	हवलदार	अमूल्य बरुयह	01.03.2012
396	1479452एल	हवलदार	अनिल कुमार सिंह	01.04.2012
397	1482090ए	हवलदार	अनिल कुमार सिंह	01.06.2012
398	1479640एम	हवलदार	अंजनी कुमार सिंह	01.06.2012
399	1479626ए	हवलदार	अरूप कुमार दास	01.06.2012
400	1479428पी	हवलदार	अशोक कुमार	01.03.2012
401	1479394एम	हवलदार	अशोक कुमार मिश्रा	01.03.2012
402	1479859एफ	हवलदार	अवतार सिंह	01.07.2012
403	1479693एल	हवलदार	अवतार सिंह	01.06.2012
404	1480023डब्ल्यू	हवलदार	बच्चू लाल सिंह	01.08.2012
405	1479314के	हवलदार	बलबीर सिंह	01.03.2012
406	1481867वाइ	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.03.2012
407	1481857पी	हवलदार	बंसीधर बिसोई	01.03.2012
408	1479416ए	हवलदार	भरत भूषण मोहंती	01.03.2012
409	1479295के	हवलदार	भरत पाल सिंह	01.02.2012
410	1482038एक्स	हवलदार	भरत सिंह	01.06.2012
411	1479332एम	हवलदार	भरत सिंह	01.03.2012
412	1479587एम	हवलदार	बिन्नी प्रसाद	01.05.2012
413	1479613एच	हवलदार	बिरेन्द्रा नाथ सिंह	01.05.2012
414	1479214वाइ	हवलदार	ब्रमा दीन	01.02.2012
415	1479216के	हवलदार	ब्रजेन्द्र स्वरूप	01.02.2012
416	1479167एम	हवलदार	बुधा देव चंद्रा	01.02.2012
417	1479924डब्ल्यू	हवलदार	चंद्र बीर सिंह	01.08.2012
418	1479342डब्ल्यू	हवलदार	चंद्रा कमल चेतिया	01.03.2012
419	1479372एन	हवलदार	छबिला कुमार नायक	01.03.2012
420	1479789एन	हवलदार	सी राम कुशवाहा	01.07.2012

421	1479753पी	हवलदार	दान सिंह	01.06.2012
422	1479107एक्स	हवलदार	देवेन्द्र पाल सिंह रावत	01.02.2012
423	1479903ए	हवलदार	देवी सिंह	01.08.2012
424	1479564एल	हवलदार	ध्रुव कुमार प्रसाद सिंह	01.05.2012
425	1479645एल	हवलदार	दिनेश चंद्रा	01.06.2012
426	1479695डब्ल्यू	हवलदार	दिनेश कुमार मिस्त्री	01.06.2012
427	1479479एच	हवलदार	दुर्योधन राय	01.04.2012
428	1479371एल	हवलदार	गगन बिहारी सामल	01.03.2012
429	1479153एम	हवलदार	गंगा बहादुर छात्री	01.02.2012
430	1479918एच	हवलदार	गिरीश कुमार टी	01.08.2012
431	1482051एफ	हवलदार	गोपाल तिवारी	01.06.2012
432	7430713पी	हवलदार	गोपी लाल नाई	01.05.2012
433	1482212वाइ	हवलदार	हरी पाडा बर्मन	01.08.2012
434	1480071डब्ल्यू	हवलदार	हरी प्रसाद वर्मा	01.02.2012
435	1479139ए	हवलदार	हरीश सिंह	01.02.2012
436	1479818एक्स	हवलदार	हरविंदर सिंह	01.07.2012
437	1479369एन	हवलदार	ईगनास तिकोई	01.03.2012
438	1479624पी	हवलदार	ईश्वरी प्रसाद	01.06.2012
439	1479471डब्ल्यू	हवलदार	जगबीर	01.04.2012
440	1479313एफ	हवलदार	जगेन्द्र सिंह यादव	01.03.2012
441	1479625एक्स	हवलदार	जय किशन	01.02.2012
442	1479636के	हवलदार	जय पाल सिंह	01.06.2012
443	1479517एन	हवलदार	जय राम	01.04.2012
444	1479272एच	हवलदार	जय राम	01.02.2012
445	1479923एन	हवलदार	जयनंदन के	01.08.2012
446	1479403एच	हवलदार	जे किशोर पात्रा	01.03.2012
447	1479742एच	हवलदार	कैलाश बाबू	01.06.2012
448	1480003एच	हवलदार	कैलाश सिंह	01.08.2012
449	1479714डब्ल्यू	हवलदार	कामेश्वर सिंह	01.06.2012
450	1479826डब्ल्यू	हवलदार	कमलेश कुमार चौधरी	01.07.2012
451	1479473एफ	हवलदार	कांत लाल मंडल	01.04.2012
452	1479569के	हवलदार	कर्म चन्द	01.05.2012
453	1479842एन	हवलदार	कर्म चन्द	01.07.2012
454	1479686पी	हवलदार	करतार सिंह	01.06.2012
455	1480812एच	हवलदार	के सिंह	01.05.2012
456	1479983एच	हवलदार	खुशी राम	01.08.2012
457	1479900एम	हवलदार	किशोरी लाल	01.08.2012
458	1479511एम	हवलदार	कृष्णा धन घोष	01.04.2012
459	1479221पी	हवलदार	कृष्णा कुमार यादव	01.02.2012
460	1479435एल	हवलदार	कुलवंत सिंह	01.03.2012
461	1479405एन	हवलदार	कुलविन्द्र सिंह	01.03.2012

462	1479475एम	हवलदार	के देवा रांजू	01.04.2012
463	1479748के	हवलदार	लाभ सिंह	01.06.2012
464	1479301एम	हवलदार	मदन सिंह	01.02.2012
465	1479293वाइ	हवलदार	महाराज सिंह	01.02.2012
466	1480013एम	हवलदार	महेंद्र राम	01.08.2012
467	1479715वाइ	हवलदार	मांगे राम	01.06.2012
468	1479189एल	हवलदार	मंगला प्रसाद मिश्रा	01.02.2012
469	1480033ए	हवलदार	मारूति श्री रंग कदम	01.08.2012
470	1479850एम	हवलदार	माया ओरान	01.07.2012
471	1481871एफ	हवलदार	मायाधर महंता	01.03.2012
472	1479666एफ	हवलदार	मिलाप सिंह	01.06.2012
473	1479553वाइ	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.05.2012
474	1479285ए	हवलदार	मुकेश कुमार	01.02.2012
475	1479168पी	हवलदार	मुकेश कुमार	01.02.2012
476	1479552डब्ल्यू	हवलदार	मुनेश कुमार	01.05.2012
477	1479378पी	हवलदार	मुन्ना प्रसाद यादव	01.03.2012
478	1479496एच	हवलदार	नबी नवाज	01.04.2012
479	1577074एन	हवलदार	नन्द सिंह	01.07.2012
480	1479391वाइ	हवलदार	नरेन्द्रा कुमार	01.03.2012
481	1479829के	हवलदार	निखिल चंद्रा विश्वास	01.07.2012
482	1479843डब्ल्यू	हवलदार	नोयल मुंदू	01.07.2012
488	1479629एन	हवलदार	पवन कुमार	01.06.2012
484	1479956वाइ	हवलदार	पवनजीत	01.08.2012
485	1479218पी	हवलदार	पी हज़ारिका	01.02.2012
486	1479760एल	हवलदार	प्रबल सिंह	01.06.2012
487	1479158एल	हवलदार	प्रहलाद सिंह	01.02.2012
488	1479568एफ	हवलदार	प्रहलाद सिंह	01.05.2012
489	1479565एन	हवलदार	प्रहलाद यादव	01.05.2012
490	1479257एन	हवलदार	प्रताप गिरि गोरवामी	01.02.2012
491	1482154ए	हवलदार	प्रताप सिंह	01.02.2012
492	1479649के	हवलदार	प्रताप सिंह	01.04.2012
493	1479427एम	हवलदार	पूरन सिंह	01.03.2012
494	1479881एम	हवलदार	पुर्षोत्तम लाल	01.08.2012
495	1479164वाइ	हवलदार	पुरुषाथम कुमार सिंह	01.02.2012
496	1480021एल	हवलदार	आर राजामणिकम	01.08.2012
497	1479630एच	हवलदार	रबीन्द्र कुमार नायक	01.06.2012
498	1479327एफ	हवलदार	राज कुमार लवानिया	01.03.2012
499	1479441वाइ	हवलदार	राज कुमार सिंह यादव	01.03.2012
500	1479824एल	हवलदार	रजत बोराह	01.07.2012
501	1482207एन	हवलदार	आर राय	01.08.2012
502	1479432एक्स	हवलदार	राजवीर	01.03.2012

503	1479819ए	हवलदार	राम बहोर गदारिया	01.07.2012
504	1479243एन	हवलदार	राम गोपाल	01.02.2012
505	1481921एफ	हवलदार	राम किशोर सिंह	01.04.2012
506	1479197के	हवलदार	राम नगीना सिंह	01.02.2012
507	1479456एफ	हवलदार	राम नारायण	01.04.2012
508	1479266पी	हवलदार	राम नरेश राम	01.02.2012
509	1479395पी	हवलदार	राम निवास	01.03.2012
510	1481965वाइ	हवलदार	राम प्रकाश सिंह	01.05.2012
511	1479943एफ	हवलदार	राम रतन	01.08.2012
512	1479283पी	हवलदार	राम एस पण्डित	01.02.2012
513	1480041वाइ	हवलदार	रामायण जेआई	01.08.2012
514	1479215एफ	हवलदार	रामेन्द्र प्रताप सिंह	01.02.2012
515	1479101डब्ल्यू	हवलदार	रामेश्वर सिंह	01.02.2012
516	1479741ए	हवलदार	रंजीत	01.06.2012
517	1479458एम	हवलदार	रंजीत सिंह	01.04.2012
518	1481922के	हवलदार	रवि प्रताप सिंह	01.04.2012
519	1480019एन	हवलदार	रविन्द्र कुमार	01.08.2012
520	1479288एन	हवलदार	रवीन्द्र कुमार	01.02.2012
521	1482049के	हवलदार	रवीन्द्र सिंह	01.06.2012
522	1479678डब्ल्यू	हवलदार	साजन कुमार	01.06.2012
523	1479284एक्स	हवलदार	संत लाल	01.02.2012
524	1479286एच	हवलदार	सर्वेश कुमार	01.02.2012
525	1479970एल	हवलदार	सतीश चंद्रा खतवाल	01.08.2012
526	1479291एन	हवलदार	सतीश कुमार चौहान	01.02.2012
527	1479299ए	हवलदार	सत्यवीर सिंह	01.02.2012
528	1480412डब्ल्यू	हवलदार	शैलेश कुमार सिंह	01.05.2012
529	1479411एफ	हवलदार	शंकरा वाई के	01.03.2012
530	1479270एक्स	हवलदार	शत्रुघन राम	01.02.2012
531	1481842एम	हवलदार	शिव चंद्रा मिश्रा	01.03.2012
532	1479358एफ	हवलदार	शिव राम	01.03.2012
533	1479384एच	हवलदार	शिवाजी सिंह	01.03.2012
534	1479820पी	हवलदार	सीबा राम मेधी	01.07.2012
535	1481777एक्स	हवलदार	सिकंदर सिंह	01.02.2012
536	1479455वाइ	हवलदार	सिया राम	01.04.2012
537	1479927के	हवलदार	सोहेल लाल	01.08.2012
538	1482258एफ	हवलदार	सोहन सिंह	01.08.2012
539	1479104के	हवलदार	सुभाष राय	01.02.2012
540	1479604एफ	हवलदार	सुदामा यादव	01.05.2012
541	1479825एन	हवलदार	सुधीर कुमार शर्मा	01.07.2012
542	1481794एक्स	हवलदार	सुखचैन सिंह	01.02.2012
543	1479175एल	हवलदार	सुखदेव घोष	01.02.2012

544	1481823एफ	हवलदार	सुनील दत्त पांडे	01.02.2012
545	1479890एन	हवलदार	सुरेश चन्द	01.08.2012
546	1479716एफ	हवलदार	सुरेश पाल	01.06.2012
547	1479470एन	हवलदार	एस हालदार	01.04.2012
548	1479633डब्ल्यू	हवलदार	वी सिंह नेगी	01.06.2012
549	1479933एक्स	हवलदार	विजय प्रकाश सिंह	01.08.2012
550	1479454डब्ल्यू	हवलदार	विजय कुमार सिंह	01.04.2012
551	1479136एम	हवलदार	विनोद कुमार	01.02.2012
552	1482064वाइ	हवलदार	विनोद कुमार	01.06.2012
553	1479696वाइ	हवलदार	विनोद कुमार शर्मा	01.06.2012
554	1479095एन	हवलदार	वीरेंद्र कुमार	01.02.2012

### बोम्बे इंजीनियर समूह

555	1577187डब्ल्यू	हवलदार	अमर सिंह	01.08.2012
556	1576863एन	हवलदार	अमरजीत सिंह	01.04.2012
557	1577151एक्स	हवलदार	अनिल कुमार तिवारी	01.08.2012
558	1576817वाइ	हवलदार	बालदीप सिंह	01.04.2012
559	1576779एन	हवलदार	बलदेव सिंह	01.03.2012
560	1576960एल	हवलदार	बलजीत राम	01.05.2012
561	1576780एच	हवलदार	भान सिंह	01.03.2012
562	1576936पी	हवलदार	भोगे फूलचंद दयान्देओ	01.05.2012
563	1577181पी	हवलदार	बृजेन्द्र प्रताप सिंह	01.08.2012
564	1576687एफ	हवलदार	डी. अर्जुन गमपति	01.03.2012
565	1577180एम	हवलदार	धनपत सिंह	01.08.2012
566	1576731ए	हवलदार	जी. सिंह	01.03.2012
567	15107903एफ	हवलदार	गुलाब राय	01.02.2012
568	1577162के	हवलदार	ज्ञान चन्द	01.08.2012
569	1579503एच	हवलदार	एच अली	01.04.2012
570	1576484एक्स	हवलदार	एच संजय कुमार बी	01.02.2012
571	1577040ए	हवलदार	इजराइल खान	01.06.2012
572	1576842एक्स	हवलदार	जगदीश सिंह	01.04.2012
573	1576654डब्ल्यू	हवलदार	जगजीत सिंह	01.03.2012
574	1576841पी	हवलदार	जय प्रकाश	01.04.2012
575	1576619एन	हवलदार	जनेश्वर दास	01.03.2012
576	1576674के	हवलदार	जसवंत सिंह	01.03.2012
577	1577275एम	हवलदार	जे एम रत्ना	01.08.2012
578	1579225ए	हवलदार	के जया कुम्र	01.02.2012
579	1576998पी	हवलदार	कर्म सिंह	01.06.2012
580	1577969एम	हवलदार	कुलदीप राज	01.05.2012
581	1576852एफ	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.04.2012
582	1577126वाइ	हवलदार	लल्लन राम	01.08.2012

583	1576989एन	हवलदार	महेन्द्र पाल सिंह	01.05.2012
584	1576930एन	हवलदार	मालीवाद जे भाई आर	01.05.2012
585	1576778एल	हवलदार	मनजीत सिंह	01.03.2012
586	1576898के	हवलदार	मोहम्मद यासीन	01.04.2012
587	1577077एफ	हवलदार	मोहम्मद सलीम	01.07.2012
588	1576659पी	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.03.2012
589	1579434एक्स	हवलदार	नदीम अख्तर	01.04.2012
590	1576639एफ	हवलदार	नाथू लाल	01.03.2012
591	1577045वाइ	हवलदार	ओम प्रकाश	01.06.2012
592	1577283एल	हवलदार	पाटिल महादेव विश्वनाथ	01.08.2012
593	1577104ए	हवलदार	पतिराज राम	01.08.2012
594	1577115एम	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.08.2012
595	1577195पी	हवलदार	राजिन्दर कुमार	01.08.2012
596	1576788पी	हवलदार	राजविन्दर सिंह	01.03.2012
597	1577226के	हवलदार	राम किशन	01.08.2012
598	1577267एन	हवलदार	राम कष्णन	01.08.2012
599	1576515एम	हवलदार	रवीन्द्र उमर बाबाराव टी	01.02.2012
600	1576580एम	हवलदार	साठे बजरंग छोंगादियो	01.02.2012
601	1579210एक्स	हवलदार	सतीश चंद्रा	01.02.2012
602	1577201एक्स	हवलदार	शिव चरण	01.08.2012
603	1579193एच	हवलदार	सुग्रीव सिंह	01.02.2012
604	1576799एफ	हवलदार	सुखवंत सिंह	01.03.2012
605	1576924ए	हवलदार	सुखविंदर सिंह	01.05.2012
606	1577259पी	हवलदार	सुंदर सिंह	01.08.2012
607	15108541एक्स	हवलदार	सुरेश कुमार	01.04.2012
608	1576566ए	हवलदार	सुरिन्दर सिंह	01.02.2012
609	1577020एम	हवलदार	सुरमुख सिंह	01.06.2012
610	1576772के	हवलदार	सूर्यवंशी बी जे एस	01.03.2012
611	1577202ए	हवलदार	सविन्द्र सिंह	01.08.2012
612	1576581पी	हवलदार	टिकोन विथोवा देव राम	01.02.2012
613	1577064के	हवलदार	उपेंद्र कुमार	01.06.2012
614	1576904एम	हवलदार	उस्मान	01.04.2012
615	1577041एच	हवलदार	वेद प्रकाश पाठक	01.06.2012

सिग्नल्स कोर

616	15363632एल	हवलदार	ए रमा मूर्थी	01.04.2012
617	15353767वाइ	हवलदार	अब्बासबेग पी	01.05.2012
618	15352159एल	हवलदार	अब्दुल मानन लश्कर	01.03.2012
619	15353678ए	हवलदार	अब्दुल मतीन लश्कर	01.05.2012
620	15352587के	हवलदार	ए सिंह	01.03.2012
621	15353430डब्ल्यू	हवलदार	अखलेश कुमार निरंजन	01.04.2012

622	15352171एम	हवलदार	अक्षय कुमार प्रधान	01.03.2012
623	15352669एम	हवलदार	अलाउद्दीन बरमुईया	01.04.2012
624	15351711एन	हवलदार	अमर नाथ	01.03.2012
625	15351321एल	हवलदार	अमर एस	01.02.2012
626	15353240के	हवलदार	अमित कुमार मंडल	01.04.2012
627	15363753एम	हवलदार	आमोद कुमार सागर	01.04.2012
628	15353314एन	हवलदार	अमृत चंद्रा दास	01.04.2012
629	15354695एम	हवलदार	आनंद के पी	01.07.2012
630	15364986ए	हवलदार	अनिल	01.06.2012
631	15364233एन	हवलदार	अनिल कुमार सिंह	01.04.2012
632	15352293डब्ल्यू	हवलदार	अनिरुद्धा सिंह	01.03.2012
633	15352566एन	हवलदार	अंजनी कुमार पांडे	01.04.2012
634	15355004एफ	हवलदार	अनूकूल कुमार नाथ	01.08.2012
635	15353967पी	हवलदार	अरुण कुमार	01.06.2012
636	15353097एच	हवलदार	अरुण कुमार	01.04.2012
637	15351705ए	हवलदार	अरुणा प्रकाश बेहेरा	01.03.2012
638	15365295ए	हवलदार	अशोक कुमार	01.07.2012
639	15364426एन	हवलदार	अशोक कुमार	01.05.2012
640	15354670ए	हवलदार	अशोक कुमार चौधरी	01.08.2012
641	15354494एन	हवलदार	अशोक कुमार सिंह	01.07.2012
642	15351333ए	हवलदार	अशोक कुमार वी एम	01.02.2012
643	15364062एम	हवलदार	अशोक कुमार यादव	01.04.2012
644	15362026एच	हवलदार	ए कुमार बेनरजी	01.03.2012
645	15351973के	हवलदार	अतर सिंह	01.03.2012
646	15351486के	हवलदार	अथुल्ला	01.02.2012
647	15352337एच	हवलदार	आत्मा नन्द सिंह	01.04.2012
648	15351903एल	हवलदार	अवधेश कुमार सिंह	01.03.2012
649	15352317पी	हवलदार	अवधेश प्रसाद सिंह	01.03.2012
650	15352267पी	हवलदार	अवधेश सिंह	01.03.2012
651	15351104पी	हवलदार	अयोध्या प्रसाद	01.02.2012
652	15353257एक्स	हवलदार	बी के श्रीवास्तवा	01.04.2012
653	15353990एच	हवलदार	बी कौतिक विश्वनाथ	01.06.2012
654	15365292एम	हवलदार	बी मोहम्मद इस्माइल	01.07.2012
655	15351964एच	हवलदार	बी शंकर एस	01.03.2012
656	15353603एच	हवलदार	बल्लू कुमार हाजरा	01.05.2012
657	15352713एल	हवलदार	बाबू के वी	01.04.2012
658	15361979वाइ	हवलदार	बाबू लाल गुज्जर	01.03.2012
659	15355018एफ	हवलदार	बाबू राम जी.	01.08.2012
660	15366000एल	हवलदार	बाबू राम एम	01.08.2012
661	15365164पी	हवलदार	बेबी डी.	01.07.2012
662	15361838के	हवलदार	बादे राजू बाबू राव	01.02.2012



663	15361186डब्ल्यू	हवलदार	बड़गूजर दिलीप नारायण	01.02.2012
664	15354491ए	हवलदार	बागला कांत मुखर्जी	01.07.2012
665	15361509एन	हवलदार	बगुल राजेंद्रा भीला	01.02.2012
666	15352510एफ	हवलदार	बी बरभुईया	01.04.2012
667	15353216एन	हवलदार	बाल किशन	01.04.2012
668	15362900एक्स	हवलदार	बालचन्द्रन नायर एम पी	01.04.2012
669	15351475एक्स	हवलदार	बशीर अहमद	01.02.2012
670	15352307एल	हवलदार	भाग राशन प्रसाद	01.03.2012
671	15353475डब्ल्यू	हवलदार	भागवान भांजा	01.04.2012
672	15354520के	हवलदार	भगवती राम	01.07.2012
673	15355111एच	हवलदार	भागीरथी गिरि	01.08.2012
674	15365941एन	हवलदार	भागोजी पाटिल	01.08.2012
675	15353714ए	हवलदार	भाग्य प्रकाश मिश्रा	01.04.2012
676	15354028वाइ	हवलदार	भरत सिंह	01.06.2012
677	15364882वाइ	हवलदार	भरत सिंह	01.06.2012
678	15352707एक्स	हवलदार	भारिगु नाथ मिश्रा	01.04.2012
679	15361444एल	हवलदार	भासूरन के	01.02.2012
680	15353432एफ	हवलदार	भूपाल सिंह अधिकारी	01.04.2012
681	15354931एच	हवलदार	भूपेंद्र सिंह	01.08.2012
682	15365442एक्स	हवलदार	बिदयुत चातोपाध्यई	01.07.2012
683	15365393ए	हवलदार	बिहारी लाल शर्मा	01.07.2012
684	15351178के	हवलदार	बिजय कुमार ठाकुर	01.02.2012
685	15354567पी	हवलदार	बिजया चंद्रा साहू	01.07.2012
686	15351980ए	हवलदार	बिजेंद्र पाल	01.03.2012
687	15351144डब्ल्यू	हवलदार	बिजेंद्र पाल सिंह	01.02.2012
688	15353441एच	हवलदार	बिनोद प्रसाद यादव	01.04.2012
689	15354687एन	हवलदार	बीर पाल	01.07.2012
690	15365255वाइ	हवलदार	बोलिन बोराह	01.07.2012
691	15363041के	हवलदार	सी लारेन्स	01.04.2012
692	15351249ए	हवलदार	सी एम प्रसाद पटेल	01.02.2012
693	15354721एच	हवलदार	सी एन भाई पी भाई	01.08.2012
694	15362940वाइ	हवलदार	सी आर सदासिव	01.04.2012
695	15365424पी	हवलदार	चमन लाल	01.07.2012
696	15364466पी	हवलदार	चन्द राम	01.03.2012
697	15351527एच	हवलदार	चन्द्रासेन्न के	01.02.2012
698	15353341एक्स	हवलदार	चतर सिंह	01.04.2012
699	15363496ए	हवलदार	चव्हाण संजय भीवा	01.04.2012
700	15352270पी	हवलदार	डी. पी चौधरी	01.03.2012
701	15351624ए	हवलदार	दादन सिंह	01.02.2012
702	15352807एच	हवलदार	दल चन्द जाट	01.04.2012
703	15353736वाइ	हवलदार	दान सिंह कथयात	01.05.2012

704	15351676डब्ल्यू	हवलदार	डांडा रमना मूर्ती	01.02.2012
705	15350985एम	हवलदार	दवेन्द्रा सिंह परिहार	01.02.2012
706	15353192पी	हवलदार	दया प्रसाद	01.04.2012
707	15353470एक्स	हवलदार	देबेंद्रनाथ सुतार	01.04.2012
708	15353422एक्स	हवलदार	दयोमुनी राम	01.04.2012
709	15364959डब्ल्यू	हवलदार	देश राज	01.06.2012
710	15364864डब्ल्यू	हवलदार	देव सहाय	01.06.2012
711	15362616एफ	हवलदार	देवदास एन	01.04.2012
712	15362483डब्ल्यू	हवलदार	देवाराजी सी	01.03.2012
713	15354332एच	हवलदार	देवेंदर सिंह	01.07.2012
714	15352617डब्ल्यू	हवलदार	देवी कुमार दास	01.04.2012
715	15351307वाइ	हवलदार	देविन्द्र सिंह	01.02.2012
716	15352053वाइ	हवलदार	धनवीर सिंह	01.03.2012
717	15363284पी	हवलदार	धर्मवीर	01.04.2012
718	15353232एल	हवलदार	दिलीप चंद्रा गोगोई	01.04.2012
719	15350986पी	हवलदार	दिनेश कुमार	01.02.2012
720	15362727वाइ	हवलदार	दिनेश कुमार शर्मा	01.03.2012
721	15364836के	हवलदार	दिनेश कुमार वर्मा	01.04.2012
722	15353657के	हवलदार	दिनेश पांडे	01.04.2012
723	15351251एक्स	हवलदार	दिनेश प्रसाद मिश्रा	01.02.2012
724	15353926एल	हवलदार	दोशयराज के	01.06.2012
725	15351696के	हवलदार	दुर्गा प्रसाद ममोलर्य	01.03.2012
726	15354158एफ	हवलदार	ई सिंघा	01.06.2012
727	15352834एम	हवलदार	एफ घोष	01.04.2012
728	15361096पी	हवलदार	जी. बी विनायक	01.02.2012
729	15363197एफ	हवलदार	जी. डी. एकानाथ	01.04.2012
730	15354385एफ	हवलदार	गाडी रमना	01.07.2012
731	15354552एम	हवलदार	गजेन्द्र सिंह	01.07.2012
732	15361643वाइ	हवलदार	गणपति हेगड़े	01.02.2012
733	15351130डब्ल्यू	हवलदार	गनेश शंकर	01.02.2012
734	15364967पी	हवलदार	गीवन एम ए	01.06.2012
735	15361634एक्स	हवलदार	जी. थंगअप्पन	01.02.2012
736	15352768पी	हवलदार	गिरीश कुमार एन	01.04.2012
737	15362807डब्ल्यू	हवलदार	गोपाल जी सिंह	01.04.2012
738	15361632एम	हवलदार	गोपीनाथन पिल्लई बी	01.02.2012
739	15351185ए	हवलदार	गन सागर यादव	01.02.2012
740	15352271एक्स	हवलदार	गुप्तेश्वर नाथ प्रसाद	01.03.2012
741	15351979एल	हवलदार	ज्ञान सिंह यादव	01.03.2012
742	15354815ए	हवलदार	हनुमान प्रसाद	01.08.2012
743	15363372एल	हवलदार	हर चांदी	01.04.2012
744	15361034पी	हवलदार	हर नारायण	01.02.2012

745	15354020एम	हवलदार	हरी लाल	01.06.2012
746	15352054एफ	हवलदार	हरी सिंह	01.03.2012
747	15365342एम	हवलदार	हेम राज	01.06.2012
748	15352660एक्स	हवलदार	एच लाल	01.04.2012
749	15361941पी	हवलदार	एच नन्द बिस्वाल	01.02.2012
750	15363220के	हवलदार	इंदराज सिंह	01.04.2012
751	15352856एल	हवलदार	इश्वर चंद्रा शर्मा	01.04.2012
752	15363941एन	हवलदार	जब्बार एच	01.04.2012
753	15361248एल	हवलदार	जाधव दिलीप शिवाजी	01.02.2012
754	15351968वाइ	हवलदार	जग राम	01.03.2012
755	15353889एच	हवलदार	जगदीश प्रसाद यादव	01.06.2012
756	15354947एन	हवलदार	जगदीश राय	01.08.2012
757	15352002एल	हवलदार	जगदीश सिंह यादव	01.03.2012
758	15353356ए	हवलदार	जगेश्वर प्रसाद	01.04.2012
759	15363097डब्ल्यू	हवलदार	जागेश्वर गुप्ता	01.04.2012
760	15365390एम	हवलदार	जय पाल	01.07.2012
761	15363221एम	हवलदार	जालम सिंह जादों	01.04.2012
762	15362920एल	हवलदार	जमीनी के वी	01.04.2012
763	15362581डब्ल्यू	हवलदार	जसवंत	01.03.2012
764	15351320एच	हवलदार	जवाहर	01.02.2012
765	15363387एन	हवलदार	जवाहर सिंह	01.04.2012
766	15364158पी	हवलदार	जवानजल विजय दादाराव	01.04.2012
767	15353618एल	हवलदार	जीत सिंह	01.04.2012
768	15354625एन	हवलदार	जीवन राम	01.05.2012
769	15363042एम	हवलदार	जया कुमार एस	01.04.2012
770	15352819एक्स	हवलदार	जे राम गूजर	01.04.2012
771	15352390एन	हवलदार	जितेन्द्रा बहादुर सिंह	01.04.2012
772	15352241ए	हवलदार	जितेन्द्रा कुमार	01.03.2012
773	15353839एक्स	हवलदार	जयानन्द	01.06.2012
774	15361617एक्स	हवलदार	जॉय जी.	01.02.2012
775	15355021एफ	हवलदार	जोयदेब एस	01.08.2012
776	15361962एल	हवलदार	जूलियस कुजुर	01.03.2012
777	15354478डब्ल्यू	हवलदार	जे बी अप्पा	01.07.2012
778	15352077एच	हवलदार	के डी. प्रसाद यादव	01.03.2012
779	15362887वाइ	हवलदार	के गंगाधरन	01.04.2012
780	15362088एच	हवलदार	के गोपाल राम	01.03.2012
781	15365799एन	हवलदार	के जगन्धर दिये	01.08.2012
782	15364935एम	हवलदार	के जयाबाल	01.06.2012
783	15362987के	हवलदार	के के पी	01.04.2012
784	15351942के	हवलदार	के पी मिश्रा	01.03.2012
785	15357611वाइ	हवलदार	के आर गणपति	01.03.2012

786	15363733वाइ	हवलदार	के एस बापुसाहब	01.04.2012
787	15365949वाइ	हवलदार	के एस महादेवप्पा	01.08.2012
788	15363448ए	हवलदार	कदम डी. दनयानु	01.04.2012
789	15352115एन	हवलदार	कैलाश प्रसाद	01.03.2012
790	15354470के	हवलदार	कामेश्वर	01.07.2012
791	15354500डब्ल्यू	हवलदार	कमलेश कुमार	01.07.2012
792	15353000एम	हवलदार	कमलेश पांडे	01.04.2012
793	15354648पी	हवलदार	कानी राम कास्वन	01.07.2012
794	15352559एक्स	हवलदार	कंवर राज सिंह	01.04.2012
795	15354923के	हवलदार	कर्म सिंह	01.08.2012
796	15352008एम	हवलदार	करन सिंह	01.03.2012
797	15353442एल	हवलदार	कार्तिक पासवान	01.04.2012
798	15365180एम	हवलदार	कश्मीर सिंह	01.07.2012
799	15353652एल	हवलदार	के महंता	01.04.2012
800	15354838एफ	हवलदार	केदारनाथ साहू	01.08.2012
801	15352431एम	हवलदार	कैलाश चन्द	01.04.2012
802	15355752पी	हवलदार	किशुन सिंह	01.04.2012
803	15363194एन	हवलदार	कृष्णापा शंकर साहू	01.04.2012
804	15352245डब्ल्यू	हवलदार	कृष्णन कुमार	01.03.2012
805	15351373एफ	हवलदार	कृष्णन कुमार	01.02.2012
806	15354216ए	हवलदार	कृष्णामूर्ती वी	01.06.2012
807	15351706एच	हवलदार	के सिंह	01.03.2012
808	15363901एम	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.04.2012
809	15363578एच	हवलदार	एल एस एस	01.04.2012
810	15365458एच	हवलदार	लाल मनी	01.07.2012
811	15351584के	हवलदार	लाल सिंह	01.02.2012
812	15361858एक्स	हवलदार	लाल वीआर	01.02.2012
813	15353686वाइ	हवलदार	लाला राम वर्मा	01.04.2012
814	15354664एम	हवलदार	लक्ष्मीधर महंता	01.07.2012
815	15353148एल	हवलदार	लीला राम	01.04.2012
816	15363456वाइ	हवलदार	एम दयानन्द मारुति	01.04.2012
817	15363487वाइ	हवलदार	एम एन काशिनाथ	01.04.2012
818	15363675ए	हवलदार	एम रसल राज	01.04.2012
819	15354753एल	हवलदार	मदन लाल	01.08.2012
820	15351242डब्ल्यू	हवलदार	एम अनन्त गोविंद राव	01.02.2012
821	15362353एन	हवलदार	एम शेक	01.03.2012
822	15353840एम	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.06.2012
823	15361283एन	हवलदार	महेश कुमार चौधरी	01.02.2012
824	15354859एक्स	हवलदार	महेश प्रसाद सिंह	01.08.2012
825	15354281ए	हवलदार	मान सिंह	01.07.2012
826	15353340पी	हवलदार	मनमोहन सिंह	01.04.2012

827	15364757पी	हवलदार	मनोज कुमार सिंह	01.04.2012
828	15354089डब्ल्यू	हवलदार	मथू टी	01.06.2012
829	15353495के	हवलदार	मोहम्मद शेफी आलम अंसारी	01.04.2012
830	15362761वाइ	हवलदार	मोहम्मद एच	01.04.2012
831	15354807एफ	हवलदार	मोहम्मद अब्दुलाह जी.	01.08.2012
832	15365072एच	हवलदार	मोहम्मद एस	01.07.2012
833	15364358एल	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.05.2012
834	15352978पी	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.04.2012
835	15353718डब्ल्यू	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.04.2012
836	15361821डब्ल्यू	हवलदार	मोरे अरुण किसान	01.02.2012
837	15363983ए	हवलदार	मोरे दीपक बालाराम	01.04.2012
838	15353334एफ	हवलदार	मुकेश कुमार त्यागी	01.04.2012
839	15365385एफ	हवलदार	एम नागेश्वर रेडी	01.07.2012
840	15363706पी	हवलदार	मुकुट सिंह	01.04.2012
841	15352561पी	हवलदार	मुनेनदर प्रसाद	01.04.2012
842	15354762एम	हवलदार	मुंशी राम यादव	01.08.2012
843	15365611एन	हवलदार	एन अंबालागन	01.07.2012
844	15361114एम	हवलदार	एन एम आनंदा राव	01.02.2012
845	15353532एम	हवलदार	नाबा कुमार शर्मा	01.04.2012
846	15364620एच	हवलदार	नन्द गोपाल सिंह	01.05.2012
847	15361258पी	हवलदार	नन्द लाल सिंह	01.02.2012
848	15351508एक्स	हवलदार	नंदलाल यादव	01.02.2012
849	15351534वाइ	हवलदार	एन राज मीना	01.02.2012
850	15352068एफ	हवलदार	नारायण सिंह	01.03.2012
851	15354378एल	हवलदार	नरेन बोरा	01.07.2012
852	15363626एक्स	हवलदार	नरेश कुमार	01.04.2012
853	15365668एच	हवलदार	नवीन चंद्र जोशी	01.07.2012
854	15351667पी	हवलदार	नेत्रा सिंह	01.02.2012
855	15351900एक्स	हवलदार	एन साहा	01.03.2012
856	15352191ए	हवलदार	ओम प्रकाश	01.03.2012
857	15365902एन	हवलदार	ओम प्रकाश	01.08.2012
858	15351858के	हवलदार	ओम प्रकाश शर्मा	01.02.2012
859	15361667एच	हवलदार	ओम प्रकाश सिंह	01.02.2012
860	15351138एच	हवलदार	ओमपाल सिंह	01.02.2012
861	15351139एल	हवलदार	ओंकार सिंह	01.02.2012
862	15361802एल	हवलदार	पी बी रामचंद्र	01.02.2012
863	15363999एल	हवलदार	पी जलिनंदर जी.	01.04.2012
864	15351562एल	हवलदार	पी राजेंद्रा बाबू राव	01.02.2012
865	15353481डब्ल्यू	हवलदार	पी रमेश	01.04.2012
866	15365275एम	हवलदार	पी एस कुमार जे	01.07.2012
867	15351086एक्स	हवलदार	पी बी रमना राव	01.02.2012

868	15352391डब्ल्यू	हवलदार	पंचानन्द मिश्रा	01.04.2012
869	15362709डब्ल्यू	हवलदार	परब अरुण हरी	01.03.2012
870	15353639एफ	हवलदार	परमानन्द पंडा	01.04.2012
871	15363366एक्स	हवलदार	प्रदीप कुमार	01.04.2012
872	15361942एक्स	हवलदार	पर्वत कुमार राउत	01.02.2012
873	15351796पी	हवलदार	पवन कुमार	01.03.2012
874	15351501एन	हवलदार	पवन सिंह	01.02.2012
875	15363500एक्स	हवलदार	पवार लक्ष्मण रंगनाथ	01.04.2012
876	15353677एक्स	हवलदार	पीतम सिंह	01.05.2012
877	15354632के	हवलदार	पोवन कुमार	01.07.2012
878	15353114एक्स	हवलदार	प्रभाश कुमार	01.04.2012
879	15351279एक्स	हवलदार	प्रभात चन्द	01.02.2012
880	15365755डब्ल्यू	हवलदार	प्रकाश मोहन तिवारी	01.08.2012
881	15352939डब्ल्यू	हवलदार	प्रमोद कुमार एन	01.04.2012
882	15353796एन	हवलदार	प्रवीण कुमार टी	01.06.2012
883	15361281एच	हवलदार	प्रवीण कुमार उपाध्याय	01.02.2012
884	15351791डब्ल्यू	हवलदार	पुरुषोत्थम	01.03.2012
885	15363313वाइ	हवलदार	पुष्पेन्द्रा कुमार	01.04.2012
886	15362777के	हवलदार	आर गोविंद विश्वनाथ	01.04.2012
887	15354993एच	हवलदार	रबीन्द्र कुमार सिंह	01.08.2012
888	15354429एन	हवलदार	रबीन्द्र सिंह	01.07.2012
889	15354532वाइ	हवलदार	राधा कृष्णा पिल्लई सी	01.07.2012
890	15361580एफ	हवलदार	राधाकृष्णा जी.	01.02.2012
891	15352447एक्स	हवलदार	राधे श्याम	01.04.2012
892	15365042एल	हवलदार	राधे श्याम	01.07.2012
893	15353457एन	हवलदार	राज कुष्णा महाराना	01.04.2012
894	15354789के	हवलदार	राज कुमार	01.08.2012
895	15352656पी	हवलदार	राज कुमार शर्मा	01.04.2012
896	15352569एफ	हवलदार	राज ललन गौतम	01.04.2012
897	15354165एफ	हवलदार	राज नाथ सिंह	01.06.2012
898	15363090एम	हवलदार	राज पाल	01.04.2012
899	15353754एफ	हवलदार	राजेंद्रा कुमार	01.05.2012
900	15353554एल	हवलदार	राजेंद्रा पाणिग्रही	01.04.2012
901	15352646एल	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.04.2012
902	15365286वाइ	हवलदार	राजेश डी.	01.07.2012
903	15351834ए	हवलदार	राजेश कुमार यादव	01.03.2012
904	15363665डब्ल्यू	हवलदार	राजी के पी	01.04.2012
905	15351469के	हवलदार	राजिन्दर कुमार	01.02.2012
906	15352412एफ	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.04.2012
907	15364137वाइ	हवलदार	राजकुमार ठाकुर	01.03.2012
908	15354619ए	हवलदार	राजपाल सिंह	01.07.2012

909	15352052डब्ल्यू	हवलदार	राजपूत सिंह	01.03.2012
910	15352240एक्स	हवलदार	राकेश कुमार	01.03.2012
911	15354430एच	हवलदार	राकेश कुमार सक्सेना	01.07.2012
912	15351729के	हवलदार	राम अवधेश सिंह	01.02.2012
913	15353363डब्ल्यू	हवलदार	राम बिलास सिंह	01.04.2012
914	15353622एन	हवलदार	राम चंद्र	01.05.2012
915	15351914एक्स	हवलदार	राम गिरि	01.03.2012
916	15361775एम	हवलदार	राम करन सिंह	01.02.2012
917	15353986ए	हवलदार	राम केशवर प्रसाद	01.06.2012
918	15351719ए	हवलदार	राम कृष्णापाल सिंह	01.02.2012
919	15365315एच	हवलदार	राम कुमार	01.06.2012
920	15352044एक्स	हवलदार	राम कुमार यादव	01.03.2012
921	15353775एक्स	हवलदार	राम मूरत यादव	01.05.2012
922	15351480एच	हवलदार	राम नरेश	01.02.2012
923	15352501ए	हवलदार	राम निवास	01.04.2012
924	15362592एच	हवलदार	राम निवास	01.04.2012
925	15352178डब्ल्यू	हवलदार	रमा कांत यादव	01.03.2012
926	15363376एफ	हवलदार	रामबीर सिंह	01.04.2012
927	15361672एन	हवलदार	रामदेव माली	01.02.2012
928	15351526ए	हवलदार	रमेशन एल	01.02.2012
929	15351786एल	हवलदार	रमेश चन्द	01.03.2012
930	15353849एफ	हवलदार	रमेश कुमार	01.06.2012
931	15354164पी	हवलदार	रमेश सिंह यादव	01.06.2012
932	15352675ए	हवलदार	रामेश्वर दयाल	01.04.2012
933	15362699एक्स	हवलदार	रामलाल पटेल	01.03.2012
934	15364026एफ	हवलदार	रामवीर सिंह	01.04.2012
935	15353086डब्ल्यू	हवलदार	रनबीर सिंह	01.04.2012
936	15352564एच	हवलदार	रंजीत सिंह	01.04.2012
937	15353440ए	हवलदार	रंजीत कर्माकर	01.04.2012
938	15353778एल	हवलदार	रतन सिन्हा	01.04.2012
939	15365205एन	हवलदार	रवि कुमार एम	01.07.2012
940	15354524ए	हवलदार	रवीन्द्र कुमार	01.07.2012
941	15351582वाइ	हवलदार	रेशम सिंह	01.02.2012
942	15362390एफ	हवलदार	एस बी साहेब पोपट	01.03.2012
943	15353632एक्स	हवलदार	एस के महाकुर	01.04.2012
944	15363637के	हवलदार	एस किशोर	01.04.2012
945	15351920एल	हवलदार	एस आर रमना राजू	01.03.2012
946	15354724डब्ल्यू	हवलदार	एस एस सदानन्द	01.08.2012
947	15352593एक्स	हवलदार	एस विजया कुमारन	01.04.2012
948	15352081एल	हवलदार	सचिदा नन्द यादव	01.03.2012
949	15365115एम	हवलदार	साजू बी एस	01.07.2012

950	15365138एन	हवलदार	सालीब ए	01.07.2012
951	15365905एफ	हवलदार	संदीप कुमार	01.08.2012
952	15352079एन	हवलदार	संजय कुमार सिंह	01.03.2012
953	15364975एन	हवलदार	संजीव कुमार बी	01.06.2012
954	15351401एच	हवलदार	संतोष कुमार सिंह	01.02.2012
955	15362969एफ	हवलदार	संतोष कुमार यादव	01.04.2012
956	15361664पी	हवलदार	संतोष कुमार यादव	01.02.2012
957	15352226एल	हवलदार	सरत कुमार बारिक	01.03.2012
958	15354289एम	हवलदार	सर्बती लाल	01.07.2012
959	15353997एम	हवलदार	शशि कुमार टी पी	01.06.2012
960	15352308एन	हवलदार	सतेन्द्र प्रसाद	01.03.2012
961	15363265के	हवलदार	सत्य एन	01.04.2012
962	15362357के	हवलदार	सत्य प्रकाश शुक्ला	01.03.2012
963	15354968के	हवलदार	सिबस्टियन सी	01.08.2012
964	15352836एक्स	हवलदार	शहीद खान	01.04.2012
965	15353054एन	हवलदार	शोक खासिम पीड़ा	01.04.2012
966	15351105एक्स	हवलदार	शैल कुमार सिंह	01.02.2012
967	15352981पी	हवलदार	एस कुमार के	01.04.2012
968	15365490एक्स	हवलदार	शम्भू नाथ सिंह	01.07.2012
969	15361473ए	हवलदार	एस डी.	01.02.2012
970	15354711वाइ	हवलदार	एस सिंह	01.07.2012
971	15351672ए	हवलदार	शेर सिंह	01.02.2012
972	15352622एफ	हवलदार	शेर सिंह	01.04.2012
973	15362876एम	हवलदार	शिंदे पांडुरंग चालु	01.04.2012
974	15351682के	हवलदार	शियो कुमार मिश्रा	01.03.2012
975	15352269ए	हवलदार	शिव कुमार सिंह	01.03.2012
976	15352812एन	हवलदार	शिव राम सिंह	01.04.2012
977	15352876वाइ	हवलदार	शिव सिंह	01.04.2012
978	15351589एच	हवलदार	श्री निवास	01.02.2012
979	15351476ए	हवलदार	श्याम सिंह	01.02.2012
980	15353402के	हवलदार	श्यामबीर सिंह	01.04.2012
981	15353847डब्ल्यू	हवलदार	सिकंदर सिंह	01.06.2012
982	15353817वाइ	हवलदार	शिवाजी एम	01.06.2012
983	15352512एम	हवलदार	सोमेन कान्ति नाथ	01.04.2012
984	15365956पी	हवलदार	श्री कुमार डी.	01.08.2012
985	15365144एफ	हवलदार	सुबाष पी डी.	01.07.2012
986	15353016एक्स	हवलदार	सुभान मियां	01.04.2012
987	15354655एल	हवलदार	सुभास चंद्रा स्वेन	01.07.2012
988	15353005एल	हवलदार	सुभाष चंद्रा नायक	01.04.2012
989	15361761एम	हवलदार	सुबोध कुमार साहू	01.02.2012
990	15354845एक्स	हवलदार	सुदर शान कुमार	01.08.2012



991	15355115वाइ	हवलदार	एस नाथक	01.08.2012
992	15361365डब्ल्यू	हवलदार	सुगाथन के सी	01.02.2012
993	15352154एम	हवलदार	सुजीत चकर्बती	01.03.2012
994	15354716एक्स	हवलदार	सुखवीर सिंह	01.08.2012
995	15354202ए	हवलदार	सुकुमारन टी एम	01.06.2012
996	15351619पी	हवलदार	सुनील कुमार सिन्हा	01.02.2012
997	15362123ए	हवलदार	सुनील कुमार सिन्हा	01.03.2012
998	15353160एम	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.04.2012
999	15352261एन	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार सिंह	01.03.2012
1000	15351642एच	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.02.2012
1001	15364696एच	हवलदार	सुरेश बाबू आर	01.05.2012
1002	15365901एल	हवलदार	सुरेश चन्द	01.08.2012
1003	15365030डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश चन्द	01.07.2012
1004	15353866एफ	हवलदार	सुरेश चन्द रेगार	01.06.2012
1005	15365331ए	हवलदार	सुरेश चंद्र शर्मा	01.06.2012
1006	15354419एच	हवलदार	सुरेश चंद्रा	01.07.2012
1007	15351709डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश कुमार	01.03.2012
1008	15366018एफ	हवलदार	सुरेश कुमार पी	01.08.2012
1009	15361318वाइ	हवलदार	सुरेश पी	01.02.2012
1010	15351623एक्स	हवलदार	सुरेश प्रसाद	01.02.2012
1011	15351368डब्ल्यू	हवलदार	सुरिन्दर पाल	01.02.2012
1012	15356776एल	हवलदार	सुरजीत कुमार	01.03.2012
1013	15363839एल	हवलदार	सूर्या नाथ यादवा	01.04.2012
1014	15352144एच	हवलदार	सुशील कुमार	01.03.2012
1015	15354068ए	हवलदार	सुशील डी. संगमा	01.06.2012
1016	15362687एच	हवलदार	स्वामी शरण पटेल	01.03.2012
1017	15363421एच	हवलदार	टी डी. पांडुरंग	01.04.2012
1018	15365258एम	हवलदार	टी वी रेडी	01.07.2012
1019	15354144एफ	हवलदार	ताज उद्दीन लश्कर	01.06.2012
1020	15353734एन	हवलदार	तजबार सिंह	01.05.2012
1021	15364720एन	हवलदार	तारकेशवर रौय	01.05.2012
1022	15354109वाइ	हवलदार	तरसेम सिंह	01.06.2012
1023	15353170डब्ल्यू	हवलदार	तेज राम	01.04.2012
1024	15362479एन	हवलदार	थियागाराजन वी	01.03.2012
1025	15364108के	हवलदार	थोरात आनंदा बी	01.04.2012
1026	15352552एन	हवलदार	तिलक राज सिंह	01.04.2012
1027	15363557एम	हवलदार	टोनी एस के	01.04.2012
1028	15354836डब्ल्यू	हवलदार	टी साहू	01.08.2012
1029	15355001एन	हवलदार	उदय नारायण सिंह	01.08.2012
1030	15364658एम	हवलदार	यू अरख	01.05.2012
1031	15351693डब्ल्यू	हवलदार	उमेश कुमार	01.03.2012

1032	15354794पी	हवलदार	उन्नी कुट्टन एम जे	01.08.2012
1033	15352092एक्स	हवलदार	उपेंद्र कुमार शर्मा	01.03.2012
1034	15363663एल	हवलदार	वी जयबालन	01.04.2012
1035	15352848एम	हवलदार	वी मोहाना सुंदरम	01.04.2012
1036	15365989ए	हवलदार	वेद पाल सिंह	01.08.2012
1037	15352521एन	हवलदार	वेद प्रकाश	01.04.2012
1038	15354173डब्ल्यू	हवलदार	वी रमइआ	01.06.2012
1039	15364951के	हवलदार	वेंकटेश वी	01.06.2012
1040	15354645एफ	हवलदार	विद्याधर सिंह	01.07.2012
1041	15353251डब्ल्यू	हवलदार	विजय कुमार	01.04.2012
1042	15365173डब्ल्यू	हवलदार	विजय कुमार	01.07.2012
1043	15364329डब्ल्यू	हवलदार	विजय कुमार	01.05.2012
1044	15352190एक्स	हवलदार	विजय कुमार यादव	01.03.2012
1045	15352730एल	हवलदार	विनया चंद्रा कुरुप बी	01.04.2012
1046	15363700एन	हवलदार	विनोद कुमार	01.04.2012
1047	15361480डब्ल्यू	हवलदार	विनोद वी जी.	01.02.2012
1048	15351744वाइ	हवलदार	वीरेंद्र कुमार शर्मा	01.02.2012
1049	15365594वाइ	हवलदार	विथल विश्वास राव	01.07.2012
1050	15364742एम	हवलदार	डब्ल्यू के पंधारीनाथ	01.04.2012
1051	15361797एल	हवलदार	डब्ल्यू भीमराव	01.02.2012
1052	15351622पी	हवलदार	योगेन्द्रा पण्डित	01.02.2012
1053	15363921ए	हवलदार	जिले सिंह	01.04.2012

#### ब्रिगेड आफ गार्डस

1054	13690218एच	हवलदार	अबधेश प्रसाद	01.07.2012
1055	4071406डब्ल्यू	हवलदार	अब्दुल वाहिद आलम अंसारी	01.06.2012
1056	13689755एफ	हवलदार	अभी राम महतो	01.02.2012
1057	13690066एम	हवलदार	अनिल कुमार	01.05.2012
1058	13689844ए	हवलदार	अशोक आर भलेकर	01.03.2012
1059	13689746ए	हवलदार	अशवनी कुमार शर्मा	01.02.2012
1060	13690206एन	हवलदार	बालाराम हल्दर	01.07.2012
1061	13689728एक्स	हवलदार	बलबीर सिंह	01.02.2012
1062	13690339के	हवलदार	भीम सिंह	01.08.2012
1063	13690199एच	हवलदार	बिरेन्द्रा बर्मन	01.07.2012
1064	13689937पी	हवलदार	बिश्वनाथ डे	01.04.2012
1065	13688227एल	हवलदार	ब्रज किशोर	01.07.2012
1066	13690268एन	हवलदार	चंचल सिंह	01.08.2012
1067	13690178एम	हवलदार	देस राज	01.07.2012
1068	13690374एम	हवलदार	देवेन्द्र सिंह	01.08.2012
1069	13690182पी	हवलदार	दिगन्ता टी	01.07.2012
1070	13690201पी	हवलदार	दिलीप भूयान	01.07.2012

1071	13688072एफ	हवलदार	दिनेश कुमार	01.05.2012
1072	13689807एन	हवलदार	घान एस किशोर शर्मा	01.02.2012
1073	13689727पी	हवलदार	हर एलए बिश्नोई	01.02.2012
1074	13689827ए	हवलदार	हरपाल सिंह भाटी	01.03.2012
1075	13689941एक्स	हवलदार	जगबीर सिंह	01.04.2012
1076	13688013पी	हवलदार	जागीर लाल	01.04.2012
1077	3391478के	हवलदार	जगमाल सिंह	01.05.2012
1078	13689895एन	हवलदार	जय भगवान	01.03.2012
1079	13689713पी	हवलदार	जयपाल सिंह	01.02.2012
1080	13690166एक्स	हवलदार	जीवा नन्द	01.06.2012
1081	13688245एन	हवलदार	जीवन चंद्रा	01.07.2012
1082	15362811वाइ	हवलदार	खरत हनामन्त दत्तू	01.04.2012
1083	13689993एन	हवलदार	के कामेश्वर राव	01.04.2012
1084	13689862एच	हवलदार	कष्णन चन्द तिवारी	01.03.2012
1085	13690351एल	हवलदार	एलए बाबू बैठा	01.08.2012
1086	13689896डब्ल्यू	हवलदार	एम सेकार	01.03.2012
1087	13689915डब्ल्यू	हवलदार	महेंद्र प्रसाद	01.03.2012
1088	13690336डब्ल्यू	हवलदार	मेहरबान सिंह	01.08.2012
1089	4426802एन	हवलदार	नाथू लाल नाई	01.03.2012
1090	13689769एफ	हवलदार	नेत्रा पाल	01.02.2012
1091	13690107एल	हवलदार	ओमवीर सिंह	01.06.2012
1092	13690297एच	हवलदार	फूल कुमार	01.08.2012
1093	13690088एल	हवलदार	प्रमोद कुमार मिश्रा	01.06.2012
1094	13688223पी	हवलदार	राधा रमन सिंह	01.07.2012
1095	13688157एक्स	हवलदार	राम पालत	01.06.2012
1096	13689864एन	हवलदार	राम सजीवन बी	01.03.2012
1097	13689962एन	हवलदार	राम सिंह	01.04.2012
1098	13689771वाइ	हवलदार	रमा कांता बी	01.02.2012
1099	13689714एक्स	हवलदार	एस मोधू के नाग	01.02.2012
1100	13689977डब्ल्यू	हवलदार	संतोष कुमार पाल	01.04.2012
1101	13689701ए	हवलदार	एस जैना	01.02.2012
1102	13688035एन	हवलदार	सेवा राम	01.04.2012
1103	13690270एल	हवलदार	शिव प्रताप सिंह	01.08.2012
1104	13690027एन	हवलदार	सिया राम द्विवेदी	01.05.2012
1105	13689996एफ	हवलदार	सोहन सिंह	01.04.2012
1106	13690220ए	हवलदार	सुरेश कुमार	01.07.2012
1107	13689804वाइ	हवलदार	सुरेश ठाकुर	01.02.2012
1108	13688248एफ	हवलदार	सुशील कुमार	01.07.2012
<b><u>पैराशूट रेजीमेंट</u></b>				
1109	2480682एफ	हवलदार	अभेय राम	01.02.2012

1110	13616495वाइ	हवलदार	आलम सिंह गुर्जर	01.02.2012
1111	13617844के	हवलदार	अशवनी कुमार शर्मा	01.07.2012
1112	13616532एफ	हवलदार	चन्द्र शेखर आजाद	01.04.2012
1113	9419293एम	हवलदार	चंद्रा बहादुर राय	01.02.2012
1114	13616593वाइ	हवलदार	चंद्रा पाल	01.04.2012
1115	13617869डब्ल्यू	हवलदार	चंद्राजीत सिंह	01.08.2012
1116	13617835एच	हवलदार	सी राम	01.06.2012
1117	13617836एल	हवलदार	धर्म पाल	01.07.2012
1118	13617907एफ	हवलदार	जी. शेर	01.08.2012
1119	13617740एच	हवलदार	जगन नाथ शर्मा	01.03.2012
1120	2782898ए	हवलदार	किरन चंद्रा सेकिआ	01.02.2012
1121	2784966एफ	हवलदार	एम विठल बी	01.02.2012
1122	13617662डब्ल्यू	हवलदार	मुकेश कुमार	01.02.2012
1123	13616559वाइ	हवलदार	निरोत्थम सिंह	01.04.2012
1124	13616591एन	हवलदार	पुशपिंदर कुमार	01.04.2012
1125	13617897एच	हवलदार	आर सिंह	01.08.2012
1126	13616621ए	हवलदार	राज कुमार	01.05.2012
1127	13617889के	हवलदार	राजबीर सिंह	01.08.2012
1128	2785248एक्स	हवलदार	संदेश कुमार	01.04.2012
1129	13617749एक्स	हवलदार	सर्वेश पाल	01.03.2012
1130	13617849एच	हवलदार	सत्यपाल सिंह यादव	01.07.2012
1131	13617842वाइ	हवलदार	सुबाष चन्द	01.07.2012
1132	13617724एल	हवलदार	सूरज भान स्वामी	01.03.2012
<u>मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेंट</u>				

1133	14914868एक्स	हवलदार	ए मारिआ फ्रांसेस ए ए	01.02.2012
1134	14914667वाइ	हवलदार	अब्दुल गफूर	01.05.2012
1135	14914116एन	हवलदार	अजय कुमार दास	01.08.2012
1136	2983682वाइ	हवलदार	अजय कुमार सिंह	01.02.2012
1137	14915035ए	हवलदार	अजया कुमार ऐज	01.05.2012
1138	14915066ए	हवलदार	अर्विन्द कुमार	01.05.2012
1139	14914102एन	हवलदार	अशोक कुमार	01.08.2012
1140	14913983एल	हवलदार	बजरंग बाली	01.03.2012
1141	14914867पी	हवलदार	बिनोद कुमार सिंह	01.02.2012
1142	14913977एक्स	हवलदार	चित्रा बहादुर थापा	01.02.2012
1143	14914104वाइ	हवलदार	चित्रा सेन राउत	01.08.2012
1144	2988935एच	हवलदार	दामोदर सिंह	01.03.2012
1145	2988608एक्स	हवलदार	देवेन्द्र सिंह तोमर	01.02.2012
1146	2988681डब्ल्यू	हवलदार	धर्मन्द्र प्रताप एस	01.02.2012
1147	14915267वाइ	हवलदार	जी. मुरुगेसन	01.08.2012
1148	14915262ए	हवलदार	गेंदा प्रसाद	01.08.2012

1149	14913982एच	हवलदार	हरी सिंह थापा	01.03.2012
1150	2988897एक्स	हवलदार	जगदीश सिंह	01.03.2012
1151	14915355पी	हवलदार	जरनैल सिंह	01.08.2012
1152	14915275एक्स	हवलदार	जसवंत सिंह महंत	01.08.2012
1153	14915291पी	हवलदार	के बासकरन	01.08.2012
1154	14914951पी	हवलदार	कैलाश नारायण	01.05.2012
1155	14914890एच	हवलदार	के राजा राव	01.02.2012
1156	14915041एन	हवलदार	करतार सिंह	01.05.2012
1157	14915485एक्स	हवलदार	कृष्णापाल सिंह महला	01.08.2012
1158	14915128पी	हवलदार	कृष्णा कुमार	01.06.2012
1159	14915242एम	हवलदार	लल्लन राम	01.08.2012
1160	14914931एफ	हवलदार	लक्ष्मीधर नायक	01.05.2012
1161	14914916एम	हवलदार	एम वासुदेवन	01.04.2012
1162	14915194एक्स	हवलदार	एम नाग रंगा आर	01.07.2012
1163	14915306एम	हवलदार	महेश कुमार	01.08.2012
1164	14914967ए	हवलदार	महेश थापा	01.05.2012
1165	14914002एच	हवलदार	मोहन सिंह	01.05.2012
1166	14915078पी	हवलदार	मुनीब सिंह यादवा	01.06.2012
1167	14913978ए	हवलदार	नन्द किशोर	01.02.2012
1168	14915006एल	हवलदार	नरेश कुमार	01.05.2012
1169	14914076एक्स	हवलदार	नेवल लाल रौय	01.07.2012
1170	14915284वाइ	हवलदार	पी कुमारा सामी	01.08.2012
1171	14915260पी	हवलदार	पी नरसिम्हा	01.08.2012
1172	14913987एफ	हवलदार	पूरन सिंह	01.04.2012
1173	2988668एम	हवलदार	रबेन्द्र सिंह बी	01.02.2012
1174	14915285एफ	हवलदार	रबीन्द्र कुमार	01.08.2012
1175	14914932के	हवलदार	आर त्रिपाटी	01.05.2012
1176	14914960डब्ल्यू	हवलदार	राकेश कुमार शुक्ला	01.05.2012
1177	14914906एच	हवलदार	राम बरन राठोर	01.03.2012
1178	2988737एक्स	हवलदार	राम निवास	01.02.2012
1179	14915107वाइ	हवलदार	राम निवास शर्मा	01.05.2012
1180	14915056डब्ल्यू	हवलदार	राम रहीस	01.05.2012
1181	14915105एन	हवलदार	राम सरूप	01.06.2012
1182	14914914एफ	हवलदार	रमेश चन्द	01.03.2012
1183	14915060वाइ	हवलदार	रतन बहादुर थापा	01.05.2012
1184	14915055एन	हवलदार	रोहिताश सिंह	01.05.2012
1185	2986057वाइ	हवलदार	सदानन्द सिंह	01.08.2012
1186	14914025के	हवलदार	समीर कुमार पाल	01.06.2012
1187	14914986ए	हवलदार	संदीप कुमार पीके	01.05.2012
1188	14914962एफ	हवलदार	एस कुमार मोन्डल	01.05.2012
1189	14914897एम	हवलदार	एस कुरुप बी	01.08.2012

1190	14915210के	हवलदार	सत्येन्द्र सिंह	01.08.2012
1191	14915040एल	हवलदार	शेर बहादुर गुरंग	01.05.2012
1192	14915438ए	हवलदार	शिव संकर घोष	01.06.2012
1193	14915271एफ	हवलदार	शिव शंकर प्रसाद	01.08.2012
1194	14914946के	हवलदार	श्याम बाबू	01.05.2012
1195	14915059के	हवलदार	सुखवीर सिंह	01.05.2012
1196	14915061एफ	हवलदार	सूरज भान	01.05.2012
1197	14913988के	हवलदार	सुरेन्द्र सिंह	01.04.2012
1198	14915196एच	हवलदार	सुरेश सिंह कुशवाह	01.07.2012
1199	14915029एम	हवलदार	सुरिन्दर पाल	01.05.2012
1200	14915067एच	हवलदार	टेक बहादुर थापा	01.05.2012
1201	14915226पी	हवलदार	थंगवेलु बी	01.08.2012
1202	14915018ए	हवलदार	वी लाल	01.06.2012
1203	14914110एम	हवलदार	वेकटेशन ए	01.08.2012
1204	14914775एच	हवलदार	विजय लाल मदारिआ	01.05.2012
1205	14915359एल	हवलदार	विनोद कुमार	01.08.2012
1206	14915038एन	हवलदार	यश पाल	01.05.2012

पंजाब रेजीमेंट

1207	2593536पी	हवलदार	अब्दुल रशीद	01.03.2012
1208	2481174एक्स	हवलदार	अजय सिंह राजन	01.04.2012
1209	2481702डब्ल्यू	हवलदार	अमरजीत सिंह	01.07.2012
1210	2481479एक्स	हवलदार	अरविन्दर सिंह	01.05.2012
1211	2480769एच	हवलदार	अशोक कुमार	01.02.2012
1212	2481171के	हवलदार	अवतार सिंह	01.04.2012
1213	2481731एल	हवलदार	अवतार सिंह	01.07.2012
1214	2480728वाइ	हवलदार	बलबीर सिंह	01.02.2012
1215	2481537डब्ल्यू	हवलदार	बलबीर सिंह	01.05.2012
1216	2481306ए	हवलदार	बलजीत सिंह	01.04.2012
1217	2481431के	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.04.2012
1218	2480999डब्ल्यू	हवलदार	बलविन्दर सिंह गिल	01.03.2012
1219	2481179डब्ल्यू	हवलदार	देश राज	01.04.2012
1220	2481707पी	हवलदार	धनी राम सैनी	01.07.2012
1221	2481270एम	हवलदार	धर्मवीर सिंह	01.04.2012
1222	2481222एम	हवलदार	दीवान चन्द	01.04.2012
1223	2481472एन	हवलदार	एफ चन्द	01.05.2012
1224	2480697के	हवलदार	गुलजार सिंह	01.02.2012
1225	2480812वाइ	हवलदार	गुरचरण सिंह	01.02.2012
1226	2481066एन	हवलदार	गुरदयाल सिंह	01.03.2012
1227	2480834एक्स	हवलदार	गुरदीप सिंह	01.02.2012
1228	2481149वाइ	हवलदार	गुरजंत सिंह	01.04.2012

1229	2481561एम	हवलदार	गुरमीत सिंह	01.06.2012
1230	2481275एल	हवलदार	गुरपाल सिंह	01.04.2012
1231	2481279एफ	हवलदार	हंस राज	01.04.2012
1232	2480791एन	हवलदार	हरदीप सिंह	01.02.2012
1233	2480750के	हवलदार	हरदेव सिंह	01.02.2012
1234	2481511एफ	हवलदार	एच सिंह	01.05.2012
1235	2481685एफ	हवलदार	हरजीत सिंह	01.07.2012
1236	2481745एल	हवलदार	हरजिन्द्र सिंह	01.08.2012
1237	2481697डब्ल्यू	हवलदार	एच सिंह	01.07.2012
1238	2480621के	हवलदार	इंद्र सिंह	01.02.2012
1239	2481608एम	हवलदार	जगजीवन सिंह राना	01.06.2012
1240	2481291एच	हवलदार	जय पाल	01.04.2012
1241	2481476के	हवलदार	जनक सिंह	01.05.2012
1242	2481109एक्स	हवलदार	जसवंत सिंह	01.04.2012
1243	2481487डब्ल्यू	हवलदार	जोगिंदर पाल	01.05.2012
1244	2480745वाइ	हवलदार	करन सिंह राना	01.02.2012
1245	2481543के	हवलदार	केसर सिंह	01.05.2012
1246	2481421ए	हवलदार	केवल कष्णन	01.04.2012
1247	2481266के	हवलदार	खेम चन्द शर्मा	01.04.2012
1248	2481285पी	हवलदार	कष्णन चन्द	01.04.2012
1249	2481488वाइ	हवलदार	कष्णन लाल	01.05.2012
1250	2481055एफ	हवलदार	कष्णन सिंह	01.03.2012
1251	2480778के	हवलदार	कुलजीत सिंह	01.02.2012
1252	2481180एल	हवलदार	लाभ शंकर	01.04.2012
1253	2481364के	हवलदार	लाल बी	01.04.2012
1254	2481197वाइ	हवलदार	मदन लाल	01.04.2012
1255	2481367एक्स	हवलदार	मदन लाल	01.04.2012
1256	2480561ए	हवलदार	महेंद्र राम	01.02.2012
1257	2481545पी	हवलदार	मोहन सिंह	01.05.2012
1258	2481220एफ	हवलदार	मुंशी राम	01.04.2012
1259	2481192ए	हवलदार	नरेश कुमार	01.04.2012
1260	2478824पी	हवलदार	निरपाल सिंह	01.05.2012
1261	2481228एन	हवलदार	ओम चन्द ठाकुर	01.04.2012
1262	2481429एम	हवलदार	पलविंदर सिंह	01.04.2012
1263	2481701एन	हवलदार	पलविंदर सिंह	01.07.2012
1264	2481682एन	हवलदार	पी सिंह	01.07.2012
1265	2481249के	हवलदार	पर्शोत्तम राम	01.04.2012
1266	2480770एक्स	हवलदार	प्रवीन सिंह	01.02.2012
1267	2481310एच	हवलदार	पी सिंह	01.04.2012
1268	2481221के	हवलदार	राम प्रकाश	01.04.2012
1269	2480780एफ	हवलदार	रमेश कुमार	01.02.2012

1270	2481610के	हवलदार	रमेश कुमार ठाकुर	01.06.2012
1271	2481301एफ	हवलदार	रंजीत सिंह	01.04.2012
1272	2480626एच	हवलदार	रूप लाल	01.02.2012
1273	2480993पी	हवलदार	सैलेन्द्र सिंह	01.03.2012
1274	2481599डब्ल्यू	हवलदार	एस सिंह	01.06.2012
1275	2481600ए	हवलदार	सतनाम सिंह	01.06.2012
1276	2480856डब्ल्यू	हवलदार	शमशेर सिंह	01.02.2012
1277	2480635के	हवलदार	शेष पाल	01.02.2012
1278	2481001ए	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.03.2012
1279	2481148डब्ल्यू	हवलदार	सुखविंदर सिंह	01.04.2012
1280	2481454एल	हवलदार	सुलखान सिंह	01.04.2012
1281	2480994एक्स	हवलदार	सुरिन्दर सिंह	01.03.2012
1282	2481122एफ	हवलदार	सुरिंदरपाल सिंह	01.04.2012
1283	2480843वाइ	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.02.2012
1284	2481092पी	हवलदार	तारा सिंह	01.03.2012
1285	2481581ए	हवलदार	उजागर सिंह	01.06.2012
1286	2481370एक्स	हवलदार	विजय कुमार	01.04.2012
1287	2481664एल	हवलदार	यश पौल	01.07.2012
1288	2481658एक्स	हवलदार	यशवंत सिंह	01.07.2012
<b>मद्रास रेजीमेंट</b>				

1289	4359501पी	हवलदार	ए जॉन पीटर	01.03.2012
1290	2593725वाइ	हवलदार	ए सैलवारासू	01.04.2012
1291	2593868वाइ	हवलदार	अनिल कुमार वीटी	01.06.2012
1292	2593574एल	हवलदार	अशोकन के	01.03.2012
1293	2593618एक्स	हवलदार	अशोकन केआर	01.03.2012
1294	2591256एच	हवलदार	बलराम	01.08.2012
1295	2590817ए	हवलदार	भोला राय	01.04.2012
1296	2593804एन	हवलदार	बी त्रीनाथा	01.04.2012
1297	2593785एन	हवलदार	सी एस	01.04.2012
1298	2593800एक्स	हवलदार	चंद्रशेखरन जेपी	01.04.2012
1299	2593498के	हवलदार	दिनेशन ए	01.03.2012
1300	2593897एन	हवलदार	जी. मरियप्पन	01.07.2012
1301	2593619ए	हवलदार	गनेश के	01.03.2012
1302	2593766एच	हवलदार	जी. वेंकटाराव	01.04.2012
1303	2593365एन	हवलदार	के जोसफ खन्न	01.02.2012
1304	2593750एक्स	हवलदार	के कुमार	01.04.2012
1305	2593593डब्ल्यू	हवलदार	के मुरली	01.03.2012
1306	2593321डब्ल्यू	हवलदार	कंडासामी सी	01.02.2012
1307	2593939पी	हवलदार	कोलंगी आर	01.08.2012
1308	2593586ए	हवलदार	लक्ष्मणन के	01.03.2012



1309	2593858पी	हवलदार	लोकनाथ ब्रमा	01.05.2012
1310	2593357पी	हवलदार	एम मन्थीराम	01.02.2012
1311	2591032एच	हवलदार	एम थाईलाकुलम	01.06.2012
1312	2593470के	हवलदार	एम वेंकट रामुदू	01.03.2012
1313	8032334ए	हवलदार	एम वेन्कटासलापती	01.05.2012
1314	2593616एम	हवलदार	महादेवन पिल्लई एन	01.03.2012
1315	2593298एन	हवलदार	मेत्ता अप्पा राव	01.02.2012
1316	2591205पी	हवलदार	मूर्ती आर	01.08.2012
1317	2590672ए	हवलदार	एम एस मोहन	01.03.2012
1318	2590622पी	हवलदार	नागराजा	01.08.2012
1319	2593362ए	हवलदार	नागुलन के	01.02.2012
1320	2593731एम	हवलदार	नटराजन वी	01.04.2012
1321	2590741एल	हवलदार	एन बैठा	01.03.2012
1322	2590677वाइ	हवलदार	पी जयावेलु	01.03.2012
1323	2593735एच	हवलदार	पी एम मुथु	01.04.2012
1324	2593718एच	हवलदार	पी मसानामुथू	01.04.2012
1325	13968078ए	हवलदार	पदम कुमार राय	01.06.2012
1326	2593297एल	हवलदार	पैरिया सामी ई	01.02.2012
1327	2593853डब्ल्यू	हवलदार	प्रकाश वी	01.05.2012
1328	2590709डब्ल्यू	हवलदार	प्रमोद सीपी	01.03.2012
1329	2593692वाइ	हवलदार	आर दीनदयाल	01.04.2012
1330	2593709एफ	हवलदार	आर मणिकंदन	01.04.2012
1331	2593702एक्स	हवलदार	आर मुनियादी	01.04.2012
1332	2593459एल	हवलदार	आर नागेश्वर राव	01.03.2012
1333	2593753एल	हवलदार	आर राजलिंगम	01.04.2012
1334	2593759एम	हवलदार	आर रविचंद्रन	01.04.2012
1335	2593606एच	हवलदार	आर थामस	01.03.2012
1336	2593860एम	हवलदार	आर विजया भासकरण	01.06.2012
1337	2593551के	हवलदार	रमा चंद्रा	01.03.2012
1338	2590643एल	हवलदार	रामानन एमएम	01.03.2012
1339	2593443ए	हवलदार	रविन्द्रानाथन पिल्लई बी	01.03.2012
1340	2590516डब्ल्यू	हवलदार	रवीराजन टी	01.02.2012
1341	2593603पी	हवलदार	एस बगवथी	01.03.2012
1342	2593894ए	हवलदार	एस बी जया सिंह	01.07.2012
1343	2593873के	हवलदार	एस चंद्रन	01.06.2012
1344	2593273एफ	हवलदार	एस संकर	01.02.2012
1345	2590669ए	हवलदार	एसए पौलराज	01.03.2012
1346	8032338डब्ल्यू	हवलदार	साबू वी थामस	01.06.2012
1347	2593532वाइ	हवलदार	संगप्पा कोप्पद	01.03.2012
1348	2591303पी	हवलदार	सत्यप्पा केमपन्न बी	01.08.2012
1349	2593241वाइ	हवलदार	शिवलिंगप्पा आइ	01.02.2012

1350	2593569ए	हवलदार	सुरेश कुमार एम वी	01.03.2012
1351	2591226एल	हवलदार	सुरेशन एम	01.08.2012
1352	4359609एम	हवलदार	टाटा रविचंद्र बाबू	01.05.2012
1353	13968128ए	हवलदार	तुकाराम सदासिव लोखाण्डे	01.06.2012
1354	2590661एन	हवलदार	यू नटराजन	01.03.2012
1355	2593837वाइ	हवलदार	उथमन नायर के	01.05.2012
1356	2593737एन	हवलदार	वी करुपिआह	01.04.2012
1357	2593382एन	हवलदार	वी सुधाकर	01.02.2012
1358	2593463एन	हवलदार	विष्णु वर्धन राव	01.03.2012
<u>ग्रेनेडियर्स</u>				
1359	14610795ए	हवलदार	ए जयासेकर	01.04.2012
1360	2680682एल	हवलदार	अहीवारन लाल	01.06.2012
1361	2682704एक्स	हवलदार	अजीत सिंह	01.04.2012
1362	2682651के	हवलदार	अमर बहादुर सिंह	01.04.2012
1363	14610367एफ	हवलदार	ए गोड़ शाखा	01.03.2012
1364	2682491पी	हवलदार	अनिल कुमार	01.02.2012
1365	2682756एन	हवलदार	अशोक कुमार	01.06.2012
1366	2680940ए	हवलदार	अशोक कुमार	01.07.2012
1367	2682522के	हवलदार	बाबू लाल	01.03.2012
1368	2682554एम	हवलदार	बाबू लाल जाट	01.03.2012
1369	2682827के	हवलदार	बलविन्दर कुमार	01.06.2012
1370	2682538पी	हवलदार	बस्ता राम	01.03.2012
1371	2682549एफ	हवलदार	बी सिंह चौहान	01.03.2012
1372	2680719एफ	हवलदार	बृज राज सिंह	01.07.2012
1373	14610474एच	हवलदार	चंद्रा मोहन दाश	01.03.2012
1374	2682529एन	हवलदार	सी राम	01.03.2012
1375	14610105एल	हवलदार	चिट भोल रौय	01.03.2012
1376	2682576एल	हवलदार	दलबीर सिंह	01.03.2012
1377	2680825ए	हवलदार	दशरथ ठाकुर	01.08.2012
1378	2682886डब्ल्यू	हवलदार	देवेन्द्र सिंह	01.08.2012
1379	2682765पी	हवलदार	धर्म सिंह	01.06.2012
1380	2682890एफ	हवलदार	धर्मबीर	01.08.2012
1381	2682494एच	हवलदार	ध्रुव सिंह	01.02.2012
1382	14610285वाइ	हवलदार	दिनेश कुमार गुप्ता	01.03.2012
1383	2682485एफ	हवलदार	दिनेश सिंह	01.02.2012
1384	2682596वाइ	हवलदार	गिरवर सिंह	01.03.2012
1385	7430694पी	हवलदार	हृदया लाल पटेल	01.04.2012
1386	2682675एन	हवलदार	इन्द्रा पाल	01.04.2012
1387	2682328पी	हवलदार	इंदु सिंह बी	01.02.2012
1388	2682764एम	हवलदार	इकबाल सिंह	01.06.2012

1389	2682681एफ	हवलदार	जागीर सिंह	01.04.2012
1390	2682619पी	हवलदार	जय राम	01.04.2012
1391	2682715के	हवलदार	जयदीप बी	01.05.2012
1392	2682735एक्स	हवलदार	जोगिंदर पौल	01.05.2012
1393	2682585एम	हवलदार	करनबीर सिंह	01.03.2012
1394	2682695एफ	हवलदार	केवल सिंह	01.04.2012
1395	2682441के	हवलदार	कृष्णा नाथ यादवा	01.02.2012
1396	2682717पी	हवलदार	एल कुमार	01.05.2012
1397	2682625एच	हवलदार	एल सिंह	01.04.2012
1398	2682429एच	हवलदार	महेश चन्द	01.02.2012
1399	2682509ए	हवलदार	माखन सिंह	01.02.2012
1400	2682620के	हवलदार	मनबीर सिंह	01.04.2012
1401	2682358एम	हवलदार	एम सिंह	01.02.2012
1402	2682387एच	हवलदार	मोहन लाल	01.02.2012
1403	2682870एल	हवलदार	नबी लाल बाबू कुरने	01.07.2012
1404	2682409पी	हवलदार	ओम पाल सिंह	01.02.2012
1405	2682737एच	हवलदार	ओमकार नाथ	01.05.2012
1406	2682727वाइ	हवलदार	ओंकार यादव	01.05.2012
1407	2682500एल	हवलदार	पारसा राम बी	01.02.2012
1408	2682888एफ	हवलदार	फूल सिंह	01.08.2012
1409	2680804के	हवलदार	राधा कष्णन	01.08.2012
1410	2682862एम	हवलदार	रघुबीर सिंह जे	01.07.2012
1411	2682690एच	हवलदार	रघुनाथ राना	01.04.2012
1412	2682444एक्स	हवलदार	रघुवीर सिंह	01.02.2012
1413	2682697एम	हवलदार	राजेंद्र कुमार	01.04.2012
1414	2682490एम	हवलदार	राजेश	01.02.2012
1415	2682894पी	हवलदार	राजेश कुमार	01.08.2012
1416	2682708एन	हवलदार	राजवीर सिंह	01.04.2012
1417	2682626एल	हवलदार	रमेश	01.04.2012
1418	2682924एफ	हवलदार	रमेश कुमार	01.08.2012
1419	13968045पी	हवलदार	रमेश शर्मा	01.06.2012
1420	2682778एम	हवलदार	रणधीर सिंह	01.06.2012
1421	2682364ए	हवलदार	रवि कुमार शर्मा	01.02.2012
1422	2682385डब्ल्यू	हवलदार	रवीन्द्र कुमार	01.02.2012
1423	2680844एल	हवलदार	संजोय एस नाथ	01.08.2012
1424	2682895एक्स	हवलदार	संतोष कुमार, एससी	01.08.2012
1425	2682354डब्ल्यू	हवलदार	श्रवण सिंह	01.02.2012
1426	2682516डब्ल्यू	हवलदार	सत्य देव सिंह	01.02.2012
1427	2682408एम	हवलदार	सत्य नारायण	01.02.2012
1428	14610831ए	हवलदार	शिव दयाल यादव	01.04.2012
1429	2682887वाइ	हवलदार	शिव राज सिंह	01.08.2012

1430	2682605पी	हवलदार	एस सिंह	27.02.2012
1431	2682686ए	हवलदार	एस राम	01.04.2012
1432	2682793एफ	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.06.2012
1433	2680579ए	हवलदार	सुखवीर सिंह	01.05.2012
1434	2682916एच	हवलदार	सुरेश कुमार	01.08.2012
1435	2682933एच	हवलदार	सुरिन्दर सिंह	01.08.2012
1436	2682861के	हवलदार	त्रिलोक चन्द	01.07.2012
1437	2680466एक्स	हवलदार	थन्नू प्रसाद शर्मा अर्यल	01.03.2012
1438	2680512एफ	हवलदार	तिलक राज	01.05.2012
1439	2682365एच	हवलदार	वी कुमार	01.02.2012
1440	2682666एम	हवलदार	विजय कुमार	01.04.2012
1441	2682732के	हवलदार	विजय सिंह	01.05.2012
1442	2680499एच	हवलदार	यतींद्र कुमार	01.04.2012

### मराठा लघु सेना

1443	2785155एच	हवलदार	ए खान	01.03.2012
1444	2785335एल	हवलदार	ए सुभाष	01.06.2012
1445	2782986डब्ल्यू	हवलदार	अनिल कुमार सिंह	01.04.2012
1446	2785286एन	हवलदार	भोसले शाम टी	01.05.2012
1447	3386299ए	हवलदार	बी साह	01.02.2012
1448	2784887एम	हवलदार	बीरादर वसंत बाजीराव	01.02.2012
1449	2785185ए	हवलदार	सी साहेब्रो आर	01.04.2012
1450	2785293के	हवलदार	डी. दादासाहाब दगादु	01.05.2012
1451	2785315एक्स	हवलदार	दीपक गोरे	01.06.2012
1452	4071467एन	हवलदार	गडेकर अन्ना भगाजी	01.08.2012
1453	2785229एम	हवलदार	गोरे रामराव संजी	01.04.2012
1454	2785323डब्ल्यू	हवलदार	हजारे मनोहर शंकर	01.06.2012
1455	2785431ए	हवलदार	इब्राहिम	01.08.2012
1456	2785000एन	हवलदार	इंगले अर्जुन अम्बादास	01.02.2012
1457	2784965वाइ	हवलदार	जगताप मोहन नंदराव	01.02.2012
1458	2785432एच	हवलदार	जे एच एस	01.08.2012
1459	2785194एफ	हवलदार	जसमेर सिंह	01.04.2012
1460	2784199एन	हवलदार	जॉन मरांडी	01.02.2012
1461	2785521एफ	हवलदार	खोट बाजीराव शंकर	01.04.2012
1462	2785067एम	हवलदार	महादिक अरुण भाउ	01.03.2012
1463	14610515एफ	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.03.2012
1464	2784997एफ	हवलदार	मांडे लक्ष्मन खण्डु	01.02.2012
1465	2782572के	हवलदार	मोहम्मद अफसर	01.02.2012
1466	2782882पी	हवलदार	मिसाल देवानंद एस	01.03.2012
1467	2785260वाइ	हवलदार	मोहम्मद अली	01.04.2012
1468	2785153एक्स	हवलदार	नाइक संजय गोविंद	01.03.2012

1469	2784873एम	हवलदार	एन शिवनाथ एल	01.02.2012
1470	15361893ए	हवलदार	एन इस्माइल एम	01.02.2012
1471	2784948वाइ	हवलदार	नूर अहम्मद	01.02.2012
1472	2785309के	हवलदार	पी राधाकृष्ण	01.06.2012
1473	2785144डब्ल्यू	हवलदार	पाटिल चंद्रभान पी	01.03.2012
1474	2784968एम	हवलदार	पाटिल सुकुमार शामराव	01.02.2012
1475	2783047ए	हवलदार	पाटिल विथल	01.08.2012
1476	2785275एफ	हवलदार	पवार लक्ष्मन तुकाराम	01.05.2012
1477	2785009एच	हवलदार	राजेंद्रा कुमार गौड़	01.02.2012
1478	2782533एल	हवलदार	राजेंद्रा सिंह नेगी	01.02.2012
1479	2784924पी	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.02.2012
1480	2782995एक्स	हवलदार	राजू एसी	01.06.2012
1481	2787259एच	हवलदार	रमा गावडे	01.04.2012
1482	13967924डब्ल्यू	हवलदार	रामचन्द्रन पीपी	01.05.2012
1483	2785146एफ	हवलदार	आर सुरेश एस	01.03.2012
1484	2783054डब्ल्यू	हवलदार	रवीन्द्र प्रसाद	01.08.2012
1485	2785357के	हवलदार	रविन्द्रनाथ पाटिल	01.07.2012
1486	2785157एन	हवलदार	सलीम अंसारी	01.03.2012
1487	2785268एल	हवलदार	सत्य पाल	01.05.2012
1488	13752034पी	हवलदार	शल्के रमेश आसराम	01.03.2012
1489	2784986पी	हवलदार	शिंदे अरुणकुमार एन	01.02.2012
1490	2785103एम	हवलदार	शिवप्पा एस	01.03.2012
1491	2785404डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश पाटिल	01.08.2012
1492	2785017एफ	हवलदार	सुरेशा एनजी.	01.02.2012
1493	2785128वाइ	हवलदार	सुरवासे बालासाहेब वी	01.03.2012
1494	15361677एम	हवलदार	यू बाहुबली ए	01.02.2012
1495	2785255एन	हवलदार	वसंत गवान्दे	01.04.2012
1496	2785081वाइ	हवलदार	डब्ल्यू आइ एम	01.03.2012
1497	2785160एन	हवलदार	डब्ल्यू लक्षुमन हरिभाउ	01.04.2012

राजपूताना राईफल्स

1498	2885525एम	हवलदार	अभे राज सिंह	01.03.2012
1499	2885522वाइ	हवलदार	अवध बिहारी सिंह	01.03.2012
1500	2884310एफ	हवलदार	भागुता राम	01.08.2012
1501	2885553वाइ	हवलदार	बीएस भदोरिया	01.03.2012
1502	2885317एक्स	हवलदार	छन्द्रावीर सिंह	01.02.2012
1503	2883365वाइ	हवलदार	धर्मबीर, एसएम	01.02.2012
1504	2885399एल	हवलदार	धर्मवीर सिंह	01.02.2012
1505	2885410वाइ	हवलदार	दिनेश कुमार सिंह	01.02.2012
1506	2883867एफ	हवलदार	फतेह सिंह	31.03.2012
1507	2885511एम	हवलदार	गंगा सिंह राठोर	01.03.2012

1508	2883477वाइ	हवलदार	गुरुदयाल सिंह	01.04.2012
1509	2883392एच	हवलदार	जय सिंह	01.03.2012
1510	2883473एच	हवलदार	के लाल	01.04.2012
1511	2885475एम	हवलदार	कमलेशवर सिंह	01.02.2012
1512	2885681डब्ल्यू	हवलदार	कंवर पाल	01.04.2012
1513	2883353के	हवलदार	कवल पाल	01.02.2012
1514	2885996ए	हवलदार	किशोर सिंह	01.08.2012
1515	2885872एल	हवलदार	के सिंह	01.06.2012
1516	2883390एक्स	हवलदार	एल बहादुर थापा	01.03.2012
1517	2885590एम	हवलदार	महेन्द्र सिंह दूदी	01.03.2012
1518	2885793डब्ल्यू	हवलदार	महेश कुमार	01.04.2012
1519	2883515के	हवलदार	मोरध्वज सिंह	01.04.2012
1520	2883731एक्स	हवलदार	नरेन्द्रा सिंह	01.06.2012
1521	2883561वाइ	हवलदार	नाथू सिंह	01.05.2012
1522	2885669पी	हवलदार	पन्ना सिंह	01.04.2012
1523	2885847एम	हवलदार	पृथ्वी सिंह	01.06.2012
1524	2883610डब्ल्यू	हवलदार	प्यारे लाल	01.05.2012
1525	2883946डब्ल्यू	हवलदार	आर सिंह	01.08.2012
1526	2885377एम	हवलदार	राजेश कुमार	01.02.2012
1527	2883728एक्स	हवलदार	राम मेहर	01.06.2012
1528	2883904के	हवलदार	राम फल	01.07.2012
1529	2885620वाइ	हवलदार	रतन सिंह नरुका	01.04.2012
1530	2885591पी	हवलदार	साजन कुमार मेहता	01.04.2012
1531	2883912एच	हवलदार	सत्या पाल	01.07.2012
1532	2885605के	हवलदार	सत्येन्द्रा कुमार	01.04.2012
1533	2885539एम	हवलदार	शिव करन सिंह	01.03.2012
1534	2885442एफ	हवलदार	शिवदान सिंह	01.02.2012
1535	2885383ए	हवलदार	सुमेर सिंह	01.02.2012
1536	2883907एक्स	हवलदार	सुरेश चन्द शर्मा	01.07.2012
1537	2885577एच	हवलदार	सुरेश सिंह	01.03.2012
1538	2883460एल	हवलदार	उदयवीर सिंह	01.04.2012
1539	2883711के	हवलदार	वी सी पौल	01.06.2012
1540	2885320एक्स	हवलदार	वेद प्रकाश	01.02.2012
1541	2885407वाइ	हवलदार	विनोद कुमार सिंह	01.02.2012
1542	2885881एम	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	01.06.2012
1543	2885915पी	हवलदार	विशम्बर सिंह	01.07.2012
<b>राजपूत रेजीमेंट</b>				
1544	2988644एच	हवलदार	अमर सिंह	01.02.2012
1545	2989112पी	हवलदार	अरबिंद सिंह परिहार	01.04.2012
1546	2988648वाइ	हवलदार	आशा राम	01.02.2012

1547	2988697एफ	हवलदार	भालेंद्र सिंह	01.02.2012
1548	2988711एच	हवलदार	भंवर सिंह	01.02.2012
1549	10404989के	हवलदार	भवानी सिंह	01.08.2012
1550	2989017एच	हवलदार	बुध पाल सिंह	01.04.2012
1551	2988547एल	हवलदार	क्लेमेन्ट एक्साएक्सा	01.02.2012
1552	2989049एल	हवलदार	डी. एस शेखावत	01.04.2012
1553	2988580एच	हवलदार	दसरथ सिंह	01.02.2012
1554	2988739एच	हवलदार	देवेंदर सिंह	01.02.2012
1555	2988914एम	हवलदार	गोतम चंद्रा पाल	01.03.2012
1556	2989006डब्ल्यू	हवलदार	हेम सिंह भाटी	01.03.2012
1557	2986031के	हवलदार	हिंद पाल	01.08.2012
1558	2989053एन	हवलदार	जे एस शेखावत	01.04.2012
1559	2988594एच	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.02.2012
1560	2988675एच	हवलदार	महेश सिंह	01.02.2012
1561	2988993एम	हवलदार	मंगल सिंह	01.03.2012
1562	2988859एफ	हवलदार	मनोज कुमार सिंह	01.03.2012
1563	2988997एच	हवलदार	नरेन्द्रा सिंह	01.03.2012
1564	2989011एफ	हवलदार	आर बी सिंह	01.04.2012
1565	2988521डब्ल्यू	हवलदार	आर बी सिंह तोमर	01.02.2012
1566	2988994पी	हवलदार	आर एस भदोरिया	01.03.2012
1567	2986130एम	हवलदार	आर श्याम	01.08.2012
1568	2989161एक्स	हवलदार	राजेश	01.08.2012
1569	2989102एल	हवलदार	राम अवध सिंह	01.04.2012
1570	2988529एच	हवलदार	राम साज सिंह	01.02.2012
1571	2988734के	हवलदार	रणधीर सिंह	01.02.2012
1572	2986078पी	हवलदार	रतन लाल	01.08.2012
1573	2988619के	हवलदार	रूप सिंह	01.02.2012
1574	2989067के	हवलदार	एस एस राठोर	01.04.2012
1575	2988820पी	हवलदार	संग्राम सिंह गौतम	01.03.2012
1576	2988879पी	हवलदार	संजय कुमार सिंह	01.03.2012
1577	2988998एल	हवलदार	संत प्रसाद सिंह	01.03.2012
1578	2988730एन	हवलदार	संतोष सिंह	01.02.2012
1579	2988838एल	हवलदार	संतोष सिंह सेंगर	01.03.2012
1580	2988572के	हवलदार	सरदार मल गूजर	01.02.2012
1581	2989138के	हवलदार	सतीश चंद्रा	01.04.2012
1582	2988569के	हवलदार	एस राम	01.02.2012
1583	2988622के	हवलदार	श्री मुख्त्यार सिंह	01.02.2012
1584	2988574पी	हवलदार	श्री विजय सिंह	01.02.2012
1585	2988724ए	हवलदार	श्री योगेन्द्रा सिंह	01.02.2012
1586	2988685एम	हवलदार	तरशेम सिंह	01.02.2012
1587	2986074वाइ	हवलदार	वी रमा कृष्णन	01.08.2012

1588	2985844एन	हवलदार	विजय पाल सिंह	01.05.2012
1589	2988781एफ	हवलदार	विशाल सिंह	01.03.2012
<u>जाट रेजीमेंट</u>				
1590	3179808एफ	हवलदार	बलजीत सिंह	01.08.2012
1591	3183013एल	हवलदार	बलजीत सिंह	01.08.2012
1592	3182057डब्ल्यू	हवलदार	बिछित्रा कुमार	01.02.2012
1593	3182631के	हवलदार	छोटा राम	01.04.2012
1594	3182377एल	हवलदार	चुना राम ढाका	01.03.2012
1595	3182183एच	हवलदार	दलबीर सिंह	01.02.2012
1596	3182709के	हवलदार	दया नन्द	01.04.2012
1597	3182693के	हवलदार	देवेंदर सिंह	01.04.2012
1598	3182788के	हवलदार	धन सिंह	01.04.2012
1599	3182313ए	हवलदार	धन्न राम	01.03.2012
1600	3181866के	हवलदार	धर्म पाल	01.02.2012
1601	3182998के	हवलदार	दिलबाग सिंह	01.07.2012
1602	3182230पी	हवलदार	हनुमान राम	01.02.2012
1603	3182018एक्स	हवलदार	होरी लाल	01.02.2012
1604	3182439ए	हवलदार	जे सिंह	01.03.2012
1605	3182906एम	हवलदार	जय भगवान	01.06.2012
1606	3182192के	हवलदार	जय भगवान	01.02.2012
1607	3181935पी	हवलदार	जय राम जाट	01.02.2012
1608	3182646एम	हवलदार	जयवीर सिंह	01.04.2012
1609	3180685एम	हवलदार	जतिन बोराह	01.07.2012
1610	3182801एच	हवलदार	जयवीर सिंह	01.04.2012
1611	15361948वाइ	हवलदार	कमल प्रकाश सिंह	01.02.2012
1612	3182043डब्ल्यू	हवलदार	कष्णन कुमार	01.02.2012
1613	3179804एल	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.08.2012
1614	3182069एल	हवलदार	लाल सिंह	01.02.2012
1615	3182038एल	हवलदार	एम काली दास	01.02.2012
1616	3182378एन	हवलदार	मदन लाल	01.03.2012
1617	3182443एच	हवलदार	महाबीर सिंह	01.03.2012
1618	3182291एम	हवलदार	मैधन	01.03.2012
1619	3179733पी	हवलदार	मामन राम	01.08.2012
1620	3182769वाइ	हवलदार	मोहिद्र सिंह	01.04.2012
1621	3182851एन	हवलदार	नगेन्द्रा प्रसाद	01.05.2012
1622	3182257एम	हवलदार	नरेंदर	01.02.2012
1623	3182162एम	हवलदार	पारेश चंद्रा नाथ	01.02.2012
1624	3182409एच	हवलदार	प्रताप सिंह	01.03.2012
1625	3181881वाइ	हवलदार	प्रेम पाल	01.02.2012
1626	3182180पी	हवलदार	राज मल	01.02.2012



1627	3182362एच	हवलदार	राज पाल सिंह	01.03.2012
1628	3182233एच	हवलदार	राम निवास	01.02.2012
1629	3182470एम	हवलदार	रामबीर सिंह	01.03.2012
1630	3182706डब्ल्यू	हवलदार	रमेश कुमार	01.04.2012
1631	3182720एच	हवलदार	रामवीर सिंह	01.04.2012
1632	3182003पी	हवलदार	रामवीर सिंह	01.02.2012
1633	3181895वाइ	हवलदार	रणवीर बी	01.02.2012
1634	3182628के	हवलदार	रणवीर सिंह	01.04.2012
1635	3179524एक्स	हवलदार	रवीन्द्रन नायर वी	01.05.2012
1636	3182539एच	हवलदार	रवीन्द्र कुमार	01.03.2012
1637	3182836वाइ	हवलदार	संजीव कुमार	01.04.2012
1638	3181899पी	हवलदार	सोहन लाल गोदारा	01.02.2012
1639	3182958एच	हवलदार	सुखा राम जी.	01.06.2012
1640	3183012एच	हवलदार	सूरज भान	01.08.2012
1641	3182872के	हवलदार	एस सिंह	01.05.2012
1642	3182732एक्स	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार	01.04.2012
1643	3182716ए	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.04.2012
1644	15362547डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश चन्द	01.03.2012
1645	3183033वाइ	हवलदार	सुरेश कुमार	01.08.2012
1646	3182387पी	हवलदार	सुरेश सिंह डांगी	01.03.2012
1647	3182553एक्स	हवलदार	तेजवीर सिंह	01.03.2012
1648	3179408पी	हवलदार	तोता राम	01.02.2012
1649	3182476एन	हवलदार	वेद प्रकाश	01.03.2012
1650	3182397वाइ	हवलदार	विद्याधर	01.03.2012
1651	3182474एच	हवलदार	विनोद कुमार	01.03.2012
1652	3182149एच	हवलदार	वजीर सिंह नवल	01.02.2012

**सिख रेजीमेंट**

1653	3388881एल	हवलदार	बलबीर रि ह	01.02.2012
1654	3389088एच	हवलदार	बलदेव रि ह	01.04.2012
1655	3389354डब्ल्यू	हवलदार	बलजिन्दर सिंह	01.08.2012
1656	3388916डब्ल्यू	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.03.2012
1657	3388842एम	हवलदार	भगवन्त सिंह	01.02.2012
1658	3386609ए	हवलदार	चमन लाल	01.05.2012
1659	3389157एन	हवलदार	गुरमेल सिंह	01.06.2012
1660	3389210एन	हवलदार	हरजिन्दर सिंह	01.06.2012
1661	3389243वाइ	हवलदार	जागीर सिंह	01.06.2012
1662	3389153एक्स	हवलदार	जरनैल सिंह	01.06.2012
1663	3389317एच	हवलदार	जरनैल सिंह	01.07.2012
1664	3389359पी	हवलदार	कमलजीत सिंह	01.08.2012
1665	3386730एन	हवलदार	कमलेश कुमार	01.08.2012

1666	3386737एक्स	हवलदार	कष्णन लाल	01.08.2012
1667	3389242डब्ल्यू	हवलदार	कष्णन सिंह	01.06.2012
1668	3386294एफ	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.02.2012
1669	3389319एन	हवलदार	कुलविन्द्र सिंह	01.08.2012
1670	3389122एक्स	हवलदार	लखविन्दर सिंह	01.05.2012
1671	3388877एच	हवलदार	लल्ली सिंह	01.02.2012
1672	3389338वाइ	हवलदार	मनजीत.सिंह	01.08.2012
1673	13977357एम	हवलदार	एम अनकईया	01.08.2012
1674	3388872के	हवलदार	परमजीत सिंह	01.02.2012
1675	3386750एफ	हवलदार	रघु नंदन कुमार	01.08.2012
1676	3389225डब्ल्यू	हवलदार	आर सिंह	01.06.2012
1677	3388961एच	हवलदार	राजपाल सिंह	01.03.2012
1678	3388844एक्स	हवलदार	राम सिंह	01.02.2012
1679	3389004के	हवलदार	सतनाम सिंह	01.04.2012
1680	3386759डब्ल्यू	हवलदार	सेलवन पी	01.08.2012
1681	3386400पी	हवलदार	सिकंदर राम	01.03.2012
1682	3388852डब्ल्यू	हवलदार	सुखविंदर सिंह	01.02.2012
<b>सिख लघु पैदल सेना</b>				
1683	4468222ए	हवलदार	अजायब सिंह	01.04.2012
1684	4468624एक्स	हवलदार	अमर सिंह	01.04.2012
1685	4468583वाइ	हवलदार	अमरजीत सिंह	01.04.2012
1686	4468690ए	हवलदार	अवतार सिंह	01.04.2012
1687	4466419एक्स	हवलदार	बी सिंह	01.02.2012
1688	4468479एल	हवलदार	बलदेव सिंह	01.04.2012
1689	4466910ए	हवलदार	बलजीत सिंह	01.04.2012
1690	4468310डब्ल्यू	हवलदार	बियंत सिंह	01.04.2012
1691	4468164एफ	हवलदार	बीकर सिंह	01.04.2012
1692	4468086पी	हवलदार	बिक्कार सिंह	01.02.2012
1693	4468257डब्ल्यू	हवलदार	चमन सिंह	01.04.2012
1694	4468613एल	हवलदार	चमकौर सिंह	01.04.2012
1695	4466822के	हवलदार	चमकौर सिंह	01.04.2012
1696	4468282पी	हवलदार	चरनजीत सिंह	01.04.2012
1697	4466471ए	हवलदार	दलबीर सिंह	01.02.2012
1698	4468168एक्स	हवलदार	दलीप सिंह	01.04.2012
1699	4466811एक्स	हवलदार	दर्शन सिंह	01.04.2012
1700	4468554के	हवलदार	देवी दयाल सिंह	01.04.2012
1701	4468177वाइ	हवलदार	धर्म सिंह	01.04.2012
1702	4468253ए	हवलदार	धीर सिंह	01.04.2012
1703	4468489पी	हवलदार	गुरजंत सिंह	01.04.2012
1704	4468412एम	हवलदार	गुरमुख सिंह	01.04.2012

1705	4468285एच	हवलदार	गुरनाम सिंह	01.04.2012
1706	4468585के	हवलदार	हरबंस सिंह	01.04.2012
1707	4466538एन	हवलदार	हरचंद सिंह	01.03.2012
1708	4468434एल	हवलदार	हरी सिंह	01.04.2012
1709	4468401ए	हवलदार	हरजीत सिंह	01.04.2012
1710	4468206एच	हवलदार	हरमेल सिंह	01.04.2012
1711	448756एल	हवलदार	हरमेश सिंह	01.06.2012
1712	4468138ए	हवलदार	हरनाम सिंह	01.03.2012
1713	4468491एम	हवलदार	हरनेक सिंह	01.04.2012
1714	4468192एन	हवलदार	हरनेक सिंह	01.04.2012
1715	4468444पी	हवलदार	इकबाल सिंह	01.04.2012
1716	4468158एन	हवलदार	जगी आर सिंह	01.04.2012
1717	4468464एच	हवलदार	जगतार सिंह	01.04.2012
1718	4468498डब्ल्यू	हवलदार	जगतार सिंह	01.04.2012
1719	4468496एल	हवलदार	जगतार सिंह	01.04.2012
1720	4468205ए	हवलदार	जरनैल सिंह	01.04.2012
1721	4468129वाइ	हवलदार	जस्सा सिंह	01.03.2012
1722	4468186ए	हवलदार	जसवीर सिंह	01.04.2012
1723	4468502एन	हवलदार	जसवीर सिंह	01.04.2012
1724	4468364एक्स	हवलदार	जसवंत सिंह	01.04.2012
1725	4468293एफ	हवलदार	केवल सिंह	01.04.2012
1726	4467742वाइ	हवलदार	कष्णन कुमार	01.08.2012
1727	4466525डब्ल्यू	हवलदार	कुंदन सिंह	01.03.2012
1728	4468080एन	हवलदार	महावीर सिंह	01.02.2012
1729	4468408के	हवलदार	मेजर सिंह	01.04.2012
1730	4468377पी	हवलदार	मेजर सिंह	01.04.2012
1731	4468654पी	हवलदार	मस्त सिंह	01.04.2012
1732	4468358के	हवलदार	नायब सिंह	01.04.2012
1733	4468104एम	हवलदार	निर्मल सिंह	01.02.2012
1734	4468244वाइ	हवलदार	निर्मल सिंह	01.04.2012
1735	4468589ए	हवलदार	निर्मल सिंह	01.04.2012
1736	4468606पी	हवलदार	परमजीत सिंह	01.04.2012
1737	4468197एम	हवलदार	राज पाल	01.04.2012
1738	4468090एक्स	हवलदार	राजा राम नाई	01.02.2012
1739	4466717एन	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.04.2012
1740	4468256एन	हवलदार	राम सिंह	01.04.2012
1741	4468814के	हवलदार	आर सिंह	01.07.2012
1742	4468131डब्ल्यू	हवलदार	रामपाल सिंह	01.03.2012
1743	4468758डब्ल्यू	हवलदार	रामपाल सिंह	01.06.2012
1744	4468320ए	हवलदार	रेशम सिंह	01.04.2012
1745	4468091ए	हवलदार	एस शर्मा	01.02.2012

1746	4468118एम	हवलदार	सरबजीत सिंह	01.03.2012
1747	4468278एम	हवलदार	श्रवण सिंह	01.04.2012
1748	4468230वाइ	हवलदार	शिंगारा सिंह	01.04.2012
1749	4468625ए	हवलदार	सुदागर सिंह	01.04.2012
1750	4468115वाइ	हवलदार	सुदागर सिंह	01.03.2012
1751	4468567एफ	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.04.2012
1752	4468534डब्ल्यू	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.04.2012
1753	4468123एएस	हवलदार	सुखवीर सिंह	01.03.2012
1754	4468499वाइ	हवलदार	सुखविंदर सिंह	01.04.2012
1755	4466684एन	हवलदार	सूरज प्रकाश	01.04.2012
1756	4468229के	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.04.2012
1757	4468173एच	हवलदार	वाइ सिंह	01.04.2012

### डोगरा रेर्जिमेंट

1758	3987791पी	हवलदार	अजय कुमार राठोर	01.06.2012
1759	3987160एम	हवलदार	अशोक कुमार	01.03.2012
1760	3989021एफ	हवलदार	अवतार सिंह	01.08.2012
1761	15361553एक्स	हवलदार	बाबू पीवी	01.02.2012
1762	3988995एन	हवलदार	बलजीत सिंह	01.08.2012
1763	9923808एफ	हवलदार	बलवान सिंह	01.06.2012
1764	3987207एम	हवलदार	बांके लाल	01.03.2012
1765	3988875पी	हवलदार	बसंत सिंह चंदेल	01.06.2012
1766	3987628पी	हवलदार	भीम राज	01.05.2012
1767	3988811के	हवलदार	मूरी राम	01.05.2012
1768	3987041डब्ल्यू	हवलदार	बिहारी लाल	01.02.2012
1769	3987217डब्ल्यू	हवलदार	बीरबल	01.03.2012
1770	3989055पी	हवलदार	बुधी सिंह	01.08.2012
1771	3987693पी	हवलदार	देश राज	01.05.2012
1772	3987654डब्ल्यू	हवलदार	दिनेश कुमार	01.05.2012
1773	3989038पी	हवलदार	गांधी राम वर्मा	01.08.2012
1774	3988829ए	हवलदार	गणेश कुमार	01.06.2012
1775	3987493एम	हवलदार	गौतम सिंह	01.05.2012
1776	3989008एन	हवलदार	ज्ञान चन्द	01.08.2012
1777	3988968के	हवलदार	इंद्र सिंह	01.08.2012
1778	3987514के	हवलदार	जगत पाल	01.05.2012
1779	3988981एन	हवलदार	जगदीश चन्द	01.08.2012
1780	3389120एम	हवलदार	जनक राज शर्मा	01.05.2012
1781	2969154एफ	हवलदार	जनक सिंह	01.07.2012
1782	3988833एन	हवलदार	जयाल दास	01.06.2012
1783	3987646एक्स	हवलदार	करतार चन्द	01.05.2012
1784	3986990डब्ल्यू	हवलदार	करतार सिंह	01.02.2012

1785	3988963एल	हवलदार	केहर सिंह	01.07.2011
1786	3988835एन	हवलदार	केवल कष्णन	01.06.2012
1787	3986935ए	हवलदार	किताब सिंह	01.02.2012
1788	3988933एन	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.07.2012
1789	3988387एम	हवलदार	कुलदीप सिंह चंदेल	01.03.2012
1790	3987369एक्स	हवलदार	कुलदीप कुमार	01.04.2012
1791	3988936एफ	हवलदार	कुशाल सिंह	01.07.2012
1792	4359722एफ	हवलदार	लेख राज	01.07.2012
1793	3988929एल	हवलदार	मदन लाल	01.07.2012
1794	2985739एक्स	हवलदार	मदन लाल	01.02.2012
1795	3987037एन	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.02.2012
1796	3988885वाइ	हवलदार	मान सिंह	01.06.2012
1797	3987312एच	हवलदार	मनोहर लाल	01.04.2012
1798	3987469एच	हवलदार	मुकेश कुमार	01.05.2012
1799	3988900एच	हवलदार	मुरारी लाल शर्मा	01.06.2012
1800	3987212एक्स	हवलदार	एन एस अप्पा	01.03.2012
1801	3987661एम	हवलदार	नरिंदर सिंह	01.05.2012
1802	3988856के	हवलदार	नेत्र सिंह	01.06.2012
1803	3988733एक्स	हवलदार	नीता राम	01.07.2011
1804	3987208पी	हवलदार	ओम प्रकाश	01.03.2012
1805	3989050डब्ल्यू	हवलदार	परम देव	01.08.2012
1806	3987375एल	हवलदार	पारस राम शर्मा	01.04.2012
1807	3987592एफ	हवलदार	प्रवीन सिंह	01.05.2012
1808	3988838एफ	हवलदार	पवन कुमार	01.06.2012
1809	3988925पी	हवलदार	पवन सिंह	01.07.2012
1810	3986981पी	हवलदार	पवन सिंह	01.02.2012
1811	3989052एफ	हवलदार	प्रताप सिंह	01.08.2012
1812	3989057ए	हवलदार	प्रेम लाल	01.08.2012
1813	3989015एन	हवलदार	प्रेम सिंह	01.08.2012
1814	3988812एम	हवलदार	आर एस मनकोटिया	01.05.2012
1815	3987313एल	हवलदार	रघुबीर चन्द	01.04.2012
1816	3987210एम	हवलदार	रघुबीर सिंह	01.03.2012
1817	3987651एच	हवलदार	राज दीप	01.05.2012
1818	3987563एम	हवलदार	राजेश कुमार चौहान	01.05.2012
1819	3988886एफ	हवलदार	आर दयाल	01.06.2012
1820	13617678एफ	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.02.2012
1821	3987355एक्स	हवलदार	राजू मसीह	01.04.2012
1822	3988840वाइ	हवलदार	राकेश कुमार	01.06.2012
1823	3988880एम	हवलदार	राम लाल	01.06.2012
1824	3987546एम	हवलदार	राम सिंह	01.05.2012
1825	3987335के	हवलदार	रमेश चन्द	01.04.2012

1826	3988798एल	हवलदार	रमेश कुमार	01.03.2012
1827	3987571एल	हवलदार	रमेश सिंह	01.05.2012
1828	3989054एम	हवलदार	रंजीत सिंह विष्ट	01.08.2012
1829	3989031एल	हवलदार	रवि कुमार	01.08.2012
1830	3989019के	हवलदार	रवीन्द्र सिंह	01.08.2012
1831	3987233एन	हवलदार	रोमेश कुमार	01.03.2012
1832	3988790वाइ	हवलदार	रूप सिंह	01.03.2012
1833	3179657एन	हवलदार	रोशन लाल	01.06.2012
1834	3987739एम	हवलदार	संतोष कुमार	01.05.2012
1835	3987752डब्ल्यू	हवलदार	सत पौल	01.05.2012
1836	3987583ए	हवलदार	सतीश कुमार	01.05.2012
1837	3988836डब्ल्यू	हवलदार	शाम सिंह	01.06.2012
1838	3988846ए	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.06.2012
1839	3987150एच	हवलदार	सुरेश कुमार	01.03.2012
1840	3987749डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश कुमार	01.05.2012
1841	3987364वाइ	हवलदार	सुरेश कुमार	01.04.2012
1842	3989045एल	हवलदार	टेक चन्द	01.08.2012
1843	3987295एन	हवलदार	तिलक राज	01.04.2012
1844	3988953एफ	हवलदार	वरिंदर पाल सिंह	01.07.2012
1845	3987473एल	हवलदार	विजय कुमार मनघोत्रा	01.05.2012
1846	3987192पी	हवलदार	यश पौल	01.03.2012
<u>गढ़वाल राईफल्स</u>				
1847	4071094एल	हवलदार	अमर सिंह	01.04.2012
1848	4069202एल	हवलदार	आनंद सिंह	01.02.2012
1849	4071221पी	हवलदार	अनिल कुमार पुंजीर	01.04.2012
1850	4071116वाइ	हवलदार	अनूप सिंह	01.04.2012
1851	4071179एफ	हवलदार	बाल राम	01.04.2012
1852	4070799एल	हवलदार	बालम सिंह	01.03.2012
1853	4071023के	हवलदार	बलबीर सिंह	01.04.2012
1854	13966346ए	हवलदार	बलबीर सिंह	01.02.2012
1855	4071216के	हवलदार	बलवंत सिंह	01.04.2012
1856	4070951एन	हवलदार	बलवीर सिंह	01.04.2012
1857	4071340एल	हवलदार	भरत सिंह	01.04.2012
1858	4071529एच	हवलदार	बीर भान	01.08.2012
1859	4070920एन	हवलदार	बीरबल सिंह	01.04.2012
1860	4070891के	हवलदार	चांदी प्रसाद	01.04.2012
1861	4071395पी	हवलदार	दयाल सिंह	01.05.2012
1862	4071499डब्ल्यू	हवलदार	दयाल सिंह	01.08.2012
1863	4069486ए	हवलदार	धनपाल सिंह	01.06.2012
1864	4071149के	हवलदार	धीरेन्द्र सिंह	01.04.2012

1865	4071124एक्स	हवलदार	धूम सिंह बिस्ट	01.04.2012
1866	4071219एक्स	हवलदार	दिनेश सिंह	01.04.2012
1867	4070973एम	हवलदार	गजेन्द्र सिंह	01.04.2012
1868	4071078एन	हवलदार	जी. सिंह	01.04.2012
1869	4071262वाइ	हवलदार	जी. सिंह	01.04.2012
1870	4071065डब्ल्यू	हवलदार	गोपाल सिंह	01.04.2012
1871	4071046एल	हवलदार	गोविंद सिंह	01.04.2012
1872	4071102वाइ	हवलदार	हरी ओम	01.04.2012
1873	4070999एफ	हवलदार	हर्षपाल सिंह	01.04.2012
1874	4071460के	हवलदार	हेम सिंह साजवान	01.07.2012
1875	4070777एम	हवलदार	हेमंत कुमार	01.03.2012
1876	4070740एल	हवलदार	हेमराज सिंह	01.02.2012
1877	4071239एल	हवलदार	हीरा सिंह	01.04.2012
1878	4070899डब्ल्यू	हवलदार	जगदीश सिंह	01.04.2012
1879	4071140पी	हवलदार	जगमोहन सिंह	01.04.2012
1880	4070908एम	हवलदार	जंग बहादुर सिंह	01.04.2012
1881	4071520एन	हवलदार	जसपाल सिंह	01.08.2012
1882	4070979एन	हवलदार	जाटन पाल सिंह	01.04.2012
1883	4071319एच	हवलदार	जयपाल सिंह रावत	01.04.2012
1884	4071379एक्स	हवलदार	जयवंत सिंह	01.04.2012
1885	4071518डब्ल्यू	हवलदार	कमल सिंह ओसई	01.08.2012
1886	4071243एन	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.04.2012
1887	4070984वाइ	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.04.2012
1888	4070849एल	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.03.2012
1889	4070870एन	हवलदार	मदन सिंह	01.04.2012
1890	4071393के	हवलदार	माधो सिंह	01.05.2012
1891	4071398एच	हवलदार	मेस्टन सिंह	01.05.2012
1892	4070871डब्ल्यू	हवलदार	मातबर सिंह	01.04.2012
1893	4070878ए	हवलदार	नंदन सिंह	01.04.2012
1894	4069492एन	हवलदार	नरेन्द्रा सिंह	01.06.2012
1895	4071472वाइ	हवलदार	नरेन्द्रा सिंह रावत	01.08.2012
1896	4071080एम	हवलदार	नयन सिंह	01.04.2012
1897	4070764पी	हवलदार	प्रदीप कुमार बाला	01.03.2012
1898	4071120एफ	हवलदार	प्रमोद चन्द रमोला	01.04.2012
1899	4071323एल	हवलदार	प्रताप सिंह रावत	01.04.2012
1900	4070865एच	हवलदार	पूरन सिंह रावत	01.04.2012
1901	4071516एल	हवलदार	पुशकर सिंह	01.08.2012
1902	4071419एन	हवलदार	पुशकर सिंह	01.07.2012
1903	4070969के	हवलदार	आर सी बोदोला	01.04.2012
1904	4071288एन	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.04.2012
1905	4070963एच	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.04.2012

1906	4071164वाइ	हवलदार	राजीव	01.04.2012
1907	4071093एच	हवलदार	राजपाल सिंह साजवान	01.04.2012
1908	4071101डब्ल्यू	हवलदार	राम सिंह	01.04.2012
1909	4071039पी	हवलदार	राम सिंह	01.04.2012
1910	4071297पी	हवलदार	रनबीर सिंह	01.04.2012
1911	4359553एल	हवलदार	रतन सिंह	01.04.2012
1912	4071391वाइ	हवलदार	एस पी हेमदानी	01.04.2012
1913	4071231वाइ	हवलदार	साहूकार सिंह	01.04.2012
1914	4071310एन	हवलदार	सरदार सिंह	01.04.2012
1915	4071015एल	हवलदार	सतीश चंद्रा	01.04.2012
1916	4070952डब्ल्यू	हवलदार	सत्य प्रकाश	01.04.2012
1917	4071234एम	हवलदार	सोहन सिंह	01.04.2012
1918	4071224एच	हवलदार	सोहन सिंह	01.04.2012
1919	4071055एम	हवलदार	सुनील कुमार	01.04.2012
1920	4071478ए	हवलदार	सूरज पाल सिंह	01.08.2012
1921	4071071के	हवलदार	सुशील कुमार	01.04.2012
1922	4071397ए	हवलदार	उदया सिंह	01.05.2012
1923	4071510के	हवलदार	वेद प्रकाश डबराल	01.08.2012
1924	4069430एन	हवलदार	विजय राम ढोंडियाल	01.05.2012
1925	4071399एल	हवलदार	विजय सिंह	01.05.2012
1926	4070916एल	हवलदार	विजया सिंह	01.04.2012
1927	4071321ए	हवलदार	विकास सिंह	01.04.2012
1928	4071287एल	हवलदार	विनोद सिंह	01.04.2012
1929	4070769एन	हवलदार	विनोद सिंह चौहान	01.03.2012
1930	4071506एफ	हवलदार	यशपाल सिंह नेगी	01.08.2012

### कूर्मोड रेजीमेंट

1931	4182020एल	हवलदार	आनंद सिंह	01.02.2012
1932	4182772पी	हवलदार	अनन्त राम	01.06.2012
1933	4182209एच	हवलदार	अनिल कुमार राना	01.03.2012
1934	4180715पी	हवलदार	अशोक कुमार	01.04.2012
1935	4182223पी	हवलदार	अवधेश कुमार	01.03.2012
1936	4182333के	हवलदार	भगवान सिंह यादव	01.03.2012
1937	4182248एफ	हवलदार	भीम सिंह	01.03.2012
1938	4182069एफ	हवलदार	दलीप सिंह कापकोटी	01.02.2012
1939	4182511एफ	हवलदार	दीपेंद्र चन्द	01.04.2012
1940	4182658एक्स	हवलदार	देव सिंह	01.06.2012
1941	4182285पी	हवलदार	देवेन्द्र लाल आर्य	01.03.2012
1942	4182507वाइ	हवलदार	देवेन्द्र नाथ	01.04.2012
1943	4182218के	हवलदार	धन सिंह	01.03.2012
1944	4182589एम	हवलदार	गनेश राम	01.04.2012



1945	4182716डब्ल्यू	हवलदार	गोपाल सिंह नेगी	01.06.2012
1946	13616566पी	हवलदार	गोविंद सिंह एमईआर	01.04.2012
1947	4180599एक्स	हवलदार	गुलाब सिंह	01.02.2012
1948	4182169एम	हवलदार	हनुमान सिंह	01.03.2012
1949	4183086एन	हवलदार	हरी शंकर	01.08.2012
1950	4182007एफ	हवलदार	हरीश चंद्रा	01.02.2012
1951	4182838ए	हवलदार	जशवन्त सिंह	01.07.2012
1952	4180738डब्ल्यू	हवलदार	के सिंह महार	01.05.2012
1953	4182508एफ	हवलदार	किशन चन्द ठाकुर	01.04.2012
1954	4182378के	हवलदार	लाला राम यादव	01.04.2012
1955	4182049एन	हवलदार	ललित मोहन	01.02.2012
1956	4182784के	हवलदार	मदन सिंह	01.06.2012
1957	4180720ए	हवलदार	माधो राम	01.04.2012
1958	4182291एच	हवलदार	महेश चंद्रा पी	01.03.2012
1959	4180769डब्ल्यू	हवलदार	मेहर मान सिंह	01.07.2012
1960	4182650एल	हवलदार	मोहन सिंह	01.06.2012
1961	4182841ए	हवलदार	मोहन सिंह	01.07.2012
1962	4182182डब्ल्यू	हवलदार	मोहन सिंह राना	01.03.2012
1963	4182287ए	हवलदार	नैन सिंह	01.03.2012
1964	4182792एच	हवलदार	नंदन सिंह खाती	01.06.2012
1965	4180767एल	हवलदार	नारायण सिंह	01.07.2012
1966	4182111पी	हवलदार	नेक पाल सिंह	01.02.2012
1967	4180587एच	हवलदार	नेत्रा सिंह	01.02.2012
1968	4182632एच	हवलदार	पीओपी सिंह	01.06.2012
1969	4182980के	हवलदार	पूरन सिंह	01.08.2012
1970	4182137के	हवलदार	आर सी द्विवेदी	01.02.2012
1971	4180743एफ	हवलदार	आर जया संकर	01.05.2012
1972	4182377एफ	हवलदार	राधे श्याम	01.04.2012
1973	4182613एक्स	हवलदार	राज पाल सिंह	01.05.2012
1974	4182586वाइ	हवलदार	राज सिंह	01.05.2012
1975	4182819पी	हवलदार	राजेंद्रा एस	01.07.2012
1976	4182164एन	हवलदार	राजेश कुमार यादव	01.03.2012
1977	4180694के	हवलदार	राजेश्वर सिंह	01.04.2012
1978	4182499एल	हवलदार	राजवीर सिंह	01.04.2012
1979	4182950एम	हवलदार	राम समुंद्र	01.08.2012
1980	4182356एल	हवलदार	राम सिंह यादव	01.04.2012
1981	4182093एक्स	हवलदार	रमेश कुमार	01.02.2012
1982	4182198एफ	हवलदार	सत्यदेव यादव	01.03.2012
1983	4182700एल	हवलदार	शंकर दत्त	01.06.2012
1984	4182041एफ	हवलदार	शेर सिंह नेगी	01.02.2012
1985	4182309एन	हवलदार	शिव राज सिंह	01.03.2012

1986	4182952एक्स	हवलदार	श्याम सिंह	01.08.2012
1987	4180561एन	हवलदार	सोहन लाल यादव	01.02.2012
1988	4180742वाइ	हवलदार	सुकुमार मिस्त्री	01.04.2012
1989	4183090डब्ल्यू	हवलदार	सूरज प्रकाश	01.08.2012
1990	4182290ए	हवलदार	विजय पाल यादव	01.03.2012
<b>आसाम रेजीमेंट</b>				
1991	4426727पी	हवलदार	अब्दुल जलील	01.04.2012
1992	4426810एम	हवलदार	अरुण कुमार डे	01.08.2012
1993	4359489वाइ	हवलदार	बलेन चंद्रा राय	01.03.2012
1994	4359875एल	हवलदार	भीम प्रसाद सुबेदी	01.08.2012
1995	8032335एच	हवलदार	भूमीधर सेकिआ	01.06.2012
1996	4359747एन	हवलदार	बिश्वजीत शर्मा	01.07.2012
1997	4359825ए	हवलदार	बी बोरबोरा	01.08.2012
1998	4358383ए	हवलदार	धन बहादुर थापा	01.08.2012
1999	4359640वाइ	हवलदार	दिलीप कुमार दास	01.06.2012
2000	4359907एच	हवलदार	गोकुल बरुयह	01.08.2012
2001	4359442एन	हवलदार	गोलाप तामूले	01.02.2012
2002	4359595एक्स	हवलदार	गोनेश चंद्रा डेका	01.05.2012
2003	4358350पी	हवलदार	गोविंद बहादुर थापा	01.02.2012
2004	2593854वाइ	हवलदार	हरमोहन दास	01.06.2012
2005	4426808पी	हवलदार	हरपाल सिंह	01.07.2012
2006	4359634एल	हवलदार	के के गोस्वामी	01.06.2012
2007	4359359डब्ल्यू	हवलदार	कमजासिंह	01.02.2012
2008	4359598एल	हवलदार	के स्वर्गयारे	01.05.2012
2009	4359480के	हवलदार	किशोर पाठक	01.03.2012
2010	4359927डब्ल्यू	हवलदार	लालजिरियल	01.08.2012
2011	4426720एल	हवलदार	लेख राज	01.02.2012
2012	4359846डब्ल्यू	हवलदार	एल कुकी	01.08.2012
2013	4359944डब्ल्यू	हवलदार	एल थॉग होकिप	01.08.2012
2014	4359528एम	हवलदार	लोहित बोरुह	01.04.2012
2015	4359791एक्स	हवलदार	मनी कुमार मंगेर	01.08.2012
2016	4359695एच	हवलदार	मोनू राजबंशी	01.06.2012
2017	4426803डब्ल्यू	हवलदार	एन जयासंर	01.03.2012
2018	4426811पी	हवलदार	प्रेम प्रसाद छत्री	01.08.2012
2019	4426742के	हवलदार	आर धनु	01.08.2012
2020	4359805एम	हवलदार	आर चंद्रा राय	01.08.2012
2021	4359665एल	हवलदार	राजेंद्रा दास	01.06.2012
2022	4359307ए	हवलदार	राम चंद्र पांडे	01.02.2012
2023	4426721एन	हवलदार	राम कुमार	01.02.2012
2024	4426735एन	हवलदार	सीताराम साफी	01.05.2012

2025	4359700एच	हवलदार	एसके. एल एल नाग	01.06.2012
2026	4358378पी	हवलदार	सुरेश प्रसाद	01.08.2012
2027	4426731एक्स	हवलदार	स्वप्न कुमार साहा	01.04.2012
2028	4359652एन	हवलदार	तंका बहादुर थापा	01.06.2012
2029	4359887ए	हवलदार	टी सिंघा	01.08.2012
<b>बिहार रेजीमेंट</b>				
2030	4267762एच	हवलदार	ए हेमब्रम	01.02.2012
2031	4268417एफ	हवलदार	अएता ओरान	01.03.2012
2032	4268386एम	हवलदार	अजय कुमार	01.03.2012
2033	4268682एक्स	हवलदार	अखिलेश प्रसाद	01.02.2012
2034	4268064एम	हवलदार	अमरनाथ पांडे	01.02.2012
2035	4268111वाइ	हवलदार	आनंद कुमार इक्का	01.03.2012
2036	4268454पी	हवलदार	आनंद प्रधान	01.03.2012
2037	4268487ए	हवलदार	अनूप बाड़ा	01.03.2012
2038	4268726के	हवलदार	ए सिंह	01.02.2012
2039	4268395एन	हवलदार	अशेश्वर यादव	01.03.2012
2040	4265621पी	हवलदार	बलकू तोप्पो	01.02.2012
2041	4268249एन	हवलदार	बंधु ओरान	01.03.2012
2042	4268223वाइ	हवलदार	भादे किसपोत्ता	01.03.2012
2043	4268194पी	हवलदार	भगत मोहन महानंदा	01.03.2012
2044	4268133एक्स	हवलदार	बिनय तिग्गा	01.03.2012
2045	4267646ए	हवलदार	बी प्रधान	01.02.2012
2046	4267737के	हवलदार	बिन्देस्वर महतो	01.02.2012
2047	4268319एफ	हवलदार	बिपिन कुमार सिंह	01.03.2012
2048	4268492एल	हवलदार	बिरसा हिरन्ज	01.03.2012
2049	4267711पी	हवलदार	बीशन महतो	01.02.2012
2050	4268703एच	हवलदार	ब्रजनन्दन प्रसाद	01.02.2012
2051	4268256के	हवलदार	चंद्रानाथ भगत	01.03.2012
2052	4267759एच	हवलदार	कोर्निलुइस एकसालोकसो	01.02.2012
2053	4268239के	हवलदार	डी. ओरान	01.03.2012
2054	4268684एच	हवलदार	देवेश कुमार सिंह	01.02.2012
2055	4265636एक्स	हवलदार	धर्मन्द्र ठाकुर	01.03.2012
2056	4267795एन	हवलदार	फुलर्गेंस किसपोत्ता	01.02.2012
2057	4268101पी	हवलदार	गगन प्रधान	01.02.2012
2058	4268364एन	हवलदार	गनेश प्रसाद सिंह	01.03.2012
2059	4267773पी	हवलदार	गंगा राम मुंडा	01.02.2012
2060	4268689एफ	हवलदार	गोधान पी	01.02.2012
2061	4268450वाइ	हवलदार	जी. तिकेई	01.03.2012
2062	4267664एच	हवलदार	गोपाल कुमार रस्तोगी	01.02.2012
2063	4268699एल	हवलदार	हरेन्द्र कुमार राय	01.02.2012

2064	13617669ए	हवलदार	इश्वर प्रसाद	01.02.2012
2065	4268652ए	हवलदार	जान्सन डी.	01.04.2012
2066	4268240वाइ	हवलदार	कोमल कुजुर	01.03.2012
2067	4265765एक्स	हवलदार	कृष्णा सिंह	01.06.2012
2068	4268054एच	हवलदार	कुमार धनंजय सिंह	01.02.2012
2069	4268342पी	हवलदार	लाल बहादुर सिंह	01.03.2012
2070	4268491एच	हवलदार	लक्ष्मण ओरान	01.03.2012
2071	4267729एल	हवलदार	मदन प्रसाद सिंह	01.02.2012
2072	4268235एन	हवलदार	मनोरंजन बक्सला	01.03.2012
2073	4268423पी	हवलदार	मनसुख खीश	01.03.2012
2074	4268455एक्स	हवलदार	मरीयानस बाड़ा	01.03.2012
2075	4268484एम	हवलदार	मसीह दास मुंडा	01.03.2012
2076	4268169डब्ल्यू	हवलदार	मसराम शिवाजी यूपीए	01.02.2012
2077	4268449के	हवलदार	एम दहंगा	01.03.2012
2078	4267812एच	हवलदार	एम प्रसाद	01.02.2012
2079	4268373पी	हवलदार	नरेन्द्रा झा	01.03.2012
2080	4267727ए	हवलदार	नवल किशोर राय	01.02.2012
2081	4268151ए	हवलदार	पाटिल राजा चुन्नी	01.02.2012
2082	4268132पी	हवलदार	पिताम्बर मारदी	01.03.2012
2083	4268526एन	हवलदार	पी हेमब्रम	01.04.2012
2084	4268732एक्स	हवलदार	प्रद्युमन सिंह	01.02.2012
2085	4268091डब्ल्यू	हवलदार	प्रमोद चंद्रा प्रधान	01.02.2012
2086	4268081एम	हवलदार	प्रताप किशोर प्रधान	01.02.2012
2087	4268436एम	हवलदार	रंबीनारायन पात्रा	01.03.2012
2088	4268334डब्ल्यू	हवलदार	रबीन्द्र कुमार	01.03.2012
2089	4268311पी	हवलदार	राधे श्याम सिंह	01.03.2012
2090	4268728पी	हवलदार	राज कपूर शर्मा	01.02.2012
2091	4268333एन	हवलदार	राजेश्वर सिंह	01.03.2012
2092	4267721वाइ	हवलदार	राम गोविंद सिंह	01.02.2012
2093	4267803एफ	हवलदार	राम रतन सिंह	01.02.2012
2094	4267653डब्ल्यू	हवलदार	आर लकरा	01.02.2012
2095	4268460एच	हवलदार	रमेश कायम	01.03.2012
2096	4268242के	हवलदार	रवीन्द्र नाथ पांडे	01.03.2012
2097	4267701एल	हवलदार	सागर टी	01.02.2012
2098	4267753एफ	हवलदार	संजय कुमार सिंह	01.02.2012
2099	4268340के	हवलदार	सतीश कुमार	01.03.2012
2100	4268731पी	हवलदार	शक्ती कुमार गांधी	01.02.2012
2101	4268241एफ	हवलदार	एस ओरान	01.03.2012
2102	4268686एन	हवलदार	शिव प्रसाद सियो	01.02.2012
2103	4268067ए	हवलदार	शिवाधर सिंह	01.02.2012
2104	4267706के	हवलदार	श्रवण कुमार	01.02.2012

2105	4265640ए	हवलदार	श्याम बिहारी सिंह	01.03.2012
2106	2593915एल	हवलदार	सुभास मंडल	01.08.2012
2107	13617716एम	हवलदार	सुबोध कुमार साह	01.03.2012
2108	4268360एक्स	हवलदार	सुबोध कुमार सिंह	01.03.2012
2109	4268103ए	हवलदार	एस ओरान	01.03.2012
2110	4268702ए	हवलदार	सुनील भगत	01.02.2012
2111	4267715एल	हवलदार	सुरेन्द्रा प्रसाद एसआई	01.02.2012
2112	4268236डब्ल्यू	हवलदार	टैलेसफोर टी	01.03.2012
2113	4268555एच	हवलदार	ठाकरे पण्डित पुनाजी	01.04.2012
2114	4268372एम	हवलदार	उमेश कुमार शर्मा	01.03.2012
2115	4267678एच	हवलदार	उपेंद्र राम	01.02.2012
2116	4268336एफ	हवलदार	वी सिंह	01.03.2012
2117	4268324एम	हवलदार	विद्यानंद सिंह	01.03.2012
2118	4268105एल	हवलदार	विजय लकरा	01.03.2012
2119	4268187वाइ	हवलदार	डब्ल्यू बी वाइ	01.03.2012
2120	4267765डब्ल्यू	हवलदार	वाइ ओरान	01.02.2012

महार रेजीमेंट

2121	13976998एम	हवलदार	ए लौरूधू सामी	01.05.2012
2122	4560376एम	हवलदार	अमरजीत सिंह	01.07.2012
2123	4560283एक्स	हवलदार	अशोक कुमार	01.06.2012
2124	4560324डब्ल्यू	हवलदार	बंसी लाल	01.06.2012
2125	4559712एफ	हवलदार	भोला प्रसाद	01.02.2012
2126	4560113एन	हवलदार	बिरेन्द्र सिंह	01.05.2012
2127	4560111एच	हवलदार	बिरेन्द्रा कुमार	01.05.2012
2128	4559892पी	हवलदार	बिरेन्द्रा कुमार सिंह	01.03.2012
2129	4560097एफ	हवलदार	ब्रम पाल	01.04.2012
2130	4560210एल	हवलदार	गायकवाड बलवंत मारूति	01.05.2012
2131	4559907एम	हवलदार	गोधगे दगादुजी साधूजी	01.03.2012
2132	4560368एन	हवलदार	गोपाल सिंह	01.06.2012
2133	4560299एच	हवलदार	गुरचरण सिंह	01.06.2012
2134	4560337एन	हवलदार	हरनाम सिंह	01.06.2012
2135	4559759एम	हवलदार	जाधव बाबन तुकाराम	01.02.2012
2136	4560412एम	हवलदार	जगदीश चंद्रा विश्वास	01.07.2012
2137	4560120के	हवलदार	जंग बहादुर यादव	01.05.2012
2138	4558289ए	हवलदार	जय प्रकाश सिंह	01.03.2012
2139	4558261ए	हवलदार	कदम रोहीदास दादू	01.02.2012
2140	4560184पी	हवलदार	खन्डागाले महादेव दनयानु	01.05.2012
2141	4560170पी	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.05.2012
2142	4560010पी	हवलदार	मदन लाल	01.04.2012
2143	4560123एक्स	हवलदार	मदन सिंह यादव	01.05.2012

2144	4560073एक्स	हवलदार	एम कुमार देबनाथ	01.04.2012
2145	4559872एफ	हवलदार	मोरे दत्तत्रे साहेब्रो	01.03.2012
2146	4559956पी	हवलदार	एन सिंह यादव	01.03.2012
2147	4560209डब्ल्यू	हवलदार	नारायण सिंह सिकरवार	01.05.2012
2148	4560199एक्स	हवलदार	पंच देव राय	01.05.2012
2149	4560321एच	हवलदार	परम देव	01.06.2012
2150	4559860एम	हवलदार	पवार सी लक्ष्मन	01.03.2012
2151	4560318एच	हवलदार	प्रहलाद सिंह	01.06.2012
2152	4558490एल	हवलदार	राजेंद्र राम	01.05.2012
2153	4560049एफ	हवलदार	राजपाल यादव	01.04.2012
2154	4560231एफ	हवलदार	राम केवल यादव	01.05.2012
2155	4560018एफ	हवलदार	राम कुमार सिंह	01.04.2012
2156	4560234पी	हवलदार	राम वी	01.05.2012
2157	4560151के	हवलदार	सावंत दिलीप एस	01.05.2012
2158	4560191एल	हवलदार	शेर सिंह खाती	01.05.2012
2159	4560424एफ	हवलदार	शोबान सिंह	01.07.2012
2160	13977033एफ	हवलदार	श्याम लाल	01.05.2012
2161	4560267ए	हवलदार	सुदेश कुमार	01.06.2012
2162	4560359एच	हवलदार	सुखचैन सिंह	01.06.2012
2163	4559692वाइ	हवलदार	तरसेन लाल	01.02.2012
2164	4560254एच	हवलदार	त्रिलोक सिंह	01.06.2012
2165	4558306पी	हवलदार	उमा शंकर यादव	01.03.2012
2166	4560164एफ	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	01.05.2012
<b>जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स</b>				
2167	13752174एफ	हवलदार	अब्दुर रज्जाक अली	01.05.2012
2168	13751113एक्स	हवलदार	बलदेव राज	01.06.2012
2169	13752427एल	हवलदार	बिशम्बर सिंह	01.08.2012
2170	13752356पी	हवलदार	चुनी लाल	01.08.2012
2171	13751102एल	हवलदार	दलीप मसीह	01.06.2012
2172	13751955एच	हवलदार	दरबार सिंह	01.02.2012
2173	13752172डब्ल्यू	हवलदार	देस राज	01.05.2012
2174	13752431एन	हवलदार	फज़ल हुसैन	01.08.2012
2175	13752022ए	हवलदार	होशियार सिंह	01.03.2012
2176	13752323के	हवलदार	जगन नाथ	01.07.2012
2177	13751990एल	हवलदार	ज्योती कुमार गुरंग	01.02.2012
2178	13752342पी	हवलदार	के कार्तीकेयन	01.08.2012
2179	13752347एन	हवलदार	कमलेशवर सिंह	01.08.2012
2180	13751210पी	हवलदार	खुदी मिंज	01.08.2012
2181	13752035एक्स	हवलदार	कृष्णा बहादुर खादका	01.03.2012
2182	13752228एक्स	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.06.2012

2183	13752308पी	हवलदार	मगहर सिंह	01.07.2012
2184	13751108एम	हवलदार	मकबूल आलम	01.06.2012
2185	13752159एम	हवलदार	मन्न लाल	01.05.2012
2186	13752394एल	हवलदार	मनोहर लाल	01.08.2012
2187	13752186डब्ल्यू	हवलदार	नारा सिंघा सेठी	01.06.2012
2188	13752015के	हवलदार	नरेश कुमार एच	01.02.2012
2189	13752267डब्ल्यू	हवलदार	नरेश पाल सिंह	01.07.2012
2190	13752401डब्ल्यू	हवलदार	ओंकार सिंह	01.08.2012
2191	13752224एफ	हवलदार	प्रताप चन्द्र	01.06.2012
2192	13752392ए	हवलदार	रघुवीर सिंह	01.08.2012
2193	13752428एन	हवलदार	राज कुमार	01.08.2012
2194	13752262एक्स	हवलदार	राज कुमार	01.07.2012
2195	13752434एफ	हवलदार	राकेश थापा	01.08.2012
2196	13751118डब्ल्यू	हवलदार	राम पौल	01.07.2012
2197	13751173एम	हवलदार	रंजीत सिंह	01.08.2012
2198	13751154एफ	हवलदार	रवि कांत	01.07.2012
2199	13752155डब्ल्यू	हवलदार	रेशम सिंह	01.05.2012
2200	13752261पी	हवलदार	सतीश कुमार	01.07.2012
2201	13752320डब्ल्यू	हवलदार	विष्णु बहादुर	01.07.2012

**लध्दाख स्काउट**

2202	9923680एफ	हवलदार	दोरजय सेरिंग	01.02.2012
2203	9923685ए	हवलदार	मोहम्मद निसार	01.02.2012
2204	9923722एच	हवलदार	पद्मा अंगचौक	01.03.2012
2205	9923709वाइ	हवलदार	तसेवांग डोरजे	01.03.2012

**नागा रेजीमेंट**

2206	14702213पी	हवलदार	महाबीर सिंह रावत	01.02.2012
2207	14702266एन	हवलदार	नंदन सिंह	01.05.2012
2208	14702195एक्स	हवलदार	राजू पाल	01.02.2012
2209	14702207एफ	हवलदार	सुधीर कुमार	01.02.2012
2210	14702265एल	हवलदार	थमन सिंह थापा	01.04.2012

**जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल सेना**

2211	9088932ए	हवलदार	अब रशीद घाणी	01.06.2012
2212	9088836एल	हवलदार	अब्दुल अजीज़	01.04.2012
2213	9088125एल	हवलदार	अब्दुल हमीद	01.07.2012
2214	9088761वाइ	हवलदार	अफसर अली खान	01.03.2012
2215	9089023पी	हवलदार	अंचल सिंह	01.08.2012
2216	9088844के	हवलदार	अशोक कुमार थापा	01.04.2012
2217	9088744वाइ	हवलदार	बलबीर सिंह	01.02.2012

2218	9088955एफ	हवलदार	बशीर अहमद तली	01.07.2012
2219	9088907एफ	हवलदार	बिहारी लाल	01.05.2012
2220	9088136एक्स	हवलदार	बिपन कुमार शर्मा	01.08.2012
2221	9088982एल	हवलदार	चमन सिंह	01.08.2012
2222	9088861के	हवलदार	दलीप सिंह	01.04.2012
2223	9088137ए	हवलदार	दीन मोहम्मद	01.08.2012
2224	9088901ए	हवलदार	फैयाज़ अहमद भाट	01.05.2012
2225	9088705ए	हवलदार	जी एच अहमद धर	01.02.2012
2226	9088736ए	हवलदार	जी एच अहमद खान	01.02.2012
2227	9088904एन	हवलदार	घरू राम सी	01.05.2012
2228	9088840डब्ल्यू	हवलदार	गुरमीत सिंह	01.04.2012
2229	9089019वाइ	हवलदार	जागीर सिंह	01.08.2012
2230	9088719ए	हवलदार	जीत राज	01.02.2012
2231	9088140ए	हवलदार	कुलदीप राज	01.08.2012
2232	9088784ए	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.03.2012
2233	9088962एक्स	हवलदार	मनीर हुसैन	01.07.2012
2234	9088764एम	हवलदार	मनोहर लाल	01.02.2012
2235	9088814एम	हवलदार	मोहम्मद असलम	01.03.2012
2236	9089036वाइ	हवलदार	मोहम्मद दीन	01.08.2012
2237	9088992पी	हवलदार	मोहम्मद खलील	01.08.2012
2238	9088741एल	हवलदार	मोहम्मद रफीक	01.02.2012
2239	9088706एच	दफादार	मोहम्मद रफीक खान	01.02.2012
2240	9088900एक्स	हवलदार	मोहम्मद यूसुफ भाट	01.05.2012
2241	9088808वाइ	हवलदार	निसार अहमद शाह	01.03.2012
2242	9088876एम	हवलदार	राकेश कुमार	01.04.2012
2243	9088069एक्स	हवलदार	राम आशीश प्रसाद	01.06.2012
2244	9089027एक्स	हवलदार	रंजीत सिंह	01.08.2012
2245	9088923वाइ	हवलदार	रतन सिंह	01.05.2012
2246	9088790एन	हवलदार	रवि कुमार	01.03.2012
2247	9088061एल	हवलदार	रोमेश चंद्र	01.05.2012
2248	9088845एम	हवलदार	रोशन लाल	01.04.2012
2249	9088987एम	हवलदार	समपूरन चन्द	01.08.2012
2250	9088883एच	हवलदार	संजीब कुमार	01.04.2012
2251	9088857एफ	हवलदार	संजीव कुमार	01.04.2012
2252	9088996एल	हवलदार	सत पौल	01.08.2012
2253	9088742एन	हवलदार	शेर मोहम्मद	01.02.2012
2254	9088870एल	हवलदार	स्वर्ण सिंह	01.04.2012
2255	9088919डब्ल्यू	हवलदार	स्वर्ण सिंह	01.05.2012
2256	9088929ए	हवलदार	विजय कुमार	01.05.2012



**1 गोरखा राईफल्स**

2257	5044335एम	हवलदार	चुक बीर पुन	01.07.2012
2258	5044198वाइ	हवलदार	धर्मा राज थापा	01.02.2012
2259	5044311एच	हवलदार	दिल बहादुर पुन	01.06.2012
2260	5044197डब्ल्यू	हवलदार	दुर्गा बहादुर गुरंग	01.02.2012
2261	5043857डब्ल्यू	हवलदार	गोपाल बहादुर थापा	01.03.2012
2262	5043840एच	हवलदार	हरी कुमार थापा	01.02.2012
2263	5043881वाइ	हवलदार	हीरा लाल	01.06.2012
2264	5044260ए	हवलदार	हेम बहादुर गुरंग	01.03.2012
2265	5044310ए	हवलदार	जीत बहादुर गहा	01.06.2012
2266	5043844वाइ	हवलदार	मोती लाल	01.02.2012
2267	5044376डब्ल्यू	हवलदार	मुक्ता बहादुर थापा	01.08.2012
2268	5044209ए	हवलदार	पदम बहादुर थापा	01.02.2012
2269	5044323एक्स	हवलदार	प्रकाश गुरंग	01.07.2012
2270	5044295डब्ल्यू	हवलदार	प्रेम बहादुर थापा	01.04.2012
2271	5044338ए	हवलदार	पुना राम थापा	01.07.2012
2272	5044283एफ	हवलदार	राज कुमार गुरंग	01.03.2012
2273	15361891पी	हवलदार	शेख ए अहमद	01.02.2012
2274	5044377वाइ	हवलदार	तारा बीर तमंग	01.08.2012
2275	5044226ए	हवलदार	तिल बहादुर थापा	01.03.2012
2276	5044250डब्ल्यू	हवलदार	उमर बहादुर गुरंग	01.03.2012

**3 गोरखा राईफल्स**

2277	5245698एम	हवलदार	डी. बहादुर अले	01.02.2012
2278	5245777एफ	हवलदार	केशर बहादुर थापा	01.07.2012
2279	5245359एम	हवलदार	के पाल	01.02.2012
2280	5245784एक्स	हवलदार	लाल बहादुर थापा	01.07.2012
2281	5245735पी	हवलदार	मान बहादुर थापा	01.03.2012
2282	5245713डब्ल्यू	हवलदार	प्रेम बहादुर थापा	01.03.2012
2283	5245753एक्स	हवलदार	प्रेम बहादुर थापा	01.06.2012
2284	5245704पी	हवलदार	रुद्रा बहादुर पुन	01.03.2012
2285	5245717एम	हवलदार	शिवा राज राना	01.03.2012
2286	4070798एच	हवलदार	वी प्रसाद	01.03.2012
2287	5245740ए	हवलदार	याम बहादुर थापा	01.06.2012

**4 गोरखा राईफल्स**

2288	5346580एम	हवलदार	भक्ता बहादुर पुन	01.03.2012
2289	5346451एम	हवलदार	बिशन कुमार राना	01.02.2012
2290	5346478के	हवलदार	चंद्रा बहादुर गुरंग	01.02.2012
2291	5346526वाइ	हवलदार	चित्रा बहादुर राना	01.02.2012

2292	5346450के	हवलदार	दिल बहादुर थापा	01.02.2012
2293	5346505एच	हवलदार	दुर्गा बहादुर गुरंग	01.02.2012
2294	5346654डब्ल्यू	हवलदार	जनक बहादुर अले	01.03.2012
2295	5345754पी	हवलदार	मोहन कुमार	01.03.2012
2296	5346686वाइ	हवलदार	नारायण गुरंग	01.04.2012
2297	5346618एल	हवलदार	पदम बहादुर गुरंग	01.03.2012
2298	5346613एम	हवलदार	पदम बहादुर थापा	01.03.2012
2299	5345762एन	हवलदार	पापू राम कुम्हार	01.04.2012
2300	5345742ए	हवलदार	राम निवाज	01.02.2012
2301	5346490एल	हवलदार	रास बहादुर गुरंग	01.02.2012
2302	5346542डब्ल्यू	हवलदार	एस बी गुरंग, एसएम	01.03.2012
2303	5346676पी	हवलदार	सोम बहादुर पुन	01.03.2012
2304	5346523एल	हवलदार	सन बहादुर गुरंग	01.02.2012
2305	5346616ए	हवलदार	टेक बहादुर पुन	01.03.2012
2306	5345737पी	हवलदार	वजीर अली	01.02.2012

#### 5 गोरखा राईफल्स

2307	5450174वाइ	हवलदार	बी बहादुर राना	01.04.2012
2308	5450616एम	हवलदार	चूरा मनी गहा	01.02.2012
2309	5450650एम	हवलदार	दिलीप कुमार थापा	01.03.2012
2310	5450663के	हवलदार	जग्गु राम अले	01.03.2012
2311	5450718एच	हवलदार	कुल बहादुर गुरंग	01.07.2012
2312	5450610एल	हवलदार	लाल बहादुर मगर	01.02.2012
2313	5450148एक्स	हवलदार	ललन ठाकुर	01.04.2012
2314	5450728एम	हवलदार	महेन्द्र सिंह थापा	01.07.2012
2315	5450657डब्ल्यू	हवलदार	निम बहादुर थापा	01.03.2012
2316	5450731एम	हवलदार	प्रेम बहादुर रोका	01.07.2012
2317	5450743एफ	हवलदार	राम बहादुर पुन	01.08.2012
2318	5450679पी	हवलदार	संत बहादुर गुरंग	01.03.2012
2319	5450673एन	हवलदार	श्री मान पुन	01.03.2012
2320	5450706एन	हवलदार	तीर्थ बहादुर पुन	01.06.2012

#### 8 गोरखा राईफल्स

2321	5752015वाइ	हवलदार	बी बी गुरंग	01.08.2012
2322	5751929डब्ल्यू	हवलदार	भीम बहादुर	01.03.2012
2323	5751872एम	हवलदार	डी. बी थापा	01.03.2012
2324	5751913एल	हवलदार	दल बहादुर थापा	01.03.2012
2325	5751416एफ	हवलदार	जी. च. ब्रमा	01.06.2012
2326	5751990ए	हवलदार	हरी कुमार प्रधान	01.07.2012
2327	5751896डब्ल्यू	हवलदार	खिम बहादुर अले	01.03.2012
2328	5751379वाइ	हवलदार	किशोर सिंह	01.04.2012

2329	5752025एच	हवलदार	एल बी थापा	01.07.2012
2330	5751827ए	हवलदार	नान बहादुर गुरंग	01.02.2012
2331	5751360ए	हवलदार	पूर्णा बिक्रम गुरंग	01.04.2012
2332	5751899के	हवलदार	आर बी गुरंग	01.03.2012
2333	5751869एम	हवलदार	एस बी थापा	01.03.2012
2334	5751365वाइ	हवलदार	शिब बहादुर गुरंग	01.04.2012
2335	5751895एन	हवलदार	थम प्रसाद पुन	01.03.2012
2336	5751355पी	हवलदार	विजय सिंह बाल्मीकि	01.03.2012
2337	5751893एच	हवलदार	यांम बहादुर थापा	01.03.2012
2338	5752005पी	हवलदार	वाइ बहादुर थापा	01.08.2012

**9 गोरखा राईफल्स**

2339	5846620एल	हवलदार	क्षेत्रा बहादुर छत्री	01.03.2012
2340	5846729एल	हवलदार	धन बहादुर खत्री	01.07.2012
2341	5846663ए	हवलदार	दुर्गा बहादुर भंडारी	01.07.2012
2342	5846666एन	हवलदार	ज्ञान बहादुर मल्ला	01.07.2012
2343	5846634एल	हवलदार	जलंधर खादका	01.06.2012
2344	5846629ए	हवलदार	के गुरंग	01.03.2012
2345	5846587वाइ	हवलदार	लोक बहादुर छत्री	01.02.2012
2346	5846588एफ	हवलदार	प्रेम बहादुर थापा	01.02.2012
2347	5846730ए	हवलदार	राज देव	01.07.2012
2348	5846536एल	हवलदार	राम नयन यादव	01.07.2012

**11 गोरखा राईफल्स**

2349	15363158एच	हवलदार	अनिल कुमार अनिल	01.04.2012
2350	9419366एन	हवलदार	बीर बहादुर राय	01.03.2012
2351	9419423के	हवलदार	बुध्दा कुमार राय	01.07.2012
2352	9418633एक्स	हवलदार	चंद्रा मान राय	01.04.2012
2353	9419267एल	हवलदार	देव कुमार राय	01.02.2012
2354	9419342के	हवलदार	डी.आई.जी. बहादुर राय	01.02.2012
2355	9419398डब्ल्यू	हवलदार	दुर्गा थापा	01.04.2012
2356	9419269डब्ल्यू	हवलदार	गनेश बहादुर प्रधान	01.02.2012
2357	9419323वाइ	हवलदार	गंगा राम	01.02.2012
2358	9419324एफ	हवलदार	हेम कुमार राय	01.02.2012
2359	9419270एल	हवलदार	जय बहादुर राय	01.02.2012
2360	9418553ए	हवलदार	जीत बहादुर लिम्बू	01.02.2012
2361	4468135एम	हवलदार	मान बहादुर गुरंग	01.03.2012
2362	9419344पी	हवलदार	नारायण प्रसाद राय	01.02.2012
2363	9419351एल	हवलदार	नरेन्द्रा कुमार पी	01.02.2012
2364	9419367डब्ल्यू	हवलदार	ओम प्रकाश राय	01.03.2012
2365	9419336डब्ल्यू	हवलदार	प्रेम प्रसाद लिम्बू	01.02.2012

2366	9418609एफ	हवलदार	राजेंद्रा कुमार	01.03.2012
2367	9419314एक्स	हवलदार	राम एसओआर राय	01.02.2012
2368	9419387के	हवलदार	सार बहादुर वाइ	01.04.2012
2369	9419296ए	हवलदार	सरकार सिंह एस	01.02.2012
2370	9419307एफ	हवलदार	एस कुमार राय	01.02.2012
2371	9419413ए	हवलदार	एस धन राय	01.06.2012
2372	9419250एक्स	हवलदार	तिका धन राय	01.02.2012
2373	9419400एच	हवलदार	तिका प्रसाद सुब्बा	01.06.2012
2374	9419428एच	हवलदार	याम बहादुर लिम्बू	01.07.2012
<u>सेना सेवा कोर दक्षिण</u>				
2375	6381843पी	हवलदार	ए अरुल सिल्वाराज	01.07.2012
2376	6381448एफ	हवलदार	ए वेंकट अप्पाराव	01.02.2012
2377	13899056एन	हवलदार	अबुल बसर	01.04.2012
2378	6386467डब्ल्यू	हवलदार	अजय कुम्र शर्मा	01.08.2012
2379	14800500पी	हवलदार	अजय कुमार वर्मा	01.06.2012
2380	14800205एम	हवलदार	अजय पाल	01.04.2012
2381	6381982वाइ	हवलदार	अजया घोष कुमार के	01.07.2012
2382	14800112एक्स	हवलदार	आलम सेट्टी सीताराम	01.05.2012
2383	14800223पी	हवलदार	अमर किशोर सिंह	01.04.2012
2384	13899557एन	हवलदार	अमर नाथ	01.08.2012
2385	6381680एम	हवलदार	अमर नाथ गुप्ता	01.05.2012
2386	13899097एक्स	हवलदार	अमृत कुमार दास	01.02.2012
2387	6381648एक्स	हवलदार	अनिल गोगोई	01.05.2012
2388	6385783एच	हवलदार	अनिल थापा	01.03.2012
2389	6385743एफ	हवलदार	अर्जुन भीमराव शंकर	01.03.2012
2390	13899517एम	हवलदार	अर्जुन शर्मा	01.08.2012
2391	13898717डब्ल्यू	हवलदार	ए सामी एस	01.02.2012
2392	14800548एच	हवलदार	अरुण पोतदार	01.07.2012
2393	6382016वाइ	हवलदार	अर्विन्द कुमार तिवारी	01.08.2012
2394	6381752एल	हवलदार	आशीश कुमार साहा	01.06.2012
2395	6385809एम	हवलदार	अशोक कुमार सिंह	01.03.2012
2396	14800709ए	हवलदार	आशु चन्द	01.08.2012
2397	14800487डब्ल्यू	हवलदार	ए जमन	01.06.2012
2398	6381945एच	हवलदार	बाबू राम शर्मा	01.07.2012
2399	14800388एम	हवलदार	बालकृष्ण बिलगोजी	01.06.2012
2400	6385552एम	हवलदार	बलबीर सिंह	01.02.2012
2401	6385684ए	हवलदार	बलजिन्दर कुमार	01.03.2012
2402	13899045एफ	हवलदार	बी सिंह	01.04.2012
2403	14800490डब्ल्यू	हवलदार	बनेश्वर सेकिआ	01.06.2012
2404	13896765एक्स	हवलदार	बंशी धर	01.02.2012

2405	6385734ए	हवलदार	बी भगवान भाई जोधा भाई	01.03.2012
2406	6381509एन	हवलदार	बेचन प्रसाद	01.03.2012
2407	6381641एन	हवलदार	भंवर सिंह	01.05.2012
2408	15351354डब्ल्यू	हवलदार	भरत मोहतो राम	01.02.2012
2409	6385640एच	हवलदार	भीम राव एस	01.03.2012
2410	6336174एल	हवलदार	भीमासैन साहू	01.04.1912
2411	6385427एच	हवलदार	बी बी जयसिंग	01.02.2012
2412	13896920एन	हवलदार	भोसले मधुकर एम	01.03.2012
2413	13895975एल	हवलदार	बिंदेश्वरी दास	01.05.2012
2414	6381924पी	हवलदार	बिरेन्द्रा दत्त बिजलवान	01.07.2012
2415	13899412एच	हवलदार	बी वी भाई एस	01.07.2012
2416	13896121एक्स	हवलदार	बृज मोहन	01.06.2012
2417	13898708पी	हवलदार	बृज मोहन सिंह	01.06.2012
2418	6382087ए	हवलदार	बुनधे मोतीराम तुकाराम	01.08.2012
2419	6381753एन	हवलदार	चना बसाएया एम पाती	01.06.2012
2420	14800684वाइ	हवलदार	चंद्रा पाल सिंह	01.08.2012
2421	13898969एच	हवलदार	चंद्रिका राम	01.03.2012
2422	6386417एल	हवलदार	छोटे लाल	01.08.2012
2423	14800450पी	हवलदार	दल सिंह	01.06.2012
2424	6482093एच	हवलदार	दातार सिंह राठोर	01.05.2012
2425	13899008एन	हवलदार	देबराज कुमार पटनायक	01.03.2012
2426	13899193एम	हवलदार	देस राज	01.05.2012
2427	6383185एम	हवलदार	देसे नन्द कुमार	01.06.2012
2428	13898889एल	हवलदार	देव राज पटेल	01.02.2012
2429	6381498एम	हवलदार	देवेन्द्र सिंह	01.03.2012
2430	6386228एफ	हवलदार	डी. मछिन्दरा भागुजी	01.04.2012
2431	14800385ए	हवलदार	धर्म पाल	01.06.2012
2432	6386126एल	हवलदार	धर्मवीर सिंह	01.04.2012
2433	6381451एफ	हवलदार	दिब्येन्दु नाथ मजूमदार	01.02.2012
2434	14800403एक्स	हवलदार	दीनानाथ सिंह	01.06.2012
2435	13899131एम	हवलदार	दिनेश कुमार	01.04.2012
2436	6381728पी	हवलदार	दिनेश सिंह	01.06.2012
2437	13898820एफ	हवलदार	डी. बोरुह	01.03.2012
2438	14800174एक्स	हवलदार	दोले राम	01.03.2012
2439	14800123के	हवलदार	फैयाज़ अहमद ए	01.05.2012
2440	6385402डब्ल्यू	हवलदार	फ्रांसेस पी डी.	01.02.2012
2441	6381564के	हवलदार	जी. गोविन्द राजू	01.04.2012
2442	13899515एफ	हवलदार	जी. प्राबाकरण	01.08.2012
2443	6381401वाइ	हवलदार	जी इश्वर सोना	01.03.2012
2444	6382018के	हवलदार	गंगा राम	01.08.2012
2445	6381838के	हवलदार	जोर्ज मेथ्यू	01.07.2012

2446	13898857एच	हवलदार	गिरीश कुमार गौतम	01.03.2012
2447	14800723एम	हवलदार	गोबिंदा चंद्रा बेनरजी	01.08.2012
2448	13899354के	हवलदार	गोपाल मोन्डल	01.04.2012
2449	13896772एन	हवलदार	गोविंद बल्लभ	01.02.2012
2450	6385349डब्ल्यू	हवलदार	गोविंद सिंह राघव	01.02.2012
2451	6385429एन	हवलदार	गोवित राजाराम डब्ल्यू	01.02.2012
2452	6386122पी	हवलदार	गुलाब सिंह	01.04.2012
2453	6381669एन	हवलदार	गुरदेव सिंह	01.05.2012
2454	14800546एक्स	हवलदार	गुरु स्वामी आर	01.07.2012
2455	6385677के	हवलदार	हनुमान सिंह	01.03.2012
2456	15352005वाइ	हवलदार	हरी करन सिंह यादव	01.03.2012
2457	15354244एम	हवलदार	हरी कृष्णा बाबू के	01.07.2012
2458	14800456डब्ल्यू	हवलदार	हरी लाल सिंह	01.06.2012
2459	6385862एक्स	हवलदार	हरी शंकर	01.03.2012
2460	6381678पी	हवलदार	एच समभाजी दनयानु	01.05.2012
2461	6381454पी	हवलदार	जे अलिस्तर पौल	01.02.2012
2462	14800994के	हवलदार	जाड़ेजा मनु एस सिंह	01.08.2012
2463	6385517के	हवलदार	जाधव दिलीप किसान राव	01.02.2012
2464	6381690डब्ल्यू	हवलदार	जगबीर सिंह भंडारी	01.06.2012
2465	15304674ए	हवलदार	जगदीश प्रसाद यादव	01.02.2012
2466	6381632एम	हवलदार	जय किसुन राम	01.04.2012
2467	6381671एल	हवलदार	जय पाल	01.05.2012
2468	6385976एच	हवलदार	जय प्रकाश	01.06.2012
2469	6382125एल	हवलदार	जय प्रकाश नारायण	01.08.2012
2470	13899473ए	हवलदार	जय प्रकाश शर्मा	01.08.2012
2471	13899322एफ	हवलदार	जैनैंद्र कुमार	01.06.2012
2472	6383437एन	हवलदार	जंग बहादुर साह	01.04.2012
2473	15353058के	हवलदार	जीत सिंह	01.04.2012
2474	6385432एन	हवलदार	जीतेन दास	01.02.2012
2475	6381727एम	हवलदार	के मुनि स्वामी	01.06.2012
2476	6382491पी	हवलदार	के वी राव	01.07.2012
2477	6381981डब्ल्यू	हवलदार	कदम विलास काशीराम	01.07.2012
2478	6381920वाइ	हवलदार	कैलाश प्रसाद	01.07.2012
2479	6381537ए	हवलदार	कैलाश राम	01.04.2012
2480	13896915एच	हवलदार	काकडे नारायण पुंडलिक	01.03.2012
2481	13899161के	हवलदार	कामता प्रसाद सिंह	01.04.2012
2482	6381445एन	हवलदार	के राना तुलसी राव	01.02.2012
2483	6385732पी	हवलदार	कापडिया रमेश बच्चू भाई	01.03.2012
2484	14800041एफ	हवलदार	करुप्पान्न आर	01.04.2012
2485	6382516डब्ल्यू	हवलदार	कंदार नाथ पंडा	01.06.2012
2486	6381513डब्ल्यू	हवलदार	किशन पाल	01.03.2012

2487	6381612वाइ	हवलदार	किशाना राम धानक	01.04.2012
2488	6381512एन	हवलदार	किशोरी लाल	01.03.2012
2489	6383382पी	हवलदार	कृष्णा कुमार	01.04.2012
2490	13898835के	हवलदार	कुमारेसन एन	01.03.2012
2491	6381437पी	हवलदार	एल टी रेडी	01.02.2012
2492	6385871वाइ	हवलदार	लाला राम	01.03.2012
2493	13896906एफ	हवलदार	एम चंद्रैया	01.03.2012
2494	6381572एच	हवलदार	एम थंगाराजन	01.04.2012
2495	13895977डब्ल्यू	हवलदार	महावीर कुमार झाला	01.05.2012
2496	6381751एच	हवलदार	महेंद्र कुमार	01.06.2012
2497	6382077डब्ल्यू	हवलदार	महेंद्र सिंह यादव	01.08.2012
2498	6385748ए	हवलदार	माली पी दिनेश्वर	01.03.2012
2499	6382121पी	हवलदार	माली श्रिशाईल शिवाना	01.08.2012
2500	13899345एच	हवलदार	माम चन्द्र	01.06.2012
2501	6381979वाइ	हवलदार	मान सिंह	01.07.2012
2502	13898791एक्स	हवलदार	मंडाले शिवाजी ज्योतिराम	01.03.2012
2503	6384214एच	हवलदार	मंगतू राम	01.04.2012
2504	14800640एफ	हवलदार	मानिक चंद्रा घोष	01.08.2012
2505	6381435के	हवलदार	एम बी पाटिल	01.02.2012
2506	14800642एम	हवलदार	मोहम्मद गोलम के हुसैन	01.08.2012
2507	6381918एफ	हवलदार	मोहम्मद नाजरि एच	01.07.2012
2508	15352387एन	हवलदार	मोहम्मद शेर अनसारे	01.04.2012
2509	14800088एम	हवलदार	एम राउत	01.04.2012
2510	6381968एम	हवलदार	मिश्रा एस दयाल हर प्रसाद	01.07.2012
2511	14800987एन	हवलदार	मुकेश कुमार	01.08.2012
2512	15352543एम	हवलदार	मूलदन	01.04.2012
2513	14800100एच	हवलदार	मुन्ना लाल	01.04.2012
2514	1800550ए	हवलदार	मुथु कुमारन पी	01.07.2012
2515	6381723डब्ल्यू	हवलदार	एन जया राम	01.06.2012
2516	13898995के	हवलदार	नगेन्द्र कुमार	01.02.2012
2517	6382113डब्ल्यू	हवलदार	नंदा बल्लभ पालीवाल	01.08.2012
2518	6386138ए	हवलदार	नरेंद्र सिंह	01.04.2012
2519	6381989एच	हवलदार	ओम प्रकाश	01.07.2012
2520	13896791वाइ	हवलदार	ओमपाल	01.02.2012
2521	6381809पी	हवलदार	पी अरुमुगम	01.07.2012
2522	6381565एम	हवलदार	पी कार्तीकेयन	01.04.2012
2523	13895979एफ	हवलदार	पदाखोंदलु बी	01.06.2012
2524	14800524वाइ	हवलदार	परमानन्द सामल	01.07.2012
2525	6385514डब्ल्यू	हवलदार	पाटिल भरत गोरी शंकर	01.02.2012
2526	14800793एल	हवलदार	पवन कुमार शर्मा	01.08.2012
2527	6385740एन	हवलदार	पवार डी. दयान्देओ	01.03.2012

2528	13898972एच	हवलदार	पी श्रीनिवास	01.03.2012
2529	6382050वाइ	हवलदार	प्रदीपन पी	01.08.2012
2530	13899387पी	हवलदार	प्रदीप चंद्रा पाती	01.07.2012
2531	6385358एक्स	हवलदार	प्रकाश एन	01.02.2012
2532	6386081डब्ल्यू	हवलदार	प्रमोद सिंह	01.04.2012
2533	6386206एच	हवलदार	प्रसांत कुमार बी	01.04.2012
2534	6381613एफ	हवलदार	प्रताप चन्द	01.04.2012
2535	6386388एफ	हवलदार	प्रोबीर कुमार घोष	01.07.2012
2536	6386219ए	हवलदार	प्रोदीप कौनवर	01.04.2012
2537	6382051एफ	हवलदार	पुष्पा राज पी	01.08.2012
2538	14800386एच	हवलदार	प्यार सिंह राजावत	01.06.2012
2539	6386134के	हवलदार	आर नागभू	01.04.2012
2540	6381901एन	हवलदार	रछपाल सिंह	01.07.2012
2541	6381921एफ	हवलदार	राधे श्याम साह	01.07.2012
2542	14800720वाइ	हवलदार	राधे श्याम सिंह	01.08.2012
2543	6381746एक्स	हवलदार	रघुनाथ प्रधान	01.06.2012
2544	13899518पी	हवलदार	राजाराम प्रसाद	01.08.2012
2545	13896987एम	हवलदार	राजधर पटेल	01.04.2012
2546	6381643वाइ	हवलदार	आर मियां	01.05.2012
2547	6381662के	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.05.2012
2548	6381886के	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.07.2012
2549	13898840पी	हवलदार	राजेश कुमार पांडे	01.03.2012
2550	14800274एच	हवलदार	राजपाल	01.04.2012
2551	14800607के	हवलदार	राजवीर सिंह	01.07.2012
2552	13899077के	हवलदार	राजवीर सिंह	01.04.2012
2553	13898808ए	हवलदार	राम आधार वर्मा	01.03.2012
2554	6381640एल	हवलदार	राम दास	01.05.2012
2555	6381703एच	हवलदार	राम किशन	01.06.2012
2556	6381631के	हवलदार	राम एस प्रसाद	01.04.2012
2557	6381825एम	हवलदार	राम सिंह	01.07.2012
2558	14800397पी	हवलदार	राम सिंह	01.06.2012
2559	6381747ए	हवलदार	राम स्वरूप भार्गव	01.06.2012
2560	13899343एक्स	हवलदार	रमा धर शर्मा	01.06.2012
2561	6381700पी	हवलदार	रमेश चंद्रा	01.06.2012
2562	6482147वाइ	हवलदार	रमेश कुमार नैन	01.07.2012
2563	6385564एफ	हवलदार	रंजन कुमार पंडा	01.02.2012
2564	6381528वाइ	हवलदार	रनवीर सिंह	01.04.2012
2565	14800559पी	हवलदार	रतन लाल जाट	01.07.2012
2566	13898767एफ	हवलदार	रवीन्द्र सिंह आज़ाद	01.03.2012
2567	13899365डब्ल्यू	हवलदार	जेनजीश सी	01.06.2012
2568	14800311एल	हवलदार	एस नीला बाबू सिंघा	01.05.2012



2569	6386296पी	हवलदार	एस सम्पथ	01.05.2012
2570	14800552वाइ	हवलदार	एस सरवानन	01.07.2012
2571	6483046एक्स	हवलदार	एस टी सेलवन	01.05.2012
2572	6386077एन	हवलदार	एस रेडी प्रसाद	01.04.2012
2573	6385556एच	हवलदार	साहेब सिंह एस लाल यादव	01.02.2012
2574	13898759एच	हवलदार	साहेब राव पवार	01.02.2012
2575	13898011एफ	हवलदार	शंख मुख्तार भाई हबीब भाई	01.03.2012
2576	13899190वाइ	हवलदार	संजीत बराय	01.05.2012
2577	15354196एक्स	हवलदार	सारथा चंद्रा मिश्रा	01.06.2012
2578	14800222एम्	हवलदार	सरोज कुमार	01.04.2012
2579	14800510वाइ	हवलदार	सत्य नारायण	01.07.2012
2580	14800143एक्स	हवलदार	सत्यवान राम	01.05.2012
2581	14800547ए	हवलदार	सेनथूर पांडियन टी	01.07.2012
2582	6386076एल	हवलदार	शोक खाजा मोहिद्वीन	01.04.2012
2583	14800103डब्ल्यू	हवलदार	शम्भू कुमार चाउरासिआ	01.05.2012
2584	15352744एल	हवलदार	शमशेर सिंह	01.04.2012
2585	6385455पी	हवलदार	शीजुल कल्याण पी	01.02.2012
2586	6381533के	हवलदार	शेर सिंह	01.04.2012
2587	6381805वाइ	हवलदार	शिव बहादुर सिंह	01.06.2012
2588	13899301एल	हवलदार	शिवा कुमार एस	01.06.2012
2589	6386001एन	हवलदार	श्री जोसफ सिबस्टियन पीटर फ्रांसेस	01.03.2012
2590	6381750ए	हवलदार	श्री नाथ	01.06.2012
2591	6382075एल	हवलदार	श्याम बाबू	01.08.2012
2592	6381457एच	हवलदार	श्याम सुंदर यादव	01.02.2012
2593	6381666ए	हवलदार	श्यामबीर सिंह	01.05.2012
2594	13896908एम	हवलदार	सीबा प्रसाद प्रधान	01.03.2012
2595	13898814एन	हवलदार	सौरभ अली	01.03.2012
2596	6482096डब्ल्यू	हवलदार	सुबेदार	01.05.2012
2597	6482124एक्स	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.06.2012
2598	13899194पी	हवलदार	सुखविंदर मसीह	01.05.2012
2599	13899292पी	हवलदार	सुन्दरा राजन एम	01.06.2012
2600	14800166वाइ	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार शर्मा	01.05.2012
2601	6385435एफ	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.02.2012
2602	14800252के	हवलदार	सुरेश कुमार	01.04.2012
2603	6381778ए	हवलदार	सुरेश कुमार	01.06.2012
2604	14800639एम	हवलदार	सुरेश कुमार भारती	01.08.2012
2605	6385649एक्स	हवलदार	स्वप्न कुमार घोष	01.03.2012
2606	13896885डब्ल्यू	हवलदार	तारा चन्द वर्मा	01.03.2012
2607	13898957एन	हवलदार	तरुण बेज बरुयह	01.03.2012
2608	14800046ए	हवलदार	थामस ए पी	01.04.2012
2609	13899120ए	हवलदार	तिलक राज	01.03.2012

2610	6382114वाइ	हवलदार	उमेश चंद्रा पंत	01.08.2012
2611	13899191एफ	हवलदार	उत्तातम सिल	01.05.2012
2612	6386220पी	हवलदार	वी कासी	01.04.2012
2613	6381692एफ	हवलदार	वी सिंह	01.06.2012
2614	13896910के	हवलदार	विद्या सागर	01.03.2012
2615	15351346एक्स	हवलदार	विजय कुमार मांडे	01.02.2012
2616	13899118एच	हवलदार	विजय कुमार मिश्रा	01.03.2012
2617	14800603एन	हवलदार	विजय पाल	01.07.2012
2618	14800369एच	हवलदार	विजया पाल	01.06.2012
2619	6381552पी	हवलदार	विनोद कुमार	01.04.2012
2620	6381698एच	हवलदार	वीर पाल	01.06.2012
2621	6385935वाइ	हवलदार	विस्वनाथन एन बी	01.04.2012
2622	6385465वाइ	हवलदार	डब्ल्यू एल	01.02.2012
2623	6382109एन	हवलदार	यशपाल सिंह	01.08.2012

सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

2624	6482186एक्स	दफादार	अरविन्द गुरिया	01.08.2012
2625	6482167एम	हवलदार	अवधेश कुमार शर्मा	01.08.2012
2626	6381466के	हवलदार	अयोध्या प्रसाद	01.02.2012
2627	6482104के	हवलदार	बाबू ई	01.05.2012
2628	6482026एक्स	दफादार	बहादुर चन्द	01.02.2012
2629	6381473ए	हवलदार	बालाकृष्णन पीए	01.02.2012
2630	6482154पी	हवलदार	बसावा प्रसाद लिंगम	01.08.2012
2631	6384441एच	हवलदार	भीम सिंह	01.08.2012
2632	6482168पी	हवलदार	भुबनेश्वर यादव	01.08.2012
2633	6482114एन	दफादार	भुपेन्द्र प्रसाद वाइ	01.06.2012
2634	6386212डब्ल्यू	हवलदार	बृज भान पटेल	01.04.2012
2635	6381776पी	हवलदार	बृज मोहन सिंह	01.06.2012
2636	6482062एच	दफादार	दिलीप कुमार सिंह	01.03.2012
2637	6381531वाइ	हवलदार	दीना गोहीना	01.04.2012
2638	6482143एच	दफादार	द्वारिका प्रसाद	01.07.2012
2639	6483129एच	हवलदार	गोपाल चकबर्ती	01.08.2012
2640	6482181वाइ	हवलदार	इन्द्रा भूसेन यादव	01.08.2012
2641	6482567वाइ	हवलदार	जाधव रमेश आनंद	01.06.2012
2642	6482094एल	दफादार	जगदीश लाल मीना	01.05.2012
2643	6382138एच	हवलदार	जय राम एम	01.08.2012
2644	6382107एच	हवलदार	जमन सिंह	01.08.2012
2645	6385396एन	दफादार	जितेन्द्रा कुमार एसआईएन	01.02.2012
2646	6482930के	हवलदार	के सिंह	01.02.2012
2647	6482117एफ	दफादार	लाल बहादुर	01.06.2012
2648	6482187ए	दफादार	मोरे हिंदू राव बंदू	01.08.2012

2649	6381725एफ	हवलदार	श्री मेघवाल	01.05.2012
2650	6482099के	हवलदार	ओम प्रकाश	01.05.2012
2651	6483057के	हवलदार	परमेश्वर राव	01.05.2012
2652	6381655एन	दफादार	पी राम	01.05.2012
2653	6482044ए	दफादार	पूरन लाल बी	01.03.2012
2654	6482984एल	हवलदार	आर करीम	01.03.2012
2655	6382748पी	हवलदार	राजू बी	01.08.1912
2656	6482160एच	हवलदार	राम बाबू सिंह	01.08.2012
2657	6482158एल	हवलदार	रंजीत सिंह	01.08.2012
2658	6482992के	हवलदार	रेजी के पी	01.03.2012
2659	6386050डब्ल्यू	दफादार	रूप सिंह	01.04.2012
2660	6482041एम	हवलदार	शिव कुमार	01.03.2012
2661	6381627एफ	हवलदार	सोबन सिंह	01.05.2012
2662	6482975के	हवलदार	एस गोड़ बी एन	01.03.2012
2663	6482225एल	हवलदार	सुभाष चंद्रा सिकंदर	01.08.2012
2664	6482129डब्ल्यू	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.06.2012
2665	6482141एक्स	हवलदार	सुरेन्द्रा प्रसाद	01.07.2012
2666	6482112एच	दफादार	एसवाइ कोन्डालू रेडी	01.06.2012
2667	6482177डब्ल्यू	हवलदार	तोता राम	01.07.2012
2668	6385400एल	हवलदार	उत्तातम कुमार तमंग	01.02.2012
2669	6482150वाइ	हवलदार	जिले सिंह यादव	01.08.2012

सेना चिकित्सा कोर

2670	13967077एल	हवलदार	ए मणिकंदन	01.03.2012
2671	13967161एल	हवलदार	अक्षय कुमार बराल	01.03.2012
2672	13966409एक्स	हवलदार	अमर सिंह	01.02.2012
2673	13967106पी	हवलदार	अमीर सिंह	01.03.2012
2674	13966352एन	हवलदार	अनिल कुमार	01.02.2012
2675	13976318एफ	हवलदार	अनिल कुमार	01.04.2012
2676	13968056एफ	हवलदार	अनिल कुमार गोगोई	01.06.2012
2677	13966669एच	हवलदार	अनिल कुमार पांडे	01.02.2012
2678	13966604पी	हवलदार	अनिल कुमार पांडे	01.02.2012
2679	13966472एम	हवलदार	अनिल कुमार सिंह	01.02.2012
2680	13966450एन	हवलदार	अशोक कुमार	01.02.2012
2681	13966451डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार निराला	01.02.2012
2682	13966413ए	हवलदार	अतर सिंह	01.02.2012
2683	13966613डब्ल्यू	हवलदार	अवधेश कुमार सिंह	01.02.2012
2684	13966973एम	हवलदार	आज़ाद सिंह	01.03.2012
2685	13968996एम	हवलदार	बाबू राम	01.08.2012
2686	13966833ए	हवलदार	बालम सिंह	01.03.2012
2687	13967127एल	हवलदार	बलबीर सिंह	01.03.2012

2688	13966803एच	हवलदार	बलवीर सिंह	01.03.2012
2689	13966689डब्ल्यू	हवलदार	बलवंत सिंह जाट	01.02.2012
2690	13967049वाइ	हवलदार	बंदेप्पा	01.03.2012
2691	13966930एक्स	हवलदार	बंत सिंह गर्ग	01.03.2012
2692	13966451पी	हवलदार	बी नारायण साह	01.07.2012
2693	13966484एन	हवलदार	बी सिंह	01.02.2012
2694	13966498एफ	हवलदार	बिजय कुमार झा	01.02.2012
2695	13966337वाइ	हवलदार	बिजया कुमार पध्य	01.02.2012
2696	13966907के	हवलदार	बिमल चंद्रा गोगोई	01.03.2012
2697	13967050एन	हवलदार	बीन्नदा भूयान	01.03.2012
2698	13966589एल	हवलदार	ब्रम देव सिंह	01.02.2012
2699	13967154पी	हवलदार	सी डी. प्रसाद यादव	01.02.2012
2700	13966376एक्स	हवलदार	सो नाग राजन	01.02.2012
2701	13966713एफ	हवलदार	चाचे केशव हिराजी	01.02.2012
2702	13966621पी	हवलदार	सी सिंह	01.02.2012
2703	13966678के	हवलदार	चंद्रन पिल्लई टी	01.02.2012
2704	13966583के	हवलदार	चार्लस आर	01.02.2012
2705	13966526एच	हवलदार	छीतर लाल गूजर	01.02.2012
2706	13966974पी	हवलदार	चोदामानी सिंह	01.03.2012
2707	13966625एल	हवलदार	डी. सी पांडे	01.02.2012
2708	13966702पी	हवलदार	डी. जे नारायण	01.02.2012
2709	13966516वाइ	हवलदार	डी. राजन	01.02.2012
2710	13966434डब्ल्यू	हवलदार	डी. राम दास	01.02.2012
2711	13966748एक्स	हवलदार	डी. एस शिवराम	01.02.2012
2712	13966694एफ	हवलदार	दारा सिंह	01.02.2012
2713	13966780एम	हवलदार	दयाल समद	01.02.2012
2714	13966654ए	हवलदार	दयानन्द खन्डागाले	01.02.2012
2715	13967062एच	हवलदार	धनेश्वर दास	01.03.2012
2716	13966298एल	हवलदार	धांजी देसे	01.02.2012
2717	13966716पी	हवलदार	धर्मवीर सिंह	01.02.2012
2718	13967034डब्ल्यू	हवलदार	दिलबर सिंह	01.03.2012
2719	13967141एक्स	हवलदार	दिलीप कुमार के पी	01.03.2012
2720	13966981एल	हवलदार	दिलीप कुमार नामदेव	01.03.2012
2721	13967071के	हवलदार	दीना बंधु नायक	01.03.2012
2722	13967021वाइ	हवलदार	दिनेश चंद्रा दास	01.03.2012
2723	13966615एफ	हवलदार	गजेन्द्र सिंह	01.02.2012
2724	13967083वाइ	हवलदार	गजेन्द्र सिंह	01.03.2012
2725	13966661डब्ल्यू	हवलदार	गंगा प्रसाद यादवा	01.02.2012
2726	13967055एम	हवलदार	गोकुल बोराह	01.03.2012
2727	13966710एन	हवलदार	गोरे सुरेश केशो	01.02.2012
2728	13966354वाइ	हवलदार	एच सी सांवल	01.02.2012

2729	13967064एन	हवलदार	हकीम सिंह	01.03.2012
2730	13966534एफ	हवलदार	हरगुन सिंह	01.02.2012
2731	13966896एच	हवलदार	हरी भान सिंह	01.03.2012
2732	13966827एम	हवलदार	हरी कुमार के	01.03.2012
2733	13966898एन	हवलदार	हरी शंकर	01.03.2012
2734	13967115डब्ल्यू	हवलदार	एच सिंह	01.03.2012
2735	13966484एफ	हवलदार	हरविन्द सिंह	01.02.2012
2736	13966362एक्स	हवलदार	हेमंत कुमार गौतम	01.02.2012
2737	13966348एल	हवलदार	हीरालाल चौधरी	01.02.2012
2738	13966808एफ	हवलदार	हीरालाल पांडे	01.03.2012
2739	13967045एच	हवलदार	जे जया कुमार	01.03.2012
2740	13966700के	हवलदार	जे आर जे	01.02.2012
2741	13967074एक्स	हवलदार	जे राजेन्द्रियन	01.03.2012
2742	13966794एम	हवलदार	जाधव भगवान बापू	01.02.2012
2743	13966795पी	हवलदार	जाधव एम जे	01.02.2012
2744	13966494एल	हवलदार	जनार्दन सिंह	01.02.2012
2745	13967131एन	हवलदार	जवारहिया	01.03.2012
2746	13966492ए	हवलदार	जितेन्द्र सिंह रावत	22.01.2012
2747	13966783ए	हवलदार	जीवन लकश	01.02.2012
2748	13966592एल	हवलदार	जोगा मसीह	01.02.2012
2749	13966461ए	हवलदार	जुगल किशोर नामदेव	01.02.2012
2750	13966395एच	हवलदार	के ए राम भाउ	01.02.2012
2751	13966566के	हवलदार	के लाल विश्वाकर्मा	01.02.2012
2752	13966671ए	हवलदार	के आर दिगम्बर	01.02.2012
2753	13967016एन	हवलदार	के रवि कुमार	01.03.2012
2754	13966887एफ	हवलदार	के एस यादव	01.03.2012
2755	13966892एम	हवलदार	कमलेश चाउबे	01.03.2012
2756	13966608एल	हवलदार	के प्रसाद सिंह	01.02.2012
2757	13966806डब्ल्यू	हवलदार	केदार नाथ	01.03.2012
2758	13967102वाइ	हवलदार	केशव सिंह	01.03.2012
2759	13968771के	हवलदार	कष्णन कुमार	01.08.2012
2760	13966836एन	हवलदार	कष्णन कुमार तिवारी	01.03.2012
2761	13966591एच	हवलदार	कृष्णा सिंह	01.02.2012
2762	13966787डब्ल्यू	हवलदार	कुवर पाल सिंह	01.02.2012
2763	13966889एम	हवलदार	लालजी सिंह यादव	01.03.2012
2764	13967063एल	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.03.2012
2765	13966959ए	हवलदार	लक्ष्मी चन्द	01.03.2012
2766	13967058ए	हवलदार	एम डी. बी अली	01.03.2012
2767	13966519एम	हवलदार	एम पांडियन	01.02.2012
2768	13968688एम	हवलदार	एम वेकटेशन	01.07.2012
2769	13966670एक्स	हवलदार	मदन सिंह	01.02.2012

2770	13966623ए	हवलदार	मदन सिंह	01.02.2012
2771	13966630डब्ल्यू	हवलदार	महेश चंद्रा सेन	01.02.2012
2772	13966667एक्स	हवलदार	माही पाल सिंह	01.02.2012
2773	13967061ए	हवलदार	मीरी राम बसुमा	01.03.2012
2774	13966766ए	हवलदार	मोची राम गोड़ा	01.02.2012
2775	13968011एफ	हवलदार	मोहम्मद अमीन	01.06.2012
2776	13966360एम	हवलदार	मोहम्मद नूर हुसैन अली	01.02.2012
2777	13967108ए	हवलदार	मुख लाल राम	01.03.2012
2778	13967138एक्स	हवलदार	एम धरन पी एम	01.03.2012
2779	13966926पी	हवलदार	नन्द किशोर महतो	01.03.2012
2780	13968957एन	हवलदार	नारायण राम	01.08.2012
2781	13975833एफ	हवलदार	नरेंद्र कुमार	01.03.2012
2782	13966976ए	हवलदार	नरेन्द्रा कुमार साहू	01.03.2012
2783	13967556एम	हवलदार	नरेन्द्रा सिंह	01.04.2012
2784	13966929एच	हवलदार	नरेन्द्रा सिंह तोमर	01.03.2012
2785	13966501डब्ल्यू	हवलदार	नरेश कुमार	01.02.2012
2786	13966977एच	हवलदार	नरेश प्रसाद मिश्रा	01.03.2012
2787	13966626एन	हवलदार	नवल किशोर बिष्ट	01.02.2012
2788	13966786एन	हवलदार	नवल किशोर शर्मा	01.02.2012
2789	13966852एल	हवलदार	निखिल चंद्रा रौय	01.03.2012
2790	13966744एफ	हवलदार	ओम प्रकाश	01.02.2012
2791	13966619एक्स	हवलदार	ओमबीर सिंह	01.02.2012
2792	13966708डब्ल्यू	हवलदार	पी बी गणपति	01.02.2012
2793	13966407एम	हवलदार	पी सी राजू	01.02.2012
2794	13966539ए	हवलदार	पी गणेशन	01.02.2012
2795	13966628वाइ	हवलदार	पी एस अधिकारी	01.02.2012
2796	13966699ए	हवलदार	पी एस बाबू राव	01.02.2012
2797	13968593एम	हवलदार	पी यू धोंडिबा	01.07.2012
2798	13966805एन	हवलदार	प्रभु नाथ मिश्रा	01.03.2012
2799	13966423के	हवलदार	पार्थ सारथी रौय	01.02.2012
2800	13966384डब्ल्यू	हवलदार	पटेल ए के हीरालाल	01.02.2012
2801	13968850वाइ	हवलदार	पाटिल डी. सीताराम	01.08.2012
2802	13967005एफ	हवलदार	पाटिल नाना बापू	01.03.2012
2803	13966305डब्ल्यू	हवलदार	पवार मारुति देवप्पा	01.02.2012
2804	13966772एन	हवलदार	फूल सिंह जाटव	01.02.2012
2805	13966599पी	हवलदार	प्रभाकरा एच	01.02.2012
2806	13976046एम	हवलदार	प्रभु दयाल	01.03.2012
2807	13966588एच	हवलदार	प्रभु नाथ ठाकुर	01.02.2012
2808	13967088एक्स	हवलदार	प्रदीप मोहंता	01.03.2012
2809	13967122एम	हवलदार	पी सिंह	01.03.2012
2810	13966838वाइ	हवलदार	प्रेमा राजन के	01.03.2012

2811	13966858एम	हवलदार	प्रीतम सिंह	01.03.2012
2812	13966870एन	हवलदार	प्रीतम सिंह	01.03.2012
2813	13967089ए	हवलदार	प्यारे लाल चौहान	01.03.2012
2814	13966651एम	हवलदार	आर ए के आर	01.02.2012
2815	13966510एक्स	हवलदार	आर ए सोलंकी	01.02.2012
2816	13966696एम	हवलदार	आर एन पटनायक	01.02.2012
2817	13966448डब्ल्यू	हवलदार	आर एन प्रसाद यादव	01.02.2012
2818	13966894एक्स	हवलदार	आर एस पंधारीनाथ	01.03.2012
2819	13966704ए	हवलदार	आर डब्ल्यू एस एस शिव राव	01.02.2012
2820	13966474एक्स	हवलदार	रबीन्द्र कुमार	01.02.2012
2821	13969089वाइ	हवलदार	रबीन्द्र कुमार रौय	01.08.2012
2822	13966733पी	हवलदार	राज किशोर यादव	01.02.2012
2823	13967193एन	हवलदार	राज कुमार	01.03.2012
2824	13966408पी	हवलदार	राज कुमार	01.02.2012
2825	13966773डब्ल्यू	हवलदार	राज सिंह	01.02.2012
2826	13966637ए	हवलदार	राजा किशोर साहू	01.02.2012
2827	13966979एन	हवलदार	आर विश्वाकर्मा	01.03.2012
2828	13968420पी	हवलदार	राजेंद्रा कुमार	01.07.2012
2829	13966978एल	हवलदार	राजेंद्रा कुमार पटेल	01.03.2012
2830	13966807वाइ	हवलदार	राजेंद्रा नाथ तिवारी	01.03.2012
2831	13966921डब्ल्यू	हवलदार	राजू टी पी	01.03.2012
2832	13968133एल	हवलदार	राजयाधर मंडल	01.06.2012
2833	13966771एल	हवलदार	राकेश	01.02.2012
2834	13966416एन	हवलदार	राकेश कुमार	01.02.2012
2835	13966793के	हवलदार	राम बहादुर गुरंग	01.02.2012
2836	13966743वाइ	हवलदार	राम धारी सिंह	01.02.2012
2837	13975844एन	हवलदार	राम हेत	01.03.2012
2838	13966656एल	हवलदार	राम कुमार	01.02.2012
2839	13966814पी	हवलदार	राम लाल	01.03.2012
2840	13966934एन	हवलदार	राम रोशन	01.03.2012
2841	13966804एल	हवलदार	राम सागर	01.03.2012
2842	13966897एल	हवलदार	राम शंकर	01.03.2012
2843	13967023के	हवलदार	राम सिया पटेल	01.03.2012
2844	13966525ए	हवलदार	राम स्वरूप धाकर	01.02.2012
2845	13966440के	हवलदार	राम विजय सिंह	01.02.2012
2846	13967073पी	हवलदार	रामकृष्णा पी	01.03.2012
2847	13966663एफ	हवलदार	रमेश चंद्रा	01.02.2012
2848	13967024एम	हवलदार	रमेश कुमार द्विवेदी	01.03.2012
2849	13966826के	हवलदार	रमेश कुमार के	01.03.2012
2850	13966565एफ	हवलदार	रमेश प्रसाद पांडे	01.02.2012
2851	13966482डब्ल्यू	हवलदार	रामजी यादव	01.02.2012

2852	13966752ए	हवलदार	रनबीर सिंह	01.02.2012
2853	13966816ए	हवलदार	रनबीर सिंह स्वामी	01.03.2012
2854	13967027ए	हवलदार	रंजीत सिंह	01.03.2012
2855	139666813एम	हवलदार	रंजीत सिंह	01.03.2012
2856	13967142ए	हवलदार	रत्नाकरन के जी.	01.03.2012
2857	13975847एफ	हवलदार	रवि दत्ता	01.03.2012
2858	13967111ए	हवलदार	रवि शंकर शर्मा	01.03.2012
2859	13966927एक्स	हवलदार	रवीन्द्र कुमार सिंह	01.03.2012
2860	13967137पी	हवलदार	रविन्द्रन पी टी	01.03.2012
2861	13968350एफ	हवलदार	आर रामदास	01.06.2012
2862	13966900ए	हवलदार	एस बी सिंह कुशवाह	01.03.2012
2863	13967051डब्ल्यू	हवलदार	एस सी ककोटी	01.03.2012
2864	13966768एल	हवलदार	एस सी त्रिपाठी	01.02.2012
2865	13966309एम	हवलदार	एस जी. घोष	01.02.2012
2866	13966550वाइ	हवलदार	एस गणेशन	01.02.2012
2867	13966940एफ	हवलदार	एस गोपाल	01.03.2012
2868	13966373के	हवलदार	एस के मोहिद्वीन	01.02.2012
2869	13968080एक्स	हवलदार	एस एम हुसैन एम	01.06.2012
2870	13966711डब्ल्यू	हवलदार	एस एस शान्ताराम	01.02.2012
2871	13966938के	हवलदार	एस संगुदुरइ	01.03.2012
2872	13966902एल	हवलदार	सब्बु लाल	01.03.2012
2873	13966402एन	हवलदार	सागर सुनील नामदेव	01.02.2012
2874	13966745के	हवलदार	सहदेव मिस्त्री	01.02.2012
2875	13967158एल	हवलदार	साजी जोज़	01.03.2012
2876	13966377ए	हवलदार	संभात डी.	01.02.2012
2877	13966769एन	हवलदार	एस प्रधान	01.02.2012
2878	13966875एम	हवलदार	संगोत के	01.03.2012
2879	13966359एक्स	हवलदार	संतोष विश्वास	01.02.2012
2880	13966837डब्ल्यू	हवलदार	संतोष कुमार	01.03.2012
2881	13966996एन	हवलदार	सरदीप कुमार	01.03.2012
2882	13966560एच	हवलदार	सत्य निवास	01.02.2012
2883	13966415एल	हवलदार	सत्य प्रकाश	01.02.2012
2884	13966840डब्ल्यू	हवलदार	सत्यवीर सिंह	01.03.2012
2885	13966728के	हवलदार	शाहजी पी	01.02.2012
2886	13968588एफ	हवलदार	शेज्वाल गुलाब संधू	01.07.2012
2887	13966419एफ	हवलदार	शिव नारायन राम	01.02.2012
2888	13966740एल	हवलदार	शिव संकर दयाल	01.02.2012
2889	13966347एच	हवलदार	शिव सिंह	01.02.2012
2890	13966757वाइ	हवलदार	शिवनाथ सिंह	01.02.2012
2891	13966920एन	हवलदार	सोमन आर	01.03.2012
2892	13968347एफ	हवलदार	सुभाष चंद्रा रौय	01.06.2012

शुभ

2012



2893	13967136एम	हवलदार	सुदेवन वी	01.03.2012
2894	13966758एफ	हवलदार	सुधीर कुमार	01.02.2012
2895	13966679एम	हवलदार	सुगन लाल सोलंकी	01.02.2012
2896	13966791वाइ	हवलदार	सुनील कुमार	01.02.2012
2897	13966470एफ	हवलदार	सुनील कुमार भास्कर	01.02.2012
2898	13966471के	हवलदार	सुरेंद्र वर्मा	01.02.2012
2899	13966845पी	हवलदार	सुरेश कुमार एन आर	01.03.2012
2900	13967052वाइ	हवलदार	टी गोगोई	01.03.2012
2901	13975539एफ	हवलदार	त्रिभुवन उपाध्याय	01.02.2012
2902	13966868डब्ल्यू	हवलदार	उमा संकर राय	01.03.2012
2903	13966617एम	हवलदार	उमेश चन्द त्यागी	01.02.2012
2904	13966336डब्ल्यू	हवलदार	उत्पल चक्रबती	01.02.2012
2905	13966652पी	हवलदार	वी केशवन नायर	01.02.2012
2906	13966392पी	हवलदार	वी आर सिंह बी जी. भाई	01.02.2012
2907	13967130एल	हवलदार	वेंकटेश के	01.03.2012
2908	13966726वाइ	हवलदार	विनोद कुमार	01.02.2012
<b>सेना आयुध कोर</b>				
2909	6924747वाइ	हवलदार	ए सलीम	01.03.2012
2910	6925256पी	हवलदार	आबिद अली	01.04.2012
2911	6924623के	हवलदार	अमरजीत सिंह	01.02.2012
2912	6925247एन	हवलदार	अम्रेन्द्रा प्रताप	01.04.2012
2913	6924757एच	हवलदार	अमूल्य कुमार ब्रमा	01.03.2012
2914	6925197एन	हवलदार	आनंद सिंह	01.04.2012
2915	6924908डब्ल्यू	हवलदार	अनुज कुमार मरांडी	01.04.2012
2916	6925097एच	हवलदार	अनुसूया सिंह	01.04.2012
2917	6924871ए	हवलदार	अरुण कुमार मिश्रा	01.04.2012
2918	6925156के	हवलदार	अशोक कुमार	01.04.2012
2919	6925479एम	हवलदार	अशोक कुमार	01.06.2012
2920	6925662पी	हवलदार	अवधेश कुमार तिवारी	01.08.2012
2921	6924975एफ	हवलदार	बादशाह सिंह	01.04.2012
2922	6924911डब्ल्यू	हवलदार	बलवंत सिंह	01.04.2012
2923	6924587के	हवलदार	बी भरत एस माथुर भाई	01.02.2012
2924	6925358एल	हवलदार	बी मोहन रौय	01.06.2012
2925	6925143एम	हवलदार	बेद मनी मिश्रा	01.04.2012
2926	6924835पी	हवलदार	बिक्रम सिंह	01.04.2012
2927	6925702एल	हवलदार	बिमन बिहारी बेहुरा	01.08.2012
2928	6925289ए	हवलदार	बिरेन्द्रा प्रसाद	01.05.2012
2929	6924773ए	हवलदार	बिरेन्द्रा प्रसाद दयूरी	01.03.2012
2930	6925127पी	हवलदार	बिशम्भर नाथ	01.04.2012
2931	6925413डब्ल्यू	हवलदार	बृज बिहारी ओझा	01.06.2012

2932	6925412एन	हवलदार	बृज नंदन सिंह	01.06.2012
2933	6925181एच	हवलदार	सी जोर्ज डोमिनिक	01.04.2012
2934	6924568वाइ	हवलदार	चंद्र पाल सिंह	01.02.2012
2935	6925347वाइ	हवलदार	चंद्र प्रकाश	01.05.2012
2936	6924537वाइ	हवलदार	चक्राण गानिक गोपा	01.02.2012
2937	6925659पी	हवलदार	छात्रा पाल मिश्रा	01.08.2012
2938	6924529ए	हवलदार	दंडू नागराजू	01.02.2012
2939	6925544एफ	हवलदार	दीपक कुमार बोरा	01.07.2012
2940	62928408डब्ल्यू	हवलदार	दीपेन्द्र मिश्रा	27.02.2012
2941	6925540एल	हवलदार	दिनेश कुमार	01.07.2012
2942	6924732डब्ल्यू	हवलदार	द्विग विलव सिंह	01.03.2012
2943	6925666एल	हवलदार	गडेकर संतोष डब्ल्यू	01.08.2012
2944	6924562एक्स	हवलदार	गाईके गजानन ओंकार	01.02.2012
2945	6925198डब्ल्यू	हवलदार	गमेश सिंह	01.04.2012
2946	6924624एम	हवलदार	गोपाल सिंह	01.02.2012
2947	6925179एल	हवलदार	ज्ञानेश्वर पांडे	01.04.2012
2948	6925449एम	हवलदार	हरे कृष्ण प्रधान	01.06.2012
2949	6924842एल	हवलदार	हेम राज	01.04.2012
2950	6925227ए	हवलदार	इन्द्र नारायण सिंह	01.04.2012
2951	6924521एन	हवलदार	जगत राम पाठक	01.02.2012
2952	6925541एन	हवलदार	जगदीश पाल	01.07.2012
2953	6925221वाइ	हवलदार	जगदीपन यादव	01.04.2012
2954	6925243एक्स	हवलदार	जयवीर सिंह	01.04.2012
2955	6925422एक्स	हवलदार	जालम सिंह	01.06.2012
2956	6925535ए	हवलदार	कामेश्वर पांडे	01.07.2012
2957	6924926वाइ	हवलदार	कटूरी वी	01.04.2012
2958	6924644ए	हवलदार	केदार नाथ दुबे	01.02.2012
2959	6925093एम	हवलदार	खुशाल सिंह	01.04.2012
2960	6927805एच	हवलदार	किशन पाल	01.07.2012
2961	6924575पी	हवलदार	किशोर प्रसाद	01.02.2012
2962	6925167डब्ल्यू	हवलदार	कृष्ण कुमार	01.04.2012
2963	6925078एक्स	हवलदार	लक्ष्मण प्रसाद	01.04.2012
2964	6925726पी	हवलदार	लक्ष्मण कुमार बेहेरा	01.08.2012
2965	6925250एन	हवलदार	लीला राम	01.04.2012
2966	6925741के	हवलदार	एल नाथ दास	01.08.2012
2967	6924605एफ	हवलदार	महा नारायण	01.02.2012
2968	6924491एफ	हवलदार	महाराज सिंह	01.02.2012
2969	6925268के	हवलदार	महावीर प्रसाद यादव	01.04.2012
2970	6925094पी	हवलदार	महेन्द्र कुमार	01.04.2012
2971	6925232एल	हवलदार	महेन्द्र सिंह	01.04.2012
2972	6925592एफ	हवलदार	महेन्द्र सिंह	01.07.2012

2973	6925478के	हवलदार	महेन्द्र प्रसाद साह	01.06.2012
2974	6924964पी	हवलदार	महेश चंद्रा	01.04.2012
2975	6924812एन	हवलदार	मल्खान सिंह	01.03.2012
2976	6924649वाइ	हवलदार	मान सिंह	01.02.2012
2977	6925144पी	हवलदार	मान सिंह राठोर	01.04.2012
2978	6924525के	हवलदार	मनोज कुमार शर्मा	01.02.2012
2979	6924641एम	हवलदार	मीर एच अली	01.02.2012
2980	6924502एच	हवलदार	मोहन राज वी	01.02.2012
2981	6925259एच	हवलदार	एम पाल सिंह	01.04.2012
2982	6925668डब्ल्यू	हवलदार	नालावाडे सुदाम दयन देव	01.08.2012
2983	6924905एच	हवलदार	नंदन राम	01.04.2012
2984	6925556डब्ल्यू	हवलदार	नरेन्द्रा कुमार शर्मा	01.07.2012
2985	6924487वाइ	हवलदार	नयाकू जी. डब्ल्यू	01.02.2012
2986	6924906एल	हवलदार	निमाई घोष	01.04.2012
2987	6924593एक्स	हवलदार	निखिल चंद्रा चक्रवर्ती	01.02.2012
2988	6924594ए	हवलदार	निखिल चंद्रा मंडल	01.02.2012
2989	6924715डब्ल्यू	हवलदार	ओंकार सिंह	01.03.2012
2990	6924758एल	हवलदार	फाटिक चंद्रा बर्मन	01.03.2012
2991	6925001पी	हवलदार	पी बी सिंह	01.04.2012
2992	6924786एक्स	हवलदार	प्रशांत कुमार दाश	01.03.2012
2993	6925399पी	हवलदार	प्रेम लाल सिंह	01.06.2012
2994	6925154वाइ	हवलदार	प्रेम सागर सिंह यादवा	01.04.2012
2995	6925463एफ	हवलदार	रबीन्द्र नाथ विश्वास	01.06.2012
2996	6925414वाइ	हवलदार	रबीन्द्र प्रसाद शर्मा	01.06.2012
2997	6925710के	हवलदार	राज किशोर तिवारी	01.08.2012
2998	6925356ए	हवलदार	रजनी कांत मिश्रा	01.06.2012
2999	6924661ए	हवलदार	राम अभिलाश	01.02.2012
3000	6924651डब्ल्यू	हवलदार	राम कृष्णन शर्मा	01.02.2012
3001	6924604वाइ	हवलदार	राम लाल सरोज	01.02.2012
3002	6925140वाइ	हवलदार	राम नरेश	01.04.2012
3003	6925161पी	हवलदार	राम नरेश	01.04.2012
3004	6924845वाइ	हवलदार	राम शंकर सिंह यादव	01.04.2012
3005	6925096ए	हवलदार	राम सिंह	01.04.2012
3006	6924693एच	हवलदार	रमा कृष्णन ई	01.03.2012
3007	6925214एच	हवलदार	रमा शंकर तिवारी	01.04.2012
3008	6924861डब्ल्यू	हवलदार	रमेश चंद्रा	01.04.2012
3009	6925552ए	हवलदार	रतन हेमरोम	01.07.2012
3010	6924492के	हवलदार	रविन्द्र सिंह	01.02.2012
3011	6924858डब्ल्यू	हवलदार	रेयूयी भास्कर राव	01.04.2012
3012	6925526वाइ	हवलदार	आर साहू	01.07.2012
3013	6925695ए	हवलदार	एस अब्बास एम	01.08.2012

3014	6924867एक्स	हवलदार	एस महारुब बाशा	01.04.2012
3015	6924876वाइ	हवलदार	एस मुरुगेसन	01.04.2012
3016	6925215एल	हवलदार	सभा जीत	01.04.2012
3017	6925380डब्ल्यू	हवलदार	एस आर फकीरा	01.06.2012
3018	6925118एन	हवलदार	एस सिंह	01.04.2012
3019	6924957वाइ	हवलदार	सर्वेश कुमार कटियार	01.04.2012
3020	6925152एन	हवलदार	सतबीर सिंह	01.04.2012
3021	6925698एन	हवलदार	सतनाम सिंह	01.08.2012
3022	6925073वाइ	हवलदार	सतारु भीमा राव	01.04.2012
3023	6925229एल	हवलदार	एस भूषण शुक्ला	01.04.2012
3024	6924834एम	हवलदार	शिव कुमार प्रसाद	01.04.2012
3025	6924974वाइ	हवलदार	शिव नरेश सिंह	01.04.2012
3026	6925172एफ	हवलदार	शिव शंकर कुशवाह	01.04.2012
3027	6924942डब्ल्यू	हवलदार	सिवा सेलवन डी.	01.04.2012
3028	6925711एम	हवलदार	एस सिंह	01.08.2012
3029	6924723पी	हवलदार	सुदर्शनन केके	01.03.2012
3030	6924481एक्स	हवलदार	सुनील एम	01.02.2012
3031	6925663एक्स	हवलदार	सुरेंद्र तोप्पो	01.08.2012
3032	6925160एम	हवलदार	सुरेश बहादुर सिंह	01.04.2012
3033	6925119डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश चंद्रा	01.04.2012
3034	6924589पी	हवलदार	स्वप्न दास	01.02.2012
3035	6925255डब्ल्यू	हवलदार	टी टी पांडे	01.04.2012
3036	6925151एल	हवलदार	वाना वसुदेवा राव	01.04.2012
3037	6924848एम	हवलदार	विद्याधर सिंह खेदर	01.04.2012
3038	6925430डब्ल्यू	हवलदार	विजय कुमार	01.06.2012
3039	6925072डब्ल्यू	हवलदार	विजय कुमार	01.04.2012
3040	6924971एल	हवलदार	विकरम सिंह	01.04.2012
3041	6925145एक्स	हवलदार	विनोद कुमार	01.04.2012
3042	6924488एफ	हवलदार	विष्णु प्रताप सिंह भादौरिया	01.02.2012
3043	6925153डब्ल्यू	हवलदार	विशाराम चौहान	01.04.2012
3044	6925330एल	हवलदार	वाइ एस चौहान	01.05.2012

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मकेनिकल इंजिनियर्स

3045	14593863के	हवलदार	ए अरुल जॉन	01.04.2012
3046	14593599एफ	हवलदार	अब्दुल कलाम बरभुईया	01.04.2012
3047	14597990डब्ल्यू	हवलदार	अदिती कुमार भुनिया	01.08.2012
3048	14591981वाइ	हवलदार	अजय फाल सिंह	01.03.2012
3049	14590888एल	हवलदार	अजय कुमार नायक	01.02.2012
3050	14590125पी	हवलदार	अनिल अत्री	01.02.2012
3051	14592550वाइ	हवलदार	अनिल कुमार	01.04.2012
3052	14593350पी	हवलदार	अनिल कुमार कौशिक	01.04.2012

3053	14598075के	हवलदार	अनिल कुमार के टी	01.08.2012
3054	14591115एक्स	हवलदार	अनिल कुमार शर्मा	01.02.2012
3055	14593213डब्ल्यू	हवलदार	अनिल कुमार सिंह	01.04.2012
3056	14592209एफ	हवलदार	अनूप सिंह	01.03.2012
3057	14592664के	हवलदार	अर्जुन यादव	01.03.2012
3058	14593059एच	हवलदार	अरोकियादोस एल	01.04.2012
3059	14595118एच	हवलदार	अरुण कुम्र	01.06.2012
3060	14596748पी	हवलदार	अरुण कुमार मिश्रा	01.07.2012
3061	14610100एम	हवलदार	आशीम कुमार डे	01.03.2012
3062	14591666एच	हवलदार	अशोक कुमार	01.02.2012
3063	14596086एक्स	हवलदार	अशोक कुमार गुप्ता	01.06.2012
3064	14595290के	हवलदार	अशोक कुमार सिंह	01.06.2012
3065	14596102के	हवलदार	अशोक कुशबाहा	01.06.2012
3066	14595670एच	हवलदार	औती शंकर भाउ	01.07.2012
3067	14595257एम	हवलदार	बाबू लाल सी	01.06.2012
3068	14591377एन	हवलदार	बाबू लाल जाट	01.03.2012
3069	14591713पी	हवलदार	बाबू लाल सैन	01.03.2012
3070	14594313एन	हवलदार	बैद्यनाथ झा	01.04.2012
3071	14593258डब्ल्यू	हवलदार	बाल राम प्रसाद	01.04.2012
3072	14591353के	हवलदार	बालाराम साहा	01.03.2012
3073	14595420एफ	हवलदार	बलजीत सिंह	01.04.2012
3074	14595064एम	हवलदार	बाल्मीकि पांडे	01.07.2012
3075	14591076के	हवलदार	बलराज	01.02.2012
3076	14592567एम	हवलदार	बी कुमार शर्मा	01.04.2012
3077	14592176एफ	हवलदार	बंसी धर	01.03.2012
3078	14591903एफ	हवलदार	बृमेशवर नाथ मिश्रा	01.02.2012
3079	14593126एच	हवलदार	बसंत कुमार सिंह	01.03.2012
3080	14595340के	हवलदार	बिरेन्द्र सिंह	01.06.2012
3081	14590890एच	हवलदार	भावेन्द्र नाथ जैना	01.02.2012
3082	14590312एन	हवलदार	भावेन्द्र रौय	01.02.2012
3083	14593621एफ	हवलदार	भगत राम	01.04.2012
3084	14592035एम	हवलदार	भगत सिंह	01.03.2012
3085	14592479डब्ल्यू	हवलदार	भगवान सहाय गुर्जर	01.03.2012
3086	14591794ए	हवलदार	भंजन लाल	01.03.2012
3087	14590342एल	हवलदार	भाना राम भाकर	01.02.2012
3088	14597172पी	हवलदार	भंवर राम चौधरी	01.08.2012
3089	14597381एम	हवलदार	भरत चंद्रा बिस्वाल	01.08.2012
3090	14591015एम	हवलदार	भरत सिंह	01.02.2012
3091	14595847एल	हवलदार	भरत यादव	01.05.2012
3092	14611083के	हवलदार	भासकरण वी	01.04.2012
3093	14596054ए	हवलदार	भवन सिंह गुरोव	01.06.2012

3094	14592541एक्स	हवलदार	भीम बहादुर छत्री	01.04.2012
3095	14595358ए	हवलदार	भुजवल बिसोई	01.06.2012
3096	14591755एफ	हवलदार	बी सिंह	01.03.2012
3097	14591950वाइ	हवलदार	भूवन चंद्रा	01.02.2012
3098	14594302एफ	हवलदार	बिजय कुमार सिंह	01.04.2012
3099	14591919एम	हवलदार	बिनोद कुमार चौबे	01.02.2012
3100	14597479ए	हवलदार	बी रौय	01.08.2012
3101	14592594डब्ल्यू	हवलदार	बिपुल चंद्रा दास	01.04.2012
3102	14596511एक्स	हवलदार	बीर चन्द	01.07.2012
3103	14592813एम	हवलदार	बिरेन्द्र कुमार राय	01.03.2012
3104	14595914एल	हवलदार	बिरेन्द्रा कुमार सिंह	01.06.2012
3105	14592371वाइ	हवलदार	बी नारायणा	01.03.2012
3106	14593731डब्ल्यू	हवलदार	ब्रध्दयो प्रसाद यादव	01.04.2012
3107	14595255एफ	हवलदार	ब्रज किशोर	01.06.2012
3108	14591698एल	हवलदार	ब्रज राज मिश्रा	01.03.2012
3109	14595119एल	हवलदार	ब्रजेन्द्र कुमार दास	01.06.2012
3110	14595191एफ	हवलदार	ब्रजेश कुमार	01.06.2012
3111	14597977एम	हवलदार	बृज मोहन	01.08.2012
3112	14609457डब्ल्यू	हवलदार	बुधा राम विश्नोई	01.03.2012
3113	14596566एफ	हवलदार	चम्पा राम	01.07.2012
3114	14592730एफ	हवलदार	चन्द राम	01.03.2012
3115	14590332एफ	हवलदार	चंद्रा भूषण चौधरी	01.02.2012
3116	14595758एम	हवलदार	चौधरी शिवा भाई हीरा भाई	01.05.2012
3117	14596584के	हवलदार	चौहान जीत सिंह भरत सिंह	01.08.2012
3118	14591783एन	हवलदार	चिन्तामानी मोहंता	01.03.2012
3119	14590097एन	हवलदार	सी लाल प्रसाद	01.02.2012
3120	14594145ए	हवलदार	चून चून यादव	01.04.2012
3121	14594274ए	हवलदार	दलीप सिंह	01.04.2012
3122	14595318वाइ	हवलदार	दमबारू बोराह	01.06.2012
3123	14591570ए	हवलदार	दामोदर मिश्रा	01.02.2012
3124	14593320एक्स	हवलदार	दत्तात्रिया रामु एस	01.04.2012
3125	14596615वाइ	हवलदार	देवेन्द्र सिंह	01.08.2012
3126	14592718ए	हवलदार	दया नन्द गुप्ता	01.03.2012
3127	14596349एल	हवलदार	दयाल सिंह	01.07.2012
3128	14597441डब्ल्यू	हवलदार	डी. चक्रबती	01.08.2012
3129	14595328एच	हवलदार	दीपक कुमार राय	01.06.2012
3130	14595002एम	हवलदार	देना नाथ विश्वास	01.06.2012
3131	14593692एच	हवलदार	देवेन्द्र पाल सिंह	01.04.2012
3132	14591520पी	हवलदार	देविन्द्र सिंह	01.02.2012
3133	14594332वाइ	हवलदार	दीवान सिंह	01.05.2012
3134	14591882डब्ल्यू	हवलदार	धाना राज टीआर	01.02.2012

3135	14592950एल	हवलदार	धनश्याम प्रसाद	01.03.2012
3136	14597937एल	हवलदार	धर्म सिंह	01.08.2012
3137	14592270एल	हवलदार	धर्मबीर	01.03.2012
3138	14590766एफ	हवलदार	धर्मपाल सैनी	01.02.2012
3139	14591359एल	हवलदार	धर्मवीर	01.03.2012
3140	14591013एफ	हवलदार	धर्मेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	01.02.2012
3141	14595579एम	हवलदार	धीरेन्द्र यादव	01.06.2012
3142	14595059एफ	हवलदार	धोनिकशे धानाजी विष्णु	01.07.2012
3143	14591489एन	हवलदार	धुबा ज्योती बरुयह	01.02.2012
3144	14595831ए	हवलदार	दिलीप चंद्रा भावल	01.05.2012
3145	14593493पी	हवलदार	दिलीप कुमार द्विवेदी	01.04.2012
3146	14590424एन	हवलदार	दिलीप कुमार पखीरा	01.02.2012
3147	14593676एल	हवलदार	दिलवर सिंह	01.04.2012
3148	14596361एम	हवलदार	दीनानाथ गोस्वामी	01.07.2012
3149	14595289पी	हवलदार	दिनेश ध्वेवदी	01.06.2012
3150	14594498ए	हवलदार	दिनेश कुमार	01.04.2012
3151	14595934वाइ	हवलदार	डी. कुमार बर्मन	01.06.2012
3152	14592175वाइ	हवलदार	जी. राधाकृष्ण	01.03.2012
3153	14611248एक्स	हवलदार	जी. रमेश	01.04.2012
3154	14593000एच	हवलदार	गजेन्द्र कुमार पंडा	01.03.2012
3155	14594434पी	हवलदार	गजेन्द्र सिंह सिकरवार	01.04.2012
3156	14592799एल	हवलदार	जी. चंद्रा शेखर वेंकट राव	01.03.2012
3157	14592225वाइ	हवलदार	गनेश कुमार	01.03.2012
3158	14591236वाइ	हवलदार	गनेश्वर दास	01.02.2012
3159	14595691वाइ	हवलदार	गिरधर सिंह यादव	01.07.2012
3160	14593557पी	हवलदार	गोबिंदा मोन्डल	01.04.2012
3161	14592102एम	हवलदार	गोपाल राम	01.03.2012
3162	14592012एल	हवलदार	गोपाल सिंह	01.03.2012
3163	14595077के	हवलदार	जी. बर्मन	01.05.2012
3164	14593328के	हवलदार	गोविंद सिंह	01.04.2012
3165	14593316पी	हवलदार	जी. सिंह	01.04.2012
3166	14590378के	हवलदार	गुनासागर टी	01.02.2012
3167	14592361पी	हवलदार	गुरचरण सिंह	01.03.2012
3168	14593898ए	हवलदार	एच एम सिंघा	01.04.2012
3169	14590081एच	हवलदार	हरे कृष्णा रौय	01.02.2012
3170	14594558के	हवलदार	हरेंद्र गिरि	01.04.2012
3171	14594515पी	हवलदार	हरेन्द्र कुमार	01.05.2012
3172	14590877वाइ	हवलदार	हरेशवर बसुमा	01.02.2012
3173	14596873वाइ	हवलदार	हरी कृष्णा पांडे	01.07.2012
3174	14610502के	हवलदार	हरी प्रकाश पांडे	01.03.2012
3175	14590343एन	हवलदार	हरिहर हाजरा	01.02.2012

3176	14591459डब्ल्यू	हवलदार	हरीश चंद्रा	01.02.2012
3177	14596569पी	हवलदार	हरीश चंद्रा जोशी	01.08.2012
3178	14593790एच	हवलदार	एच सिंह	01.04.2012
3179	14594529पी	हवलदार	हरनाथ धाकर	01.06.2012
3180	14597928के	हवलदार	हिम्मत सिंह	01.08.2012
3181	14595297एन	हवलदार	हिंगे कान्तीलाल सीताराम	01.06.2012
3182	14591383एफ	हवलदार	हीरा प्रसाद सिंह	01.03.2012
3183	14593924डब्ल्यू	हवलदार	हीरा सिंह भदोरिया	01.04.2012
3184	14611341वाइ	हवलदार	एच विश्वास	01.04.2012
3185	14591021ए	हवलदार	हृदय नारायण शर्मा	01.02.2012
3186	14593569के	हवलदार	हुकम चन्द	01.04.2012
3187	14596847एक्स	हवलदार	इंद्र पाल	01.07.2012
3188	14593860डब्ल्यू	हवलदार	इंद्रजीत सिंह	01.04.2012
3189	14593181वाइ	हवलदार	इन्द्रा कुमार	01.04.2012
3190	14596346एक्स	हवलदार	इन्द्रा कुमार सिंह	01.07.2012
3191	14593240ए	हवलदार	इन्द्रा प्रताप सिंह	01.04.2012
3192	14596595डब्ल्यू	हवलदार	जदाओ जी. रामु	01.08.2012
3193	14594329वाइ	हवलदार	जगन्मथ सिंह एम	01.05.2012
3194	14611363एक्स	हवलदार	जे आनंदा राव	01.04.2012
3195	14595367एफ	हवलदार	जगत पाल सिंह	01.06.2012
3196	14594971ए	हवलदार	जगतपाल सिंह	01.05.2012
3197	14590366पी	हवलदार	जगदीश प्रसाद	01.02.2012
3198	14592253एल	हवलदार	जे हेमा सुंदर राव	01.03.2012
3199	14593287एल	हवलदार	जे श्रीनिवास राव	01.04.2012
3200	14596173एल	हवलदार	जरनैल सिंह	01.07.2012
3201	14590160एक्स	हवलदार	जसबीर सिंह	01.02.2012
3202	14594914वाइ	हवलदार	जसवीर सिंह	01.05.2012
3203	14594464एम	हवलदार	जयवीर सिंह	01.04.2012
3204	14594352एम	हवलदार	जोज ओम	01.04.2012
3205	14595217एल	हवलदार	कैलाश चंद्र	01.06.2012
3206	14594296वाइ	हवलदार	काली चरण	01.04.2012
3207	14612515ए	हवलदार	कल्याण निओग	01.07.2012
3208	14593980पी	हवलदार	के नारायण सिंह	01.04.2012
3209	14594791एक्स	हवलदार	कमल कान्ति पौल	01.06.2012
3210	14595608डब्ल्यू	हवलदार	कामेश्वर प्रसाद सिंह	01.06.2012
3211	14594823पी	हवलदार	कमलेश चौधरी	01.05.2012
3212	14591702एच	हवलदार	कामरूल होदा	01.03.2012
3213	14609223एम	हवलदार	कन्हैया सिंह यादव	01.02.2012
3214	14593850एम	हवलदार	करतार सिंह	01.04.2012
3215	14604206एच	हवलदार	काशी नाथ भोवी	01.06.2012
3216	14594496पी	हवलदार	कश्मीर सिंह	01.04.2012



3217	14594472एल	हवलदार	कश्मीर सिंह	01.04.2012
3218	14611715के	हवलदार	कोशल कुमार	01.05.2012
3219	14593324एन	हवलदार	कोशल कुमार सिंह	01.04.2012
3220	14595181एक्स	हवलदार	कौसलेन्द्र कुमार	01.06.2012
3221	14594324ए	हवलदार	केहर सिंह	01.05.2012
3222	14594790पी	हवलदार	केशब दत्त भट्ट	01.06.2012
3223	14597151वाइ	हवलदार	खान अल्लाउद्दीन	01.08.2012
3224	14596527एच	हवलदार	के देमुदु	01.07.2012
3225	14595342पी	हवलदार	कृष्णापा शंकर	01.06.2012
3226	14595677एन	हवलदार	कृष्णा कुमार	01.07.2012
3227	14596179एम	हवलदार	के घोष	01.07.2012
3228	14592704ए	हवलदार	कुर्णी चंद्रन स्वेन	01.03.2012
3229	14598082ए	हवलदार	क्षीरसागर सम्पत विश्वनाथ	01.08.2012
3230	14592590ए	हवलदार	कुलवंत राज	01.04.2012
3231	14596122एक्स	हवलदार	कुंदन सिंह	01.06.2012
3232	14592051के	हवलदार	कुशाल कुमार बनयाल	01.03.2012
3233	14591319के	हवलदार	के पांडे	01.02.2012
3234	14590819पी	हवलदार	एल नाथ	01.02.2012
3235	14594384पी	हवलदार	लवकुश प्रसाद त्रिपाठी	01.04.2012
3236	14595683ए	हवलदार	लक्ष्मन प्रसाद यादव	01.07.2012
3237	14591697एच	हवलदार	लक्ष्मन साह	01.03.2012
3238	14594930डब्ल्यू	हवलदार	लक्ष्मन सिंह लतवाल	01.05.2012
3239	14598101ए	हवलदार	लक्ष्मी प्रसाद विश्वाकर्मा	01.08.2012
3240	14595300एच	हवलदार	लिल्हरे कुंजीलाल बी	01.06.2012
3241	14592433एन	हवलदार	लोकेन्द्रा सिंह	01.03.2012
3242	14612443एफ	हवलदार	एम ए एस	01.06.2012
3243	14590855ए	हवलदार	मदन लाल	01.02.2012
3244	14591703एल	हवलदार	मदन लाल	01.03.2012
3245	14595038एल	हवलदार	माधव राव नायक	01.07.2012
3246	14592900ए	हवलदार	मगर बंदू पी	01.04.2012
3247	14591321एफ	हवलदार	महादेव मंडल	01.02.2012
3248	14590788ए	हवलदार	महेंद्र पाल सिंह	01.02.2012
3249	14593474के	हवलदार	महाराज सिंह	01.04.2012
3250	14596154ए	हवलदार	महताब सिंह	01.06.2012
3251	14596454एफ	हवलदार	महावीर प्रसाद वर्मा	01.07.2012
3252	14594773पी	हवलदार	महेंद्र प्रताप सिंह	01.05.2012
3253	14594376डब्ल्यू	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.04.2012
3254	14593687एक्स	हवलदार	महेश कुमार	01.04.2012
3255	14592065के	हवलदार	महेश कुमार खत्री	01.03.2012
3256	14596380एक्स	हवलदार	महेश कुमार शर्मा	01.07.2012
3257	14592960पी	हवलदार	महेश प्रसाद	01.03.2012

3258	14592850ए	हवलदार	माखन सिंह	01.04.2012
3259	14590927वाइ	हवलदार	मान बहादुर गुरंग	01.02.2012
3260	14597948एक्स	हवलदार	मान सिंह	01.08.2012
3261	14590100एच	हवलदार	मनी वन्नन जे	01.02.2012
3262	14597212एल	हवलदार	मनमोहन सिंह	01.08.2012
3263	14596478एल	हवलदार	मनोहर लाल	01.08.2012
3264	14591513वाइ	हवलदार	मनोज कुमार तिवारी	01.02.2012
3265	14591802एन	हवलदार	एम पांडे	01.03.2012
3266	14592687एल	हवलदार	मेवा लाल	01.03.2012
3267	14595548एम	हवलदार	मिलाप सिंह	01.06.2012
3268	14590084डब्ल्यू	हवलदार	मिथलेश कुमार सिंह	01.02.2012
3269	14596121पी	हवलदार	मोहन सिंह बिष्ट	01.06.2012
3270	14596698पी	हवलदार	मोहाना लाल के.एस	01.07.2012
3271	14591334वाइ	हवलदार	मोहानन पिल्लई के	01.02.2012
3272	14591096एक्स	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.02.2012
3273	14595454पी	हवलदार	मोरे नरेन्द्रा बकाराम	01.05.2012
3274	14593990वाइ	हवलदार	मुकेश कुमार चौधरी	01.04.2012
3275	13968820एफ	हवलदार	एम अली	01.08.2012
3276	14591087डब्ल्यू	हवलदार	मुन्ना राम	01.02.2012
3277	14594433एम	हवलदार	मुन्नी लाल राम	01.04.2012
3278	14594798एफ	हवलदार	मुरलीधर शुक्ला	01.07.2012
3279	14592349एन	हवलदार	मुरलीधर सिंह	01.03.2012
3280	14591721एन	हवलदार	एन नागाराजन	01.03.2012
3281	14593547एल	हवलदार	नकुल च. रौय	01.04.2012
3282	14590115एल	हवलदार	नन्दलाल प्रसाद पटेल	01.02.2012
3283	14595607एन	हवलदार	नन्देश्वर राजकुमार गोविंदराव	01.06.2012
3284	14592853एन	हवलदार	नारायण प्रसाद	01.04.2012
3285	14592596एफ	हवलदार	नरेन चंद्रा बोरा	01.04.2012
3286	14592803एच	हवलदार	नरेंद्र सिंह	01.03.2012
3287	14595626वाइ	हवलदार	नरेन्द्रा सिंह	01.06.2012
3288	14593191एच	हवलदार	एन कुमार	01.04.2012
3289	14591670एल	हवलदार	नरेश कुमार चौधरी	01.03.2012
3290	14596227एफ	हवलदार	नरसु बेहेरा	01.07.2012
3291	14591058एफ	हवलदार	नसीब सिंह भाउ	01.02.2012
3292	14592846एक्स	हवलदार	नाथू सिंह	01.04.2012
3293	14596438के	हवलदार	निकुन्जा बिहारी दास	01.07.2012
3294	14592536एम	हवलदार	एन वी राव	01.04.2012
3295	14595450वाइ	हवलदार	नित्यां नन्द मिश्रा	01.04.2012
3296	14595686एन	हवलदार	ओम प्रकाश	01.07.2012
3297	14594016ए	हवलदार	ओम प्रकाश	01.04.2012
3298	14597221एम	हवलदार	ओम प्रकाश	01.08.2012

3299	14594865एफ	हवलदार	ओम प्रकाश	01.05.2012
3300	14595515एफ	हवलदार	ओम प्रकाश	01.05.2012
3301	14593970एल	हवलदार	ओंकार चन्द	01.04.2012
3302	14595006एच	हवलदार	पारितोष दास	01.06.2012
3303	14595223वाइ	हवलदार	पटेल बी ए	01.06.2012
3304	14591827एन	हवलदार	पतोलें तुलसीराम पुना	01.03.2012
3305	14592373के	हवलदार	पीतम लाल	01.03.2012
3306	14593596एन	हवलदार	प्रभाकर कुमार पांडे	01.04.2012
3307	14595751एच	हवलदार	पी कुमार यादव	01.05.2012
3308	14595489एल	हवलदार	प्रभु कुमार सिंह	01.04.2012
3309	14592552के	हवलदार	प्रभु सिंह परिहार	01.04.2012
3310	14594338ए	हवलदार	प्रबीर कुमार सरकार	01.04.2012
3311	14596899एन	हवलदार	प्रदीप सिंह नैन	01.07.2012
3312	14594399एक्स	हवलदार	प्रकाश चंद्रा प्रधान	01.04.2012
3313	14591080एम	हवलदार	प्रकाश सिंह	01.02.2012
3314	1459001के	हवलदार	पी कुमार खान	01.06.2012
3315	14592294पी	हवलदार	प्रण कृष्णा सी	01.03.2012
3316	14594349एम	हवलदार	प्रणय रंजन डे	01.04.2012
3317	14592326एम	हवलदार	पी सिंह के	01.03.2012
3318	14592041ए	हवलदार	प्रवीन चंद्रा	01.03.2012
3319	14593897एक्स	हवलदार	प्रवीन कुमार	01.04.2012
3320	14593453एन	हवलदार	प्रेम चन्द यादव	01.04.2012
3321	14597051एन	हवलदार	प्रेम कुमार सिंह	01.07.2012
3322	14593349ए	हवलदार	प्रेम सिंह सागर	01.04.2012
3323	14594011एफ	हवलदार	प्यारे लाल	01.04.2012
3324	14590310एच	हवलदार	प्यारे सिंह	01.02.2012
3325	14595543एन	हवलदार	राधा कृष्णन जी.	01.06.2012
3326	14590391एन	हवलदार	राधेश्याम उपाध्याय	01.02.2012
3327	14591066ए	हवलदार	राधेश्याम गिरि	01.02.2012
3328	14594660एम	हवलदार	राहुल रौय	01.04.2012
3329	14596754एच	हवलदार	राय सिंह	01.07.2012
3330	14593827वाइ	हवलदार	राज कंवर	01.04.2012
3331	14593018वाइ	हवलदार	राज कुमार	01.03.2012
3332	14594049एल	हवलदार	राज कुमार	01.04.2012
3333	14593103एफ	हवलदार	राज कुमार	01.04.2012
3334	14595634एक्स	हवलदार	राज कुमार	01.06.2012
3335	14596563एन	हवलदार	राज कुमार घोष	01.07.2012
3336	14595110डब्ल्यू	हवलदार	राज कुमार प्रसाद	01.06.2012
3337	14591896डब्ल्यू	हवलदार	राज नारायन सिंह	01.02.2012
3338	14595204एन	हवलदार	राजाराम आर	01.05.2012
3339	14609094एक्स	हवलदार	राजबीर सिंह	01.02.2012

3340	14594684	डब्ल्यू	हवलदार	राजेंद्रा मिश्रा	01.04.2012
3341	14597152	एफ	हवलदार	राजेंद्रा तिवारी	01.08.2012
3342	14594118	डब्ल्यू	हवलदार	राजेन्द्रन पिल्लई के	01.04.2012
3343	14591728	एक्स	हवलदार	राजेश कुमार	01.03.2012
3344	14593260	एन	हवलदार	राजेश कुमार दुबे	01.04.2012
3345	14596368	डब्ल्यू	हवलदार	राजेश सिंह	01.07.2012
3346	14596323	डब्ल्यू	हवलदार	राजेश सिंह परिहार	01.08.2012
3347	14591987	ए	हवलदार	राजेश सिंह सैंगर	01.03.2012
3348	14596369	वाइ	हवलदार	राजेश्वर प्रसाद	01.07.2012
3349	14592597	के	हवलदार	राजू मैनसे	01.04.2012
3350	14591335	एफ	हवलदार	राकेश कुमार श्रीवास्तवा	01.02.2012
3351	14593099	के	हवलदार	राकेश सिंह	01.04.2012
3352	14612314	एफ	हवलदार	राकेश सुभाष चंद्रा उदित नाथ	01.06.2012
3353	14594026	के	हवलदार	राम बिलास दुबे	01.04.2012
3354	14591382	वाइ	हवलदार	राम चंद्र	01.03.2012
3355	14594879	एफ	हवलदार	राम चंद्रा महादेव मोरे	01.05.2012
3356	14592978	एल	हवलदार	राम दास	01.03.2012
3357	14595374	एक्स	हवलदार	राम दयाल यादव	01.04.2012
3358	14597952	ए	हवलदार	राम दीन	01.08.2012
3359	14590800	डब्ल्यू	हवलदार	राम जनम सिंह	01.02.2012
3360	14593929	पी	हवलदार	राम किशोर बैरवा	01.04.2012
3361	14593100	एम	हवलदार	राम कुमार सिंह	01.06.2012
3362	14593406	डब्ल्यू	हवलदार	राम कुमार यादव	01.04.2012
3363	14595394	एल	हवलदार	राम निवास	01.04.2012
3364	14592042	एच	हवलदार	राम पत सिंह	01.03.2012
3365	14593124	एक्स	हवलदार	राम प्रहलाद प्रसाद	01.03.2012
3366	14593862	के	हवलदार	राम प्रकाश	01.04.2012
3367	14591561	वाइ	हवलदार	राम रतन शर्मा	01.02.2012
3368	14595655	एन	हवलदार	राम सहाय मीना	01.06.2012
3369	14591591	डब्ल्यू	हवलदार	राम सिया	01.02.2012
3370	14592521	के	हवलदार	रमा दोस जी.	01.04.2012
3371	14591034	एक्स	हवलदार	रमा शंकर दुबे	01.02.2012
3372	14591797	एन	हवलदार	रमाकांत सिंह	01.03.2012
3373	14592055	ए	हवलदार	रमाकांत तिवारी	01.03.2012
3374	14597717	एफ	हवलदार	रामओतार आइ	01.08.2012
3375	14590785	एम	हवलदार	रामवीर सिंह	01.02.2012
3376	14597649	वाइ	हवलदार	रामेन्द्र प्रसाद	01.08.2012
3377	14591193	पी	हवलदार	रमेशन टीएम	01.03.2012
3378	14591510	एल	हवलदार	रमेश बहादुर	01.02.2012
3379	14601226	एल	हवलदार	रमेश चंद्रा	01.02.2012
3380	14591777	ए	हवलदार	रमेश चंद्रा नायक	01.03.2012

3381	14609805एम	हवलदार	रामेश्वर महतो	01.03.2012
3382	14593121के	हवलदार	रामजनम सिंह	01.03.2012
3383	14597995पी	हवलदार	रनबीर सिंह	01.08.2012
3384	14591792पी	हवलदार	रणधीर सिंह	01.03.2012
3385	14593992के	हवलदार	रंजीत कुमार राना	01.04.2012
3386	14593473एफ	हवलदार	रनवीर सिंह	01.04.2012
3387	14591119एन	हवलदार	रतन सिंह बोरा	01.02.2012
3388	14593909एफ	हवलदार	रवि भूसेन प्रसाद सिंह	01.04.2012
3389	14591186वाइ	हवलदार	रवि के	01.03.2012
3390	14593794वाइ	हवलदार	रवीन्द्र कुमार	01.04.2012
3391	14593413एम	हवलदार	रेजी पीसी	01.04.2012
3392	14594415के	हवलदार	आर लाल	01.04.2012
3393	14597712एच	हवलदार	रेनू कुमार टी	01.08.2012
3394	14593049वाइ	हवलदार	रोहिणी प्रसाद	01.03.2012
3395	14592052एम	हवलदार	रोहिताश	01.03.2012
3396	14591626एफ	हवलदार	रोहिताश सिंह	01.02.2012
3397	14593491के	हवलदार	राहिताश्व कुमार	01.04.2012
3398	14591924एक्स	हवलदार	एस दक्षिणा मूर्ती	01.02.2012
3399	14593207एच	हवलदार	एस कृष्णा मूर्ती	01.04.2012
3400	14592529डब्ल्यू	हवलदार	एस मथीलागम	01.04.2012
3401	14595378एन	हवलदार	एस मिचेल राज	01.04.2012
3402	14592330पी	हवलदार	एस परमशिवन	01.03.2012
3403	14590954एच	हवलदार	सदानन्द चौधरी	01.02.2012
3404	14595798एन	हवलदार	साहेब लाल प्रसाद	01.05.2012
3405	14591097ए	हवलदार	सालुवा एच	01.02.2012
3406	14592629एफ	हवलदार	सनापला वेंकट रमना	01.04.2012
3407	14591927एल	हवलदार	संतोष कुमार पांडे	01.02.2012
3408	14594815डब्ल्यू	हवलदार	शारदा प्रसाद गुप्ता	01.05.2012
3409	14591457एल	हवलदार	सरत बोराह	01.02.2012
3410	14591785वाइ	हवलदार	सरत चंद्रा महंता	01.03.2012
3411	14596401एच	हवलदार	सरीफूद्दीन मजुमदार	01.07.2012
3412	14595775एम	हवलदार	श्रवण कुमार	01.05.2012
3413	14595070ए	हवलदार	शशि कुमार	01.07.2012
3414	14590933एम	हवलदार	शशि पुथालथा	01.02.2012
3415	14592187एन	हवलदार	शशिधरन सी के	01.03.2012
3416	14589567एफ	हवलदार	सतीसन वी	01.02.2012
3417	14591965एफ	हवलदार	सतींद्र कुमार	01.02.2012
3418	14591077एम	हवलदार	सतीश कुमार शर्मा	01.02.2012
3419	14592985एफ	हवलदार	सत्यवीर सिंह	01.03.2012
3420	14595560एन	हवलदार	सत्येन्द्र नाथ गोगोई	01.06.2012
3421	14591340एम	हवलदार	शैलेन्द्र कुमार	01.02.2012

3422	14593200वाइ	हवलदार	शम्भू दयाल तिवारी	01.04.2012
3423	14595839एम	हवलदार	शम्भू शर्मा	01.05.2012
3424	14592802ए	हवलदार	शशि पाल सिंह	01.03.2012
3425	14595728पी	हवलदार	शेलाखे जनार्दन ताटया	01.05.2012
3426	14594030एम	हवलदार	शेर सिंह	01.04.2012
3427	14594377वाइ	हवलदार	शेष कुमार पटेल	01.04.2012
3428	14595093एफ	हवलदार	शिव चंद्रा झा	01.06.2012
3429	14592496डब्ल्यू	हवलदार	शिव धारी प्रसाद	01.03.2012
3430	14592219एल	हवलदार	शिव कुमार शर्मा	01.03.2012
3431	14595236डब्ल्यू	हवलदार	शिव मोहन सिंह नेगी	01.06.2012
3432	14593061ए	हवलदार	शिव पूजन सहाय	01.04.2012
3433	14595595के	हवलदार	श्रीकांत राय	01.06.2012
3434	14593255एच	हवलदार	श्री राजमणी शर्मा	01.04.2012
3435	14593301एम	हवलदार	श्याम बहादुर यादव	01.04.2012
3436	14596849एच	हवलदार	श्याम लाल सिंह	01.07.2012
3437	14611756एन	हवलदार	श्यामल कुमार मंडल	01.05.2012
3438	14591917एफ	हवलदार	सिद्धेश्वर कुमार सिंह	01.02.2012
3439	14591282एन	हवलदार	सिद्धनाथ सिंह	01.02.2012
3440	14598099एन	हवलदार	शिशिर कुमार साहू	01.08.2012
3441	14597987डब्ल्यू	हवलदार	सोमनाथ घोष	01.08.2012
3442	14591129एक्स	हवलदार	सोमपाल सिंह	01.02.2012
3443	14594844एल	हवलदार	सोन पाल	01.05.2012
3444	14595347एन	हवलदार	श्री राम प्रसाद साहू	01.06.2012
3445	14591090डब्ल्यू	हवलदार	सुभाष चंद्र	01.02.2012
3446	14590747डब्ल्यू	हवलदार	सुबीर कुमार घोष	01.02.2012
3447	14593620वाइ	हवलदार	सुबीर कुमार घोष	01.04.2012
3448	14590443वाइ	हवलदार	सुदीश ई	01.02.2012
3449	14595019ए	हवलदार	सुखदेव राज	01.06.2012
3450	14594917एम	हवलदार	सुकराम पाल राठी	01.05.2012
3451	14596003एफ	हवलदार	सुनील कुमार	01.06.2012
3452	14593036एफ	हवलदार	सुरेन्द्र प्रकाश	01.03.2012
3453	14594455एल	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.04.2012
3454	14590777एन	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार साहू	01.02.2012
3455	14593971एन	हवलदार	सुरेन्द्रा प्रसाद सिंह	01.04.2012
3456	14592172एल	हवलदार	सुरेन्द्रा प्रताप सिंह	01.03.2012
3457	14594344एन	हवलदार	सुरेश बाबू	01.04.2012
3458	14593907डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश कुमार	01.04.2012
3459	14593870ए	हवलदार	सुरेश कुमार पीआर	01.04.2012
3460	14593694एन	हवलदार	सुरेश एम के	01.04.2012

3461	14609341ए	हवलदार	सुरेश एम एस	01.02.2012
3462	14595529एफ	हवलदार	सुरेश प्रसाद हाल्दकर	01.07.2012
3463	14593062एच	हवलदार	सुरेश राना	01.04.2012
3464	14594506एन	हवलदार	सुरिन्दर पौल	01.04.2012
3465	14594160पी	हवलदार	सूर्या नारायण यादव	01.04.2012
3466	14591040एल	हवलदार	सूर्यभान यादव	01.02.2012
3467	14595942एक्स	हवलदार	सुशील चंद्रा रौय	01.06.2012
3468	14593152के	हवलदार	स्वप्न कुमार मंडल	01.03.2012
3469	14592613डब्ल्यू	हवलदार	स्वप्न कुमार नाथ	01.04.2012
3470	14594495एम	हवलदार	त्रिलोक नाथ	01.04.2012
3471	14594595एक्स	हवलदार	टी जयंत कुमार एस	01.04.2012
3472	14593808एन	हवलदार	थुलासी धरन पिल्लई टी वी	01.04.2012
3473	14593674ए	हवलदार	तईयाकुला सिम्हाचलम	01.04.2012
3474	14593982ए	हवलदार	उदय राज सिंह	01.04.2012
3475	14611605पी	हवलदार	यू राय	01.05.2012
3476	14592147एम	हवलदार	यू सिंह	01.03.2012
3477	14594343एल	हवलदार	उन्नी कृष्णा पिल्लई के	01.04.2012
3478	14594024वाइ	हवलदार	उत्तावम सिंह	01.04.2012
3479	14597090एम	हवलदार	वी गोपाल	01.07.2012
3480	14592732एम	हवलदार	वी एल पौल	01.03.2012
3481	14610277ए	हवलदार	वी सुब्रमनिअन	01.03.2012
3482	14591935के	हवलदार	वी सुब्रमण्यन	01.02.2012
3483	14591056डब्ल्यू	हवलदार	वेद प्रकाश दिवेदी	01.02.2012
3484	14591343ए	हवलदार	वेदपाल सिंह	01.03.2012
3485	14591620ए	हवलदार	बिकट सुब्बा राव के	01.02.2012
3486	14596209वाइ	हवलदार	विजय कुमार सिंह	01.07.2012
3487	14592357एम	हवलदार	विजय प्रसाद यादव	01.03.2012
3488	14594536एल	हवलदार	विजय शंकर	01.06.2012
3489	14594547एक्स	हवलदार	विजय सिंह	01.04.2012
3490	14591452एम	हवलदार	विजय सिंह	01.02.2012
3491	14593588पी	हवलदार	विजय सिंह	01.04.2012
3492	14612630ए	हवलदार	विजयन एम	01.07.2012
3493	14596103एम	हवलदार	वीजेन्द्र कुमार	01.06.2012
3494	14608955डब्ल्यू	हवलदार	विलास पाटिल	01.02.2012
3495	14596140ए	हवलदार	विनया कुमार	01.06.2012
3496	14592112डब्ल्यू	हवलदार	विनोद गिरि	01.03.2012
3497	14591594के	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	01.02.2012
3498	14592443एक्स	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	01.03.2012

3499	14593943एफ	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	01.04.2012
3500	14595894एच	हवलदार	विश्वा पाल सिंह	01.06.2012
3501	14594548ए	हवलदार	विश्वनाथ साह	01.04.2012
3502	14591575वाइ	हवलदार	विठल एस	01.02.2012
3503	14594650एच	हवलदार	वजीर सिंह	01.04.2012
3504	14591426एल	हवलदार	याकूब बेग	01.03.2012
3505	14591971पी	हवलदार	वाइ बरला	01.02.2012
3506	14593717के	हवलदार	वाइ प्रसाद सिंह	01.04.2012
<u>सेना शिक्षा कोर</u>				
3507	9510238के	हवलदार	अतुल रस्तोगी	01.08.2012
3508	9509661एक्स	हवलदार	कृष्णा देब	01.03.2012
3509	9510398के	हवलदार	रबीन्द्र नाथ कर	01.06.2012
<u>रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर</u>				
3510	7239711एफ	दफादार	अखिला नन्द राय	01.06.2012
3511	7239646एम	दफादार	बिशन राम	01.02.2012
3512	13968337एक्स	हवलदार	छज्जू सिंह	01.06.2012
3513	7239748एच	हवलदार	गंगाधर बेहेरा	01.06.2012
3514	7239751एच	दफादार	हकीम सिंह	01.06.2012
3515	7239674वाइ	हवलदार	जे राम	01.05.2012
3516	7239665एक्स	हवलदार	मोही कांता नाथ	01.05.2012
3517	7239966एफ	दफादार	पद्मनाभन कधोत	01.05.2012
3518	7239823एफ	दफादार	पाटिल दादा साहेब सी	01.08.2012
3519	7240400ए	हवलदार	पंजाब सिंह	01.03.2012
3520	7239715एक्स	हवलदार	राज कुमार यादव	01.06.2012
3521	7239672एन	दफादार	एस सिंह	01.05.2012
3522	7239684एच	दफादार	श्री कांत यादव	01.06.2012
3523	7239653एच	हवलदार	उमा शंकर राय	01.03.2012
<u>आसुचना कोर</u>				
3524	7430720एल	हवलदार	अर्विन्द कुमार	01.07.2012
3525	14598093एम	हवलदार	आशीम कुमार तालुकदार	01.08.2012
3526	7430714एक्स	हवलदार	फहीम अख्तर शेख	01.05.2012
3527	2886001एक्स	हवलदार	गुलाब सिंह	01.08.2012
3528	7431105ए	हवलदार	एम अरविन्दासन	01.03.2012
3529	14395648एन	हवलदार	निर्मल सिंह	01.08.2012
3530	7430870एफ	हवलदार	आर थिन्व ए	01.02.2012



3531	7431110एल	हवलदार	रनवीर सिंह	01.03.2012
3532	14590797एफ	हवलदार	रवीन्द्र शर्मा	01.02.2012
3533	7430721एन	हवलदार	ऋषि राज सिंह	01.07.2012
3534	7430729ए	हवलदार	सेरन बी	01.08.2012
3535	13752379डब्ल्यू	हवलदार	सुशील कुमार	01.08.2012
3536	7431116एम	हवलदार	टी रमा नंदा सिंह	01.03.2012
3537	7430727पी	हवलदार	उदयभान सिंह	01.07.2012
3538	7430723वाइ	हवलदार	विनय कुमार आर नंगला	01.04.2012

### सेना पुलिस कोर

3539	8031823वाइ	हवलदार	बहोरन लाल	01.05.2012
3540	7775110के	हवलदार	बीना प्रसाद जगत	01.05.2012
3541	7775680ए	हवलदार	बिहारी लाल राम	01.02.2012
3542	7775020एच	हवलदार	बीर पाल	01.02.2012
3543	7776013वाइ	हवलदार	जनार्दन सिंह	01.08.2012
3544	7775031पी	हवलदार	जीवन राम	01.03.2012
3545	7775051एच	हवलदार	कमल कुमार	01.04.2012
3546	1579180एल	हवलदार	मुरली आर	01.02.2012
3547	7775711पी	हवलदार	मुस्तफा एम के	01.02.2012
3548	7775059पी	हवलदार	निरंजन देब	01.04.2012
3549	7776048पी	हवलदार	पी आर बी शंकर दास	01.08.2012
3550	7775126पी	हवलदार	प्रसांत कुमार सामल	01.06.2012
3551	7775158एक्स	हवलदार	राज कुम्र	01.08.2012
3552	7775865एफ	हवलदार	राम बाबू	01.04.2012
3553	7775919एक्स	हवलदार	राम प्रकाश त्रिपाठी	01.05.2012
3554	7775129एच	हवलदार	एस खान	01.06.2012
3555	1579207एक्स	हवलदार	सोहन लाल	01.02.2012
3556	7775876एन	हवलदार	ठाकुर जरनैल सिंह	01.04.2012
3557	7775107के	हवलदार	थिरूमालईयाह के एन	01.05.2012
3558	7775111एम	हवलदार	तीर्थ राज दुबे	01.05.2012
3559	7775018एल	हवलदार	वीर सिंह	01.02.2012
3560	7775736एफ	हवलदार	डब्ल्यू बी सुख देव	01.02.2012
3561	7775924एच	हवलदार	युगल किशोर सिंह	01.05.2012

### सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

3562	3987585एल	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.05.2012
------	-----------	--------	--------------	------------

पायोनियर कोर

3563	8031828एक्स	हवलदार	भगवान सिंह गूजर	01.05.2012
3564	8031852एन	हवलदार	जे सिंह	01.06.2012
3565	8032312एफ	हवलदार	के बाबू राव एम	01.05.2012
3566	8032306एन	हवलदार	केशव लाल	01.04.2012
3567	8031874एम	हवलदार	प्रमोद कुमार	01.07.2012
3568	8031797एच	हवलदार	राम एन राम	01.03.2012
3569	8031815ए	हवलदार	एस के अब्दुल एच	31.04.2012
3570	13968207पी	हवलदार	सुरेश आर	01.06.2012
3571	8031883एन	हवलदार	सुरेश सिंह	01.08.2012

रक्षा सुरक्षा कोर

3572	10478303एम	हवलदार	बलकार सिंह	01.05.2012
3573	10388931ए	हवलदार	बृज भान पटेल	01.08.2012
3574	10478953ए	हवलदार	दुनी चन्द	01.08.2012
3575	10196381एन	हवलदार	हरदेव राम	01.08.2012
3576	5842303एम	हवलदार	हरी प्रसाद	01.06.2012
3577	10435750एच	हवलदार	हरीश चंद्रा जोशी	01.06.2012
3578	10196868एफ	हवलदार	जगदीश सिंह	01.03.2012
3579	10404255एच	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.07.2012
3580	10388938एच	हवलदार	मोहम्मद ईशर केएचए	01.05.2012
3581	10197063डब्ल्यू	हवलदार	रंजीत सिंह	01.05.2012
3582	10465553पी	हवलदार	राम दिया	01.06.2012
3583	10289532एन	हवलदार	टी ए	01.07.2012

प्रदेशिक सेना

3584	10119790एफ	हवलदार	एडी.ई सुरेश मेघा	01.04.2012
3585	10198278एफ	हवलदार	अशवनी कुमार	01.04.2012
3586	10198253पी	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.03.2012
3587	10260250एम	हवलदार	ब्रिंदावन प्रधान	01.08.2012
3588	10260232के	हवलदार	चितरन्जन महंता	01.04.2012
3589	10314844एक्स	हवलदार	देवेंदर सिंह	01.04.2012
3590	10198246वाइ	हवलदार	दीवान चन्द	01.02.2012
3591	10302543एफ	हवलदार	गोर्धन लाल	01.08.2012
3592	10182112डब्ल्यू	हवलदार	जमुना प्रसाद सिंह	01.06.2012
3593	10303010एल	हवलदार	कमलेश कुमार	01.04.2012
3594	10480069ए	हवलदार	निर्मल सिंह	01.02.2012

3595	10181925ए	हवलदार	राज किशोर यादव	01.01.2012
3596	10359448एन	हवलदार	शिवशंकर एससी	01.02.2012
3597	10212937वाइ	हवलदार	सुसंता कुमार घटक	01.05.2012
3598	10274606ए	हवलदार	तपन साधुखान	01.02.2012
3599	10150252पी	हवलदार	तेली सुरेश शंकर	01.06.2012

[ फा. सं. बी/43432/आई डी-12/ए जी/सी डब्ल्यू-2 ]

जय प्रकाश नेहरा, लै. जनरल, एडजुटेंट जनरल

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th August, 2012

**No. 12(E) dated 15th August, 2012.**—The President is pleased to grant honorary rank of Naib Risaldar/Naib Subedar to the undermentioned NCOs on retirement on the eve of Independence Day 2012 under para 180 of the Regulations for the Army 1987 with effect from the dates shown against their names :-

#### TO BE HONORARY NAIB RISALDARS/NAIB SUBEDARS

##### 9 HORSE

1	1088724N	HAV	SUBHASH CHAND	01-03-2012
---	----------	-----	---------------	------------

##### 61 CAVALRY

2	1088757Y	DFR	M K SITARAM	01-05-2012
---	----------	-----	-------------	------------

##### 82 ARMoured REGIMENT

3	1087785Y	DFR	RAJESH KUMAR	01-04-2012
---	----------	-----	--------------	------------

##### ARMoured CORPS

4	1087830A	DFR	ANUP KUMAR NARZARY	01-01-2012
5	1087790K	DFR	ARJUN PRASA YADAV	01-06-2012
6	1088635P	DFR	AWADHESH KUMAR	01-04-2012
7	1088582F	HAV	BEANT RAM	01-06-2012
8	1088626N	DFR	BONOD KUMAR	01-04-2012
9	1087794A	DFR	CHAIN SINGH	01-07-2012
10	1579267M	HAV	CHUNNI LAL	01-02-2012
11	1087814H	DFR	DILIP KUMAR	01-08-2012
12	1088713F	DFR	GIRIDHAR PRADHAN	01-02-2012
13	1087803W	DFR	GUMAN SINGH THAPA	01-08-2012
14	1088779K	DFR	KARNA BASUMATARY	01-08-2012
15	1088708W	DFR	M R MONDAL	01-02-2012
16	1087695X	HAV	MADAN LAL	01-03-2012
17	1087723Y	HAV	MULTAN RAM	01-04-2012
18	1088781P	DFR	OM PRAKASH	01-08-2012
19	7239704L	DFR	PUTTAN LAL	01-06-2012
20	13976901W	DFR	R K CHHETTRI	01-05-2012
21	1088727F	DFR	RAM CHANDER	01-03-2012
22	1088740L	DFR	RAM KUMAR BAITA	01-05-2012
23	1088795P	DFR	RAM NIWAS	01-08-2012
24	1087700X	DFR	SADA SHIV	01-04-2012
25	1579451X	DFR	SANJAY KUMAR SHARMA	01-04-2012
26	1088701M	HAV	SURESH SINGH	01-02-2012

**REGIMENT OF ARTILLERY**

27	15112104P	HAV	A MADHU	01-03-2012
28	15301912W	HAV	A RAJENDRAN	01-08-2012
29	14400231A	HAV	A SOOSAIRAJ	01-03-2012
30	15107232H	HAV	ANIL KUAMR SINGH	01-02-2012
31	15112093N	HAV	ANIL KUMAR P	01-03-2012
32	15108090H	HAV	ANIRUDH YADAV	01-03-2012
33	14399621N	HAV	AROKIA SAGAYARAJ SS	01-02-2012
34	6385902N	HAV	ASHNI KUMAR	01-04-2012
35	14394762Y	HAV	AŠHOK KUMAR SINGH	01-02-2012
36	15108543H	HAV	ASHOK KUMAR SINGH	01-04-2012
37	15111796H	HAV	BAHAKAR SANTOSH MANOHAR	01-02-2012
38	15111828A	HAV	BAL BHADUR SINGH	01-02-2012
39	15111952F	HAV	BAL RAM	01-03-2012
40	15112495L	HAV	BALBIR SINGH	01-04-2012
41	15108431H	HAV	BALJINDER SINGH	01-04-2012
42	15108193F	HAV	BALJIT SINGH	01-03-2012
43	14395483A	HAV	BARJAN ALI	01-08-2012
44	14399260A	HAV	BAUDHA NAGO KISAN	01-06-2012
45	15108191W	HAV	BENI MADHAV SINGH	01-03-2012
46	15112340W	HAV	BHOOP SINGH YADAV	01-04-2012
47	15107550M	HAV	BINOD KUMAR VERMA	01-02-2012
48	15111831A	HAV	BIR BHAN	01-02-2012
49	15107459W	HAV	BRIJESH SHIV RAJ KALA	01-02-2012
50	15111794X	HAV	CHANDRA BHUSAN SINGH	01-02-2012
51	15108153A	HAV	CHHOTE LAL BHARTI	01-03-2012
52	15112173L	HAV	CHOB SINGH TOMAR	01-03-2012
53	14400470P	HAV	D MURUGAN	01-04-2012
54	15112245K	HAV	D RAVICHANDRAN	01-04-2012
55	15107466M	HAV	DALBIR SINGH	01-02-2012
56	15108721A	HAV	DALIP KUMAR	01-04-2012
57	15112250P	HAV	DAVID WILSON R	01-04-2012
58	15111905K	HAV	DAVINDER KUMAR	01-02-2012
59	14400664X	HAV	DAVINDER SINGH	01-07-2012
60	14400568H	HAV	DEEPAK YADAV	01-04-2012
61	14399634L	HAV	DHAN RAJ LASHKARI	01-02-2012
62	14400242M	HAV	DHARMA BABOO SINGH	01-04-2012
63	14400575Y	HAV	DHARMENDRA SINGH	01-04-2012
64	14400409L	HAV	DHOOP SINGH	01-04-2012
65	14400046M	HAV	DIWAKAR DATT TIWARI	01-03-2012
66	15108709Y	HAV	GABDU RAM YADAV	01-04-2012
67	15107760M	HAV	GAIKWAD DATTA BABU RAO	01-02-2012
68	14399689P	HAV	GAJENDRA SINGH	01-02-2012
69	15108928A	HAV	GANESH RAM	01-05-2012
70	15107905M	HAV	GIAN SINGH	01-02-2012
71	15107421M	HAV	GIRDHARI LAL	01-02-2012
72	15107744P	HAV	GIRDHARI REGMI	01-02-2012

73	15108552K	HAV	GOMA RAM	01-04-2012
74	14394998N	HAV	GULAB SINGH	01-04-2012
75	14400410A	HAV	GULAB SINGH	01-04-2012
76	15112346X	HAV	GURDEV SINGH	01-04-2012
77	15112653P	HAV	GURJANT SINGH	01-05-2012
78	14395549L	HAV	GURNAM SINGH	01-08-2012
79	15108820H	HAV	GYAN SINGH	01-04-2012
80	15112629Y	HAV	HAMBIR SINGH	01-04-2012
81	14400205Y	HAV	HANUMAN SINGH	01-03-2012
82	15111944H	HAV	HARBILAS	01-03-2012
83	15112558H	HAV	HARDIP SINGH	01-04-2012
84	15112180F	HAV	HAREN CHANDRA DEKA	01-03-2012
85	15111814A	HAV	HARI SINGH	01-02-2012
86	14400120H	HAV	HARPAL SINGH	01-03-2012
87	15112651K	HAV	HARPAL SINGH	01-05-2012
88	14399896F	HAV	HARPAL SINGH	01-03-2012
89	14400486A	HAV	HEM RAJ	01-04-2012
90	15108698X	HAV	HOSHIAR SINGH	01-04-2012
91	14394940W	HAV	HOSHIAR SINGH	01-04-2012
92	14400425H	HAV	INDRA KONWAR	01-04-2012
93	15111428N	HAV	J RADHAKRISHNAN	01-06-2012
94	14395282F	HAV	JABENDRA SINGH	01-08-2012
95	15108141L	HAV	JAGANNATH DHARA	01-03-2012
96	15107610W	HAV	JAGAT PATI SAH	01-02-2012
97	15111893A	HAV	JAGBIR SINGH	01-02-2012
98	15108333H	HAV	JAGDAYAL YADAV	01-03-2012
99	14400544Y	HAV	JAGDEEP KUMAR	01-04-2012
100	15108410M	HAV	JAGDISH CHAND	01-04-2012
101	15112658N	HAV	JAGTAR SINGH	01-05-2012
102	14400554H	HAV	JAI CHAND	01-04-2012
103	15111803N	HAV	JASWANT SINGH	01-02-2012
104	14400416F	HAV	JASWINDER SINGH	01-04-2012
105	15112552F	HAV	JEET SINGH	01-04-2012
106	15108067P	HAV	JITENDER SINGH	01-03-2012
107	15108640A	HAV	JITENDRA KUMAR	01-04-2012
108	15108510X	HAV	JOGINDER SINGH	01-04-2012
109	14399701L	HAV	K MANI	01-02-2012
110	14400011W	HAV	K RAVI CHANDIRAN	01-03-2012
111	14399764N	HAV	K RAWOOF KHAN	01-02-2012
112	15108943P	HAV	KALE DEELIP BHAUSAHEB	01-07-2012
113	15108248A	HAV	KALO KHAN	01-03-2012
114	15112179M	HAV	KAMALA KANTA OWARY	01-03-2012
115	15112057H	HAV	KAMLESH SINGH	01-03-2012
116	14395162H	HAV	KARAM SINGH	01-08-2012
117	13969884Y	HAV	KARHORE LAL RAJAK	01-07-2012
118	15110528M	HAV	KEDAR SINGH	01-05-2012
119	14395402P	HAV	KESHI SINGH	01-08-2012
120	15109716F	HAV	KEWAL SINGH	01-08-2012

121	15112430X	HAV	KIRAN TAMULY	01-04-2012
122	15112549F	HAV	KISHORI LAL SHARMA	01-04-2012
123	14609524W	HAV	KRANA BAHADUR CHETTRI	01-02-2012
124	15107934F	HAV	KRISHAN KUMAR YADAV	01-03-2012
125	14400629P	HAV	KULBIR SINGH	01-06-2012
126	14400536A	HAV	LAL SAHAB	01-04-2012
127	15107546K	HAV	LAXMI CHAND YOGI	01-02-2012
128	15107366F	HAV	LAXMI NARAYAN YADAV	01-02-2012
129	14400357A	HAV	M DURAI	01-04-2012
130	14395097N	HAV	M RAJAMANICKAM	01-08-2012
131	14399956L	HAV	M THARUMA LINGAM	01-03-2012
132	14395520H	HAV	M VAMPADIAN	01-08-2012
133	15111986P	HAV	MAHADEV SAVASUDDI	01-03-2012
134	15108779X	HAV	MAHENDER SINGH	01-04-2012
135	8032345M	HAV	MAHENDER SINGH	01-06-2012
136	14394796M	HAV	MAHESH KUMAR	01-02-2012
137	14400206F	HAV	MAHIPAL	01-03-2012
138	14395537W	HAV	MAHIPAL	01-08-2012
139	14400627K	HAV	MALKIAT SINGH	01-06-2012
140	14400599H	HAV	MANGAT RAM	01-05-2012
141	15107587N	HAV	MANOHAR LAL	01-02-2012
142	15112123A	HAV	MATHURA PRASAD YADAV	01-03-2012
143	14395087K	HAV	MD SALIM	01-07-2012
144	15107452M	HAV	MIN BAHADUR	01-02-2012
145	14396669W	HAV	MITHILESH YADAV	01-03-2012
146	15107530Y	HAV	MOHAMMAD RAFIK	01-02-2012
147	15112672A	HAV	MOHAN LAL CHAUHAN	01-06-2012
148	13977352N	HAV	MUNNA LAL	01-08-2012
149	15108438M	HAV	MUNNES SINGH BHADAURIA	01-04-2012
150	14607299N	HAV	MUTTA ADHINARAYANA	01-05-2012
151	15108370W	HAV	NARAYAN	01-03-2012
152	15112377X	HAV	NARAYAN SINGH	01-04-2012
153	15108553M	HAV	NARINDER SINGH	01-04-2012
154	15112329X	HAV	NIHAL SINGH YADAV	01-04-2012
155	15108449Y	HAV	NIRANJAN SINGH	01-04-2012
156	15108245M	HAV	NIRVAIL SINGH	01-03-2012
157	14399359W	HAV	OM PARKASH	01-07-2012
158	15109474K	HAV	OM PARKASH	01-06-2012
159	15108923F	HAV	OM PARKASH SHARMA	01-04-2012
160	15112693W	HAV	OM PRAKASH	01-07-2012
161	14400220N	HAV	P GUNASEKARAN	01-03-2012
162	15112459A	HAV	PARAS NATH YADAWA	01-04-2012
163	15111837F	HAV	PARMOD KUMAR	01-02-2012
164	15110654Y	HAV	PATEL DALA BHAI KURAJI	01-06-2012
165	15112435W	HAV	PATIL BAJIRAO RAGHUNATH	01-04-2012
166	14400189M	HAV	PAWAN KUMAR	01-03-2012
167	14396807M	HAV	PAWAR MOTILAL SHAM RAO	01-06-2012
168	14400181A	HAV	PHANI DHAR ROY	01-03-2012

169	15111811M	HAV	PRABESH KUMAR	01-02-2012
170	15111891P	HAV	PRAHLAD RAM LOMEROR	01-02-2012
171	15112324Y	HAV	PRAMOD SINGH	01-04-2012
172	14395602L	HAV	PURAN SINGH	01-08-2012
173	15107754Y	HAV	RAJ PAL	01-02-2012
174	15112115F	HAV	RAJA RAM	01-03-2012
175	15108093W	HAV	RAJEEV KUMAR	01-03-2012
176	14400411H	HAV	RAJENDER SINGH	01-04-2012
177	15108765X	HAV	RAJENDER SINGH	01-04-2012
178	15107234N	HAV	RAJENDRA PAL SINGH	01-02-2012
179	15107771Y	HAV	RAJENDRA PRASAD	01-02-2012
180	14399759H	HAV	RAJENDRA PRASAD	01-02-2012
181	15112513H	HAV	RAJENDRA SINGH BHANDARI	01-04-2012
182	15112252A	HAV	RAJESH KUMAR TRIPATHI	01-04-2012
183	15108021M	HAV	RAJESH SINGH KUSHWAH	01-03-2012
184	14400064P	HAV	RAJPAL SINGH YADAV	01-03-2012
185	15112458X	HAV	RAM DULRE YADAV	01-04-2012
186	13977372F	HAV	RAM KISHORE	01-08-2012
187	15109632N	HAV	RAM KRISHAN	01-05-2012
188	15107238K	HAV	RAM NARESH DIXIT	01-02-2012
189	15112464L	HAV	RAM SEWAK SINGH YADAVA	01-04-2012
190	15107510L	HAV	RAM SIPAHI PATEL	01-02-2012
191	15112132F	HAV	RAMAVATAR YADAV	01-03-2012
192	8032296P	HAV	RAMESH CHAND	01-07-2012
193	15112701K	HAV	RAMESH CHANDRA	01-07-2012
194	15108697P	HAV	RAMESH CHANDRA RAJAK	01-04-2012
195	15111946N	HAV	RAMESH KUMAR	01-03-2012
196	15107542N	HAV	RAMESH LAL	01-02-2012
197	15108301A	HAV	RAMESH PRASAD YADAVA	01-03-2012
198	14399943N	HAV	RAMJAS YADAV	01-03-2012
199	15112380X	HAV	RAMOVTAR	01-04-2012
200	15112533W	HAV	RAMRAJ SINGH	01-04-2012
201	15111948Y	HAV	RANDHIR	01-03-2012
202	14398506F	HAV	RANGALA NAGESWARA RAO	01-02-2012
203	14395179W	HAV	RATHOD SANA BHAI KUBER BHAI	01-08-2012
204	14395067W	HAV	RAVINDER KUMAR	01-04-2012
205	15107590N	HAV	RAVINDRA PRASAD YADAV	01-02-2012
206	15112347A	HAV	S ATCHUTHA KUMAR	01-04-2012
207	15107593F	HAV	SANAMAN SINGH	01-02-2012
208	15112271L	HAV	SANTOSH KUMAR PALAKKIL	01-04-2012
209	15108856F	HAV	SARBESH SINGH	01-04-2012
210	14400527Y	HAV	SARFOO RAM	01-04-2012
211	14395438N	HAV	SARJEET SINGH YADAV	01-08-2012
212	14395169M	HAV	SATISH KUMAR SINGH	01-08-2012
213	15112086X	HAV	SATNAM SINGH	01-03-2012
214	15112210N	HAV	SATYVEER SINGH YADAV	01-04-2012
215	15107938X	HAV	SHAIENDRA SINGH	01-03-2012
216	14395688P	HAV	SHIDESHWAR PRASAD	01-08-2012

217	15112161W	HAV	SHIGI HOLI RAJENDRA	01-03-2012
218	15112429H	HAV	SHIVRAJ SINGH HADA	01-04-2012
219	15107861A	HAV	SHRI PAL	01-02-2012
220	14400582P	HAV	SHYAM BIHARI SINGH YADAV	01-04-2012
221	14399993Y	HAV	SOHAN SINGH	01-03-2012
222	15111918F	HAV	SRI MAHESH KUMAR YADAV	01-03-2012
223	15112191N	HAV	SUBH RAM SINGH	01-03-2012
224	14399914Y	HAV	SUBHASH SADASHIV BHOPALE	01-03-2012
225	13977481N	HAV	SUBRAMANI K	01-08-2012
226	15110906A	HAV	SUBRAMANIAN A	01-06-2012
227	14399767F	HAV	SUDHIR KUMAR	01-02-2012
228	15108638H	HAV	SUKHBIR SINGH	01-04-2012
229	15112220X	HAV	SUNIL KUMAR SINGH YADAV	01-04-2012
230	15112071P	HAV	SURENDRA KUMAR YADAV	01-03-2012
231	14394761W	HAV	SURESH SINGH	01-02-2012
232	15107963W	HAV	SURJIT SINGH	01-03-2012
233	14800633L	HAV	SURVASE GOVIND PANDIT RAO	01-08-2012
234	15112211W	HAV	SUVASH YADAV	01-04-2012
235	15107564M	HAV	T ELUMALAI	01-02-2012
236	15111734H	HAV	TAMIL SELVAN B	01-02-2012
237	15112546N	HAV	TARSEM LAL	01-04-2012
238	15112282X	HAV	THONDAMALLA BRAHMAIAH	01-04-2012
239	15111185N	HAV	THORVE KASI NATH DASRATH	01-06-2012
240	14395634N	HAV	TORAN LAL	01-08-2012
241	15112131Y	HAV	TULLA RAM YADAV	01-03-2012
242	15108746M	HAV	UDAY BHAN YADAV	01-04-2012
243	15112171A	HAV	UDAY SINGH TOMAR	01-03-2012
244	14395444F	HAV	UDHO RAM	01-08-2012
245	15108000W	HAV	UTHAMAN PV	01-03-2012
246	14395457Y	HAV	V DURAIRAJ	01-08-2012
247	15112109N	HAV	V MAHENDIRAN	01-03-2012
248	15107302W	HAV	V POWAN	01-02-2012
249	14394851X	HAV	V RAMAN	01-03-2012
250	14394831K	HAV	VIJAY KUMAR	01-03-2012
251	15112035K	HAV	VIJAY SINGH	01-03-2012
252	15107708K	HAV	VIMAL KUMAR TIWARI	01-02-2012
253	14610068H	HAV	VINOD KUMAR	01-03-2012
254	15108413A	HAV	VIRENDER SINGH	01-04-2012
255	15112045N	HAV	WIBHUTE DAGDU KISHEN RAO	01-03-2012
256	15112078Y	HAV	YADU NATH SINGH	01-03-2012
257	15112207N	HAV	YAMUNA SINGH	01-04-2012
258	15108085X	HAV	YASHWANT SINGH	01-03-2012
259	15112277M	HAV	YASHWANT SINGH	01-04-2012

**CORPS OF AIR DEFENCE ARTILLERY**

260	14394990F	HAV	ACHAL SINGH	01-04-2012
261	14399044M	HAV	AJAIB SINGH	01-07-2012
262	14400247L	HAV	ARVIND SINGH	01-04-2012



263	14400406X	HAV	ARVIND SINGH	01-04-2012
264	14400414W	HAV	ASHOK KUMAR	01-04-2012
265	15108367W	HAV	ASIM KUMAR HALDER	01-03-2012
266	14400209P	HAV	ATTAR SINGH	01-03-2012
267	14394819N	HAV	BHAGAT SINGH	01-02-2012
268	15107950Y	HAV	BHATT VIRENDER K A R	01-03-2012
269	14395043M	HAV	DALIP SINGH	01-04-2012
270	14395200N	HAV	DATA RAM	01-08-2012
271	14400643F	HAV	DHAN DEV	01-06-2012
272	14400154W	HAV	DHARAM PAL YADAV	01-03-2012
273	15108158Y	HAV	DHARAMVIR SINGH	01-03-2012
274	15107885K	HAV	DINESH KUMAR SINGH	01-02-2012
275	14400547W	HAV	KRISHNAN G	01-04-2012
276	14395276N	HAV	LILA RAM	01-08-2012
277	14395199K	HAV	MALLANA GOUDA R PATIL	01-08-2012
278	14395511F	HAV	MANOHAR PRASAD	01-08-2012
279	14400188K	HAV	MIRAN HUSSAIN	01-03-2012
280	14395470H	HAV	MUL CHAND SINGH	01-08-2012
281	14395278Y	HAV	NARESH KUMAR	01-03-2012
282	15108320L	HAV	NAVIN CHANDRA	01-02-2012
283	14394825W	HAV	PUSHKAR SINGH LUNTHI	01-03-2012
284	14400227X	HAV	R NANDAGOPALAN	01-07-2012
285	14400651A	HAV	RAGHUBIR SINGH RANA	01-07-2012
286	15110127X	HAV	RAM BARAN	01-03-2012
287	14400202L	HAV	RAMA SRAYA MAHTO	01-04-2012
288	15108446L	HAV	RANBIR SINGH	01-03-2012
289	14399931Y	HAV	SAWARN SINGH	01-03-2012
290	15108325K	HAV	SHIV LAKHAN RAM	01-02-2012
291	14394755H	HAV	SHYAMBIR SINGH	01-04-2012
292	14395074M	HAV	SIMMA RAJA RAO	01-04-2012
293	14395031X	HAV	SUDAMA LAL	01-08-2012
294	14395683W	HAV	SURESH CHANDRA BHOKTA	01-08-2012
295	14395515X	HAV	SUVASH KUMAR SINGH	01-08-2012
296	14398930K	HAV	TALEB ALI	01-07-2012
297	14400663P	HAV	TARSEM SINGH	01-03-2012
298	15108255W	HAV	TRILOCHAN JOSHI	01-04-2012
299	15112507P	HAV	VARINDER KUMAR	01-02-2012
300	15107689K	HAV	VINOD PRASAD	01-04-2012
301	14400468X	HAV	YALAGALA NARAYANA RAO	01-04-2012

**MADRAS ENGINEER GROUP**

302	15305166W	HAV	A ANANDRAJ	01-06-2012
303	15301793L	HAV	A PANEER SELVAM	01-08-2012
304	15301339L	HAV	A SHANMUGAM	01-05-2012
305	15301123K	HAV	ANBALAGAN B	01-03-2012
306	15301190P	HAV	APPUKUTTAN B	01-03-2012
307	15305126P	HAV	ASIRINAIDU KANCHARANA	01-06-2012
308	15304916X	HAV	ATTAR SINGH YADAV	01-05-2012

309	15301359Y	HAV	BALIJA BHASKARA NAIDU	01-05-2012
310	15301305X	HAV	BUDDANA NANAJI	01-04-2012
311	15304660A	HAV	C H RAGAVENDRA RAO	01-02-2012
312	15305367P	HAV	CHACKO PO	01-08-2012
313	15305317K	HAV	CHAI DAMBARAM A	01-08-2012
314	15305042F	HAV	D BABU	01-05-2012
315	15301064H	HAV	D MURALI	01-02-2012
316	15305034H	HAV	DEEPAK PM	01-05-2012
317	15301812L	HAV	EAPANAGANDLA PAKEERAI AH	01-08-2012
318	15301366P	HAV	ELAVARA SAN R	01-05-2012
319	15301349P	HAV	G MURUGAN	01-05-2012
320	15301926W	HAV	G PURUSOTHUMAN	01-08-2012
321	15301537W	HAV	G RATHAKRISHNAN	01-06-2012
322	15302051X	HAV	GANESH DATT	01-02-2012
323	15301293N	HAV	GANGADHARAN PILLAI K	01-04-2012
324	15301440L	HAV	GANJI RAMADASAIAH	01-06-2012
325	15301869A	HAV	GANTTA LAKSHMI REDDY	01-08-2012
326	15305239X	HAV	GIREPPA KAMATAGI	01-07-2012
327	15301505N	HAV	JAGDISH PRASAD	01-06-2012
328	15301167F	HAV	JASVIR SINGH	01-03-2012
329	15305124K	HAV	JOSEPH CRUZ P	01-06-2012
330	15301469N	HAV	K-CHINNABBA	01-06-2012
331	15304926F	HAV	K DANARAJ	01-05-2012
332	15305133L	HAV	K KENALVI AROKIARAJ	01-06-2012
333	15304650W	HAV	K SIRNIVASA RAO	01-02-2012
334	15305098N	HAV	K VENKATAMANI	01-06-2012
335	15301298M	HAV	KANCHUMARTHI SRINIVASA RAO	01-04-2012
336	15301280W	HAV	KOHIRLUTARINAYA REDDY	01-04-2012
337	15301872A	HAV	KOMMUNURI RAJA RAO	01-08-2012
338	15301225A	HAV	KONDETI KASAIAH	01-04-2012
339	15304881M	HAV	KRISHNAN G	01-04-2012
340	15305263N	HAV	M JOHNSON	01-07-2012
341	15301240P	HAV	M THANA BALAN	01-04-2012
342	15305040W	HAV	MATHAI K	01-05-2012
343	15305435X	HAV	MATHAI VM	01-08-2012
344	15304753P	HAV	MEREDDY THIRU PATHI REDDY	01-03-2012
345	15304606M	HAV	MOHANAN AK	01-06-2012
346	15301271P	HAV	MUTHU RAJ L	01-04-2012
347	15301749F	HAV	N THANGARAJU	01-08-2012
348	15307219H	HAV	NAGESWARA RAO JUTURI	01-08-2012
349	15301522N	HAV	NOOKINAIDU KANTAMUREDDY	01-06-2012
350	15305312L	HAV	P MURUGAN	01-08-2012
351	15301730H	HAV	P RAMESH BABU	01-06-2012
352	15301256A	HAV	R MOHAN	01-04-2012
353	15305323X	HAV	R SEKAR	01-08-2012
354	15304767P	HAV	RADHAKRISHNAN PG	01-03-2012
355	15301395K	HAV	RAGHU NATHAN PULLANHIOT	01-05-2012
356	15303428H	HAV	RAJ KUMAR	01-07-2012

357	15301092P	HAV	RAJENDRAN K	01-02-2012
358	15301217F	HAV	RAJENDRAN NAIR MK	01-03-2012
359	15305041Y	HAV	RAVINDRAN A	01-05-2012
360	15305150L	HAV	RK VIJAYASIMHA REDDY	01-06-2012
361	15301061P	HAV	S BRITTO	01-02-2012
362	15305106F	HAV	S JUSTUS	01-06-2012
363	15301886A	HAV	S KUMAR	01-08-2012
364	15301423L	HAV	SAHADEVAN PK	01-05-2012
365	15301635W	HAV	SANGAPPA KALADAGI	01-07-2012
366	15304959M	HAV	SARAVANAN P	01-05-2012
367	15301834K	HAV	SASIDHARAN PILLAI B	01-08-2012
368	15304690X	HAV	SATHEES KUMAR MR	01-03-2012
369	15305284K	HAV	SHAIK CHAND BASHA	01-07-2012
370	15301226H	HAV	SHAIK HIMMANSHA	01-04-2012
371	15302275X	HAV	SIVASANKARAN M	01-06-2012
372	15301965P	HAV	STEEPEN A	01-08-2012
373	15305394Y	HAV	SUBBURAMAN M	01-08-2012
374	15304724A	HAV	SUBHASH G	01-03-2012
375	15301895F	HAV	SURENDRAN KELOTH	01-08-2012
376	15304892Y	HAV	SURENDRAN PILLAI MB	01-05-2012
377	15305346Y	HAV	SURESH KUMAR PV	01-08-2012
378	15305038Y	HAV	SURESH KUMAR V	01-05-2012
379	15301392W	HAV	SYED KHASIM SHAREEF	01-05-2012
380	15301742X	HAV	T CHINNABBA NAIDU	01-07-2012
381	15301662A	HAV	THAMILALAGAN S	01-07-2012
382	15301351M	HAV	V RAMALINGAM	01-05-2012
383	15305103N	HAV	V SADASIVAM	01-06-2012
384	15301845W	HAV	V SELVARAJ	01-08-2012
385	15304786A	HAV	VEERAPPA JADHAV	01-04-2012
386	15301695L	HAV	VENKATESAN C	01-07-2012
387	15301358W	HAV	VIJAYAKUMARAN K	01-05-2012
388	15304848P	HAV	Y MOHAMED SALEEM	01-04-2012

**BENGAL ENGINEER GROUP**

389	1479540F	HAV	ABDUL WAHEED SIDDIQUI	01-05-2012
390	1479747F	HAV	AJAY KUMAR TOMAR	01-04-2012
391	1479668M	HAV	AJAY PRATAP SINGH	01-06-2012
392	1479149K	HAV	AJT SINGH	01-02-2012
393	1479929P	HAV	AKLESH KUMAR	01-08-2012
394	1479280F	HAV	ALGU RAM	01-02-2012
395	1481864L	HAV	AMULYA BARUAH	01-03-2012
396	1479452L	HAV	ANIL KUMAR SINGH	01-04-2012
397	1482090A	HAV	ANIL KUMAR SINGH	01-06-2012
398	1479640M	HAV	ANJANI KUMAR SINGH	01-06-2012
399	1479626A	HAV	ARUP KUMAR DAS	01-06-2012
400	1479428P	HAV	ASHOK KUMAR	01-03-2012
401	1479394M	HAV	ASHOK KUMAR MISHRA	01-03-2012
402	1479859F	HAV	AVTAR SINGH	01-07-2012

403	1479693L	HAV	AVTAR SINGH	01-06-2012
404	1480023W	HAV	BACHU LAL SINGH	01-08-2012
405	1479314K	HAV	BALBIR SINGH	01-03-2012
406	1481867Y	HAV	BALWINDER SINGH	01-03-2012
407	1481857P	HAV	BANSIDHAR BISOYI	01-03-2012
408	1479416A	HAV	BHARAT BHUSHAN MOHANTY	01-03-2012
409	1479295K	HAV	BHARAT PAL SINGH	01-02-2012
410	1482038X	HAV	BHARAT SINGH	01-06-2012
411	1479332M	HAV	BHARAT SINGH	01-03-2012
412	1479587M	HAV	BINNY PRASAD	01-05-2012
413	1479613H	HAV	BIRENDRA NATH SINGH	01-05-2012
414	1479214Y	HAV	BRAHMA DIN	01-02-2012
415	1479216K	HAV	BRAJENDRA SWARUP	01-02-2012
416	1479167M	HAV	BUDDHA DEV CHANDRA	01-02-2012
417	1479924W	HAV	CHANDER BIR SINGH	01-08-2012
418	1479342W	HAV	CHANDRA KAMAL CHETIA	01-03-2012
419	1479372N	HAV	CHHABILA KUMAR NAYAK	01-03-2012
420	1479789N	HAV	CHUNNOO RAM KUSHWAHA	01-07-2012
421	1479753P	HAV	DAN SINGH	01-06-2012
422	1479107X	HAV	DEVENDRA PAL SINGH RAWAT	01-02-2012
423	1479903A	HAV	DEVI SINGH	01-08-2012
424	1479564L	HAV	DHRUV KUMAR PRASAD SINGH	01-05-2012
425	1479645L	HAV	DINESH CHANDRA	01-06-2012
426	1479695W	HAV	DINESH KUMAR MISTRI	01-06-2012
427	1479479H	HAV	DURYODHAN RAI	01-04-2012
428	1479371L	HAV	GAGAN BIHARI SAMAL	01-03-2012
429	1479153M	HAV	GANGA BAHADUR CHHATRI	01-02-2012
430	1479918H	HAV	GIREESH KUMAR T	01-08-2012
431	1482051F	HAV	GOPAL TIWARI	01-06-2012
432	7430713P	HAV	GOPI LAL NAI	01-05-2012
433	1482212Y	HAV	HARI PADA BARMAN	01-08-2012
434	1480071W	HAV	HARI PRASAD VERMA	01-02-2012
435	1479139A	HAV	HARISH SINGH	01-02-2012
436	1479818X	HAV	HARWINDER SINGH	01-07-2012
437	1479369N	HAV	IGNACE TIRKEY	01-03-2012
438	1479624P	HAV	ISHWARI PRASAD	01-06-2012
439	1479471W	HAV	JAGBIR	01-04-2012
440	1479313F	HAV	JAGENDRA SINGH YADAV	01-03-2012
441	1479625X	HAV	JAI KISHAN	01-02-2012
442	1479636K	HAV	JAI PAL SINGH	01-06-2012
443	1479517N	HAV	JAI RAM	01-04-2012
444	1479272H	HAV	JAI RAM	01-02-2012
445	1479923N	HAV	JAYANANDAN K	01-08-2012
446	1479403H	HAV	JUGALA KISHORE PATRA	01-03-2012
447	1479742H	HAV	KAILASH BABU	01-06-2012
448	1480003H	HAV	KAILASH SINGH	01-08-2012
449	1479714W	HAV	KAMESHWAR SINGH	01-06-2012
450	1479826W	HAV	KAMLESH KUMAR CHAUDHARY	01-07-2012

451	1479473F	HAV	KANT LAL MANDAL	01-04-2012
452	1479569K	HAV	KARAM CHAND	01-05-2012
453	1479842N	HAV	KARM CHAND	01-07-2012
454	1479686P	HAV	KARTAR SINGH	01-06-2012
455	1480812H	HAV	KESHER SINGH	01-05-2012
456	1479983H	HAV	KHUSHI RAM	01-08-2012
457	1479900M	HAV	KISHORI LAL	01-08-2012
458	1479511M	HAV	KRISHNA DHAN GHOSH	01-04-2012
459	1479221P	HAV	KRISHNA KUMAR YADAV	01-02-2012
460	1479435L	HAV	KULWANT SINGH	01-03-2012
461	1479405N	HAV	KULWINDER SINGH	01-03-2012
462	1479475M	HAV	KUTTIMA DEVA RAJU	01-04-2012
463	1479748K	HAV	LABH SINGH	01-06-2012
464	1479301M	HAV	MADAN SINGH	01-02-2012
465	1479293Y	HAV	MAHARAJ SINGH	01-02-2012
466	1480013M	HAV	MAHENDRA RAM	01-08-2012
467	1479715Y	HAV	MANGE RAM	01-06-2012
468	1479189L	HAV	MANGLA PRASAD MISHRA	01-02-2012
469	1480033A	HAV	MARUTI SHRI RANG KADAM	01-08-2012
470	1479850M	HAV	MAYA ORAON	01-07-2012
471	1481871F	HAV	MAYADHAR MAHANTA	01-03-2012
472	1479666F	HAV	MILAP SINGH	01-06-2012
473	1479553Y	HAV	MOHINDER SINGH	01-05-2012
474	1479285A	HAV	MUKESH KUMAR	01-02-2012
475	1479168P	HAV	MUKESH KUMAR	01-02-2012
476	1479552W	HAV	MUNESH KUMAR	01-05-2012
477	1479378P	HAV	MUNNA PRASAD YADAV	01-03-2012
478	1479496H	HAV	NABI NAWAZ	01-04-2012
479	1577074N	HAV	NAND SINGH	01-07-2012
480	1479391Y	HAV	NARENDRA KUMAR	01-03-2012
481	1479829K	HAV	NIKHIL CHANDRA BISWAS	01-07-2012
482	1479843W	HAV	NOEL MUNDU	01-07-2012
483	1479629N	HAV	PAWAN KUMAR	01-06-2012
484	1479956Y	HAV	PAWANJIT	01-08-2012
485	1479218P	HAV	POBON HAZARIKA	01-02-2012
486	1479760L	HAV	PRABAL SINGH	01-06-2012
487	1479158L	HAV	PRAHLAD SINGH	01-02-2012
488	1479568F	HAV	PRAHLAD SINGH	01-05-2012
489	1479565N	HAV	PRAHLAD YADAV	01-05-2012
490	1479257N	HAV	PRATAP GIRI GOSWAMY	01-02-2012
491	1482154A	HAV	PRATAP SINGH	01-02-2012
492	1479649K	HAV	PRATAP SINGH	01-04-2012
493	1479427M	HAV	PURAN SINGH	01-03-2012
494	1479881M	HAV	PURSHOTAM LAL	01-08-2012
495	1479164Y	HAV	PURUSHOTTAM KUMAR SINGH	01-02-2012
496	1480021L	HAV	R RAJAMANICKAM	01-08-2012
497	1479630H	HAV	RABINDRA KUMAR NAYAK	01-06-2012
498	1479327F	HAV	RAJ KUMAR LAWANIA	01-03-2012

499	1479441Y	HAV	RAJ KUMAR SINGH YADAV	01-03-2012
500	1479824L	HAV	RAJAT BORAH	01-07-2012
501	1482207N	HAV	RAJIV PANJAN RAI	01-08-2012
502	1479432X	HAV	RAJVIR	01-03-2012
503	1479819A	HAV	RAM BAHOR GADARIA	01-07-2012
504	1479243N	HAV	RAM GOPAL	01-02-2012
505	1481921F	HAV	RAM KISHOR SINGH	01-04-2012
506	1479197K	HAV	RAM NAGINA SINGH	01-02-2012
507	1479456F	HAV	RAM NARAYAN	01-04-2012
508	1479266P	HAV	RAM NARESH RAM	01-02-2012
509	1479395P	HAV	RAM NIWAS	01-03-2012
510	1481965Y	HAV	RAM PRAKASH SINGH	01-05-2012
511	1479943F	HAV	RAM RATAN	01-08-2012
512	1479283P	HAV	RAM SHINGAR PANDIT	01-02-2012
513	1480041Y	HAV	RAMAYAN JI	01-08-2012
514	1479215F	HAV	RAMENDRA PRATAP SINGH	01-02-2012
515	1479101W	HAV	RAMESHWAR SINGH	01-02-2012
516	1479741A	HAV	RANJIT	01-06-2012
517	1479458M	HAV	RANJIT SINGH	01-04-2012
518	1481922K	HAV	RAVI PRATAP SINGH	01-04-2012
519	1480019N	HAV	RAVINDAR KUMAR	01-08-2012
520	1479288N	HAV	RAVINDER KUMAR	01-02-2012
521	1482049K	HAV	RAVINDER SINGH	01-06-2012
522	1479678W	HAV	SAJJAN KUMAR	01-06-2012
523	1479284X	HAV	SANT LAL	01-02-2012
524	1479286H	HAV	SARVESH KUMAR	01-02-2012
525	1479970L	HAV	SATISH CHANDRA KHANTWAL	01-08-2012
526	1479291N	HAV	SATISH KUMAR CHAUHAN	01-02-2012
527	1479299A	HAV	SATYAVEER SINGH	01-02-2012
528	1480412W	HAV	SHAILESH KUMAR SINGH	01-05-2012
529	1479411F	HAV	SHANKARA YK	01-03-2012
530	1479270X	HAV	SHATRUGHAN RAM	01-02-2012
531	1481842M	HAV	SHIV CHANDRA MISHRA	01-03-2012
532	1479358F	HAV	SHIV RAM	01-03-2012
533	1479384H	HAV	SHIWAJI SINGH	01-03-2012
534	1479820P	HAV	SIBA RAM MEDHI	01-07-2012
535	1481777X	HAV	SIKENDER SINGH	01-02-2012
536	1479455Y	HAV	SIYA RAM	01-04-2012
537	1479927K	HAV	SOHAL LAL	01-08-2012
538	1482258F	HAV	SOHAN SINGH	01-08-2012
539	1479104K	HAV	SUBHASH RAI	01-02-2012
540	1479604F	HAV	SUDAMA YADAV	01-05-2012
541	1479825N	HAV	SUDHIR KUMAR SHARMA	01-07-2012
542	1481794X	HAV	SUKHCHAIN SINGH	01-02-2012
543	1479175L	HAV	SUKHDEV GHOSH	01-02-2012
544	1481823F	HAV	SUNIL DATT PANDEY	01-02-2012
545	1479890N	HAV	SURESH CHAND	01-08-2012
546	1479716F	HAV	SURESH PAL	01-06-2012

547	1479470N	HAV	SWADHIN HALDAR	01-04-2012
548	1479633W	HAV	VIJDEV SINGH NEGI	01-06-2012
549	1479933X	HAV	VIJAI PRAKASH SINGH	01-08-2012
550	1479454W	HAV	VIJAY KUMAR SINGH	01-04-2012
551	1479136M	HAV	VINOD KUMAR	01-02-2012
552	1482064Y	HAV	VINOD KUMAR	01-06-2012
553	1479696Y	HAV	VINOD KUMAR SHARMA	01-06-2012
554	1479095N	HAV	VIRENDRA KUMAR	01-02-2012

**BOMBAY ENGINEER GROUP**

555	1577187W	HAV	AMAR SINGH	01-08-2012
556	1576863N	HAV	AMARJIT SINGH	01-04-2012
557	1577151X	HAV	ANIL KUMAR TIWARI	01-08-2012
558	1576817Y	HAV	BALDEEP SINGH	01-04-2012
559	1576779N	HAV	BALDEV SINGH	01-03-2012
560	1576960L	HAV	BALJIT RAM	01-05-2012
561	1576780H	HAV	BHAN SINGH	01-03-2012
562	1576936P	HAV	BHOGE FULCHAND DNYANDEO	01-05-2012
563	1577181P	HAV	BRIJENDRA PRATAP SINGH	01-08-2012
564	1576687F	HAV	DHANERAO ARJUN GANPATI	01-03-2012
565	1577180M	HAV	DHANPAT SINGH	01-08-2012
566	1576731A	HAV	GEJA SINGH	01-03-2012
567	15107903F	HAV	GULAB RAI	01-02-2012
568	1577162K	HAV	GYAN CHAND	01-08-2012
569	1579503H	HAV	HAJARAT ALI	01-04-2012
570	1576484X	HAV	HOWAL SANJAY KUMAR B	01-02-2012
571	1577040A	HAV	ISRAIL KHAN	01-06-2012
572	1576842X	HAV	JAGDISH SINGH	01-04-2012
573	1576654W	HAV	JAGJIT SINGH	01-03-2012
574	1576841P	HAV	JAI PRAKASH	01-04-2012
575	1576619N	HAV	JANESWAR DAS	01-03-2012
576	1576674K	HAV	JASWANT SINGH	01-03-2012
577	1577275M	HAV	JETHVA MAGANLAL RATNA	01-08-2012
578	1579225A	HAV	K JAYA KUAMR	01-02-2012
579	1576998P	HAV	KARAM SINGH	01-06-2012
580	1577969M	HAV	KULDIP RAJ	01-05-2012
581	1576852F	HAV	KULDIP SINGH	01-04-2012
582	1577126Y	HAV	LALLU RAM	01-08-2012
583	1576989N	HAV	MAHENDRA PAL SINGH	01-05-2012
584	1576930N	HAV	MALIWAD JUVAN BHAI R	01-05-2012
585	1576778L	HAV	MANJEET SINGH	01-03-2012
586	1576898K	HAV	MD YASIN	01-04-2012
587	1577077F	HAV	MOHAMMAD SALEEM	01-07-2012
588	1576659P	HAV	MOHINDER SINGH	01-03-2012
589	1579434X	HAV	NADIM AKHTAR	01-04-2012
590	1576639F	HAV	NATHU LAL	01-03-2012
591	1577045Y	HAV	OM PRAKASH	01-06-2012
592	1577283L	HAV	PATIL MAHADEV VISHWANATH	01-08-2012

593	1577104A	HAV	PATIRAJ RAM	01-08-2012
594	1577115M	HAV	RAJENDER SINGH	01-08-2012
595	1577195P	HAV	RAJINDER KUMAR	01-08-2012
596	1576788P	HAV	RAJWINDER SINGH	01-03-2012
597	1577226K	HAV	RAM KISHAN	01-08-2012
598	1577267N	HAV	RAM KRISHAN	01-08-2012
599	1576515M	HAV	RAVINDER UMAR BABARAO T	01-02-2012
600	1576580M	HAV	SATHE BAJRANG CHANGADEO	01-02-2012
601	1579210X	HAV	SATISH CHANDRA	01-02-2012
602	1577201X	HAV	SHIV CHARAN	01-08-2012
603	1579193H	HAV	SUGRIW SINGH	01-02-2012
604	1576799F	HAV	SUKHWANT SINGH	01-03-2012
605	1576924A	HAV	SUKHWINDER SINGH	01-05-2012
606	1577259P	HAV	SUNDER SINGH	01-08-2012
607	15108541X	HAV	SURESH KUMAR	01-04-2012
608	1576566A	HAV	SURINDER SINGH	01-02-2012
609	1577020M	HAV	SURMUKH SINGH	01-06-2012
610	1576772K	HAV	SURYAVANSHI B J S	01-03-2012
611	1577202A	HAV	SWINDER SINGH	01-08-2012
612	1576581P	HAV	TIKONE VITHOBA DEO RAM	01-02-2012
613	1577064K	HAV	UPENDRA KUMAR	01-06-2012
614	1576904M	HAV	USMAN	01-04-2012
615	1577041H	HAV	VED PRAKASH PATHAK	01-06-2012

**CORPS OF SIGNALS**

616	15363632L	HAV	A RAMA MOORTHY	01-04-2012
617	15353767Y	HAV	ABBASBEG PANARI	01-05-2012
618	15352159L	HAV	ABDUL MANNAN LASKAR	01-03-2012
619	15353678A	HAV	ABDUL MATIN LASKAR	01-05-2012
620	15352587K	HAV	ADADHESH SINGH	01-03-2012
621	15353430W	HAV	AKHLESH KUMAR NIRANJAN	01-04-2012
622	15352171M	HAV	AKSHAYA KUMAR PRADHAN	01-03-2012
623	15352669M	HAV	ALAUDDIN BARBHUIYA	01-04-2012
624	15351711N	HAV	AMAR NATH	01-03-2012
625	15351321L	HAV	AMAR SINGHJ	01-02-2012
626	15353240K	HAV	AMIT KUMAR MANDAL	01-04-2012
627	15363753M	HAV	AMOD KUMAR SAGAR	01-04-2012
628	15353314N	HAV	AMRIT CHANDRA DAS	01-04-2012
629	15354695M	HAV	ANAND K P	01-07-2012
630	15364986A	HAV	ANIL	01-06-2012
631	15364233N	HAV	ANIL KUMAR SINGH	01-04-2012
632	15352293W	HAV	ANIRUDDHA SINGH	01-03-2012
633	15352566N	HAV	ANJANI KUMAR PANDEY	01-04-2012
634	15355004F	HAV	ANUKUL KUMAR NATH	01-08-2012
635	15353967P	HAV	ARUN KUMAR	01-06-2012
636	15353097H	HAV	ARUN KUMAR	01-04-2012
637	15351705A	HAV	ARUNA PRAKASH BEHERA	01-03-2012
638	15365295A	HAV	ASHOK KUMAR	01-07-2012



639	15364426N	HAV	ASHOK KUMAR	01-05-2012
640	15354670A	HAV	ASHOK KUMAR CHAUDHARY	01-08-2012
641	15354494N	HAV	ASHOK KUMAR SINGH	01-07-2012
642	15351333A	HAV	ASHOK KUMAR V M	01-02-2012
643	15364062M	HAV	ASHOK KUMAR YADAV	01-04-2012
644	15362026H	HAV	ASTIK KUMAR BANERJEE	01-03-2012
645	15351973K	HAV	ATAR SINGH	01-03-2012
646	15351486K	HAV	ATAULLA	01-02-2012
647	15352337H	HAV	ATMA NAND SINGH	01-04-2012
648	15351903L	HAV	AVADHESH KUMAR SINGH	01-03-2012
649	15352317P	HAV	AWADHESH PRASAD SINGH	01-03-2012
650	15352267P	HAV	AWADHESH SINGH	01-03-2012
651	15351104P	HAV	AYODHYA PRASAD	01-02-2012
652	15353257X	HAV	B K SHRIVASTAVA	01-04-2012
653	15353990H	HAV	B KAUTIK VISHWANATH	01-06-2012
654	15365292M	HAV	B MOHAMED ISMAIL	01-07-2012
655	15351964H	HAV	B SHANKAR SANMBARIYA	01-03-2012
656	15353603H	HAV	BABLU KUMAR HAZRA	01-05-2012
657	15352713L	HAV	BABU K V	01-04-2012
658	15361979Y	HAV	BABU LAL GUJJAR	01-03-2012
659	15355018F	HAV	BABU RAM GATUWAR	01-08-2012
660	15366000L	HAV	BABU RAM MOHNATY	01-08-2012
661	15365164P	HAV	BABY D	01-07-2012
662	15361838K	HAV	BADE RAJU BABU RAO	01-02-2012
663	15361186W	HAV	BADGUJAR DILIP NARAYAN	01-02-2012
664	15354491A	HAV	BAGLA KANT MUKHERJEE	01-07-2012
665	15361509N	HAV	BAGUL RAJENDRA BHILA	01-02-2012
666	15352510F	HAV	BAHARUDDIN BARBHUIYA	01-04-2012
667	15353216N	HAV	BAL KISHAN	01-04-2012
668	15362900X	HAV	BALACHANDRAN NAIR M P	01-04-2012
669	15351475X	HAV	BASHIR AHMED	01-02-2012
670	15352307L	HAV	BHAG RASHAN PRASAD	01-03-2012
671	15353475W	HAV	BHAGABAN BHANJA	01-04-2012
672	15354520K	HAV	BHAGAWATI RAM	01-07-2012
673	15355111H	HAV	BHAGIRATHI GIRI	01-08-2012
674	15365941M	HAV	BHAGOJI PATIL	01-08-2012
675	15353714A	HAV	BHAGYA PRAKASH MISRA	01-04-2012
676	15354028Y	HAV	BHARAT SINGH	01-06-2012
677	15364882Y	HAV	BHARAT SINGH	01-06-2012
678	15352707X	HAV	BHARIGU NATH MISHRA	01-04-2012
679	15361444L	HAV	BHASURAN K	01-02-2012
680	15353432F	HAV	BHUPAL SINGH ADHIKARI	01-04-2012
681	15354931H	HAV	BHUPENDER SINGH	01-08-2012
682	15365442X	HAV	BIDYUT CHATTOPADHYAY	01-07-2012
683	15365393A	HAV	BIHARI LAL SHARMA	01-07-2012
684	15351178K	HAV	BIJAY KUMAR THAKUR	01-02-2012
685	15354567P	HAV	BIJAYA CHANDRA SAHU	01-07-2012
686	15351980A	HAV	BIJENDRA PAL	01-03-2012

687	15351144W	HAV	BIJENDRA PAL SINGH	01-02-2012
688	15353441H	HAV	BINOD PRASAD YADAV	01-04-2012
689	15354687N	HAV	BIR PAL	01-07-2012
690	15365255Y	HAV	BOLIN BORAH	01-07-2012
691	15363041K	HAV	C LARENCE	01-04-2012
692	15351249A	HAV	C M PRASAD PATEL	01-02-2012
693	15354721H	HAV	C N BHAI PILJI BHAI	01-08-2012
694	15362940Y	HAV	C R SADASHIV	01-04-2012
695	15365424P	HAV	CHAMAN LAL	01-07-2012
696	15364466P	HAV	CHAND RAM	01-03-2012
697	15351527H	HAV	CHANDRASENAN K	01-02-2012
698	15353341X	HAV	CHATAR SINGH	01-04-2012
699	15363496A	HAV	CHAVAN SANJAY BHIVA	01-04-2012
700	15352270P	HAV	D P CHOUDHARY	01-03-2012
701	15351624A	HAV	DADAN SINGH	01-02-2012
702	15352807H	HAV	DAL CHAND JAT	01-04-2012
703	15353736Y	HAV	DAN SINGH KATHAYAT	01-05-2012
704	15351676W	HAV	DANDA RAMANA MURTY	01-02-2012
705	15350985M	HAV	DAVANDRA SINGH PARIHAR	01-02-2012
706	15353192P	HAV	DAYA PRASAD	01-04-2012
707	15353470X	HAV	DEBENDRANATH SUTAR	01-04-2012
708	15353422X	HAV	DEOMUNI RAM	01-04-2012
709	15364959W	HAV	DESH RAJ	01-06-2012
710	15364864W	HAV	DEV SAHAY	01-06-2012
711	15362616F	HAV	DEVADAS N	01-04-2012
712	15362483W	HAV	DEVARAJ C	01-03-2012
713	15354332H	HAV	DEVENDER SINGH	01-07-2012
714	15352617W	HAV	DEVI KUMAR DAS	01-04-2012
715	15351307Y	HAV	DEVINDER SINGH	01-02-2012
716	15352053Y	HAV	DHANVIR SINGH	01-03-2012
717	15363284P	HAV	DHARMVEER	01-04-2012
718	15353232L	HAV	DILIP CHANDRA GOGOI	01-04-2012
719	15350986P	HAV	DINESH KUMAR	01-02-2012
720	15362727Y	HAV	DINESH KUMAR SHARMA	01-03-2012
721	15364836K	HAV	DINESH KUMAR VERMA	01-04-2012
722	15353657K	HAV	DINESH PANDEY	01-04-2012
723	15351251X	HAV	DINESH PRASAD MISHRA	01-02-2012
724	15353926L	HAV	DORAIRAJ K	01-06-2012
725	15351696K	HAV	DURGA PRASAD MOURYA	01-03-2012
726	15354158F	HAV	ENAOBI SINGHA	01-06-2012
727	15352834M	HAV	FATUL GHOSH	01-04-2012
728	15361096P	HAV	G B VINAYAK	01-02-2012
729	15363197F	HAV	G D EKANATH	01-04-2012
730	15354385F	HAV	GADI RAMANA	01-07-2012
731	15354552M	HAV	GAJENDRA SINGH	01-07-2012
732	15361643Y	HAV	GANAPATI HEGDE	01-02-2012
733	15351130W	HAV	GANESH SHANKER	01-02-2012
734	15364967P	HAV	GEEVAN M A	01-06-2012

735	15361634X	HAV	GIJIMON THANKAPPEN	01-02-2012
736	15352768P	HAV	GIREESH KUMAR N	01-04-2012
737	15362807W	HAV	GOPAL JEE SINGH	01-04-2012
738	15361632M	HAV	GOPINADHAN PILLAI B	01-02-2012
739	15351185A	HAV	GUN SAGAR YADAV	01-02-2012
740	15352271X	HAV	GUPTESHWAR NATH PRASAD	01-03-2012
741	15351979L	HAV	GYAN SINGH YADAV	01-03-2012
742	15354815A	HAV	HANUMAN PRASAD	01-08-2012
743	15363372L	HAV	HAR CHANDI	01-04-2012
744	15361034P	HAV	HAR NARAIN	01-02-2012
745	15354020M	HAV	HARI LAL	01-06-2012
746	15352054F	HAV	HARI SINGH	01-03-2012
747	15365342M	HAV	HEM RAJ	01-06-2012
748	15352660X	HAV	HUNDI LAL	01-04-2012
749	15361941P	HAV	HURDA NAND BISWAL	01-02-2012
750	15363220K	HAV	INDRAJ SINGH	01-04-2012
751	15352856L	HAV	ISHWAR CHANDRA SHARMA	01-04-2012
752	15363941N	HAV	JABBAR HUSHIN	01-04-2012
753	15361248L	HAV	JADHAV DILIP SHIVAJI	01-02-2012
754	15351968Y	HAV	JAG RAM	01-03-2012
755	15353889H	HAV	JAGDISH PRASAD YADAV	01-06-2012
756	15354947N	HAV	JAGDISH RAI	01-08-2012
757	15352002L	HAV	JAGDISH SINGH YADAV	01-03-2012
758	15353356A	HAV	JAGESHWAR PRASAD	01-04-2012
759	15363097W	HAV	JAGESWAR GUPTA	01-04-2012
760	15365390M	HAV	JAI PAL	01-07-2012
761	15363221M	HAV	JALAM SINGH JADON	01-04-2012
762	15362920L	HAV	JAMINI K V	01-04-2012
763	15362581W	HAV	JASWANT	01-03-2012
764	15351320H	HAV	JAWAHAR	01-02-2012
765	15363387N	HAV	JAWAHAR SINGH	01-04-2012
766	15364158P	HAV	JAWANJAL VIJAY DADARAO	01-04-2012
767	15353618L	HAV	JEET SINGH	01-04-2012
768	15354625N	HAV	JEEWAN RAM	01-05-2012
769	15363042M	HAV	JEYA KUMAR S	01-04-2012
770	15352819X	HAV	JHUNTHA RAM GUJAR	01-04-2012
771	15352390N	HAV	JITENDRA BAHADUR SINGH	01-04-2012
772	15352241A	HAV	JITENDRA KUMAR	01-03-2012
773	15353839X	HAV	JIYANAND	01-06-2012
774	15361617X	HAV	JOY G	01-02-2012
775	15355021F	HAV	JOYDEB SAMDDAR	01-08-2012
776	15361962L	HAV	JULIUS KUJUR	01-03-2012
777	15354478W	HAV	JUNAGARE BAABN APPA	01-07-2012
778	15352077H	HAV	K D PRASAD YADAV	01-03-2012
779	15362887Y	HAV	K GANGADHARAN	01-04-2012
780	15362088H	HAV	K GOPAL RAM	01-03-2012
781	15365799N	HAV	K JAGANNA' TH DIGHE	01-08-2012
782	15364935M	HAV	K JEYABAL	01-06-2012

783	15362987K	HAV	K K PURANALAL	01-04-2012
784	15351942K	HAV	K P MISHRA	01-03-2012
785	15357611Y	HAV	K R GANAPATI	01-03-2012
786	15363733Y	HAV	K S BAPUSAHEB	01-04-2012
787	15365949Y	HAV	K S MAHADEVAPPA	01-08-2012
788	15363448A	HAV	KADAM DADASHEB DNYANU	01-04-2012
789	15352115N	HAV	KAILASH PRASAD	01-03-2012
790	15354470K	HAV	KAMESHWAR	01-07-2012
791	15354500W	HAV	KAMLESH KUMAR	01-07-2012
792	15353000M	HAV	KAMLESH PANDEY	01-04-2012
793	15354648P	HAV	KANI RAM KASWAN	01-07-2012
794	15352559X	HAV	KANWAR RAJ SINGH	01-04-2012
795	15354923K	HAV	KARAM SINGH	01-08-2012
796	15352008M	HAV	KARAN SINGH	01-03-2012
797	15353442L	HAV	KARTIK PASWAN	01-04-2012
798	15365180M	HAV	KASHMIR SINGH	01-07-2012
799	15353652L	HAV	KASTURAM MAHANTA	01-04-2012
800	15354838F	HAV	KEDARNATH SAHU	01-08-2012
801	15352431M	HAV	KELASH CHAND	01-04-2012
802	15355752P	HAV	KISHUN SINGH	01-04-2012
803	15363194N	HAV	KRIPA SHANKER SAHU	01-04-2012
804	15352245W	HAV	KRISHAN KUMAR	01-03-2012
805	15351373F	HAV	KRISHAN KUMAR	01-02-2012
806	15354216A	HAV	KRISHNAMURTHY V	01-06-2012
807	15351706H	HAV	KULBUSHAN SINGH	01-03-2012
808	15363901M	HAV	KULDEEP SINGH	01-04-2012
809	15363578H	HAV	L S SAKHRAM	01-04-2012
810	15365458H	HAV	LAL MANI	01-07-2012
811	15351584K	HAV	LAL SINGH	01-02-2012
812	15361858X	HAV	LAL VR	01-02-2012
813	15353686Y	HAV	LALA RAM VERMA	01-04-2012
814	15354664M	HAV	LAXMIDHAR MAHANTA	01-07-2012
815	15353148L	HAV	LEELA RAM	01-04-2012
816	15363456Y	HAV	M DAYANAND MARUTI	01-04-2012
817	15363487Y	HAV	M N KASHINATH	01-04-2012
818	15363675A	HAV	M RUSSEL RAJ	01-04-2012
819	15354753L	HAV	MADAN LAL	01-08-2012
820	15351242W	HAV	MADE ANANT GOVIND RAO	01-02-2012
821	15362353N	HAV	MAHAMMADYAHIALI SHAIK	01-03-2012
822	15353840M	HAV	MAHENDRA SINGH	01-06-2012
823	15361283N	HAV	MAHESH KUMAR CHOUDHARY	01-02-2012
824	15354859X	HAV	MAHESH PRASAD SINGH	01-08-2012
825	15354281A	HAV	MAN SINGH	01-07-2012
826	15353340P	HAV	MANMOHAN SINGH	01-04-2012
827	15364757P	HAV	MANOJ KUMAR SINGH	01-04-2012
828	15354089W	HAV	MATHU T	01-06-2012
829	15353495K	HAV	MD SHAFI ALAM ANSARI	01-04-2012
830	15362761Y	HAV	MOHAMMAD HABEEBULLA	01-04-2012

831	15354807F	HAV	MOHD ABDULAH GANNIE	01-08-2012
832	15365072H	HAV	MOHD SAHOOD	01-07-2012
833	15364358L	HAV	MOHINDER SINGH	01-05-2012
834	15352978P	HAV	MOHINDER SINGH	01-04-2012
835	15353718W	HAV	MOHINDER SINGH	01-04-2012
836	15361821W	HAV	MORE ARUN KISAN	01-02-2012
837	15363983A	HAV	MORE DIPAK BALARAM	01-04-2012
838	15353334F	HAV	MUKESH KUMAR TYAGI	01-04-2012
839	15365385F	HAV	MUKKARA NAGESWAR REDDY	01-07-2012
840	15363706P	HAV	MUKUT SINGH	01-04-2012
841	15352561P	HAV	MUNENDRA PRASAD	01-04-2012
842	15354762M	HAV	MUNSHI RAM YADAV	01-08-2012
843	15365611N	HAV	N ANBALAGAN	01-07-2012
844	15361114M	HAV	N M ANANDA RAO	01-02-2012
845	15353532M	HAV	NABA KUMAR SHARMA	01-04-2012
846	15364620H	HAV	NAND GOPAL SINGH	01-05-2012
847	15361258P	HAV	NAND LAL SINGH	01-02-2012
848	15351508X	HAV	NANDLAL YADAV	01-02-2012
849	15351534Y	HAV	NANS RAJ MEENA	01-02-2012
850	15352068F	HAV	NARAYAN SINGH	01-03-2012
851	15354378L	HAV	NAREN BORA	01-07-2012
852	15363626X	HAV	NARESH KUMAR	01-04-2012
853	15365668H	HAV	NAVIN CHANDER JOSHI	01-07-2012
854	15351667P	HAV	NETRA SINGH	01-02-2012
855	15351900X	HAV	NITAY SAHA	01-03-2012
856	15352191A	HAV	OM PARKASH	01-03-2012
857	15365902N	HAV	OM PRAKASH	01-08-2012
858	15351858K	HAV	OM PRAKASH SHARMA	01-02-2012
859	15361667H	HAV	OM PRAKASH SINGH	01-02-2012
860	15351138H	HAV	OMPAL SINGH	01-02-2012
861	15351139L	HAV	ONKAR SINGH	01-02-2012
862	15361802L	HAV	P B RAMCHANDRA	01-02-2012
863	15363999L	HAV	P JALINDAR G	01-04-2012
864	15351562L	HAV	P RAJENDRA BABU RAO	01-02-2012
865	15353461W	HAV	P RAMESH	01-04-2012
866	15365275M	HAV	P S KUMAR JETHALAL	01-07-2012
867	15351086X	HAV	P V RAMANA RAO	01-02-2012
868	15352391W	HAV	PANCHANAND MISHRA	01-04-2012
869	15362709W	HAV	PARAB ARUN HARI	01-03-2012
870	15353639F	HAV	PARAMANANDA PANDA	01-04-2012
871	15363366X	HAV	PARDEEP KUMAR	01-04-2012
872	15361942X	HAV	PARVAT KUMAR ROUT	01-02-2012
873	15351796P	HAV	PAWAN KUMAR	01-03-2012
874	15351501N	HAV	PAWAN SINGH	01-02-2012
875	15363500X	HAV	PAWAR LAXMAN RANGNATH	01-04-2012
876	15353677X	HAV	PITAM SINGH	01-05-2012
877	15354632K	HAV	POWAN KUMAR	01-07-2012
878	15353114X	HAV	PRABHASH KUMAR	01-04-2012

879	15351279X	HAV	PRABHAT CHAND	01-02-2012
880	15365755W	HAV	PRAKASH MOHAN TIWARY	01-08-2012
881	15352939W	HAV	PRAMOD KUMAR N	01-04-2012
882	15353796N	HAV	PRAVEEN KUMAR T	01-06-2012
883	15361281H	HAV	PRAVIN KUMAR UPADHYAY	01-02-2012
884	15351791W	HAV	PURSHOTTAM	01-03-2012
885	15363313Y	HAV	PUSHPENDRA KUMAR	01-04-2012
886	15362777K	HAV	R GOVIND VISHWANATH	01-04-2012
887	15354993H	HAV	RABINDRA KUMAR SINGH	01-08-2012
888	15354429N	HAV	RABINDRA SINGH	01-07-2012
889	15354532Y	HAV	RADHA KRISHNA PILLAI C	01-07-2012
890	15361580F	HAV	RADHAKRISHNA G	01-02-2012
891	15352447X	HAV	RADHE SHYAM	01-04-2012
892	15365042L	HAV	RADHEY SHYAM	01-07-2012
893	15353457N	HAV	RAJ KRUSHNA MAHARANA	01-04-2012
894	15354789K	HAV	RAJ KUMAR	01-08-2012
895	15352656P	HAV	RAJ KUMAR SHARMA	01-04-2012
896	15352569F	HAV	RAJ LALAN GAUTAM	01-04-2012
897	15354165F	HAV	RAJ NATH SINGH	01-06-2012
898	15363090M	HAV	RAJ PAL	01-04-2012
899	15353754F	HAV	RAJENDRA KUMAR	01-05-2012
900	15353554L	HAV	RAJENDRA PANIGRAHI	01-04-2012
901	15352646L	HAV	RAJENDRA SINGH	01-04-2012
902	15365286Y	HAV	RAJESH D	01-07-2012
903	15351834A	HAV	RAJESH KUMAR YADAV	01-03-2012
904	15363665W	HAV	RAJI K P	01-04-2012
905	15351469K	HAV	RAJINDER KUMAR	01-02-2012
906	15352412F	HAV	RAJINDER SINGH	01-04-2012
907	15364137Y	HAV	RAJKUMAR THAKUR	01-03-2012
908	15354619A	HAV	RAJPAL SINGH	01-07-2012
909	15352052W	HAV	RAJPUT SINGH	01-03-2012
910	15352240X	HAV	RAKESH KUMAR	01-03-2012
911	15354430H	HAV	RAKESH KUMAR SAXENA	01-07-2012
912	15351729K	HAV	RAM AWADHESH SINGH	01-02-2012
913	15353363W	HAV	RAM BILASH SINGH	01-04-2012
914	15353622N	HAV	RAM CHANDER	01-05-2012
915	15351914X	HAV	RAM GIRI	01-03-2012
916	15361775M	HAV	RAM KARAN SINGH	01-02-2012
917	15353986A	HAV	RAM KESHWAR PRASAD	01-06-2012
918	15351719A	HAV	RAM KRIPAL SINGH	01-02-2012
919	15365315H	HAV	RAM KUMAR	01-06-2012
920	15352044X	HAV	RAM KUMAR YADAV	01-03-2012
921	15353775X	HAV	RAM MURAT YADAV	01-05-2012
922	15351480H	HAV	RAM NARESH	01-02-2012
923	15352501A	HAV	RAM NIWAS	01-04-2012
924	15362592H	HAV	RAM NIWAS	01-04-2012
925	15352178W	HAV	RAMA KANT YADAV	01-03-2012
926	15363376F	HAV	RAMBIR SINGH	01-04-2012

927	15361672N	HAV	RAMDEV MALI	01-02-2012
928	15351526A	HAV	RAMESAN L	01-02-2012
929	15351786L	HAV	RAMESH CHAND	01-03-2012
930	15353849F	HAV	RAMESH KUMAR	01-06-2012
931	15354164P	HAV	RAMESH SINGH YADAV	01-06-2012
932	15352675A	HAV	RAMESHWAR DAYAL	01-04-2012
933	15362699X	HAV	RAMLAL PATEL	01-03-2012
934	15364026F	HAV	RAMVIR SINGH	01-04-2012
935	15353086W	HAV	RANBIR SINGH	01-04-2012
936	15352564H	HAV	RANJEET SINGH	01-04-2012
937	15353440A	HAV	RANJIT KARMAKAR	01-04-2012
938	15353778L	HAV	RATAN SINHA	01-04-2012
939	15365205N	HAV	RAVI KUMAR M	01-07-2012
940	15354524A	HAV	RAVINDRA KUMAR	01-07-2012
941	15351582Y	HAV	RESHAM SINGH	01-02-2012
942	15362390F	HAV	S B SAHEB POPAT	01-03-2012
943	15353632X	HAV	S K MAHAKUR	01-04-2012
944	15363637K	HAV	S KISHORE	01-04-2012
945	15351920L	HAV	S R RAMANA RAJU	01-03-2012
946	15354724W	HAV	S S SADANAND	01-08-2012
947	15352593X	HAV	S VIJAYA KUMARAN	01-04-2012
948	15352081L	HAV	SACHIDA NAND YADAV	01-03-2012
949	15365115M	HAV	SAJU B S	01-07-2012
950	15365138N	HAV	SALEEB A	01-07-2012
951	15365905F	HAV	SANDEEP KUMAR	01-08-2012
952	15352079N	HAV	SANJAY KUMAR SINGH	01-03-2012
953	15364975N	HAV	SANJEEV KUMAR B	01-06-2012
954	15351401H	HAV	SANTOSH KUMAR SINGH	01-02-2012
955	15362969F	HAV	SANTOSH KUMAR YADAV	01-04-2012
956	15361664P	HAV	SANTOSH KUMAR YADAW	01-02-2012
957	15352226L	HAV	SARAT KUMAR BARIK	01-03-2012
958	15354289M	HAV	SARBATI LAL	01-07-2012
959	15353997M	HAV	SASI KUMAR T P	01-06-2012
960	15352308N	HAV	SATENDRA PRASAD	01-03-2012
961	15363265K	HAV	SATYA NAYAIN	01-04-2012
962	15362357K	HAV	SATYA PRAKASH SHUKLA	01-03-2012
963	15354968K	HAV	SEBASTIAN CHERIYIL	01-08-2012
964	15352836X	HAV	SHAHID KHAN	01-04-2012
965	15353054N	HAV	SHAIK KHASIM PEERA	01-04-2012
966	15351105X	HAV	SHAIL KUMAR SINGH	01-02-2012
967	15352981P	HAV	SHAJIL KUMAR K	01-04-2012
968	15365490X	HAV	SHAMBHU NATH SINGH	01-07-2012
969	15361473A	HAV	SHANJIMON D	01-02-2012
970	15354711Y	HAV	SHATENDRA SINGH	01-07-2012
971	15351672A	HAV	SHER SINGH	01-02-2012
972	15352622F	HAV	SHER SINGH	01-04-2012
973	15362876M	HAV	SHINDE PANDURANG CHALU	01-04-2012
974	15351682K	HAV	SHIO KUMAR MISRA	01-03-2012

975	15352269A	HAV	SHIV KUMAR SINGH	01-03-2012
976	15352812N	HAV	SHIV RAM SINGH	01-04-2012
977	15352876Y	HAV	SHIV SINGH	01-04-2012
978	15351589H	HAV	SHRI NIWAS	01-02-2012
979	15351476A	HAV	SHYAM SINGH	01-02-2012
980	15353402K	HAV	SHYAMBIR SINGH	01-04-2012
981	15353847W	HAV	SIKANDER SINGH	01-06-2012
982	15353817Y	HAV	SIVAJI M	01-06-2012
983	15352512M	HAV	SOUMEN KANTI NATH	01-04-2012
984	15365956P	HAV	SREE KUMAR D	01-08-2012
985	15365144F	HAV	SUBASH P D	01-07-2012
986	15353016X	HAV	SUBHAN MIYAN	01-04-2012
987	15354655L	HAV	SUBHAS CHANDRA SWAIN	01-07-2012
988	15353005L	HAV	SUBHASH CHANDRA NAYAK	01-04-2012
989	15361761M	HAV	SUBODH KUMAR SAHOO	01-02-2012
990	15354845X	HAV	SUDAR SHAN KUMAR	01-08-2012
991	15355115Y	HAV	SUDHKAR NAYAK	01-08-2012
992	15361365W	HAV	SUGATHAN K C	01-02-2012
993	15352154M	HAV	SUJIT CHAKRABARTY	01-03-2012
994	15354716X	HAV	SUKHVIR SINGH	01-08-2012
995	15354202A	HAV	SUKUMARAN T M	01-06-2012
996	15351619P	HAV	SUNIL KUMAR SINHA	01-02-2012
997	15362123A	HAV	SUNIL KUMAR SINHA	01-03-2012
998	15353160M	HAV	SURENDER SINGH	01-04-2012
999	15352261N	HAV	SURENDRA KUMAR SINGH	01-03-2012
1000	15351642H	HAV	SURENDRA SINGH	01-02-2012
1001	15364696H	HAV	SURESH BABU R	01-05-2012
1002	15365901L	HAV	SURESH CHAND	01-08-2012
1003	15365030W	HAV	SURESH CHAND	01-07-2012
1004	15353866F	HAV	SURESH CHAND REGAR	01-06-2012
1005	15365331A	HAV	SURESH CHANDER SHARMA	01-06-2012
1006	15354419H	HAV	SURESH CHANDRA	01-07-2012
1007	15351709W	HAV	SURESH KUMAR	01-03-2012
1008	15366018F	HAV	SURESH KUMAR P	01-08-2012
1009	15361318Y	HAV	SURESH P	01-02-2012
1010	15351623X	HAV	SURESH PRASAD	01-02-2012
1011	15351368W	HAV	SURINDER PAL	01-02-2012
1012	15356776L	HAV	SURJEET KUMAR	01-03-2012
1013	15363839L	HAV	SURYA NATH YADAVA	01-04-2012
1014	15352144H	HAV	SUSHIL KUMAR	01-03-2012
1015	15354068A	HAV	SUSIL D SANGAMA	01-06-2012
1016	15362687H	HAV	SWAMI SHARAN PATEL	01-03-2012
1017	15363421H	HAV	T D PANDURANG	01-04-2012
1018	15365258M	HAV	T V REDDY	01-07-2012
1019	15354144F	HAV	TAJ UDDIN LASKAR	01-06-2012
1020	15353734N	HAV	TAJBAR SINGH	01-05-2012
1021	15364720N	HAV	TARKESHWAR ROY	01-05-2012
1022	15354109Y	HAV	TARSEM SINGH	01-06-2012



1023	15353170W	HAV	TEJ RAM	01-04-2012
1024	15362479N	HAV	THIAGARAJAN V	01-03-2012
1025	15364108K	HAV	THORAT ANANDA B	01-04-2012
1026	15352552N	HAV	TILAK RAJ SINGH	01-04-2012
1027	15363557M	HAV	TONY SURJUEZ K	01-04-2012
1028	15354836W	HAV	TRAINATH SAHU	01-08-2012
1029	15355001N	HAV	UDAI NARAYAN SINGH	01-08-2012
1030	15364658M	HAV	UDDHO ARAKH	01-05-2012
1031	15351693W	HAV	UMESH KUMAR	01-03-2012
1032	15354794P	HAV	UNNI KUTTAN M J	01-08-2012
1033	15352092X	HAV	UPENDRA KUMAR SHARMA	01-03-2012
1034	15363663L	HAV	V JAYABALAN	01-04-2012
1035	15352848M	HAV	V MOHANA SUNDARAM	01-04-2012
1036	15365989A	HAV	VED PAL SINGH	01-08-2012
1037	15352521N	HAV	VED PARKASH	01-04-2012
1038	15354173W	HAV	VELPULA RAMAIAH	01-06-2012
1039	15364951K	HAV	VENKTESH V	01-06-2012
1040	15354645F	HAV	VIDYADHAR SINGH	01-07-2012
1041	15353251W	HAV	VIJAY KUMAR	01-04-2012
1042	15365173W	HAV	VIJAY KUMAR	01-07-2012
1043	15364329W	HAV	VIJAY KUMAR	01-05-2012
1044	15352190X	HAV	VIJAY KUMAR YADAW	01-03-2012
1045	15352730L	HAV	VINAYA CHANDRA KURUP B	01-04-2012
1046	15363700N	HAV	VINOD KUMAR	01-04-2012
1047	15361480W	HAV	VINOD V G	01-02-2012
1048	15351744Y	HAV	VIRENDRA KUMAR SHARMA	01-02-2012
1049	15365594Y	HAV	VITHAL VISHVAS RAO	01-07-2012
1050	15364742M	HAV	W K PANDHARINATH	01-04-2012
1051	15361797L	HAV	WANKAR BHIMRAO	01-02-2012
1052	15351622P	HAV	YOGENDRA PANDIT	01-02-2012
1053	15363921A	HAV	ZILE SINGH	01-04-2012

**THE BRIGADE OF GUARDS**

1054	13690218H	HAV	ABADHESH PRASAD	01-07-2012
1055	4071406W	HAV	ABDUL WAHID ALAM ANSARI	01-06-2012
1056	13689755F	HAV	ABHI RAM MAHTO	01-02-2012
1057	13690066M	HAV	ANIL KUMAR	01-05-2012
1058	13689844A	HAV	ASHOK RAWAJI BHALEKAR	01-03-2012
1059	13689746A	HAV	ASHWANI KUMAR SHARMA	01-02-2012
1060	13690206N	HAV	BALARAM HALDER	01-07-2012
1061	13689728X	HAV	BALBIR SINGH	01-02-2012
1062	13690339K	HAV	BHIM SINGH	01-08-2012
1063	13690199H	HAV	BIRENDRA BARMAN	01-07-2012
1064	13689937P	HAV	BISHWANATH DEY	01-04-2012
1065	13688227L	HAV	BRAJ KISHOR	01-07-2012
1066	13690268N	HAV	CHANCHAL SINGH	01-08-2012
1067	13690178M	HAV	DES RAJ	01-07-2012
1068	13690374M	HAV	DEVENDRA SINGH	01-08-2012

1069	13690182P	HAV	DIGANTA THENGAL	01-07-2012
1070	13690201P	HAV	DILIP BHUYAN	01-07-2012
1071	13688072F	HAV	DINESH KUMAR	01-05-2012
1072	13689807N	HAV	GHAN SHEYAM KISHORE SHARMA	01-02-2012
1073	13689727P	HAV	HAR LA BISHNOI	01-02-2012
1074	13689827A	HAV	HARPAL SINGH BHATI	01-03-2012
1075	13689941X	HAV	JAGBIR SINGH	01-04-2012
1076	13688013P	HAV	JAGIR LAL	01-04-2012
1077	3391478K	HAV	JAGMAL SINGH	01-05-2012
1078	13689895N	HAV	JAI BHAGWAN	01-03-2012
1079	13689713P	HAV	JAIPAL SINGH	01-02-2012
1080	13690166X	HAV	JIWA NAND	01-06-2012
1081	13688245N	HAV	JIWAN CHANDRA	01-07-2012
1082	15362811Y	HAV	KHARAT HANAMANT DATTU	01-04-2012
1083	13689993N	HAV	KOVVURU KAMESWARA RAO	01-04-2012
1084	13689862H	HAV	KRISHAN CHAND TIWARI	01-03-2012
1085	13690351L	HAV	LA BABU BAITHA	01-08-2012
1086	13689896W	HAV	M SEKAR	01-03-2012
1087	13689915W	HAV	MAHENDRA PRASAD	01-03-2012
1088	13690336W	HAV	MEHARBAN SINGH	01-08-2012
1089	4426802N	HAV	NATHOO LAL NAI	01-03-2012
1090	13689769F	HAV	NETRA PAL	01-02-2012
1091	13690107L	HAV	OMVIR SINGH	01-06-2012
1092	13690297H	HAV	PHOOL KUMAR	01-08-2012
1093	13690088L	HAV	PRAMOD KUMAR MISHRA	01-06-2012
1094	13688223P	HAV	RADHA RAMAN SINGH	01-07-2012
1095	13688157X	HAV	RAM PALAT	01-06-2012
1096	13689864N	HAV	RAM SAJIWAN BAGWAN	01-03-2012
1097	13689962N	HAV	RAM SINGH	01-04-2012
1098	13689771Y	HAV	RAMA KANTA BAGODAI	01-02-2012
1099	13689714X	HAV	S MODHU KOBUI NAGA	01-02-2012
1100	13689977W	HAV	SANTOSH KUMAR PAL	01-04-2012
1101	13689701A	HAV	SAPNESAR JENA	01-02-2012
1102	13688035N	HAV	SEWA RAM	01-04-2012
1103	13690270L	HAV	SHEO PRATAP SINGH	01-08-2012
1104	13690027N	HAV	SIYA RAM DWIVEDI	01-05-2012
1105	13689996F	HAV	SOHAN SINGH	01-04-2012
1106	13690220A	HAV	SURESH KUMAR	01-07-2012
1107	13689804Y	HAV	SURESH THAKUR	01-02-2012
1108	13688248F	HAV	SUSHIL KUMAR	01-07-2012

**THE PARACHUTE REGIMENT**

1109	2480682F	HAV	ABHEY RAM	01-02-2012
1110	13616495Y	HAV	ALAM SINGH GURJAR	01-02-2012
1111	13617844K	HAV	ASHWANI KUMAR SHARMA	01-07-2012
1112	13616532F	HAV	CHANDR SHEKHAR AZAD	01-04-2012
1113	9419293M	HAV	CHANDRA BAHADUR RAI	01-02-2012
1114	13616593Y	HAV	CHANDRA PAL	01-04-2012

1115	13617869W	HAV	CHANDRAJEET SINGH	01-08-2012
1116	13617835H	HAV	CHHANGU RAM	01-06-2012
1117	13617836L	HAV	DHARAM PAL	01-07-2012
1118	13617907F	HAV	GULI SHER	01-08-2012
1119	13617740H	HAV	JAGAN NATH SHARMA	01-03-2012
1120	2782898A	HAV	KIRAN CHANDRA SAIKIA	01-02-2012
1121	2784966F	HAV	M VITTHAL BALISHA	01-02-2012
1122	13617662W	HAV	MUKESH KUMAR	01-02-2012
1123	13616559Y	HAV	NIROTTAM SINGH	01-04-2012
1124	13616591N	HAV	PUSHPINDER KUMAR	01-04-2012
1125	13617897H	HAV	RABE SINGH	01-08-2012
1126	13616621A	HAV	RAJ KUMAR	01-05-2012
1127	13617833K	HAV	RAJBIR SINGH	01-08-2012
1128	2785248X	HAV	SANDESH KUMAR	01-04-2012
1129	13617749X	HAV	SARVESH PAL	01-03-2012
1130	13617849H	HAV	SATYAPAL SINGH YADAV	01-07-2012
1131	13617842Y	HAV	SUBASH CHAND	01-07-2012
1132	13617724L	HAV	SURAJ BHAN SWAMI	01-03-2012

**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

1133	14914868X	HAV	A MARIA FRANCIS A A	01-02-2012
1134	14914667Y	HAV	ABDUL GAFOOR	01-05-2012
1135	14914116N	HAV	AJAY KUMAR DAS	01-08-2012
1136	2988682Y	HAV	AJAY KUMAR SINGH	01-02-2012
1137	14915035A	HAV	AJAYA KUMAR AS	01-05-2012
1138	14915066A	HAV	ARVIND KUMAR	01-05-2012
1139	14914102N	HAV	ASHOK KUMAR	01-08-2012
1140	14913983L	HAV	BAJRANG BALI	01-03-2012
1141	14914867P	HAV	BINOD KUMAR SINGH	01-02-2012
1142	14913977X	HAV	CHITRA BAHADUR THAPA	01-02-2012
1143	14914104Y	HAV	CHITRA SEN RAUT	01-08-2012
1144	2988935H	HAV	DAMODER SINGH	01-03-2012
1145	2988608X	HAV	DEVENDRA SINGH TOMAR	01-02-2012
1146	2988681W	HAV	DHARMENDRA PRATAP S	01-02-2012
1147	14915267Y	HAV	G MURUGESAN	01-08-2012
1148	14915262A	HAV	GENDA PRASAD	01-08-2012
1149	14913982H	HAV	HARI SINGH THAPA	01-03-2012
1150	2988897X	HAV	JAGDISH SINGH	01-03-2012
1151	14915355P	HAV	JARNAIL SINGH	01-08-2012
1152	14915275X	HAV	JASWANT SINGH MAHANT	01-08-2012
1153	14915291P	HAV	K BASKARAN	01-08-2012
1154	14914951P	HAV	KAILASH NARAIN	01-05-2012
1155	14914890H	HAV	KARNENA RAJA RAO	01-02-2012
1156	14915041N	HAV	KARTAR SINGH	01-05-2012
1157	14915485X	HAV	KIRPAL SINGH MAHLA	01-08-2012
1158	14915128P	HAV	KRISHNA KUMAR	01-06-2012
1159	14915242M	HAV	LALLAN RAM	01-08-2012
1160	14914931F	HAV	LAXMIDHAR NAYAK	01-05-2012

1161	14914916M	HAV	M VASUDEVAN	01-04-2012
1162	14915194X	HAV	MADDELA NAGA RANGA R	01-07-2012
1163	14915306M	HAV	MAHESH KUMAR	01-08-2012
1164	14914967A	HAV	MAHESH THAPA	01-05-2012
1165	14914002H	HAV	MOHAN SINGH	01-05-2012
1166	14915078P	HAV	MUNIB SINGH YADAWA	01-06-2012
1167	14913978A	HAV	NAND KISHOR	01-02-2012
1168	14915006L	HAV	NARESH KUMAR	01-05-2012
1169	14914076X	HAV	NEWAL LAL ROY	01-07-2012
1170	14915284Y	HAV	P KUMARA SAMY	01-08-2012
1171	14915260P	HAV	P NARASIMHAN	01-08-2012
1172	14913987F	HAV	PURAN SINGH	01-04-2012
1173	2988668M	HAV	RABENDRA SINGH B	01-02-2012
1174	14915285F	HAV	RABINDRA KUMAR	01-08-2012
1175	14914932K	HAV	RAJAKISHORA TRIPATHY	01-05-2012
1176	14914960W	HAV	RAKESH KUMAR SHUKLA	01-05-2012
1177	14914906H	HAV	RAM BARAN RATHORE	01-03-2012
1178	2988737X	HAV	RAM NIWAS	01-02-2012
1179	14915107Y	HAV	RAM NIWAS SHARMA	01-05-2012
1180	14915056W	HAV	RAM RAHIS	01-05-2012
1181	14915105N	HAV	RAM SARUP	01-06-2012
1182	14914914F	HAV	RAMESH CHAND	01-03-2012
1183	14915060Y	HAV	RATAN BHADUR THAPA	01-05-2012
1184	14915055N	HAV	ROHITASH SINGH	01-05-2012
1185	2986057Y	HAV	SADANAND SINGH	01-08-2012
1186	14914025K	HAV	SAMIR KUMAR PAL	01-06-2012
1187	14914936A	HAV	SANDEEP KUMAR PK	01-05-2012
1188	14914962F	HAV	SANKR KUMAR MONDAL	01-05-2012
1189	14914897M	HAV	SASINDRA KURUP B	01-03-2012
1190	14915210K	HAV	SATYENDRA SINGH	01-08-2012
1191	14915040L	HAV	SHER BHADUR GURUNG	01-05-2012
1192	14915438A	HAV	SHIB SANKAR GHOSH	01-06-2012
1193	14915271F	HAV	SHIV SHANKAR PRASAD	01-08-2012
1194	14914946K	HAV	SHYAM BABU	01-05-2012
1195	14915059K	HAV	SUKHVIR SINGH	01-05-2012
1196	14915061F	HAV	SURAJ BHAN	01-05-2012
1197	14913988K	HAV	SURENDER SINGH	01-04-2012
1198	14915196H	HAV	SURESH SINGH KUSHWAH	01-07-2012
1199	14915029M	HAV	SURINDER PAL	01-05-2012
1200	14915067H	HAV	TEK BHADUR THAPA	01-05-2012
1201	14915226P	HAV	THANGAVELU B	01-08-2012
1202	14915018A	HAV	VANSHEE LAL	01-06-2012
1203	14914110M	HAV	VENKATESAN A	01-08-2012
1204	14914775H	HAV	VIJAY LAL MADARIA	01-05-2012
1205	14915359L	HAV	VINOD KUMAR	01-08-2012
1206	14915038N	HAV	YESH PAL	01-05-2012

**THE PUNJAB REGIMENT**

1207	2593536P	HAV	ABDUL RASHEED	01-03-2012
1208	2481174X	HAV	AJAY SINGH RAJAN	01-04-2012
1209	2481702W	HAV	AMARJIT SINGH	01-07-2012
1210	2481479X	HAV	ARVINDER SINGH	01-05-2012
1211	2480769H	HAV	ASHOK KUMAR	01-02-2012
1212	2481171K	HAV	AVTAR SINGH	01-04-2012
1213	2481731L	HAV	AVTAR SINGH	01-07-2012
1214	2480728Y	HAV	BALBIR SINGH	01-02-2012
1215	2481537W	HAV	BALBIR SINGH	01-05-2012
1216	2481306A	HAV	BALJIT SINGH	01-04-2012
1217	2481431K	HAV	BALWINDER SINGH	01-04-2012
1218	2480999W	HAV	BALWINDER SINGH GILL	01-03-2012
1219	2481179W	HAV	DESH RAJ	01-04-2012
1220	2481707P	HAV	DHANI RAM SAINI	01-07-2012
1221	2481270M	HAV	DHARAMVIR SINGH	01-04-2012
1222	2481222M	HAV	DIWAN CHAND	01-04-2012
1223	2481472N	HAV	FALKAR CHAND	01-05-2012
1224	2480697K	HAV	GULZAR SINGH	01-02-2012
1225	2480812Y	HAV	GURCHARAN SINGH	01-02-2012
1226	2481066N	HAV	GURDIAL SINGH	01-03-2012
1227	2480834X	HAV	GURDIP SINGH	01-02-2012
1228	2481149Y	HAV	GURJANT SINGH	01-04-2012
1229	2481561M	HAV	GURMEET SINGH	01-06-2012
1230	2481275L	HAV	GURPAL SINGH	01-04-2012
1231	2481279F	HAV	HANS RAJ	01-04-2012
1232	2480791N	HAV	HARDEEP SINGH	01-02-2012
1233	2480750K	HAV	HARDEV SINGH	01-02-2012
1234	2481511F	HAV	HARINDERJEET SINGH	01-05-2012
1235	2481685F	HAV	HARJEET SINGH	01-07-2012
1236	2481745L	HAV	HARJINDER SINGH	01-08-2012
1237	2481697W	HAV	HARJINDERPAL SINGH	01-07-2012
1238	2480621K	HAV	INDER SINGH	01-02-2012
1239	2481608M	HAV	JAGJIVAN SINGH RANA	01-06-2012
1240	2481291H	HAV	JAI PAL	01-04-2012
1241	2481476K	HAV	JANAK SINGH	01-05-2012
1242	2481109X	HAV	JASWANT SINGH	01-04-2012
1243	2481487W	HAV	JOGINDER PAL	01-05-2012
1244	2480745Y	HAV	KARAN SINGH RANA	01-02-2012
1245	2481543K	HAV	KESAR SINGH	01-05-2012
1246	2481421A	HAV	KEWAL KRISHAN	01-04-2012
1247	2481266K	HAV	KHEM CHAND SHARMA	01-04-2012
1248	2481285P	HAV	KRISHAN CHAND	01-04-2012
1249	2481488Y	HAV	KRISHAN LAL	01-05-2012
1250	2481055F	HAV	KRISHAN SINGH	01-03-2012
1251	2480778K	HAV	KULJIT SINGH	01-02-2012
1252	2481180L	HAV	LABH SHANKAR	01-04-2012

1253	2481364K	HAV	LAL BHANDHUR	01-04-2012
1254	2481197Y	HAV	MADAN LAL	01-04-2012
1255	2481367X	HAV	MADAN LAL	01-04-2012
1256	2480561A	HAV	MAHENDRA RAM	01-02-2012
1257	2481545P	HAV	MOHAN SINGH	01-05-2012
1258	2481220F	HAV	MUNSHI RAM	01-04-2012
1259	2481192A	HAV	NARESH KUMAR	01-04-2012
1260	2478824P	HAV	NIRPAL SINGH	01-05-2012
1261	2481228N	HAV	OM CHAND THAKUR	01-04-2012
1262	2481429M	HAV	PALWINDER SINGH	01-04-2012
1263	2481701N	HAV	PALWINDER SINGH	01-07-2012
1264	2481682N	HAV	PARSHAN SINGH	01-07-2012
1265	2481249K	HAV	PARSHOTAM RAM	01-04-2012
1266	2480770X	HAV	PARVEEN SINGH	01-02-2012
1267	2481310H	HAV	PIRTHIPAL SINGH	01-04-2012
1268	2481221K	HAV	RAM PRAKASH	01-04-2012
1269	2480780F	HAV	RAMESH KUMAR	01-02-2012
1270	2481610K	HAV	RAMESH KUMAR THAKUR	01-06-2012
1271	2481301F	HAV	RANJIT SINGH	01-04-2012
1272	2480626H	HAV	ROOP LAL	01-02-2012
1273	2480993P	HAV	SALINDER SINGH	01-03-2012
1274	2481599W	HAV	SATINDERJIT SINGH	01-06-2012
1275	2481600A	HAV	SATNAM SINGH	01-06-2012
1276	2480856W	HAV	SHAMSHER SINGH	01-02-2012
1277	2480635K	HAV	SHESH PAL	01-02-2012
1278	2481001A	HAV	SUKHDEV SINGH	01-03-2012
1279	2481148W	HAV	SUKHWINDER SINGH	01-04-2012
1280	2481454L	HAV	SULAKHAN SINGH	01-04-2012
1281	2480994X	HAV	SURINDER SINGH	01-03-2012
1282	2481122F	HAV	SURINDERPAL SINGH	01-04-2012
1283	2480843Y	HAV	SURJEET SINGH	01-02-2012
1284	2481092P	HAV	TARA SINGH	01-03-2012
1285	2481581A	HAV	UJAGAR SINGH	01-06-2012
1286	2481370X	HAV	VIJAY KUMAR	01-04-2012
1287	2481664L	HAV	YASH PAUL	01-07-2012
1288	2481658X	HAV	YASHWANT SINGH	01-07-2012

**THE MADRAS REGIMENT**

1289	4359501P	HAV	A JOHN PETER	01-03-2012
1290	2593725Y	HAV	A SELVARASU	01-04-2012
1291	2593868Y	HAV	ANIL KUMAR VT	01-06-2012
1292	2593574L	HAV	ASHOKAN K	01-03-2012
1293	2593618X	HAV	ASOKAN KR	01-03-2012
1294	2591256H	HAV	BALRAM	01-08-2012
1295	2590817A	HAV	BHOLA RAI	01-04-2012
1296	2593804N	HAV	BOTCHA TRINADHA	01-04-2012
1297	2593785N	HAV	C SATHURAGIRI	01-04-2012
1298	2593800X	HAV	CHANDRASEKHARAN JP	01-04-2012

1299	2593498K	HAV	DINESHAN A	01-03-2012
1300	2593897N	HAV	G MARIAPPAN	01-07-2012
1301	2593619A	HAV	GANESH K	01-03-2012
1302	2593766H	HAV	GEDALA VENKATARAO	01-04-2012
1303	2593365N	HAV	K JOSEPH KHANNA	01-02-2012
1304	2593750X	HAV	K KUMAR	01-04-2012
1305	2593593W	HAV	K MURALI	01-03-2012
1306	2593321W	HAV	KANDASAMY C	01-02-2012
1307	2593939P	HAV	KOLANGI R	01-08-2012
1308	2593586A	HAV	LAKSHMANAN K	01-03-2012
1309	2593858P	HAV	LOKNATH BRAHMA	01-06-2012
1310	2593357P	HAV	M MANTHIRAM	01-02-2012
1311	2591032H	HAV	M THAILAKULAM	01-06-2012
1312	2593470K	HAV	M VENKAT RAMUDU	01-03-2012
1313	8032334A	HAV	M VENKATASALAPATHI	01-06-2012
1314	2593616M	HAV	MAHADEVAN PILLAI N	01-03-2012
1315	2593298N	HAV	METTA APPA RAO	01-02-2012
1316	2591205P	HAV	MOORTHY R	01-08-2012
1317	2590672A	HAV	MS MOHAN	01-03-2012
1318	2590622P	HAV	NAGARAJA	01-03-2012
1319	2593362A	HAV	NAGULAN K	01-02-2012
1320	2593731M	HAV	NATARAJAN V	01-04-2012
1321	2590741L	HAV	NAWLESH BAITHA	01-03-2012
1322	2590677Y	HAV	P JAYAVELU	01-03-2012
1323	2593735H	HAV	P MASANA MUTHU	01-04-2012
1324	2593718H	HAV	P MURUGADAS	01-04-2012
1325	13968078A	HAV	PADAM KUMAR RAI	01-06-2012
1326	2593297L	HAV	PERIA SAMY E	01-02-2012
1327	2593853W	HAV	PRAKASH V	01-05-2012
1328	2590709W	HAV	PRAMOD CP	01-03-2012
1329	2593692Y	HAV	R DEENADAYALAN	01-04-2012
1330	2593709F	HAV	R MANIKANDAN	01-04-2012
1331	2593702X	HAV	R MUNIYANDI	01-04-2012
1332	2593459L	HAV	R NAGESWARA RAO	01-03-2012
1333	2593753L	HAV	R RAJLINGAM	01-04-2012
1334	2593759M	HAV	R RAVICHANDRAN	01-04-2012
1335	2593606H	HAV	R THOMAS	01-03-2012
1336	2593860M	HAV	R VIJAYA BHASKARAN	01-06-2012
1337	2593551K	HAV	RAMA CHANDRA	01-03-2012
1338	2590643L	HAV	RAMANAN MM	01-03-2012
1339	2593443A	HAV	RAVEENDRANATHAN PILLAI B	01-03-2012
1340	2590516W	HAV	RAVIRAJAN T	01-02-2012
1341	2593603P	HAV	S BAGAVATHI	01-03-2012
1342	2593894A	HAV	S BERLIN JEYA SINGH	01-07-2012
1343	2593873K	HAV	S CHANDRAN	01-06-2012
1344	2593273F	HAV	S SANKAR	01-02-2012
1345	2590669A	HAV	SA PAULRAJ	01-03-2012
1346	8032338W	HAV	SABU V THOMAS	01-06-2012

1347	2593532Y	HAV	SANGAPPA KOPPAD	01-03-2012
1348	2591303P	HAV	SATYAPPA KEMPANNA BHAIREWADI	01-08-2012
1349	2593241Y	HAV	SHIVA LINGAPPA INCHAL	01-02-2012
1350	2593569A	HAV	SURESH KUMAR MV	01-03-2012
1351	2591226L	HAV	SURESHAN M	01-08-2012
1352	4359609M	HAV	TATA RAVICHANDRA BABU	01-05-2012
1353	13968128A	HAV	TUKARAM SADASIV LOKHANDE	01-06-2012
1354	2590661N	HAV	U NATARAJAN	01-03-2012
1355	2593837Y	HAV	UTHAMAN NAIR K	01-05-2012
1356	2593737N	HAV	V KARUPPIAH	01-04-2012
1357	2593382N	HAV	VIDYAPOGULA SUDHAKAR	01-02-2012
1358	2593463N	HAV	VISHNU VARDHAN RAO	01-03-2012
<b><u>THE GRENADIERS</u></b>				
1359	14610795A	HAV	A JAYASANKAR	01-04-2012
1360	2680682L	HAV	AHIVARAN LAL	01-06-2012
1361	2682704X	HAV	AJIT SINGH	01-04-2012
1362	2682651K	HAV	AMAR BAHADUR SINGH	01-04-2012
1363	14610367F	HAV	AMASE GOWDA BR	01-03-2012
1364	2682491P	HAV	ANIL KUMAR	01-02-2012
1365	2682756N	HAV	ASHOK KUMAR	01-06-2012
1366	2680940A	HAV	ASHOK KUMAR	01-07-2012
1367	2682522K	HAV	BABU LAL	01-03-2012
1368	2682554M	HAV	BABU LAL JAT	01-03-2012
1369	2682827K	HAV	BALVINDER KUMAR	01-06-2012
1370	2682538P	HAV	BASTA RAM	01-03-2012
1371	2682549F	HAV	BHIV SINGH CHOUHAN	01-03-2012
1372	2680719F	HAV	BRIJ RAJ SINGH	01-07-2012
1373	14610474H	HAV	CHANDRA MOHAN DASH	01-03-2012
1374	2682529N	HAV	CHHAGNA RAM	01-03-2012
1375	14610105L	HAV	CHIT BHOL ROY	01-03-2012
1376	2682576L	HAV	DALBIR SINGH	01-03-2012
1377	2680825A	HAV	DASHRATH THAKUR	01-08-2012
1378	2682886W	HAV	DEVENDERA SINGH	01-08-2012
1379	2682765P	HAV	DHARAM SINGH	01-06-2012
1380	2682890F	HAV	DHARAMBIR	01-08-2012
1381	2682494H	HAV	DHRUB SINGH	01-02-2012
1382	14610285Y	HAV	DINESH KUMAR GUPTA	01-03-2012
1383	2682485F	HAV	DINESH SINGH	01-02-2012
1384	2682596Y	HAV	GIRWAR SINGH	01-03-2012
1385	7430694P	HAV	HRIDAYA LAL PATEL	01-04-2012
1386	2682675N	HAV	INDRA PAL	01-04-2012
1387	2682328P	HAV	INDU SINGH BALCHA	01-02-2012
1388	2682764M	HAV	IQBAL SINGH	01-06-2012
1389	2682681F	HAV	JAGIR SINGH	01-04-2012
1390	2682619P	HAV	JAI RAM	01-04-2012
1391	2682715K	HAV	JAYADEEP BHARANGAR	01-05-2012
1392	2682735X	HAV	JOGINDER PAUL	01-05-2012



1393	2682585M	HAV	KARANBIR SINGH	01-03-2012
1394	2682695F	HAV	KEWAL SINGH	01-04-2012
1395	2682441K	HAV	KRISHNA NATH YADAWA	01-02-2012
1396	2682717P	HAV	LOKENDER KUMAR	01-05-2012
1397	2682625H	HAV	LOKENDER SINGH	01-04-2012
1398	2682429H	HAV	MAHESH CHAND	01-02-2012
1399	2682509A	HAV	MAKHAN SINGH	01-02-2012
1400	2682620K	HAV	MANBIR SINGH	01-04-2012
1401	2682358M	HAV	MOAHN SINGH	01-02-2012
1402	2682387H	HAV	MOHAN LAL	01-02-2012
1403	2682870L	HAV	NABI LAL BABU KURNE	01-07-2012
1404	2682409P	HAV	OM PAL SINGH	01-02-2012
1405	2682737H	HAV	OMKAR NATH	01-05-2012
1406	2682727Y	HAV	ONKAR YADAW	01-05-2012
1407	2682500L	HAV	PARSA RAM BIDIYASAR	01-02-2012
1408	2682888F	HAV	PHOOL SINGH	01-08-2012
1409	2680804K	HAV	RADHA KRISHAN	01-08-2012
1410	2682862M	HAV	RAGHUBIR SINGH JHAJHRIYA	01-07-2012
1411	2682690H	HAV	RAGHUNATH RANA	01-04-2012
1412	2682444X	HAV	RAGHUVEER SINGH	01-02-2012
1413	2682697M	HAV	RAJENDER KUMAR	01-04-2012
1414	2682490M	HAV	RAJESH	01-02-2012
1415	2682894P	HAV	RAJESH KUMAR	01-08-2012
1416	2682708N	HAV	RAJVIR SINGH	01-04-2012
1417	2682626L	HAV	RAMESH	01-04-2012
1418	2682924F	HAV	RAMESH KUMAR	01-08-2012
1419	13968045P	HAV	RAMESH SHARMA	01-06-2012
1420	2682778M	HAV	RANDHIR SINGH	01-06-2012
1421	2682364A	HAV	RAVI KUMAR SHARMA	01-02-2012
1422	2682385W	HAV	RAVINDRA KUMAR	01-02-2012
1423	2680844L	HAV	SANJOY SHEKHOR NATH	01-08-2012
1424	2682895X	HAV	SANTOSH KUMAR, SC	01-08-2012
1425	2682354W	HAV	SARWAN SINGH	01-02-2012
1426	2682516W	HAV	SATYA DEV SINGH	01-02-2012
1427	2682408M	HAV	SATYA NARAIN	01-02-2012
1428	14610831A	HAV	SHIV DAYAL YADAV	01-04-2012
1429	2682887Y	HAV	SHIV RAJ SINGH	01-08-2012
1430	2682605P	HAV	SHIVAJIT SINGH	27-02-2012
1431	2682686A	HAV	SOHANU RAM	01-04-2012
1432	2682793F	HAV	SUKHDEV SINGH	01-06-2012
1433	2680579A	HAV	SUKHVEER SINGH	01-05-2012
1434	2682916H	HAV	SURESH KUMAR	01-08-2012
1435	2682933H	HAV	SURINDER SINGH	01-08-2012
1436	2682861K	HAV	TARLOK CHAND	01-07-2012
1437	2680466X	HAV	THANU PRASAD SHARMA ARYAL	01-03-2012
1438	2680512F	HAV	TILAK RAJ	01-05-2012
1439	2682365H	HAV	VABHISHAN KUMAR	01-02-2012
1440	2682666M	HAV	VIJAI KUMAR	01-04-2012

1441	2682732K	HAV	VIJAY SINGH	01-05-2012
1442	2680499H	HAV	YATINDER KUMAR	01-04-2012

**THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

1443	2785155H	HAV	AFAZAL KHAN	01-03-2012
1444	2785335L	HAV	AGWANE SUBHASH	01-06-2012
1445	2782986W	HAV	ANIL KUMAR SINGH	01-04-2012
1446	2785286N	HAV	BHOSLE SHAM TATOJI	01-05-2012
1447	3386299A	HAV	BIDESHWAR SAH	01-02-2012
1448	2784887M	HAV	BIRADAR VASANT BAJIRAO	01-02-2012
1449	2785185A	HAV	CHINCHPURE SAHEBRAO R	01-04-2012
1450	2785293K	HAV	DADAS DADASAHEB DAGADU	01-05-2012
1451	2785315X	HAV	DEEPAK GORE	01-06-2012
1452	4071467N	HAV	GADEKAR ANNA BHAGAJI	01-08-2012
1453	2785229M	HAV	GORE RAMRAO SONAJI	01-04-2012
1454	2785323W	HAV	HAZARE MANOHAR SHANKAR	01-06-2012
1455	2785431A	HAV	IBRAHIM	01-08-2012
1456	2785000N	HAV	INGALE ARJUN AMBADAS	01-02-2012
1457	2784965Y	HAV	JAGTAP MOHAN ANANDRAO	01-02-2012
1458	2785432H	HAV	JALELA HIMMATBHAI S	01-08-2012
1459	2785194F	HAV	JASMER SINGH	01-04-2012
1460	2784199N	HAV	JOHN MARANDI	01-02-2012
1461	2785521F	HAV	KHOT BAJIRAO SHANKAR	01-04-2012
1462	2785067M	HAV	MAHADIK ARUN BHAU	01-03-2012
1463	14610515F	HAV	MAHENDER SINGH	01-03-2012
1464	2784997F	HAV	MANDE LAXMAN KHANDU	01-02-2012
1465	2782572K	HAV	MD AFSAR	01-02-2012
1466	2782882P	HAV	MISAL DEVANAND S	01-03-2012
1467	2785260Y	HAV	MUHAMMAD ALI	01-04-2012
1468	2785153X	HAV	NAIK SANJAY GOVIND	01-03-2012
1469	2784873M	HAV	NARKE SHIVNATH L	01-02-2012
1470	15361893A	HAV	NAZIRHUSEN ISMAIL M	01-02-2012
1471	2784948Y	HAV	NOOR AHAMMED	01-02-2012
1472	2785309K	HAV	P RADHAKRISHNAN	01-06-2012
1473	2785144W	HAV	PATIL CHANDRABHAN P	01-03-2012
1474	2784968M	HAV	PATIL SUKUMAR SHAMRAO	01-02-2012
1475	2783047A	HAV	PATIL VITHAL	01-08-2012
1476	2785275F	HAV	PAWAR LAXMAN TUKARAM	01-05-2012
1477	2785009H	HAV	RAJENDRA KUMAR GOUR	01-02-2012
1478	2782533L	HAV	RAJENDRA SINGH NEGI	01-02-2012
1479	2784924P	HAV	RAJINDER SINGH	01-02-2012
1480	2782995X	HAV	RAJU AC	01-06-2012
1481	2787259H	HAV	RAMA GAWADE	01-04-2012
1482	13967924W	HAV	RAMACHANDRAN PP	01-05-2012
1483	2785146F	HAV	RAMGUDE SURESH SAYAJEE	01-03-2012
1484	2783054W	HAV	RAVINDRA PRASAD	01-08-2012
1485	2785357K	HAV	RAVINDRANATH PATIL	01-07-2012
1486	2785157N	HAV	SALEEM ANSARI	01-03-2012

302762/12-66B

1487	2785268L	HAV	SATYA PAL	01-05-2012
1488	13752034P	HAV	SHELKE RAMESH ASARAM	01-03-2012
1489	2784986P	HAV	SHINDE ARUNKUMAR N	01-02-2012
1490	2785103M	HAV	SHIVAPPA SHIRAHATTI	01-03-2012
1491	2785404W	HAV	SURESH PATIL	01-08-2012
1492	2785017F	HAV	SURESHA NG	01-02-2012
1493	2785128Y	HAV	SURWASE BALASAHEB V	01-03-2012
1494	15361677M	HAV	UPADHYE BAHUBALI A	01-02-2012
1495	2785255N	HAV	VASANT GAVANDE	01-04-2012
1496	2785081Y	HAV	WAGHAMODE ISHVARA M	01-03-2012
1497	2785160N	HAV	WAGHE LAXUMAN HARIBHAU	01-04-2012

**THE RAJPUTANA RIFLES**

1498	2885525M	HAV	ABHAY RAJ SINGH	01-03-2012
1499	2885522Y	HAV	AWADH BIHARI SINGH	01-03-2012
1500	2884310F	HAV	BHAGUTA RAM	01-08-2012
1501	2885553Y	HAV	BS BHADORIA	01-03-2012
1502	2885317X	HAV	CHANDRAVIR SINGH	01-02-2012
1503	2883365Y	HAV	DHARAMBIR, SM	01-02-2012
1504	2885399L	HAV	DHARMVEER SINGH	01-02-2012
1505	2885410Y	HAV	DINESH KUMAR SINGH	01-02-2012
1506	2883867F	HAV	FATAH SINGH	31-03-2012
1507	2885511M	HAV	GANGA SINGH RATHORE	01-03-2012
1508	2883477Y	HAV	GURUDAYAL SINGH	01-04-2012
1509	2883392H	HAV	JAI SINGH	01-03-2012
1510	2883473H	HAV	KADARE LAL	01-04-2012
1511	2885475M	HAV	KAMLESHWAR SINGH	01-02-2012
1512	2885681W	HAV	KANWAR PAL	01-04-2012
1513	2883353K	HAV	KAWAL PAL	01-02-2012
1514	2885996A	HAV	KISHOR SINGH	01-08-2012
1515	2885872L	HAV	KOSHANDRA SINGH	01-06-2012
1516	2883390X	HAV	LACHHM BAHADUR THAPA	01-03-2012
1517	2885590M	HAV	MAHENDRA SINGH DUDI	01-03-2012
1518	2885793W	HAV	MAHESH KUMAR	01-04-2012
1519	2883515K	HAV	MORDHAWAJ SINGH	01-04-2012
1520	2883731X	HAV	NARENDRA SINGH	01-06-2012
1521	2883561Y	HAV	NATHU SINGH	01-05-2012
1522	2885669P	HAV	PANNA SINGH	01-04-2012
1523	2885847M	HAV	PRITHVI SINGH	01-06-2012
1524	2883610W	HAV	PYARE LAL	01-05-2012
1525	2883946W	HAV	RAGURAJ SINGH	01-08-2012
1526	2885377M	HAV	RAJESH KUMAR	01-02-2012
1527	2883728X	HAV	RAM MEHAR	01-06-2012
1528	2883904K	HAV	RAM PHAL	01-07-2012
1529	2885620Y	HAV	RATAN SINGH NARUKA	01-04-2012
1530	2885591P	HAV	SAJJAN KUMAR MEHTA	01-04-2012
1531	2883912H	HAV	SATY PAL	01-07-2012
1532	2885605K	HAV	SATYANDRA KUMAR	01-04-2012

1533	2885539M	HAV	SHEO KARAN SINGH	01-03-2012
1534	2885442F	HAV	SHIVDAN SINGH	01-02-2012
1535	2885383A	HAV	SUMER SINGH	01-02-2012
1536	2883907X	HAV	SURESH CHAND SHARMA	01-07-2012
1537	2885577H	HAV	SURESH SINGH	01-03-2012
1538	2883460L	HAV	UDAIVIR SINGH	01-04-2012
1539	2883711K	HAV	V CURS PAUL	01-06-2012
1540	2885320X	HAV	VED PRAKASH	01-02-2012
1541	2885407Y	HAV	VINOD KUMAR SINGH	01-02-2012
1542	2885881M	HAV	VIRENDRA SINGH	01-06-2012
1543	2885915P	HAV	VISHAMBAR SINGH	01-07-2012

**THE RAJPUT REGIMENT**

1544	2988644H	HAV	AMAR SINGH	01-02-2012
1545	2989112P	HAV	ARBIND SINGH PARIHAR	01-04-2012
1546	2988648Y	HAV	ASHAA RAM	01-02-2012
1547	2988697F	HAV	BHALENDRA SINGH	01-02-2012
1548	2988711H	HAV	BHANWAR SINGH	01-02-2012
1549	10404989K	HAV	BHAWANI SINGH	01-08-2012
1550	2989017H	HAV	BUDH PAL SINGH	01-04-2012
1551	2988547L	HAV	CLEMENT XAXA	01-02-2012
1552	2989049L	HAV	D S SHEKHAWAT	01-04-2012
1553	2988580H	HAV	DASRATH SINGH	01-02-2012
1554	2988739H	HAV	DEVENDER SINGH	01-02-2012
1555	2988914M	HAV	GOUTAM CHANDRA PAL	01-03-2012
1556	2989006W	HAV	HEM SINGH BHATI	01-03-2012
1557	2986031K	HAV	HIND PAL	01-08-2012
1558	2989053N	HAV	J S SHEKHAWAT	01-04-2012
1559	2988594H	HAV	LAXMAN SINGH	01-02-2012
1560	2988675H	HAV	MAHESH SINGH	01-02-2012
1561	2988993M	HAV	MANGAL SINGH	01-03-2012
1562	2988859F	HAV	MANOJ KUMAR SINGH	01-03-2012
1563	2988997H	HAV	NARENDRA SINGH	01-03-2012
1564	2989011F	HAV	R B SINGH	01-04-2012
1565	2988521W	HAV	R B SINGH TOMAR	01-02-2012
1566	2988994P	HAV	R S BHADORIA	01-03-2012
1567	2986130M	HAV	RADE SHYAM	01-08-2012
1568	2989161X	HAV	RAJESH	01-08-2012
1569	2989102L	HAV	RAM AWADH SINGH	01-04-2012
1570	2988529H	HAV	RAM RAJ SINGH	01-02-2012
1571	2988734K	HAV	RANDHIR SINGH	01-02-2012
1572	2986078P	HAV	RATTAN LAL	01-08-2012
1573	2988619K	HAV	RUP SINGH	01-02-2012
1574	2989067K	HAV	S S RATHORE	01-04-2012
1575	2988820P	HAV	SANGRAM SINGH GAUTAM	01-03-2012
1576	2988879P	HAV	SANJAI KUMAR SINGH	01-03-2012
1577	2988998L	HAV	SANT PRASAD SINGH	01-03-2012
1578	2988730N	HAV	SANTOSH SINGH	01-02-2012

1579	2988838L	HAV	SANTOSH SINGH SENER	01-03-2012
1580	2988572K	HAV	SARDAR MAL GUJAR	01-02-2012
1581	2989138K	HAV	SATISH CHANDRA	01-04-2012
1582	2988569K	HAV	SHIVDULAR RAM	01-02-2012
1583	2988622K	HAV	SRI MUKHTIAR SINGH	01-02-2012
1584	2988574P	HAV	SRI VIJAY SINGH	01-02-2012
1585	2988724A	HAV	SRI YOGENDRA SINGH	01-02-2012
1586	2988685M	HAV	TARSEM SINGH	01-02-2012
1587	2986074Y	HAV	V RAMA KRISHNAN	01-08-2012
1588	2985844N	HAV	VIJAY PAL SINGH	01-05-2012
1589	2988781F	HAV	VISHAL SINGH	01-03-2012

**THE JAT REGIMENT**

1590	3179808F	HAV	BALJEET SINGH	01-08-2012
1591	3183013L	HAV	BALJIT SINGH	01-08-2012
1592	3182057W	HAV	BICHITRA KUMAR	01-02-2012
1593	3182631K	HAV	CHHOTA RAM	01-04-2012
1594	3182377L	HAV	CHUNA RAM DHAKA	01-03-2012
1595	3182183H	HAV	DALBIR SINGH	01-02-2012
1596	3182709K	HAV	DAYA NAND	01-04-2012
1597	3182693K	HAV	DEVENDAR SINGH	01-04-2012
1598	3182788K	HAV	DHAN SINGH	01-04-2012
1599	3182313A	HAV	DHANNA RAM	01-03-2012
1600	3181866K	HAV	DHARAM PAL	01-02-2012
1601	3182998K	HAV	DILBAG SINGH	01-07-2012
1602	3182230P	HAV	HANUMAN RAM	01-02-2012
1603	3182018X	HAV	HORI LAL	01-02-2012
1604	3182439A	HAV	JAGAJIVAN SINGH	01-03-2012
1605	3182906M	HAV	JAI BHAGWAN	01-06-2012
1606	3182192K	HAV	JAI BHAGWAN	01-02-2012
1607	3181935P	HAV	JAI RAM JAT	01-02-2012
1608	3182646M	HAV	JAIVEER SINGH	01-04-2012
1609	3180685M	HAV	JATIN BORAH	01-07-2012
1610	3182801H	HAV	JAYVIR SINGH	01-04-2012
1611	15361948Y	HAV	KAMAL PRAKASH SINGH	01-02-2012
1612	3182043W	HAV	KRISHAN KUMAR	01-02-2012
1613	3179804L	HAV	KULDEEP SINGH	01-08-2012
1614	3182069L	HAV	LAL SINGH	01-02-2012
1615	3182038L	HAV	M KALI DASS	01-02-2012
1616	3182378N	HAV	MADAN LAL	01-03-2012
1617	3182443H	HAV	MAHABIR SINGH	01-03-2012
1618	3182291M	HAV	MAIDHAN	01-03-2012
1619	3179733P	HAV	MAMAN RAM	01-08-2012
1620	3182769Y	HAV	MOHENDER SINGH	01-04-2012
1621	3182851N	HAV	NAGENDRA PRASAD	01-05-2012
1622	3182257M	HAV	NARENDER	01-02-2012
1623	3182162M	HAV	PARESH CHANDRA NATH	01-02-2012
1624	3182409H	HAV	PRATAP SINGH	01-03-2012

1625	3181881Y	HAV	PREM PAL	01-02-2012
1626	3182180P	HAV	RAJ MAL	01-02-2012
1627	3182362H	HAV	RAJ PAL SINGH	01-03-2012
1628	3182233H	HAV	RAM NIWAS	01-02-2012
1629	3182470M	HAV	RAMBIR SINGH	01-03-2012
1630	3182706W	HAV	RAMESH KUMAR	01-04-2012
1631	3182720H	HAV	RAMVIR SINGH	01-04-2012
1632	3182003P	HAV	RAMVIR SINGH	01-02-2012
1633	3181895Y	HAV	RANVEER BHUDANIYA	01-02-2012
1634	3182628K	HAV	RANVEER SINGH	01-04-2012
1635	3179524X	HAV	RAVEENDRAN NAIR V	01-05-2012
1636	3182539L	HAV	RAVINDRA KUMAR	01-03-2012
1637	3182836Y	HAV	SANJIVE KUMAR	01-04-2012
1638	3181899P	HAV	SOHAN LAL GODARA	01-02-2012
1639	3182958H	HAV	SUKHA RAM GHOSALYA	01-06-2012
1640	3183012H	HAV	SURAJ BHAN	01-08-2012
1641	3182872K	HAV	SURAJAN SINGH	01-05-2012
1642	3182732X	HAV	SURENDRA KUMAR	01-04-2012
1643	3182716A	HAV	SURENDRA SINGH	01-04-2012
1644	15362547W	HAV	SURESH CHAND	01-03-2012
1645	3183033Y	HAV	SURESH KUMAR	01-08-2012
1646	3182387P	HAV	SURESH SINGH DANGI	01-03-2012
1647	3182553X	HAV	TEJVIR SINGH	01-03-2012
1648	3179408P	HAV	TOTA RAM	01-02-2012
1649	3182476N	HAV	VED PRAKASH	01-03-2012
1650	3182397Y	HAV	VIDHYADHAR	01-03-2012
1651	3182474H	HAV	VINOD KUMAR	01-03-2012
1652	3182149H	HAV	WAJIR SINGH NAWAL	01-02-2012

**THE SIKH REGIMENT**

1653	3388881L	HAV	BALBIR SINGH	01-02-2012
1654	3389088H	HAV	BALDEV SINGH	01-04-2012
1655	3389354W	HAV	BALJINDER SINGH	01-08-2012
1656	3388916W	HAV	BALWINDER SINGH	01-03-2012
1657	3388842M	HAV	BHAGWANT SINGH	01-02-2012
1658	3386609A	HAV	CHAMAN LAL	01-05-2012
1659	3389157N	HAV	GURMEL SINGH	01-06-2012
1660	3389210N	HAV	HARJINDER SINGH	01-06-2012
1661	3389243Y	HAV	JAGIR SINGH	01-06-2012
1662	3389153X	HAV	JARNAIL SINGH	01-06-2012
1663	3389317H	HAV	JARNAIL SINGH	01-07-2012
1664	3389359P	HAV	KAMALJIT SINGH	01-08-2012
1665	3386730N	HAV	KAMLESH KUMAR	01-08-2012
1666	3386737X	HAV	KRISHAN LAL	01-08-2012
1667	3389242W	HAV	KRISHAN SINGH	01-06-2012
1668	3386294F	HAV	KULDEEP SINGH	01-02-2012
1669	3389319N	HAV	KULWINDER SINGH	01-08-2012
1670	3389122X	HAV	LAKHWINDER SINGH	01-05-2012

1671	3388877H	HAV	LALLI SINGH	01-02-2012
1672	3389338Y	HAV	MANJIT SINGH	01-08-2012
1673	13977357M	HAV	MUDDETI ANKAIAH	01-08-2012
1674	3388872K	HAV	PARAMJIT SINGH	01-02-2012
1675	3386750F	HAV	RAGHU NANDAN KUMAR	01-08-2012
1676	3389225W	HAV	RAJBINDER SINGH	01-06-2012
1677	3388961H	HAV	RAJPAL SINGH	01-03-2012
1678	3388844X	HAV	RAM SINGH	01-02-2012
1679	3389004K	HAV	SATNAM SINGH	01-04-2012
1680	3386759W	HAV	SELVAN P	01-08-2012
1681	3386400P	HAV	SIKANDER RAM	01-03-2012
1682	3388852W	HAV	SUKHWINDER SINGH	01-02-2012

**THE SIKH LIGHT INFANTRY**

1683	4468222A	HAV	AJAIB SINGH	01-04-2012
1684	4468624X	HAV	AMAR SINGH	01-04-2012
1685	4468583Y	HAV	AMARJIT SINGH	01-04-2012
1686	4468690A	HAV	AVTAR SINGH	01-04-2012
1687	4466419X	HAV	BAKHSHEESH SINGH	01-02-2012
1688	4468479L	HAV	BALDEV SINGH	01-04-2012
1689	4466910A	HAV	BALJIT SINGH	01-04-2012
1690	4468310W	HAV	BEANT SINGH	01-04-2012
1691	4468164F	HAV	BIKER SINGH	01-04-2012
1692	4468086P	HAV	BIKKAR SINGH	01-02-2012
1693	4468257W	HAV	CHAMAN SINGH	01-04-2012
1694	4468613L	HAV	CHAMKAUR SINGH	01-04-2012
1695	4466822K	HAV	CHAMKAUR SINGH	01-04-2012
1696	4468282P	HAV	CHARANJIT SINGH	01-04-2012
1697	4466471A	HAV	DALBIR SINGH	01-02-2012
1698	4468168X	HAV	DALIP SINGH	01-04-2012
1699	4466811X	HAV	DARSHAN SINGH	01-04-2012
1700	4468554K	HAV	DEVI DAYAL SINGH	01-04-2012
1701	4468177Y	HAV	DHARAM SINGH	01-04-2012
1702	4468253A	HAV	DHEER SINGH	01-04-2012
1703	4468489P	HAV	GURJANT SINGH	01-04-2012
1704	4468412M	HAV	GURMUKH SINGH	01-04-2012
1705	4468285H	HAV	GURNAM SINGH	01-04-2012
1706	4468585K	HAV	HARBANS SINGH	01-04-2012
1707	4466538N	HAV	HARCHAND SINGH	01-03-2012
1708	4468434L	HAV	HARI SINGH	01-04-2012
1709	4468401A	HAV	HARJIT SINGH	01-04-2012
1710	4468206H	HAV	HARMAIL SINGH	01-04-2012
1711	448756L	HAV	HARMESH SINGH	01-06-2012
1712	4468138A	HAV	HARNAM SINGH	01-03-2012
1713	4468491M	HAV	HARNEK SINGH	01-04-2012
1714	4468192N	HAV	HARNEK SINGH	01-04-2012
1715	4468444P	HAV	IQBAL SINGH	01-04-2012
1716	4468158N	HAV	JAGI R SINGH	01-04-2012

1717	4468464H	HAV	JAGTAR SINGH	01-04-2012
1718	4468498W	HAV	JAGTAR SINGH	01-04-2012
1719	4468496L	HAV	JAGTAR SINGH	01-04-2012
1720	4468205A	HAV	JARNAIL SINGH	01-04-2012
1721	4468129Y	HAV	JASSA SINGH	01-03-2012
1722	4468186A	HAV	JASVIR SINGH	01-04-2012
1723	4468502N	HAV	JASVIR SINGH	01-04-2012
1724	4468364X	HAV	JASWANT SINGH	01-04-2012
1725	4468293F	HAV	KEWAL SINGH	01-04-2012
1726	4467742Y	HAV	KRISHAN KUMAR	01-08-2012
1727	4466525W	HAV	KUNDAN SINGH	01-03-2012
1728	4468080N	HAV	MAHAVIR SINGH	01-02-2012
1729	4468408K	HAV	MAJOR SINGH	01-04-2012
1730	4468377P	HAV	MAJOR SINGH	01-04-2012
1731	4468654P	HAV	MAST SINGH	01-04-2012
1732	4468358K	HAV	NAIB SINGH	01-04-2012
1733	4468104M	HAV	NIRMAL SINGH	01-02-2012
1734	4468244Y	HAV	NIRMAL SINGH	01-04-2012
1735	4468589A	HAV	NIRMAL SINGH	01-04-2012
1736	4468606P	HAV	PARAMJIT SINGH	01-04-2012
1737	4468197M	HAV	RAJ PAL	01-04-2012
1738	4468090X	HAV	RAJA RAM NAI	01-02-2012
1739	4466717N	HAV	RAJINDER SINGH	01-04-2012
1740	4468256N	HAV	RAM SINGH	01-04-2012
1741	4468814K	HAV	RAMJINDER SINGH	01-07-2012
1742	4468131W	HAV	RAMPAL SINGH	01-03-2012
1743	4468758W	HAV	RAMPAL SINGH	01-06-2012
1744	4468320A	HAV	RESHAM SINGH	01-04-2012
1745	4468091A	HAV	SAITYEN SARMA	01-02-2012
1746	4468118M	HAV	SARABJEET SINGH	01-03-2012
1747	4468278M	HAV	SARWAN SINGH	01-04-2012
1748	4468230Y	HAV	SHINGARA SINGH	01-04-2012
1749	4468625A	HAV	SUDAGER SINGH	01-04-2012
1750	4468115Y	HAV	SUDAGER SINGH	01-03-2012
1751	4468567F	HAV	SUKHDEV SINGH	01-04-2012
1752	4468534W	HAV	SUKHDEV SINGH	01-04-2012
1753	4468123X	HAV	SUKHVEER SINGH	01-03-2012
1754	4468499Y	HAV	SUKHWINDER SINGH	01-04-2012
1755	4466684N	HAV	SURAJ PRAKASH	01-04-2012
1756	4468229K	HAV	SURJIT SINGH	01-04-2012
1757	4468173H	HAV	YAMLA SINGH	01-04-2012

**THE DOGRA REGIMENT**

1758	3987791P	HAV	AJAY KUMAR RATHORE	01-06-2012
1759	3987160M	HAV	ASHOK KUMAR	01-03-2012
1760	3989021F	HAV	AVTAR SINGH	01-08-2012
1761	15361553X	HAV	BABU PV	01-02-2012
1762	3988995N	HAV	BALJIT SINGH	01-08-2012



1763	9923808F	HAV	BALWAN SINGH	01-06-2012
1764	3987207M	HAV	BANKE LAL	01-03-2012
1765	3988875P	HAV	BASANT SINGH CHANDEL	01-06-2012
1766	3987628P	HAV	BHEEM RAJ	01-05-2012
1767	3988811K	HAV	BHURI RAM	01-05-2012
1768	3987041W	HAV	BIHARI LAL	01-02-2012
1769	3987217W	HAV	BIRBAL	01-03-2012
1770	3989055P	HAV	BUDHI SINGH	01-08-2012
1771	3987693P	HAV	DESH RAJ	01-05-2012
1772	3987654W	HAV	DINESH KUMAR	01-05-2012
1773	3989038P	HAV	GANDHI RAM VERMA	01-08-2012
1774	3988829A	HAV	GANESH KUMAR	01-06-2012
1775	3987496M	HAV	GAUTAM SINGH	01-05-2012
1776	3989008X	HAV	GIAN CHAND	01-08-2012
1777	3988968K	HAV	INDER SINGH	01-08-2012
1778	3987514K	HAV	JAGAT PAL	01-05-2012
1779	3988981N	HAV	JAGDISH CHAND	01-08-2012
1780	3389120M	HAV	JANAK RAJ SHARMA	01-05-2012
1781	2989154F	HAV	JANAK SINGH	01-07-2012
1782	3988883N	HAV	JAWAL DASS	01-06-2012
1783	3987646X	HAV	KARTAR CHAND	01-05-2012
1784	3986990W	HAV	KARTAR SINGH	01-02-2012
1785	3988963L	HAV	KEHAR SINGH	01-07-2011
1786	3988835N	HAV	KEWAL KRISHAN	01-06-2012
1787	3986935A	HAV	KITAB SINGH	01-02-2012
1788	3988933N	HAV	KULDEEP SINGH	01-07-2012
1789	3988387M	HAV	KULDEEP SINGH CHANDEL	01-03-2012
1790	3987369X	HAV	KULDIP KUMAR	01-04-2012
1791	3988936F	HAV	KUSHAL SINGH	01-07-2012
1792	4359722F	HAV	LEKH RAJ	01-07-2012
1793	3988929L	HAV	MADAN LAL	01-07-2012
1794	2985739X	HAV	MADAN LAL	01-02-2012
1795	3987037N	HAV	MAHENDER SINGH	01-02-2012
1796	3988885Y	HAV	MAN SINGH	01-06-2012
1797	3987312H	HAV	MANOHAR LAL	01-04-2012
1798	3987469H	HAV	MUKESH KUMAR	01-05-2012
1799	3988900H	HAV	MURARI LAL SHARMA	01-06-2012
1800	3987212X	HAV	N S APPA	01-03-2012
1801	3987661M	HAV	NARINDER SINGH	01-05-2012
1802	3988856K	HAV	NETAR SINGH	01-06-2012
1803	3988733X	HAV	NITA RAM	01-07-2011
1804	3987208P	HAV	OM PRAKASH	01-03-2012
1805	3989050W	HAV	PARAM DEV	01-08-2012
1806	3987375L	HAV	PARAS RAM SHARMA	01-04-2012
1807	3987592F	HAV	PARVEEN SINGH	01-05-2012
1808	3988838F	HAV	PAWAN KUMAR	01-06-2012
1809	3988925P	HAV	PAWAN SINGH	01-07-2012
1810	3986981P	HAV	PAWAN SINGH	01-02-2012

1811	3989052F	HAV	PRATAP SINGH	01-08-2012
1812	3989057A	HAV	PREM LAL	01-08-2012
1813	3989015N	HAV	PREM SINGH	01-08-2012
1814	3988812M	HAV	R S MANKOTIA	01-05-2012
1815	3987313L	HAV	RAGHUBIR CHAND	01-04-2012
1816	3987210M	HAV	RAGHUBIR SINGH	01-03-2012
1817	3987651H	HAV	RAJ DEEP	01-05-2012
1818	3987563M	HAV	RAJESH KUMAR CHOUHAN	01-05-2012
1819	3988886F	HAV	RAJESHWER DIYAL	01-06-2012
1820	13617678F	HAV	RAJINDER SINGH	01-02-2012
1821	3987355X	HAV	RAJU MASIH	01-04-2012
1822	3988840Y	HAV	RAKESH KUMAR	01-06-2012
1823	3988860M	HAV	RAM LAL	01-06-2012
1824	3987546M	HAV	RAM SINGH	01-05-2012
1825	3987335K	HAV	RAMESH CHAND	01-04-2012
1826	3988798L	HAV	RAMESH KUMAR	01-03-2012
1827	3987571L	HAV	RAMESH SINGH	01-05-2012
1828	3989054M	HAV	RANJIT SINGH VISHT	01-08-2012
1829	3989031L	HAV	RAVI KUMAR	01-08-2012
1830	3989019K	HAV	RAVINDER SINGH	01-08-2012
1831	3987233N	HAV	ROMESH KUMAR	01-03-2012
1832	3988790Y	HAV	ROOP SINGH	01-03-2012
1833	3179657N	HAV	ROSHAN LAL	01-06-2012
1834	3987739M	HAV	SANTOSH KUMAR	01-05-2012
1835	3987752W	HAV	SAT PAUL	01-05-2012
1836	3987583A	HAV	SATISH KUMAR	01-05-2012
1837	3988836W	HAV	SHAM SINGH	01-06-2012
1838	3988846A	HAV	SURENDER SINGH	01-06-2012
1839	3987150H	HAV	SURESH KUMAR	01-03-2012
1840	3987749W	HAV	SURESH KUMAR	01-05-2012
1841	3987364Y	HAV	SURESH KUMAR	01-04-2012
1842	3989045L	HAV	TEK CHAND	01-08-2012
1843	3987295N	HAV	TILAK RAJ	01-04-2012
1844	3988953F	HAV	VARINDER PAL SINGH	01-07-2012
1845	3987473L	HAV	VIJAY KUMAR MANDHOTRA	01-05-2012
1846	3987192P	HAV	YASH PAUL	01-03-2012

**THE GARHWAL RIFLES**

1847	4071094L	HAV	AMAR SINGH	01-04-2012
1848	4069202L	HAV	ANAND SINGH	01-02-2012
1849	4071221P	HAV	ANIL KUMAR PUNDIR	01-04-2012
1850	4071116Y	HAV	ANOOP SINGH	01-04-2012
1851	4071179F	HAV	BAL RAM	01-04-2012
1852	4070799L	HAV	BALAM SINGH	01-03-2012
1853	4071023K	HAV	BALBIR SINGH	01-04-2012
1854	13966346A	HAV	BALBIR SINGH	01-02-2012
1855	4071216K	HAV	BALWANT SINGH	01-04-2012
1856	4070951N	HAV	BALWIR SINGH	01-04-2012

1857	4071340L	HAV	BHARAT SINGH	01-04-2012
1858	4071529H	HAV	BIR BHAN	01-08-2012
1859	4070920N	HAV	BIRBAL SINGH	01-04-2012
1860	4070891K	HAV	CHANDI PRASAD	01-04-2012
1861	4071395P	HAV	DAYAL SINGH	01-05-2012
1862	4071499W	HAV	DAYAL SINGH	01-08-2012
1863	4069486A	HAV	DHANPAL SINGH	01-06-2012
1864	4071149K	HAV	DHIRENDRA SINGH	01-04-2012
1865	4071124X	HAV	DHOOM SINGH BIST	01-04-2012
1866	4071219X	HAV	DINESH SINGH	01-04-2012
1867	4070973M	HAV	GAJENDRA SINGH	01-04-2012
1868	4071078N	HAV	GAJEY SINGH	01-04-2012
1869	4071262Y	HAV	GANBIR SINGH	01-04-2012
1870	4071065W	HAV	GOPAL SINGH	01-04-2012
1871	4071046L	HAV	GOVIND SINGH	01-04-2012
1872	4071102Y	HAV	HARI OM	01-04-2012
1873	4070999F	HAV	HARSHPAL SINGH	01-04-2012
1874	4071460K	HAV	HEM SINGH SAJWAN	01-07-2012
1875	4070777M	HAV	HEMANT KUMAR	01-03-2012
1876	4070740L	HAV	HEMRAJ SINGH	01-02-2012
1877	4071239L	HAV	HIRA SINGH	01-04-2012
1878	4070899W	HAV	JAGDISH SINGH	01-04-2012
1879	4071140P	HAV	JAGMOHAN SINGH	01-04-2012
1880	4070908M	HAV	JANG BAHADUR SINGH	01-04-2012
1881	4071520N	HAV	JASPAL SINGH	01-08-2012
1882	4070979N	HAV	JATAN PAL SINGH	01-04-2012
1883	4071319H	HAV	JAYAPAL SINGH RAWAT	01-04-2012
1884	4071379X	HAV	JAYWANT SINGH	01-04-2012
1885	4071518W	HAV	KAMAL SINGH GOSAIN	01-08-2012
1886	4071243N	HAV	KULDEEP SINGH	01-04-2012
1887	4070984Y	HAV	KULDEEP SINGH	01-04-2012
1888	4070849L	HAV	KULDIP SINGH	01-03-2012
1889	4070870N	HAV	MADAN SINGH	01-04-2012
1890	4071393K	HAV	MADHO SINGH	01-05-2012
1891	4071398H	HAV	MASTAN SINGH	01-05-2012
1892	4070871W	HAV	MATBAR SINGH	01-04-2012
1893	4070878A	HAV	NANDAN SINGH	01-04-2012
1894	4069492N	HAV	NARENDRA SINGH	01-06-2012
1895	4071472Y	HAV	NARENDRA SINGH RAWAT	01-08-2012
1896	4071086M	HAV	NAYAN SINGH	01-04-2012
1897	4070764P	HAV	PRADIP KUMAR BALA	01-03-2012
1898	4071120F	HAV	PRAMOD CHAND RAMOLA	01-04-2012
1899	4071323L	HAV	PRATAP SINGH RAWAT	01-04-2012
1900	4070865H	HAV	PURAN SINGH RAWAT	01-04-2012
1901	4071516L	HAV	PUSHKAR SINGH	01-08-2012
1902	4071419N	HAV	PUSHKAR SINGH	01-07-2012
1903	4070969K	HAV	R C BODOLA	01-04-2012
1904	4071288N	HAV	RAJENDRA SINGH	01-04-2012

1905	4070963H	HAV	RAJENDRA SINGH	01-04-2012
1906	4071164Y	HAV	RAJIV	01-04-2012
1907	4071093H	HAV	RAJPAL SINGH SAJWAN	01-04-2012
1908	4071101W	HAV	RAM SINGH	01-04-2012
1909	4071039P	HAV	RAM SINGH	01-04-2012
1910	4071297P	HAV	RANBEER SINGH	01-04-2012
1911	4359553L	HAV	RATAN SINGH	01-04-2012
1912	4071391Y	HAV	S P HEMDANI	01-04-2012
1913	4071231Y	HAV	SAHUKAR SINGH	01-04-2012
1914	4071310N	HAV	SARDAR SINGH	01-04-2012
1915	4071015L	HAV	SATISH CHANDRA	01-04-2012
1916	4070952W	HAV	SATYA PRAKASH	01-04-2012
1917	4071234M	HAV	SOHAN SINGH	01-04-2012
1918	4071224H	HAV	SOHAN SINGH	01-04-2012
1919	4071055M	HAV	SUNIL KUMAR	01-04-2012
1920	4071478A	HAV	SURAJ PAL SINGH	01-08-2012
1921	4071071K	HAV	SUSHIL KUMAR	01-04-2012
1922	4071397A	HAV	UDAYA SINGH	01-05-2012
1923	4071510K	HAV	VED PRAKASH DABRAL	01-08-2012
1924	4069430N	HAV	VIJAY RAM DHOUNDIYAL	01-05-2012
1925	4071399L	HAV	VIJAY SINGH	01-05-2012
1926	4070916L	HAV	VIJAYA SINGH	01-04-2012
1927	4071321A	HAV	VIKAS SINGH	01-04-2012
1928	4071287L	HAV	VINOD SINGH	01-04-2012
1929	4070769N	HAV	VINOD SINGH CHAUHAN	01-03-2012
1930	4071506F	HAV	YASHPAL SINGH NEGI	01-08-2012

**THE KUMAON REGIMENT**

1931	4182020L	HAV	ANAND SINGH	01-02-2012
1932	4182772P	HAV	ANANT RAM	01-06-2012
1933	4182209H	HAV	ANIL KUMAR RANA	01-03-2012
1934	4180715P	HAV	ASHOK KUMAR	01-04-2012
1935	4182223P	HAV	AVDHESH KUMAR	01-03-2012
1936	4182333K	HAV	BHAGWAN SINGH YADAV	01-03-2012
1937	4182248F	HAV	BHIM SINGH	01-03-2012
1938	4182069F	HAV	DALIP SINGH KAPKOTI	01-02-2012
1939	4182511F	HAV	DEEPENDRA CHAND	01-04-2012
1940	4182658X	HAV	DEV SINGH	01-06-2012
1941	4182285P	HAV	DEVENDRA LAL ARYA	01-03-2012
1942	4182507Y	HAV	DEVENDRA NATH	01-04-2012
1943	4182218K	HAV	DHAN SINGH	01-03-2012
1944	4182589M	HAV	GANESH RAM	01-04-2012
1945	4182716W	HAV	GOPAL SINGH NEGI	01-06-2012
1946	13616566P	HAV	GOVIND SINGH MER	01-04-2012
1947	4180599X	HAV	GULAB SINGH	01-02-2012
1948	4182169M	HAV	HANUMAN SINGH	01-03-2012
1949	4183086N	HAV	HARI SHANKAR	01-08-2012
1950	4182007F	HAV	HARISH CHANDRA	01-02-2012

1951	4182838A	HAV	JASHWANT SINGH	01-07-2012
1952	4180738W	HAV	KAVINDRA SINGH MAHAR	01-05-2012
1953	4182508F	HAV	KISHAN CHAND THAKUR	01-04-2012
1954	4182378K	HAV	LALA RAM YADAV	01-04-2012
1955	4182049N	HAV	LALIT MOHAN	01-02-2012
1956	4182784K	HAV	MADAN SINGH	01-06-2012
1957	4180720A	HAV	MADHO RAM	01-04-2012
1958	4182291H	HAV	MAHESH CHANDRA PANARU	01-03-2012
1959	4180769W	HAV	MEHAR MAN SINGH	01-07-2012
1960	4182650L	HAV	MOHAN SINGH	01-06-2012
1961	4182841A	HAV	MOHAN SINGH	01-07-2012
1962	4182182W	HAV	MOHAN SINGH RANA	01-03-2012
1963	4182287A	HAV	NAIN SINGH	01-03-2012
1964	4182792H	HAV	NANDAN SINGH KHATI	01-06-2012
1965	4180767L	HAV	NARAIN SINGH	01-07-2012
1966	4182111P	HAV	NEK PAL SINGH	01-02-2012
1967	4180587H	HAV	NETRA SINGH	01-02-2012
1968	4182632H	HAV	POP SINGH	01-06-2012
1969	4182980K	HAV	PURAN SINGH	01-08-2012
1970	4182137K	HAV	R C DWIVEDI	01-02-2012
1971	4180743F	HAV	R JAYA SANKAR	01-05-2012
1972	4182377F	HAV	RADHEY SHYAM	01-04-2012
1973	4182613X	HAV	RAJ PAL SINGH	01-05-2012
1974	4182586Y	HAV	RAJ SINGH	01-05-2012
1975	4182819P	HAV	RAJENDRA SINGFH	01-07-2012
1976	4182164N	HAV	RAJESH KUMAR YADAV	01-03-2012
1977	4180694K	HAV	RAJESHWAR SINGH	01-04-2012
1978	4182499L	HAV	RAJVEER SINGH	01-04-2012
1979	4182950M	HAV	RAM SAMUNDER	01-08-2012
1980	4182356L	HAV	RAM SINGH YADAV	01-04-2012
1981	4182093X	HAV	RAMESH KUMAR	01-02-2012
1982	4182198F	HAV	SATYADEV YADAV	01-03-2012
1983	4182700L	HAV	SHANKAR DATT	01-06-2012
1984	4182041F	HAV	SHER SINGH NEGI	01-02-2012
1985	4182309N	HAV	SHIV RAJ SINGH	01-03-2012
1986	4182952X	HAV	SHYAM SINGH	01-08-2012
1987	4180561N	HAV	SOHAN LAL YADAV	01-02-2012
1988	4180742Y	HAV	SUKUMAR MISTRI	01-04-2012
1989	4183090W	HAV	SURAJ PRAKASH	01-08-2012
1990	4182290A	HAV	VIJAY PAL YADAV	01-03-2012

**THE ASSAM REGIMENT**

1991	4426727P	HAV	ABDUL JALIL	01-04-2012
1992	4426810M	HAV	ARUN KUMAR DEY	01-08-2012
1993	4359489Y	HAV	BALEN CHANDRA RAY	01-03-2012
1994	4359875L	HAV	BHIM PRASAD SUBEDI	01-08-2012
1995	8032335H	HAV	BHUMIDHAR SAIKIA	01-06-2012
1996	4359747N	HAV	BISWAJIT SARMA	01-07-2012

1997	4359825A	HAV	BITUL BORBORA	01-08-2012
1998	4358383A	HAV	DHAN BAHADUR THAPA	01-08-2012
1999	4359640Y	HAV	DILIP KUMAR DAS	01-06-2012
2000	4359907H	HAV	GOKUL BARUAH	01-08-2012
2001	4359442N	HAV	GOLAP TAMULY	01-02-2012
2002	4359595X	HAV	GONESH CHANDRA DEKA	01-05-2012
2003	4358350P	HAV	GOVIND BAHADUR THAPA	01-02-2012
2004	2593854Y	HAV	HARMOHAN DAS	01-06-2012
2005	4426808P	HAV	HARPAL SINGH	01-07-2012
2006	4359634L	HAV	K K GOSWAMI	01-06-2012
2007	4359359W	HAV	KAMZASING	01-02-2012
2008	4359598L	HAV	KHUDIRAM SWARGIARY	01-05-2012
2009	4359480K	HAV	KISHOR PATHAK	01-03-2012
2010	4359927W	HAV	LALZIRLIAN	01-08-2012
2011	4426720L	HAV	LEKH RAJ	01-02-2012
2012	4359846W	HAV	LENKHOMANG KUKI	01-08-2012
2013	4359944W	HAV	LHUNKHO THANG HAOKIP	01-08-2012
2014	4359528M	HAV	LOHIT BORUAH	01-04-2012
2015	4359791X	HAV	MANI KUMAR MANGER	01-08-2012
2016	4359695H	HAV	MONU RAJBANGSHI	01-06-2012
2017	4426803W	HAV	N JAYASANKAR	01-03-2012
2018	4426811P	HAV	PREM PRASAD CHHETRY	01-08-2012
2019	4426742K	HAV	R DHANUSKODI	01-08-2012
2020	4359805M	HAV	RACHEN CHANDRA RAY	01-08-2012
2021	4359665L	HAV	RAJENDRA DASS	01-06-2012
2022	4359307A	HAV	RAM CHANDER PANDEY	01-02-2012
2023	4426721N	HAV	RAM KUMAR	01-02-2012
2024	4426735N	HAV	SITARAM SAFI	01-05-2012
2025	4359700H	HAV	SK L L NAGA	01-06-2012
2026	4358378P	HAV	SURESH PRASAD	01-08-2012
2027	4426731X	HAV	SWAPAN KUMAR SAHA	01-04-2012
2028	4359652N	HAV	TANKA BAHADUR THAPA	01-06-2012
2029	4359887A	HAV	THAIRENDRA SINGHA	01-08-2012

**THE BIHAR REGIMENT**

2030	4267762H	HAV	ADAN HEMBROM	01-02-2012
2031	4268417F	HAV	AITA ORAON	01-03-2012
2032	4268386M	HAV	AJAY KUMAR	01-03-2012
2033	4268682X	HAV	AKHILESH PRASAD	01-02-2012
2034	4268064M	HAV	AMARNATH PANDEY	01-02-2012
2035	4268111Y	HAV	ANAND KUMAR EKKA	01-03-2012
2036	4268454P	HAV	ANAND PRADHAN	01-03-2012
2037	4268487A	HAV	ANUP BARA	01-03-2012
2038	4268726K	HAV	ASAHMANJASH SINGH	01-02-2012
2039	4268395N	HAV	ASHESHWAR YADAV	01-03-2012
2040	4265621P	HAV	BALKU TOPPO	01-02-2012
2041	4268249N	HAV	BANDHU ORAON	01-03-2012
2042	4268223Y	HAV	BHADE KISPOTTA	01-03-2012

2043	4268194P	HAV	BHAGAT MOHAN MAHANANDA	01-03-2012
2044	4268133X	HAV	BINAY TIGGA	01-03-2012
2045	4267646A	HAV	BINAYAKA PRADHAN	01-02-2012
2046	4267737K	HAV	BINDESWAR MAHTO	01-02-2012
2047	4268319F	HAV	BIPIN KUMAR SINGH	01-03-2012
2048	4268492L	HAV	BIRSA HERENJ	01-03-2012
2049	4267711P	HAV	BISHUN MAHTO	01-02-2012
2050	4268703H	HAV	BRIJNANDAN PRASAD	01-02-2012
2051	4268256K	HAV	CHANDRANATH BHAGAT	01-03-2012
2052	4267759H	HAV	CORNELIUS XALXO	01-02-2012
2053	4268239K	HAV	DAMESHWAR ORAON	01-03-2012
2054	4268684H	HAV	DEVESH KUMAR SINGH	01-02-2012
2055	4265636X	HAV	DHARMENDRA THAKUR	01-03-2012
2056	4267795N	HAV	FULGENCE KISPOTTA	01-02-2012
2057	4268101P	HAV	GAGAN PRADHAN	01-02-2012
2058	4268364N	HAV	GANESH PRASAD SINGH	01-03-2012
2059	4267773P	HAV	GANGA RAM MUNDA	01-02-2012
2060	4268689F	HAV	GODHAN PASAWAN	01-02-2012
2061	4268450Y	HAV	GOENDA TIRKEY	01-03-2012
2062	4267664H	HAV	GOPAL KUMAR RASTOGI	01-02-2012
2063	4268699L	HAV	HARENDRA KUMAR RAI	01-02-2012
2064	13617669A	HAV	ISHWAR PRASAD	01-02-2012
2065	4268652A	HAV	JONSON DAHANGA	01-04-2012
2066	4268240Y	HAV	KOMAL KUJUR	01-03-2012
2067	4265765X	HAV	KRISHNA SINGH	01-06-2012
2068	4268054H	HAV	KUMAR DHANANJAY SINGH	01-02-2012
2069	4268342P	HAV	LAL BAHADUR SINGH	01-03-2012
2070	4268491H	HAV	LAXMAN ORAON	01-03-2012
2071	4267729L	HAV	MADAN PRASAD SINGH	01-02-2012
2072	4268235N	HAV	MANORANJAN BAXLA	01-03-2012
2073	4268423P	HAV	MANSUKH KHESS	01-03-2012
2074	4268455X	HAV	MARIANUS BARA	01-03-2012
2075	4268484M	HAV	MASIH DAS MUNDA	01-03-2012
2076	4268169W	HAV	MASRAM SHIVAJI UPA	01-02-2012
2077	4268449K	HAV	MIKHAIL DAHANGA	01-03-2012
2078	4267812H	HAV	MUKURDHUN PRASAD	01-02-2012
2079	4268373P	HAV	NARENDRA JHA	01-03-2012
2080	4267727A	HAV	NAWAL KISHORE RAY	01-02-2012
2081	4268151A	HAV	PATIL RAJA CHUNNI	01-02-2012
2082	4268132P	HAV	PITAMBER MARDI	01-03-2012
2083	4268526N	HAV	POLICARP HEMBROM	01-04-2012
2084	4268732X	HAV	PRADUMAN SINGH	01-02-2012
2085	4268091W	HAV	PRAMOD CHANDRA PRADHAN	01-02-2012
2086	4268081M	HAV	PRATAP KISHOR PRADHAN	01-02-2012
2087	4268436M	HAV	RABINARAYAN PATRA	01-03-2012
2088	4268334W	HAV	RABINDRA KUMAR	01-03-2012
2089	4268311P	HAV	RADHE SHYAM SINGH	01-03-2012
2090	4268728P	HAV	RAJ KAPUR SHARMA	01-02-2012

2091	4268333N	HAV	RAJESHWAR SINGH	01-03-2012
2092	4267721Y	HAV	RAM GOVIND SINGH	01-02-2012
2093	4267803F	HAV	RAM RATAN SINGH	01-02-2012
2094	4267653W	HAV	RAMANUS LAKRA	01-02-2012
2095	4268460H	HAV	RAMESH KAYAM	01-03-2012
2096	4268242K	HAV	RAVINDRA NATH PANDEY	01-03-2012
2097	4267701L	HAV	SAGAR TIRIYA	01-02-2012
2098	4267753F	HAV	SANJAY KUMAR SINGH	01-02-2012
2099	4268340K	HAV	SATISH KUMAR	01-03-2012
2100	4268731P	HAV	SHAKTI KUMAR GANDHI	01-02-2012
2101	4268241F	HAV	SHEORAM ORAON	01-03-2012
2102	4268686N	HAV	SHIV PRASAD SAO	01-02-2012
2103	4268067A	HAV	SHIVADHAR SINGH	01-02-2012
2104	4267706K	HAV	SHRAVAN KUMAR	01-02-2012
2105	4265640A	HAV	SHYAM BIHARI SINGH	01-03-2012
2106	2593915L	HAV	SUBHAS MANDAL	01-08-2012
2107	13617716M	HAV	SUBODH KUMAR SAH	01-03-2012
2108	4268360X	HAV	SUBODH KUMAR SINGH	01-03-2012
2109	4268103A	HAV	SUKKA ORAON	01-03-2012
2110	4268702A	HAV	SUNIL BHAGAT	01-02-2012
2111	4267715L	HAV	SURENDRA PRASAD SI	01-02-2012
2112	4268236W	HAV	TELESPHOR THOITHRY	01-03-2012
2113	4268555H	HAV	THAKARE PANDIT PUNAJI	01-04-2012
2114	4268372M	HAV	UMESH KUMAR SHARMA	01-03-2012
2115	4267678H	HAV	UPENDRA RAM	01-02-2012
2116	4268336F	HAV	VADNATH SINGH	01-03-2012
2117	4268324M	HAV	VIDYANAND SINGH	01-03-2012
2118	4268105L	HAV	VIJAY LAKRA	01-03-2012
2119	4268187Y	HAV	W B YASHWANTA	01-03-2012
2120	4267765W	HAV	YADHAN ORAON	01-02-2012

**THE MAHAR REGIMENT**

2121	13976998M	HAV	A LOURDU SAMY	01-05-2012
2122	4560376M	HAV	AMARJEET SINGH	01-07-2012
2123	4560283X	HAV	ASHOK KUMAR	01-06-2012
2124	4560324W	HAV	BANSI LAL	01-06-2012
2125	4559712F	HAV	BHOLA PRASAD	01-02-2012
2126	4560113N	HAV	BIRENDER SINGH	01-05-2012
2127	4560111H	HAV	BIRENDRA KUMAR	01-05-2012
2128	4559892P	HAV	BIRENDRA KUMAR SINGH	01-03-2012
2129	4560097F	HAV	BRAHAM PAL	01-04-2012
2130	4560210L	HAV	GAIKWAD BALWANT MARUTI	01-05-2012
2131	4559907M	HAV	GHODGE DAGADUJI SADHUJI	01-03-2012
2132	4560368N	HAV	GOPAL SINGH	01-06-2012
2133	4560299H	HAV	GURCHARAN SINGH	01-06-2012
2134	4560337N	HAV	HARNAM SINGH	01-06-2012
2135	4559759M	HAV	JADHAV BABAN TUKARAM	01-02-2012
2136	4560412M	HAV	JAGDISH CHANDRA BISWAS	01-07-2012



2137	4560120K	HAV	JANG BAHADUR YADAV	01-05-2012
2138	4558289A	HAV	JAY PRAKASH SINGH	01-03-2012
2139	4558261A	HAV	KADAM ROHIDAS DADU	01-02-2012
2140	4560184P	HAV	KHANDAGALE MAHADEO DNYANU	01-05-2012
2141	4560170P	HAV	KULDIP SINGH	01-05-2012
2142	4560010P	HAV	MADAN LAL	01-04-2012
2143	4560123X	HAV	MADAN SINGH YADAV	01-05-2012
2144	4560073X	HAV	MILLON KUMAR DEBNATH	01-04-2012
2145	4559872F	HAV	MORE DATTATRAY SAHEBRAO	01-03-2012
2146	4559956P	HAV	NANDIAL SINGH YADAV	01-03-2012
2147	4560209W	HAV	NARAYAN SINGH SIKARWAR	01-05-2012
2148	4560199X	HAV	PANCH DEO RAY	01-05-2012
2149	4560321H	HAV	PARAM DEV	01-06-2012
2150	4559860M	HAV	PAWAR CHARUDATTA LAXMAN	01-03-2012
2151	4560318H	HAV	PRAHLAD SINGH	01-06-2012
2152	4558490L	HAV	RAJENDER RAM	01-05-2012
2153	4560049F	HAV	RAJPAL YADAV	01-04-2012
2154	4560231F	HAV	RAM KEWAL YADAV	01-05-2012
2155	4560018F	HAV	RAM KUMAR SINGH	01-04-2012
2156	4560234P	HAV	RAM VRESH	01-05-2012
2157	4560151K	HAV	SAWANT DILIP SAMBHOO	01-05-2012
2158	4560191L	HAV	SHER SINGH KHATI	01-05-2012
2159	4560424F	HAV	SHOBAN SINGH	01-07-2012
2160	13977033F	HAV	SHYAM LAL	01-05-2012
2161	4560267A	HAV	SUDESH KUMAR	01-06-2012
2162	4560359H	HAV	SUKHCHAIN SINGH	01-06-2012
2163	4559692Y	HAV	TARSEN LAL	01-02-2012
2164	4560254H	HAV	TRILOK SINGH	01-06-2012
2165	4558306P	HAV	UMA SHANKAR YADAV	01-03-2012
2166	4560164F	HAV	VIRENDRA SINGH	01-05-2012

**THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES**

2167	13752174F	HAV	ABDUR RAZZAK ALI	01-05-2012
2168	13751113X	HAV	BALDEV RAJ	01-06-2012
2169	13752427L	HAV	BISHAMBER SINGH	01-08-2012
2170	13752356P	HAV	CHUNI LAL	01-08-2012
2171	13751102L	HAV	DALIP MASIH	01-06-2012
2172	13751955H	HAV	DARBAR SINGH	01-02-2012
2173	13752172W	HAV	DES RAJ	01-05-2012
2174	13752431N	HAV	FAZAL HUSSAIN	01-08-2012
2175	13752022A	HAV	HOSHIAR SINGH	01-03-2012
2176	13752323K	HAV	JAGAN NATH	01-07-2012
2177	13751990L	HAV	JYOTI KUMAR GURUNG	01-02-2012
2178	13752342P	HAV	K KARTHIKEYAN	01-08-2012
2179	13752347N	HAV	KAMLESHWAR SINGH	01-08-2012
2180	13751210P	HAV	KHUDI MINJ	01-08-2012
2181	13752035X	HAV	KRISHNA BAHADUR KHADKA	01-03-2012
2182	13752228X	HAV	KULDIP SINGH	01-06-2012

2183	13752308P	HAV	MAGHAR SINGH	01-07-2012
2184	13751108M	HAV	MAKBOOL ALAM	01-06-2012
2185	13752159M	HAV	MANNA LAL	01-05-2012
2186	13752394L	HAV	MANOHAR LAL	01-08-2012
2187	13752186W	HAV	NARA SINGHA SETHI	01-06-2012
2188	13752015K	HAV	NARESH KUMAR HIWERKAR	01-02-2012
2189	13752267W	HAV	NARESH PAL SINGH	01-07-2012
2190	13752401W	HAV	ONKAR SINGH	01-08-2012
2191	13752224F	HAV	PARTAP CHAND	01-06-2012
2192	13752392A	HAV	RAGHUVIR SINGH	01-08-2012
2193	13752428N	HAV	RAJ KUMAR	01-08-2012
2194	13752262X	HAV	RAJ KUMAR	01-07-2012
2195	13752434F	HAV	RAKESH THAPA	01-08-2012
2196	13751118W	HAV	RAM PAUL	01-07-2012
2197	13751173M	HAV	RANJEET SINGH	01-08-2012
2198	13751154F	HAV	RAVI KANT	01-07-2012
2199	13752155W	HAV	RESHAM SINGH	01-05-2012
2200	13752261P	HAV	SATISH KUMAR	01-07-2012
2201	13752320W	HAV	VISHNU BHADUR	01-07-2012

**THE LADAKH SCOUTS**

2202	9923680F	HAV	DORJAY TSERING	01-02-2012
2203	9923685A	HAV	MOHD NISSAR	01-02-2012
2204	9923722H	HAV	PADMA ANGCHOK	01-03-2012
2205	9923709Y	HAV	TSEWANG DORJEY	01-03-2012

**THE NAGA REGIMENT**

2206	14702213P	HAV	MAHABIR SINGH RAWAT	01-02-2012
2207	14702266N	HAV	NANDAN SINGH	01-05-2012
2208	14702195X	HAV	RAJU PAL	01-02-2012
2209	14702207F	HAV	SUDHIR KUMAR	01-02-2012
2210	14702265L	HAV	THAMAN SINGH THAPA	01-04-2012

**THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY**

2211	9088932A	HAV	AB RASHID WANI	01-06-2012
2212	9088836L	HAV	ABDUL AZIZ	01-04-2012
2213	9088125L	HAV	ABDUL HAMID	01-07-2012
2214	9088761Y	HAV	AFSAR ALI KHAN	01-03-2012
2215	9089023P	HAV	ANCHAL SINGH	01-08-2012
2216	9088844K	HAV	ASHOK KUMAR THAPA	01-04-2012
2217	9088744Y	HAV	BALBIR SINGH	01-02-2012
2218	9088955F	HAV	BASHIR AHMAD TALI	01-07-2012
2219	9088907F	HAV	BEHARI LAL	01-05-2012
2220	9088136X	HAV	BIPAN KUMAR SHARMA	01-08-2012
2221	9088982L	HAV	CHAMAN SINGH	01-08-2012
2222	9088861K	HAV	DALIP SINGH	01-04-2012
2223	9088137A	HAV	DIN MOHD	01-08-2012
2224	9088901A	HAV	FAYAZ AHMAD BHAT	01-05-2012

2225	9088705A	HAV	GH AHMAD DAR	01-02-2012
2226	9088736A	HAV	GH AHMAD KHAN	01-02-2012
2227	9088904N	HAV	GHANU RAM CHADHI	01-05-2012
2228	9088940W	HAV	GHEMBET SINGH	01-04-2012
2229	9089019Y	HAV	INGER SINGH	01-08-2012
2230	9088719A	HAV	HEET RAJ	01-02-2012
2231	9088148A	HAV	KULDEEP RAJ	01-08-2012
2232	9088704A	HAV	KULDEEP SINGH	01-03-2012
2233	9088962K	HAV	MANIR HUSSAIN	01-07-2012
2234	9088764M	HAV	MANOHAR LAL	01-02-2012
2235	9088814M	HAV	MOHD ASLAM	01-03-2012
2236	9089036Y	HAV	MOHD DIN	01-08-2012
2237	9088992P	HAV	MOHD KHALIL	01-08-2012
2238	9088741L	HAV	MOHD RAFIQ	01-02-2012
2239	9088706H	DFR	MOHD RAFIQ KHAN	01-02-2012
2240	9088900X	HAV	MOHD YOUSUF BHAT	01-05-2012
2241	9088808Y	HAV	NISAR AHMAD SHAH	01-03-2012
2242	9088876M	HAV	RAKESH KUMAR	01-04-2012
2243	9088069X	HAV	RAM ASHISH PARSAD	01-06-2012
2244	9089027X	HAV	RANJIT SINGH	01-08-2012
2245	9088923Y	HAV	RATTAN SINGH	01-05-2012
2246	9088790N	HAV	RAVI KUMAR	01-03-2012
2247	9088061L	HAV	ROMESH CHANDER	01-05-2012
2248	9088845M	HAV	ROSHAN LAL	01-04-2012
2249	9088987M	HAV	SAMPURAN CHAND	01-08-2012
2250	9088883H	HAV	SANJEEB KUMAR	01-04-2012
2251	9088857F	HAV	SANJEEV KUMAR	01-04-2012
2252	9088996L	HAV	SAT PAUL	01-08-2012
2253	9088742N	HAV	SHER MOHD	01-02-2012
2254	9088870L	HAV	SWARAN SINGH	01-04-2012
2255	9088919W	HAV	SWARN SINGH	01-05-2012
2256	9088929A	HAV	VIJAY KUMAR	01-05-2012

**1 GORKHA RIFLES**

2257	5044335M	HAV	CHUK BIR PUN	01-07-2012
2258	5044198Y	HAV	DHARMA RAJ THAPA	01-02-2012
2259	5044311H	HAV	DIL BAHADUR PUN	01-06-2012
2260	5044197W	HAV	DURGA BAHADUR GURUNG	01-02-2012
2261	5043857W	HAV	GOPAL BAHADUR THAPA	01-03-2012
2262	5043840H	HAV	HARI KUMAR THAPA	01-02-2012
2263	5043881Y	HAV	HEERA LAL	01-06-2012
2264	5044260A	HAV	HEM BAHADUR GURUNG	01-03-2012
2265	5044310A	HAV	JIT BAHADUR GAHA	01-06-2012
2266	5043844Y	HAV	MOTI LAL	01-02-2012
2267	5044376W	HAV	MUKTA BAHADUR THAPA	01-08-2012
2268	5044209A	HAV	PADAM BAHADUR THAPA	01-02-2012
2269	5044323X	HAV	PRAKASH GURUNG	01-07-2012
2270	5044295W	HAV	PREM BAHADUR THAPA	01-04-2012

2271	5044338A	HAV	PUNA RAM THAPA	01-07-2012
2272	5044283F	HAV	RAJ KUMAR GURUNG	01-03-2012
2273	15361891P	HAV	SHAIKH ASPAK AHMED	01-02-2012
2274	5044377Y	HAV	TARA BIR TAMANG	01-08-2012
2275	5044226A	HAV	TIL BAHADUR THAPA	01-03-2012
2276	5044250W	HAV	UMAR BAHADUR GURUNG	01-03-2012
<b><u>3 GORKHA RIFLES</u></b>				
2277	52456982Z	HAV	DURENDRA BAHADUR ALE	01-02-2012
2278	5245777F	HAV	KESHAR BAHADUR THAPA	01-07-2012
2279	5245359M	HAV	KUNMAR PAL	01-02-2012
2280	5245784X	HAV	LAL BAHADUR THAPA	01-07-2012
2281	5245735P	HAV	MAN BAHADUR THAPA	01-03-2012
2282	5245713W	HAV	PREM BAHADUR THAPA	01-03-2012
2283	5245753X	HAV	PREM BAHADUR THAPA	01-06-2012
2284	5245704P	HAV	RUDRA BAHADUR PUN	01-03-2012
2285	5245717M	HAV	SHIVA RAJ RANA	01-03-2012
2286	4070798H	HAV	VIKRAMADITYA PRASAD	01-03-2012
2287	5245740A	HAV	YAM BAHADUR THAPA	01-06-2012
<b><u>4 GORKHA RIFLES</u></b>				
2288	5346580M	HAV	BHAKTA BAHADUR PUN	01-03-2012
2289	5346451M	HAV	BISHAN KUMAR RANA	01-02-2012
2290	5346478K	HAV	CHANDRA BAHADUR GURUNG	01-02-2012
2291	5346526Y	HAV	CHITRA BAHADUR RANA	01-02-2012
2292	5346450K	HAV	DIL BAHADUR THAPA	01-02-2012
2293	5346505H	HAV	DURGA BAHADUR GURUNG	01-02-2012
2294	5346654W	HAV	JANAK BAHADUR ALE	01-03-2012
2295	5345754P	HAV	MOHAN KUMAR	01-03-2012
2296	5346686Y	HAV	NARAYAN GURUNG	01-04-2012
2297	5346618L	HAV	PADAM BAHADUR GURUNG	01-03-2012
2298	5346613M	HAV	PADAM BAHADUR THAPA	01-03-2012
2299	5345762N	HAV	PAPU RAM KUMHAR	01-04-2012
2300	5345742A	HAV	RAM NIWAJ	01-02-2012
2301	5346490L	HAV	RAS BAHADUR GURUNG	01-02-2012
2302	5346542W	HAV	S B GURUNG, SM	01-03-2012
2303	5346676P	HAV	SOM BAHADUR PUN	01-03-2012
2304	5346523L	HAV	SUN BAHADUR GURUNG	01-02-2012
2305	5346616A	HAV	TEK BAHADUR PUN	01-03-2012
2306	5345737P	HAV	WAZIR ALI	01-02-2012
<b><u>5 GORKHA RIFLES</u></b>				
2307	5450174Y	HAV	BHAGTA BAHADUR RANA	01-04-2012
2308	5450616V	HAV	CHURA MANI GAHA	01-02-2012
2309	5450650M	HAV	DILIP KUMAR THAPA	01-03-2012
2310	5450663K	HAV	JAGU RAM ALE	01-03-2012
2311	5450718H	HAV	KUL BAHADUR GURUNG	01-07-2012
2312	5450610L	HAV	LAL BAHADUR MAGAR	01-02-2012

2313	5450148X	HAV	LALAN THAKUR	01-04-2012
2314	5450728M	HAV	MAHENDRA SINGH THAPA	01-07-2012
2315	5450657W	HAV	NIM BAHADUR THAPA	01-03-2012
2316	5450731M	HAV	PREM BAHADUR ROKA	01-07-2012
2317	5450743F	HAV	RAM BAHADUR PUN	01-08-2012
2318	5450679P	HAV	SANT BAHADUR GURUNG	01-03-2012
2319	5450673N	HAV	SHREE MAN PUN	01-03-2012
2320	5450706N	HAV	TIRTHA BAHADUR PUN	01-06-2012

**8 GORKHA RIFLES**

2321	5752015Y	HAV	B B GURUNG	01-08-2012
2322	5751929W	HAV	BHIM BAHADUR	01-03-2012
2323	5751872M	HAV	D B THAPA	01-03-2012
2324	5751913L	HAV	DAL BAHADUR THAPA	01-03-2012
2325	5751416F	HAV	GOHIN CH BRAHMA	01-06-2012
2326	5751990A	HAV	HARI KUMAR PRADHAN	01-07-2012
2327	5751896W	HAV	KHIM BAHADUR ALE	01-03-2012
2328	5751379Y	HAV	KISHOR SINGH	01-04-2012
2329	5752025H	HAV	L B THAPA	01-07-2012
2330	5751827A	HAV	NAN BAHADUR GURUNG	01-02-2012
2331	5751360A	HAV	PURNA BIKRAM GURUNG	01-04-2012
2332	5751899K	HAV	R B GURUNG	01-03-2012
2333	5751869M	HAV	S B THAPA	01-03-2012
2334	5751365Y	HAV	SHIB BAHADUR GURUNG	01-04-2012
2335	5751895N	HAV	THAM PRASAD PUN	01-03-2012
2336	5751355P	HAV	VIJAY SINGH BALMIKI	01-03-2012
2337	5751893H	HAV	YAM BAHADUR THAPA	01-03-2012
2338	5752005P	HAV	YAMAN BAHADUR THAPA	01-08-2012

**9 GORKHA RIFLES**

2339	5846620L	HAV	CHHETRA BAHADUR CHHETRI	01-03-2012
2340	5846729L	HAV	DHAN BAHADUR KHATTRI	01-07-2012
2341	5846663A	HAV	DURGA BAHADUR BHANDARI	01-07-2012
2342	5846666N	HAV	GYAN BAHADUR MALLA	01-07-2012
2343	5846634L	HAV	JALANDHAR KHADKA	01-06-2012
2344	5846629A	HAV	KHUSMAN GURUNG	01-03-2012
2345	5846587Y	HAV	LOK BAHADUR CHHETRI	01-02-2012
2346	5846588F	HAV	PREM BAHADUR THAPA	01-02-2012
2347	5846730A	HAV	RAJ DEO	01-07-2012
2348	5846536L	HAV	RAM NAYAN YADAV	01-07-2012

**11 GORKHA RIFLES**

2349	15363158H	HAV	ANIL KUMAR ANIL	01-04-2012
2350	9419366N	HAV	BIR BAHADUR RAI	01-03-2012
2351	9419423K	HAV	BUDHA KUMAR RAI	01-07-2012
2352	9418633X	HAV	CHANDRA MAN RAI	01-04-2012
2353	9419267L	HAV	DEV KUMAR RAI	01-02-2012
2354	9419342K	HAV	DIG BAHADUR RAI	01-02-2012

2355	9419398W	HAV	DURGA THAPA	01-04-2012
2356	9419269W	HAV	GANESH BAHADUR PRADHAN	01-02-2012
2357	9419323Y	HAV	GANGA RAM	01-02-2012
2358	9419324F	HAV	HEM KUMAR RAI	01-02-2012
2359	9419270L	HAV	JAI BAHADUR RAI	01-02-2012
2360	9418553A	HAV	JIT BAHADUR LIMBU	01-02-2012
2361	4468135M	HAV	MAN BAHADUR GURUNG	01-03-2012
2362	9419344P	HAV	NARAYAN PRASAD RAI	01-02-2012
2363	9419351L	HAV	NARENDRA KUMAR POMU	01-02-2012
2364	9419367W	HAV	OM PRAKASH RAI	01-03-2012
2365	9419336W	HAV	PREM PRASAD LIMBU	01-02-2012
2366	9418609F	HAV	RAJENDRA KUMAR	01-03-2012
2367	9419314X	HAV	RAM SOR RAI	01-02-2012
2368	9419387K	HAV	SAR BAHADUR YAKPANGDEN	01-04-2012
2369	9419296A	HAV	SARKAR SINGH SAMSOHANG	01-02-2012
2370	9419307F	HAV	SEBEN KUMAR RAI	01-02-2012
2371	9419413A	HAV	SHARBA DHAN RAI	01-06-2012
2372	9419250X	HAV	TIKA DHAN RAI	01-02-2012
2373	9419400H	HAV	TIKA PRASAD SUBBA	01-06-2012
2374	9419428H	HAV	YAM BAHADUR LIMBU	01-07-2012

**ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)**

2375	6381843P	HAV	A ARUL SELVARAJ	01-07-2012
2376	6381448F	HAV	A VENKATA APPARAO	01-02-2012
2377	13899056N	HAV	ABUL BASAR	01-04-2012
2378	6386467W	HAV	AJAY KUAMR SHARMA	01-08-2012
2379	14800500P	HAV	AJAY KUMAR VERMA	01-06-2012
2380	14800205M	HAV	AJAY PAL	01-04-2012
2381	6381982Y	HAV	AJAYA GHOSH KUMAR K	01-07-2012
2382	14800112X	HAV	ALLAM SETTY SEETHARAM	01-05-2012
2383	14800223P	HAV	AMAR KISHOR SINGH	01-04-2012
2384	13899557N	HAV	AMAR NATH	01-08-2012
2385	6381680M	HAV	AMAR NATH GUPTA	01-05-2012
2386	13899097X	HAV	AMRIT KUMAR DAS	01-02-2012
2387	6381648X	HAV	ANIL GOGOI	01-05-2012
2388	6385783H	HAV	ANIL THAPA	01-03-2012
2389	6385743F	HAV	ARJUN BHIMARAO SHANKAR	01-03-2012
2390	13899517M	HAV	ARJUN SHARMA	01-08-2012
2391	13898717W	HAV	AROCKIYA SAMY S	01-02-2012
2392	14800548H	HAV	ARUN POTADAR	01-07-2012
2393	6382016Y	HAV	ARVIND KUMAR TIWARI	01-08-2012
2394	6381752L	HAV	ASHISH KUMAR SAHA	01-06-2012
2395	6385809M	HAV	ASHOK KUMAR SINGH	01-03-2012
2396	14800709A	HAV	ASHU CHAND	01-08-2012
2397	14800487W	HAV	ASSIRUZ ZAMAN	01-06-2012
2398	6381945L	HAV	BABU RAM SHARMA	01-07-2012
2399	14800388N	HAV	BALAKRISHNA BILAGOJI	01-06-2012
2400	6385552M	HAV	BALBIR SINGH	01-02-2012

2401	6385684A	HAV	BALJINDER KUMAR	01-03-2012
2402	13899045F	HAV	BALZOR SINGH	01-04-2012
2403	14800490W	HAV	BANESWAR SAIKIA	01-06-2012
2404	13896765X	HAV	BANSHI DHAR	01-02-2012
2405	6385734A	HAV	BARAD BHAGVAN BHAI JODHA BHAI	01-03-2012
2406	6381509N	HAV	BECHAN PRASAD	01-03-2012
2407	6381641N	HAV	BHANWAR SINGH	01-05-2012
2408	15351354W	HAV	BHARAT MOHTO RAM	01-02-2012
2409	6385640H	HAV	BHIM RAO SUNGAJITODSAM	01-03-2012
2410	6386174L	HAV	BHIMASEN SAHOO	01-04-1912
2411	6385427H	HAV	BHOGLE BHIWRAJ JAYSING	01-02-2012
2412	13896920N	HAV	BHOSLE MADHUKAR MAHALAPPA	01-03-2012
2413	13895975L	HAV	BINDESHWARI DAS	01-05-2012
2414	6381924P	HAV	BIRENDRA DATT BIJALWAN	01-07-2012
2415	13899412H	HAV	BODAT VITHTHAL BHAI SHAKARAJI	01-07-2012
2416	13896121X	HAV	BRIJ MOHAN	01-06-2012
2417	13898708P	HAV	BRIJ MOHAN SINGH	01-06-2012
2418	6382087A	HAV	BUNDHE MOTIRAM TUKARAM	01-08-2012
2419	6381753N	HAV	CHANA BASAYYA MATHA PATI	01-06-2012
2420	14800684Y	HAV	CHANDRA PAL SINGH	01-08-2012
2421	13898969H	HAV	CHANDRIKA RAM	01-03-2012
2422	6386417L	HAV	CHHOTE LAL	01-08-2012
2423	14800450P	HAV	DAL SINGH	01-06-2012
2424	6482093H	HAV	DATAR SINGH RATHORE	01-05-2012
2425	13899008N	HAV	DEBARAJ KUMAR PATNAIK	01-03-2012
2426	13899193M	HAV	DES RAJ	01-05-2012
2427	6383185M	HAV	DESAI NAND KUMAR	01-06-2012
2428	13898889L	HAV	DEV RAJ PATEL	01-02-2012
2429	6381498M	HAV	DEVENDRA SINGH	01-03-2012
2430	6386228F	HAV	DHANAPUNE MACHHINDRA BHAGUJI	01-04-2012
2431	14800385A	HAV	DHARAM PAL	01-06-2012
2432	6386126L	HAV	DHARAMVIR SINGH	01-04-2012
2433	6381451F	HAV	DIBYENDU NATH MAZUMDAR	01-02-2012
2434	14800403X	HAV	DINANATH SINGH	01-06-2012
2435	13899131M	HAV	DINESH KUMAR	01-04-2012
2436	6381728P	HAV	DINESH SINGH	01-06-2012
2437	13898820F	HAV	DIPOK BORUAH	01-03-2012
2438	14800174X	HAV	DOLA RAM	01-03-2012
2439	14800123K	HAV	FAYAZ AHMD ASHAY	01-05-2012
2440	6385402W	HAV	FRANCIS P D	01-02-2012
2441	6381564K	HAV	G GOVINDA RAJU	01-04-2012
2442	13899515F	HAV	G PRABAKARAN	01-08-2012
2443	6381481Y	HAV	GAIKWAS ISHWAR SONA	01-03-2012
2444	6382018K	HAV	GANGA RAM	01-08-2012
2445	6381838K	HAV	GEORGE MATHEW	01-07-2012
2446	13898857H	HAV	GIRISH KUMAR GAUTAM	01-03-2012
2447	14800723M	HAV	GOBINDA CHANDRA BANERJEE	01-08-2012
2448	13899354K	HAV	GOPAL MONDAL	01-04-2012

2449	13896772N	HAV	GOVIND BALLABH	01-02-2012
2450	6385349W	HAV	GOVIND SINGH RAGHAV	01-02-2012
2451	6385429N	HAV	GOVIT RAJARAM WALU	01-02-2012
2452	6386122P	HAV	GULAB SINGH	01-04-2012
2453	6381669N	HAV	GURDEV SINGH	01-05-2012
2454	14800546X	HAV	GURU SWAMY R	01-07-2012
2455	6385677K	HAV	HANUMAN SINGH	01-03-2012
2456	15352005Y	HAV	HARI KARAN SINGH YADAV	01-03-2012
2457	15354244M	HAV	HARI KRISHNA BABU K	01-07-2012
2458	14800456W	HAV	HARI LAL SINGH	01-06-2012
2459	6385862X	HAV	HARI SHANKAR	01-03-2012
2460	6381678P	HAV	HULWAN SAMBHAJI DNYANU	01-05-2012
2461	6381454P	HAV	J ALISTER PAUL	01-02-2012
2462	14800994K	HAV	JADEJA MANU SINHDIP SINH	01-08-2012
2463	6385517K	HAV	JADHAV DEELIP KISAN RAO	01-02-2012
2464	6381690W	HAV	JAGBIR SINGH BHANDARI	01-06-2012
2465	15304674A	HAV	JAGDISH PRASAD YADAV	01-02-2012
2466	6381632M	HAV	JAI KISUN RAM	01-04-2012
2467	6381671L	HAV	JAI PAL	01-05-2012
2468	6385976H	HAV	JAI PRAKASH	01-06-2012
2469	6382125L	HAV	JAI PRAKASH NARAIN	01-08-2012
2470	13899473A	HAV	JAI PRAKASH SHARMA	01-08-2012
2471	13899322F	HAV	JAINENDRA KUMAR	01-06-2012
2472	6383437N	HAV	JANG BAHADUR SAH	01-04-2012
2473	15353058K	HAV	JEET SINGH	01-04-2012
2474	6385432N	HAV	JITEN DAS	01-02-2012
2475	6381727M	HAV	K MUNI SWAMY	01-06-2012
2476	6382491P	HAV	K VENKTESWAR RAO	01-07-2012
2477	6381981W	HAV	KADAM VILAS KASHIRAM	01-07-2012
2478	6381920Y	HAV	KAILASH PRASAD	01-07-2012
2479	6381537A	HAV	KAILASH RAM	01-04-2012
2480	13896915H	HAV	KAKDE NARAYAN PUNDLIK	01-03-2012
2481	13899161K	HAV	KAMTA PRASAD SINGH	01-04-2012
2482	6381445N	HAV	KANCHA RANA TULASI RAO	01-02-2012
2483	6385732P	HAV	KAPADIYA RAMESH BACHU BHAI	01-03-2012
2484	14800041F	HAV	KARUPPANNAN R	01-04-2012
2485	6382516W	HAV	KEDAR NATH PANDA	01-06-2012
2486	6381513W	HAV	KISHAN PAL	01-03-2012
2487	6381612Y	HAV	KISHANA RAM DHANAK	01-04-2012
2488	6381512N	HAV	KISHORI LAL	01-03-2012
2489	6383382P	HAV	KRISHNA KUMAR	01-04-2012
2490	13898835K	HAV	KUMARESAN N	01-03-2012
2491	6381437P	HAV	L THULASAYYA REDDY	01-02-2012
2492	6385871Y	HAV	LALA RAM	01-03-2012
2493	13896906F	HAV	M CHANDRAIAH	01-03-2012
2494	6381572H	HAV	M THANGARAJAN	01-04-2012
2495	13895977W	HAV	MAHAVIR KUMAR JHALA	01-05-2012
2496	6381751H	HAV	MAHENDRA KUMAR	01-06-2012



2497	6382077W	HAV	MAHENDRA SINGH YADAV	01-08-2012
2498	6385748A	HAV	MALI P DNYANESHWAR	01-03-2012
2499	6382121P	HAV	MALI SHRISHAIL SHIVANNA	01-08-2012
2500	13899345H	HAV	MAM CHAND	01-06-2012
2501	6381979Y	HAV	MAN SINGH	01-07-2012
2502	13898791X	HAV	MANDALE SHIVAJI JYOTIRAM	01-03-2012
2503	6384214H	HAV	MANGTU RAM	01-04-2012
2504	14800640F	HAV	MANICK CHANDRA GHOSH	01-08-2012
2505	6381435K	HAV	MARIGOUDA B PATIL	01-02-2012
2506	14800642M	HAV	MD GOLAM KIBRIA HOSSAIN	01-08-2012
2507	6381918F	HAV	MD NAZIR HUSHAN	01-07-2012
2508	15352387N	HAV	MD SHER ANSARY	01-04-2012
2509	14800088M	HAV	MICHHU ROUT	01-04-2012
2510	6381968M	HAV	MISHRA SUKHMI DAYAL HAR PRASAD	01-07-2012
2511	14800987N	HAV	MUKESH KUMAR	01-08-2012
2512	15352543M	HAV	MULDAN	01-04-2012
2513	14800100H	HAV	MUNNA LAL	01-04-2012
2514	1800550A	HAV	MUTHU KUMARAN P	01-07-2012
2515	6381723W	HAV	N JAYA RAM	01-06-2012
2516	13898995K	HAV	NAGENDER KUMAR	01-02-2012
2517	6382113W	HAV	NANDA BALLABH PALIWAL	01-08-2012
2518	6386138A	HAV	NARENDER SINGH	01-04-2012
2519	6381989H	HAV	OM PRAKASH	01-07-2012
2520	13896791Y	HAV	OMPAL	01-02-2012
2521	6381809P	HAV	P ARUMUGAM	01-07-2012
2522	6381565M	HAV	P KARTHIKEYAN	01-04-2012
2523	13895979F	HAV	PADAKONDLU BALANKAIAH	01-06-2012
2524	14800524Y	HAV	PARAMANANDA SAMAL	01-07-2012
2525	6385514W	HAV	PATIL BHARAT GAURI SHANKAR	01-02-2012
2526	14800793L	HAV	PAWAN KUMAR SHARMA	01-08-2012
2527	6385740N	HAV	PAWAR D DNYANDEO	01-03-2012
2528	13898972H	HAV	PONNALU SRINIVAS	01-03-2012
2529	6382050Y	HAV	PRADEEPAN P	01-08-2012
2530	13899387P	HAV	PRADIP CHANDRA PATI	01-07-2012
2531	6385358X	HAV	PRAKASH N	01-02-2012
2532	6386081W	HAV	PRAMOD SINGH	01-04-2012
2533	6386206H	HAV	PRASANTA KUMAR BAGARTY	01-04-2012
2534	6381613F	HAV	PRATAP CHAND	01-04-2012
2535	6386388F	HAV	PROBIR KUMAR GHOSH	01-07-2012
2536	6386219A	HAV	PRODIP KONWAR	01-04-2012
2537	6382051F	HAV	PUSHPA RAJ P	01-08-2012
2538	14800386H	HAV	PYAR SINGH RAJAWAT	01-06-2012
2539	6386134K	HAV	R NAGABHUSHANAM	01-04-2012
2540	6381901N	HAV	RACHHPAL SINGH	01-07-2012
2541	6381921F	HAV	RADHEY SHYAM SAH	01-07-2012
2542	14800720Y	HAV	RADHEY SHYAM SINGH	01-08-2012
2543	6381746X	HAV	RAGHUNATH PRADHAN	01-06-2012
2544	13899518P	HAV	RAJARAM PRASAD	01-08-2012

2545	13896987M	HAV	RAJDHAR PATEL	01-04-2012
2546	6381643Y	HAV	RAJDIN MIAN	01-05-2012
2547	6381662K	HAV	RAJENDER SINGH	01-05-2012
2548	6381886K	HAV	RAJENDRA SINGH	01-07-2012
2549	13898840P	HAV	RAJESH KUMAR PANDEY	01-03-2012
2550	14800274H	HAV	RAJPAL	01-04-2012
2551	14800607K	HAV	RAJVEER SINGH	01-07-2012
2552	13899077K	HAV	RAJVIR SINGH	01-04-2012
2553	13898808A	HAV	RAM ADHAR VERMA	01-03-2012
2554	6381640L	HAV	RAM DASS	01-05-2012
2555	6381703H	HAV	RAM KISHAN	01-06-2012
2556	6381631K	HAV	RAM SHWARATH PRASAD	01-04-2012
2557	6381825M	HAV	RAM SINGH	01-07-2012
2558	14800397P	HAV	RAM SINGH	01-06-2012
2559	6381747A	HAV	RAM SWAROOP BHARGAVA	01-06-2012
2560	13899343X	HAV	RAMA DHAR SHARMA	01-06-2012
2561	6381700P	HAV	RAMESH CHANDRA	01-06-2012
2562	6482147Y	HAV	RAMESH KUMAR NAIN	01-07-2012
2563	6385564F	HAV	RANJAN KUMAR PANDA	01-02-2012
2564	6381528Y	HAV	RANVIR SINGH	01-04-2012
2565	14800559P	HAV	RATAN LAL JAT	01-07-2012
2566	13898767F	HAV	RAVINDRA SINGH AZAD	01-03-2012
2567	13899365W	HAV	RENJISH C	01-06-2012
2568	14800311L	HAV	S NILA BABU SINGHA	01-05-2012
2569	6386296P	HAV	S SAMPATH	01-05-2012
2570	14800552Y	HAV	S SARAVANAN	01-07-2012
2571	6483046X	HAV	S THAMIZH SELVAN	01-05-2012
2572	6386077N	HAV	SADDALA REDDI PRASAD	01-04-2012
2573	6385556H	HAV	SAHAB SINGH SUKHWASI LAL YADAV	01-02-2012
2574	13898759H	HAV	SAHEB RAO PAWAR	01-02-2012
2575	13898011F	HAV	SAIKH MUKHTAR BHAI HABIB BHAI	01-03-2012
2576	13899190Y	HAV	SANJIT BARAI	01-05-2012
2577	15354196X	HAV	SARATA CHANDRA MISHRA	01-06-2012
2578	14800222M	HAV	SAROJ KUMAR	01-04-2012
2579	14800510Y	HAV	SATYA NARAYAN	01-07-2012
2580	14800143X	HAV	SATYAVAN RAM	01-05-2012
2581	14800547A	HAV	SENTHUR PANDIAN T	01-07-2012
2582	6386076L	HAV	SHAIK KHAJA MOHIDDIN	01-04-2012
2583	14800103W	HAV	SHAMBHU KUMAR CHAURASIA	01-05-2012
2584	15352744L	HAV	SHAMSHER SINGH	01-04-2012
2585	6385455P	HAV	SHEJUL KALYAN PATINGRAO	01-02-2012
2586	6381533K	HAV	SHER SINGH	01-04-2012
2587	6381805Y	HAV	SHIV BAHADUR SINGH	01-06-2012
2588	13899301L	HAV	SHIVA KUMAR S	01-06-2012
2589	6386001N	HAV	SHRI JOSEPH SEBASTIAN PETER FRANCIS	01-03-2012
2590	6381750A	HAV	SHRI NATH	01-06-2012
2591	6382075L	HAV	SHYAM BABOO	01-08-2012

2592	6381457H	HAV	SHYAM SUNDAR YADAV	01-02-2012
2593	6381666A	HAV	SHYAMBIR SINGH	01-05-2012
2594	13896908M	HAV	SIBA PRASAD PRADHAN	01-03-2012
2595	13898814N	HAV	SOHRAB ALI	01-03-2012
2596	6482096W	HAV	SUBEDAR	01-05-2012
2597	6482124X	HAV	SUKHDEV SINGH	01-06-2012
2598	13899194P	HAV	SUKHWINDER MASIH	01-05-2012
2599	13899292P	HAV	SUNDARA RAJAN M	01-06-2012
2600	14800166Y	HAV	SURENDRA KUMAR SHARMA	01-05-2012
2601	6385435F	HAV	SURENDRA SINGH	01-02-2012
2602	14800252K	HAV	SURESH KUMAR	01-04-2012
2603	6381778A	HAV	SURESH KUMAR	01-06-2012
2604	14800639M	HAV	SURESH KUMAR BHARTI	01-08-2012
2605	6385649X	HAV	SWAPAN KUMAR GHOSH	01-03-2012
2606	13896885W	HAV	TARA CHAND VERMA	01-03-2012
2607	13898957N	HAV	TARUN BEZ BARUAM	01-03-2012
2608	14800046A	HAV	THOMAS A P	01-04-2012
2609	13899120A	HAV	TILAK RAJ	01-03-2012
2610	6382114Y	HAV	UMESH CHANDRA PANT	01-08-2012
2611	13899191F	HAV	UTTAM SIL	01-05-2012
2612	6386220P	HAV	V KASI	01-04-2012
2613	6381692F	HAV	VASAKHA SINGH	01-06-2012
2614	13896910K	HAV	VIDYA SAGAR	01-03-2012
2615	15351346X	HAV	VIJAY KUMAR MANDE	01-02-2012
2616	13899118H	HAV	VIJAY KUMAR MISHRA	01-03-2012
2617	14800603N	HAV	VIJAY PAL	01-07-2012
2618	14800369H	HAV	VIJAYA PAL	01-06-2012
2619	6381552P	HAV	VINOD KUMAR	01-04-2012
2620	6381698H	HAV	VIR PAL	01-06-2012
2621	6385935Y	HAV	VISWANATHAN N B	01-04-2012
2622	6385465Y	HAV	WILBERT LASRADO	01-02-2012
2623	6382109N	HAV	YASHPAL SINGH	01-08-2012

**ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)**

2624	6482186X	DFR	ARAVIND GURIA	01-08-2012
2625	6482167M	HAV	AWADESH KUMAR SHARMA	01-08-2012
2626	6381466K	HAV	AYODHYA PRASAD	01-02-2012
2627	6482104K	HAV	BABU E	01-05-2012
2628	6482026X	DFR	BAHADUR CHAND	01-02-2012
2629	6381473A	HAV	BALAKRISHNAN PA	01-02-2012
2630	6482154P	HAV	BASAVA PRASAD LINGAM	01-08-2012
2631	6384441H	HAV	BHEEM SINGH	01-08-2012
2632	6482168P	HAV	BHUBNESHWAR YADAV	01-08-2012
2633	6482114N	DFR	BHUPENDRA PRASAD Y	01-06-2012
2634	6386212W	HAV	BRI BHAN PATEL	01-04-2012
2635	6381776P	HAV	BRI MOHAN SINGH	01-06-2012
2636	6482062H	DFR	DILIP KUMAR SINGH	01-03-2012
2637	6381531Y	HAV	DINA GOMAIN	01-04-2012

2638	6482143H	DFR	DWARIKA PRASAD	01-07-2012
2639	6483129H	HAV	GOPAL CHAKRABORTY	01-08-2012
2640	6482181Y	HAV	INDRA BHUSAN YADAV	01-08-2012
2641	6482567Y	HAV	JADHAV RAMESH ANAND	01-06-2012
2642	6482094L	DFR	JAGDISH LAL MEENA	01-05-2012
2643	6382138H	HAV	JAI RAM MUDUIA	01-08-2012
2644	6382107H	HAV	JAMAN SINGH	01-08-2012
2645	6385396N	DFR	JITENDRA KUMAR SIN	01-02-2012
2646	6482930K	HAV	KOYAM SINGH	01-02-2012
2647	6482117F	DFR	LAL BAHADUR	01-06-2012
2648	6482187A	DFR	MORE HINDU RAO BANDU	01-08-2012
2649	6381725F	HAV	MR MEGHWAL	01-05-2012
2650	6482099K	HAV	OM PRAKASH	01-05-2012
2651	6483057K	HAV	PARAMESHWAR RAO	01-05-2012
2652	6381655N	DFR	PHAGANOO RAM	01-05-2012
2653	6482044A	DFR	POORAN LAL BIJAULE	01-03-2012
2654	6482984L	HAV	RAJAU L KARIM	01-03-2012
2655	6382748P	HAV	RAJU B	01-08-1912
2656	6482160H	HAV	RAM BABU SINGH	01-08-2012
2657	6482158L	HAV	RANJIT SINGH	01-08-2012
2658	6482992K	HAV	REJI K P	01-03-2012
2659	6386050W	DFR	ROOP SINGH	01-04-2012
2660	6482041M	HAV	SHIV KUMAR	01-03-2012
2661	6381627F	HAV	SOBAN SINGH	01-05-2012
2662	6482975K	HAV	SOME GOWDA B N	01-03-2012
2663	6482225L	HAV	SUBHASH CHANDRA SIKDAR	01-08-2012
2664	6482129W	HAV	SURENDER SINGH	01-06-2012
2665	6482141X	HAV	SURENDRA PRASAD	01-07-2012
2666	6482112H	DFR	SY KONDALU REDDY	01-06-2012
2667	6482177W	HAV	TOTA RAM	01-07-2012
2668	6385400L	HAV	UTTAM KUMAR TAMANG	01-02-2012
2669	6482150Y	HAV	ZILE SINGH YADAV	01-08-2012
<b><u>ARMY MEDICAL CORPS</u></b>				
2670	13967077L	HAV	A MANIKANDAN	01-03-2012
2671	13967161L	HAV	AKSHAYA KUMAR BARAL	01-03-2012
2672	13966409X	HAV	AMAR SINGH	01-02-2012
2673	13967106P	HAV	AMIR SINGH	01-03-2012
2674	13966352N	HAV	ANIL KUMAR	01-02-2012
2675	13976318F	HAV	ANIL KUMAR	01-04-2012
2676	13968056F	HAV	ANIL KUMAR GOGOI	01-06-2012
2677	13966669H	HAV	ANIL KUMAR PANDE	01-02-2012
2678	13966604P	HAV	ANIL KUMAR PANDEY	01-02-2012
2679	13966472M	HAV	ANIL KUMAR SINGH	01-02-2012
2680	13966450N	HAV	ASHOK KUMAR	01-02-2012
2681	13966451W	HAV	ASHOK KUMAR NIRALA	01-02-2012
2682	13966413A	HAV	ATAR SINGH	01-02-2012
2683	13966613W	HAV	AWADHESH KUMAR SINGH	01-02-2012

2684	13966973M	HAV	AZAD SINGH	01-03-2012
2685	13968996M	HAV	BABU RAM	01-08-2012
2686	13966833A	HAV	BALAM SINGH	01-03-2012
2687	13967127L	HAV	BALBIR SINGH	01-03-2012
2688	13966803H	HAV	BALVIR SINGH	01-03-2012
2689	13966689W	HAV	BALWANT SINGH JAT	01-02-2012
2690	13967049Y	HAV	BANDEPPA	01-03-2012
2691	13966930X	HAV	BANT SINGH GARG	01-03-2012
2692	13968451P	HAV	BASHISHTH NARAIN SAH	01-07-2012
2693	13966464N	HAV	BHAGBANT SINGH	01-02-2012
2694	13966498F	HAV	BIJAY KUMAR JHA	01-02-2012
2695	13966337Y	HAV	BIJAYA KUMAR PADHY	01-02-2012
2696	13966907K	HAV	BIMAL CHANDRA GOGOI	01-03-2012
2697	13967050N	HAV	BINANDA BHUYAN	01-03-2012
2698	13966589L	HAV	BRAHAM DEV SINGH	01-02-2012
2699	13967154P	HAV	C D PRASAD YADAV	01-02-2012
2700	13966376X	HAV	C NAGA RAJAN	01-02-2012
2701	13966713F	HAV	CHACHE KESHAV HIROJI	01-02-2012
2702	13966621P	HAV	CHAMANBIR SINGH	01-02-2012
2703	13966678K	HAV	CHANDRAN PILLAI T	01-02-2012
2704	13966583K	HAV	CHARLES R	01-02-2012
2705	13966526H	HAV	CHHITAR LAL GUJAR	01-02-2012
2706	13966974P	HAV	CHOODAMANI SINGH	01-03-2012
2707	13966625L	HAV	D C PANDEY	01-02-2012
2708	13966702P	HAV	D J NARAYAN	01-02-2012
2709	13966516Y	HAV	D RAJAN	01-02-2012
2710	13966434W	HAV	D RAM DASS	01-02-2012
2711	13966748X	HAV	D S SHIVRAM	01-02-2012
2712	13966694F	HAV	DARA SINGH	01-02-2012
2713	13966780M	HAV	DAYAL SAMAD	01-02-2012
2714	13966654A	HAV	DAYANAND KHANDAGALE	01-02-2012
2715	13967062H	HAV	DHANESWAR DAS	01-03-2012
2716	13966298L	HAV	DHANJI DESAI	01-02-2012
2717	13966716P	HAV	DHARAMVIR SINGH	01-02-2012
2718	13967034W	HAV	DILBAR SINGH	01-03-2012
2719	13967141X	HAV	DILEEP KUMAR K P	01-03-2012
2720	13966981L	HAV	DILIP KUMAR NAMDEO	01-03-2012
2721	13967071K	HAV	DINA BANDHU NAYAK	01-03-2012
2722	13967021Y	HAV	DINESH CHANDRA DAS	01-03-2012
2723	13966615F	HAV	GAJENDRA SINGH	01-02-2012
2724	13967083Y	HAV	GAJENDRA SINGH	01-03-2012
2725	13966661W	HAV	GANGA PRASAD YADAVA	01-02-2012
2726	13967055M	HAV	GOKUL BORAH	01-03-2012
2727	13966710N	HAV	GORE SURESH KESHAO	01-02-2012
2728	13966354Y	HAV	H C SANWAL	01-02-2012
2729	13967064N	HAV	HAKIM SINGH	01-03-2012
2730	13966534F	HAV	HARGUN SINGH	01-02-2012
2731	13966896H	HAV	HARI BHAN SINGH	01-03-2012

2732	13966827M	HAV	HARI KUMAR K	01-03-2012
2733	13966898N	HAV	HARI SHANKER	01-03-2012
2734	13967115W	HAV	HARJENDER SINGH	01-03-2012
2735	13966484F	HAV	HARVIND SINGH	01-02-2012
2736	13966362X	HAV	HEMANT KUMAR GAUTAM	01-02-2012
2737	13966348L	HAV	HIRALAL CHAWDHARY	01-02-2012
2738	13966808F	HAV	HIRALAL PANDEY	01-03-2012
2739	13967045H	HAV	J JAYA KUMAR	01-03-2012
2740	13966700K	HAV	J R JAYVANT	01-02-2012
2741	13967074X	HAV	J RAJENDIRAN	01-03-2012
2742	13966794M	HAV	JADHAV BHAGAWAN BAPU	01-02-2012
2743	13966795P	HAV	JADHAV M J	01-02-2012
2744	13966494L	HAV	JANARDHAN SINGH	01-02-2012
2745	13967131N	HAV	JAVARAJAH	01-03-2012
2746	13966492A	HAV	JITENDRA SINGH RAWAT	22-01-2012
2747	13966783A	HAV	JIWAN LAKRA	01-02-2012
2748	13966592L	HAV	JOGA MASIH	01-02-2012
2749	13966461A	HAV	JUGAL KISHOR NAMDEV	01-02-2012
2750	13966395H	HAV	K A RAM BHAU	01-02-2012
2751	13966566K	HAV	K LAL VISHWAKARMA	01-02-2012
2752	13966671A	HAV	K R DIGAMBAR	01-02-2012
2753	13967016N	HAV	K RAVI KUMAR	01-03-2012
2754	13966887F	HAV	K S YADAV	01-03-2012
2755	13966892M	HAV	KAMLESH CHAUBE	01-03-2012
2756	13966608L	HAV	KARU PRASAD SINGH	01-02-2012
2757	13966806W	HAV	KEDAR NATH	01-03-2012
2758	13967102Y	HAV	KESHAV SINGH	01-03-2012
2759	13968771K	HAV	KRISHAN KUMAR	01-08-2012
2760	13966836N	HAV	KRISHAN KUMAR TIWARI	01-03-2012
2761	13966591H	HAV	KRISHNA SINGH	01-02-2012
2762	13966787W	HAV	KUWAR PAL SINGH	01-02-2012
2763	13966889M	HAV	LALJI SINGH YADAV	01-03-2012
2764	13967063L	HAV	LAXMAN SINGH	01-03-2012
2765	13966959A	HAV	LAXMI CHAND	01-03-2012
2766	13967058A	HAV	M D BOKTARE ALI	01-03-2012
2767	13966519M	HAV	M PANDIAN	01-02-2012
2768	13968688M	HAV	M VENKATESAN	01-07-2012
2769	13966670X	HAV	MADAN SINGH	01-02-2012
2770	13966623A	HAV	MADAN SINGH	01-02-2012
2771	13966630W	HAV	MAHESH CHANDRA SEN	01-02-2012
2772	13966667X	HAV	MAHI PAL SINGH	01-02-2012
2773	13967061A	HAV	MIRI RAM BASUMATARY	01-03-2012
2774	13966766A	HAV	MOCHI RAM GOUDA	01-02-2012
2775	13968011F	HAV	MOHAMED AMIN	01-06-2012
2776	13966360M	HAV	MOHD NUR HUSAIN ALI	01-02-2012
2777	13967108A	HAV	MUKH LAL RAM	01-03-2012
2778	13967138X	HAV	MURALE DHARAN P M	01-03-2012
2779	13966926P	HAV	NAND KISHORE MAHTO	01-03-2012

2780	13968957N	HAV	NARAYAN RAM	01-08-2012
2781	13975833F	HAV	NARENDER KUMAR	01-03-2012
2782	13966976A	HAV	NARENDRA KUMAR SAHU	01-03-2012
2783	13967556M	HAV	NARENDRA SINGH	01-04-2012
2784	13966929H	HAV	NARENDRA SINGH TOMAR	01-03-2012
2785	13966501W	HAV	NARESH KUMAR	01-02-2012
2786	13966977H	HAV	NARESH PRASAD MISHRA	01-03-2012
2787	13966626N	HAV	NAWAL KISHOR BISHT	01-02-2012
2788	13966786N	HAV	NAWAL KISHORE SHARMA	01-02-2012
2789	13966852L	HAV	NIKHIL CHANDRA ROY	01-03-2012
2790	13966744F	HAV	OM PRAKASH	01-02-2012
2791	13966619X	HAV	OMBIR SINGH	01-02-2012
2792	13966708W	HAV	P B GANAPATI	01-02-2012
2793	13966407M	HAV	P CONGRESS RAJU	01-02-2012
2794	13966539A	HAV	P GANESAN	01-02-2012
2795	13966628Y	HAV	P S ADHIKARI	01-02-2012
2796	13966699A	HAV	P S BABU RAO	01-02-2012
2797	13968593M	HAV	P U DHONDIBA	01-07-2012
2798	13966805N	HAV	PARBHU NATH MISHRA	01-03-2012
2799	13966423K	HAV	PARTHA SARTHI ROY	01-02-2012
2800	13966384W	HAV	PATEL A K HIRALAL	01-02-2012
2801	13968850Y	HAV	PATIL D SITARAM	01-08-2012
2802	13967005F	HAV	PATIL NANA BAPU	01-03-2012
2803	13966305W	HAV	PAWAR MARUTI DEVAPPA	01-02-2012
2804	13966772N	HAV	PHOOL SINGH JATAV	01-02-2012
2805	13966599P	HAV	PRABHAKARA HIAL	01-02-2012
2806	13976046M	HAV	PRABHU DAYAL	01-03-2012
2807	13966588H	HAV	PRABHU NATH THAKUR	01-02-2012
2808	13967088X	HAV	PRADEEP MOHANTA	01-03-2012
2809	13967122M	HAV	PRASHENJIT SINGH	01-03-2012
2810	13966838Y	HAV	PREMA RAJAN K	01-03-2012
2811	13966858M	HAV	PRITAM SINGH	01-03-2012
2812	13966870N	HAV	PRITAM SINGH	01-03-2012
2813	13967089A	HAV	PYARE LAL CHOWHAN	01-03-2012
2814	13966651M	HAV	R A K RAJNIKANT	01-02-2012
2815	13966510X	HAV	R A SOLANKI	01-02-2012
2816	13966696M	HAV	R N PATNAIK	01-02-2012
2817	13966448W	HAV	R N PRASAD YADAV	01-02-2012
2818	13966894X	HAV	R S PANDHARINATH	01-03-2012
2819	13966704A	HAV	R W S S SHIV RAO	01-02-2012
2820	13966474X	HAV	RABINDRA KUMAR	01-02-2012
2821	13969089Y	HAV	RABINDRA KUMAR ROY	01-08-2012
2822	13966733P	HAV	RAJ KISHOR YADAV	01-02-2012
2823	13967193N	HAV	RAJ KUMAR	01-03-2012
2824	13966408P	HAV	RAJ KUMAR	01-02-2012
2825	13966773W	HAV	RAJ SINGH	01-02-2012
2826	13966637A	HAV	RAJA KISHOR SAHU	01-02-2012
2827	13966979N	HAV	RAJBHAN VISHWAKARMA	01-03-2012

2828	13968420P	HAV	RAJENDRA KUMAR	01-07-2012
2829	13966978L	HAV	RAJENDRA KUMAR PATEL	01-03-2012
2830	13966807Y	HAV	RAJENDRA NATH TIWARI	01-03-2012
2831	13966921W	HAV	RAJU T P	01-03-2012
2832	13968133L	HAV	RAJYADHAR MANDAL	01-06-2012
2833	13966771L	HAV	RAKESH	01-02-2012
2834	13966416N	HAV	RAKESH KUMAR	01-02-2012
2835	13966793K	HAV	RAM BHADUR GURUNG	01-02-2012
2836	13966743Y	HAV	RAM DHARI SINGH	01-02-2012
2837	13975844N	HAV	RAM HET	01-03-2012
2838	13966656L	HAV	RAM KUMAR	01-02-2012
2839	13966814P	HAV	RAM LAL	01-03-2012
2840	13966934N	HAV	RAM ROSHAN	01-03-2012
2841	13966804L	HAV	RAM SAGAR	01-03-2012
2842	13966897L	HAV	RAM SHANKAR	01-03-2012
2843	13967023K	HAV	RAM SIYA PATEL	01-03-2012
2844	13966525A	HAV	RAM SWAROOP DHAKAR	01-02-2012
2845	13966440K	HAV	RAM VIJAY SINGH	01-02-2012
2846	13967073P	HAV	RAMAKRISHANAN P	01-03-2012
2847	13966663F	HAV	RAMESH CHANDRA	01-02-2012
2848	13967024M	HAV	RAMESH KUMAR DWIVEDI	01-03-2012
2849	13966826K	HAV	RAMESH KUMAR K	01-03-2012
2850	13966565F	HAV	RAMESH PRASAD PANDEY	01-02-2012
2851	13966482W	HAV	RAMJI YADAVA	01-02-2012
2852	13966752A	HAV	RANBIR SINGH	01-02-2012
2853	13966816A	HAV	RANBIR SINGH SWAMI	01-03-2012
2854	13967027A	HAV	RANJIT SINGH	01-03-2012
2855	139666813M	HAV	RANJIT SINGH	01-03-2012
2856	13967142A	HAV	RATNAKARAN K G	01-03-2012
2857	13975847F	HAV	RAVI DUTT	01-03-2012
2858	13967111A	HAV	RAVI SHANKER SHARMA	01-03-2012
2859	13966927X	HAV	RAVINDRA KUMAR SINGH	01-03-2012
2860	13967137P	HAV	RAVINDRAN P T	01-03-2012
2861	13968350F	HAV	REJETI RAMDAS	01-06-2012
2862	13966900A	HAV	S B SINGH KUSHWAH	01-03-2012
2863	13967051W	HAV	S C KAKOTY	01-03-2012
2864	13966768L	HAV	S C TRIPATHY	01-02-2012
2865	13966309M	HAV	S G GHOSH	01-02-2012
2866	13966550Y	HAV	S GANESAN	01-02-2012
2867	13966940F	HAV	S GOPAL	01-03-2012
2868	13966373K	HAV	S K MOHIDDIN	01-02-2012
2869	13968080X	HAV	S M HUSEN MIYASAB	01-06-2012
2870	13966711W	HAV	S S SHANTARAM	01-02-2012
2871	13966938K	HAV	S SANGUDURAI	01-03-2012
2872	13966902L	HAV	SABBU LAL	01-03-2012
2873	13966402N	HAV	SAGAR SUNIL NAMDEO	01-02-2012
2874	13966745K	HAV	SAHDEO MISTRY	01-02-2012
2875	13967158L	HAV	SAJI JOSE	01-03-2012



2876	13966377A	HAV	SAMBATH D	01-02-2012
2877	13966769N	HAV	SANATANA PRADHAN	01-02-2012
2878	13966875M	HAV	SANGOTTUVELU K	01-03-2012
2879	13966359X	HAV	SANTOSH BISWAS	01-02-2012
2880	13966837W	HAV	SANTOSH KUMAR	01-03-2012
2881	13966996N	HAV	SARDEEP KUMAR	01-03-2012
2882	13966560H	HAV	SATYA NIWAS	01-02-2012
2883	13966415L	HAV	SATYA PRAKASH	01-02-2012
2884	13966840W	HAV	SATYAVIR SINGH	01-03-2012
2885	13966728K	HAV	SHAJEE P	01-02-2012
2886	13968588F	HAV	SHEJWAL GULAB SANDU	01-07-2012
2887	13966419F	HAV	SHIV NARAIN RAM	01-02-2012
2888	13966740L	HAV	SHIV SANKAR DAYAL	01-02-2012
2889	13966347H	HAV	SHIV SINGH	01-02-2012
2890	13966757Y	HAV	SHIVANATH SINGH	01-02-2012
2891	13966920N	HAV	SOMAN R	01-03-2012
2892	13968347F	HAV	SUBHASH CHANDRA ROY	01-06-2012
2893	13967136M	HAV	SUDEVAN V	01-03-2012
2894	13966758F	HAV	SUDHIR KUMAR	01-02-2012
2895	13966679M	HAV	SUGAN LAL SOLANKI	01-02-2012
2896	13966791Y	HAV	SUNIL KUMAR	01-02-2012
2897	13966470F	HAV	SUNIL KUMAR BHASKAR	01-02-2012
2898	13966471K	HAV	SURENDER VERMA	01-02-2012
2899	13966845P	HAV	SURESH KUMAR N R	01-03-2012
2900	13967052Y	HAV	TRALOKYA GOGOI	01-03-2012
2901	13975539F	HAV	TRIBHUWAN UPADHYAY	01-02-2012
2902	13966868W	HAV	UMA SANKAR RAY	01-03-2012
2903	13966617M	HAV	UMESH CHAND TYAGI	01-02-2012
2904	13966336W	HAV	UTPAL CHAKRABORTY	01-02-2012
2905	13966652P	HAV	V KESAVAN NAIR	01-02-2012
2906	13966392P	HAV	V R SINGH B G BHAI	01-02-2012
2907	13967130L	HAV	VENKATESH K	01-03-2012
2908	13966726Y	HAV	VINOD KUMAR	01-02-2012

**ARMY ORDNANCE CORPS**

2909	6924747Y	HAV	A SALEEM	01-03-2012
2910	6925256P	HAV	ABID ALI	01-04-2012
2911	6924623K	HAV	AMARJIT SINGH	01-02-2012
2912	6925247N	HAV	AMRENDRA PRATAP	01-04-2012
2913	6924757H	HAV	AMULYA KUMAR BRAHMA	01-03-2012
2914	6925197N	HAV	ANAND SINGH	01-04-2012
2915	6924908W	HAV	ANUJ KUMAR MARANDI	01-04-2012
2916	6925097H	HAV	ANUSUYA SINGH	01-04-2012
2917	6924871A	HAV	ARUN KUMAR MISHRA	01-04-2012
2918	6925156K	HAV	ASHOK KUMAR	01-04-2012
2919	6925479M	HAV	ASHOK KUMAR	01-06-2012
2920	6925662P	HAV	AWADHESH KUMAR TIWARI	01-08-2012
2921	6924975F	HAV	BADSHAH SINGH	01-04-2012

2922	6924911W	HAV	BALWANT SINGH	01-04-2012
2923	6924587K	HAV	BAMANYA BHART SINA MATHUR BHAI	01-02-2012
2924	6925358L	HAV	BARJO MOHAN ROY	01-06-2012
2925	6925143M	HAV	BED MANI MISHRA	01-04-2012
2926	6924835P	HAV	BIKRAM SINGH	01-04-2012
2927	6925702L	HAV	BIMAN BIHARI BEHURA	01-08-2012
2928	6925289A	HAV	BIRENDRA PRASAD	01-05-2012
2929	6924773A	HAV	BIRENDRA PRASAD DEURI	01-03-2012
2930	6925127P	HAV	BISHAMBHAR NATH	01-04-2012
2931	6925413W	HAV	BRIJ BIHARI OJHA	01-06-2012
2932	6925412N	HAV	BRIJ NANDAN SINGH	01-06-2012
2933	6925181H	HAV	C GEORGE DOMINIC	01-04-2012
2934	6924568Y	HAV	CHANDER PAL SINGH	01-02-2012
2935	6925347Y	HAV	CHANDER PARKASH	01-05-2012
2936	6924537Y	HAV	CHAVAN MANIK GOPA	01-02-2012
2937	6925659P	HAV	CHHATRA PAL MISHRA	01-08-2012
2938	6924529A	HAV	DANDU NAGARAJU	01-02-2012
2939	6925544F	HAV	DEEPAK KUMAR BORA	01-07-2012
2940	62928408W	HAV	DHIRENDRA MISHRA	27-02-2012
2941	6925540L	HAV	DINESH KUMAR	01-07-2012
2942	6924732W	HAV	DRIG VIJAY SINGH	01-03-2012
2943	6925666L	HAV	GADEKAR SANTOSH WALUBA	01-08-2012
2944	6924562X	HAV	GAIKE GAJANAN ONKAR	01-02-2012
2945	6925198W	HAV	GANESH SINGH	01-04-2012
2946	6924624M	HAV	GOPAL SINGH	01-02-2012
2947	6925179L	HAV	GYANESHWAR PANDEY	01-04-2012
2948	6925448M	HAV	HARE KRUSHNA PRADHAN	01-06-2012
2949	6924842L	HAV	HEM RAJ	01-04-2012
2950	6925227A	HAV	HRIDAY NARAYAN SINGH	01-04-2012
2951	6924521N	HAV	JAGAT RAM PATHAK	01-02-2012
2952	6925541N	HAV	JAGDISH PAL	01-07-2012
2953	6925221Y	HAV	JAGROPAN YADAV	01-04-2012
2954	6925243X	HAV	JAI VIR SINGH	01-04-2012
2955	6925422X	HAV	JALAM SINGH	01-06-2012
2956	6925535A	HAV	KAMESHWAR PANDEY	01-07-2012
2957	6924926Y	HAV	KATURI VENKATESWARAO	01-04-2012
2958	6924644A	HAV	KEDAR NATH DUBEY	01-02-2012
2959	6925093M	HAV	KHUSHAL SINGH	01-04-2012
2960	6927805H	HAV	KISHAN PAL	01-07-2012
2961	6924575P	HAV	KISHOR PRASAD	01-02-2012
2962	6925167W	HAV	KRISHAN KUMAR	01-04-2012
2963	6925078X	HAV	LAKSHMAN PRASAD	01-04-2012
2964	6925726P	HAV	LAXMAN KUMAR BEHERA	01-08-2012
2965	6925250N	HAV	LEELA RAM	01-04-2012
2966	6925741K	HAV	LOKE NATH DAS	01-08-2012
2967	6924605F	HAV	MAHA NARAYAN	01-02-2012
2968	6924491F	HAV	MAHARAJ SINGH	01-02-2012
2969	6925268K	HAV	MAHAVIR PRASAD YADAV	01-04-2012

2970	6925094P	HAV	MAHENDER KUMAR	01-04-2012
2971	6925232L	HAV	MAHENDER SINGH	01-04-2012
2972	6925592F	HAV	MAHENDER SINGH	01-07-2012
2973	6925478K	HAV	MAHENDRA PRASAD SAH	01-06-2012
2974	6924964P	HAV	MAHESH CHANDRA	01-04-2012
2975	6924812N	HAV	MALKHAN SINGH	01-03-2012
2976	6924812Y	HAV	MANSINGH	01-02-2012
2977	6925448P	HAV	MAN SINGH RATHAUR	01-04-2012
2978	6924525K	HAV	MANOJ KUMAR SHARMA	01-02-2012
2979	6924641M	HAV	MIR HASHEM ALI	01-02-2012
2980	6924502H	HAV	MOHAN RAJ V	01-02-2012
2981	6925255H	HAV	MUNENDER PAL SINGH	01-04-2012
2982	6925668W	HAV	NALAWADE SUDAM DNYAN DEO	01-08-2012
2983	6924905H	HAV	NANDAN RAM	01-04-2012
2984	6925556W	HAV	NARENDRA KUMAR SHARMA	01-07-2012
2985	6924487Y	HAV	NAYAKU GHOSARÀ WADE	01-02-2012
2986	6924906L	HAV	NEMAI GHOSH	01-04-2012
2987	6924593X	HAV	NIKHIL CHANDRA CHAKRABARTHY	01-02-2012
2988	6924594A	HAV	NIKHIL CHANDRA MANDAL	01-02-2012
2989	6924715W	HAV	ONKAR SINGH	01-03-2012
2990	6924758L	HAV	PNATIK CHANDRA BARMAN	01-03-2012
2991	6925001P	HAV	PRAMODBAN BINARI SINGH	01-04-2012
2992	6924786X	HAV	PRASANT KUMAR DASH	01-03-2012
2993	6925399P	HAV	PREM LAL SINGH	01-06-2012
2994	6925154Y	HAV	PREM SAGAR SINGH YADAVA	01-04-2012
2995	6925463F	HAV	RABINDRA NATH BISWAS	01-06-2012
2996	6925414Y	HAV	RABINDRA PRASAD SHARMA	01-06-2012
2997	6925710K	HAV	RAJ KISHOR TIWARI	01-08-2012
2998	6925356A	HAV	RAJNI KANT MISHRA	01-06-2012
2999	6924661A	HAV	RAM ABHILASH	01-02-2012
3000	6924651W	HAV	RAM KRISHAN SHARMA	01-02-2012
3001	6924604Y	HAV	RAM LAL SAROJ	01-02-2012
3002	6925140Y	HAV	RAM NARESH	01-04-2012
3003	6925161P	HAV	RAM NARESH	01-04-2012
3004	6924845Y	HAV	RAM SHANKAR SINGH YADAV	01-04-2012
3005	6925096A	HAV	RAM SINGH	01-04-2012
3006	6924693H	HAV	RAMA KRISHNAN E	01-03-2012
3007	6925214H	HAV	RAMA SHANKER TIWARI	01-04-2012
3008	6924861W	HAV	RAMESH CHANDRA	01-04-2012
3009	6925552A	HAV	RATAN HEMROM	01-07-2012
3010	6924492K	HAV	RAVENDRA SINGH	01-02-2012
3011	6924858W	HAV	REYYI BHASKAR RAO	01-04-2012
3012	6925526Y	HAV	ROPANA SAHU	01-07-2012
3013	6925695A	HAV	S ABBAS MANDHIRI	01-08-2012
3014	6924867X	HAV	S MAHABOOB BASHA	01-04-2012
3015	6924876Y	HAV	S MURUGESAN	01-04-2012
3016	6925215L	HAV	SABHA JEET	01-04-2012
3017	6925380W	HAV	SAINDANE RAMKRUSHNA FAKIRA	01-06-2012

3018	6925118N	HAV	SARPANCH SINGH	
3019	6924957Y	HAV	SARVESH KUMAR KATTIYAR	01-04-2012
3020	6925152N	HAV	SATBIR SINGH	01-04-2012
3021	6925698N	HAV	SATNAM SINGH	01-04-2012
3022	6925073Y	HAV	SATTARU BHEEMA RAO	01-08-2012
3023	6925229L	HAV	SATYENDU BHUSHAN SHUKLA	01-04-2012
3024	6924834M	HAV	SHEO KUMAR PRASAD	01-04-2012
3025	6924974Y	HAV	SHIV NARESH SINGH	01-04-2012
3026	6925172F	HAV	SHTV SHANKAR KUSHWAH	01-04-2012
3027	6924942W	HAV	SIVA SELVAN D	01-04-2012
3028	6925711M	HAV	SOBEER SINGH	01-04-2012
3029	6924723P	HAV	SUDARSANAN KK	01-08-2012
3030	6924481X	HAV	SUNIL M	01-03-2012
3031	6925663X	HAV	SURENDER TOPPO	01-02-2012
3032	6925160M	HAV	SURESH BAHADUR SINGH	01-08-2012
3033	6925119W	HAV	SURESH CHANDRA	01-04-2012
3034	6924589P	HAV	SWAPAN DAS	01-04-2012
3035	6925265W	HAV	TT PANDEY	01-02-2012
3036	6925151L	HAV	VANA VASUDEVA RAO	01-04-2012
3037	6924848M	HAV	VIDYADHAR SINGH KHEDAR	01-04-2012
3038	6925430W	HAV	VIJAY KUMAR	01-04-2012
3039	6925072W	HAV	VIJAY KUMAR	01-06-2012
3040	6924971L	HAV	VIKARAM SINGH	01-04-2012
3041	6925145X	HAV	VINOD KUMAR	01-04-2012
3042	6924488F	HAV	VISHNU PRATAP SINGH BHADAURIA	01-04-2012
3043	6925153W	HAV	VISHRAM CHAUHAN	01-02-2012
3044	6925330L	HAV	Y S CHAUHAN	01-04-2012
<b>CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS</b>				01-05-2012

3045	14593863K	HAV	A ARUL JOHN	
3046	14593599F	HAV	ABDUL KALAM BARBHUTYA	01-04-2012
3047	14597990W	HAV	ADITI KUMAR BHUNIA	01-04-2012
3048	14591981Y	HAV	AJAI PAL SINGH	01-08-2012
3049	14590888L	HAV	AJAY KUMAR NAYAK	01-03-2012
3050	14590125P	HAV	ANIL ATRI	01-02-2012
3051	14592550Y	HAV	ANIL KUMAR	01-02-2012
3052	14593350P	HAV	ANIL KUMAR KAUSHIK	01-04-2012
3053	14598075K	HAV	ANIL KUMAR KT	01-04-2012
3054	14591115X	HAV	ANIL KUMAR SHARMA	01-08-2012
3055	14593213W	HAV	ANIL KUMAR SINGH	01-02-2012
3056	14592209F	HAV	ANOOP SINGH	01-04-2012
3057	14592664K	HAV	ARJUN YADAV	01-03-2012
3058	14593638Y	HAV	AROCKIADROSS L	01-03-2012
3059	14595118H	HAV	ARUN KUAMR	01-04-2012
3060	14596748P	HAV	ARUN KUMAR MISHRA	01-06-2012
3061	14591010M	HAV	ASHIM KUMAR DEY	01-07-2012
3062	14591566H	HAV	ASHOK KUMAR	01-03-2012
3063	14596086X	HAV	ASHOK KUMAR GUPTA	01-02-2012
				01-06-2012

3064	14595290K	HAV	ASHOK KUMAR SINGH	01-06-2012
3065	14596102K	HAV	ASHOK KUSHWAHA	01-06-2012
3066	14595670H	HAV	AUTI SHANKAR BHAU	01-07-2012
3067	14595257M	HAV	BABU LAL CHEJARA	01-06-2012
3068	14591377N	HAV	BABU LAL JAT	01-03-2012
3069	14591713P	HAV	BABU LAL SAIN	01-03-2012
3070	14594313N	HAV	BAIDYANATH JHA	01-04-2012
3071	14593258W	HAV	BALARAM PRASAD	01-04-2012
3072	14591353K	HAV	BALARAM SAHA	01-03-2012
3073	14595420F	HAV	BALJIT SINGH	01-04-2012
3074	14595064M	HAV	BALMIKI PANDEY	01-07-2012
3075	14591076K	HAV	BALRAJ	01-02-2012
3076	14592567M	HAV	BANESH KUMAR SHARMA	01-04-2012
3077	14592176F	HAV	BANSI DHAR	01-03-2012
3078	14591903F	HAV	BARMESHWAR NATH MISHRA	01-02-2012
3079	14593126H	HAV	BASANT KUMAR SINGH	01-03-2012
3080	14595340K	HAV	BEERENDRA SINGH	01-06-2012
3081	14590890H	HAV	BHABENDRA NATH JENA	01-02-2012
3082	14590312N	HAV	BHABENDRA ROY	01-02-2012
3083	14593621F	HAV	BHAGAT RAM	01-04-2012
3084	14592035M	HAV	BHAGAT SINGH	01-03-2012
3085	14592479W	HAV	BHAGWAN SAHAY GURJAR	01-03-2012
3086	14591794A	HAV	BHAJAN LAL	01-03-2012
3087	14590342L	HAV	BHANA RAM BHAKAR	01-02-2012
3088	14597172P	HAV	BHANWAR RAM CHOUDHARY	01-08-2012
3089	14597381M	HAV	BHARAT CHANDRA BISWAL	01-08-2012
3090	14591015M	HAV	BHARAT SINGH	01-02-2012
3091	14595847L	HAV	BHARAT YADAV	01-05-2012
3092	14611083K	HAV	BHASKARAN VADAKKEYIL	01-04-2012
3093	14596054P	HAV	BHAWAN SINGH GUROW	01-06-2012
3094	14592541X	HAV	BHIM BAHADUR CHHETRI	01-04-2012
3095	14595358A	HAV	BHUJABAL BISOYI	01-06-2012
3096	14591755F	HAV	BHUMANI SINGH	01-03-2012
3097	14591950Y	HAV	BHUWAN CHANDRA	01-02-2012
3098	14594302F	HAV	BIJAY KUMAR SINGH	01-04-2012
3099	14591919M	HAV	BINOD KUMAR CHOUBEY	01-02-2012
3100	14597479A	HAV	BIPATTARAN ROY	01-08-2012
3101	14592594W	HAV	BIPUL CHANDRA DAS	01-04-2012
3102	14596511X	HAV	BIR CHAND	01-07-2012
3103	14592813M	HAV	BIRENDER KUMAR RAI	01-03-2012
3104	14595914L	HAV	BIRENDRA KUMAR SINGH	01-06-2012
3105	14592371Y	HAV	BODDI NARAYANA	01-03-2012
3106	14593731W	HAV	BRAHMDEO PRASAD YADAV	01-04-2012
3107	14595255F	HAV	BRAJ KISHORE	01-06-2012
3108	14591698L	HAV	BRAJ RAJ MISHRA	01-03-2012
3109	14595119L	HAV	BRAJENDRA KUMAR DAS	01-06-2012
3110	14595191F	HAV	BRAJESH KUMAR	01-06-2012
3111	14597977M	HAV	BRIJ MOHAN	01-08-2012

3112	14609457W	HAV	BUDDHA RAM VISHNOI	01-03-2012
3113	14596566F	HAV	CHAMPA RAM	01-07-2012
3114	14592730F	HAV	CHAND RAM	01-03-2012
3115	14590332F	HAV	CHANDRA BHUSHAN CHOUDHARY	01-02-2012
3116	14595758M	HAV	CHAUDHARI SHIVA BHAI HIRA BHAI	01-05-2012
3117	14596584K	HAV	CHAUHAN JIT SINGH BHARAT SINGH	01-08-2012
3118	14591783N	HAV	CHINTAMANI MOHANTA	01-03-2012
3119	14590097N	HAV	CHOOOTE LAL PRASAD	01-02-2012
3120	14594145A	HAV	CHUN CHUN YADAV	01-04-2012
3121	14594274A	HAV	DALIP SINGH	01-04-2012
3122	14595318Y	HAV	DAMBARU BORAH	01-06-2012
3123	14591570A	HAV	DAMODAR MISHRA	01-02-2012
3124	14593320X	HAV	DATTATRAYA RAMU SHINDHE	01-04-2012
3125	14596615Y	HAV	DAVENDRA SINGH	01-08-2012
3126	14592718A	HAV	DAYA NAND GUPTA	01-03-2012
3127	14596349L	HAV	DAYAL SINGH	01-07-2012
3128	14597441W	HAV	DEBANSHU CHAKRABORTY	01-08-2012
3129	14595328H	HAV	DEEPAK KUMAR RAI	01-06-2012
3130	14595002M	HAV	DENA NATH BISWAS	01-06-2012
3131	14593692H	HAV	DEVENDRA PAL SINGH	01-04-2012
3132	14591520P	HAV	DEVINDER SINGH	01-02-2012
3133	14594332Y	HAV	DEWAN SINGH	01-05-2012
3134	14591882W	HAV	DHANA RAJ TR	01-02-2012
3135	14592950L	HAV	DHANSHYAM PRASAD	01-03-2012
3136	14597937L	HAV	DHARAM SINGH	01-08-2012
3137	14592270L	HAV	DHARAMBIR	01-03-2012
3138	14590766F	HAV	DHARAMPAL SAINI	01-02-2012
3139	14591359L	HAV	DHARAMVIR	01-03-2012
3140	14591013F	HAV	DHARMENDRA NATH SRIVASTVA	01-02-2012
3141	14595579M	HAV	DHIRENDRA YADAV	01-06-2012
3142	14595059F	HAV	DHONUKSHE DHANAJI VISHNU	01-07-2012
3143	14591489N	HAV	DHRUBA JYOTI BARUAH	01-02-2012
3144	14595831A	HAV	DILIP CHANDRA BHAWAL	01-05-2012
3145	14593493P	HAV	DILIP KUMAR DWIVEDI	01-04-2012
3146	14590424N	HAV	DILIP KUMAR PAKHIRA	01-02-2012
3147	14593676L	HAV	DILWAR SINGH	01-04-2012
3148	14596361M	HAV	DINANATH GOSWAMI	01-07-2012
3149	14595289P	HAV	DINESH DWIWEDI	01-06-2012
3150	14594498A	HAV	DINESH KUMAR	01-04-2012
3151	14595934Y	HAV	DWIP KUMAR BARMAN	01-06-2012
3152	14592175Y	HAV	G RADHAKRISHNAN	01-03-2012
3153	14611248X	HAV	G RAMESH	01-04-2012
3154	14593000H	HAV	GAJENDRA KUMAR PANDA	01-03-2012
3155	14594434P	HAV	GAJENDRA SINGH SIKARWAR	01-04-2012
3156	14592799L	HAV	GAJWE CHANDRA SHEKHAR VYANKAT RAO	01-03-2012
3157	14592225Y	HAV	GANESH KUMAR	01-03-2012
3158	14591236Y	HAV	GANESWAR DAS	01-02-2012

3159	14595691Y	HAV	GIRWAR SINGH YADAV	01-07-2012
3160	14593557P	HAV	GOBINDA MONDAL	01-04-2012
3161	14592102M	HAV	GOPAL RAM	01-03-2012
3162	14592012L	HAV	GOPAL SINGH	01-03-2012
3163	14595077K	HAV	GOURANG BARMAN	01-05-2012
3164	14593328K	HAV	GOVIND SINGH	01-04-2012
3165	14593316P	HAV	GRENDAN SINGH	01-04-2012
3166	14590378K	HAV	GUNASAGAR TAKRIA	01-02-2012
3167	14592361P	HAV	GURCHARAN SINGH	01-03-2012
3168	14593898A	HAV	H MANLEMA SINGHA	01-04-2012
3169	14590081H	HAV	HARE KRISHNA ROY	01-02-2012
3170	14594558K	HAV	HARENDER GIRI	01-04-2012
3171	14594515P	HAV	HARENDRA KUMAR	01-05-2012
3172	14590877Y	HAV	HARESWAR BASUMATARY	01-02-2012
3173	14596873Y	HAV	HARI KRISHNA PANDEY	01-07-2012
3174	14610502K	HAV	HARI PRAKASH PANDEY	01-03-2012
3175	14590343N	HAV	HARIHAR HAJRA	01-02-2012
3176	14591459W	HAV	HARISH CHANDRA	01-02-2012
3177	14596569P	HAV	HARISH CHANDRA JOSHI	01-08-2012
3178	14593790H	HAV	HARJENDAR SINGH	01-04-2012
3179	14594529P	HAV	HARNATH DHAKAR	01-06-2012
3180	14597928K	HAV	HIMMAT SINGH	01-08-2012
3181	14595297N	HAV	HINGE KANTILAL SITARAM	01-06-2012
3182	14591383F	HAV	HIRA PRASAD SINGH	01-03-2012
3183	14593924W	HAV	HIRA SINGH BHADORIA	01-04-2012
3184	14611341Y	HAV	HIRANMAY BISWAS	01-04-2012
3185	14591021A	HAV	HRIDAY NARAYAN SHARMA	01-02-2012
3186	14593569K	HAV	HUKAM CHAND	01-04-2012
3187	14596847X	HAV	INDER PAL	01-07-2012
3188	14593860W	HAV	INDERJEET SINGH	01-04-2012
3189	14593181Y	HAV	INDRA KUMAR	01-04-2012
3190	14596346X	HAV	INDRA KUMAR SINGH	01-07-2012
3191	14593240A	HAV	INDRA PRATAP SINGH	01-04-2012
3192	14596595W	HAV	JADHAO GULABSING RAMU	01-08-2012
3193	14594329Y	HAV	JAGANNATH SINGH MALIVTYA	01-05-2012
3194	14611363X	HAV	JAGARAPU ANANDA RAO	01-04-2012
3195	14595367F	HAV	JAGAT PAL SINGH	01-06-2012
3196	14594971A	HAV	JAGATPAL SINGH	01-05-2012
3197	14590366P	HAV	JAGDISH PRASAD	01-02-2012
3198	14592253L	HAV	JANAPANA HEMA SUNDER RAO	01-03-2012
3199	14593287L	HAV	JANNELA SRINIVASA RAO	01-04-2012
3200	14596173L	HAV	JARNAIL SINGH	01-07-2012
3201	14590160X	HAV	JASBIR SINGH	01-02-2012
3202	14594914Y	HAV	JASVIR SINGH	01-05-2012
3203	14594464M	HAV	JAYVIR SINGH	01-04-2012
3204	14594352M	HAV	JOSE OM	01-04-2012
3205	14595217L	HAV	KAILASH CHANDER	01-06-2012
3206	14594296Y	HAV	KALI CHARAN	01-04-2012

3207	14612515A	HAV	KALYAN NEOG	01-07-2012
3208	14593980P	HAV	KAMAKYA NARAYAN SINGH	01-04-2012
3209	14594791X	HAV	KAMAL KANTI PAUL	01-06-2012
3210	14595608W	HAV	KAMESHWAR PRASAD SINGH	01-06-2012
3211	14594823P	HAV	KAMLESH CHOUDHARY	01-05-2012
3212	14591702H	HAV	KAMRUL HODA	01-03-2012
3213	14609223M	HAV	KANHAIYA SINGH YADAV	01-02-2012
3214	14593850M	HAV	KARTAR SINGH	01-04-2012
3215	14604206H	HAV	KASHEE NATH BHOVI	01-06-2012
3216	14594496P	HAV	KASHMIR SINGH	01-04-2012
3217	14594472L	HAV	KASHMIR SINGH	01-04-2012
3218	14611715K	HAV	KAUSHAL KUMAR	01-05-2012
3219	14593324N	HAV	KAUSHAL KUMAR SINGH	01-04-2012
3220	14595181X	HAV	KAUSHLENDRA KUMAR	01-06-2012
3221	14594324A	HAV	KEHAR SINGH	01-05-2012
3222	14594790P	HAV	KESHAB DATT BHATT	01-06-2012
3223	14597151Y	HAV	KHAN ALLAUDDIN	01-08-2012
3224	14596527H	HAV	KILLADA DEMUDU	01-07-2012
3225	14595342P	HAV	KRIPA SHANKAR	01-06-2012
3226	14595677M	HAV	KRISHNA KUMAR	01-07-2012
3227	14596179M	HAV	KRISHNADHAN GHOSH	01-07-2012
3228	14592704A	HAV	KRUSHNA CHANDRAN SWAIN	01-03-2012
3229	14598082A	HAV	KSHIRSAGAR SAMPAT VISHWANATH	01-08-2012
3230	14592590A	HAV	KULWANT RAJ	01-04-2012
3231	14596122X	HAV	KUNDAN SINGH	01-06-2012
3232	14592051K	HAV	KUSHAL KUMAR BANYAL	01-03-2012
3233	14591319K	HAV	KUSHLESH PANDEY	01-02-2012
3234	14590819P	HAV	LAMBUDAR NATH	01-02-2012
3235	14594384P	HAV	LAVKUSH PRASAD TRIPATHI	01-04-2012
3236	14595683A	HAV	LAXMAN PRASAD YADAV	01-07-2012
3237	14591697H	HAV	LAXMAN SAH	01-03-2012
3238	14594930W	HAV	LAXMAN SINGH LATWAL	01-05-2012
3239	14598101A	HAV	LAXMI PRASAD VISHWAKARMA	01-08-2012
3240	14595300H	HAV	LILHARE KUNJILAL BUDDHU	01-06-2012
3241	14592433N	HAV	LOKENDRA SINGH	01-03-2012
3242	14612443F	HAV	M A SATHISHA	01-06-2012
3243	14590855A	HAV	MADAN LAL	01-02-2012
3244	14591703L	HAV	MADAN LAL	01-03-2012
3245	14595038L	HAV	MADHAB RAO NAYAK	01-07-2012
3246	14592900A	HAV	MAGAR BANDU PANDARINATH	01-04-2012
3247	14591321F	HAV	MAHADEV MANDAL	01-02-2012
3248	14590788A	HAV	MAHANDER PAL SINGH	01-02-2012
3249	14593474K	HAV	MAHARAJ SINGH	01-04-2012
3250	14596154A	HAV	MAHATAB SINGH	01-06-2012
3251	14596454F	HAV	MAHAVIR PRASAD VERMA	01-07-2012
3252	14594773P	HAV	MAHENDRA PRATAP SINGH	01-05-2012
3253	14594376W	HAV	MAHENDRA SINGH	01-04-2012
3254	14593687X	HAV	MAHESH KUMAR	01-04-2012



3255	14592065K	HAV	MAHESH KUMAR KHATRI	01-03-2012
3256	14596380X	HAV	MAHESH KUMAR SHARMA	01-07-2012
3257	14592960P	HAV	MAHESH PRASAD	01-03-2012
3258	14592850A	HAV	MAKHAN SINGH	01-04-2012
3259	14590927Y	HAV	MAN BAHADUR GURANG	01-02-2012
3260	14597948X	HAV	MAN SINGH	01-08-2012
3261	14590100H	HAV	MANI VANNAN J	01-02-2012
3262	14597212L	HAV	MANMOHAN SINGH	01-08-2012
3263	14596478L	HAV	MANOHAR LAL	01-08-2012
3264	14591513Y	HAV	MANOJ KUMAR TIWARI	01-02-2012
3265	14591802N	HAV	MAYAPATI PANDEY	01-03-2012
3266	14592687L	HAV	MEVA LAL	01-03-2012
3267	14595548M	HAV	MILAP SINGH	01-06-2012
3268	14590084W	HAV	MITHILESH KUMAR SINGH	01-02-2012
3269	14596121P	HAV	MOHAN SINGH BISHT	01-06-2012
3270	14596698P	HAV	MOHANA LAL KS	01-07-2012
3271	14591334Y	HAV	MOHANAN PILLAI K	01-02-2012
3272	14591096X	HAV	MOHINDER SINGH	01-02-2012
3273	14595454P	HAV	MORE NARENDRA BAKARAM	01-05-2012
3274	14593990Y	HAV	MUKESH KUMAR CHAUDHARY	01-04-2012
3275	13968820F	HAV	MUNAVAWAR AL	01-08-2012
3276	14591087W	HAV	MUNNA RAM	01-02-2012
3277	14594433M	HAV	MUNNI LAL RAM	01-04-2012
3278	14594798F	HAV	MURLIDHAR SHUKLA	01-07-2012
3279	14592349N	HAV	MURLIDHAR SINGH	01-03-2012
3280	14591721N	HAV	N NAGARAJAN	01-03-2012
3281	14593547L	HAV	NAKUL CH ROY	01-04-2012
3282	14590115L	HAV	NANDALAL PRASAD PATEL	01-02-2012
3283	14595607N	HAV	NANDESHWAR RAJKUMAR GOVINDRAO	01-06-2012
3284	14592853N	HAV	NARAIN PRASAD	01-04-2012
3285	14592596F	HAV	NAREN CHANDRA BORA	01-04-2012
3286	14592803H	HAV	NARENDER SINGH	01-03-2012
3287	14595626Y	HAV	NARENDRA SINGH	01-06-2012
3288	14593191H	HAV	NARENDREA KUMAR	01-04-2012
3289	14591670L	HAV	NARESH KUMAR CHAUDHARY	01-03-2012
3290	14596227F	HAV	NARSU BEHERA	01-07-2012
3291	14591058F	HAV	NASIB SINGH BHAI	01-02-2012
3292	14592846X	HAV	NATHU SINGH	01-04-2012
3293	14596438K	HAV	NIKUNJA BIHARI DAS	01-07-2012
3294	14592536M	HAV	NIMBOLKAR VIJAYSHAM RAO	01-04-2012
3295	14595450Y	HAV	NITYA NAND MISHRA	01-04-2012
3296	14595686N	HAV	OM PRAKASH	01-07-2012
3297	14594016A	HAV	OM PRAKASH	01-04-2012
3298	14597221M	HAV	OM PRAKASH	01-08-2012
3299	14594865F	HAV	OM PRAKASH	01-05-2012
3300	14595515F	HAV	OM PRAKASH	01-05-2012
3301	14593970L	HAV	ONKAR CHAND	01-04-2012

3302	14595006H	HAV	PARITOSH DAS	01-06-2012
3303	14595223Y	HAV	PATEL BALDEVBHAI AMATHABHAI	01-06-2012
3304	14591847N	HAV	PATOLE TULSHIRAM PUNA	01-03-2012
3305	14592373K	HAV	PITAM LAL	01-03-2012
3306	14593596N	HAV	PRABAKAR KUMAR PANDEY	01-04-2012
3307	14595751H	HAV	PRABHATRANJAN KUMAR YADAV	01-05-2012
3308	14595489L	HAV	PRABHU KUMAR SINGH	01-04-2012
3309	14592552K	HAV	PRABHU SINGH PARIHAR	01-04-2012
3310	14594338A	HAV	PRABIR KUMAR SARKAR	01-04-2012
3311	14596899N	HAV	PRADEEP SINGH NAIN	01-07-2012
3312	14594399X	HAV	PRAKASH CHANDRA PRADHAN	01-04-2012
3313	14591080M	HAV	PRAKASH SINGH	01-02-2012
3314	1459001K	HAV	PRAMOTHA KUMAR KHAN	01-06-2012
3315	14592294P	HAV	PRAN KRISHNA CHAKI	01-03-2012
3316	14594349M	HAV	PRANAY RANJAN DEY	01-04-2012
3317	14592326M	HAV	PRATAPA SINGH K	01-03-2012
3318	14592041A	HAV	PRAVEEN CHANDRA	01-03-2012
3319	14593897X	HAV	PRAVEEN KUMAR	01-04-2012
3320	14593453N	HAV	PREM CHAND YADAV	01-04-2012
3321	14597051N	HAV	PREM KUMAR SINGH	01-07-2012
3322	14593349A	HAV	PREM SINGH SAGAR	01-04-2012
3323	14594011F	HAV	PYARE LAL	01-04-2012
3324	14590310H	HAV	PYARE SINGH	01-02-2012
3325	14595543N	HAV	RADHA KRISHNAN G	01-06-2012
3326	14590391N	HAV	RADHESHYAM UPADHYAY	01-02-2012
3327	14591066A	HAV	RADHEY SHYAM GIRI	01-02-2012
3328	14594660M	HAV	RAHUL ROY	01-04-2012
3329	14596754H	HAV	RAI SINGH	01-07-2012
3330	14593827Y	HAV	RAJ KANWAR	01-04-2012
3331	14593018Y	HAV	RAJ KUMAR	01-03-2012
3332	14594049L	HAV	RAJ KUMAR	01-04-2012
3333	14593103F	HAV	RAJ KUMAR	01-04-2012
3334	14595634X	HAV	RAJ KUMAR	01-06-2012
3335	14596563N	HAV	RAJ KUMAR GHOSH	01-07-2012
3336	14595110W	HAV	RAJ KUMAR PRASAD	01-06-2012
3337	14591896W	HAV	RAJ NARAIN SINGH	01-02-2012
3338	14595204N	HAV	RAJARAM R	01-05-2012
3339	14609094X	HAV	RAJBIR SINGH	01-02-2012
3340	14594684W	HAV	RAJENDRA MISHRA	01-04-2012
3341	14597152F	HAV	RAJENDRA TIWARY	01-08-2012
3342	14594118W	HAV	RAJENDRAN PILLAI K	01-04-2012
3343	14591728X	HAV	RAJESH KUMAR	01-03-2012
3344	14593260N	HAV	RAJESH KUMAR DUBEY	01-04-2012
3345	14596368W	HAV	RAJESH SINGH	01-07-2012
3346	14596323W	HAV	RAJESH SINGH PARIHAR	01-08-2012
3347	14591987A	HAV	RAJESH SINGH SENGAR	01-03-2012
3348	14596369Y	HAV	RAJESHWAR PRASAD	01-07-2012
3349	14592597K	HAV	RAJU MENSE	01-04-2012

3350	14591335F	HAV	RAKESH KUMAR SHRIVASTAVA	01-02-2012
3351	14593099K	HAV	RAKESH SINGH	01-04-2012
3352	14612314F	HAV	RAKESH SUBHASH CHANDRA UDIT NATH	01-06-2012
3353	14594026K	HAV	RAM BILAS DUBEY	01-04-2012
3354	14591382Y	HAV	RAM CHANDER	01-03-2012
3355	14594879F	HAV	RAM CHANDRA MAHADEV MORE	01-05-2012
3356	14592978L	HAV	RAM DAS	01-03-2012
3357	14595374X	HAV	RAM DAYAL YADAV	01-04-2012
3358	14597952A	HAV	RAM DEEN	01-08-2012
3359	14590800W	HAV	RAM JANAM SINGH	01-02-2012
3360	14593929P	HAV	RAM KISHOR BAIRWA	01-04-2012
3361	14595100M	HAV	RAM KUMAR SINGH	01-06-2012
3362	14593406W	HAV	RAM KUMAR YADAV	01-04-2012
3363	14595394L	HAV	RAM NIWAS	01-04-2012
3364	14592042H	HAV	RAM PAT SINGH	01-03-2012
3365	14593124X	HAV	RAM PRAHLAD PRASAD	01-03-2012
3366	14593862K	HAV	RAM PRAKASH	01-04-2012
3367	14591561Y	HAV	RAM RATAN SHARMA	01-02-2012
3368	14595655N	HAV	RAM SAHAY MEENA	01-06-2012
3369	14591591W	HAV	RAM SIYA	01-02-2012
3370	14592521K	HAV	RAMA DOSS G	01-04-2012
3371	14591034X	HAV	RAMA SHANKAR DUBEY	01-02-2012
3372	14591797N	HAV	RAMAKANT SINGH	01-03-2012
3373	14592055A	HAV	RAMAKANT TIWARI	01-03-2012
3374	14597717F	HAV	RAMAUTAR INWATI	01-08-2012
3375	14590785M	HAV	RAMBIR SINGH	01-02-2012
3376	14597649Y	HAV	RAMENDRA PRASAD	01-08-2012
3377	14591193P	HAV	RAMESAN TM	01-03-2012
3378	14591510L	HAV	RAMESH BAHADUR	01-02-2012
3379	14601226L	HAV	RAMESH CHANDRA	01-02-2012
3380	14591777A	HAV	RAMESH CHANDRA NAYAK	01-03-2012
3381	14609805M	HAV	RAMESHWAR MAHTO	01-03-2012
3382	14593121K	HAV	RAMJANAM SINGH	01-03-2012
3383	14597995P	HAV	RANBIR SINGH	01-08-2012
3384	14591792P	HAV	RANDHIR SINGH	01-03-2012
3385	14593992K	HAV	RANJIT KUMAR RANA	01-04-2012
3386	14593473F	HAV	RANVIR SINGH	01-04-2012
3387	14591119N	HAV	RATAN SINGH BORA	01-02-2012
3388	14593909F	HAV	RAVI BHUSAN PRASAD SINGH	01-04-2012
3389	14591186Y	HAV	RAVI K	01-03-2012
3390	14593794Y	HAV	RAVINDER KUMAR	01-04-2012
3391	14593413M	HAV	REJI PC	01-04-2012
3392	14594415K	HAV	REMESHWAR LAL	01-04-2012
3393	14597712H	HAV	RENU KUMAR T	01-08-2012
3394	14593049Y	HAV	ROHINI PRASAD	01-03-2012
3395	14592052M	HAV	ROHITASH	01-03-2012
3396	14591626F	HAV	ROHITASH SINGH	01-02-2012

3397	14593491K	HAV	ROHITASHVA KUMAR	01-04-2012
3398	14591924X	HAV	S DAKSHINA MOORTHY	01-02-2012
3399	14595207H	HAV	S KRISHNA MOORTHY	01-04-2012
3400	14592529W	HAV	S MATHIALAGAM	01-04-2012
3401	14595378N	HAV	S MICHAEL RAJ	01-04-2012
3402	14592330P	HAV	S PARAMASIVAN	01-03-2012
3403	14590954H	HAV	SADANAND CHOUDHARY	01-02-2012
3404	14595798N	HAV	SAHEB LAL PRASAD	01-05-2012
3405	14591097A	HAV	SALUWA HORROH	01-02-2012
3406	14592629F	HAV	SANAPALA VENKATA RAMANA	01-04-2012
3407	14591927L	HAV	SANTOSH KUMAR PANDEY	01-02-2012
3408	14594815W	HAV	SARADA PRASAD GUPTA	01-05-2012
3409	14591457L	HAV	SARAT BORAH	01-02-2012
3410	14591785Y	HAV	SARAT CHANDRA MAHANTA	01-03-2012
3411	14596401H	HAV	SARIFUDDIN MAZUMDER	01-07-2012
3412	14595775M	HAV	SARWAN KUMAR	01-05-2012
3413	14595070A	HAV	SASI KUMAR	01-07-2012
3414	14590933M	HAV	SASI PUTHALATH	01-02-2012
3415	14592187N	HAV	SASIKUMAR CK	01-03-2012
3416	14589567F	HAV	SATHEESAN V	01-02-2012
3417	14591965F	HAV	SATINDER KUMAR	01-02-2012
3418	14591077M	HAV	SATISH KUMAR SHARMA	01-02-2012
3419	14592985F	HAV	SATYAVIR SINGH	01-03-2012
3420	14595560N	HAV	SATYENDRA NATH GOGOI	01-06-2012
3421	14591340M	HAV	SHALENDER KUMAR	01-02-2012
3422	14592200Y	HAV	SHAMBHU DAYAL TIWARI	01-04-2012
3423	14595839M	HAV	SHAMBHU SHARMA	01-05-2012
3424	14592802A	HAV	SHASHI PAL SINGH	01-03-2012
3425	14595728P	HAV	SHELAKE JANARDAN TATYA	01-05-2012
3426	14594030M	HAV	SHER SINGH	01-04-2012
3427	14594377Y	HAV	SHESH KUMAR PATEL	01-04-2012
3428	14595053F	HAV	SHIV CHANDRA JHA	01-06-2012
3429	14592496W	HAV	SHIV DHARI PRASAD	01-03-2012
3430	14592219L	HAV	SHIV KUMAR SHARMA	01-03-2012
3431	14595236W	HAV	SHIV MOHAN SINGH NEGI	01-06-2012
3432	14592061A	HAV	SHIV PUJAN SAHAY	01-04-2012
3433	14595595K	HAV	SHREEKANT RAY	01-06-2012
3434	14591255H	HAV	SHRI RAJMANI SHARMA	01-04-2012
3435	14593301M	HAV	SHYAM BAHADUR YADAV	01-04-2012
3436	14596849H	HAV	SHYAM LAL SINGH	01-07-2012
3437	14611150N	HAV	SHYAMAL KUMAR MANDAL	01-05-2012
3438	14591917H	HAV	SIDHESWAR KUMAR SINGH	01-02-2012
3439	14591282S	HAV	SIDHNATH SINGH	01-02-2012
3440	14598099N	HAV	SISIR KUMAR SAHOO	01-08-2012
3441	145927987W	HAV	SOMNATH GHOSH	01-08-2012
3442	14591129X	HAV	SOMPAL SINGH	01-02-2012
3443	14594004L	HAV	SON PAL	01-05-2012
3444	14595347N	HAV	SRI RAM PRASAD SAHU	01-06-2012

3445	14591090W	HAV	SUBHASH CHANDER	01-02-2012
3446	14590747W	HAV	SUBIR KUMAR GHOSH	01-02-2012
3447	14593620Y	HAV	SUBIR KUMAR GHOSH	01-04-2012
3448	14590443Y	HAV	SUDEESH E	01-02-2012
3449	14595019A	HAV	SUKHDEV RAJ	01-06-2012
3450	14594917M	HAV	SUKRAM PAL RATHI	01-05-2012
3451	14596003F	HAV	SUNIL KUMAR	01-06-2012
3452	14593036F	HAV	SURANDER PRAKASH	01-03-2012
3453	14594455L	HAV	SURENDER SINGH	01-04-2012
3454	14590777N	HAV	SURENDRA KUMAR SAHU	01-02-2012
3455	14593971N	HAV	SURENDRA PRASAD SINGH	01-04-2012
3456	14592172L	HAV	SURENDRA PRATAP SINGH	01-03-2012
3457	14594344N	HAV	SURESH BABU	01-04-2012
3458	14593907W	HAV	SURESH KUMAR	01-04-2012
3459	14593870A	HAV	SURESH KUMAR PR	01-04-2012
3460	14593694N	HAV	SURESH MK	01-04-2012
3461	14609341A	HAV	SURESH MS	01-02-2012
3462	14595529F	HAV	SURESH PRASAD HALDKAR	01-07-2012
3463	14593062H	HAV	SURESH RANA	01-04-2012
3464	14594506N	HAV	SURINDER PAUL	01-04-2012
3465	14594160P	HAV	SURYA NARAIN YADAV	01-04-2012
3466	14591040L	HAV	SURYABHAN YADAV	01-02-2012
3467	14595942X	HAV	SUSHIL CHANDRA ROY	01-06-2012
3468	14593152K	HAV	SWAPAN KUMAR MANDAL	01-03-2012
3469	14592613W	HAV	SWAPAN KUMAR NATH	01-04-2012
3470	14594495M	HAV	TARLOK NATH	01-04-2012
3471	14594595X	HAV	THOKCHOM JAYANTA KUMAR SINGH	01-04-2012
3472	14593808N	HAV	THULASEE DHARAN PILLAI TV	01-04-2012
3473	14593674A	HAV	TIYYAKULA SIMHACHALAM	01-04-2012
3474	14593982A	HAV	UDAY RAJ SINGH	01-04-2012
3475	14611605P	HAV	UGARSEN RAI	01-05-2012
3476	14592147M	HAV	UJEER SINGH	01-03-2012
3477	14594343L	HAV	UNNI KRISHNA PILLAI K	01-04-2012
3478	14594024Y	HAV	UTTAM SINGH	01-04-2012
3479	14597090M	HAV	V GOPAL	01-07-2012
3480	14592732M	HAV	V L PAUL	01-03-2012
3481	14610277A	HAV	V SUBRAMANIAN	01-03-2012
3482	14591935K	HAV	V SUBRAMANIYAN	01-02-2012
3483	14591056W	HAV	VED PRAKASH DIWEDI	01-02-2012
3484	14591343A	HAV	VEDPAL SINGH	01-03-2012
3485	14591620A	HAV	VENKATA SUBBA RAO KODE	01-02-2012
3486	14596209Y	HAV	VIJAY KUMAR SINGH	01-07-2012
3487	14592357M	HAV	VIJAY PRASAD YADAV	01-03-2012
3488	14594536L	HAV	VIJAY SHANKAR	01-06-2012
3489	14594547X	HAV	VIJAY SINGH	01-04-2012
3490	14591452M	HAV	VIJAY SINGH	01-02-2012
3491	14593588P	HAV	VIJAY SINGH	01-04-2012
3492	14612630A	HAV	VIJAYAN M	01-07-2012

3493	14596103M	HAV	VIJENDRA KUMAR	01-06-2012
3494	14608955W	HAV	VILAS PATIL	01-02-2012
3495	14596140A	HAV	VINAYA KUMAR	01-06-2012
3496	14592112W	HAV	VINOD GIRI	01-03-2012
3497	14591594K	HAV	VIRENDRA SINGH	01-02-2012
3498	14592443X	HAV	VIRENDRA SINGH	01-03-2012
3499	14593943F	HAV	VIRENDRA SINGH	01-04-2012
3500	14595894H	HAV	VISHWA PAL SINGH	01-06-2012
3501	14594548A	HAV	VISHWANATH SAH	01-04-2012
3502	14591575Y	HAV	VITTHAL SHIDLANNAVAR	01-02-2012
3503	14594650H	HAV	WAZIR SINGH	01-04-2012
3504	14591426L	HAV	YAKUB BAIG	01-03-2012
3505	14591971P	HAV	YAMAN BARLA	01-02-2012
3506	14593717K	HAV	YOGENRA PRASAD SINGH	01-04-2012

**ARMY EDUCATION CORPS**

3507	9510238K	HAV	ATUL RASTOGI	01-08-2012
3508	9509661X	HAV	KRISHNA DEB	01-03-2012
3509	9510398K	HAV	RABINDRA NATH KAR	01-06-2012

**REMOUNT AND VETERINARY CORPS**

3510	7239711F	DFR	AKHILA NAND RAI	01-06-2012
3511	7239646M	DFR	BISHAN RAM	01-02-2012
3512	13968337X	HAV	CHHAJJU SINGH	01-06-2012
3513	7239748H	HAV	GANGADHAR BEHERA	01-06-2012
3514	7239751H	DFR	HAKIM SINGH	01-06-2012
3515	7239674Y	HAV	JHINGUR RAM	01-05-2012
3516	7239665X	HAV	MOHI KANTA NATH	01-05-2012
3517	7239966F	DFR	PADMANABHAN KANDOTH	01-05-2012
3518	7239823F	DFR	PATIL DADA SAHEB C	01-08-2012
3519	7240400A	HAV	PUNJAB SINGH	01-03-2012
3520	7239715X	HAV	RAJ KUMAR YADAV	01-06-2012
3521	7239672N	DFR	SOVAT SINGH	01-05-2012
3522	7239684H	DFR	SRI KANT YADAV	01-06-2012
3523	7239653H	HAV	UMA SHANKER RAI	01-03-2012

**THE INTELLIGENCE CORPS**

3524	7430720L	HAV	ARVIND KUMAR	01-07-2012
3525	14598093M	HAV	ASHIM KUMAR TALUKDAR	01-08-2012
3526	7430714X	HAV	FAHEEM AKHTAR SHAIKH	01-05-2012
3527	2886001X	HAV	GULAB SINGH	01-08-2012
3528	7431105A	HAV	M ARAVINDHASHAN	01-03-2012
3529	14395648N	HAV	NIRMAL SINGH	01-08-2012
3530	7430870F	HAV	R THIRUNAV AKKARASU	01-02-2012
3531	7431110L	HAV	RANVIR SINGH	01-03-2012
3532	14590797F	HAV	RAVINDRA SHARMA	01-02-2012
3533	7430721N	HAV	RISHI RAJ SINGH	01-07-2012
3534	7430729A	HAV	SERAN B	01-08-2012

3535	13752379W	HAV	SUSHEEL KUMAR	01-08-2012
3536	7431116M	HAV	THOKCHOM RAMA NANDA SINGH	01-03-2012
3537	7430727P	HAV	UDAIBHAN SINGH	01-07-2012
3538	7430723Y	HAV	VINAY KUMAR R NANGLA	01-04-2012

**CORPS OF MILITARY POLICE**

3539	8031823Y	HAV	BAHORAN LAL	01-05-2012
3540	7775110K	HAV	BEENA PRASAD JAGAT	01-05-2012
3541	7775680A	HAV	BIHARI LAL RAM	01-02-2012
3542	7775020H	HAV	BIR PAL	01-02-2012
3543	7776013Y	HAV	JANARDAN SINGH	01-08-2012
3544	7775031P	HAV	JIWAN RAM	01-03-2012
3545	7775051H	HAV	KAMAL KUMAR	01-04-2012
3546	1579180L	HAV	MURALI R	01-02-2012
3547	7775711P	HAV	MUSTHAF A M K	01-02-2012
3548	7775059P	HAV	NIRANJAN DEB	01-04-2012
3549	7776048P	HAV	P R B SHANKAR DAS	01-08-2012
3550	7775126P	HAV	PRASANTA KUMAR SAMAL	01-06-2012
3551	7775158X	HAV	RAJ KUAMR	01-08-2012
3552	7775865F	HAV	RAM BABU	01-04-2012
3553	7775919X	HAV	RAM PRAKASH TRIPATHI	01-05-2012
3554	7775129H	HAV	SABID KHAN	01-06-2012
3555	1579207X	HAV	SOHAN LAL	01-02-2012
3556	7775876N	HAV	THAKUR JARNAIL SINGH	01-04-2012
3557	7775107K	HAV	THIRUMALAI A H K N	01-05-2012
3558	7775111M	HAV	TIRTH RAJ DUBEY	01-05-2012
3559	7775018L	HAV	VEER SINGH	01-02-2012
3560	7775736F	HAV	W B SUKH DEO	01-02-2012
3561	7775924H	HAV	YUGAL KISHORE SINGH	01-05-2012

**ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS**

3562	3987585L	HAV	JOGINDER SINGH	01-05-2012
------	----------	-----	----------------	------------

**THE PIONEER CORPS**

3563	8031828X	HAV	BHAGWAN SINGH GUJAR	01-05-2012
3564	8031852N	HAV	JAGGATTAR SINGH	01-06-2012
3565	8032312F	HAV	KACHARU BABU RAO METE	01-05-2012
3566	8032306N	HAV	KESHAV LAL	01-04-2012
3567	8031874M	HAV	PRAMOD KUMAR	01-07-2012
3568	8031797H	HAV	RAM NEBAS RAM	01-03-2012
3569	8031815A	HAV	S K ABDUL HAPIZ	01-04-2012
3570	13968207P	HAV	SURESH RAJKI	01-06-2012
3571	8031883N	HAV	SURESH SINGH	01-08-2012

**DEFENCE SECURITY CORPS**

3572	10478303M	HAV	BALKAR SINGH	01-05-2012
3573	10388931A	HAV	BRIJ BHAN PATEL	01-08-2012
3574	10478953A	HAV	DUNI CHAND	01-08-2012

3575	10196381N	HAV	HARDEV RAM	01-08-2012
3576	5842303M	HAV	HARI PRASAD	01-06-2012
3577	10435750H	HAV	HARISH CHANDRA JOSHI	01-06-2012
3578	10196868F	HAV	JAGDISH SINGH	01-03-2012
3579	10404255H	HAV	MAHENDER SINGH	01-07-2012
3580	10388938K	HAV	MOHAMMAD ISHAR KHA	01-05-2012
3581	10197063W	HAV	RANJIT SINGH	01-05-2012
3582	10465553P	HAV	RAM DIA	01-06-2012
3583	10289532N	HAV	T AZHANANDAN	01-07-2012

### **TERRITORIAL ARMY**

3584	10119790F	HAV	ADE SURESH MEGHA	01-04-2012
3585	10198278F	HAV	ASHWANI KUMAR	01-04-2012
3586	10198253P	HAV	BALWINDER SINGH	01-03-2012
3587	10260250M	HAV	BRUNDABAN PRADHAN	01-08-2012
3588	10260232K	HAV	CHITTARANJAN MAHANTA	01-04-2012
3589	10314844X	HAV	DEVENDER SINGH	01-04-2012
3590	10198246Y	HAV	DEWAN CHAND	01-02-2012
3591	10302543F	HAV	GORDHAN LAL	01-08-2012
3592	10182112W	HAV	JAMUNA PRASAD SINGH	01-06-2012
3593	10303010L	HAV	KAMLESH KUMAR	01-04-2012
3594	10480069A	HAV	NIRMAL SINGH	01-02-2012
3595	10181925A	HAV	RAJ KISHOR YADAV	01-01-2012
3596	10359448N	HAV	SHIVASHANKAR SC	01-02-2012
3597	10212937Y	HAV	SUSANTA KUMAR GHATAK	01-05-2012
3598	10274606A	HAV	TAPAN SADHUKHAN	01-02-2012
3599	10150252P	HAV	TELI SURESH SHANKAR	01-06-2012

[F. No. B/43432/ID-1274G/CW-2]

JAI PRAKASH NEHRA, Lt. Gen., Adjutant General

### **संशोधन**

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2012

सं. 13(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2012.—1. राजपत्र अधिसूचना संख्या (असाधारण) सं. 11(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2009 के अवसर पर एन सी ओज को सेवानिवृत्त होने पर सेना विनियमावली, 1987 के पैरा 180 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :—

**हाशिया के नीचे**

**अवैतनिक सहायक रिजालदार/सुबेदार के रूप में**

**सेना पुलिस**

कमसंख्या 3153 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटाये

2. राजपत्र अधिसूचना संख्या (असाधारण) संख्या 11 (ई) दिनांक 15 अगस्त 2010 के अवसर पर एन सी ओज को सेवानिवृत्त होने पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 179 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है।

**हाशिया के नीचे**

**अवैतनिक रिजालदार/सुबेदार के रूप में**

**2 लान्सर्स**



3. राजपत्र अधिसूचना संख्या (असाधारण) संख्या 02 (ई) दिनांक 28 जनवरी 2011 के अवसर पर जे सी ओज को सेवा निवृत्त होने पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 179 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से शंसोधन किया जाता है।

हाशिया के नीचे अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार के रूप में

कैवलरी

कमसंख्या 1 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटाये

4. राजपत्र अधिसूचना संख्या (असाधारण) संख्या 10 (ई) दिनांक 15 अगस्त 2011 के अवसर पर जे सी ओज को सेवा निवृत्त होने पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 179 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से शंसोधन किया जाता है।

हाशिया के नीचे अवैतनिक रिसालदार मेजर/सुबेदार मेजर के रूप में

85 आर्मड कोर

कमसंख्या 122 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटाये

5. राजपत्र अधिसूचना संख्या (असाधारण) संख्या 01 (ई) दिनांक 26 जनवरी 2012 के अवसर पर जे सी ओज को सेवा में रहते हुए सेना विनियामावली 1987 के पैरा 177 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से शंसोधन किया जाता है।

हाशिया के नीचे अवैतनिक कप्तान के रूप में (सेवा में रहते हुए)

तोपखाना रेजीमेन्ट

कमसंख्या 21 के लिए : थोराट पांडूरंग भीमाजी  
पदे : थोराट पांडूरंग भीमाजी

सिग्नल कोर

कमसंख्या 373 के लिए : सितन सिंह राठोड  
पदे : सैतान सिंह राठोड

6. राजपत्र अधिसूचना संख्या (असाधारण) संख्या 02 (ई) दिनांक 26 जनवरी 2012 के अवसर पर अवैतनिक लैफ्टिनेंट एवं जे सी ओज को सेवा निवृत्त होने पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 179 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से शंसोधन किया जाता है।

हाशिया के नीचे

अवैतनिक कप्तान के रूप में (सेवा निवृत्ति पर)

बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप

कमसंख्या 181 के लिए : जेसी-349651के  
पदे : जेसी-349651वाई

राजपूताना राईफल्स

कमसंख्या 343 के लिए : केशव सिंह राम लखन  
पदे : केशव सिन्हा राम लखन

सेना चिकित्सा कोर

कमसंख्या 693	के लिए पढ़े	: सुबेदार एवं अवैतनिक लैटिनेंट : सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैटिनेंट
कमसंख्या 694	के लिए पढ़े	: सुबेदार एवं अवैतनिक लैटिनेंट : सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैटिनेंट
कमसंख्या 696	के लिए पढ़े	: जेसी-690481एन सुबेदार एवं अवैतनिक लैटिनेंट : जेसी-692619डबल्यू सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैटिनेंट

हाशिया के नीचेअवैतनिक रिसालदार मेजर/सुबेदार मेजर के रूप मेंबॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप

कमसंख्या 699	के लिए पढ़े	: जेसी-348950पी : जेसी-348950एल
--------------	----------------	------------------------------------

सिग्नल कोर

कमसंख्या 762	के लिए पढ़े	: कृष्णा कुमार : कृष्णा कुमार एस पी
--------------	----------------	--

राजपूत रेजीमेन्ट

कमसंख्या 1089	के लिए पढ़े	: जेसी-479037एक्स : जेसी-479937एक्स
---------------	----------------	--

कमसंख्या 1104	के लिए पढ़े	: जेसी-480068एच : जेसी-480086एच
---------------	----------------	------------------------------------

गढ़वाल राईफल्स

कमसंख्या 1150	के लिए पढ़े	: डोगरा रेजीमेन्ट : गढ़वाल राईफल्स
---------------	----------------	---------------------------------------

डिफेन्स सेक्यूरिटी कोर

कमसंख्या 2166	के लिए पढ़े	: 01.12.2011 : 01.11.2011
---------------	----------------	------------------------------

हाशिया के नीचेअवैतनिक रिसालदार/सुबेदारबॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप

कमसंख्या 199 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटाये

सेना चिकित्सा कोर

कमसंख्या 381	के लिए पढ़े	: सुबेदार दशरथ सा : सुबेदार दशरथ सा
--------------	----------------	--

डिफेन्स सेक्युरिटी कोर

कमसंख्या 617	के लिए पढ़े	:	बीएस अमल कुमार बिलाई बी सैनल कुमार बिलाई
कमसंख्या 622	के लिए पढ़े	:	केवप्रेमा चन्द्रन के वी प्रेमा चन्द्रन
कमसंख्या 629	के लिए पढ़े	:	रामदरास इनज यादव राम दरास सिंह यादव

इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स

कमसंख्या 557 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

7. राजपत्र अधिसूचना संख्या (असाधारण) संख्या 03 (ई) दिनांक 26 जनवरी 2012 के अयसर पर एन सी ओज को सेवा निवृत्त होने पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 180 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से शंशोधन किया जाता है।

हासिए के नीचेअद्वैतनिक नावब सूदेदार के रूप मेंबाम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप

कमसंख्या 667	के लिए पढ़े	:	1576103के 1576103एल
--------------	----------------	---	------------------------

तोपखाना रेजीमेन्ट

कमसंख्या 72	के लिए पढ़े	:	दलावर सिंह दलावर सिंह
-------------	----------------	---	--------------------------

कमसंख्या 327	के लिए पढ़े	:	वासुदेव सिंह भादूरिया वासुदेव सिंह भादोरिया
--------------	----------------	---	--

तोपखाना रेजीमेन्ट

कमसंख्या 66 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

सिग्नल कोर

कमसंख्या 851	के लिए पढ़े	:	14269399वाई 14269399एन
कमसंख्या 996	के लिए पढ़े	:	प्रहलदन एस प्रहलादन एस

राजपूत रेजीमेन्ट

कमसंख्या	1558	के लिए	:	31.12.2011
		पढे	:	01.12.2011

पैरासूट रेजीमेन्ट

कमसंख्या	237	के लिए	:	01.11.2011
		पढे	:	01.01.2012

सोना चिकित्सा कोर

कमसंख्या	2371	के लिए	:	आशिष कौमर दे
		पढे	:	आशिष कुमार दे
कमसंख्या	2393	के लिए	:	सी एस कुमार चुनिलाल
		पढे	:	हवलदार सी एस कुमार चुनिलाल

इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स

कमसंख्या 2989 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटाये

कमसंख्या	3219	के लिए	:	14587890एन
		पढे	:	14587880एन

कमसंख्या	3242	के लिए	:	यादव संत शर्मा
		पढे	:	यादव संत शारणे

[फा. सं. बी/43432/संशोधन-2012/ए जी/सी डब्ल्यू-2]

जय प्रकाश नेहरा, लै. जनरल, एडजुटेंट जनरल

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 15th August, 2012

**No. 13(E) dated 15th August, 2012.**—1. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No. 11(E) dated 15th August, 2009, notifying the grant of honorary rank of Naib Rasildar/Naib Subedar to NCOs on retirement under para 180 of Regulations for the Army, 1987 is amended as under :—

**UNDER HEADING                      TO BE HONORARY NAIB RASILDAR/SUBEDAR****CORPS OF MILITARY POLICE****DELETE SERIAL 3153 AND CONNECTED ENTRIES**

2. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 11 (E) dated 15 August 2010 notifying the grant of Honorary ranks to JCOs on retirement under Para 179 of Regulations for the Army 1987 is amended as under : -

**UNDER HEADING                      TO BE HONORARY RISILDAR/SUBEDAR****2 LANCERS****DELETE SERIAL 19 AND CONNECTED ENTRIES**

3. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 02 (E) dated 26 January 2011 notifying the grant of Honorary rank to JCOs on retirement under Para 179 of Regulations for the Army 1987 is amended as under : -

**UNDER HEADING****TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR****7 CAVALRY****DELETE SERIAL 1 AND CONNECTED ENTRIES**

4. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 10 (E) dated 15 August 2011 notifying the grant of Honorary ranks to JCOs on retirement under Para 179 of Regulations for the Army 1987 is amended as under :-

**UNDER HEADING****TO BE HONORARY RISALDAR MAJOR/SUBEDAR MAJOR****85 ARMoured REGIMENT****DELETE SERIAL 122 AND CONNECTED ENTRIES**

5. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 01 (E) dated 26 January 2012 notifying the grant of honorary commission to JCOs on the active list under Para 177 of Regulations for the Army 1987 is amended as under :-

**UNDER HEADING****TO BE HONORARY CAPTAINS (ACTIVE LIST)****REGIMENT OF ARTILLERY**

SERIAL 21

FOR - THORAT PANDURANG BHIMJI  
 READ - THORAT PANDURANG BHIMAJI

**CORPS OF SIGNALS**

SERIAL 73

FOR - SHITAN SINGH RATHORE  
 READ - SHAITAN SINGH RATHORE

6. The Gazette of India ( Extraordinary ) Notification No.02 (E) dated 26 January 2012 notifying the grant of Honorary ranks to Honorary Lieutenants and JCOs on retirement under Para 179 of Regulations for the Army 1987 is amended as under :-

**UNDER HEADING****TO BE HONORARY CAPTAINS (ON RETIREMENT)****BOMBAY ENGINEERS GROUP**

SERIAL 181

FOR - JC-349651K  
 READ - JC-349651Y

**THE RAJPUTANA RIFLES**

SERIAL 343

FOR - KESHVA SINGH RAM LAKHAN  
 READ - KESHVA SINH RAM LAKHAN

**ARMY MEDICAL CORPS**

SERIAL 693

FOR - SUB & HONY LT  
 READ - SUB MAJ & HONY LT

SERIAL 694

FOR - SUB & HONY LT  
 READ - SUB MAJ & HONY LT

SERIAL 696

FOR - JC-690481N SUB & HONY LT  
 READ - JC-692619W SUB MAJ & HONY LT

**UNDER HEADING TO BE HONORARY RISALDAR MAJOR/SUBEDAR MAJOR**

**BOMBAY ENGINEERS GROUP**

SERIAL 699 FOR - JC-348950P  
READ - JC-348950L

**CORPS OF SIGNALS**

SERIAL 762 FOR - KRISHNA KUMAR  
READ - KRISHNA KUMAR SP

**THE RAJPUT REGIMENT**

SERIAL 1089 FOR - JC-479037X  
READ - JC-479937X

SERIAL 1104 FOR - JC-480068H  
READ - JC-480086H

**THE GARHWAL RIFLES**

SERIAL 1150 FOR - THE DOGRA REGIMENT  
READ - THE GARHWAL RIFLES

**DEFENCE SECURITY CORPS**

SERIAL 2166 FOR - 01.12.2011  
READ - 01.11.2011

**UNDER HEADING TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR**

**BOMBAY ENGINEERS GROUP**

DELETE SERIAL 199 AND CONNECTED ENTRIES

**ARMY MEDICAL CORPS**

SERIAL 381 FOR - NB SUB DASHATH SAW  
READ - NB SUB DASHRATH SAW

**DEFENCE SECURITY CORPS**

SERIAL 617 FOR - BS ANAL KUMAR PILLAI  
READ - SUB B SANAL KUMAR PILLAI

SERIAL 622 FOR - KVPREMA CHANDRAN  
READ - KV PREMA CHANDRAN

SERIAL 629 FOR - RAMDARAS INGH YADAV  
READ - RAM DARAS SINGH YADAV

**CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS**

DELETE SERIAL 557 AND CONNECTED ENTRIES

7. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 03 (E) dated 26 January 2012 notifying the grant of Honorary rank of Naib Risaldar/Naib Subedar to NCOs on retirement under Para 180 of Regulations for the Army 1987 is amended as under :-

**UNDER HEADING                      TO BE HONORARY NAIB SUBEDAR****BOMBAY ENGINEERS GROUP**

SERIAL 667                      FOR     - 1576103K  
     READ   - 1576103L

**REGIMENT OF ARTILLERY**

SERIAL 72                      FOR     - DALWAR SINGH  
     READ   - HAV DALAWAR SINGH

SERIAL 327                      FOR     - VASUDEO SINGH BHADOORIA  
     READ   - VASUDEO SINGH BHADORIA

**REGIMENT OF ARTILLERY****DELETE SERIAL 66 AND CONNECTED ENTRIES****CORPS OF SIGNALS**

SERIAL 851                      FOR     - 14269399Y  
     READ   - 14269399N

SERIAL 996                      FOR     - PRAHALDAN S  
     READ   - PRAHALADAN S

**THE RAJPUT REGIMENT**

SERIAL 1558                      FOR     - 31.12.2011  
     READ   - 01.12.2011

**THE PARACHUTE REGIMENT**

SERIAL 237                      FOR     - 01.11.2011  
     READ   - 01.01.2012

**ARMY MEDICAL CROPS**

SERIAL 2371                      FOR     - ASHIS KUAMR DEY  
     READ   - ASHIS KUMAR DEY

SERIAL 2393                      FOR     - CS KUAMR CHUNILAL  
     READ   - CS KUMAR CHUNILAL

**CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS****DELETE SERIAL 2989 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 3219                      FOR     - 14587890N  
     READ   - 14587880N

SERIAL 3242                      FOR     - YADAV SANT SHARAM  
     READ   - YADAV SANT SHARAN

[F. No. B/43432/Corrigendum-2012/AG/CW-2]

JAI PRAKASH NEHRA, Lt. Gen., Adjutant General

## ( वायु शाखा )

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2012

सं. 14(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2012.—स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर वायु सेना विनियमावली के पैरा 344 के अन्तर्गत निम्नलिखित ऑनरेरी फ्लाईंग अफसरों को 15 अगस्त, 2012 से ऑनरेरी फ्लाईट लेफ्टिनेंट रैंक में पदोन्नत किया जाता है :

क्र.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	टेड
1.	614492 के	मा वा अ (आ फ अ)	बिजय करन सिंह	एसीएच जीडी
2.	657328 बी	मा वा अ (आ फ अ)	मांगे राम	एसीएच जीडी
3.	617504 एस	मा वा अ (आ फ अ)	नागेन्द्र प्रसाद राय	ए डी एस ओ
4.	618514 बी	मा वा अ (आ फ अ)	शिव जी दुबे	ए डी एस ओ
5.	643762 ए	मा वा अ (आ फ अ)	कुलदीप सिंह	ए एफ फिटर
6.	657647 एन	मा वा अ (आ फ अ)	राम किशोर	ए एफ फिटर
7.	633832 ए	मा वा अ (आ फ अ)	सरनजीत सिंह	ए एफ एस ओ
8.	632048 ए	मा वा अ (आ फ अ)	अजय कुमार सोम	ए एफ एस ओ
9.	614498 एच	वा अ (आ फ अ)	असर्फी लाल	कैटरिंग असिस्टेंट
10.	646012 एल	मा वा अ (आ फ अ)	पुरम ओबय्या	क्लर्क एकाउंट्स
11.	614936 एल	मा वा अ (आ फ अ)	लाल बहादुर यादव	क्लर्क एकाउंट्स
12.	645894 एल	मा वा अ (आ फ अ)	राजेन्द्र सिंह	क्लर्क जीडी
13.	645086 एच	मा वा अ (आ फ अ)	मेहरबान सिंह रावत	क्लर्क जीडी



क्र.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	टेड
14.	646062 एफ	मा वा अ (आ फ अ)	अपोलनियुस किस्पोट्टा	क्लर्क जीडी
15.	614028 आर	मा वा अ (आ फ अ)	सुखवीर सिंह	किप्टो
16.	632470 एफ	मा वा अ (आ फ अ)	हरबोर सिंह	किप्टो
17.	670818 एन	मा वा अ (आ फ अ)	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	एजुकेशन इंस्ट्रक्टर
18.	609814 बी	मा वा अ (आ फ अ)	प्रेम चन्द शर्मा	इलेक्ट फिटर
19.	609354 एस	मा वा अ (आ फ अ)	विष्णु देव सिन्हा	इलेक्ट फिटर
20.	641886 जी	मा वा अ (आ फ अ)	दिनेश सिंह	इंजन फिटर
21.	642392 जी	मा वा अ (आ फ अ)	काशी राम शुक्ल	इंजन फिटर
22.	645514 एस	मा वा अ (आ फ अ)	कृपाल सिंह	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
23.	644331 ए	मा वा अ (आ फ अ)	मैयन कन्दसामी	फ्लाइट इंजीनियर
24.	643982 आर	मा वा अ (आ फ अ)	नवाब सिंह	फ्लाइट इंजीनियर
25.	644561 के	वा अ (आ फ अ)	रघुवंश नारायण सिंह	फ्लाइट गनर
26.	645079 बी	मा वा अ (आ फ अ)	जय जय राम तिवारी	जी टी आई
27.	646505 के	मा वा अ (आ फ अ)	प्रितपाल सिंह	जी टी आई
28.	619327 एल	मा वा अ (आ फ अ)	किसन चन्द शर्मा	आई ए एफ (पी)
29.	619155 एस	मा वा अ (आ फ अ)	राम प्रकाश सिंह	आई ए एफ (पी)
30.	650093 एच	मा वा अ (आ फ अ)	रमा शंकर	इंस्ट्रुमेंट फिटर
31.	650145 ए	मा वा अ (आ फ अ)	वीरेन्द्र कुमार शर्मा	इंस्ट्रुमेंट फिटर
32.	655069 एस	मा वा अ (आ फ अ)	मो० इफ्तेखार अहमद	मेडिकल असिस्टेंट
33.	655164 एच	मा वा अ (आ फ अ)	निरंजन पाणिग्रहि	मेडिकल असिस्टेंट
34.	633978 के	मा वा अ (आ फ अ)	राज कुमार प्रसाद सिंह	मेट असिस्टेंट

क्र. सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	टेड
35.	633426 ए	मा वा अ (आ फ अ)	जयकिशन	मेट असिस्टेंट
36.	619886 जी	मा वा अ (आ फ अ)	शिव नारायण सोरौत	एम टी डी
37.	617727 ए	मा वा अ (आ फ अ)	श्याम लाल सिंह	एम टी डी
38.	619234 एफ	मा वा अ (आ फ अ)	दारिवेमुला पॉल	म्युजिशियन
39.	657148 जी	मा वा अ (आ फ अ)	अशोक कुमार	फोटो फिटर
40.	657705 आर	वा अ (आ फ अ)	अल्लामहर	फोटो फिटर
41.	618402 बी	मा वा अ (आ फ अ)	राधाकृष्ण दूबे	पी जे आई
42.	645990 टी	मा वा अ (आ फ अ)	बिजेन्द्र कुमार बर्मा	पी जे आई
43.	644500 जी	मा वा अ (आ फ अ)	बहादुर सिंह बिष्ट	पीएमएफ (एम)
44.	619314 एच	मा वा अ (आ फ अ)	शामा कान्त पाण्डेय	रडार फिटर
45.	618617 एफ	मा वा अ (आ फ अ)	शुभ कुमार शर्मा	रडार फिटर
46.	633488 ए	मा वा अ (आ फ अ)	सुखदेव कुमार रायजादा	रेडियो फिटर
47.	632906 एफ	मा वा अ (आ फ अ)	किशन लाल सहारन	रेडियो फिटर
48.	632075 आर	मा वा अ (आ फ अ)	लखन लाल सिंह	रेडियो टेक
49.	632414 बी	मा वा अ (आ फ अ)	भृगु नाथ शर्मा	रेडियो टेक
50.	657745 एन	मा वा अ (आ फ अ)	रघुबीर सिंह मलिक	एस इ डबल्यू
51.	644881 एस	मा वा अ (आ फ अ)	मुवनेश्वर प्रसाद	एस इ डबल्यू
52.	631399 एस	मा वा अ (आ फ अ)	जय नारायण प्रसाद	टेलेस्ट आर टी ओ
53.	632360 एस	मा वा अ (आ फ अ)	दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव	टेलेस्ट आर टी ओ
54.	657761 एस	मा वा अ (आ फ अ)	राम शंकर सिंह चौहान	विपन फिटर
55.	642921 ए	मा वा अ (आ फ अ)	लाम सिंह देशवाल	विपन फिटर

क्र. सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	ट्रेड
56.	657305 एफ	मा वा अ (आ फ अ)	दुःखहरण प्रसाद	वर्कशॉप फिटर (बी)
57.	657586 बी	वा अ (आ फ अ)	पद्म कांत	वर्कशॉप फिटर (बी)
58.	657477 एल	मा वा अ (आ फ अ)	प्रेम सिंह	वर्कशॉप फिटर (एम)
59.	657192 ए	मा वा अ (आ फ अ)	अशोक कुमार धीमान	वर्कशॉप फिटर (एम)

[फा. सं. वा से मु/स्त्री 40254/1/1/पी ए (सीपीसी)]

अमित अनेजा, ए वी एम, कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

(AIR BRANCH)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th August, 2012

**No. 14(E) dated 15th August, 2012.**—The undermentioned Honorary Flying Officers are promoted as Honorary Flight Lieutenants with effect from 15 August, 2012 on occasion of Independence Day under para 344 of Regulations for the Air Force :—

SI No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
1.	614492-K	MWO(HFO)	BIJAI KARAN SINGH	ACH GD
2.	657328-B	MWO(HFO)	MANGE RAM	ACH GD
3.	617504-S	MWO(HFO)	NAGENDRA PRASAD RAI	ADSO
4.	618514-B	MWO(HFO)	SHIO JEE DUBEY	ADSO
5.	643762-A	MWO(HFO)	KULDIP SINGH	AF FIT
6.	657647-N	MWO(HFO)	RAM KISHORE	AF FIT
7.	633832-A	MWO(HFO)	SARANJIT SINGH	AFSO
8.	632048-A	MWO(HFO)	AJOY KUMAR SOME	AFSO
9.	614498-H	WO(HFO)	ASHARFILAL	CAT ASST
10.	646012-L	MWO(HFO)	PURAM OBAIAH	CLK ACCTS
11.	614936-L	MWO(HFO)	LAL BAHADUR YADAV	CLK ACCTS
12.	645894-L	MWO(HFO)	RAJANDER SINGH	CLK GD
13.	645086-H	MWO(HFO)	MEHARBAN SINGH RAWAT	CLK GD
14.	646062-F	MWO(HFO)	APOLNIUS KISPOTTA	CLK GD
15.	614028-R	MWO(HFO)	SUKHVIR SINGH	CRYPTO
16.	632470-F	MWO(HFO)	HARBIR SINGH	CRYPTO
17.	670818-N	MWO(HFO)	RAJENDRA PRASAD SINGH	EDN INST
18.	609814-B	MWO(HFO)	PREM CHAND SHARMA	ELECT FIT

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & initials	Trade
19.	609354-S	MWO(HFO)	VISHNU DEO SINHA	ELECT FIT
20.	641886-G	MWO(HFO)	DINESH SINGH	ENG FIT
21.	642892-G	MWO(HFO)	KASHI RAM SHUKLA	ENG FIT
22.	645514-S	MWO(HFO)	KIRPAL SINGH	EQPT ASST
23.	644331-A	MWO(HFO)	MEYYAN KANDA SAMY	FLT ENG
24.	643982-R	MWO(HFO)	NAWAB SINGH	FLT ENG
25.	644561-K	WO(HFO)	RAGHUBANSH NARAYAN SINGH	FLT GUN
26.	645079-B	MWO(HFO)	JAI JAIRAM TIWARI	GTI
27.	646505-K	MWO(HFO)	PRITPAL SINGH	GTI
28.	619327-L	MWO(HFO)	KISHAN CHAND SHARMA	IAF (P)
29.	619155-S	MWO(HFO)	RAM PRAKASH SINGH	IAF (P)
30.	650093-H	MWO(HFO)	RAMA SHANKER	INST FIT
31.	650145-A	MWO(HFO)	VIRENDRA KUMAR SHARMA	INST FIT
32.	655069-S	MWO(HFO)	MD IFTAKHAR AHMAD	MED ASST
33.	655164-H	MWO(HFO)	NIRANJANA PANIGRAHY	MED ASST
34.	633978-K	MWO(HFO)	RAJ KUMAR PRASAD SINGH	MET ASST
35.	633423-A	MWO(HFO)	JAI KISHAN	MET ASST
36.	619886-G	MWO(HFO)	SHIVNARAYAN SOROUT	MTD
37.	617727-A	MWO(HFO)	SHYAM LAL SINGH	MTD
38.	619234-F	MWO(HFO)	PAUL DARIVEMULA	MUSN
39.	657148-G	MWO(HFO)	ASHOKE KUMAR	PHOTO FIT
40.	657705-R	WO(HFO)	ALLAMA HAR	PHOTO FIT
41.	618402-B	MWO(HFO)	RADHA KRISHNA DUBEY	PJI
42.	645990-T	MWO(HFO)	BIJENDRA KUMAR VERMA	PJI
43.	644500-G	MWO(HFO)	BAHADUR SINGH BIST	PMF(M)
44.	619314-H	MWO(HFO)	RAMA KANT PANDEY	RAD FIT
45.	618617-F	MWO(HFO)	SHUB KUMAR SHARMA	RAD FIT
46.	633488-A	MWO(HFO)	SUKHDEV KUMAR RAYZADA	RDO FIT
47.	632906-F	MWO(HFO)	KISHAN LAL SAHARAN	RDO FIT
48.	632075-R	MWO(HFO)	LAKHAN LAL SINGH	RDO TECH
49.	632414-B	MWO(HFO)	BHRIGU NATH SHARMA	RDO TECH

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & initials	Trade
50.	657745-N	MWO(HFO)	RAGHBIR SINGH MALIK	SEW
51.	644881-S	MWO(HFO)	BHUWANESHWAR PRASAD	SEW
52.	631399-S	MWO(HFO)	JAI NARAYAN PRASAD	TELST RTO
53.	632360-S	MWO(HFO)	DINESH CHANDRA SRIVASTAVA	TELST RTO
54.	657761-S	MWO(HFO)	RAM SHANKER SINGH CHAUHAN	WPN FIT
55.	642921-A	MWO(HFO)	LABH SINGH DESWAL	WPN FIT
56.	657305-F	MWO(HFO)	DUKHHARAN PRASAD	WS FIT(B)
57.	657586-B	WO(HFO)	PADMA KANT	WS FIT(B)
58.	657477-L	MWO(HFO)	PREM SINGH	WS FIT(M)
59.	657192-A	MWO(HFO)	ASHOK KUMAR DHIMAN	WS FIT(M)

[F. No. Air HQ/C 40254/1/1/PA(CPC)]

AMIT ANEJA, AVM Air Officer-in-charge Personnel

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2012

सं. 15(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2012.—स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर वायु सेना विनियमावली के पैरा 344 के अन्तर्गत निम्नलिखित मास्टर वारंट अफसरों और वारंट अफसरों को 15 अगस्त, 2012 से फ्लाईंग अफसर रैंक में ऑनरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है :—

क.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	ट्रेड
1.	646988 जी	मा वा अ	देवेन्द्र सिंह ठिकारा	एसीएच जीडी
2.	646763 के	मा वा अ	सुभाष चन्द्र खन्ना	एसीएच जीडी
3.	644204 एन	मा वा अ	ओम प्रकाश दीक्षित	एसीएच जीडी
4.	646055 टी	मा वा अ	काशीनाथ मुरलीधर सोनवणे	एसीएच जीडी
5.	619633 टी	मा वा अ	भोगेन्द्र झा	एसीएच जीडी
6.	644946 एन	मा वा अ	विद्या नन्दन सिंह	एसीएच जीडी
7.	646566 एन	मा वा अ	राम दुलार सिंह	एसीएच जीडी
8.	646454 एन	मा वा अ	जगदीश चन्द्र शर्मा	एसीएच जीडी
9.	642115 के	मा वा अ	इन्द्रदेव प्रसाद यादव	एसीएच जीडी
10.	620190 एफ	मा वा अ	नरेन्द्र कुमार वर्मा	ए डी एस ओ
11.	619660 एन	मा वा अ	सुरेन्द्र पाल सिंह	ए डी एस ओ

क.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राप्ति	टेड
12.	619508 एफ	मा वा अ	शर्मा राधेश्याम जी	ए डी एस ओ
13.	619906 बी	मा वा अ	समरथ सिंह	ए डी एस ओ
14.	657072 टी	मा वा अ	जगजीवन राम यादव	ए एफ फिटर
15.	642795 बी	मा वा अ	विजय कुमार गुप्ता	ए एफ फिटर
16.	644649 एफ	मा वा अ	शिव शंकर ठाकुर	ए एफ फिटर
17.	643401 टी	मा वा अ	गिरिजा प्रसाद बिन्द	ए एफ फिटर
18.	644667 ए	मा वा अ	अशोक कुमार मिश्रा	ए एफ फिटर
19.	643386 एफ	मा वा अ	बहादुर राम	ए एफ फिटर
20.	643062 एल	मा वा अ	राम कृष्ण सिंह	ए एफ फिटर
21.	657085 बी	मा वा अ	रमेशचन्द्र साहा	ए एफ फिटर
22.	657068 बी	मा वा अ	शिव पूजन राम	ए एफ फिटर
23.	643336 एल	मा वा अ	पूर्ण चन्द्र मण्डल	ए एफ फिटर
24.	643040 के	मा वा अ	उमाशंकर सिंह	ए एफ फिटर
25.	644669 एन	मा वा अ	शिव सागर लाल	ए एफ फिटर
26.	657367 एफ	मा वा अ	विजय पाल सिंह	ए एफ फिटर
27.	644248 एस	मा वा अ	रामा शंकर सिंह	ए एफ फिटर
28.	643789 एफ	मा वा अ	रामजी प्रसाद	ए एफ फिटर
29.	657924 एन	मा वा अ	किरोड़ी सिंह तोमर	ए एफ फिटर
30.	644637 एस	मा वा अ	राम कँवर सरोहा	ए एफ फिटर
31.	657344 जी	मा वा अ	सत्य नारायण सिंह	ए एफ फिटर
32.	644200 एच	वा अ	सुरेन्द्र सिंह सग्गू	ए एफ फिटर
33.	633175 टी	मा वा अ	सत्यवीर सिंह	ए एफ एस ओ
34.	631606 आर	मा वा अ	अशोक कुमार शर्मा	ए एफ एस ओ
35.	633687 के	मा वा अ	प्रसिद्ध नाथ यादव	ए एफ एस ओ
36.	632473 एन	मा वा अ	स्वरन सिंह	ए एफ एस ओ
37.	633653 ए	वा अ	राम आसरे	ए एफ एस ओ
38.	633802 एस	वा अ	करम जीत कुमार	ए एफ एस ओ
39.	633165 एफ	वा अ	मोहम्मद शहाबुद्दीन	ए एफ एस ओ
40.	619265 एफ	वा अ	सुदर्शन सिंह	ए एफ एस ओ

क.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	टेड
41.	632293 एस	वा अ	राम नरेश वर्मा	ए एफ एस ओ
42.	646546 एफ	मा वा अ	गनेश बिश्वास	कैटरिंग असिस्टेंट
43.	645680 जी	मा वा अ	महेश चन्द्र जैन	कैटरिंग असिस्टेंट
44.	646065 एन	मा वा अ	शुभ नारायण उपाध्याय	क्लर्क एकाउंट्स
45.	646866 एल	मा वा अ	राजेन्द्र महाराज	क्लर्क एकाउंट्स
46.	613138 एल	मा वा अ	शिव नन्दन प्रसाद	क्लर्क एकाउंट्स
47.	614164 ए	मा वा अ	नित्यानन्द सिंह	क्लर्क एकाउंट्स
48.	645761 जी	मा वा अ	सी के केशवदास	क्लर्क एकाउंट्स
49.	614729 ए	मा वा अ	किशोर बाबूराव चौहान	क्लर्क एकाउंट्स
50.	614937 एच	मा वा अ	भारत सिंह यादव	क्लर्क एकाउंट्स
51.	614730 एच	मा वा अ	शिव शंकर गुप्ता	क्लर्क एकाउंट्स
52.	614158 एल	मा वा अ	राजेन्द्र सिंह राठौड़	क्लर्क जीडी
53.	614124 बी	मा वा अ	राणा उमापति सिंह	क्लर्क जीडी
54.	646366 एच	मा वा अ	केहरी लाल	क्लर्क जीडी
55.	614187 टी	मा वा अ	वेद प्रकाश यादव	क्लर्क जीडी
56.	613036 जी	मा वा अ	जय कुमार प्रसाद	क्लर्क जीडी
57.	613948 एच	मा वा अ	जवाहर लाल	क्लर्क जीडी
58.	646717 बी	मा वा अ	हीरा लाल	क्लर्क जीडी
59.	646397 एच	मा वा अ	सुरेश सिंह	क्लर्क जीडी
60.	645319 एन	मा वा अ	बृज भूषण	क्लर्क जीडी
61.	646473 जी	मा वा अ	समय सिंह	क्लर्क जीडी
62.	645711 एन	मा वा अ	भागीरथ मल	क्लर्क जीडी
63.	646537 जी	मा वा अ	लल्लू पान्डेय	क्लर्क जीडी
64.	613574 आर	मा वा अ	अम्बरीष कुमार शुक्ल	क्लर्क जीडी
65.	614508 के	मा वा अ	अली असगर अंसारी	क्लर्क जीडी

क.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	ट्रेड
66.	646716 जी	मा वा अ	अब्दुल वाहिद	क्लर्क जीडी
67.	614511 के	मा वा अ	रमेश चन्द्र मिश्रा	क्लर्क जीडी
68.	646141 एल	मा वा अ	कुलवंत सिंह	क्लर्क जीडी
69.	646713 एस	मा वा अ	महातम यादव	क्लर्क जीडी
70.	646605 बी	मा वा अ	भवर सिंह राठौड़	फिफ्टो
71.	633565 आर	मा वा अ	लाल सिंह यादव	फिफ्टो
72.	632975 के	मा वा अ	हरदयाल	फिफ्टो
73.	672374 एन	मा वा अ	तिरुवारुर सुन्दरम कृष्णन	एजुकेशन इस्टक्टर
74.	609888 के	मा वा अ	सुबास चन्द्र आपटा	इलेक्ट फिटर
75.	650151 के	मा वा अ	विक्रम सिंह वर्मा	इलेक्ट फिटर
76.	650171 टी	मा वा अ	सुभाष चन्द्र पण्डा	इलेक्ट फिटर
77.	609713 एन	मा वा अ	नित्यानन्द सिंह	इलेक्ट फिटर
78.	609673 एच	मा वा अ	अशोक कुमार शर्मा	इलेक्ट फिटर
79.	609465 ए	मा वा अ	बालम सिंह नेगी	इलेक्ट फिटर
80.	650057 आर	मा वा अ	मनोहर लाल शर्मा	इलेक्ट फिटर
81.	643943 एन	मा वा अ	विजयकुमार रामचंद्र कडुकर	इंजन फिटर
82.	644858 एच	मा वा अ	सुरेश चन्द आजाद	इंजन फिटर
83.	643123 बी	मा वा अ	राम भगवान सिंह	इंजन फिटर
84.	644289 एल	मा वा अ	शर्मा देवराज ओमप्रकाश	इंजन फिटर
85.	643572 के	मा वा अ	नरसिंह रथ	इंजन फिटर
86.	644839 आर	मा वा अ	सांवत सिंह यादव	इंजन फिटर
87.	644731 एल	मा वा अ	महेश नन्द सिंह	इंजन फिटर
88.	643173 आर	मा वा अ	रमाशंकर विरोदय	इंजन फिटर
89.	644323 टी	मा वा अ	प्रेम सिंह दलाल	इंजन फिटर



क्र.सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राकार	टेड
90.	657968 एस	मा वा अ	रघुबीर प्रसाद पाल	इंजन फिटर
91.	657383 एच	मा वा अ	उमेश प्रसाद सिंह	इंजन फिटर
92.	642764 बी	मा वा अ	सुखदेव प्रसाद सिंह	इंजन फिटर
93.	644778 एफ	मा वा अ	रामबीर सिंह राजौर	इंजन फिटर
94.	657380 टी	वा अ	ललितेश्वर प्रसाद सिंह	इंजन फिटर
95.	646679 के	मा वा अ	भाउसाहे पाराजी रसाल	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
96.	646325 एन	मा वा अ	राजबीर सिंह दहिया	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
97.	614921 आर	मा वा अ	दिलीप कुमार दास	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
98.	646723 एल	मा वा अ	कृष्ण प्रताप सिंह	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
99.	646433 एच	मा वा अ	शिव कुमार सिंह	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
100.	646681 एन	मा वा अ	पुष्पराजन डी	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
101.	613735 टी	मा वा अ	यशपाल सिंह	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
102.	613731 एन	मा वा अ	जयपाल सिंह पुंडीर	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
103.	613115 एन	मा वा अ	सुदामा प्रसाद	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
104.	614752 के	मा वा अ	एस जयप्रकाशन	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
105.	613432 एल	मा वा अ	चन्द्र शेखर	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
106.	644938 एल	मा वा अ	जितेन्द्र कुमार शर्मा	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
107.	645765 एल	मा वा अ	चिन्ता रवि	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
108.	646541 बी	मा वा अ	बिराज कुमार पाल	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
109.	645953 के	मा वा अ	गिरिजेश पाण्डेय	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
110.	614315 के	वा अ	ललन सिंह	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
111.	645354 के	वा अ	उगम सिंह पवार	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
112.	614363 जी	वा अ	राम परिखन सिंह	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
113.	614415 बी	वा अ	काली कान्त सिंह	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
114.	645821 ए	वा अ	जॉन जार्ज	इक्वीपमेंट असिस्टेंट

क.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राप्तर	टेड
115.	645933 ए	वा अ	राम बालक प्रसाद	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
116.	645599 आर	वा अ	विजय कुमार	इक्वीपमेंट असिस्टेंट
117.	644842 आर	मा वा अ	धर्म बीर त्यागी	फ्लाइट इंजीनियर
118.	657952 एफ	मा वा अ	देवेन्द्र कुमार शर्मा	फ्लाइट इंजीनियर
119.	642807 एस	मा वा अ	आर सुब्रामनियन	फ्लाइट गनर
120.	642824 एस	मा वा अ	छेत्री मोहन राव	फ्लाइट गनर
121.	646570 के	मा वा अ	श्री राम कुरील	जी टी आई
122.	646247 बी	मा वा अ	गुंडेड्डी मदी रेड्डी	जी टी आई
123.	645781 आर	मा वा अ	सुशील कुमार तिवारी	जी टी आई
124.	614052 ए	मा वा अ	मोहन सिंह सोढी	जी टी आई
125.	618609 बी	मा वा अ	सत्य नारायण सिंह	आई ए एफ (पी)
126.	620229 बी	मा वा अ	राजमल सिंह लाठर	आई ए एफ (पी)
127.	618841 आर	मा वा अ	रामसुरन्जन सिंह	आई ए एफ (पी)
128.	619490 एल	मा वा अ	हरजिन्दर सिंह	आई ए एफ (पी)
129.	618696 एफ	वा अ	नागेन्द्र नाथ सिंह	आई ए एफ (पी)
130.	619102 आर	मा वा अ	वीरेन्द्र सिंह	आई ए एफ (पी)
131.	619387 टी	मा वा अ	सन्तोष कुमार राठौड़	आई ए एफ (पी)
132.	619975 एच	वा अ	चीरात कलतिल लोहिताषन	आई ए एफ (पी)
133.	617932 टी	वा अ	राम पूजन सिंह	आई ए एफ (पी)
134.	609943 बी	मा वा अ	मुरलीधरन पी के	इंस्ट्रुमेंट फिटर
135.	609757 एस	मा वा अ	अनिल कुमार श्रीवास्तवा	इंस्ट्रुमेंट फिटर
136.	609686 एल	मा वा अ	जगदीश चन्द ठाकुर	इंस्ट्रुमेंट फिटर
137.	650101 एस	मा वा अ	कृष्णा पिल्लै मोहनन पिल्लै	इंस्ट्रुमेंट फिटर
138.	609346 आर	मा वा अ	भोला प्रसाद सिंह	इंस्ट्रुमेंट फिटर

क.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राप्ति	टेड
139.	650161 एफ	मा वा अ	परमल सिंह आर्या	इंस्ट्रुमेंट फिटर
140.	609272 ए	मा वा अ	किदार सिंह मलिक	इंस्ट्रुमेंट फिटर
141.	650160 एच	मा वा अ	धर्मवीर सिंह भाटी	इंस्ट्रुमेंट फिटर
142.	655248 एस	मा वा अ	जोब पालाकुन्नेल अगस्टिन	मेडिकल असिस्टेंट
143.	655159 आर	मा वा अ	असगर अली मलवान	मेडिकल असिस्टेंट
144.	609850 आर	वा अ	बचन सिंह	मेडिकल असिस्टेंट
145.	633929 एन	मा वा अ	प्रभात चन्द्र कर	मेट असिस्टेंट
146.	632415 टी	मा वा अ	सुकुमार सामन्त	मेट असिस्टेंट
147.	633705 एन	मा वा अ	रामदीप प्रसाद दादपुरी	मेट असिस्टेंट
148.	618014 टी	मा वा अ	कपिल देव रॉय	एम टी डी
149.	620527 एच	मा वा अ	रतन सरकार	एम टी डी
150.	620035 जी	मा वा अ	प्रेम सिंह दहिया	एम टी डी
151.	619050 बी	मा वा अ	राम भजन सिंह वर्मा	एम टी डी
152.	620177 के	मा वा अ	रमेश प्रसाद बर्मा	एम टी डी
153.	619839 बी	मा वा अ	गिर्राज सिंह	एम टी डी
154.	619026 एस	मा वा अ	राजेन्द्र बहादुर सिंह	एम टी डी
155.	619213 टी	मा वा अ	कृपासिंघु खुंटा	एम टी डी
156.	618977 के	मा वा अ	सुधाकरण टी	एम टी डी
157.	620216 टी	वा अ	कालू राम चोयल	एम टी डी
158.	618956 एफ	वा अ	नरेन्द्र प्रताप सिंह	एम टी डी
159.	619580 के	मा वा अ	श्याम बहादुर सिंह	एम टी डी
160.	617610 टी	मा वा अ	सत्येन्द्र कुमार	एम टी डी
161.	619535 टी	मा वा अ	गेविंदपानिकर सोमराजन नायर	एम टी डी
162.	618996 बी	मा वा अ	किशोर कुमार साहा	एम टी डी

क.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	
163.	617142 एल	मा वा अ	सत्येन्द्र कुमार घोष	एम टी डी
164.	619696 एस	वा अ	मोती लाल	एम टी डी
165.	622854 ए	वा अ	जे विलसन	म्युजिशियन
166.	621115 ए	मा वा अ	मदन सिंह राना	म्युजिशियन
167.	657153 टी	मा वा अ	नित्यानन्द प्रधान	फोटो फिटर
168.	642877 टी	मा वा अ	राम लखन	फोटो फिटर
169.	657154 आर	वा अ	महेन्द्र पाल सिंह	फोटो फिटर
170.	645863 एल	मा वा अ	अक्षयबर प्रसाद ओझा	पी जे आई
171.	618125 बी	मा वा अ	वेणुगोपाल एम सी	रडार फिटर
172.	618741 बी	मा वा अ	राजेश प्रकाश श्रीवास्तव	रडार फिटर
173.	618604 ए	मा वा अ	वीर सिंह	रडार फिटर
174.	619893 एल	मा वा अ	योगेश्वर दयाल त्यागी	रडार फिटर
175.	619668 एफ	मा वा अ	श्री कृष्ण शर्मा	रडार फिटर
176.	618602 एच	मा वा अ	मनबर सिंह रावत	रडार फिटर
177.	619468 टी	मा वा अ	मदनपाल सिंह पवार	रडार फिटर
178.	618740 जी	मा वा अ	ललन प्रसाद	रडार फिटर
179.	632577 टी	मा वा अ	उदय प्रसाद गुप्ता	रेडियो फिटर
180.	632578 आर	मा वा अ	उदयबीर सिंह मलिक	रेडियो फिटर
181.	632577 एल	मा वा अ	भरत सिंह	रेडियो फिटर
182.	632540 एफ	मा वा अ	जगदीश प्रसाद ढौडियाल	रेडियो फिटर
183.	632577 जी	मा वा अ	कृष्ण दत्त तिवारी	रेडियो फिटर
184.	632577 आर	मा वा अ	मोहन लाल गुलाटी	रेडियो फिटर
185.	632547 एल	मा वा अ	राज मणि यादव	रेडियो फिटर
186.	632577 जी	मा वा अ	बेतुल्लाह खॉ	रेडियो फिटर

क्र.सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	टेड
187.	633637 एस	मा वा अ	राघव संग्राम सिंह	रेडियो फिटर
188.	632930 के	मा वा अ	धर्म पाल सिंह	रेडियो फिटर
189.	633820 एन	मा वा अ	राम बचन राम	रेडियो फिटर
190.	632946 बी	मा वा अ	महेन्द्र प्रताप सिंह	रेडियो फिटर
191.	633452 टी	मा वा अ	सुरेश कुमार	रेडियो फिटर
192.	632563 एल	मा वा अ	दिनेश कुमार गुप्ता	रेडियो फिटर
193.	631787 ए	मा वा अ	ज्ञानेन्द्र सिंह	रेडियो फिटर
194.	633256 टी	मा वा अ	गुलाब चन्द राम	रेडियो फिटर
195.	632581 एच	मा वा अ	श्री कान्त सिंह	रेडियो फिटर
196.	633834 एन	मा वा अ	बेद पाल सिंह	रेडियो फिटर
197.	633448 बी	मा वा अ	कृष्ण प्रकाश	रेडियो फिटर
198.	632708 एल	मा वा अ	उमाशंकर सिंह	रेडियो टेक
199.	632633 ए	मा वा अ	राजकुमार तिकेन्द्रजीत सिंह	रेडियो टेक
200.	632983 एल	मा वा अ	महावीर सिंह वर्मा	रेडियो टेक
201.	633589 के	मा वा अ	सुरेन्द्र सिंह ठाकरन	रेडियो टेक
202.	632286 एल	मा वा अ	लेखराम बन्सल	रेडियो टेक
203.	633038 एस	मा वा अ	लौरछिया एच के पी	रेडियो टेक
204.	633187 जी	मा वा अ	गजेन्द्र सिंह	रेडियो टेक
205.	633101 एल	मा वा अ	बामेश्वर सिंह	रेडियो टेक
206.	633192 टी	मा वा अ	राजिन्द्र कुमार जौड़ा	रेडियो टेक
207.	644873 आर	मा वा अ	चानन सिंह सिधु	एस इ डबल्यू
208.	658009 बी	मा वा अ	अशोक कुमार तिवारी	एस इ डबल्यू
209.	658005 एस	मा वा अ	अजीत सिंह	एस इ डबल्यू
210.	657179 जी	मा वा अ	मोहन सिंह बघेल	एस इ डबल्यू
211.	643622 के	वा अ	के प्रेमनाथ	एस इ डबल्यू

क.सं	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	ट्रेड
212.	644039 एन	वा अ	मुंशीलाल राममिलन पासी	एस इ डबल्यू
213.	634213 बी	मा वा अ	सुरेश कुमार राठी	टेलेस्ट आर टी ओ
214.	633082 एल	मा वा अ	ताराचन्द गेरा	टेलेस्ट आर टी ओ
215.	632806 एल	वा अ	सरयू प्रसाद सिंह	टेलेस्ट आर टी ओ
216.	631396 एच	मा वा अ	देव नारायण लाल	टेलेस्ट आर टी ओ
217.	632874 ए	वा अ	कपिल देव प्रसाद	टेलेस्ट आर टी ओ
218.	632055 जी	मा वा अ	मोहम्मद जमीर अहमद	टेलेस्ट आर टी ओ
219.	632809 ए	वा अ	परमानन्द सिंह	टेलेस्ट आर टी ओ
220.	643745 ए	मा वा अ	केशव प्रसाद यादव	विपन फिटर
221.	657284 एल	मा वा अ	शिव चन्द्र सिंह	विपन फिटर
222.	641162 बी	मा वा अ	गुरनाम सिंह मिन्हास	विपन फिटर
223.	657553 के	मा वा अ	मोहम्मद फहीम सिद्दीकी	विपन फिटर
224.	657264 बी	मा वा अ	बलदेव सिंह	विपन फिटर
225.	657014 एफ	मा वा अ	यशपाल	विपन फिटर
226.	641504 टी	मा वा अ	शंकर सरण राय	विपन फिटर
227.	644554 एफ	मा वा अ	गंगासागर यादव	विपन फिटर
228.	642546 ए	मा वा अ	इकबाल बहादुर सिंह	विपन फिटर
229.	642746 जी	मा वा अ	ब्रज भूषण सिंह	विपन फिटर
230.	642981 एच	वा अ	शिवजी दुबे	विपन फिटर
231.	641241 के	मा वा अ	नवल किशोर राय	वर्कशॉप फिटर (बी)
232.	658137 जी	मा वा अ	सुंकरा राजेश्वर राव	वर्कशॉप फिटर (बी)
233.	657319 एफ	वा अ	विजय पाल सिंह वर्मा	वर्कशॉप फिटर (बी)
234.	657867 एच	वा अ	करुणा कान्त बर्मन	वर्कशॉप फिटर (सी)
235.	657335 एच	मा वा अ	जनार्दन प्रसाद पान्डेय	वर्कशॉप फिटर (सी)

क.सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	ट्रेड
236.	644057 के	मा वा अ	रणवीर सिंह हुड्डा	वर्कशॉप फिटर (एम)
237.	658023 एन	मा वा अ	उमेश चन्द शर्मा	वर्कशॉप फिटर (एम)
238.	643644 एल	मा वा अ	तुलसीधरन पिल्लै टी	वर्कशॉप फिटर (एम)
239.	657184 टी	मा वा अ	जहरुल इस्लाम	वर्कशॉप फिटर (एम)

[फा. सं. वा से मु/सी 40254/1/1/पीए (सीपीसी)]

अमित अनेजा, ए वी एम कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th August, 2012

**No. 15(E) dated 15th August, 2012.**—The undermentioned MWOs and WOs are granted Honorary Commission in the rank of Flying Officer with effect from 15 August, 2012 on occasion of Independence Day under para 344 of Regulations for the Air Force :—

SI No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
1.	646988-G	MWO	DAVENDER SINGH CHHIKARA	ACH GD
2.	646763-K	MWO	SUBHASH CHAND KHANNA	ACH GD
3.	644204-N	MWO	OM PARKASH DIKSHIT	ACH GD
4.	646055-T	MWO	KASHINATH MURLIDHAR SONAWANE	ACH GD
5.	619633-T	MWO	BHOGEN德拉 JHA	ACH GD
6.	644946-N	MWO	VIDYA NANDAN SINGH	ACH GD
7.	646566-N	MWO	RAM DULAR SINGH	ACH GD
8.	646454-N	MWO	JAGDISH CHANDER SHARMA	ACH GD
9.	642115-K	MWO	INDRA DEO PRASAD YADAV	ACH GD
10.	620190-F	MWO	NARENDRA KUMAR VERMA	ADSO
11.	619660-N	MWO	SURINDAR PAL SINGH	ADSO
12.	619508-F	MWO	SHARMA RADHE SHYAM G	ADSO
13.	619906-B	MWO	SAMARATH SINGH	ADSO
14.	657072-T	MWO	JAG JIWAN RAM YADAVA	AF FIT
15.	642795-B	MWO	VIJAY KUMAR GUPTA	AF FIT
16.	644649-F	MWO	SHIVA SHANKER THAKUR	AF FIT

SI No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
17	643401-T	MWO	GIRIJA PRASAD BIND	AF FIT
18.	644667-A	MWO	ASHOK KUMAR MISHRA	AF FIT
19.	643386-F	MWO	BAHADUR RAM	AF FIT
20.	643062-L	MWO	RAM KRISHAN SINGH	AF FIT
21.	657085-B	MWO	RAMESCHANDRA SAHA	AF FIT
22.	657038-B	MWO	SHEO PUJAN RAM	AF FIT
23.	643336-L	MWO	PURNA CHANDRA MANDAL	AF FIT
24.	643040-K	MWO	UMASHANKAR SINGH	AF FIT
25.	644669-N	MWO	SHIV SAGAR LAL	AF FIT
26.	657367-F	MWO	VIJAY PAL SINGH	AF FIT
27.	644248-S	MWO	RAMA SHANKAR SINGH	AF FIT
28.	643789-F	MWO	RAMAJEE PRASAD	AF FIT
29.	657924-N	MWO	KIRODI SINGH TOMOR	AF FIT
30.	644637-S	MWO	RAM KANWAR SAROHA	AF FIT
31.	657344-G	MWO	SATYA NARAYAN SINGH	AF FIT
32.	644200-H	WO	SURINDER SINGH SAGGU	AF FIT
33.	633175-T	MWO	SATYAVIR SINGH	AFSO
34.	631606-R	MWO	ASHOK KUMAR SHARMA	AFSO
35.	633687-K	MWO	PRASIDDH NATH YADAV	AFSO
36.	632473-N	MWO	SWARAN SINGH	AFSO
37.	633653-A	WO	RAM ASREY	AFSO
38.	633802-S	WO	KARAM JIT KUMAR	AFSO
39.	633165-F	WO	MD SHAHABUDDIN	AFSO
40.	619265-F	WO	SUDARSHAN SINGH	AFSO



SI No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
41.	632293-S	WO	RAM NARESH VERMA	AFSO
42.	646546-F	MWO	GANESH BISWAS	CAT ASST
43.	645680-G	MWO	MAHESH CHANDRA JAIN	CAT ASST
44.	646065-N	MWO	SHUBH NARAIN UPADHYAY	CLK ACCTS
45.	646866-L	MWO	RAJENDRA MAHARAJ	CLK ACCTS
46.	613138-L	MWO	SHEO NANDAN PRASAD	CLK ACCTS
47.	614164-A	MWO	NITYA NAND SINGH	CLK ACCTS
48.	645761-G	MWO	C K KESHAVA DAS	CLK ACCTS
49.	614729-A	MWO	KISHOR BABURAO CHAVHAN	CLK ACCTS
50.	614937-H	MWO	BHARAT SINGH YADAV	CLK ACCTS
51.	614730-H	MWO	SHIV SHANKER GUPTA	CLK ACCTS
52.	614158-L	MWO	RAJENDAR SINGH RATHORE	CLK GD
53.	614124-B	MWO	RANA UMAPATI SINGH	CLK GD
54.	646366-H	MWO	KEHARI LAL	CLK GD
55.	614187-T	MWO	VED PRAKASH YADAV	CLK GD
56.	613036-G	MWO	JAY KUMAR PRASAD	CLK GD
57.	613948-H	MWO	JAWAHAR LAL	CLK GD
58.	646717-B	MWO	HIRA LAL	CLK GD
59.	646397-H	MWO	SURESH SINGH	CLK GD
60.	645319-N	MWO	BRIJ BHUSHAN	CLK GD
61.	646473-G	MWO	SMAI SINGH	CLK GD
62.	645711-N	MWO	BHAGIRATH MAL	CLK GD
63.	646537-G	MWO	LALLU PANDEY	CLK GD
64.	613574-R	MWO	AMBRISH KUMAR SHUKLA	CLK GD

Sl No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
65.	614508-K	MWO	ALI ASGAR ANSARI	CLK GD
66.	646716-G	MWO	ABDUL WAHID	CLK GD
67.	614511-K	MWO	RAMESH CHANDRA MISRA	CLK GD
68.	646141-L	MWO	KULWANT SINGH	CLK GD
69.	646713-S	MWO	MAHATAM YADAV	CLK GD
70.	646605-B	MWO	BHANWAR SINGH RATHORE	CRYPTO
71.	633565-R	MWO	LAL SINGH YADAV	CRYPTO
72.	632975-K	MWO	HAR DAYAL	CRYPTO
73.	672374-N	MWO	TIRUVARUR SUNDARAM KRISHNAN	EDN INSTR
74.	609888-K	MWO	SUBAS CHANDRA APATA	ELECT FIT
75.	650151-K	MWO	VIKRAM SINGH VERMA	ELECT FIT
76.	650171-T	MWO	SUBASH CHANDRA PANDA	ELECT FIT
77.	609713-N	MWO	NITYA NAND SINGH	ELECT FIT
78.	609673-H	MWO	ASHOK KUMAR SHARMA	ELECT FIT
79.	609465-A	MWO	BALAM SINGH NEGI	ELECT FIT
80.	650057-R	MWO	MANOHAR LAL SHARMA	ELECT FIT
81.	643943-N	MWO	VIJAYKUMAR RAMCHANDRA KADUKAR	ENG FIT
82.	644858-H	MWO	SURESH CHAND AZAD	ENG FIT
83.	643123-B	MWO	RAM BHAGWAN SINGH	ENG FIT
84.	644289-L	MWO	SHARMA DEVRAJ OM PARKASH	ENG FIT
85.	643572-K	MWO	NARASINGH RATH	ENG FIT
86.	644839-R	MWO	SANWAT SINGH YADAV	ENG FIT
87.	644731-L	MWO	MAHESHA NAND SINGH	ENG FIT
88.	643173-R	MWO	RAMA SHANKER WEERODAI	ENG FIT

Sl No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
89.	644323-T	MWO	PREM SINGH DALAL	ENG FIT
90.	657968-S	MWO	RAGHUBIR PRASAD PAL	ENG FIT
91.	657383-H	MWO	UMESH PRASAD SINGH	ENG FIT
92.	642764-B	MWO	SUKHDEO PRASAD SINGH	ENG FIT
93.	644778-F	MWO	RAMBIR SINGH RAJORE	ENG FIT
94.	657380-T	WO	LALITESHWAR PRASAD SINGH	ENG FIT
95.	646679-K	MWO	BHAUSAHE PARAJEE RASAL	EQPT ASST
96.	646325-N	MWO	RAJ BIR SINGH DAHIYA	EQPT ASST
97.	614921-R	MWO	DILIP KUMAR DAS	EQPT ASST
98.	646723-L	MWO	KRISHNA PRATAP SINGH	EQPT ASST
99.	646433-H	MWO	SHEO KUMAR SINGH	EQPT ASST
100.	646681-N	MWO	PUSHPARAJAN D	EQPT ASST
101.	613735-T	MWO	YESHPAL SINGH	EQPT ASST
102.	613731-N	MWO	JAI PAL SINGH PUNDIR	EQPT ASST
103.	613115-N	MWO	SUDAMA PRASAD	EQPT ASST
104.	614752-K	MWO	S JAYAPRAKASHAN	EQPT ASST
105.	613432-L	MWO	CHANDRA SHEKHAR	EQPT ASST
106.	644938-L	MWO	JITENDRA KUMAR SHARMA	EQPT ASST
107.	645765-L	MWO	CHINTA RAVI	EQPT ASST
108.	646541-B	MWO	BIRAJ KUMAR PAL	EQPT ASST
109.	645953-K	MWO	GIRIJESH PANDEY	EQPT ASST
110.	614315-K	WO	LALLAN SINGH	EQPT ASST
111.	645354-K	WO	UGAM SINGH PANWAR	EQPT ASST
112.	614364-G	WO	RAM PARIKHAN SINGH	EQPT ASST

Sl No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
113.	614415-B	WO	KALI KANT SINGH	EQPT ASST
114.	645821-A	WO	JOHN GEORGE	EQPT ASST
115.	645933-A	WO	RAM BALAK PRASAD	EQPT ASST
116.	645599-R	WO	VIJAY KUMAR	EQPT ASST
117.	644842-R	MWO	DHARAM VIR TYAGI	FLT ENG
118.	657952-F	MWO	DEVENDR KUMAR SHARMA	FLT ENG
119.	642807-S	MWO	R SUBRAMANIAN	FLT GUN
120.	642824-S	MWO	CHATHRI MOHAN RAO	FLT GUN
121.	646570-K	MWO	SHRI RAM KURIL	GTI
122.	646247-B	MWO	GUNDREDDY BHADRI REDDY	GTI
123.	645781-R	MWO	SUSIL KUMAR TIWARY	GTI
124.	614052-A	MWO	MOHAN SINGH SODHI	GTI
125.	618609-B	MWO	SATYA NARAYAN SINGH	IAF(P)
126.	620229-B	MWO	RAJMAL SINGH LATHER	IAF(P)
127.	618841-R	MWO	RAM SURANJAN SINGH	IAF (P)
128.	619490-L	MWO	HARJINDER SINGH	IAF (P)
129.	618696-F	WO	NAGENDRA NATH SINGH	IAF (P)
130.	619102-R	MWO	VIRENDRA SINGH	IAF (P)
131.	619387-T	MWO	SANTOSH KUMAR RATHORE	IAF (P)
132.	619975-H	WO	CHERATH CALATHIL LOHITHAKSHAN	IAF (P)
133.	617932-T	WO	RAM PUJAN SINGH	IAF (P)
134.	609943-B	MWO	MURALEEDHARAN P K	INST FIT
135.	609757-S	MWO	ANIL KUMAR SRIVASTAVA	INST FIT
136.	609686-L	MWO	JAGDISH CHAND THAKUR	INST FIT

SI No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
137.	650101-S	MWO	KRISHNA PILLAI MOHANAN PILLAI	INST FIT
138.	609346-R	MWO	BHOLA PRASAD SINGH	INST FIT
139.	650161-F	MWO	PARMAL SINGH ARYA	INST FIT
140.	609272-A	MWO	KIDAR SINGH MALIK	INST FIT
141.	650160-H	MWO	DHARMBIR SINGH BHATI	INST FIT
142.	655248-S	MWO	JOB PALAKKUNNEL AUGUSTINE	MED ASST
143.	655159-R	MWO	ASGER ALI MALWAN	MED ASST
144.	609850-R	WO	BACHAN SINGH	MED ASST
145.	633929-N	MWO	PRABHAT CHANDRA KAR	MET ASST
146.	632415-T	MWO	SUKUMAR SAMANTA	MET ASST
147.	633705-N	MWO	RAMDIP PRASAD DADPURI	MET ASST
148.	618014-T	MWO	KAPIL DEO ROY	MTD
149.	620527-H	MWO	RATAN SARKAR	MTD
150.	620035-G	MWO	PREM SINGH DAHIYA	MTD
151.	619050-B	MWO	RAM BHAJAN SINGH VERMA	MTD
152.	620177-K	MWO	RAMESH PRASAD VERMA	MTD
153.	619839-B	MWO	GIRRAJ SINGH	MTD
154.	619026-S	MWO	RAJENDRA BAHADUR SINGH	MTD
155.	619213-T	MWO	KRUPASINDHU KHUNTIA	MTD
156.	618977-K	MWO	SUDHAKARAN T	MTD
157.	620216-T	WO	KALU RAM CHOYAL	MTD
158.	618956-F	WO	NARENDRA PRATAP SINGH	MTD
159.	619580-K	MWO	SHYAM BAHADUR SINGH	MTD
160.	617610-T	MWO	SATYENDRA KUMAR	MTD

Sl No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
161.	619535-T	MWO	GOVINDAPANICKER SOMARAJAN NAIR	MTD
162.	618996-B	MWO	KISHORE KUMAR SAHA	MTD
163.	617142-L	MWO	SATYENDRA KUMAR GHOSH	MTD
164.	619995-S	WO	MOTILAL	MTD
165.	628954-A	WO	J WILSON	MUSN
166.	621115-A	MWO	MADAN SINGH RANA	MUSN
167.	657153-T	MWO	NITYANANDA PRADHAN	PHOTO FIT
168.	642877-T	MWO	RAM LAKHAN	PHOTO FIT
169.	657154-R	WO	MAHENDER PAL SINGH	PHOTO FIT
170.	645863-L	MWO	AKSHAIBAR PRASAD OJHA	PJI
171.	618125-B	MWO	VENUGOPAL M C	RAD FIT
172.	618741-B	MWO	RAJESH PRAKASH SRIVASTAVA	RAD FIT
173.	618604-A	MWO	VIR SINGH	RAD FIT
174.	619893-L	MWO	YOGESHWAR DAYAL TYAGI	RAD FIT
175.	619668-F	MWO	SHRI KRISHAN SHARMA	RAD FIT
176.	618602-H	MWO	MANBAR SINGH RAWAT	RAD FIT
177.	619468-T	MWO	MADANPAL SINGH PAWAR	RAD FIT
178.	618740-G	MWO	LALAN PRASAD	RAD FIT
179.	632589-T	MWO	UDAY PRASAD GUPTA	RDO FIT
180.	633582-R	MWO	UDAIBIR SINGH MALIK	RDO FIT
181.	632357-S	MWO	BHARATH SINGH	RDO FIT
182.	631240-F	MWO	JAGDISH PRASAD DHOUNDIYAL	RDO FIT
183.	632977-B	MWO	KRISHNA DUTT TEWARI	RDO FIT
184.	633699-S	MWO	MOHAN LAL GULATI	RDO FIT

SI No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
185.	633647-L	MWO	RAJ MANI YADAVA	RDO FIT
186.	631519-G	MWO	BAITULLAH KHAN	RDO FIT
187.	633637-S	MWO	RAGHABA SANGRAMA SINGH	RDO FIT
188.	632930-K	MWO	DHARAM PAL SINGH	RDO FIT
189.	633820-N	MWO	RAM BACHAN RAM	RDO FIT
190.	632946-B	MWO	MAHENDRA PRATAP SINGH	RDO FIT
191.	633452-T	MWO	SURESH KUMAR	RDO FIT
192.	632563-L	MWO	DINESH KUMAR GUPTA	RDO FIT
193.	631787-A	MWO	GYANENDRA SINGH	RDO FIT
194.	633256-T	MWO	GULAB CHAND RAM	RDO FIT
195.	632581-H	MWO	SHRI KANT SINGH	RDO FIT
196.	633834-N	MWO	VED PAL SINGH	RDO FIT
197.	633448-B	MWO	KRISHNA PRAKASH	RDO FIT
198.	632708-L	MWO	UMA SHANKER SINGH	RDO TECH
199.	632633-A	MWO	RAJKUMAR TIKENDRAJIT SINGH	RDO TECH
200.	632983-L	MWO	MAHABIR SINGH VERMA	RDO TECH
201.	633589-K	MWO	SURENDER SINGH THAKRAN	RDO TECH
202.	632286-L	MWO	LEKH RAM BANSAL	RDO TECH
203.	633038-S	MWO	LAURACHHIYA H K P	RDO TECH
204.	633187-G	MWO	GAJENDRA SINGH	RDO TECH
205.	633101-L	MWO	BAMESHWAR SINGH	RDO TECH
206.	633192-T	MWO	RAJINDER KUMAR JAURA	RDO TECH
207.	644873-R	MWO	CHANAN SINGH SIDHU	SEW
208.	658009-B	MWO	ASHOK KUMAR TEWARI	SEW

Sl No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
209.	658005-S	MWO	AJIT SINGH	SEW
210.	657179-G	MWO	MOHAN SINGH BAGHEL	SEW
211.	643622-K	WO	K PREMNATH	SEW
212.	644039-N	WO	MUNSHILAL RAMMILAN PASI	SEW
213.	634213-B	MWO	SURESH KUMAR RATHEE	TELST RTO
214.	633082-L	MWO	TARA CHAND GERA	TELST RTO
215.	632806-L	WO	SARAYU PRASAD SINGH	TELST RTO
216.	631396-H	MWO	DEO NARAYAN LAL	TELST RTO
217.	632874-A	WO	KAPIL DEO PRASAD	TELST RTO
218.	632055-G	MWO	MOHD ZAMIR AHMAD	TELST RTO
219.	632809-A	WO	PARAMA NAND SINGH	TELST RTO
220.	643745-A	MWO	KESHAV PRASAD YADAV	WPN FIT
221.	657284-L	MWO	SHIW CHANDRA SINGH	WPN FIT
222.	641162-B	MWO	GURNAM SINGH MINHAS	WPN FIT
223.	657553-K	MWO	MOHD FAHIM SIDDIQUI	WPN FIT
224.	657264-B	MWO	BALDEV SINGH	WPN FIT
225.	657014-F	MWO	YASHPAL	WPN FIT
226.	641504-T	MWO	SHANKAR SARAN ROY	WPN FIT
227.	644554-F	MWO	GANGASAGAR YADAV	WPN FIT
228.	642546-A	MWO	IQBAL BAHADUR SINGH	WPN FIT
229.	642746-G	MWO	BRAJ BHUSHAN SINGH	WPN FIT
230.	642981-H	WO	SHIVJI DUBEY	WPN FIT
231.	641241-K	MWO	NAWAL KISHOR ROY	WS FIT(B)
232.	658137-G	MWO	SUNKARA RAJESWARA RAO	WS FIT(B)



Sl No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
233.	657319-F	WO	VIJAY PAL SINGH VERMA	WS FIT(B)
234.	657867-H	WO	KARUNA KANTA BARMAN	WS FIT(C)
235.	657335-H	MWO	JANARDAN PRASAD PANDEY	WS FIT(C)
236.	644057-K	MWO	RANVIR SINGH HOODA	WS FIT(M)
237.	658023-N	MWO	UMESH CHAND SHARMA	WS FIT(M)
238.	643644-L	MWO	THULASEEDHARAN PILLAI T	WS FIT(M)
239.	657184-T	MWO	JA HARUL ISLAM	WS FIT(M)

[F. No. Air HQ/C 40254/1/1/PA (CPC)]

AMIT ANEJA, AVM Air Officer-in-charge Personnel

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2012

सं. 16(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2012.—स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर वायु सेना विनियमावली के पैरा 345 के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति सूची में निम्नलिखित सेवा निवृत्त मास्टर वारंट अफसरों को 15 अगस्त, 2012 से ऑनरेरी फ्लाईंग अफसर रैंक प्रदान किया जाता है :—

क्र. सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम एवं प्राक्षर	ट्रेड
1	609837 ए	भूतपूर्व—मा वा अ	राजेन्द्र	इलेक्ट फिटर
2	645798 एफ	भूतपूर्व—मा वा अ	विश्वनाथन गणेश	क्लर्क जीडी
3	614792 एच	भूतपूर्व—मा वा अ	गोबर्धन आइच	क्लर्क एकाउंट्स
4	644157 बी	भूतपूर्व—मा वा अ	गया प्रसाद अग्रहरी	विपन फिटर

[फा. सं. वा से मु/सी 40254/1/1/पीए (सीपीसी)]

अमित अनेजा, ए वी एम कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

3027 GI/12-76

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th August, 2012

**No. 16(E) dated 15th August, 2012.**—The undermentioned retired MWOs are granted the Honorary rank of Flying Officer with effect from 15 August, 2012 on occasion of Independence Day under para 345 of Regulations for the Air Force :—

Sl. No.	Service No.	Rank	Name & Initials	Trade
1.	609837-A	Ex-MWO	RAJENDRA	ELECT FIT
2.	645798-F	Ex-MWO	VISHWANATHAN GANESH	CLK GD
3.	614792-H	Ex-MWO	GOBARDHAN AICH	CLK ACCTS
4.	644157-B	Ex-MWO	GAYA PRASAD AGRAHARY	WPN FIT

[F. No. Air HQ/C 40254/1/1/PA (CPC)]

AMIT ANEJA, AVM Air Officer-in-charge Personnel

( भारतीय नौसेना )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 2012

सं. 17(अ) दिनांक 15 अगस्त, 2012.—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

भारतीय नौसेनास्थायी काडरविशेष ड्यूटी सूची

निम्नलिखित मास्टर चीफ पेटी अफसरों को विशेष ड्यूटी सूची पर 15 अगस्त 2012 से अवैतनिक कमीशन प्रदान किया जाता है।

अवैतनिक लेफ्टिनेंट (विशेष ड्यूटी) के पद पर

क्रमांक	नाम	रैंक	नम्बर
1	चन्द्र देव राम एन. एम	एमसीपीओ I सी डी I	143003 -एच
2	राजेश कुमार	एमसीपीओ I जी आइ एस	146868-टी
3	मोहन सिंह	एमसीपीओ I यु सी I	142973-आर
4	हरीशचन्द्र	एमसीपीओ I यु सी I	142442-एच
5	सुर्यभान सिंह	एमसीपीओ रायटर I	143555-एन

6	शिव कुमार	एमएससीपीओ I	143554-के
7	कुवर सिंह बिष्ट	एमएससीपीओ I	108388-एन
8	रविन्द्र सिंह	एमएससीपीओ I	108415-जेड
9	फहीम उल्ला खान	एमएससीपीओ I	142965- वाई
10	अरविन्द कुमार	एमसीए (एएच) I	108261-जेड
11	रमेश चन्द मेहता	एमसीए (मेट) I	142591- वाई
12	बलबीर चन्द	एमसी मेक (एएल) I	108451-एफ
13	जगत सिंह	एमसीपीओ एएफ I	142974-टी
14	जेएस बोहरा	एमसी ईएलए I	143183-टी
15	मलकीत सिंह	एमसीपीओ एएफ I	143175-जेड
16	अभय नाथ झा	एमसीपीओ एएफ I	143048-के
17	प्रेम सिंह बिष्ट	एमसी ईएलए I	108524- वाई
18	अजीत सिंह सैनी	एमसीपीओआर एसपीएल I	143439- वाई
19	मोहिन्द्र पाल सिंह	एमसीपीओआरटेल I	108358s-डब्ल्यू
20	गिन्दर सिंह	एमसीपीओआरटेल I	109160-टी
21	अशवनी कुमार	एमसी मेक I	163303- डब्ल्यू
22	ईश्वर एन डाखोरे	एमसी एमई I	113449-आर
23	कृष्ण कुमार पाठक	एमसी मेक I	142846-ए
24	आर एस एस कुशवाहा	एमसी ईएपी सी I	190766-के
25	स्वर्ण सिंह	एमसी मेक आर I	149437-एफ
26	अश्वनी के गुप्ता	एमसीईएआर I	186153-ए
27	विजय कुमार	एमसी मेक आर I	161139-ए
28	राम कुमार सिंह	एमसी ईएपी I	162438-बी
29	जदविर सिंह	एमसी ईएलपी I	108232-एच
30	टी आर आचार्यलु	एमसी ईएलपी I	144104-के
31	उमा रेडडी दयाकर	एमसी मेक पी I	146399-ए
32	राम पॉल खजुरिया	एमसीपीओ एम I	108418-एफ
33	कामेश्वर गिरि	एमसीपीओ एम I	142727-एफ
34	सुरेश कुमार राय	एमसीपीओ एम I	142866- वाई
35	भागवत सिंह यादव	एमसीपीओ एम I	142598-एन
36	तपस कुमार सिक्कर	एमसी एट आर्मस	160947-आर

### अवैतनिक लेफ्टिनेंट (विशेष ड्यूटी) के पद पर

क्रमांक	नाम	रैंक	नम्बर
1	एबी राम जे राम	एमसीपीओ II आर पी I	147502-एच
2	संसार चन्द	एमसीपीओ II आर पी I	147904- वाई

3	रनबीर सिंह	एमसीपीओ II आर पी I	148003- वाई
4	एस वी नागेन्द्रा कुमार	एमसीपीओ II व्हु ए I	113552-जेड
5	आजाद कुमार	एमसीपीओ II आर सी I	111632-के
6	दिनेश कुमार सिंह	एमसीपीओ II आर सी I	147915- वाई
7	केशर प्रसाद मिश्रा	एमसीपीओ II आर सी I	149934-के
8	भार सिंह	एमसीपीओ I यु सी I	110166-बी
9	जोय सी आई	एमसीपीओ I व्हु ए I	146187- डब्ल्यु
10	रेजि कुरियाकोस	एमसीपीओ I जी आई एस	114055-टी
11	एन के सोम	एमसीपीओ I व्हु ए I	108751-एन
12	रूड़ा राम यादव	एमएससीपीओ II	147348-एच
13	करतार सिंह यादव	एमसीपीओ रायटर I	110901-जेड
14	राजू जोर्ज	एमसीपीओ रायटर II	147377-जेड
15	नरेश कुमार तोमर	एमएससीपीओ I	108677- डब्ल्यु
16	किरण चन्द्र दास	एमसीपीओ रायटर I	109169-एन
17	धर्म प्रकाश	एमएससीपीओ I	146461-टी
18	राज सिंह	एमएससीपीओ I	143224-के
19	लाल बचन यादव	एमएससीपीओ I	110100-बी
20	राधाकृष्णन नायार के	एमसीपीओ सीके(ओ) II	145080-बी
21	रणजीत सिंह	एमसीपीओ सीके(एस) II	145052-आर
22	कंवर सिंह	एमसीपीओ सीके(एस) II	145038-एच
23	छोटे लाल पाल	एमसीपीओ टॉप II	145111-जेड
24	जितेन चक्रवर्ती	एमसीपीओ सीके(ओ) II	145094-के
25	हरिश च्	एमसीपीओ सीके(ओ) II	145165- वाई
26	दीपचन्द	एमसीपीओ एसटीडी II	145206-आर
27	राज सिंह	एमसीपीओ एसटीडी II	145207-टी
28	मन्ना प्रसाद	एमसीपीओ टॉप II	145258-एच
29	शेख मौला	एमसीपीओ एसटीडी I	145313-एच
30	राम कुमार	एमसीपीओ एसटीडी I	143765-आर
31	धर्मन्द्र सिंह (लम्बित)*	एमसी एए (डब्ल्यु) II	193044-एन
32	शिव शंकर सिंह	एमसी एए I	185213-आर
33	नरेश कुमार आजाद	एमसी एए II	191923-आर
34	प्रेम सिंह चौहान	एमसी मेक (एएल) I	112263- डब्ल्यु
35	दिनेश कुमार राठौर	एमसीपीओ एएफ II	147699-एफ
36	सत्यनाथन के ए	एमसी एए (डब्ल्यु) I	192088-आर
37	कीजूरीडतिल सुरेश	एमसीपीओ एएफ I	164842-टी
38	रामफल पुनिया	एमसीपीओआरटेल I	143443-एच

39	सुव्रता चक्रवर्ती	एमसीपीओआर एसपीएल I	142928-एन
40	दिनेशन कोत्लानांडी	एमसीपीओआर टेल II	111626- वाई
41	किशोरी लाल	एमसीपीओआर एसपीएल I	143207- वाई
42	जय प्रकाश	एमसी एमई II	149417-के
43	सुरेश बाबू एन	एमसी एमई II	113638- डब्ल्यु
44	राजेन्द्र सिंह	एमसी ईआरए I	185178-के
45	वेण्कट रमन गुप्ता जामि	एमसी ईआरए II	192776-बी
46	छायाकान्त सिंह	एमसी ईआरए I	192718- वाई
47	राम नारायण यादव	एमसी एमई I	149136- वाई
48	अशोक कुमार	एमसी मेक I	114128-एच
49	जसवन्त सिंह	एमसी एसडब्ल्युए I	192700-एफ
50	लेखराज सिंह	एमसी एमई I	142768-जेड
51	उदय शंकर उपाध्याय	एमसी मेक I	113900-आर
52	किशोर सिंह	एमसी मेक पी I	110124-एच
53	स्वपन कुमार प्रधान	एमसी ईएलपी I	147372-एन
54	बैरड बालकृष्ण नामदेव	एमसी ईएपी I	192381-एफ
55	पी एस बीष्ट	एमसी ईएलपी I	160314-ए
56	अब्दुल गफ्फार	एमसी मेक पी I	162203- डब्ल्यु
57	सूर्यभान सिंह	एमसीईएआर I	191490-एफ
58	आनन्द सिंह	एमसीपीओ एम II	110977- वाई
59	दिनेश पोखरीयाल	एमसीपीओ एम II	147700-एच
60	काशी नाथ यादव	एमसीपीओ एम I	143086- वाई
61	अमर सिंह चौहान	एमसीपीओ एम I	142801-जेड
62	ओम प्रकाश शर्मा	एमसीपीओ एम I	143038-एन
63	मगन चन्द कटोच	एमसीपीओ एम II	1479070-बी
64	रमेश चन्द राठौर	एमसीपीओ एम I	108964Y-वाई
65	उपेन्द्र प्रसाद सिंह	एमसीपीओ एम I	109130-जेड
66	यशवंत सिंह चौहान	एमसी एट आर्मस I	108853- डब्ल्यु
67	रुपा राम	एमसी एट आर्मस I	143679- डब्ल्यु
68	चन्दन सिंह	एमसीपीओ म्युस II	188050-एन
69	जहूर अहमद	एमसीपीओ म्युस II	188051-आर
70	सुदर्शनन बी	एमसीपीओ म्युस I	188037-एच
71	गोविन्द सिंह	एमसीपीओ म्युस I	188071-के

[ फा. सं. एच ए/2504/अगस्त 2012-ऑनरेरी कमीशन-अगस्त 2012 ]

ए. जी. थापलियाल, वाईस एडमिरल, कार्मिक अध्यक्ष

(INDIAN NAVY)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th August, 2012

**No. 17(E) dated 15 August, 2012.**—The President is pleased to make the following appointments :—

**INDIAN NAVY**  
**PERMANENT CADRE**  
**SPECIAL DUTIES LIST**

The following Master Chief Petty Officers are granted Honorary Commission on the Special Duties List on 15 Aug 2012:-

**TO BE HONORARY LIEUTENANT (SPECIAL DUTIES)**

<u>SL.</u>	<u>NAME</u>	<u>RANK</u>	<u>PNO</u>
1	CHANDRA DEO RAM, NM	MCPO I CD I	143003 H
2	RAJESH KUMAR	MCPO I GI (S)	146868 T
3	MOHAN SINGH	MCPO I UC I	142973 R
4	HARISH CHANDRA	MCPO I UC I	142442 H
5	SURYABHAN SINGH	MCPO WTR I	142355 N
6	SHIV KUMAR	MSCPO I	143554 K
7	KUNWAR SINGH BISHT	MSCPO I	108388 N
8	RAVINDER SINGH	MSCPO I	108415 Z
9	FAHIM ULLAH KHAN	MSCPO I	142965 Y
10	ARVIND KUMAR	MCA(AH) I	108261 Z
11	RAMESH CHAND MEHTA	MCA(MET) I	142591 Y
12	BALBIR CHAND	MC MECH(AL) I	108451 F
13	JAGAT SINGH	MCPO AF I	142974 T
14	JS BOHRA	MC ELA I	143183 T
15	MALKIT SINGH	MCPO AF I	143175 Z
16	ABHAY NATH JHA	MCPO AF I	143048 K
17	PREM SINGH BISHT	MC ELA I	108524 Y
18	AJIT SINGH SAINI	MCPORSPL I	143438 Y
19	MOHINDER PAUL SINGH	MCPORTEL I	108358 W
20	GINDER SINGH	MCPORTEL I	109160 T
21	ASHWANI KUMAR	MC MECH I	163303 W
22	ISHWAR N DAKHORE	MC ME I	113449 R

23	KRISHNA KUMAR PATHAK	MC MECH I	142846	A
24	RSS KUSHWAHA	MCEAP C I	190766	K
25	SWARN SINGH	MC MECH R I	149437	F
26	ASHWANI K GUPTA	MCEAR I	186153	A
27	VIJAY KUMAR	MC MECH R I	161139	A
28	RAM KUMAR SINGH	MC EAP I	162438	B
29	JADVIR SINGH	MC ELP I	108232	H
30	T RAMANUJ ACHARYULU	MC ELP I	144104	K
31	UMMA REDDY DAYAKAR	MC MECH P I	146399	A
32	RAM PAUL KHAJURIA	MCPO M I	108418	F
33	KAMESHWAR GIRI	MCPO M I	142727	F
34	SURESH KUMAR RAI	MCPO M I	142866	Y
35	BHAGWAT SINGH YADAV	MCPO M I	142598	N
36	TAPAS KUMAR SIKDER	MC AT ARMS I	160947	R

**TO BE HONORARY SUB LIEUTENANT (SPECIAL DUTIES)**

<u>SL</u>	<u>NAME</u>	<u>RANK</u>	<u>P.NO.</u>	
1	AB RAM J RAM	MCPO II RP I	147502	H
2	SANSAR CHAND	MCPO II RP I	147904	Y
3	RANBIR SINGH	MCPO II RP I	148003	Y
4	SV NAGENDRA KUMAR	MCPO II QA I	113552	Z
5	AZAD KUMAR	MCPO II RC I	111632	K
6	DINESH KUMAR SINGH	MCPO II RC I	147915	Y
7	KESHR PRASAD MISHRA	MCPO II RC I	149934	K
8	BHAR SINGH	MCPO I UC I	110166	B
9	JOY CI	MCPO I QA I	146187	W
10	REGI KURIAKOSE	MCPO I GI(S)	114055	T
11	NK SHOME	MCPO I QA I	108751	N
12	RURA RAM YADAV	MSCPO II	147348	H
13	KARTAR SINGH YADAV	MCPO WTR I	110901	Z
14	RAJU GEORGE	MCPO WTR II	147377	Z
15	NARESH KUMAR TOMAR	MSCPO I	108677	W
16	KIRAN CHANDRA DAS	MCPO WTR I	109169	N
17	DHARAM PRAKASH	MSCPO I	143461	Z
18	RAJ SINGH	MSCPO I	143224	K
19	LAL BACHAN YADAV	MSCPO I	110100	B
20	RADHAKRISHNAN NAIR K	MCPO CK(O) II	145080	B
21	RANJIT SINGH	MCPO CK(S) II	145052	R
22	KANWAR SINGH	MCPO CK(S) II	145038	H

23	CHHOTE LAL PAL	MCPO TOP II	145111	Z
24	JITEN CHAKRABORTY	MCPO CK(O) II	145094	K
25	HARISH CHANDRA	MCPO CK(O) II	145165	Y
26	DEEP CHAND	MCPO STD II	145206	R
27	RAJ SINGH	MCPO STD II	145207	T
28	MANNA PRASAD	MCPO TOP II	145258	H
29	SHAIK MOULA	MCPO STD I	145313	H
30	RAM KUMAR	MCPO STD I	143765	R
31	DHARMENDRA SINGH (Deferred)	MC AA(W) II	193044	N
32	S SHANKAR SINGH	MC AA I	185213	R
33	NARESH KUMAR AZAD	MC AA II	191923	R
34	PREM SINGH CHAUHAN	MC MECH(AL) I	112263	W
35	DINESH KUMAR RATHORE	MCPO AF II	147699	F
36	SATHYANATHAN KA	MC AA(W) I	192088	R
37	K SURESH	MCPO AF I	164842	T
38	RAM PHAL PUNIA	MCPORTEL I	143443	H
39	SUBROTA CHAKROBORTY	MCPORSPL I	142928	N
40	DINESAN KOLLANANDY	MCPORTEL II	111626	Y
41	KISHORI LAL	MCPORSPL I	143207	Y
42	JAI PRAKASH	MC ME II	149417	K
43	SURESH BABU N	MC ME II	113638	W
44	RAJENDRA SINGH	MC ERA I	185178	K
45	VENKATA RAMANA GUPTA JAMI	MC ERA II	192776	B
46	CHHAYA KANTA PATTANAİK	MC ERA I	192718	Y
47	RAM NARAIN YADAV	MC ME I	149136	Y
48	ASHOK KUMAR	MC MECH I	114128	H
49	JASWANT SINGH	MC SWA I	192700	F
50	LEKHRAJ SINGH	MC ME I	142768	Z
51	UDAI SHANKER UPADHYAY	MC MECH I	113900	R
52	KISHOR SINGH	MC MECH P I	110124	H
53	SWAPAN KUMAR PRADHAN	MC ELP I	147372	N
54	BERAD BALKRISNA NAMDEO	MC EAP I	192381	F
55	PS BISHT	MC ELP I	160314	A
56	ABDUL GAFFAR	MC MECH P I	162203	W
57	SURYA BHAN SINGH	MCEAR I	191490	F
58	ANAND SINGH	MCPO M II	110977	Y
59	DINESH POKHRIYAL	MCPO M II	147700	H
60	KASHI NATH YADAV	MCPO M I	143086	Y
61	AMAR SINGH CHAUHAN	MCPO M I	142801	Z
62	OM PRAKASH SHARMA	MCPO M I	143038	N
63	MAGAN CHAND KATOCH	MCPO M II	147907	B
64	RAMESH CHAND RATHORE	MCPO M I	108964	Y
65	UPENDRA PRASAD SINGH	MCPO M I	109130	Z



---

66	YASHWANT SINGH CHAUHAN	MC AT ARMS I	108853	W
67	ROOPA RAM	MC AT ARMS I	143679	W
68	CHANDAN SINGH	MCPO MUS II	188050	N
69	JAHOR AHMED	MCPO MUS II	188051	R
70	SUDARSANAN B	MCPO MUS I	188037	H
71	GOVIND SINGH	MCPO MUS I	188071	K

---

[F. No. HA/2504/Aug 2012-Hony Commission-Aug 2012]

A. G. THAPLIYAL, Vice Admiral Chief of Personnel